



MUNI ŚRĪCANDRA'S
KAHA-KOSU

(An Apabhrams'a Text of the 11th Century)

Edited by

Dr. H. L. Jain, M.A., LL.B., D.Litt.
Professor & Head of the Department
of Sanskrit, Pali & Prakrit,
University of Jabalpur.

General Editors :

Dr. P. L. Vaidya
Dr. A. N. Upadhye
Dr. H. C. Bhayani

PRAKRIT TEXT SOCIETY
AHMEDABAD-9.

Published by .
Dalsukh Malvania
Secretary,
Prakrit Text Society
Ahmedabad

Price Rs. 30/-

Available from .

1. Motilal Banarasidas,
Nepali Khapra, Post Box 75, Varanasi.
2. Chaukhamba Vidya Bhavan
Chawk, Varanasi
3. Gurjar Grantharatna Karyalay
Gandhi Road, Ahmedabad-1
4. Saraswati Pustak Bhandar
Ratanpole, Hathikhana, Ahmedabad-1
5. Munshiram Manoharlal
Nai Sarak, Delhi.

Printed by :
Amritlal Parwar
Singhai Printing Press
Jabalpur, M.P.

मुनि-सिरिचंद-विरइयड

कहकोसु

सम्पादक

डॉ. हीरालाल जैन, M.A., LL.B., D Litt.,
संस्कृत-पालि-प्राकृत आचार्य व विभागाध्यक्ष, जबलपुर विश्वविद्यालय
जबलपुर, म. प्र.

प्राकृत ग्रन्थ परिषद्

अहमदाबाद

प्रकाशक—

दलसुख मालवणिया,
सचिव, प्राकृत ग्रंथ परिषद्,
अहमदाबाद

मूल्य रु. ३०

— प्राप्तिस्थान —

१. मोतीलाल बनारसीदास
नेपाली खपरा, पो. वा ७५, वाराणसी.
२. चौखम्बा विद्याभवन
चौक, वाराणसी
३. गुर्जर ग्रंथरत्न कार्यालय
गांधी रोड, अहमदाबाद-१
४. नरस्वती पुस्तक भण्डार
रतनपोल, हाथीखाना, अहमदाबाद-१
५. सुंजीराम मनोहरलाल
नई सड़क, दिल्ली

मुद्रक—

अमृतलाल परवार
सिधई प्रिन्टिंग प्रेस,
मदाताल, जबलपुर, म. प्र.

मुनिश्रीचन्द्र विरचित कथाकोश की

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
१. आदर्श प्रति के प्रथम पृष्ठ का छायाचित्र	
2. General Editorial	1-12
३. प्रस्तावना	१-११४
(१) कथाकोश की आदर्श प्रति	१
(२) कथाकोश के कडवकों की सख्या	२
(३) कथाकोश के कर्ता	३
(४) कथाकोश का रचना-काल	४
(५) कथाकोशकार के आश्रयदाता	५
(६) 'न' ओर 'ण' के प्रयोग का विवेचन	६
(७) कथाकोशके विषय का आधार	९
(८) कथाकोश में उद्धृत भगवती आराधना (मूलारालना) की गाथाये पाठान्तरो सहित	११
(९) कथाकोश में उद्धृत अन्य प्राकृत गाथायें	१४
(१०) कथाकोश में उद्धृत सस्कृत पद्य	१६
(११) कथाओं की भग० आराधना के गाथांकों सहित, हरिषेण कृत कथाकोशसे तुलनात्मक सारिणी	१९
(१२) कथा-सूची-५३ संधियों में वर्णित कथाओं का कडवकों के क्रमानुसार सक्षिप्त परिचय	२७-११४
४. कथाकोश का मूल अपभ्रंश पाठ	१-५३७
५. ग्रंथकर्तुः प्रशस्तिः	५३८

General Editorial

The text of the *Kathākośa*¹ (in Apabhramśa) by Śrīcandra is edited here, for the first time, by Professor Dr. H. L. Jain from a single Ms., the only one known to us so far. It is a paper Ms. measuring 37 by 14.5 cms and containing 173 folios written on both the sides, the first page of the first folio being blank. There are some 15 lines on a page and each line contains about 55 to 60 letters. It is written in uniform Devanāgarī hand with black ink. The number of Kadavakas on a few opening pages are rubbed with ink chalk. The paper has fatally absorbed the ink, and the written portion of most of the folios (excepting the last 40 or so which are intact) is brittle and broken too here and there. Dr. H. L. JAIN has now got this Ms. duly repaired with transparent cloth pasted on both sides of the folios in the National Archives, Delhi. Prior to this repair, the MS. had to be very carefully used lest its folios might crumble, while they were being handled.

According to the concluding *lekhaka-prāśasti* in prose, this Ms. was copied at Surat in Samvat 1783 (=A.D. 1726). It was prepared at the instance of Devendrakīrtī, the successor of Dharmacandra, the Bhattāraka of Karanja (*Kāryaramjaka-pura-vāsi-bhattāraka*), of Kundakundānvaya Balātkāragana, Sarasvatī-gaccha and Mūlasamgha. The cost of transcription was defrayed indirectly by the nun Pāsamatī (*āiykā-śrī-Pāsamatī-datta-villena*). It is interesting to note that the Bhattārakas of Karanja called themselves Malayakheda-simhāsanādhiśvara indicating thereby that they had some connection with the line of monks at Mānykhetā, modern Malakheda,² near Gulbarga, Mysore State.

This Ms. came in the hand of Dr. H. L. JAIN as early as 1923, through the kindness of Śrī Virasena Bhattāraka of Karanja, while he was engaged, during that summer vacation, in preparing a catalogue of Sanskrit and Prākṛit Mss. in the collections at Karanja (Dt. Akola, Maharashtra). Details about it were published in the *Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in the Central Provinces and Berar*, by R. B. HIRALAL, Nagpur 1926. The entry (p. 630) stands thus: 'No. 7063 Kathākośa. Author—Śrīcandra. Subject—Dharma. A collection of moral stories in Apabhramśa language. Owner—Balātkārgan Jain mandir at Karanja (Akolā district)'. In the Introduction (pp. 49-51), some observations on its contents, some extracts illustrating the author's use of Bamsastha, Samānikā and Duhaḍau metres and the genealogy of the author (based on his *prāśasti* extracted on pp. 725-27) were given. Śrīcandra having been a contemporary of Mūlarāja, and there being two kings of this name, it was conjectured that he lived at the time of one of these, 'very probably of the first' who reigned from A.D. 941-996.

Whatever information about Śricandra and his *Kathākośa* is subsequently published during the last forty years or so by various scholars is derived directly or indirectly only from this Ms.³ No other Ms. has come to light so far.

Lately another Apabhramśa work of Śricandra, namely, what is called *Ratnakaraṇḍa-sāstra*,⁴ but really the title being *Darśana-kathā-rayana-karaṇḍaya* (*Dkrk*) (=Darśana-kathā-ratna-karaṇḍaka), has come to light; and it is not published as yet. Five Mss. of it are reported to be in the Āmera Bhamdāra, Jaipur; and we get in that Granthasūci (pp. 164-5) the concluding *praśasti*. Śricandra's *praśasti* is in Sanskrit in the *Kathākośa* (*Kk*), but is in Apabhramśa in *Dkrk*. Both of these clearly show that it is the same Śricandra that is the author of both the works. The details are complimentary; and when they are put together, we learn a good deal about the monastic ancestry and contemporaries of Śricandra.

In the first part of the *Praśasti*, verses 1-10, Śricandra gives some details about the family with which the composition or ceremonious reading of his *Kk* was connected. In the country of Sūrastha (perhaps a back formation of Soratha, Sk Saurāstra), in the town of Anahillapura (mod. Anvad, 3 miles from Pattan in Gujrat), there was one Sajjana, of the Prāgvāta family, who was a legal advisor (*dharma-sihānasya goṣṭhikah*) of king Mūlarāja. He had a virtuous and generous son Kṛṣṇa by name whose sister was Jayantī and whose wife was Rānū. By his wife Rānū, Kṛṣṇa had three sons: Bījā(-pāla), Sabana-pāla and Sādhadeva, and four daughters, Sirī, Śrngārādevī, Sundū and Sokhū.⁵ Sundakā (i.e., Sundū) was very much devoted to Jīnadharmā. It is by the sons and daughters (*santānena*) of Kṛṣṇa this *Kk* was got (read and) explained for their spiritual benefit.

It has been pointed out by Dr. H. L. JAIN in his Hindi Introduction that the reading *nīdrānvaya*, in the pearly garland of which Kṛṣṇa was like a prominent jewel, is obscure and possibly stands for *Nīnānvaya* or *Nīnyānvaya*. *Nīnā* (originally from Śrīmāla or Bhīnna-māla) was a great ancestor of Vīmala who established the Vīmala-vasahī at Ābu. He was a contemporary of Vanarāja who, in admiration of the valour and intellectual gifts of his son Lahara, invited them both to Anahillavāda Pātana, on founding it in 745 A. D.;⁶ 'He was a Śrāvaka of Prāgvāta family. His portrait, along with those of seven others, is carved on a slab at Ābu Vāstupāla and Tejapāla too belonged to the Prāgvāta Anvaya. From the *Praśasti* it is clear that Sajjana also belonged to the Prāgvāta-vamśa and his family stayed in Pattan so it is natural that *Nīnā* was a common ancestor for all of them. It is interesting to note that one branch of *Nīnā*'s successors were of the Svetā-

mbara sect and another of the Digambara sect. Obviously these sects had congenial relations and the members of the same family were free to follow one Sampradāya or the other. Both of them worship the same Tirthankaras and utter the same Namaskāra mantra: the only difference was which contemporary Teacher they held in reverence.

Srīcandār's monastic ancestors, as well as their contemporaries, can be worked out, with the help of both the Praśastis (that of *Kk* in Sanskrit, verses II f.) and that of *Dkrk* in Apabhramśa which are quite supplementary in their details. In the Kundakundānvaya and Deśīgana, there was a great monk Śrīkīrti who was an embodiment of religion itself His successor was Śrutakīrti, a famous supporter of the Samgha, who was honoured by (Śrī-)Gāngeya. After him came Sahasrakīrti who was well-known for his merits, austerity and learning and who was honoured by various kings such as Gāngeya(deva), Bhojadeva etc.⁷ He had five pupils: Devakīrti, Vāsavamuṇi, Vīracandra, Udayakīrti and Subhacandra⁸ The first or the prominent pupil of this Vir(y)acandra is Srīcandra, the author of *Dkrk* and *Kk*.

Gāngeya and Bhojadeva are obviously the kings of those names from the Kalachuri dynasty of Dāhala and the Paramāra dynasty of Malwa According to the evidence available, they were not only contemporaries for some years but had also come into conflict with each other Probable period, namely, c. 1019-1038 and c. 1000-1055 are assigned respectively to Gāngeya and Bhoja,⁹ so roughly speaking Sahasrakīrti must have been alive between A. D. 1020-40 Our Srīcandra is a grandpupil of Sahasrakīrti. Sajjana was a contemporary of Mūlarāja of Anahillapura who is to be identified with Mūlarāja I (A. D. 942-994) of the Chaulukya dynasty of Gujarat¹⁰ Srīcandra refers not only to Sajjana's son Kṛṣṇa but also to his grand sons and grand daughters who are sufficiently grown up. It is at their request that he composed the *Kk* after grasping the work of a *pūrvācārya*, i. e., some earlier saint-author.

Srīcandra wrote his *Dkrk* in the town of Srīmāla when king Karṇa was ruling, in the year 1123 of the Vikrama Samvat, i. e., A. D. 1066. Srīmāla is the same as Bhīnāmāla, mod. Bhīnmāl¹¹ in Jodhpur. Two contemporary rulers of the name Karṇa are known 1) One the son of Gāngeyadeva Kalachuri¹² who made alliance with Chaulukya Bhīma I of Gujarat against Bhoja, the learned king of Malwa, about A. D. 1055 This Karṇa came to the throne some time between A. D. 1034 and 1042 and reigned upto 1073 2) Bhīma of the Chaulukya family of Gujarat annexed Bhīmal and threw its ruler, the Paramāra Kṛṣṇarāja into prison some time c. 1060 A. D. He handed the sovereignty to Karṇa in c. A. D. 1064.¹³ Karṇa was succeeded by Jayasīma Siddharāja in c. A. D. 1094. Possibly Karṇa's rule extended over Bhīmal, annexed

by his father, for some years It is to this second Karna, the son of Bhīma, that Śrīcandra is referring This Karna is mentioned by Devendra in his commentary on the *Uttarādhyayana* in Samvat 1141, i.e., c. A.D 1084¹⁴ and it is during his reign that a palm-leaf Ms. of the *Yogadrstīsamuccaya* was prepared at Pattan in Samvat 1146, i. e. A.D 1089¹⁵

The monastic ancestors of Śrīcandra and Śrīcandra himself had certain rulers and dignitaries as their contemporaries, and they can be shown in a tabular form.

1	Śrīkīrti	Mūlārāja (c 942-994)	Sajjana
2	Śrutakīrti	Honoured by Gāṅgeya (c. 1019--38)	
3.	Sahasrakīrti (c. 1020--40)	Honoured by Gāṅgeya (c. 1019--38) and Bhojadeva (c. 1000--1055)	
			Krsna
4.	Vīryacandra		
5.	Śrīcandra	contemporary of Karna (c. 1064--94)	Three sons and four daughters of Krsna

In the colophons of *Dkrk* Śrīcandra prefixes his name with Paṇḍita upto 16 Samdhis, but from 17 to 22 Samdhis he has a suffix Muni or Munīndra. In the *Prasasti* he describes himself as Budha or Paṇḍita. At the very beginning of *Kk*, however, he speaks of himself as Muni, and throughout the work he calls himself a Muni and Sūri (in the *Prasasti*) That means he accepted *mūni-dīkṣā* or renunciation after he wrote a major portion of *Dkrk*

The *Dkrk* was completed at Śrīmāla or Bhīmal in 1066 A D when Karna was ruling, and then, after Śrīcandra became a monk, he undertook and completed the *Kk*, a few years latter, for the family of Sajjana (especially his sons and daughters, among the latter Sundū being highly devoted to Jīnadharma). The Prāgvāta family to which Sajjana belonged had close ties with both Śrīmāla and Pattan, so as a monk Śrīcandra came to Pattan. The date of the composition of *Kk* can be assigned to the beginning of the last quarter of the 11th century A D., say roughly about or a little after 1070 A D as Dr H L JAIN puts it. This suits very well with other dates known and recorded above.

Among the two works of Śrīcandra we do not know much about the contents of the *Dkrk* It has got 21 Samdhis, and it seems that it contains tales connected with Samyag-darśana, something like the forerunner of the *Samyaktvakaumudī* The details from its *Prasasti* are already discussed above.

The next work of Śrīcandra is the *Kahakosu* or the *Kathakośa* edited here. It has in all 53 Samdhī, and the total number of Kadavakas comes to 1025. The number of Kadavakas in different Samdhīs varies from 10 (in Samdhī 31) to 32 (in Samdhī 41). It is written in Apabhramśa with different metres and interspersed with quotations in Sanskrit and Prākṛit. The number of Samdhīs does not correspond to the number of stories and the latter are often vivisected by the Samdhī divison, for instance the 12th Samdhī is completed just in the middle of the story that is being narrated.

In the opening Kadavakas Śrīcandra broods over the fleeting character of worldly life and its attractions. He modestly says that he does not know much, but it is his deep devotion towards religion that induced him to undertake the difficult task of composing *Kathakośa* on which saint-poets of yore had tried their hand. He announces, almost in the manner of Purānas, that the *Kathakośa* has descended from Jinendra, i.e. Mahāvīra to Ganadharas, and through Ganadhara to Sreṅka; Sivakoti-munīndra narrated it in the present age, the *pañcama-kāla*, and from Teacher to Teacher (*guru-kramena*) it has reached the author who is narrating it here.

The Gāthās of Mūlārādhana, the study of which paves the path of heaven and liberation, contains so many nice and interesting stories. Śrīcandra, as he puts it, would first interpret the Gāthās and then give the stories connected with them. Without the proper context nothing would be intelligible. It is necessary, therefore, that the stories should be given only after the Gāthās are explained. A painting presupposes a wall; so also the narration of a story must be preceded by an understanding of the Gāthā on which the story is based. Taking that line (*Sivakoti-muṇim* etc) literally, one would be tempted to suggest that some *Kathakośa* was composed by Sivakoti, but after reading the whole Kadavaka together, one would not be justified in attributing any work like that to Sivakoti. The knowledge of a fund of tales was possessed by Sivakoti who consequently has referred to many stories in the Gāthās of Mūlārādhana, or as it is popularly called, the *Bhagavati Ārādhana*¹⁰. To begin with Śrīcandra explains its first two Gāthās; and on the second he gives the tales of Bharata etc. in Apabhramśa. He picks up only those Gāthās on which the stories are to be illustrated, explains their literal meaning in Sanskrit, and then gives short and long tales in Apabhramśa. Possibly he complains against his predecessor/s that he/they did not give these Gāthās, but narrated only the stories in a way his is a commendable procedure, but he has not stuck to it upto the end of his work. As far as Samdhīs 43, the Gāthās of Mūlārādhana are given and explained at the beginning of every story, but in the remain-

ing 10 Samdhis they are not quoted This will be clear from the Table given by Dr H L JAIN in his Hindi Introduction.

Sricandra tells us, at the beginning of his work, that the *Kathakośa* was composed by many gifted saint poets in the past. Then in one of the verses in his Praśasti (No 19) he tells us that at the request of the pious (*bhavya*) he studied (lit understood) a work of an earlier Ācārya, and then composed neatly (*samyak*) this fine *Kathakośa*. This clearly indicates that he had a specific *Kathakośa* of an earlier Ācārya before him This is no other than the *Kathakośa* (which later on came to be labelled as (*Bṛhat-Kathakośa*) of Harisena who is called an ācārya in the concluding colophon Further, Sricandra's veiled protest against some predecessor/s of his who gave the tales without specifying the Gāthās of the *Mūlārādhānā* suits very well in the case of Harisena and his *Kathakośa*¹⁷ Lastly, Harisena composed his *Kathakośa* in Saka 853/ Samvat 989, i e, A.D 931--2, that is, nearly 140 years before Sricandra wrote his *Kk*. A comparative study of both those *Kathakośas* shows that Sricandra is writing with Harisena's work before him There is a remarkable agreement in the sequence of stories adopted by both of them¹⁸ Whenever the stories are common—and their number is pretty large—the basic contents are identical in both, even with common words and expressions. Harisena is more exhaustive in giving details about pre-births and after-births and sub-stories Almost in every case Sricandra's tales look like summaries of those given by Harisena. Sricandra omits, at times silently and at times with specific remarks, some of the stories found, according to the corresponding sequence in the *Kathakośa* of Harisena. Sricandra's *Kk* does not show stories Nos 73, 79, 83--4, 102--9, 123, 125 and 149 of Harisena¹⁹ With regard to No 73, Sricandra plainly says that Yaśodhara's tale is too well-known to be given (*atrārthe Yaśodhar ākhyānam kathyate, suprasiddhatvāt na līkṣyam*), and with regard to Nos. 83--4, he says that the stories of *Bhārata* and *Rāmāyaṇā* are endless Thus these stories were present in his source, otherwise such remarks become meaningless These tales are actually present in the *Kathakośa* of Harisena

There are a few other considerations which indicate that Sricandra might have used, in addition to the *Kk* of Harisena, some more sources including perhaps some commentaries on the *Bhagavatī Ārādhānā* From the *Kks* of Prabhācandra and Nemidatta,²⁰ it appears that some tales were connected with Gānā No 2 of the *Bhā -Ārādhānā*, but that Gāthā is passed over by Harisena. Sricandra, however, illustrates *uddjotana* (both *laukika* and *lohotara*) referred to in that Gāthā by the tales of *Bhārata* and *Jitāntru* for which Harisena has no counterparts Obviously Sricandra has some additional, earlier sources before him for these. Sricandra's

Kathākośa (ŚKk) and Harisena's *Kathākośa* (HKk) show important phonetic differences in some of the proper names; and these are impossible if ŚKk was solely indebted to HKk. For instance ŚKk has Jasabara, Vissam̐bhara, Doṇimamta, and Kuccavāra for which HKk has Yaśoratha, Viṣam̐dhara (No 5), Tonimam (No 54) and Kūpakāra (No 95,) respectively. Then we may compare some of the quotations found in HKk and ŚKk in different contexts. Namely, HKk 54. 17--18 and ŚKk 11 17, HKk 57. 518--9 and ŚKk 20 20; and HKk 143 37 (39), and ŚKk: śakyam eka-sahasreṇa etc. Some of these readings show wide differences which cannot be explained if Śricandra followed only Harisena. Some of them are major differences. With Śricandra all these are quotations, because they occur in the body of an Apabhramśa text, and if Śricandra took them from Harisena, he would not change them, because he is quoting them. Some of the verses are not correctly presented and till the original sources are detected, it is difficult to say who is correctly quoting them. The divergences may be explained thus. Both Śricandra and Harisena are indebted to a common source, so far as some quotations are concerned. Perhaps Śricandra quotes them as they are. Harisena, however, may have been required to retouch them, because some of them are to form a part of his running Sanskrit text and are not necessarily quotations. It is seen elsewhere²¹ that Amitagatī also rewrites in this manner some of the Sanskrit verses which stood as quotations in the Prākṛit *Dhammaparikkhā* used by him. There is at least one instance where Śricandra's quotation is nearer the original than that of Harisena: for instance, HKk 57. 531 and Śk 20 21. This quotation comes from the *Bha. Ārādhana* (No. 682, Sholapur ed) where the reading is *jo mado jīvo* and not *kuṇāi jo kālam*. It is a good indication, though not a conclusive evidence, because it is a Prākṛit quotation. To conclude, it is sufficiently clear that Śricandra has used HKk; and further, he appears to have used some additional sources, some of them possibly common with those of Harisena, in composing his Apabhramśa Kk.

Though the Ms. of ŚKk was known since 1923, no other Ms has been discovered in the last 40 years during which many new Apabhramśa works have come to light. Some years back, this Ms was kindly lent to me by Dr. HIRA LAL JAIN; and he allowed me to keep it with me as long as I wanted it. I wrote a paper on it.²² Further it proved of great value to me in my study of the *Bṛhat-Kathākośa* and its relation with the *Bha. Ārādhana*. The folios of this Ms were so brittle that I felt that this work should be published at an early date. There was no point in waiting for some other Ms any more. I urged, therefore, Dr. HIRALALJI to edit this from a single Ms. Any other younger scholar would not have had the confidence of editing it from only one Ms. Today though many

scholars are coming forth to discuss about Apabhramśa, very few are inclined to edit Apabhramśa texts many of which are still lying in Mss. The text presented by this Ms is quite good for all practical purposes. The *kk* of Harisena is already printed, and it is quite helpful in understanding *śkk*. Lastly, there could not have been a better choice than Dr. H. L. JAIN to edit this text in view of his vast experience of having edited a number of Apabhramśa works of different authors. We are grateful to him for giving us an excellent edition of the *śkk* despite limited Mss material at his disposal. The students of Apabhramśa literature, Jaina Kathās in particular and Indian folklore in general will ever remain indebted to him in this context.

As the text of *śkk* is edited from a single Ms., dated Samvat 1783, or A. D. 1726 and written in Surat (Gujarat), the editor had to face the problem²³ about *n* or *ṇ*, initial, medial and duplicate while presenting this text. This Ms obviously follows the orthographical tradition about *n* or *ṇ* prevalent in Western India and laid down in the Prakṛit Grammar of Hemacandra. Dr. HIRALALJI's observations²⁴, in this regard, may be broadly summarised here.

The works in Apabhramśa and those in Prakṛit, in general, show a good deal of irregularity in the use of *n* or *ṇ*. Expert opinion holds that cerebral sounds are not found in any other languages of the Indo-European family. In the earlier phases of Vedic language, its use is scarce but goes on increasing later. It is inferred, therefore, that it is due to the influence of languages of Nisāda, Drāvida people of India. Even the change of *ta*-class to *ṭa*-class in Sanskrit is restricted to some cases. But the cerebral sounds are more prevalent in MIA languages like Pāli and Prakṛits. It has not been possible to formulate precise rules about the use of *n* or *ṇ* in these languages. The old Mss of the Ardhamāgadhī canon show this uncertainty about *n* or *ṇ*²⁵ but the editors have followed the rules of Hemacandra in fixing their text. These very rules are generally followed in editing Jaina Prakṛit works²⁶. In other Prakṛit poems like the *Gāhāsattasāi*, *Setubandha*, *Gaudavaḥa*, *Līlāvāi*, *Kamsavaḥa* etc. the rule of the *Prākṛita-prakāśa* of Vararuci is followed and *n* is used for *ṇ* in all the positions.

It is rather lately that some Apabhramśa works have been critically edited and published; but for most of those editions more than one Ms. is used. Almost every editor has noted the irregularity in the use of *n* or *ṇ* in the Mss. Dr. H. JACOBI edited for the first time the *Bhavisattalahā* (Munich 1918) and *Sanatkumāracaritam* (Munich 1921). He formulated a rule for using *nn* or *ṇṇ* depending on the dental or cerebral nasal in the basic Sanskrit word. For instance, *kanyā* = *kannā* *karna* = *kanna*. In the Glossary of the latter, there are nearly 168 words with initial *n*, but it is only *ṇu* (= *ṇamu*), having *ṇ* initial, that occurs thrice or four times.

In the Glossary of the *Kumārapāla-pratibodha* (Hamburg 1928) edited by Dr L. ALSDORF there are nearly 150 words with initial *n*, but only two words with initial *n* namely, *naī* and *nhāna*. On the other hand, the situation is almost otherwise in his edition of the *Harwamsapurānu* (Hamburg 1936) its glossary records only *rr* and *nrva* with initial *n*, and all other words have initial *n*.

In the Introduction to the *Bhavisayattakahā* (Baroda 1923), Dr GUNE observes that the use of initial *n* and double *nn* is an Ardhamāgadhī speciality and Apabhramśa has nothing different about it. He holds the view that in Apabhramśa the use of *n* or *n* (in different positions) is irregular and optional; and it is futile to find a rule from the illustrations noted.

In the editions of the *Jasaharacaruu* (Karanja 1931) and *Mahāpurānu* (Bombay 1937 f) of Puspādanta brought out by Dr P. L. VAIDYA *n* is used every where without any exception. The same pattern is followed in the editions of the *Paramātma-prakāśa & Yogasāra* (ed. A.N. UPADHYE Bombay 1937) and the *Paumacaruu* of Svayambhū Paris I-III (ed. H. C. BHAYANI, Bombay 1933 ff.) as well as in Dr H. L. JAIN'S edition of *Nāya-kumāracaruu* (Karanja 1933), *Sāvaya-dhamma-dohā* (Karanja 1932), *Pāhudadohā* (Karanja 1933), *Karakamdacaruu* (Karanja 1934, Varansi 1954), *Sudamsanacaruu* (in Press), *Mayanaparājaya-caruu* (Varansi 1962), *Sugandha-daśamī-kathā* (Varansi 1966).

It has to be noted in this connection that in the Glossary of the *Prākṛta-vyākaraṇa* of Hemacandra edited by Dr P. L. VAIDYA (Poona 1928, & 1936) there are nearly 200 words with initial *n* of which more than 50 are Apabhramśa words and nearly 100 words with initial *n* of which only five Apabhramśa words with initial *n* could be detected, namely, *nam*, *navi*, *nhi*, *nhānu* and *nihālu*. Dr VAIDYA has observed thus: '... Prākṛit grammarians of the so-called Western School are not unanimous with regard to the change of *n* to *n*. This has resulted in a state of chaos and confusions in Mss., and also in Modern editions. I would suggest the following course in this respect. If the Prakrit work to be edited is a Jaina work, keep initial *na* if the word can be traced to Sanskrit, and change medial *na* to *na*. Monosyllabic words like *nam* for *nanu* should be regarded as Deśi words, but *nūnam* for *nūnam* may have initial *n*. In the case of non-Jaina Prākṛit works, have *na* for *na* everywhere (*Prākṛit Grammar of Trivikrama*, p. xxi Intro, Sholapur 1954). The reasons for differences of opinion among the grammarians, as stated by Dr. P. L. VAIDYA, are like these. According to Bharata (*NS* 18.12) *n*, initial, medial and conjunct in Sanskrit words, is changed to *n* except in some local dialects (e.g., Paśāci). Likewise Vararuci (*Prākṛta-prakāśa*, II. 42) lays down that *n* is changed to *n* everywhere. But as against this Hemacandra allows that initial *n* may be optionally changed to *n*. The same is the prescription of Trivikrama (I. 3. 52-3). Canda is perhaps an

earlier grammarian, and he has to say only this much *ta vargosya ca-~~a-~~vargau* (16) along with some illustrations. Thus we have two opinions of grammarians: one, that everywhere *n* is necessary changed to *ṇ*; and the other, that intervocalic *n* is changed to *ṇ* but in the initial and in the duplicate, it remains unchanged.

In this connection another opinion of Hemacandra deserves our attention. In his *Deśī Nāmamālā* (BSS ed p 208), he states that a Deśī word with initial *n* is impossible or does not exist; that his Sūtra *vādau* (1 229) refers only to such Prākṛit words as are derived from Sanskrit, and hence it does not refer to Deśī words at all. This clarification of Hemacandra indicates that the non-Aryan languages which influenced the Aryan languages had a preponderance of cerebral sounds; and this confirms the view of modern philologists that the Indo-Aryan owes its cerebral elements to non-Aryan languages and dialects.

The substance of the various view may be put in this way: 1) The intervocalic *n* is necessarily changed to *ṇ*, there is no difference of opinion on this. 2) The presence of *n* or *ṇ*, in a conjunct group, should be decided from its Sanskrit counterpart. 3) Nothing can be definitely stated about initial *n* or *ṇ*. This has to be decided on the strength of older Mss. In Western India the tendency to retain initial *n* is stronger, and Hemacandra and other grammarians have accepted it optionally.²⁷

There is only one Ms of *ŚKk*; the author lived in Pattan in Gujarat and the Ms, which is later than Hemacandra, is copied in Surat. So it was thought proper to retain initial *n* and duplicate *nn*.

Dr. HIRALAL JAIN is one of our leading text critics for Prākṛit and Apabhramśa. He has really saved the *Kathākośa* of Śrīcandra from oblivion by editing it so ably from a single and dilapidated Ms. He has not only enriched the published Apabhramśa literature, but also obliged the students of folklore. On behalf of the Editorial Board of the Prakrit Text Society I record my sincere thanks to him for allowing us to include this edition in the Series of the Prakrit Text Society.

Kolhapur

26-1-69

A. N. Upadhye

- 1 It is also spelt *Kathākośa*
- 2 For details about Mānyakheta, see the Intro pp 21 f of *Mahāpurāṇu* of Puspadanta, Vol III (Bombay 1941) by Dr. P.L. VAIDYA; also *Kannada Sāhitya Parishatpatrike*, 26 2, December 1941
- 3 H.L. JAIN, Apabhramśa Literature, *Allahabad University Journal*, Vol. I, pp 157-85, Allahabad 1925; Apabhramśa bhāṣā aurā sāhitya, *Nāgarī Pracārīnī patrikā*, Vol IVX, 1-4. M. WINTERNITZ: *A History of Indian Lit*, II, p 543, Calcutta 1933. A. N. UPADHYE, *Bṛhatkathākośa* (Bombay 1943 Intro 59 f; Śrīcandra and his Apabhramśa *Kathākośa*,

- Bhārata Kaumudī* Vol. II, pp. 1005-1016 Allahabad 1947 H KOCHHADA
Apabhraṃśa Sāhitya (Delhi 1957), pp 348 f. PARAMANANANDA
 JAINA : *Jainagrantha-prāśasti-samgraha* (Delhi 1963), pp Intro 61 f.
 R.S. TOMAR . *Prākṛta aura Apabhraṃśa Sāhitya* (Allahabad 1964), pp
 132-3
- 4 *Āmera-Śāstra-bhaṇḍāra-Grantha-Kī sūcī*, ed. K. KASLIWAL, Jaipur
 1948 Five Mss. are reported on p. 121. Then the *prāśastis* are given
 on pp. 164 f, possibly based on two Mss. One of them is said to be
 copied in Samvat 1640, but none of the five Mss. gives this date it
 is not clear whether this is an additional Ms The extracts are not
 carefully presented. Then a Ms called *Ratnakaranda-śrāvākācāra* is
 reported in the Bhattārakīya Śāstra-bhaṇḍāra, Nagaur (See *Anekānta*,
 V, pp 399 In the *Jaina Grantha-prāśasti-sagraha*, part II (Delhi 1963),
 Pt. PARMANANDA gives some extracts (pp 7-9) from the two
 works of Śrīcandra. It is not stated from what Mss. these are copied.
 The title of the second work is given *Rayanakaramda-sāvayāra* (Ratna-
 karanda-Śrāvākācāra), but it is not found in the extracts given. The
 passages are very indifferently printed; and they differ in crucial
 readings from the extracts given by the *Āmera Granthasūcī*, noted above.
- 5 It is interesting to note that some of the names are Prākṛitic.
- 6 JAYANTAVIJAYAJI *Holy Ābu* (Translated into English by Dr U.
 P. SHAH) Bhavnagar 1953, pp 22f, 42, 81
- 7 If Śrīcandra is self-consistent, he states first how certain king or
 kings honoured some Teacher and then gives the name of the latter,
 in that case Śrutakīrti was honoured by Gāṅgeya (as in the *prāśasti*
 of *Dkrk*) and Sahasrakīrti was respected by both Gāṅgeya and Bhcja
 (as stated in the *prāśasti* of *Kk*).
- 8 The readings in both the sources are so badly presented that one
 should treat these names as tentative Dr HIRALALAJI reads
 Surendra for Subhacandra
9. *The History and Culture of Indian People*, Vol. V. (Bombay 1957), pp.
 61 f., 66 f Most of the dates are taken from this source. Minor
 differences are noticed in other sources,
10. *Ibidem* Vol IV (Bombay 1957), pp 103 f
11. On this town and its connection with Jainas and Jainism, see my
 Intro of the *Kuvalayamālā*, p 1
- 12 *History and Culture* etc, noted above, Vol V. p 63
13. *Ibidem* p. 74.
14. L B GANDHI *Atihāsika Lekhasamgraha* (Gujarati), p 118, Baroda 1963
- 15 M D DESAI *Jaina Sāhityano Itihāsa* (Bombay 1933), P. 219.
- 16 About *Mūla-* or *Bhagavatī Ārādhana* and its relation with various
 Kathākośas, see my Intro, *Bṛhat-Kathākośa* (Bombay 1943), Intro pp.
 47 ff. 72 ff

- 17 *Brhat Kathākośa* Singhī J. Granthamā'ā, No 17, Bombay 1943.
- 18 See the Table given in the *Brhat-Kathākośa*, noted above, Intro. pp. 72 ff.
- 19 See the Table given in the Intro of the *Brhat-Kathākośa*, and that given by Dr. H L JAIN in the Hindi Intro here.
20. See *Bhārata-Kaumudī*, Intro pp, 60 ff. and the details given in the Table there
21. Harisenaś Dharmapariksā, *Annals* of the B.O.R. 9 , XXII, pp 592-608.
- 22 Sricandra and his Apabhramśa Kathākośa *Bhārata Kaumudī*, Vo. II pp 1005-1016., Allahabad 1947.
- 23 The problem does not exist so seriously for those editors who are mainly guided by Hemacandra's Prākṛit Grammar, who are editing post-Hemacandra works in Prākṛit or Apabhramśa and who are dealing with their Mss. copied in Gujarat and belonging to a later than Hemacandra Pre-Hemacandra Mss have posed this problem which is often ignored by most of the editors but taken into account by a few. For instance L B GANDHI *Apabhramśa Kāvyaṭrayī* (Baroda) 1927), M C MODI & H C. BHAYANI *Paumasiricariu of Dhāhila* (Bombay 1648) their text shows forms like *nam vitthinna, nakka, mkkaliya* In the second word basic Sanskrit word has n, and the last two words are obviously Deśī
24. For earlier discussions in this connection See PISCHEL: *Grammatik* sections 224-28 (Strassburg 1900), A.N UPADHYE *Lilāvai* (Bombay 1949), Intro pp. 8 f ; P.L VAIDYA *Prakrit Grammar of Trivikrama* (Sholapur 1954), Intro p.p xx. f- A.N. UPADHYE *Kuvalayamālā* (Bombay 1959), Intro (separately issued), p. 15
25. It is already noted by JACOBI and PISCHEL that in the older palm-leaf Mss. of the Ardha-māgadhī canon ṅ is written in general
- 26 PISCHEL'S observation or generalisation about the use of ṅ in Jaina Sauraseni was based on a few passages which had reached his hands in those days, but subsequent studies have shown that the Jaina works in the so-called Jaina Sauraseni use ṅ everywhere, varieties of individual Mss Apart.
27. Dr B P JAIN (ed. *Ĵambūsāmi cariu* Varanasi 1968), I am afraid, is wrong track, when he ignores an independent Ms. which uniformly uses n everywhere and quotes as his examples Sricandra's *Kathākośa* (which is edited from a single Ms) and *Apabhramśa Kāvyaṭrayī* (the Mss of which obviously belong to Gujarat) He accepts forms *ṅam, dāṅ'an, mannu, arumannu* etc. ; but rigorously retains initial ṅ, as in *cru rīnā* which is a Deśī word. It has to be remembered that Hemacandra has not ruled out initial ṅ, it is only optional, possibly because he might have found varieties in this respect in the Mss. in his days.

कथाकोश की आदर्श प्रति

श्रीचन्द्र कृत अपभ्रंश कथाकोष का प्रस्तुत संस्करण केवल एक मात्र प्रति के आधार से तैयार किया गया है। यह प्रति कारंजा (जिला आकोला, महाराष्ट्र राज्य) के सेनगण भण्डार की है। यह प्रति मेरे हाथ में उक्त भण्डार के स्वामी श्री वीरसेन भट्टारक की कृपा से उस समय आयी थी जब मैं सन् १९२३ के ग्रीष्म अवकाश में वहाँ संस्कृत-प्राकृत हस्तलिखित ग्रंथों की सूची तैयार करने गया था। यह सूची 'कैटेलाग आफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन सी० पी० एण्ड वरार' नाम से मध्यप्रदेश शासन द्वारा सन् १९२६ में प्रकाशित की गयी। उस सूची में मैंने इस ग्रंथ का कुछ परिचय और परिशिष्ट में कुछ अवतरण भी दिये। तब से इस रचना का जो भी परिचय कहीं भी अब तक प्रकाशित हुआ है, वह केवल उसी एक सूची के आधार से अथवा उक्त प्रति के अवलोकन से।*

तबसे बहुत प्रयास करने पर भी इस रचना की कोई अन्य प्राचीन प्रति प्राप्त न हो सकी। ग्रंथ का कागज जीर्ण होकर फटने लगा था। इसलिये उसका जीर्णोद्धार नेशनल आरकाइव्स, दिल्ली में कराना पडा। मेरी अभी भी इच्छा नहीं थी कि इस विशाल ग्रंथ का सम्पादन केवल एक मात्र प्रति पर से किया जाय। किन्तु प्रिय सुहृद् डा० आ० ने० उपाध्ये ने अब और अधिक किसी अन्य प्रति के प्रकाश में आने की बात जोहना उचित नहीं समझा और मुझे इस कार्य को तत्काल हाथ में लेने के लिये प्रेरित किया। सौभाग्य से उपलभ्य प्रति बहुत कुछ शुद्ध है और उसकी कथायें प्रायः वे ही हैं जो उपाध्ये द्वारा संपादित संस्कृत वृहत्कथाकोश में आ चुकी हैं। अनेक अपभ्रंश ग्रंथों के सम्पादन से इस भाषा की प्रकृति, शब्दावली और काव्यशैली का जो अनुभव प्राप्त हो चुका है उसके आधार से पाठ-संशोधन और कहीं-कहीं स्थलित अंशों के पादपुरण में मुझे विशेष कठिनाई नहीं हुई।

इस प्रति की एक विशेषता ने प्रस्तुत संस्करण को तो प्रभावित किया ही है, किन्तु साथ ही अपभ्रंश ग्रंथों के सम्पादन को एक नया मोड़ भी दिया है। अपभ्रंश रचनाओं की प्राचीन प्रतियों में न और ण का प्रयोग प्रायः अनियमित रूप से पाया जाता है। इस कारण अभी तक के प्रकाशित अपभ्रंश ग्रंथों के सम्पादकों ने प्राकृत वैयाकरण वररुचि के उस नियम का पूर्ण रीति से पर्यालन किया है जिसके अनुसार संस्कृत न का प्राकृत में सर्वत्र ण आदेश होता है (नो णः सर्वत्र २, ४२)। मैंने भी अपने समस्त पूर्व सम्पादित ग्रंथों में इसी नियम का अनुसरण किया है। तदनुसार प्रस्तुत ग्रंथ की प्रेस कापी में भी मैंने कोई ८-१० सधियों में निरपवाद रूप से न के

- * (१) अपभ्रंश लिटरेचर ही० ला० जैन (अलाहाबाद यूनीवर्सिटी जर्नल, प्रथम भाग, १९२५)।
- (२) अपभ्रंश भाषा और साहित्य ही० ला० जैन (नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भा १४, अ १-४)।
- (३) अपभ्रंश साहित्य हरिवंश कोछड़।
- (४) हरिपेण कृत कथाकोश की प्रस्तावना. आ० ने० उपाध्ये।

स्यान पर ण कर दिया । किन्तु मुझे प्रतीत हुआ कि इस प्रति में न और ण का प्रयोग अनियमित नहीं, कुछ व्यवस्था को लिये हुए हैं । सूक्ष्मता से जाँच पड़ताल करने पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा कि यहाँ न और ण दोनों ही अपने-अपने स्यान पर प्रायः हेमचन्द्र कृत प्राकृत-व्याकरण के नियमानुसार आये हैं । इस सम्बन्ध में मैंने अपने सहयोगी विद्वान् मित्रों डा० उपाध्ये और डा० वैद्य से भी परामर्श किया । उनकी सम्मति भी मुझे यही मिली कि प्रस्तुत संस्करण में जहाँ तक प्रति साथ देती है 'न' और 'ण' दोनों का यथास्यान प्रयोग करना उचित है । 'न' और 'ण' के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष विवेचन आगे किया गया है ।

प्रस्तुत कथाकोश की एक मात्र आदर्श प्रति का विशेष परिचय निम्न प्रकार है—

पत्रों की लम्बाई १४ $\frac{1}{2}$ इंच, चौड़ाई ६ इंच, ऊपर हांसिया ३ इंच, नीचे हांसिया ३ इंच, दोनों बाजुओं में हांसिया १ इंच, पत्र सख्या १७३, पक्तियाँ प्रति पृष्ठ १५, प्रति पंक्ति में श्रौसत अक्षर ५७ ।

लिपिकार की प्रशस्ति

सवत् १७८३ वर्ष भाद्रवा सुदि ५ शुक्र । श्रीरस्तु । श्री सुरति-वंदिरे वासुपूज्य-चैत्यालये लिखापितमिद पुस्तकं । श्री मूल-संघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दान्वये मलयखेड-सिंहासनाधीश्वर-कार्यरंजकपुरवासि-भट्टारक श्री घर्मचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भट्टारक श्रीदेवेन्द्रकीर्तयस्तैलि-खापितम् आर्थिका-श्रीपासमतिपरोक्षदत्तवित्तेन ॥

इस आदर्श प्रति की लिपि आदि सम्बन्धी अन्य विशेषताएँ प्रदर्शित करने के लिये प्रति के प्रथम पृष्ठ का यात्रिक प्रतिबिम्ब भी प्रकाशित किया जा रहा है ।

कथाकोश में कडवकों की संख्या

संधि, कडवक सख्या

१—२१	१५—१४	२९—१४	४३—२६
२—२०	१६—२८	३०—२१	४४—२०
३—२६	१७—२५	३१—१०	४५—२२
४—२१	१८—१५	३२—२६	४६—२६
५—१९	१९—२२	३३—१६	४७—१९
६—२५	२०—२४	३४—१६	४८—२२
७—१८	२१—१६	३५—२१	४९—२३
८—२३	२२—१६	३६—१४	५०—१९
९—१७	२३—२१	३७—१३	५१—१६
१०—१६	२४—१६	३८—१५	५२—१३
११—२३	२५—२१	३९—१६	५३—१४
१२—२५	२६—१३	४०—२२	
१३—१८	२७—१३	४१—३२	
१४—१६	२८—१४	४२—२३	
			१०२५

इस प्रकार कथाकोश में कुल कडवकों की सख्या १०२५ है । सबसे कम कडवक इकतीसवीं संधि में १० हैं, और सबसे अधिक इकतालीसवीं संधि में ३२.

कथाकोश के कर्ता

अपभ्रंश कथाकोश के कर्ता ने अपना नामोल्लेख ग्रंथ के श्रावि में तथा प्रत्येक संधि के अन्त में किया है। प्रारम्भ में उन्होंने कहा है—पणवेप्पिणु जिणु सुविसुद्धमइ। चित्तइ मणि मुणि सिरिचंदु कइ (१,१,३) तथा प्रत्येक संधि के अन्त की पद्यात्मक पुष्पिका में कहा गया है—‘मुणि-सिरिचंदपउत्तो’ इससे स्पष्ट है कि ग्रंथकर्ता का नाम श्रीचन्द्र था, वे मुनि थे और ग्रंथ-रचना के समय वे कवि की उपाधि से भी अलंकृत थे। उन्होंने अपना कुछ और अधिक परिचय ग्रंथ के अन्त की प्रशस्ति में दिया है और वहाँ उन्होंने अपनी गुरु-परम्परा निम्न प्रकार बतलाई है :—

कुन्दकुन्दान्वय

|
श्रीकीर्ति

|
श्रुतकीर्ति

|
सहस्रकीर्ति

|
वीरचन्द्र

|
श्रीचन्द्र

इसी प्रशस्ति में उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना हेतु श्रावक प्रेरकों का भी वंश-परिचय कुछ विस्तार से दिया है जो संक्षेप में इस प्रकार है—सौराष्ट्र देश के अणहिल्लपुर (पाटन) नामक नगर में प्राग्वाटवंशीय सज्जन नाम के एक सज्जन हुए जो मूलराज नरेश के धर्म-स्थान के गोष्ठी-कार अर्थात् धार्मिक कथा-वार्ता सुनाने वाले थे। उनके पुत्र हुए कृष्ण, जिनकी भगिनी का नाम जयती और पत्नी का नाम राणू था। उनके तीन पुत्र हुए बीजा, साहनपाल और साढेव तथा चार कन्याएँ, श्री, शृंगारदेवी, सुंदू और सोलू। इनमें सुन्दू या सुन्दुका विशेषरूप से जैनधर्म के उद्धार और प्रचार में रुचि रखती थीं। कृष्ण की इस सन्तान ने अपने कर्मक्षय के हेतु कथाकोश की व्याख्या कराई। आगे चलकर यह भी कहा गया है कि कर्ता ने भव्यों की प्रार्थना से पूर्व आचार्य की कृति को जानकर इस सुन्दर कथाकोश की रचना की। इस पर से अनुमान होता है कि इस विषय पर कोई पूर्वाचार्य की रचना श्रीचन्द्रमुनि के सम्मुख थी। प्रथम उन्होंने उसी पूर्व रचना का व्याख्यान श्रावकों को सुनाया होगा जो उन्हें बहुत रोचक प्रतीत हुआ। इसी से उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप स्वतंत्र रूप से कथाकोश की रचना कीजिये। फलस्वरूप प्रस्तुत ग्रंथ का निर्माण हुआ। प्रशस्ति में ग्रंथकार के व्याख्यातृत्व और कवित्वादि गुणों का विशेष रूप से निर्देश भी किया गया है। यह पूर्वाचार्यकृत कृति कौनसी थी, इसका विचार आगे किया जायगा।

यह रचना कहाँ पर की गई, इसका प्रशस्ति में स्पष्ट उल्लेख है। सूरस्थ (सौराष्ट्र) देश में अणहिल्लपुर (पाटन) में ही कृष्ण श्रावक और उनकी सन्तान का निवास था, अतः वही पर उन्होंने धार्मिक कथा का व्याख्यान व इस कथाकोश की रचना की होगी।

कथाकोश का रचना-काल

इस रचना के काल की कोई स्पष्ट सूचना ग्रंथ में नहीं पायी जाती। किन्तु ग्रंथ की श्रावण प्रति में उसका लेखन-काल संवत् १७८३ निर्दिष्ट है। यह ग्रंथ-रचना की उत्तर सीमा मानना चाहिये। पूर्व सीमा के लिये प्रशस्ति का यह उल्लेख महत्वपूर्ण है कि जिन महाश्रावक कृष्ण की सन्तान ने कथाकोश का व्याख्यान कराया था, उनके पिता सज्जन मूलराज नरेश के घर्मस्थान के गोष्ठीकार थे। ये मूलराज निश्चयतः वे ही नरेश हैं जिन्होंने गुजरात में वनराज द्वारा स्थापित चावड़ा वंश को च्युत करके सन् ९४१ में सोलंकी (चालुक्य) वंश की स्थापना की थी। प्रशस्ति में यह भी उल्लेख है कि ग्रंथकार के परदादा गुरु श्रुतकीर्ति के चरणों की पूजा गार्गेय, भोजदेव आदि बड़े बड़े राजाओं ने की थी। गार्गेय निश्चयतः डाहल (जबलपुर के आसपास का प्रदेश) के वे ही कलचुरि नरेश गार्गेयदेव होना चाहिये जो कोकल (द्वि०) के पश्चात् सन् १०१९ के लगभग सिंहासनारूढ़ होकर सन् १०३८ के लगभग तक राज्य करते रहे। भोजदेव धारा के वे ही परमार वंशी राजा हैं जिन्होंने सन् १००० से १०५५ ई० तक मालवा का राज्य किया तथा जिनका गुजरात के सोलंकी राजाओं से अनेक बार संघर्ष हुआ। इन राजाओं के उल्लेख से स्पष्ट है कि श्रीचन्द्र का रचनाकाल सन् १०५५ के अनेक वर्षों पश्चात् होना चाहिये।

ग्रंथ-रचना काल के सम्बन्ध में इससे अधिक प्रकाश इसी कवि श्रीचन्द्र की दूसरी रचना “दंशणकहरयणकरंड” से पड़ता है। यह ग्रंथ भी अभी तक प्रकाश में नहीं आया। किन्तु इसकी संवत् १५४७ भाद्रपद शुक्ल १ चन्द्रवार की लिखी एक प्रति मुझे प्राप्त हुई है। इसमें २१ संघियाँ हैं और अंत में ग्रंथकार की प्रशस्ति भी है। इस प्रशस्ति में श्रीचन्द्र की गुरु-परम्परा वही दी गयी है जो कथाकोश में। इस प्रशस्ति की विशेषता यह है कि यह संस्कृत में नहीं अमभ्रंश में ही रची गयी है तथा यहाँ उन आचार्यों के कुन्दकुन्दान्वय के अतिरिक्त देशी गण का भी उल्लेख है तथा सहस्त्रकीर्ति के शिष्य वीरचन्द्र के अतिरिक्त चार और शिष्यों के नाम अंकित हैं, देवकीर्ति, वासव, उदयकीर्ति और सुरेन्द्र या देवचन्द्र। बड़े महत्व की बात यह है कि इस प्रशस्ति के अन्त में दो गाथाओं द्वारा उस रचना का काल, उस समय के नरेश तथा स्थान का भी स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है यथा—

एयारह-तेवीसा वाससया विक्कमस्स णरवइणो ।

जइया गया हु तइया समाणिय सुदर कव्व ॥१॥

कण्ण-णरिदहो रज्जेसहो सिरिसिरिवालपुरम्मि ।

बुह-सिरिचवे एउ किउ णदउ कव्वु जयम्मि ॥२॥

अर्थात् विक्रम संवत् ११२३ व्यतीत होने पर कर्ण नरेश के राज्य में श्रीमालपुर में विद्वान् श्रीचन्द्र ने इस दंशणकहरयणकरंड नामक काव्य की रचना की। इस प्रकार इसका रचना-काल ११२३-५७ = १०६६ ईसवी सिद्ध होता है। कर्ण सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने सन् १०६४ से १०९४ तक राज्य किया।

श्रीमाल अपरनाम भीममाल दक्षिण मारवाड़ की राजधानी थी। सोलंकीनरेश भीमदेव ने सन् १०६० ई. में वहाँ के परमारवंशी राजा कृष्णराज को पराजित कर बन्दीगृह में डाल दिया

श्रीर भीनमाल पर अपना अधिकार जमा लिया जो उनके उत्तराधिकारी कर्ण तक स्थिर रहा प्रतीत होता है ।

दंसणकहरयणकरंड में हमें एक श्रीर महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होता है । इस ग्रंथ की कथाकोश के समान संध्यन्त की पद्यात्मक पुष्पिकाओं में कर्त्ता का निर्देश पंडित श्रीचन्द्रकृत (पंडिय-सिरिचंद-कए) रूप से किया गया है । किन्तु यह ऋम सोलहवीं संधि तक ही पाया जाता है । सत्तरहवीं से बाईसवीं सन्धि तक की पुष्पिकाओं में “इय सिरिचंद-मुण्णिकए” (श्रीचन्द्रमुनिकृत) ऐसा निर्देश हुआ है । प्रशस्ति में भी कर्त्ता का निर्देश पंडित या बृध उपाधि सहित ही किया गया है । मुनि उपाधि सहित नहीं ।

यथा—

सिरिचंदणामु सोहणमणीसु ।

संजायउ पंडिउ पढमसीसु ॥

× × × ×

बुहसिरिचंदे एउ किउ ।

णंदउ कव्वु जयम्मि ॥

जान पड़ता है कि दर्शनकथारत्नकरंड की १६ हवीं सन्धि की रचना तक श्रीचन्द्र जी श्रावक (गृहस्थ या क्षुल्लक) ही थे । तत्पश्चात् उन्होंने मुनि-दीक्षा ग्रहण की । कथाकोश में श्रादि से ही कर्त्ता के साथ मुनि उपाधि का प्रयोग पाया जाता है । चित्तइ मणि मुणिसिरिचन्दु कई । पुष्पिकाओं में भी श्रादि से अन्त तक मुनि शब्द आया है, और प्रशस्ति में तो उन्हें ‘सूरि’ भी कहा गया है । अतएव निश्चयतः कथाकोश की रचना दर्शन-कथा-रत्न-करण्ड की रचना के पश्चात् सन् १०७० के लगभग हुई होगी ।

कथाकोशकार के आश्रय-दाता

कथाकोश की ग्रंथकार-प्रशस्ति का एक और संकेत ध्यान देने योग्य है । जिन प्राग्वाट वंशी सज्जन के उल्लेख में वह प्रशस्ति प्रारम्भ हुई है, उनके पुत्र कृष्ण को ‘निद्रान्वयमहामुक्तामालायां नायकोपम’ अर्थात् निद्रावंश के महापुरुषों रूपी भोतियों की माला के प्रमुख रत्न कहा गया है । यहां निद्रान्वय पाठ की शुद्धि में सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि निद्रा वंश कभी देखने सुनने में नहीं आया था । अतएव मैंने प्राग्वाट वंश सम्बन्धी प्राचीन उल्लेखों को देखना प्रारम्भ किया । इस खोज में मेरा ध्यान सर्वप्रथम राजशेखर कृत प्रबन्ध-कोष के वस्तुपाल-प्रबन्ध की ओर गया जहां उनके वंश को ‘श्रीमत्पत्तनवास्तव्यप्राग्वाटान्वय’ कहा गया है । वस्तुपाल तेजपाल के प्रसंग से जब उनके बनवाये श्रावू के मन्दिरों के शिलालेखों श्रादि की ओर ध्यान गया तो ज्ञात हुआ कि श्रावू के विमलवसही नामक मंदिर में जो हस्तिशाला है उसमें हाथियों की मूर्तियों पर विमलशाह के पूर्वज सवार हुए दिखाये गये हैं और उनके नाम भी वहां अंकित हैं । इनमें विमलशाह के सर्व-प्रथम पूर्वज महामंत्री नीना कहे गये हैं । उनके पश्चात् क्रमशः म० म० लहर, वीर, नेठ, धवल श्रादि दश नाम पाये जाते हैं, जिनमें प्रथम सात महामंत्री पृथ्वीपाल द्वारा वि० स० १२०४ में तथा शेष तीन महामंत्री धनपाल द्वारा वि० स० १२७७ में प्रतिष्ठित सिद्ध होते हैं । मन्दिर की क्रमांक १० वी० कुलिका में एक शिलापट्ट है, जिस पर भी आठ श्रावकों के चित्र खुदे हुए हैं और प्रत्येक के नीचे क्रमशः महामं० श्री नीनामूर्ति, महामं० श्रीलहरमूर्ति, महामं० श्री वीरमूर्ति,

आदि नाम अंकित हैं। मंदिर में अन्वय जी विमलशाह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है उसमें तथा नेमिणाह-चरिउ की प्रशस्ति में इस वंश का क्रमशः विधिवत् वर्णन पाया जाता है। यह वशावली नीना या निन्या के नाम से ही प्रारम्भ होती है और इसमें उसे चावड़ा राजवंश के संस्थापक वनराज का सम-सामयिक कहा गया है। उसके तथा उसके पुत्र लहर की वीरता और बुद्धि से प्रभावित होकर वनराज ने नीना के परिवार को अपनी राजधानी अणहिलवाड़पत्तन (पाटन) में बुलवा लिया था। आदि यह कुटुम्ब गुजरात की प्राचीन राजधानी श्रीमाल (भीममाल) का निवासी था। उक्त जानकारी पर से मुझे प्रतीत हुआ कि यथार्थतः निद्रान्वय के स्थान पर शुद्ध पाठ नीनान्वय या निन्यान्वय रहा होगा। किन्तु उत्तरकालीन लिपिकार ने उसका अर्थ न समझकर उसे अशुद्ध समझा होगा और उसके स्थान पर उससे मिलता जुलता शुद्ध संस्कृत शब्द 'निद्रान्वय' लिख दिया होगा।

वशावली में नीना व उसके पुत्र लहर को वनराज (वि० सं० ८०२) के मंत्री तथा लहर के पुत्र वीर को मूलराज (वि० सं० ९९९) का मंत्री एवं वीर के एक पुत्र नेड्ड को भीम (वि० सं० १०७९) का अमात्य व दूसरे पुत्र विमल को भीम का बड़ाधिप कहा गया है। किन्तु वनराज और मूलराज के बीच लगभग दो सौ वर्षों के अन्तर को देखते हुए विद्वानों ने उक्त कथन पर सन्देह किया है और यह कल्पना की है कि या तो वीर लहर का पुत्र न होकर उनका वंशज था, अथवा नीना और लहर वनराज के समय न होकर मूलराज के ही काल में हुए। जो हो, किन्तु प्रसृत कथाकांश की प्रशस्ति से स्पष्ट है कि मूलराज के समय नीना वंश के सज्जन नामक सत्पुरुष विद्यमान थे और उन्हीं की तीसरी पीढ़ी के वंशजों द्वारा वि० सं० १०७० के लगभग इस कथाकोश की रचना कराई गयी। (Holy Abu P 22,42 & 81)।

यहां एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह सम्मुख आता है कि नीना के वंश की एक शाखा द्वारा श्वेताम्बर सम्प्रदाय तथा दूसरी शाखा द्वारा दिगम्बर सम्प्रदाय का अनुसरण किया गया था। इससे प्रतीत होता है कि दोनों सम्प्रदायों में मेलजोल था व एक ही परिवार के व्यक्ति अपनी-अपनी रुचि अनुसार एक या दूसरे सम्प्रदाय को ग्रहण कर लेते थे।

‘न’ और ‘ण’ के प्रयोग का विवेचन

अपभ्रंश भाषा और सामान्यतः अन्य प्राकृत भाषाओं में दन्त्य और मूर्धन्य अनुनासिक वर्णों अर्थात् ‘न’ और ‘ण’ के प्रयोग में बड़ी अनियमितता और अनिश्चय पाया जाता है। भाषा-विज्ञान के विशारदों का अनुमान है कि ट वर्ग की ध्वनियां भारोपीय परिवार की किसी भी अन्य भाषा में नहीं पाई जातीं। वैदिक भाषा में इनका प्रयोग प्रारम्भ में बहुत कम और पीछे क्रमशः बढ़ता हुआ पाया जाता है। अनुमानतः यह प्रवृत्ति भारत में वैदिक काल में प्रचलित निषाद, द्रविड़ आदि भाषाओं के प्रभाव से आई है। संस्कृत में ट वर्ग के स्थान में ट वर्ग की ध्वनियों के आदेश को नियमित कर दिया गया है। किन्तु म० भा० आ० भाषाओं अर्थात् पालि, प्राकृत और अपभ्रंशों में इनका विशेष प्रयोग पाया जाता है। इन भाषाओं के साहित्य में जहां कहीं ‘न’ और ‘ण’ का प्रयोग हुआ है, उसके आधार से कोई नियम बनाना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। अर्द्ध-भाग्यी आगम की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में भी यह अनियमितता है, किन्तु उनके सम्पादन में हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण के नियमानुसार पाठ रखे गये हैं। अन्य जैन प्राकृत ग्रन्थों के

सम्पादन में भी प्रायः इसी नियम का पालन किया गया है। प्राकृत के अन्य काव्यों, जैसे गाहा-सत्तसई सेतुबंध गा गडउवहो, लीलावई, कंसवहो आदि में वररुचि के 'प्राकृत-प्रकाश' के नियमानुसार सभी स्थितियों में 'न' के स्थान पर 'ण' का प्रयोग किया गया है।

अपभ्रंश भाषा के ग्रन्थों का सम्पादन अपेक्षा कृत बहुत आधुनिक है, और प्रायः इस भाषा के जितने ग्रन्थ अभी तक सुसम्पादित होकर प्रकाशित हुए हैं उनमें एकाधिक हस्तलिखित प्रतियों का उपयोग किया गया है। उन प्रतियों में 'न' और 'ण' ध्वनियों के प्रयोग में जो अनियमितता दृष्टिगोचर हुई है, उसका उल्लेख प्रायः सभी सम्पादकों ने किया है। सर्व प्रथम डा० हरमन याकोबी ने भविसयत्त-कहा तथा सणकुमार-चरिउ का सम्पादन किया था। उन्होंने अपने लिए यह नियम बनाया कि जब 'न्न' शब्द के मध्य में आवे, तब यदि मूल संस्कृत शब्द में 'ण' नहीं है तो उसे दन्त्य ही रहने दिया जावे। किन्तु यदि संस्कृत में 'ण' हो तो उसके स्थान पर मूर्द्धन्य अनुनासिक ही रखा जावे, जैसे कन्या-कन्ना तथा कर्ण-कण्ण। उनके द्वारा सम्पादित 'सणकुमार चरिउ' (मुन्चेन, जर्मनी १९२१) की शब्द-सूची में लगभग १६८ शब्द 'नादि' हैं और 'णादि' केवल एक 'णु' (ननु) ही तीन-चार बार आया है।

डा० आल्सडॉर्फ द्वारा सम्पादित कुमारपाल प्रतिबोध (हम्बुर्ग सन् १९२८ ई०) की शब्दानुक्रमणिका में लगभग डेढ़ सौ शब्द 'नादि' हैं तथा 'णादि' केवल दो शब्द मेरी दृष्टि में आये, णइ और ण्हाण। यह स्थिति उनके द्वारा सम्पादित हरिवस पुराणु (हम्बुर्ग सन् १९३६) में उलट गयी, क्योंकि इसकी शब्द-सूची में केवल नृ व नृव शब्द ही 'नादि' हैं; शेष सभी शब्द 'णादि' पाये जाते हैं।

डा० गुणे ने 'भविसयत्तकहा' का प्रकाशन १९२३ ई० में कराया। उसकी प्रस्तावना में उन्होंने शब्द के आरम्भ में तथा मध्य में द्वित्व रूप से 'न' ध्वनि को सुरक्षित रखने की प्रणाली को अर्द्ध-मागधी प्रवृत्ति कहा है, अपभ्रंश भाषा की कोई विशेषता नहीं। उनका मत है कि अपभ्रंश ग्रन्थों में 'न' और 'ण' का प्रयोग अनियमित विकल्प रूप से आता है, जैसे 'न' आदि नयर, नराहँ, नेउर, अन्न, मन्नइ इत्यादि, तथा णिहणु, णउ, आणत्तहि, णिज्जावय, समण्णुण, णिब्भिणइ इत्यादि। अतिएव इनमें मिसी नियम की कल्पना करना व्यर्थ है।

डा० प० ल० वैद्य ने पुष्पदन्त कृत 'जसहर-चरिउ (कारजा जैन ग्रन्थमाला १९३१ ई०) तथा महापुराण (मा० दि० जैन ग्रन्थ. १९३७ ई० आदि) में निरपवाद रूप से सर्वत्र केवल 'ण' का ही प्रयोग किया है। और इसी प्रवृत्ति का पालन डा० आ० ने० उपाध्ये ने योगीन्द्रदेव कृत परमात्मप्रकाश एव योगसार (रा० जैन शास्त्र० बम्बई १९३७ ई०) में तथा डा० ह० व० भयाणी ने स्वयम्भू कृत पउमचरिउ (भाग १-३, सिंधी जैन ग्रन्थ० भा० वि० भ० बम्बई सन् १९५३ ई० आदि) के सम्पादन में किया है। प्रस्तुत सम्पादक ने भी णायकुमारचरिउ सावय-धम्मदोहा, पाहुडदोहा, करकडचरिउ, सुदसणचरिउ, मयणपराजयचरिउ एवं सुगंधदशमी-कथा इन ग्रन्थों के सम्पादन में इसी नियम को निरपवाद रूप से स्वीकार किया है। किन्तु यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि डा० वैद्य ने अपने हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण के संस्करणों (पूना १९२८ ई० तथा १९३६ ई०) की शब्द-सूची में 'नादि' लगभग २०० शब्दों को दिया है जिनमें ५० से अधिक अपभ्रंश शब्द हैं, एव 'णादि' शब्दों की संख्या लगभग १०० हैं जिनमें अपभ्रंश के केवल णं, णवि,

णिहि, ण्हाणु, णिहालहि, ये पाँच शब्द ही अब तक मेरे दृष्टिगोचर हुए हैं। इस सम्बन्ध में डा० वैद्य ने अपने त्रिविक्रम कृत 'प्राकृत शब्दानुशासन' (जीव० जैन ग्रंथ० शोलापुर सन् १९५४ ई०) की प्रस्तावना में अपना यह अभिमत व्यक्त किया है कि 'न' को 'ण' में परिवर्तित करने के विषय पर प्राकृत वैयाकरणों में मतभेद है। और इसका परिणाम यह हुआ है कि अपभ्रंश की हस्तलिखित प्रतियों में तथा आधुनिक संस्करणों में बड़ी अनियमितता आ गयी है। अतएव नियमितता लाने के हेतु उन्होंने यह सुझाव दिया है कि यदि सम्पादनीय प्राकृत रचना जैन परम्परा की है तो शब्द के आदि का 'न' यदि वह उसके मूल संस्कृत रूप में है तो उसे सुरक्षित रखा जाय, तथा मध्यवर्ती 'न' को 'ण' में परिवर्तित किया जाय। ण (ननु) जैसे एकाक्षर शब्द देशी समझे जावें। किन्तु नूनं के स्थान पर नूणं रखा जावे। तथापि जैनेतर प्राकृत रचनाओं में सर्वत्र 'न' के स्थान पर 'ण' का आदेश किया जावे।

डा० प० ल० वैद्य ने जो प्राकृत वैयाकरणों के मतभेदों के कारण उपर्युक्त अनिश्चित स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसा कहा है, वह इस प्रकार है—भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में प्राकृत भाषा की विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। वहाँ उन्होंने कहा है—'सर्वत्र च प्रयोगे भवति नकारो ऽपि च णकारः' (भ० ना० शा० १८-१२)। इसी प्रकार वररुचि कृत 'प्राकृत-प्रकाश' में सूत्र पाया जाता है—'नो णः सर्वत्र' (प्रा० प्र० २-४२), जिसकी भासह कृत टीका है 'आदेरिति निवृत्तम्'। सर्वत्र नकारस्म णकारो भवति। णई, कणअं, वअणं, माणुसो। इस प्रकार उक्त दोनों आचार्यों के मत से प्राकृत में शब्द के आदि, मध्य एवं द्वित्व इन सभी स्थितियों में 'न' के स्थान पर 'ण' का आदेश अनिवार्य है।

इसके विपरीत हेमचन्द्र कृत प्राकृत-व्याकरण के सूत्र हैं नो ण। वादौ (८१ २२८-२९)। और इन सूत्रों पर उनकी स्वोपक्ष टीका है—स्वरात् परस्यास्युक्तस्यानादेर्नस्य णो भवति-कणयं, मयणो वयण मयण माणइ। आर्षे आरनालं, अनिलो, अनलो इत्याद्यपि। असंयुक्तस्यादौ वर्तमानस्य नस्य णो वा भवति, णरो-नरो; णई-नई; णेइ-नेइ। असंयुक्तस्येत्येव न्याय-नाओ।

इसी प्रकार त्रिविक्रम कृत प्राकृत शब्दानुशासन का सूत्र है न। आदेस्तु (१३ ५२-५३)। इसकी टीका है—अस्तोरखोरच. परस्य नकारस्य णकारी भवति। कनक-कणअं। घनं-घण। माणइ मानयति। न इत्यनुवर्तते। शब्दानामादेर्नकारस्य णत्व भवति तु। नदी-णई-नई। नयति-णेइ-नेइ॥ अस्तोरित्येव। न्यायः-नाओ। (अस्तो = असंयुक्तस्य; अखो = अनादेः)।

उक्त सभी प्राकृत वैयाकरणों से सम्भवतः पूर्ववर्ती चण्ड ने अपने प्राकृत-लक्षण में केवल इतना कहा है—तवगंस्य च-टवर्गी (१६) यथा नित्य-निच्च; नृत्यं-नट्ट, घान्यं-घाणं।

इस प्रकार हमारे सन्मुख वैयाकरणों के प्रमुखता से दो मत उपस्थित होते हैं। एक तो यह कि प्राकृत में सर्वत्र ही 'न' के स्थान पर 'ण' आदेश अनिवार्यत किया जाना चाहिये। और दूसरा यह कि जब शब्द में 'न' दो स्वरो के बीच में आवे तभी उसके स्थान पर 'ण' का आदेश किया जाये, अन्यथा अर्थात् शब्द के आदि में तथा संयुक्त वर्ण में 'न' को अपरिवर्तित रखा जावे।

इस सम्बन्ध में हेमचन्द्र का एक और मत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने अपने 'देशीनाममाला' नामक कोश में कहा है—नकारादयस्तु देश्यामसम्भविन एवेति न निबद्धा। यच्च "वादौ" इति सूत्रितमस्माभि तत्संस्कृतभवप्राकृतशब्दापेक्षया न देश्यपेक्षयेति सर्वमवदातम्। इसका तात्पर्य यह है

‘नादि’ देशी शब्द होना असम्भव है, इसलिए ऐसे कोई शब्द इस कोश में निबद्ध नहीं किये गये । तथा जो उन्दोने अपने प्राकृत व्याकरण में “वादों” सूत्र द्वारा शब्द के आदि में विकल्प से ‘न’ के स्थान पर ‘ण’ के आदेश का विधान किया है, वह केवल संस्कृत से उत्पन्न प्राकृत शब्दों अर्थात्— तद्भव शब्दों की अपेक्षा से है, देशी की अपेक्षा से नहीं, यह स्पष्टता से समझ लेना चाहिये ।

हेमचन्द्र के इस स्पष्टीकरण से हमें यह संकेत मिलता है कि जिन अनार्य भाषाओं में अनार्य भाषाओं को प्रभावित किया उनमें ‘ण’ का प्रयोग प्रबलता और बहुलता से होता था और इससे भाषा-विज्ञान की उस मान्यता को भी बल मिलता है कि भारतीय अनार्य भाषाओं में मूर्द्धन्य ध्वनियों का प्रवेश उक्त अनार्य-देशी भाषाओं के प्रभाव से हुआ है ।

पूर्वोक्त समस्त मत-मतान्तरों का सथितार्थ हमारे मतानुसार निम्न प्रकार है—

(१) स्वर-मध्यवर्ती असंयुक्त ‘न’ के स्थान पर ‘ण’ का आदेश अनिवार्य रूप से किया जावे । इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है ।

(२) संयुक्त ‘न’ के स्थान पर निर्णायक उसका संस्कृत रूप होना चाहिये । यदि संस्कृत में ‘न’ है तो ‘न’ ही रखा जावे, जैसे अन्य-अन्नं मन्यते-मन्नइ, न्याय-नाओ; और यदि ‘ण’ हो तो ‘ण’ जैसे कर्ण-कण्ण ।

(३) आदि ‘न’ के सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मक नियम बनाना कठिन है । इसे प्राचीनतम हस्तलिखित प्रति के आधार से ही निश्चित करना चाहिये । कुछ क्षेत्र का विचार भी किया जा सकता है । पश्चिम की ओर ‘न’ को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती है, तथा हेमचन्द्रादि व्याकरणों ने इसमें विकल्प की छूट भी दे रखी है ।

जहाँ तक प्रस्तुत श्रीचन्द्रकृत कथाकोष का प्रश्न है, सम्पादक के सन्मुख केवल एक मात्र आदर्श प्रति होने से पाठान्तरों व विकल्पों की समस्या ही उपस्थित नहीं हुई । सौभाग्य से उपलब्ध प्रति बहुत कुछ शुद्ध है और सावधानी से लिखी गयी है । उसमें बहुलता से आदि ‘न’ एवं मध्यवर्ती संयुक्त ‘न’ को सुरक्षित रखा गया है । अतएव इस स्थिति में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं था, विशेषतः जब कि ग्रथकार और लिपिकार पश्चिम देशीय थे ।

कथाकोश के विषय का आधार

श्रीचन्द्र ने प्रस्तुत कृति के आदि में ही अपनी विनय तथा पूर्वाचार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा है कि “धर्म में मेरी बड़ी भक्ति है, किन्तु ज्ञान कुछ भी नहीं है । ऐसी दशा में जो कथाकोष समुद्र के समान कभी सूखने वाला नहीं है उसे मैं कैसे सम्पन्न कर सकूँगा । जिसकी रचना अनेक महामति महर्षि सत्कवियों ने की है उसे मैं मन्दमति कैसे रच सकूँगा ? जिनपति (महावीर) ने जैसा गणधर (गौतम) को सुनाया था, और गणधर ने राजा थेणिक को कहा था, तथा जैसा इस पंचम काल में शिवकोटि मुनीन्द्र ने कथाकोश को कहा था उसी प्रकार गुरु-परम्परा-क्रम से मैं भी कहता हूँ । मूलाराधना ग्रंथ के बीच-बीच में बहुत सी ऐसी गाथायें हैं जिनमें सुन्दर और मनोरंजक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थों सबधी कथाओं के उल्लेख हैं । मैं उन्हीं गाथाओं

का पहले अर्थ कह कर पश्चात् आदरपूर्वक उन कथाओं को कहता हूँ, क्योंकि सन्दर्भ रहित बात कहने से गुणवानो को उसके रसकी अनुभूति नहीं होती ।”

इस पर से सिद्ध होता है कि धार्मिक कथाओं की परम्परा जैन धर्म में तीर्थंकर महावीर के ही काल से प्रारम्भ हुई और वह गुरु-परम्परा से निरन्तर चलती हुई प्रस्तुत ग्रन्थकार के समय तक चली आई । इन कथाओं में से अनेक का उल्लेख सन्दर्भानुसार मुनि शिवकोटि या शिवार्य द्वारा अपनी मूलाराधना अर्थात् भगवती आराधना में भी किया गया है । उसीको सम्भवतः श्रीचन्द्र ने पंचमकाल में शिवकोटि द्वारा कथित कथाकोष कहाँ है, क्योंकि ऐसा तो अन्य कोई ग्रन्थ या ग्रन्थो-ल्लेख नहीं पाया जाता जिससे शिवकोटि द्वारा रचित कथाकोष ग्रन्थ का अस्तित्व सिद्ध हो । प्रस्तुत रचना में श्रीचन्द्र ने अपनी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है कि वे अपने कथा सम्बन्धी मूलाराधना की गाथा को उद्धृत कर तथा उसका संस्कृत में अर्थ समझाकर पश्चात् अपना कथानक प्रारम्भ करेंगे । यह बात विरल रूप से तैत्तलीसर्वो सन्धि तक पाई जाती है, किन्तु उससे आगे की दस सन्धियों में कवि ने मूलाराधना की कोई गाथा उद्धृत नहीं की । उक्त प्रकार से मूलाराधना की जितनी गाथाएँ प्रस्तुत रचना में उद्धृत पायी जाती हैं, उनको सुविधा के लिए यहाँ एकत्र संकलित कर दिया गया है ।

अपने ग्रन्थ की रचना में श्रीचन्द्र ने ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्ति के उन्नीसवें श्लोक में एक और महत्व की बात कही है, कि उन्होंने भव्यो की प्रार्थना पर एक पूर्वाचार्य द्वारा विरचित कृति का ज्ञान प्राप्त करके भले प्रकार इस अति सुन्दर कथाकोष की रचना की । इससे प्रतीत होता है कि उनके सन्मुख कथाकोष सम्बन्धी एक रचना विशिष्ट रूप से प्रस्तुत थी, जिसे उन्होंने अपनी रचना का आधार बनाया । यह रचना अन्य कोई नहीं, वही बृहत्कथाकोष है जिसकी रचना संस्कृत भाषा में हरियेणाचार्य द्वारा विक्रम संवत् ९८९ एवं शक संवत् ८५३, अर्थात् ई० सन् ९३१-३२ में वर्द्धमानपुर में पूर्ण की गयी थी । यह ग्रन्थ डॉ. आ० ने० उपाध्ये द्वारा सुसम्यादित होकर प्रकाशित हो चुका है (सिंधी जै० ग्रन्थ० १७, भा० वि० भ० दम्बई १९४३) । इस संस्करण की प्रस्तावना में विद्वान् सम्पादक ने इस संस्कृत कथाकोष का प्रस्तुत अपभ्रंश कथाकोष से विस्तारपूर्वक मिलान किया है, और निष्कर्ष निकाला है कि इन दोनों ग्रन्थों में कथाओं का क्रम, विषय तथा नामों व शब्दों का ऐसा साम्य है जिससे उनका परस्पर सम्बन्ध निर्विवाद सिद्ध होता है । और क्योंकि हरिवेण का रचनाकाल श्रीचन्द्र से लगभग एक सौ चालीस वर्ष पहले सिद्ध होता है, अतः इस बात में सन्देह का कोई कारण नहीं कि श्रीचन्द्र ने अपने अपभ्रंश कथाकोष की रचना हरिवेण कृत संस्कृत कथाकोष को सामने रखकर की है । इस सम्बन्ध में डॉक्टर उपाध्ये ने अपने जो विचार उक्त प्रस्तावना में प्रकट किये हैं वे महत्वपूर्ण हैं । उक्त दोनों ग्रन्थों की कथाओं के साम्य व भेद को प्रस्तुत करने के लिए हम उनकी तुलनात्मक सूची यहाँ दे रहे हैं ।

कयाकोश मे उद्धृत भगवती आराधना की आधार गाथायें पाठान्तरो सहित ।

सूचना—क=भ० आ० अनन्तकीर्ति जैन ग्रं० मा० ८ बम्बई वि० सं० १९८९ । गाथाओ के क्रमांक भी इसी संस्करण के अनुसार दिये गये हैं ।

ख=भ० आ० शोलापुर १९३५, हरिवेण क० को० की प्रस्तावना में उद्धृत

कहकोसु

संघि कडवक क० सं०

भ० आ०

- १ ९ (१) सिद्धे जयप्पसिद्धे चर्जाव्वहाराहणाफलं पत्ते ।
वदित्ता अरहते वोच्छं^१ आराहणं^२ कमसो ॥ १
- (२) उज्जवणमुज्जवण निव्वहण^३ सिद्धि साहण^३ च नित्थरण ।
दंसणणाणचरित्ते तवाणमाराहणा भणिया ॥ २
- २ १ (३) सम्मत्तादीचारा संका कखा तहेव विदिग्गिच्छा ।
परदिट्ठीण पसंसा अणायदणसेवणा चेव ॥ ४४
- ३ १ (४) उवगूहण ठिदिकरणं वच्छल्लपहावणा^४ गुणा भणिदा ।
सम्मत्तविसोहीए^५ उवगूहणकारया चटुरो^६ ॥ ४५
- ५ १ (५) सद्दहया पत्तियया रोचयफासतया पवयणस्स ।
सयलस्स^७ जे णरा ते^७ सम्मताराहया होत्ति ॥ ४८
- ५ ३ (६) अववादियलिगकडो^८ वि सगसत्तिमगूहमाणो^९ हु^{१०} ।
णिदण-नारहणजुत्तो सुज्झदि उवधि परिहरतो ॥ ८९
- ५ १२ (७) आणक्खिदा य लोचेण अप्पणो होदि धम्मसड्ढा^{११} य ।
उगो तवो य लोचो तहेव दुक्खस्स सहण च ॥ ९४
- ५ १७ (८) काले विणए उवहाणे^{१२} वहुमाणे^{१३} तहेव निण्हवणे^{१४} ।
वंजण^{१४} अत्थ तदुभय^{१४} विणओ नाणम्मि अट्टविहो ॥ ११४
- ७ १ (९) भगिणीए^{१५} वि विहम्मिज्जतीए^{१६} एयत्तभावणाइ^{१७} जघा ।
जिणकप्पिओ^{१९} न मूढो खवगो^{२०} वि न मुज्झदि^{२१} तधेव^{२२} ॥ २०६

१. क वुच्छं । २. क 'हणा । ३. क साहण । ४. ख 'पभावणा । ५. ख घीए ।
६. ख चउरो । ७. ख जेण एदे । ८ क 'गदो, ख 'कदो । ९. क सय सत्तिं अगूहं; ख
विसयासत्तिं अगूहं । १० क ख य । ११. क 'सद्धा । १२ क उवघाणे । १३. ख तह
अणिण्हवणे । १४ क अत्थतदुभयो; ख अत्थ तदुभये । १५ ख 'भय । १६. क ख 'विघ ।
१७. क ख 'णाए । १८. क ख जहा । १९ क 'दो । २० क ख 'ओ । २१ क ख 'इ । २२. क तहेव ।

कहकोसु

सन्धि कडवक क्र० सं०

भ० आ०

- ७ ७ (१०) तं वत्यु मोत्तव्वं जं पदि²³ उप्पज्जए²⁴ कसायगी ।
त²⁵ वत्यु अल्लिएज्जो²⁵ जत्योवसमो²⁶ हवे तेसि ॥ २६७
- ७ ११ (११) गुणपरिणामादीहिं²⁷ य वेज्जावच्चुज्जुदो²⁸ समज्जेदि ।
तित्थयरनामगोत्त²⁹ तिहुयणसखोहण³⁰ पुण्ण ॥ २२३
- ७ १४ (१२) सुयणो³¹ वि हवे³² लहुओ दुज्जणसम्मेलणाय³³ दोसेण ।
माला वि मोल्ललहुई³⁴ होदि³⁵ हु³⁶ मडयस्स ससिट्ठा³⁶ ॥ ३५०
- ७ १५ (१३) दुज्जणसंसगीए संकिज्जदि सजदो वि दोसम्मि³⁷ ।
पाणागारे दुद्ध पिवत्तओ³⁸ वभणो चैव ॥ ३५१
- ७ १७ (१४) अवि संजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणदि दोसं ।
जघ घूयकदे दोसे हंसो वहिओ अपावो वि ॥ ३५३
- ८ १ (१५) आसयवसेण एवं पुरिसा दोसं गुणं च पावती ।
तम्हा पसत्यगुणमेव आसय अल्लिएज्जाह ॥ ३६१
- ९ १ (१६) अप्पो वि परस्स गुणो सप्पुरिस पप्प बहुदरो होदि ।
उदए व तेल्लविदू कह³⁹ सो जैपिहिदि परदोस ॥ ३७८
- ९ १६ (१७) जह वालो जपतो कज्जमकज्ज च उज्जुयं⁴⁰ भणदि ।
तह आलोचेदव्व माया-मोस च मोत्तूण ॥ ५५३
- १० १ (१८) अच्छीणि संघसिरिणो मिच्छत्तनिकाचिदेण⁴¹ पडिदाइ⁴² ।
कालगदो वि य सतो जादो सो दीहससारी⁴³ ॥ ७३६
- ११ १ (१९) भावाणुराय⁴⁴-पेम्माणुराय⁴⁴-मज्जाणुराय⁴⁴-रत्तो य⁴⁵ ।
घम्माणुराय⁴⁴ रत्तो य होहि जिणसासणे निच्चं ॥ ७४१
- ११ १० (२०) दंसणभट्ठो भट्ठो न दु भट्ठोहो दि⁴⁶ चरणभट्ठो दु⁴⁷ ।
दंसणममुयंतस्स हु परिवडण नत्थि ससारे ॥ ७४३

२३. क ख पडि । २४ ख 'दे । २५ क वत्युमज्जि'; ख वत्युमल्लि' । २६ क ख कसायाण । २७ क 'दीहि । २८ ख 'ज्जुदो । २९ क ख 'कम्म । ३० क तिलोयसखोभयं, ख तिलोयसखोभय । ३१ क ख सुजणी । ३२ क ख होइ । ३३ क 'समील, ख 'समेलणाए । ३४. क 'गरुया; ख 'गरुआ । ३५ ख होइ । ३६ क ख लहु मडय' । ३७ क ख दोसेण । ३८. क ख पिय । ३९ क किहि, ख किह । ४० क अ, ख ग । ४१. क ख णिकाचणेण । ४२ ख 'णि । ४३. क ख 'ससारे । ४४ क ख 'राग । ४५ क व्व; ख वा । ४६ क होइ । ४७ ख हु ।

कहकोसु

सन्धि कडवक क्र० सं०

भ० आ०

- १२ १ (२१) सुद्धे सम्मत्ते अविरदो वि अज्जेदि तित्थयरनामं ।
जादो हु^{४८} सेणिओ^{४९} आगमेसि भद्दो^{५०} अविरदो वि ॥ ७४४
- १६ १ (२२) एक्का^{५१} वि सा समत्या जिणभत्ती दुग्गदि^{५२} निवारेदु ।
पुण्णाणि य पूरेदु आसिद्धि परपरसुहाण ॥ ७५०
- २१ १ (२३) विज्जा वि भत्तिमंतस्स^{५३} सिद्धिमुवयादि होदि सफला य ।
कह^{५४} पुणु निव्वुदिविज्जा^{५५} सिज्झिहिदि^{५६} अभत्तिवतस्स^{५७} ॥ ७५२
- २२ १ (२४) अन्नाणी वि य गोवो आराधित्ता मदो नमोक्कार ।
चंपाए सेट्टिकुले जादो पत्तो य सामन्न ॥ ७६२
- २३ १ (२५) जइदा खंडसिलोगेहि^{५८} यमो^{५९} मरणादु फेडिदो^{६०} राया ।
पत्तो य सुसामन्नं किं पुण जिणवुत्तसुत्तेण^{६१} ॥ ७७५
- ” ७ (२६) दढसुप्पो सूलहदो पंचनमोक्कारमेत्तसुदनाणो^{६२} ।
उवउत्तो कालगदो देवो जादो महड्ढीओ^{६३} ॥ ७७६
- २९ १ (२७) जीववधो^{६४} अप्पवधो^{६४} जीवदया होदि^{६५} अप्पणो हु दया ।
विसकटओ व्व हिंसा परिहरिदव्वा^{६६} तदो होदि ॥ ७९६
- ३० १ (२८) मारेदि एगमवि^{६७} जो जीव सो बहुसु जम्मकोडीसु ।
अवसो मारिज्जतो मरदि विघाणेहि बहुएहि^{६८} ॥ ८०२
- ” ” (२९) पाणो वि पाडिहेर पत्तो छूढो वि सुसुमारदहे ।
एगेण एगदिवसक्कदेण^{६९} हिंसावदगुणेण^{७०} ॥ ८२१
- ” ८ (३०) सच्च भणति^{७१} रिसओ रिसीहिं विहियाउ^{७२} सव्वविज्जाउ^{७३} ।
मेच्छस्स वि सिज्झति य विज्जाओ सच्चवाइस्स^{७४} ॥ ८३६
- ३० ९ (३१) पावस्सासवदार^{७५} असच्चवयण भणति हु जिणिदा ।
हियएण^{७६} अपावो वि हु मोसेण वसू^{७७} गदो^{७७} निरयं ॥ ८४८

४८ क दु, ख खु । ४९ क ख गो । ५० क ख ग्रहो । ५१ क ख एया । ५२ क ख इ ।
५३ क ख वतस्स ५४ क किह, ख किध । ५५ क ख वीज । ५६ क हृदि । ५७ क ख मतस्स ।
५८ क ख गेण । ५९ क ख जमो । ६० क ओ । ६१ क ख जिणउत्त । ६२ क ख णाणे ।
६३ क महड्ढीओ । ६४ क ख वहो । ६५ क होइ । ६६ ख यव्वा । ६७ क एय । ६८ ख गेहि ।
६९ ख अप्पकाल । ७० ख अहिंसा ७१ क ख वदति । ७२ क ख विहिदाउ । ७३ क सच्च ।
७४ क ख वादिस्स । ७५ क पाप । ७६ क हिदयेण, ख हिदएण । ७७ क ख गदो वसू ।

कहकोमु

सन्धि कडवक क्र० स०

अ० भा०

- ३२ २ (३२) परदव्वहरणवुद्धी सिरिभूदी नयरमज्झयारम्मि ।
होदूण हदो पहदो पत्तो⁷⁸ दीह च ससार⁷⁸ ॥ ८७३
- ३३ १ (३३) निच्च⁷⁹ पि कुणदि कम्म कुलउत्तदुगुच्छिद⁸⁰ विगदमाणो ।
वारत्तओ⁸¹ वि कम्म⁸¹ अकासि जह लखियाहेदु⁸² ॥ ९०८
- ” ६ (३४) वारसवरिसाणि⁸³ वि संवसित्तु कामादुरो न नासीय⁸⁴ ।
पादगुट्टमसंत गणियाए गोरसदीवो ॥ ९१४
- ३४ १ (३५) इहलोए वि महल्लं दोसं कामस्स वसगओ⁸⁵ पत्तो ।
कालगदो वि य पच्छा कडारपिगो गदो निरय ॥ ९३४
- ३५ १ (३६) ओघेण⁸⁶ न वूढाओ जलंतघोरगिणा न दड्ढाओ⁸⁷ ।
सप्पेहिं सावएहिं⁸⁸ य⁸⁹ १०परिहरिदाओ वि⁸⁹ काओ⁹⁰ वि ॥ ९९८
- ” ५ (३७) साहु⁹¹ पडिलाहेदु गदस्स सुरदस्स⁹² अग्गमहिसीए ।
नट्टं सदीए अंग कोढेण मुहुत्तमेत्तेण⁹³ ॥ १०६१
- ” ९ (३८) जादो हु⁹⁴ चारुदत्तो गोट्ठीदोसेण तह विणीदो वि ।
गणियासत्तो मज्जे⁹⁵ सत्तो कुलयनासओ⁹⁶ य तथा ॥ १०८२
- ४३ ४ (३९) सभूदो वि निदाणेण देवसोक्खाइं⁹⁷ चक्किसोक्खाइं⁹⁸ ।
पत्तो तत्तो य चुदो उववन्नो नरयवासम्मि⁹⁹ ॥ १२८२

‘कहकोमु’ में उद्धृत अन्य प्राकृत गायार्ण

- १ ९ (१) जिह कुड्डेण विहूण आलेक्खं नत्थि जीवलोयम्मि ।
तिह पवयेण विहूण पावंति कह न सोयारा ॥
- ५ १५ (२) धम्मो जयवसियरण धम्मो चिंतामणि अणघेउ ।
धम्मो सुहवसुधारा धम्मो कामदुहा घेणू ॥

७८ क ख सो दीहससार । ७९ क ख णीच । ८० क ख *पुत्तदुगुच्छियं । ८१ क *तओ वि कुकम्म, ख वारित्तगो वि० । ८२ क ख लघिया । ८३ क ख *वासाणि । ८४ क याणीय । ८५ क ख वसगदो । ८६ ख उग्घेण । ८७ क दग्घाओ । ८८ क *देहि, ख *ज्जेहिं । ८९ ख वि हरिदा खट्ठा ण । ९० क *दाओ य काओ । ९१ क ख साधु । ९२ *यस्स । ९३ क ख जहा मुहुत्तेण । ९४ क ख खु । ९५ क ख मज्जा । ९६ क ख कुलदूसओ । ९७ क *सुक्ख च, ख *सोक्ख च । ९८ क चक्कहरसुक्ख, ख चक्कधरसोक्ख । ९९ क ख निरयं ।

- ” ” (३) कि जपिदेण बहुणा ज जं दीसेइ जीवलयम्मि ।
इदियमणोहिराम त त धम्मफलं सव्व ॥
- ५ १६ (४) धणसचयादो वर पुण्णसचओ एस पडिदा वेत्ति ।
धम्मो मदमणुगच्छदि धण पि अन्ने विलुपति ॥
थोव थोव धम्म करेह जइवि हु बहु न पारेह ।
विरला वि रुक्खळाया नं होदि दुक्खावहा नूण ॥
- ६ ९ (५) पलियक-निसेज्ज-गदो पडिलिहिय कयजली कदपणामो ।
सुत्तत्थजोगजुत्तो पडिदव्वो आदसत्तीए ॥ (मूलाचार २८१)
- ” ” (६) विणएण सुदमधीद जदि वि पमादेण कह व वीसरिद ।
त उवठादि परभवे केवलनाणं च आवहदि ॥ (मूलाचार २८६)
- ६ १० (७) आयबिल निव्वियडी अन्न वा जस्स होदि जं जोग्ग ।
त तस्स करेमाणो उवघाणपरो हवदि एसो ॥ (मूलाचार २८२)
- ६ - १३ (८) सुत्तत्थ जपंतो वायतो चावि निज्जराहेदु ।
आसादण न कुज्जा तेण कद होदि बहुमाण ॥ (मूलाचार २८३)
- ९ ४ (९) चोल्लय पासय धन्ने जूद रयण सिविण चक्क च ।
कुम्म जुग परमाणू दसं दिट्ठता मणुयलभे ॥
- ११ ७ (१०) एक्का वि जिणे भत्ती निद्धिटा दुक्खलक्खनासयरी ।
सोक्खाणमणताण होदि हु सा कारण परम ॥
- २० २१ (११) एक्कम्मि भवग्गहणे समाहिमरणेण जो मदो जीवो ।
न हु सो हिडदि बहुसो सत्तट्ठभवे पमोत्तूण ॥
- २३ १६ (१२) दीहकालं वयं वुत्था पादवे निरुवद्वे ।
मूलादो उट्ठिदा वल्ली जाद सरणदो भय ॥
- २३ १८ (१३) जेण भिक्ख बलि देमि जेण पोसेमि अप्पयं ।
तेण मे पट्टिया भग्गा जाद सरणदो भय ॥
- २४ १ (१४) सव्व विस जहि सलिल सव्वारन्न च कूडसच्छन्न ।
राया य सय वाहो तत्थ मयाण कुदो वासो ॥
- २४ २ (१५) जेण बीया परोहति जेण सिप्पति पादवा ।
तस्स मज्झि मरिस्सामि जाद सरणदो भय ॥
- ३३ १० (१६) सवणवरगधहत्थी गिहबधणनेहनियलउम्मुक्को ।
महिलागणियारिरओ पेच्छह किह बधण पत्तो ॥

- ” १७ (१७) पव्वयपुहइपओनिहिसमसारो सव्वरयणसारेसु ।
पेच्छह तिणतुसतुल्लो जाओ सो जुवइसगेण ॥
- ३४ १२ (१८) दरियारिदप्पभजण परमेसर जणियजणमणाणद ।
दुत्थियकप्पमहीरुह जसघवल चिरं तुम जीय ॥

‘कहकोसु’ में उद्धृत संस्कृत पद्य

- ५ १२ (१) आलोचनैर्निन्दनगर्हणैश्च व्रतोपवासैः स्तुतिसकथाभि ।
शुद्धैश्च योगैः क्षपण करोति विपप्रतीघातमिवाप्रमत्तः ॥
- ५ १५ (२) सर्वे वेदा न तत् कुर्युः सर्वयज्ञाश्च भारत ।
सर्वतीर्थाभिषकश्च यत्कुर्यात्प्राणिनां दया ॥
एवमादि धर्मज्ञास्त्रकारैः धर्मफलं वर्णितमिति ।
- ७ १५ (३) शूद्रान्न शूद्रसुश्रूपा शूद्रप्रेषणकारिता ।
शूद्रदत्ता च या वृत्तिः पर्याप्त नरकाय तत् ॥
- ” (४) न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम् ।
न चास्योपदिशेद् धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥
- ७ १७ (५) न स्यातव्य न गन्तव्य दुष्टेन सहकर्मणा ।
शौण्डे सह पय पीत वारुणी मन्यते जनः ॥
- ७ १८ (६) विकालचर्या विपमा च गोष्ठी कुमित्रसेवा न कदापि कुर्यात् ।
पश्याण्डज पद्मवने प्रसूतं धनुर्विमुक्तेन शरेण ताडितम् ॥
- ८ ४ (७) माताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्षिणः ।
अह मुनिभिरानीतः स तु नीतो गवाशनैः ॥
- ” (८) शृणोति वाक्यं स गवाशनानामहं च राजन्मुनिपुङ्गवानाम् ।
प्रत्यक्षमेतद् भवता हि दृष्टं ससर्गजा दोषगुणा भवन्ति ॥
- ११ १७ (९) भवविच्छेदिनी दीक्षा निरवद्या सुनिर्मला ।
नृपशूनां हितार्थाय महादेवेन भाषिता ॥
- ” (१०) न चातुर्यशतेनापि शार्वा सा हन्यते सती ।
गुरुद्रोहादृते पुसामित्याह परमेश्वर ॥
- १२ १३ (११) किं न दद्यात् किं न कुर्यात् स्त्रीभिरभ्यर्थितो नर ।
अनश्वोऽप्यश्वतां याति अपर्वणि मुण्डितं शिरः ॥

- १८ १५ (१२) पूजितव्यो जिनो नित्य त्रैलोक्येश्वरपूजित ।
जिनपूजासम पुण्य न भूत न भविष्यति ॥
- २० ६ (१३) भारते मुरारिणा—त्वमारोह रथ पार्थं गाण्डीव चापि धारय ।
निर्जिता मेदिनी मन्ये निर्ग्रन्थो मुनिरग्रतः ॥
- ” (१४) शकुनशास्त्रे च—श्रवणस्तुरगो राजा मयूरः कुञ्जरो वृष ।
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे सिद्धिकरा स्मृताः ॥
- ” (१५) ज्योतिषाङ्गे च—पद्मिनी राजहसाश्च [निर्ग्रन्थाश्च] तपोधनाः ।
यद्देशमुपसर्पन्ति तद्देशे शुभमादिशेत् ॥
- ” (१६) धर्मशास्त्रे च—यागी च याज्ञी च तपोधनश्च
सूरोऽथ राजाथ सहस्रदशच ।
ध्यानी च योगी च तथा शतायु
सदर्शनादेव हरन्ति पापम् ॥
- २० २० (१७) उदकागमे यथा रुद्धे सरः शोषति भास्करः ।
तथोपवासयोगेन प्राणी पापं विशोधयेत् ॥
- ” (१८) श्रूयते सर्वशास्त्रेषु तपो नानशनात्परम् ।
पापाना क्षयहेतुत्वात्सर्वसौख्यप्रदायकम् ॥
- ” (१९) देवा गन्धर्वयक्षा वा पिशाचोरगराक्षसाः ।
व्रतोपवासयोगेन वश गच्छन्ति तत्क्षणात् ॥
- ” (२०) विद्यामन्त्रास्तथौषध्यो योगाश्च वशकारकाः ।
सिध्यन्ति ह्युपवासेन क्षीयन्ते च जरादयः ॥
- २२ १६ (२१) साव्येनापि [स्वार्थेनापि] नमस्कार यः करोति जिनेश्वरे ।
स निस्तरति ससार किं पुन परमार्थत ॥
- २३ ५ (२२) उपकारशतेनापि गृह्यते न पर क्वचित् ।
सुगृहीत सुमान्यो वा य पर पर एव स ॥
- ” (२३) अफनस्यापि वृक्षस्य छाया भवति शीतला ।
निर्गुणोऽपि वर वधुर्यं पर पर एव स ॥
- २३ १७ (२४) वृद्धवाक्य सदाकृत्य ये च वृद्धाः बहुश्रुता ।
पश्य हसा वने बद्धा वृद्धवाक्येन मोचिता ॥
- २६ ७ (२५) यो दद्यात्काञ्चन मेरु कृत्स्ना चापि वसुन्धराम् ।
एकस्य जीवित दद्यात् फलेन न सम भवेत् ॥

- ” (२६) हिरण्यदानं गोदान भूमिदान तथैव च ।
एकस्य जीवित दद्यात् फलेन न समं भवेत् ॥
- ३१ १० (२७) नभश्चरः सर्वजनप्रधानो वसुर्महात्मा वसुधातलेऽस्मिन् ।
एकेन मिथ्यावचनेन राजा रसातल सप्तममाससाद ॥
- ” (२८) साकेतपुर्यां सुलसानिमित्तं कृतं निदानं मधुपिङ्गलेन ।
परोपराभ्यागमनं च तस्याः को नाशृणोत् भारतजातमर्त्यः ॥
- ३६ ११ (२९) अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इति ।
- ३६ १२ (३०) नाहं स्वर्गफलोपभोगतृपितो नाम्यर्थितस्त्व मया ।
सन्तुष्टस्तृणभक्षणेन च गुरुस्त्व मे न चाहं सुतः ॥
स्वर्गं नेतुमभीप्ससे यदि भवेद् वेदे च तथ्या श्रुति ।
यज्ञं किं न करोषि मातृपितृभिः पुत्रैस्तथा बान्धवैः ॥
- ” (३१) यूथादीनां तमेकं सरसकिसलयग्रासमात्रोपभोज्यं ।
मुग्धं यूषे निबद्धं भयतरलदृशं कम्पमानं वराकम् ॥
वे वे ति व्याहरन्त पशुमिति विवशं निघ्नता याज्ञिकानाम् ।
मन्ये वज्रातिरेकं न दलति हृदयं तत्क्षणादेव सद्यः ॥
- ३९ १६ (३२) उर्वशी ब्रह्मणो भार्या वेश्या विख्यातसुन्दरी ।
तस्याः पुत्रो वसिष्ठाख्यो वेदे विप्रगणेशितः ॥
- ५२ ३ (३३) यत्र यत्रोपपद्यन्ते जीवाः कर्मवशानुगाः ।
तत्र तत्र रतिं यान्ति कर्मणा तेन रञ्जिताः ॥
- ५३ ७ (३४) नन्दस्य राज्ये मदविह्वलाया हस्ताच्छ्रुतं स्वर्णघटोऽम्बुरिक्तः ।
सोपानमासाद्य करोति शब्दं रणं रणं टटणं टटणेति ॥
- ” (३५) उत्पलनालकृताभरणा सा त्वं न गतं स्थितं सा पि निराशा ।
अद्य कृतं कमलं कमलादयाः कर्कशनालमकर्कशनालम् ॥
- ५३ १२ (३६) उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दुर्बुद्धे न त्वं किमपि बुद्धयसे ।
स्मरं रिक्षं तथा व्याघ्रं न्यग्रोधे यत्त्वया कृतम् ॥
- ” (३७) नेतासी सर्वहत्याना यो मित्रं हन्ति दुर्मतिः ।
मित्रधुक् नरकं याति न जातु सुखमेधते ॥
- ” (३८) बालहन्यावलाहत्या वृद्धहत्या वरकृता ।
न पापा मित्रहत्या सावनतासुखदायिनी ॥

- „ (३९) तेन त्व पाप पापेन दुस्सहेन नराधम ।
दह्यसे हृदयस्थेन शुष्कवृक्षो यथाग्निना ॥
- „ (४०) हन्ति जातौ विजातौ च ह्युभौ पक्षौ नराधम ।
यो मित्रं सुखमासीन छद्मनैव प्रयच्छति ॥
- „ (४१) किं त्वदीयं कृत तेन मित्रेणाभयदायिना ।
येन निद्रावशीभूत त त्वं हन्तुं समुद्यतः ॥
- „ (४२) चित्ताह्लादकृत मित्र विश्वस्त च हिनस्ति यः ।
पापादपि स पापीयान्यथा त्वमसि दुर्मते ॥
- „ (४३) दुष्टात्मानं न जानासि यथा शास्त्रेषु पठ्यते ।
मित्रद्रोहात्पर पाप न भूत न भविष्यति ॥
- „ (४४) सेतु यातु समुद्र वा गङ्गाद्याः सरितोऽथवा ।
ब्रह्महा मुच्यते तत्र मित्रधुग् नैव मुच्यते ॥
- „ (४५) मित्रवन्धुपरित्यक्तः सुहृद्भृत्यविवर्जितः ।
लोकानलभमानस्तु नरके निपतिष्यति ॥
- „ (४६) ग्रामवासी मनुष्यस्त्वमटव्या त्वत्प्रयोजनम् ।
पशूनां नरगार्दूल कथं जानासि भाषितम् ॥
- „ (४७) हृदये मम सावित्री जिह्वाग्रे च सरस्वती ।
तेनाह नृप जानामि भारुका [गुह्यान्ते ?] तिलकं यथा ॥

कथाओं की, भगवती आराधना की आधार गाथाओं सहित, हरिषेण कृत कथाकोश
से तुलनात्मक सारिणी ।

१	२	३	४	५	६	७
क्रमांक	स्थान	कथा-नायक	विषय	भ. आ गाथांक	ह क क्रमांक	विशेष
१	१,६	भरत चक्री	लौकिक उद्योतन	१,३		
२	१,१०	साधु	लोकोत्तर उद्योतन	„		
३	१,११	जितशत्रु	लौ. उद्यमन	„		
४	१,१२	मुनि	लोको. उद्यमन	„		
५	„	सुखी नर	लौ निर्वहन	„		
६	१,१३	सयमी	लोको निर्वहन	„		

१	२	३	४	५	६	९
७	"	आहारादि सुख	लौ सिद्धि	"		
८	"	मोक्ष सुख	लोको सिद्धि	"		
९	"	रावण	लौ. साधन	"		
१०	१,१४	रत्नत्रय	लोको साधन	"		
११	"	ऋषभदत्त वणिक	लौ. निस्तरण	"		
१२	"	मुनि	लोको निस्तरण	"		
१३	१,१५	जिनदत्त रा कु	परिकर्म हीनता	१९,२२	१	
१४	१,१६	सूरदत्त रा कु	परि साधना			
१५	१,१८	सोमशर्मा	स्थाणु-निधि-लाभ	२४	२	
१६	१.२०	विष्णुदत्त	" (लौकिक)	"	३	
१७	२,१	सोमदत्त	सम्यक्त्व का अतिचार शका	४४	४	
१८	२,३	अजन चोर	सम्यक्त्व का अग-अशका	"	"	
१९	२,६	विश्वभर रा कु	काक्षा	"	५	
२०	"	यशोधर रा कु	निष्काक्षा	"	"	
२१	२,१०	जय राजकुमार	विचिकित्सा	"	६	
२२	"	विजय राजकुमार	निर्विचिकित्सा	"	"	
२३	२,१२	भवसेन	मूढदृष्टिता	"	७	
२४	"	रेवती	अमूढदृष्टिता	"	"	
२५	३,१	चेलना रानी	उपगूहन	४५	८	
२६	३,५	श्रेणिक राजा	"	"	९	
२७	३,८	वारिषेण	स्थितिकरण	"	१०	
२८	३,१२	विष्णुकुमार	वात्सल्य	"	११	
२९	४,१	वज्रकुमार	प्रभावना	"	१२	ह क. मे वैरकुमार नाम है।
३०	५,१	धनपाल नृप	श्रद्धान	४८	१३	ह क मे राजा का नाम विनयधर है।
३१	५,३	बुद्धिमती	आत्मनिन्दा	८९	१४	
३२	५,१२	सोमदत्त मुनि	लोच (उग्रतप)	९४	१६	ह क. कोश मे १५ वी कथा 'प्रिय- वीरा-महागर्हस्थान नामक है।
३३	५,१७	वीरभद्र मुनि	काल-विनय	११५	१७	
३४	५,१९	शिवनन्द मुनि	"	"	१८	ह क मे मुनि-नाम अभिनन्दन है।

१	२	३	४	५	६	७
३५	६,१	धनसेन	श्रुत विनय	"	१६	
३६	६,६	वसुपाल नृप	उपधान वि		२०	
३७	६,१०	नन्दा ग्वाली	बहुमान वि.	११५	२१	
३८	६,१३	कृष्णसंदीप	गुरुनिहव	११५	२२	
३९	६,१८	वीरसेन नृप	व्यजन हीन	"	२३	
४०	६,२०	वसुपाल नृप	अर्थ हीन	"	२४	
४१	६,२२	पद्म नृप	उभय हीन	"	२५	
४२	६,२४	धरसेन मुनि	उभयशुद्धि	"	२६	
४३	७,१	नागदत्त मुनि	एकत्व भावना	२०६	२७	
४४	७,७	शूरमित्र-शूरचन्द्र	सल्लेखन	२६७	२८	
४४	७,११	वासुदेव	वैयावृत्य	३३३	२९	
४५	७,१४	धनदत्त	लघुत्व	३५०	३०	
४६	७,१५	शिवभूति	दुर्जन ससर्ग	३५१	३१	
४७	७,१७	घूक-हंस	कुमित्र-ससर्ग	३५३	३२	
४८	८,१	हरिषेण चक्री	सज्जन ससर्ग	३६१	३३	
४९	९,१	वासुदेव	सज्जन स्वभाव	३७८	३४	
५०	९,४	ब्रह्मदत्त चक्री	मनुष्य जन्म की दुर्लभता पर चोत्लक १० दृष्टान्त		३५	
५१	९,९	द्यूतकार	पाशक २		३६	
५२	९,१०	भीमकायनर	धान्य ३		३७	
५३	९,१०	प्रजापाल नृप	धान्य "		३८	
५४	९,११	द्यूतकार	द्यूत ४		३९	
५५	९,११,९	निर्लक्षण	द्यूत "		४०	
५६	९,१३	भरतादि चक्री	रत्न ५		४१	
५७	९,१३,७	सागर दत्त	रत्न "		४२	
५८	९,१३,१२	कवाडी	स्वप्न ६		"	
५९	९,१४	अर्जुन	चक्र ७		४३	
६०	९,१५	कच्छप	कूर्म ८		४४	
६१	९,१५,१०	शमिला	युग्म ९		"	
६२	९,१५,१२	सव चक्रियो का दण्डरत्न	परमाणु १०		"	
६३	९,१६	सागरदत्त	सत्यालोचन	५५३	४५	
६४	१०,१	सघश्री	मिथ्या भाषण	७३६	४६	
६५	११,१	सागरदत्त	भावानुराग	७४१	४७	ह क मे नायक नागदत्त

१	२	३	४	५	६
६६	११,१	द्रव्यदत्त	प्रेमानुराग	"	४८ " " वसुमित्र
६७	११,४	जिनदत्त आदि	मज्जानुराग	"	४९
६८	११,५	लकुच कुमार	घमनुराग	"	५०
६९	११,७	पद्मरथ नृप	जिनभक्ति	"	५१
७०	११,१०	ब्रह्मदत्त चक्री	दर्शनभ्रष्ट	७४३	५२
७१	११,१३	जिनदास	दर्शन दृढता	"	५३
७२	११,१६	जिनमती	"	"	५४ ह. क. मे नाम 'रुद्रदत्त प्रिया-प्रबोध कथा ।
७३	१२,१	श्रेणिक नृप	सम्यक्त्व शुद्धि	७४४	५५
७४	१६,१	करकण्ड नृप	जिनभक्ति	७५०	५६
७५	१६,१	रोहिणी	" फल	"	५७
७६	२१,१	धीरकदम्ब भील	गुरुभक्ति	७५२	५८
७७	२१,७	घन्वन्तरि चोर	"	"	५९
७८	२१,१३	जिनदास सेठ	"	"	" (श्लोक ६६)
७९	२१,१५,६	पद्मरथ नृप	"	"	" (श्लोक ११२)
८०	२२,१	सुभग गोपाल सुदर्शन सेठ	नमोकार मंत्र	७६२	६०
८१	२३,१	यम मुनि	शास्त्र भक्ति	७७५	६१
८२	२३,७	दृढमूर्ध चोर	"	७७६	६२ ह. क. मे दृढसूर्य
८३	२३,१०	उदितोदित नृप	मर्यादा पालन	"	६३
८४	२३,१३,५	सुयोधन नृप व तलवर	मर्यादापालन की ७ कथायें	"	" श्लोक २१
८५	२३,१,६,८	हंस	कथा १	"	"
८६	२३,१८	कुलाल	२ मृत्तिका से हानि		
८७	२३,१८,८	वरधर्म नृप	३ नरबलि		
८८	२४,१	मृग	४ सर्वत्र विष और पाग		
८९	२४,१,५	चित्रकवि	५ जीवनदायी जल से हानि		
९०	२४,१,१४	सुभद्र नृप	६ भक्षक ही रक्षक		
९०	२४,२	यशोभद्र वणिक्	७ माता का वस्त्र		६३ (श्लोक १३३)
९१	२४,४	अर्हंदास सेठ व अजन चोर	सम्यक्त्व प्राप्ति		" (श्लोक १६६)
९२	२५,१	मित्रश्री	"		६४
९३	२५,११	खड्गश्री	"		६५

१	२	३	४	५	६	७
६४	२६,१	विष्णुश्री	"		६६	
६५	२६,१२	नागश्री	"		६७	
६६	२७,१	पद्मलता	"		६८	
६७	२७,६	कनकलता	"		६९	
६८	२८,१	विद्युल्लता	"		७०	
६९	२८,१३	कुन्दलता	"		"	(श्लोक १४०)
१००	२९,१	सुदाम व छेलक	जीवहिंसा के कुफल	७९६	७१	
१०१	२९,५	मृगसेन धीवर	जीवदया	"	७२	
१०२	३०,१	यशोधर	हिंसा के कुफल	८०२	७३	इस कथा की यहाँ सूचना मात्र है कि 'सुप्रसिद्धत्वाच्च लिखितम्, ह क मे पूरी है।
१०३	३०,१	यमपाश चाडाल	जीवदया	८२१	७४	
१०४	३०,८	मातंग	सत्यव्रत	८३६	७५	
१०५	३०,९	वसुराज व नारद-पर्वत	असत्य का कुफल	८४८	७६	
१०६	३१,१	सगर	"	"	"	(श्लोक १५६)
		मधुर्पिगल व सुलसा				
१०७	३२,१	समुद्रदत्त	धन-लोभ		७७	
१०८	३२,२	श्रीभूति	परद्रव्य-हरण	८७३	७८	
१०९	३३,१	वारत्रक-लखिका	नीचकर्म	९०८	८०	ह. क. की ७९ वी इन्द्रादिमुनिदत्ताविकृति कथा यहाँ नहीं है।
११०	३३,६	द्वीपायन (गौरसदीप) व तनुसुन्दरी	कामासक्ति	९१४	८१	
१११	३४,१	कडारपिग	"	९३४	८२	
११२	३४,५	महाभारत	मान व नारी		८३	} इन दोनों कथाओं की यहाँ सूचना मात्र है।
११३	"	रामायण	" "		८४	
						ह क मे वे विस्तार से वर्णित है।
११४	३४,८	देवरति नृप मित्रमती	नारी दोष	"	८५	
११५	३४,१३	सिंहवल नृप गोमती	"	"	८६	

१	२	३	४	५	६	७
११६	३४,१५	वीरवती	पतिघात	"	८७	
११७	३५,१	रोहिणी	नारी-गुण	६६८	८८	
११८	३५,४	सीता	"	"	८९	निर्देश मात्र । ह. क. मे सक्षेप ।
११९	"	सोमा	"	"	×	निर्देश मात्र । ह. क. मे नहीं ।
१२०	"	जिनदासी	"	"	९०	
१२१	३५,५	सती (महादेवी)	मुनि अनादर	१०६१	९१	
१२२	३५,७	त्रिविक्रम	मधुत्रिन्दु दृष्टान्त	"	९२	
१२३	३५,९	चारुदत्त सेठ	वेश्यागमन	१०८२	९३	
१२४	३७,१	शकट मुनि	नारी ससर्ग	"	९४	
१२५	३७,४	कूचंवार मुनि	"	"	९५	ह. क. मे नाम कूपकार
१२६	३७,७	पराशर	"	"	९६	
१२७	३८,८	सात्यकि रुद्र (नील लोहित)	"	"	९७	
१२८	३९,१	नमि, दुर्मुख, करकडु व नगई (राजमुनि)	"	"	९८	
१२९	३९,११	ब्रह्मा उर्वशी	"	"	९९	
१३०	४०,१	घतमित्र	रत्न से कुबुद्धि	"	१००	यहाँ सकेत मात्र क्योंकि पूर्वोक्त.
१३१	"	"	घन निमित्त नाश	"	१०१	
१३२	"	मणिचन्द्र मुनि जिनदत्त सेठ व अचुकारिका	घननिमित्त मुनिक्षोभ	"	१०२	
१३३	४०,१२	कपिला-नकुल	अविवेक	"	१०२.२	
१३४	४०,१४	वैद्य-न्याय	"	"	१०२.३	
१३५	४०,१६	भद्रसाड	"	"	१०२.४	
१३६	४०,१७	तापस-गवहस्ती	"	"	१०२.५	
१३७	४०,१८	विश्वसेन आम्रवन	"	"	१०२.६	
१३८	४०,१९	वसुशर्मा-सीमान्त वृक्ष	"	"	१०२.७	
१३९	४०,२०	शशिभद्र डिडिभ	"	"	१०२.८	
१४०	४०,२१,६	मेदार्य-क्रौंच (मयूर)	"	"	१०२.१०	ह. क. की १०२.९ की कथा यहाँ नहीं है ।

१	२	३	४	५	६	७
१४१	४१,१	पिन्नकगव वणिक्	वन लोभ से मृत्यु	"	१०४	ह. क मे १०३ वी कथा अचुकारिका की सूची मात्र है, क्योंकि वह पहले आ चुकी है।
१४२	४१,५	फडहस्तक सेठ मेदार्य मुनि	घनलोभ	"	१०५	
१४३	४२,१	उग्रसेन-वसिष्ठ	निदान से अनिष्ट	"	१०६	
१४४	४३,१	लक्ष्मीमती	मान के कुफल	"	१०८	ह. क. मे १०७ वें क्रमांक पर सागर-दत्त कथा है जो यहां नहीं है।
१४५	४३,४	चित्र-संभूत	निदान का कुफल	१२८२	१०९	
१४६	४३,६	पुष्पदन्ता रानी	मायाचारी का कुफल	"	११०	
१४७	४३,८	मरीचि	मिथ्यात्व	"	१११	
१४८	४३,१०	गारुडिक अगन्धन सर्प (कुलजात)	मर्यादा का अभंग	"	११२	
१४९	४३,१४	गंधमित्र	घ्राणेन्द्रिय दोष	"	११३	
१५०	४३,१६	पांचाल-गंधर्वदत्ता	कर्णेन्द्रिय दोष	"	११४	
१५१	४३,२०	भीम नृप	जिह्वेन्द्रिय दोष	"	११५	
१५२	४३,२२	भद्रमित्र	नयनेन्द्रिय दोष	"	११६	
१५३	४४,१	नागदत्ता	स्पर्शेन्द्रिय दोष	"	११७	
१५४	४४,४	द्वीपायन	क्रोधकषाय दोष	"	११८	
१५५	४४,८	सगरपुत्र	मान "	"	११९	
१५६	४४,१०	कुम्भकार	माया "	"	१२०	
१५७	४४,१२	मृगध्वज	लोभ "	"	१२१	
१५८	४४,१७	कातवीर्य	"	"	१२२	
१५९	४५,१	शीलसेन्द्र नृप (नीलसिंह)	ध्रुवा परीपह जय	"	१२४	ह. क मे १२३ क्रमांक की सिंह-केसर कथा यहां नहीं है।
१६०	४५,३	अवन्ति सुकुमाल मुनि	परीपह-जय	"	१२६	ह. क मे १२५ क्र की शिवभूति कथा यहां नहीं है।

१	२	३	४	५	६	७
१६१	४६,१	सुकोशल मुनि	"	"	१२७	
१६२	४७,१	गजकुमार मुनि	"	"	१२८	
१६३	४६,२	सनत्कुमार चक्री	"	"	१२९	
१६४	४७,६	एणिकापुत्र	"	"	१३०	
१६५	४७,७	भद्रवाहु	"	"	१३१	
१६६	४७,१६	इन्द्रदत्तादि वणिक् (समुद्रदत्तादि)	"	"	१३२	
१६७	४८,१	धर्मघोष मुनि	"	"	१३३	
१६८	४८,२६	श्रीदत्त मुनि (श्रीधर)	परीपह-जय		१३४	
१६९	४८,६	वृषभसेन मुनि	"		१३५	
१७०	४८,१५	स्वामि कार्तिकेय	"		१३६	
१७१	४८,२२	अभयघोष मुनि	"		१३७	
१७२	४९,१	विद्युच्चर मुनि	"		१३८	
१७३	४९,६	गजकुमार मुनि	"		१३९	
१७४	५०,१	चिलातपुत्र	"		१४०	
१७५	५०,६	घन्यकुमार	"		१४१	
१७६	५०,१०	अभिनन्दनादि मुनि	"		१४२	
१७७	५०,११	चाणक्य मुनि	"		१४३	
१७८	५०,१६	वृषभसेन मुनि	"		१४४	
१७९	५१,१	श्रीपाल कुमार	"		१४५	
१८०	५१,५	नामवादि वणिक्- पति क्षुधार्त पुरुष	उच्छिष्ट भक्षण		१४६	
१८१	५१,७	शालिसिक्थ	आहार गृद्धि		१४७	
१८२	५१,८	सुभौम चक्री	फलरम गृद्धि		१४८	
१८३	५१,९	घनदेवादि	कामासक्ति		१५०	ह क मे क्र १४९ की सुप्तपुरुष राज्य दर्शन कथा यहाँ नहीं है।
१८४	५२,१	सुभोग नृप	कर्मफल प्रावल्य		१५१	
१८५	५२,३	सुकोशल स्वामी	"		१५२	
१८६	५२,४	सुदृष्टि मुनि	"		१५३	
१८७	५२,६	धर्मसिंह मुनि	व्रतभग		१५४	
१८८	५२,८	ऋषभदत्त मुनि	"		१५५	
१८९	५२,१०	जयसेन नृप	आत्मघात द्वारा सघ-रक्षा		१५६	
१९०	५३,१	शकटाल मुनि	शस्त्र-मरण		१५७	

कथा-सूची

संघि—१

कडवक	पृष्ठ
१. जिनेन्द्र को नमस्कार करके श्रीचन्द्र कवि का संसार की क्षणभंगुरता सबधी चिन्तन ।	१
२. धन की सार्थकता—पात्रदान ।	१
३. मनुष्य भव की तथा शुद्ध देश, वश, निरोगत्व, सत्सग व सबोधन की दुर्लभता ।	२
४. पूर्वाक्त गुणो को पाकर तप, ध्यान व अध्ययन द्वारा मोक्ष के चिन्तन का उपदेश ।	२
५. स्वाध्याय से लाभ व चित्त के वशीकरण द्वारा श्रेष्ठ वाणी से देव, शास्त्र, गुरु व धर्म विषयक काव्य-रचना का उपदेश ।	३
६. ग्रथकार का साधन-विहीनता सबधी विनय-प्रकाशन व धर्म मे दृढ़ भक्ति होते हुए भी कथाकोश-रचना की शक्ति मे सशय ।	३
७ तथापि पूर्व महर्षियो व सत्कवियो की रचनाओ के आधार से कथाकोश रचना का सकल्प ।	३
८. कथाकोश की पूर्वपरम्परा मे मूलाराधना का स्थान व उसी की गाथाओ के आधार मे प्रस्तुत रचना की सूचना ।	४
९. भगवती आराधना की प्रथम और द्वितीय गाथाओ का उद्धरण, उनकी व्याख्या, उद्योतनादि भेद तथा लौकिक उद्योतन का दृष्टान्त-भरत चक्रवर्ती की विभूति ।	४
१० लोकोत्तर उद्योतन का दृष्टान्त-मोक्षगामी साधु ।	५
११. लौकिक उद्यमन का दृष्टान्त-जितशत्रु का उद्यान ।	६
१२. लोकोत्तर उद्यमन का दृष्टान्त-मुनिचर्या द्वारा सिद्धि, लौकिक निर्वहन का दृष्टान्त-सुखी नर ।	६
१३ लोकोत्तर निर्वहन का दृष्टान्त-सयमी मुनि द्वारा प्राप्त सिद्धि का सुख । लौकिक सिद्धि का दृष्टान्त-आहारादि सामग्री का सुख-भोग । लोकोत्तर सिद्धि-दर्शन ज्ञानादि द्वारा मोक्षसुख । लौकिक साधन-रावण का विद्या-सिद्धि साधन का सुख ।	६
१४. लोकोत्तर साधन-रत्नत्रय रूपी विद्यासाधन द्वारा मोक्ष-सुख । लौकिक निस्तरण-ऋषभदत्त द्वारा वाणिज्य से अर्जित धन का सुख । लोकोत्तर निस्तरण सम्यक्त्व रूपी रत्न द्वारा मोक्षसुख ।	७
१५ आराधना कार्य मे परिकर्म की आवश्यकता । उदाहरण, शस्त्राम्यास-हीन जिन-दत्त का पराभव ।	७
१६ शस्त्राम्यास-सम्पन्न सूरदत्त की विजय ।	८
१७ सूरदत्त की विजय से लक्ष्मी और प्रशंसा की तथा मुनिदीक्षा द्वारा मोक्ष की प्राप्ति ।	८
१८. योग के अनम्यासी का मरणकाल मे आराधक होना स्थाणु-निधि के लाभ के समान है-कथानक-मूर्ख साधु सोमशर्मा ने ज्ञान-सम्पादन से निराश हो समाधि मरण का विचार किया ।	९

- १६ वह पाच दिन समाधि की साधना कर स्वर्गवाशी अर्वाचिजानी देव हुआ । १०
- २० स्थाणु निधि लाभ का लौकिक दृष्टान्त—अंधा विष्णुदत्त पत्नी की भर्त्सना से आत्मघात का विचार कर घर से निकल पड़ा और एक गिरे हुए वृक्ष से टकरा गया । भाल में से रक्त-प्रवाह निकला जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और वही उसे एक धन की निधि मिल गई । ११
२१. यह पुण्य का आकस्मिक फल है । इसे देख दूसरे अंधो ने भी वैसे ही धन-प्राप्त करना चाहा, किन्तु केवल क्लेश ही हाथ लगा । ११

कथाकोश

संधि—२

कहवक

पृष्ठ

- १ सम्यवत्व के अतिचार शकादिक के उदाहरण । सेठ को आकाश मार्ग से तीर्थवन्दना को जाते देख उनके पुरोहित सोमदत्त ने नभोगामिनी विद्या सीखने की इच्छा प्रगट की । १२
- २ सेठ ने मन्त्र-साधन की विधि बतलाई—वृक्ष के नीचे उर्ध्वमुख गस्त्र रखकर ऊपर सीके में बैठकर मन्त्रोच्चारण सहित सीके के तनो को काट डाली । नीचे गिरने से पूर्व मन्त्र सिद्ध हो जायगा । १३
- ३ ब्राह्मण ने व्यवस्था तो वैसे ही की । किन्तु संशय वश वह वृक्ष पर चढता और उतरता । कार्य की असिद्धि । उसी समय एक चोर वहा से निकला । उसने विधि पाकर निश्चय भाव से सीके में बैठकर तनो को काट डाला और नभोगामिनी विद्या सिद्ध कर ली । १३
- ४ विद्या देवी ने उसे सब तीर्थों की वन्दना कराकर सेठ के समीप पहुचा दिया । १३
- ५ सेठ की प्रदक्षिणा के पश्चात् उनके पूछने पर उसका आत्म-परिचय । अपने दुष्ट स्वभाव के कारण घर से निर्वासित होकर चोरी करने लगा व अपनी प्रेयसी की सतुष्टि के लिये रानी का हार चुरा कर भागा । रक्षको ने हार की चमक देखकर उसे घेर लिया । १४
- ६ तब वह हार छोडकर अदृश्य हो गया । श्मशान में पहुचने पर उस ब्राह्मण को वृक्षपर चढते उतरते देख कारण पूछा । १४
- ७ ब्राह्मण ने अपना पूर्वोक्त वृत्तान्त सुनाया । १५
- ८ पांडुक वन आदि तीर्थों की वन्दना करके आने का सेठ को गुरु मानने का सवाद और फिर मुनि-दीक्षा । संशयवश भट्ट कही का न रहा । १५
- ९ कांक्षा और निष्कांक्षा के उदाहरण—दो राजपुत्र अपने गोकुल को गये । गौप ने स्वीर का भोजन कराया । छोटा राजपुत्र विश्वभर अन्न खा गया और विपूचिका से मरण को प्राप्त हुआ । बड़ा राजपुत्र यशोधर राजा हुआ और फिर उसने प्रवज्या वारण की । १६

- १० विचिकित्सा और निर्विचिकित्सा के उदाहरण । अपने मित्र गगनमित्र नरेश के मरण पर गगनचन्द्र नरेश ने बहुत शोक किया व मित्र के पुत्रों को विषान्न (श्रेष्ठ भोजन) कराने का रसोइये को आदेश दिया । १६
- ११ उन्हें वैसा ही उत्तम भोजन कराया गया । किन्तु ज्येष्ठ भ्राता को सन्देह होने से उसे विकार उत्पन्न हुआ व आर्तघ्यान सहित उसकी मृत्यु हुई । निश्चक भाव से जीवित रहकर लघुभ्राता सर्वार्थसिद्धि को गया । १७
- १२ विद्याधर श्रावक ने दक्षिण मथुरा जाकर मुनि-वन्दना की । लौटते समय मुनि ने रेवती को आशीर्वाद कहा, जिससे उसे बड़ा विस्मय हुआ । १७
१३. विस्मय का कारण यह था कि उत्तर मथुरा में भवसेन नामक ज्ञानी और दुर्घर सयमी को आशीर्वाद न कहकर एक श्राविका को वयो आशीर्वाद भेजा । सभवत मुनियों के भी राग-द्वेष होता हो, विद्याधर ने इसकी परीक्षा के लिये विक्रिया की और ब्रह्मा आदि देवों का रूप धारण किया । १८
- १४ लोगो ने भक्ति दिखाई । दूसरे दिन अरहत का वेप बनाया । भवसेन सघ सहित वन्दना को आया । किन्तु रेवती ने उसकी माया समझ ली, अत वह नहीं आई । १८
१५. तब वह रोगग्रस्त साधु बनकर रेवती के घर के समीप मूर्च्छित हो पड़ रहा । रेवती ने उसकी सेवा की, खूब भोजन कराया व उसका वमन भी अपने हाथों में भेला । १९
- १६ रेवती का शुद्धभाव देखकर विद्याधर अपने रूप में प्रकट हुआ । फिर वह भवसेन मुनि की परीक्षा के लिये वटु बनकर उसके पास गया । १९
- १७ उसने भवसेन मुनि की शौचक्रिया के अवध में परीक्षा की । मुनि ने हरित अकुरो पर गमन किया । १९
१८. जल के अभाव से अशौच अवस्था में मुनि का मौन-भग । २०
१९. अप्राशुक मृत्तिका व नदी के जल से मुनि का अशौच-निवारण । विद्याधर का काचीपुर जाकर मुनिगुप्त से परीक्षा का निवेदन । २०
२०. विद्याधर का तथा रेवती श्राविका का दीक्षा-धारण । २१

संधि—३

कडवक

- १ उपगूहन आदि सम्यक्त्व के चार गुण । उपगूहन का दृष्टान्त । पुष्पपुर के राजकुमार विशाख के विवाहानन्तर मुनि का आगमन । २२
२. मुनि के साथ जाकर राजकुमार का गुरु से दीक्षा-ग्रहण । पत्नी का रोप व विष खाकर मरण । राक्षस योनि में उत्पत्ति । २२
- ३ राक्षसी का जातिस्मरण व विशाखमुनि के लिंग-विकार द्वारा आहार का अन्तराय, दौर्बल्य व एक दिन राजगृह में आहारनिमित्त प्रवेश । २३
- ४ महारानी चेलना द्वारा पडगाहना । मुनि का लिंग-विकार । रानी द्वारा पटाच्छादन व आहारदान । मुनि का वन-प्रवेश । शुक्लघ्यान व अन्तराय के

- कारण का बोध, उपदेश व सबका सम्यक्त्व-ग्रहण । २३
- ५ उपगूहन का दूसरा आख्यान । इन्द्र की सभा में राजा श्रेणिक के सम्यक्त्व की प्रशंसा । परीक्षा निमित्त एक देव का आगमन व राजा को आते देख मछली मारते हुए मुनि का रूप धारण । २४
- ६ राजा और मुनि का वार्तालाप । लोगो का दिग्म्वर धर्म पर आक्षेप तथा राजा का निदर्शन द्वारा उस आक्षेप का निराकरण । २४
- ७ देव का मतोष व राजा की प्रशंसा तथा धर्म-प्रभावना । २५
- ८ स्थितिकरण की कथा । श्रेणिकपुत्र वारिषेण का भ्रमण में प्रतिमायोग । विछुच्चर चोर का गणिका सुन्दरी को आश्वासन । २५
- ९ विछुच्चर चोर द्वारा रानी चेलना के हार का अपहरण व वारिषेण के समीप क्षेपण । राजपुरुषो द्वारा वारिषेण पर उपसर्ग । २६
- १० वारिषेण के उपसर्ग का धर्म-प्रभाव से निवारण । २६
- ११ वारिषेण द्वारा मित्र को दीक्षित कराना व उसके चलायमान होने पर स्थिति-करण । २७
- १२ वात्सल्य के दृष्टान्त रूप विष्णुकुमार मुनि की कथा । उज्जयिनी के राजा श्रीधर्म के बालि आदि चार मंत्री । अकंपन मुनि का सात सौ मुनियो सहित आगमन । मौनोपवास का आदेश, किन्तु पीछे आये हुए श्रुतसागर मुनि द्वारा नगर-प्रवेश । उधर राजा ने महल पर से लोगो को यात्रा पर जाते देख बलि मंत्री से पूछा । २७
- १३ मंत्री ने कहा कि लोग श्रमण सध के दर्शन को जाते हैं । राजा ने भी जाने की इच्छा प्रकट की । बलि ने वचन ले लिया कि वहाँ राजा मौन रहे और वार्तालाप वही करे । २८
- १४ वहाँ जाकर बलि ने प्रश्न किया कि श्रमण धर्म का उपदेश कीजिये । किन्तु किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया । तब वे सब वापिस आये । नगरद्वार पर श्रुतसागर मुनि मिले । २८
- १५ मुनि ने बलि आदि चारो मंत्रियो को वाद में पराजित किया । २९
- १६ राजा ने प्रसन्न हो श्रावक-व्रत लिये । उधर मुनि के विजय की बात सुनकर गुरु ने आगका से उस मुनि को पुन वही जाकर प्रतिमा-योग का आदेश दिया । २९
- १७ उधर चारो मंत्री अपमान से क्रुध हो गस्त्र में सुसज्जित होकर मुनियो को मारने निकले । श्रुतसागर मुनि को देखकर उन्होने उन पर प्रहार किये । किन्तु देव ने उन्हें कीलित कर दिया । यह देख लोगो ने उनकी निन्दा की और राजा ने उन्हें राज्य से निकाल दिया । कुरुजागल देश के हस्तिनापुर नगर के राजा पद्मपद्म । २९
- १८ उनके दो पुत्र पद्म और विष्णु । पद्म को राज्य देकर महापद्म ने दूसरे पुत्र सहिस दीक्षा ले ली । बलि आदि चार मंत्री वही आये । उनकी बुद्धि देख राजा ने उन्हें मंत्री बना लिया । बलि ने सिंहरथ पर विजय पायी । अत राजा ने उससे वर मांगने को कहा । ३०

१६. बलि ने यथावसर वर मागने की अनुज्ञा प्राप्त की । अकम्पनादि मुनियो का वहा आगमन । थह जानकर उन मत्रियो को चिंता हुई । ३०
२०. बलि ने पद्म राजा से सात दिन का राज्य माग लिया और पशु-यज्ञ के मिष मुनियो का उपसर्ग प्रारभ किया । ३१
२१. पशु-यज्ञ की विकरालता । ३१
२२. महापद्म मुनि को मिथिला मे उक्त मुनि-उपसर्ग का ज्ञान हुआ । उन्होने आर्य पुष्पदन्त को सब वृत्तान्त कहा व विष्णु मुनि द्वारा उपसर्ग निवारण का उपाय भी बतलाया । विष्णु मुनि ने अपनी विक्रिया ऋद्धि की परीक्षा की और फिर वे गुरु के पास आये । ३२
२३. गुरु का आदेश पाकर विष्णु मुनि का गजप्रद आगमन व ज्येष्ठ भ्राता पद्म से उपसर्ग-निवारण का आग्रह । पद्म द्वारा वरदान की बात कहकर अपनी लाचारी का निवेदन । ३३
२४. विष्णु ने वामन-वेष धारण किया व बलि से मठिका (मढिया) के लिये तीन पद भूमि की याचना की । वर पाकर विष्णु ने विक्रिया ऋद्धि द्वारा अपना शरीर त्रिभुवन प्रमाण विशाल बना लिया । ३३
२५. विष्णु ने अपना एक पैर सुमेरु पर्वत पर तथा दूसरा मानुषोत्तर पर स्थापित किया । तृतीय पद को आकाश मे रखा जिससे देवो मे क्षोभ हुआ । उन्होने आकर यज्ञ की समाप्ति की और मुनि की स्तुति । विष्णु अरुपन मुनि के पास आये । ३३
२६. राजा व मत्रियों का वैराग्य । विष्णुकुमार अपने गुरु के पास वापिस आये । ३४

संधि—४

- कडवक १ १ प्रभावना विषयक वज्रकुमार की कथा । भरत क्षेत्र कुरुजागल जनपद, हस्तिना-पुर के राजा महावल, रानी बालश्री, पुरीहित रुद्रदत्त, ब्राह्मणी सोमिल्ला, पुत्र सोमदत्त । अहिच्छत्रपुर के राजा दुर्मुख, रानी दुर्मुखा, पुरोहित सुभूति, ब्राह्मणी काश्यपी, पुत्र सोमभूति, पुत्री यज्ञदत्ता । सोमदत्त का अपने मामा सुभूति के पास आगमन व राजा से भेंट करने की इच्छा । मामा की उदासीनता से स्वयं घर से बाहर जा बहुरूपिया बनकर शिवमंदिर मे प्रदर्शन । ३६
२. एक बार राजा से उसकी भेंट व राजा को उसका आशीर्वाद । ३६
३. सोमदत्त की बुद्धिमत्ता देखकर राजा का आश्चर्य व परिचय सबधी प्रश्न । ३७
४. सोमदत्त का आत्म-परिचय । ३७
५. परिचय से राजा की प्रसन्नता । ३८
६. सोमदत्त को राजा ने अपना मंत्री बनाया व मामा ने उसे अपनी पुत्री विवाह दी । पत्नी का दोहला डाल के पके आम खाने की इच्छा । ३८
७. सेवको द्वारा आम्रफल प्राप्त न होने पर सोमदत्त का स्वयं ससैन्य खोज मे जाना व वन मे एक मुनि के प्रभाव से फले आम्रवृक्ष को देखकर चकित होना । ३९

- ८ मुनि का घर्मोपदेश । सोमदत्त को वैराग्य । फल घर भेजकर उमका दीक्षा लेना । प्रसव के पश्चात् पत्नी का अपने भ्राता के साथ उसके पास आना व पुत्र को उसके आगे फेंक कर रोप से घर लौटना । ३६
९. सूर्यदेव विद्याधर का आगमन, पुत्र-ग्रहण व वज्रदेव नामकरण । पुत्र को विद्या एव यौवन प्राप्ति । ४०
- १० कुमार का ह्रीमन्त पर्वत पर श्रीङ्गार्थ गमन और वहा अलकापुरी के राजा पवन वेग की पुत्री मदनवेगा से भेंट । मदनवेगा की आख में काटा चुभ जाने से प्रज्ञप्ति विद्या की सिद्धि मे विघ्न । कुमार ने वह काटा निकाल कर उसे विद्या की सिद्धि करा दी । ४१
- ११ कन्या द्वारा वरदान । सात दिन के लिये प्रज्ञप्ति विद्या की माग । विद्या पाकर कुमार द्वारा अमरावती जाकर अपने पिता के शत्रु अपने चाचा को जीतकर अपने पिता को राजा बनाना व ख्याति प्राप्त करना । ४१
- १२ मदनवेगा आदि द्वारा वज्रकुमार का अपहरण व पाचवें दिन पांच सौ विद्याधरियो को विवाह कर पुनरागमन । सूर्यदेव को पुत्रोत्पत्ति । उस पुत्र द्वारा वज्रकुमार का उपहास व सूर्यदेव द्वारा यथार्थ कथन । ४२
१३. वज्रकुमार ने उत्तर मथुरा की क्षान्तिगुफा मे जाकर सोमदत्त की वन्दना करके दीक्षा ग्रहण की । वहा के राजा पृथ्वीमुख और रानी ओविला । ४२
- १४ वहाँ के सेठ सागरदत्त और सेठानी सागरदत्ता । सेठ की मृत्यु व सेठानी का दारिद्र्य । उनकी पुत्री को मार्ग मे उच्छिष्ट खाते हुए दो मुनियो ने देखा । उसके लक्षण देखकर उसके रानी होने की भविष्यवाणी । ४३
- १५ उक्त कन्या के पूर्व-जन्म की कथा । मुनि के गले मे मृत सर्प डालने से नाना कुयोनियो मे जन्म । व्रत धारण । शेष पाप के कारण दारिद्र्य । पापक्षय होने पर नरेन्द्र-पत्नी । ४३
१६. यह भविष्यवाणी सुनकर बुद्धधर्म भिक्षु द्वारा उसकी माता से मिलकर उसे ले जाना व विहार मे उसका सवर्धन । राजा का उस पर मोहित होना । ४५
- १७ मन्त्री द्वारा राजा को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न । बौद्धधर्म स्वीकार करने की शपथ पर उक्त कन्या ने विवाह । ४६
- १८ नन्दीश्वर पर्व पर बौद्ध रथ पहले चलाने की प्रार्थना । ओविला रानी द्वारा मुनि सोमदत्त से जैनधर्म की प्रभावना की प्रार्थना व मुनि द्वारा वज्रकुमार को आदेश । ४६
- १९ सूर्यदेव विद्याधर की सहायता, राजा की सैन्य का स्तम्भन व बौद्ध रथ का विनाश । ४७
- २० जैन रथ का महोत्सव के साथ परिभ्रमण व धर्म-प्रभावना । ४८
२१. वज्रकुमार का निर्वाण । कथा का माहात्म्य । ४८

सन्धि—५

कडवक

पृष्ठ

- १ श्रद्धान आदि के फल की कथा । हस्तिनापुर के राजा धनपाल व सेठ जिनदास । राजा के शरीर मे व्याधि । सेठ ने आकर खबर दी कि एक महामुनि आये है, जिनके चरणोदक से लोगो के दुःख दूर होते हैं । ४६
- २ मुनि के चरणोदक मे व्याधि का तथा उपदेश से मानसिक दोषो का अपहरण, धर्म-रसायन का फल जन्म-जरा-मरण से मुक्ति । ५०
- ३ आत्म-निन्दा का आख्यान बुद्धिमती कथा । वाराणसी पुरी, राजा विशाखदत्त । गौड नरेण पर आक्रमण और विजय । वहा के प्रासाद का चित्र अपने नव-निर्मित चित्तविस्रभकर प्रामाद मे लिखाने की आकाक्षा । चित्रकारो का असमर्थता । ५१
- ४ उज्जैनी से एक सुयोग्य चित्रकार का आगमन व जिन मन्दिर मे उपदेश करते हुए श्रीचन्द्र मुनि के चित्र का लेखन । ५१
- ५ उस चित्र की महिमा नुनकर राजा का आगमन व चित्रकार का राज प्रासाद मे प्रवेश । ५१
- ६ चित्रकार द्वारा चित्र-लेखन । चित्रकार की कन्या बुद्धिमती द्वारा मयूरपख का चित्रण । राजा का आगमन । ५२
- ७ बुद्धिमती की चतुराई देख राजा ने उसे अपनी महादेवी बनाया । ५२
- ८ अन्य रानियो द्वारा बुद्धिकर्मी की अवज्ञा तथा बुद्धिमती की आत्मनिन्दा । ५३
- ९ राजा द्वारा बुद्धिमती की स्तुति व अन्य रानियो को दण्ड । ५३
- १० बुद्धिमती का दुग्चरित्र व राजा का घात । श्मशान मे त्याग व देवता द्वारा स्तभन । ५४
- ११ देवता के उपदेश से बुद्धिमती द्वारा अपने पाप की घोषणा । ५४
- १२ आलोचना का आख्यान । वरेंदी देश, देवीकोट्ट पट्टन, सोमदत्त द्विज, सौमिल्ला पत्नी, अग्निभूति पुत्र । उसी नगर मे हरिदत्त विप्र, हरिदत्ता पत्नी । सोमदत्त उन्ही के आश्रित । सोमदत्त का मुनिव्रत धारण । विहार करते हुए उसी नगर मे आने पर हरिदत्त द्वारा ऋण-शोध की माग व सोमदत्त द्वारा पुत्री की ओर निर्देश । ५५
- १३ हरिदत्त और सोमदत्त का विवाद व ऋण-शोध के लिये धर्मधन को बेचने का प्रस्ताव । गुरु वीरभद्र द्वारा इस्ती का अनुमोदन । रात्रि मे श्मशान मे जाकर सोमदत्त द्वारा उद्घोषणा । ५५
१४. ड्र, अग्नि यम आदि देवताओ से धर्म खरीदने का प्रस्ताव । वन देवता के पूछने पर अट्ठाइस मूल गुणो का निर्देश । ५६
- १५ धर्म की प्रशंसा व दशविध धर्मो का निर्देश तथा मूल्याकन । ५६
- १६ वनदेवी द्वारा धर्म का मूल्य असख्य रत्नादि प्रस्तुत । सोमदत्त द्वारा वह धन हरिदत्त को समर्पित । हरिदत्त का वैराग्य एव दीक्षा-ग्रहण । ५७
१७. ज्ञान-साधना मे काल आदि अष्ट प्रकार के विनय का निर्देश । कालविनय का आख्यान । वीरभद्र मुनि का निर्जन वन की गुफा मे रात्रि मे अकाल शास्त्र-

- पठन । श्रुतदेवी का ग्वालिनी के वेप मे तक्र वेचने आना व साधु द्वारा नक्र वेचने के अनुचित समय का निर्देश करने पर श्रुतदेवी द्वारा मुनि का सर्वोधन । ५८
१८. वीरभद्र द्वारा अकाल शास्त्राभ्यास का संकेत पाकर प्रायश्चित्त-ग्रहण । ५९
- १९ अकाल-शास्त्र-पठन के दुष्परिणाम का दूसरा उदाहरण । शिवनन्दन नामक श्रमण सर्वकाल स्वाध्याय के पाप से मरकर गंगा के कुड मे पाहीन हुए । वहाँ तट पर मुनि को शास्त्र पाठ करते सुनकर जाति-स्मरण व प्रायश्चित्त । ५९

संधि-६

- गुडवक ५८
१. श्रुत-विनय का आख्यान । वत्स जनपद, कौशाम्बीपुरी, धनसेन नरेन्द्र, धनश्री रानी । रानी जिनघर्मी और राजा भागवत जिनके गुरु भागवत । जल-स्तम्भन मन्त्रवादी । इसी प्रकार विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी के रथनूपुर नगर के विद्याधर राजा विद्युत्प्रभ सम्यग्दृष्टि श्रावक और उसकी पत्नी विद्युत्प्रभा विष्णुभक्त । वन्दना हेतु भ्रमण करते हुए उनका जमुना के जल पर जाप करते हुए भागवत का दर्शन । ६१
- २ विद्याधरी द्वारा उसके ध्यानयोग की प्रशंसा । विद्याधर द्वारा अश्रद्धा-प्रदर्शन । ६२
- ३ परीक्षार्थ उनका मातंग-मातंगी वेप धारण व जमुना के ऊपर की ओर मान-प्रक्षालन । भागवत का उनके ऊपर की ओर गमन व मातंगी का पुन उसके भी ऊपर गमन । अनेक वार ऐसा करने पर भागवत का रोप व स्नान-त्याग । मातंगी द्वारा सुन्दर माया-उद्यान का निर्माण । भागवत का विस्मय । ६२
४. भागवत को उनकी इस विद्या की प्राप्ति का लोभ । मातंग का कथन । गुरु-विनय के बिना मन्त्र-सिद्धि संभव नहीं । ६३
- ५ भागवत द्वारा उनकी विनय स्वीकृत व चिन्तामणि विद्या की प्राप्ति । राजा को सूचना । ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरादि देवों द्वारा उसे यह विद्या-प्राप्ति । धनसेन की अश्रद्धा । ६३
- ६ भागवत द्वारा अपनी विद्या के प्रदर्शनार्थ कुटी पर राजा का निमन्त्रण व मायापुरी का निर्माण । राजा का आतिथ्य । राजा का विस्मय । ६४
७. उन मातंगी का आगमन । भागवत द्वारा निरादर । विद्या का नाश । राजा के पूछने पर भागवत की स्वीकृति कि मातंग गुरु को नमस्कार न करने का यह परिणाम हुआ । ६४
- ८ राजा द्वारा मातंग का विनय व चिन्तामणि विद्या की प्राप्ति । राजसभा मे भी मातंग के पहुँचने पर राजा की गुरु-विनय । मातंग का स्वरूप-दर्शन व सबकी श्रावक-धर्म-स्वीकृति । ६५
- ९ उपधान कथा । अहिच्छत्रपुर राजा वसुपाल रानी वसुमती । राजा द्वारा सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण । यथोचित अवग्रह के अभाव मे पार्श्व प्रतिमा के घटन मे विघ्न । यथोचित पूजा अर्चा किये जाने पर कार्य सिद्धि । ६६

- १० ज्ञान बहुमान कथा । काशी विषय, वाराणसी नगरी, वसुभद्र राजा, वसुमती रानी । समीप ही गंगा तट पर पलासखेडी ग्राम मे अशोक गोपाल जी प्रतिवर्ष राजा को एक सहस्र घृत देता था उसकी स्त्री नन्दा बन्ध्या थी । दूसरी पत्नी सुनन्दा । ६६
- ११ नन्दा गौश्री गोपालो की सब प्रकार से चिन्ता करती और खूब घृत इकट्ठा करती । ६७
- १२ सुनन्दा अपने यौवन के उन्माद मे बड़ी असावधान रहती । यथा समय राजा के भडसाली घृत वसूल करने आये । ज्येष्ठ भार्या ने अपने हिस्से के पाँच सौ घडे दे दिये, किन्तु सुनन्दा कुछ भी नही दे सकी । अत पति ने मारकर उसे निकाल दिया । नन्दा ने उसके हिस्से के घडे भी दिये, जिससे पति उस पर बहुत प्रसन्न हुआ । ६८
- १३ गुरुनिह्व कथा । उज्जयिनी का राजा घृतिसेन । रानी मलयावती । पुत्र चन्द्रप्रद्योत । दक्षिण देश की वेण्णातट पुरी मे प्रसिद्ध ब्राह्मण सोमशर्मा, पत्नी सोमिल्ला, पुत्र विद्वान् कालसदीप समस्त शास्त्रो का पारगामी । वह आकर चन्द्रप्रद्योत का गुरु बना । उसने उसे समस्त कलाये और विद्याए पढाई । किन्तु यह यवन देश की भाषा और लिपि किसी प्रकार भी न सीख सका । रुष्ट होकर राजपुत्र ने राजा होने पर उसका पैर कटवा डालने को प्रतिज्ञा की । ६८
१४. गुरु ने भविष्य का विचार कर कहा तेरे राज्य मे मेरे पैर का पट्टबधन (पूजन) होगा । राजपुत्र की शिक्षा पूरी कर कालसदीप दक्षिण देश मे जाकर मुनी हो गया । चद्रप्रद्योत राजा हुआ यवन देश से उसे एक पत्र मिला । जिसे अन्य कोई न पढ सका । स्वयं उसे पढा । गुरु की याद आयी और उनकी खोज कराई । वे काचीपुर मे मिले । ६९
१५. मत्रियो ने कालसदीप से कहा कि चद्रप्रद्योत नरेश उनका किस प्रकार स्मरण कर रहा है । ६९
- १६ वे कालसदीप को मनाकर उज्जयिनी ले आये । राजा द्वारा सम्मान व चरण का पट्टबध । राजा की गौर सदीप नाम से मुनि-दीक्षा । दोनो का राजगृह आगमन । राजा श्रेणिक की गौर सदीप मुनि से भेट व गुरु सम्बन्धी प्रश्न । ७०
- १७ गौर सदीप ने अपने गुरु का नाम वीतराग महावीर बतलाया, कालसदीप नही । इस प्रकार गुरु का नाम छिपाने से उसका शरीर काला और रोग-ग्रस्त हो गया । श्रेणिक के पूछने पर गौतम मुनि ने यह कारण बतलाया, श्रेणिक ने उस मुनि को भी इसकी सूचना दे दी । ७०
- १८ व्यजन हीन कथा । मगध मडल, राजगृह नगर, वीरसेन राजा, सिंह राजपुत्र । पोदनपुर के राजा सिंहरथ पर आक्रमण । विजय मे विलम्ब । राजकुमार के शिक्षण की चिन्ता । ७१
- १९ मूर्खता के दोषो का विचार कर राजा ने पत्र लिखवाया कि सिंह का अध्यापन कराओ (अध्यापय) । किन्तु इधर वाचक ने पढा सिंह को अधा करा दो (अधापय) रानी ने पुत्र को छिपाकर रखा । पढाया नही । राजा के लौटकर आने पर भेद खुला और उस दुष्ट वाचक को दड दिया गया । ७१

- २० अर्थहीन कथा । कौशल नरेश वसुपाल का उज्जयिनो नरेश वीरदत्त पर आक्रमण । वसुपाल का रानी को पत्र जो इस प्रकार पढा गया कि राजपुत्र के उपाध्याय को शालि-भात, घृत और मसि (काजल) खिलाया जाय । वैसा ही किया गया । ७२
- २१ राजा के लौटने पर उपाध्याय की शिकायत । वाचक ने मपि का अर्थ दाल न करके कज्जल किया इस कारण उसे दण्ड । ७३
- २२ व्यंजन-अर्थहीन कथा । हस्तिनापुर के राजा पद्म का पोदनपुर के राजा हरिनाग पर आक्रमण । सहस्र स्तभ मंदिर देखकर वैसा ही अपनी राजधानी में बनवाने की इच्छा से वहा के नागरिकों को स्तभ सग्रह करने के लिये पत्र प्रेषित । वाचक ने स्तभ का अर्थ बकरा (स्तभ) बतलाया व तदनुसार सहस्रों बकरे एकत्र किये गये । ७३
- २३ राजा के लौटने पर वाचक को दण्ड । ७४
२४. व्यंजन-अर्थ उभय शुद्धि कथा । सोरठ देश, गिरिनगर पट्टन, धर्मसेन नरेश, धरसेन महामुनि चन्द्रगुफा-निवासी । दो वृषभों का स्वप्न । दक्षिण देश से दो साधुओं का आगमन-भूतवली और पुष्पदन्त । ७४
- २५ आगत साधुओं द्वारा सिद्धांत की वाचना की प्रार्थना । मुनि द्वारा हीनाक्षर अधिकाक्षर मंत्रों द्वारा परीक्षा । छदयोजना द्वारा शुद्ध किये गये मंत्रों से सिद्धि । ७५

संधि-७

कडवक

पृष्ठ

- १ एकत्व क्षायना पर नागदत्त मुनि कथा । उज्जयिनी के राजा प्रजापाल । दो पुत्र प्रियधर्म और प्रियशर्म । दमवर मुनि से दोनों की मुनि दीक्षा, स्वर्गवास, अगले जन्म में परस्पर सम्बोधन की प्रतिज्ञा । लघुभ्राता का उज्जयिनी के राजा अभिधर्म की पत्नी नागदत्ता के उदर से जन्म । नाम नागदत्त । ७७
२. नागदत्त की बहिन नागश्री का वत्म देश में कौशाम्बी नगर के राजा जिनदत्त से विवाह । ज्येष्ठ भ्राता द्वारा नागदत्त की अधार्मिक प्रवृत्ति जानकर सबो-धनार्थ सपेरे के छद्मेश में आगमन । नागदत्त द्वारा मर्षों से खेलने की स्वीकृति । ७८
- ३ राजा के ममल सभा में मर्ष का खेल । नागदत्त की सर्पविष से मूर्च्छा व मरण । ७८
४. जिनदीक्षा के शपथ-बध पर सपेरे द्वारा नागदत्त का पुनर्जीवन और तपग्रहण । ज्येष्ठ भ्राता द्वारा पूर्व-स्मरण व जिनकल्प ग्रहण । ७९
- ५ नागदत्त का विहार । पूर्व से आते हुए सीमावर्ती मूरदत्त राजा द्वारा विरोध व भिन्नराज द्वारा मुक्ति । दूमरी ओर में माना और यहिन का कौशाम्बी की ओर आगमन । मुनि ने भय की बात न कही । चोरो द्वारा उनका पकडा जाना । रात्रि में मूरदत्त की अपने मुट्टों में गोष्ठी । ८०
- ६ नागदत्त मुनि ने भय की बात जानने हुए उसे कुछ न बतलाया और लुटवा व धर्दा करवा दिया । उस पर माना का रोष व उदर-विदारण की तत्परता ।

- मूरदत्त द्वारा मव वृत्तान्त जानकर उसका सम्मान सहित कौशाम्बी प्रेषण ।
मूरदत्त का नागदत्त से दीक्षा-ग्रहण व स्वर्ग गमन ८०
- ७ कषायोपशमन पर शूरमित्र कथा । पूर्व मालव मे तलिया राष्ट्र विषय, प्रवरकच्छ
नगर. मूरसेन नरेग, मूरदत्त सेठ व दो पुत्र मूरमित्र और मूरचन्द्र । दोनो भाइयो
का सिंहलद्वीप गमन । ८१
८. महारत्न की प्राप्ति । घर की ओर गमन । प्रत्येक की दूसरे भाई को मारकर
रत्न लेने की इच्छा । घर के समीप वेनवती नदी के तीर पर दोनो भाइयो
का रत्न के विषय मे परस्पर स्पष्टीकरण । ८२
- ९ कुत्सित रत्न जानकर नदी मे फेंकना । मत्स्य द्वारा रत्न का भक्षण । माता
का हर्ष व हाट से मत्स्य की खरीद । उसके पेट से रत्न-प्राप्ति । ८२
- १० उस रत्न से माता के हृदय मे पुत्री को मारने की भावना । माता द्वारा पुत्री
को दिये जाने पर उसकी भाइयो को मारने की इच्छा । पुत्री द्वारा भी रत्न
की कहानी । सर्व सम्मति से रत्न का त्याग व व्रत-ग्रहण । ८३
११. वैयावृत्य पर वासुदेव कथा । सोरठ राष्ट्र, द्वारवती नगरी, विष्णु नरेश,
भ्राता बलराम । विष्णु का एक व्रती साधु को व्याधिग्रस्त देखकर वैद्य
से परामर्ग । ८४
१२. रोग निवारण की व्यवस्था । अर्च्छा होने पर व व्यक्त रूप से उपकार न मानने
पर वैद्य का रोष व मरकर रेवा-तट के वन मे मर्कट का जन्म । मुनि-आगमन
तथा वृक्ष की शाखा के पतन से क्षति । ८५
१३. वानरो द्वारा शाखा को हूरकर मुनि का उपचार । वानर मरकर देव हुआ
और मुनि को केवलजान । वानरदेव द्वारा आकर मुनि की वन्दना । ८५
१४. वसुदेव को वैयावृत्य के फलस्वरूप भावी तीर्थंकरत्व ।
लघुत्व का आर्याण । टक्क देग, बलदेवपुर, बलभद्र राजा, धनदत्त सेठ, व
धनवती पुत्री, जिसकी पूर्णभद्र वणिक् द्वारा अपने पुत्र पूर्णचन्द्र हेतु याचना ।
घन लेकर कन्या-दान । विवाह के पश्चात् ही कन्या की मृत्यु । समस्त घन से
मुवर्णमाल बनवाकर धनदत्त द्वारा मृतक को अर्पण । पूर्णभद्र द्वारा उसकी
याचना । ८६
१५. मृतक के संसर्ग दोष के कारण किसी ने उस माला को मूल्य देकर नहीं खरीदा ।
दुर्जन संसर्ग से सुजन भी अपूज्य । ८७
- दुर्जन संसर्ग पर कल्लालमित्र कथा । वत्स जनपद, कौशाम्बी पुरी, धनपाल राजा ।
पूर्णभद्र रमवणिक् (मदिरा व्यापारी) की पुत्री वसुमित्रा का विवाह । अपने
मित्र राजपुरोहित शिवभूति का निमंत्रण, किन्तु शूद्रान्न-निषेध के कारण
अस्वीकृति । ८७
१६. पूर्णभद्र द्वारा वनगोष्ठी मे दुग्ध-शर्करा पान का प्रस्ताव । पुरोहित द्वारा
स्वीकृति । लोक द्वारा शंका व मद्यपान का आरोप । वमन कराने पर
दूध-शक्कर मे भी मद्य की गंध व राजा द्वारा दंड । दुर्जन-संसर्ग का दोष । ८८

- १७ दुर्जन संसर्गदोष पर घूक सगत हस की कथा । मगध मडल, पाटलिपुर नगर प्रजापाल राजा । गोपुर निवासी उल्लू की राजहस से मैत्री । राजा व सामत उसी के वगीभूत होने की भूठी आत्म-प्रशसा व हस के आतिथ्य का ग्रहण । ८६
- १८ उल्लू का हम को अपने घर निमत्रण । प्रभाव दिखलाने के लिये राजा का विजय यात्रा मे अपशकुन द्वारा बारवार विघ्न होने पर शब्द-वेधी वाण द्वारा निर्दोष हस की मृत्यु । ९०

संधि—८

कडवक

पृष्ठ

१. सज्जन-ससर्ग के गुणो पर हरिषेण चक्री की कथा । जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, अगदेश, काम्पिल्यपुर, हरिकेतु नरेन्द्र, वप्पा रानी, हरिषेण पुत्र । दूसरी रानी लक्ष्मीमती । वप्पारानी द्वारा फाल्गुण मे नन्दीश्वर पर्व सवधी रथयात्रा-महोत्सव की योजना । लक्ष्मीमती द्वारा उसका राजाज्ञा से निषेध । ९१
२. वप्पा रानी द्वारा वेणिवध तथा रथयात्रा निकलने तक अन्नजल का त्याग । राजपुत्र को उमकी जानकारी । ९२
३. माता को धैर्य वधाकर राजपुत्र हरिषेण का निर्गमन व वन मे विद्युच्चर चोर की पत्नी मे प्रवेश । शुक का कथन—शीघ्र पकडो और मारो । ९२
४. शुक का कथन सुनकर हरिषेण का वहिर्गमन व तापसी के आश्रम मे प्रवेश । वहाँ शुक का कथम—आश्रमगुरु आये हैं, सम्मान करो । पूछने पर शुक ने बतलाया कि वे दोनो शुक एक ही माता-पिता की सन्तान है । किन्तु मुनियो व चाण्डालों द्वारा पाले जाने से सस्कारानुसार वह वचन-भेद । कथान्तर । जनमेज्ज तापस की पत्नी नागवती का पुत्र चम्पापुरी का राजा । ९३
५. उसकी वहिन मदनावलि के विषय मे ज्योतिषियो का आदेश कि वह चक्रवर्ती की पत्नी होगी । उसके लिये ओड्र के राजा काल द्वारा चम्पापुरी का अवरोध । शत्रु को असाध्य जान मुरंग द्वारा मदनावलि का निस्सारण । उसका माता सहित पिता के आश्रम मे आगमन य हरिषेण को देखकर कामामक्ति । शतमन्यु तापस द्वारा हरिषेण का निष्कासन । ९४
६. सिंधुनद के तीर सिंधुनद पट्टण के सिंधु नरेश की सिंधुदेवी कन्या सरोवर मे स्नान को गई । हाथी का भय । हरिषेण ने पहुँचकर गज का निरोध किया । ९४
७. गज का वशीकरण व देवो द्वारा पुष्पवृष्टि । सिंधुदेवी से विवाह । विद्याधरी द्वारा हरिषेण का अपहरण । पूछने पर वृत्तान्त-कथन । जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र, विजयार्ध की उत्तर श्रेणी मे सूरोदय नगरी, सुरधनु नरेश, बुद्धिमती रानी, जयचन्द्रा पुत्री । ९५
८. वह चित्रपट देखकर मोहित । इनीलिये यह अपहरण । विवाह । विद्याधरो के अधिपति गगाधर का रोध व आक्रमण । ९६
९. सुरधनु को सूचना । हरिषेण द्वारा धैर्य व शत्रु का सामना करने निष्क्रमण । ९६

- १० सुरधनु और गगाधर की सेनाओं का सघर्ष । ६७
११. युद्ध वर्णन । ६८
- १२ सुरधनु की सेना का पलायन, किन्तु सिंहकेतु सेनापति द्वारा पुन सघटन व शत्रु सैन्य का अपसरण ६८
- १३ दोनो सेनापतियों का क्रमश जय-पराजय । ६९
- १४ सुरधनु के सेनापति द्वारा अमोघ शक्ति का प्रयोग । ६९
- १५ गगाधर का पराक्रम और सुरधनु को ललकार व विद्याधरो और भूगोचरो के बीच अयोग्य विवाह का आरोप । १००
- १६ सुरधनु द्वारा प्रत्युत्तर व उक्त विवाह का औचित्य उदाहरणो द्वारा प्रमाणित । १०१
- १७ सुरधनु और गगाधर का बराबरी का युद्ध । गगाधर द्वारा सुरधनु का घात । किन्तु एक के दो सुरधनु होकर युद्ध करने लगे । १०१
- १८ दो के मारे जाने पर चार व चार के आठ, सोलह, बत्तीस, चौसठ आदि क्रम से अनन्त सुरधनु युद्धरत । गगाधर द्वारा अमित-शक्ति नामक विद्या का प्रयोग, जिससे विक्रिया विनष्ट होकर एकमात्र सुरधनु शेष । हरिपेण का युद्ध में प्रवेश । १०२
- १९ हरिपेण और गगाधर के बीच युद्ध । हरिपेण द्वारा शत्रु के समस्त शस्त्रों का प्रतिघात । १०३
- २० गगाधर द्वारा प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं को आव्हान । उनका चक्रवर्ती के विरुद्ध असामर्थ्य प्रकाशन । रोपपूर्वक गगाधर द्वारा उनका निराकरण । १०३
- २१ गगाधर और हरिपेण का रथ त्याग कर शस्त्र-युद्ध व गगाधर का शिरच्छेद । १०४
- २२ हरिपेण का सम्मान व विद्याधरो द्वारा सेवा-स्वीकृति । मदनावलि का परिणय । अपनी नगरी में पुनरागमन । माता की प्रसन्नता व रथयात्रा । १०५
- २३ हरिपेण का राज्याभिषेक, मंदिर-निर्माण, तप और स्वर्गवास । १०६

संधि—९

कडवक

पृष्ठ

- १ सज्जन-स्वभाव पर विष्णु-प्रभु मन् कथा । भारतवर्ष, समुद्र के बीच द्वारवती नगरी, नेमिनाथ-श्रवतार, वासुदेव तरेन्द्र, इन्द्र की सभा में उत्तम पुरुष के गुणो सबधी प्रश्न । परदोष उपगूहन व परगुण-विस्तार उत्तम पुरुष का लक्षण । १०७
- २ इन्द्र द्वारा सत्पुरुष के गुणो का वर्णन व दृष्टान्त स्वरूप वासुदेव का उल्लेख । परीक्षा हेतु देव का व्याधि-रीडित व कीट-युक्त श्वान के रूप में वासुदेव के मार्ग में आ पडना । १०७
- ३ लोगो का उसे देखकर भागना । एक चाण्डाल का नाक भोह सिकोड कर उसकी निन्दा करना । किन्तु विष्णु ने आर्त जीव के प्रति दुर्भाव का निवारण किया । देव उनकी स्तुति कर अपने घर गया । १०८
४. मनुष्य जन्म की दुर्लभता सबधी दश दृष्टान्त जिनमें प्रथम चोल्लक । साकेतपुरी, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, विद्वान् सहस्रभट का पुत्र वसुमित्र दुर्व्यसनी । पिता की मृत्यु

पर मूर्खता के कारण राजा द्वारा निष्कामित । माता सहित जीर्ण गृह में निवास । घुड़दौड़ के मैदान में वसुमित्र उत्तम घोड़े के ममान दौटना सीखकर राजा के पास गया ।

- ५ वसुमित्र राजा का परिचारक । दुष्ट अश्व द्वारा राजा का अपहरण । भीषण वन में एकमात्र वसुमित्र राजा के साथ । सरोवर में राजा की अश्व से मुक्ति वसुमित्र द्वारा राजा की स्नान भोजन व्यवस्था । लौटने पर राजा द्वारा हाथ ककण का पारितोषिक । १०८
- ६ ककण बेचते हुए वसुमित्र का राजपुरुष द्वारा पकड़ा जाना । राजा का वरदान । माता द्वारा चोल्लक भोजन की मांग । १०९
- ७ अपने रसोईघर में भोजन कराकर अपने राज्य के ममस्त नगरो, ग्रामो आदि के प्रत्येक घर में उनके भोजन की व्यवस्था । ११०
- ८ चक्रवर्ती की महाविभूति । सबके घर भोजन करके जिस प्रकार पुन चक्रवर्ती के रसोईघर में भोजन की वारी आना नितान्त दुर्लभ है, उसी प्रकार पुन नरजन्म दुर्लभ । अतएव प्राप्त हुए मनुष्य जन्म को धर्म में लगाने का उपदेश । १११
९. नर जन्म की दुर्लभता का दूसरा दृष्टान्त—पाशक । मगध देश, शतद्वारपुर नगर, शतद्वार नृप द्वारा मणिमन्व तोरणो से युक्त सौ द्वारो का निर्माण, एक एक द्वार में ग्यारह सौ स्तम्भ, एक एक स्तम्भ में छयात्रवे कोने, एक एक कोने में एक एक जुवाडियो का अड्डा । द्विज की मांग कि यदि ममस्त जुवाडियो का कभी एक सा दाव पड जाय तो उम दाव का सब द्रव्य उसे दिया जाय । एक बार ऐसा ही हुआ । इसी प्रकार मनुष्य जन्म दुर्लभ । १११
- १० नरजन्म की दुर्लभता का तीसरा दृष्टान्त—धान्य का । जवूद्वीप को एक पत्य बनाकर नाना धान्यो से उसे भरा और एक देव ने एक एक वर्ष में एक एक कण निकाला और सब धान्य कभी समाप्त हो गया । ऐसा ही मनुष्य जन्म दुर्लभ । १११

अथवा

अयोध्या नगर में प्रजापाल राजा के कोषागार में समस्त प्रजा का धान्य सुरक्षा के लिये संचित किया गया । संकट निकल जाने पर अपने अपने धान्य की मांग । उसे छाटना जैसा दुर्लभ, वैसा ही मनुष्य जन्म । ११२

११. नरजन्म की दुर्लभता का चौथा दृष्टान्त—छूत । शतद्वारपुरी के प्रत्येक द्वार पर पाच सौ खल व प्रत्येक खल में पाच पाच सौ छूतकार । एक धनी छूतकार को धन दे देकर छूत खिलवाना । एक दिन समस्त जुवाडियो का समस्त धन, कत्ता व कवड्डा लेकर डवर उधर भाग जाना व सब वस्तुओ को बेच खाना । उन वस्तुओ का पुन मेल जितना दुर्लभ, उससे अधिक दुर्लभ नरजन्म । अथवा ११२
१२. उक्त नगर में निर्लक्षण नामक जुवाडी । वह छूत खेलता सदैव, किन्तु जीतता कभी नहीं । एक बार उसने सब जुवाडियो के कत्ता कवड्डा तक जीतकर नाना देशो से आये दीन दुखियो को वांट दिये और वे अपने अपने देशो को चले गये । अब जुवाडी वन देकर निर्लक्षण से अपने अपने कत्ता कवड्डा मांगने

- लगे । वे कदाचित् पुनः एकत्र किये जा सके, किन्तु नरजन्म उससे भी दुर्लभ । ११२
- १३ नरजन्म की दुर्लभता का पांचवा दृष्टांत—रत्नकथा । भरत आदि चक्रवर्तियों को देवो द्वारा एक एक चूडामणि रत्न दिया गया । उन देवो चक्रवर्तियों व रत्नो का एकत्रीकरण जितना दुर्लभ उससे अधिक दुर्लभ नरजन्म । अथवा ११३
- सागरदत्त वणिक् का सिंहलद्वीप गमन, माणिक्य प्राप्ति, जलयान से आते समय समुद्र मे रत्न-पात । उस रत्न की पुन प्राप्ति सदृश नर-भव की दुर्लभता । नरजन्म की दुर्लभता का छठा दृष्टान्त—स्वप्न । दरिद्री ने स्वप्न मे राज्य विलास पाया । किन्तु यथार्थ राज्य प्राप्ति के समान नर-जन्म दुर्लभ ११३
- १४ नरजन्म की दुर्लभता का सातवाँ दृष्टान्त—चन्द्रकवेध । माकदीपुरी, द्रौपदी का स्वयवर । चन्द्रकवेध द्वारा अर्जुन का द्रौपदी परिणय । उसी समान मनुष्य-भव दुर्लभ । अथवा—सुभौम चक्रवर्ती के समय के जीव, यक्षदेव, व समस्त वस्तुस्थिति का पुन. मेलापन जितना दुर्लभ, उससे अधिक दुर्लभ मनुष्य-जन्म । ११३
- नरजन्म की दुर्लभता का आठवा उदाहरण—कूम कथा । स्वयभूरमण समुद्र, चक्रवर्ती के चर्म-रत्न से आच्छादित । काने कच्छप ने एक छिद्र मे से सूर्य की रश्मि देखी । उसे दिखाने वह अपने परिवार को लाया । वही छिद्र पुन मिलना जितना कठिन उससे अधिक दुर्लभ नर-भव । ११३
- नरजन्म की दुर्लभता का नवमां दृष्टान्त—युग्म । बैलगाडी के युग्म (जूआ) का एक समिला (सैला) पूर्व समुद्र मे गिरा और दूसरा पश्चिम समुद्र मे । उनका पुन सगम कितना दुर्लभ उससे अधिक दुर्लभ नर-जन्म । ११४
- नरजन्म की दुर्लभता का दशवा दृष्टान्त—परमाणु । चक्रवर्ती के चार हाथ लम्बे दण्ड-रत्न का चूर्ण करके उसके परमाणु सर्वत्र बिखर गये । उनका पुनः दण्डाकार संयोग जितना दुर्लभ, उससे अधिक दुर्लभ नरजन्म । अतः ऐसे दुर्लभ नरजन्म को पाकर व्यर्थ न खोने तथा दर्शन-ज्ञान और चरित्र के अभ्यास का उपदेश । ११४
- १६ बालक समान माया-मृषा को त्याग कर आलोचना का उपदेश । आख्यान-कोशाम्बी पुरी, जयपाल राजा, जयमती रानी, यमदंड कोटपाल, सागरदत्त सेठ सागर दत्ता सेठानी, समुद्रदत्त पुत्र । दूसरा वणिक् वामन, सोमा गृहिणी, सोम पुत्र । सोम और समुद्रदत्त की मित्रता । एक दिन वामन द्वारा समुद्रदत्त को मारकर आभूषण लेकर घर मे गड्ढा खोदकर गाड देना । माता पिता की आकुलता । वामन के पुत्र सोम का उनके घर आना । ११४
- १७ सेठानी द्वारा प्यार पूर्वक सोम से प्रश्न व सोम द्वारा वास्तविकता का प्रकटन । आरक्षक द्वारा शोध व राजा द्वारा प्राणदण्ड । बालक के समान सत्य प्रकट करना आलोचन का गुण । ११५

संधि—१०

कञ्चक

पृष्ठ

- १ मिथ्या भाषण का दुष्परिणाम । सघश्री की कथा । आन्ध्र देश, श्रीपर्वत के पश्चिम मे वल्लूरपुर, यशोधर राजा, वसुधरी रानी, तीन पुत्र । धन की अस्थि-

- रता देख राजा का वैराग्य । अनन्तवीर और श्रीधर नामक पुत्रों द्वारा राज्य
अस्वीकार, तृतीय पुत्र प्रियचन्द्र को राज्य । ११७
- २ यशोधर का तप और निर्वाण । अनन्तवीर का स्वर्गवास । श्रीधर का विहार
करते-करते श्रीपर्वत पर आगमन । प्रियचन्द्र राजा की उद्यान में नाटक देखते
सर्पदण्ड से मृत्यु । मंत्री की चिन्ता । प्रियचन्द्र के पिता व भ्राताओं की खोज
में दूत-प्रेषण । ११७
- ३ दूतों का लौटकर समाचार देना । मंत्री द्वारा श्रीपर्वत पर श्रीधर मुनि के दर्शन
व वृत्तान्त-कथन । मनाकर श्रीधर को घर लाना । ११६
- ४ श्रीधर का राज्याभिषेक व मुडव्य नरेश्वर नाम से प्रसिद्धि । श्रीधर की तपस्या
के कारण ही श्रीपर्वत नाम की तथा राजवंश की मुडिय नाम से प्रसिद्धि । उसी
वग में आन्ध्र देश के धान्यकटकपुर के राजा धनसेन परम श्रावक । ११६
- ५ बौद्ध भिक्षु बुद्धश्री का आगमन । राजा का मंत्री सधश्री उसका परम उपासक,
पत्नी कमलश्री, पुत्री बुद्धिमती राजा की महाहेवी हुई और श्राविका बन गई ।
मंत्री का दुर्भाव, कक दिन मुनि का आगमन व राजा द्वारा सम्मान । ११६
- ६ राजा का मुनि में धर्म सवधी प्रश्न । चारण मुनियों का आकाश से आगमन ।
मुनि की धर्म कथा से सधश्री भी श्रावक हुआ । दूसरे दिन सभा में सधश्री
द्वारा धर्मश्रद्धान का भाषण करने के लिये राजा का प्रस्ताव । ११६
- ७ मंत्री द्वारा अपना जैन धर्म के प्रति श्रद्धान प्रकट करने की प्रतिज्ञा । बुद्ध-विहार
में जाकर बुद्धश्री की भर्त्सना । १२०
८. बुद्धश्री द्वारा मंत्री को सवोधन व इन्द्रजाल प्रदर्शन । १२१
९. बुद्धश्री द्वारा कथा वर्णन । वाराणसी पुरी के राजा उग्रसेन का पुरोहित सोम-
शर्मा, पत्नी पद्मावती, पुत्री लोमश्री । सोमशर्मा के घर पाच सौ वैष्णवों का
नित्य भोजन । सुवर्णखुर नामक युवक वैष्णव का सोमशर्मा के मठाश्रम में
आगमन । १२१
- १० लोमश्री की वैष्णव भक्ति । दोनों में परस्पर प्रेम वृद्धि व पलायन । सोमशर्मा
का शोक व राजा से निवेदन । १२२
११. राजा का तलवर को आदेश कि अपराधी को ढूँढकर व बाधकर लाओ । दोनों
का आनयन । धर्माधिकारी से प्रश्न । कन्या-साहस करने वाले को मृत्युदण्ड का
विधान । तदनुसार दण्ड । १२२
१२. कन्या का शोक । मृतक से मिलन व विलाप । देह के भस्मीभूत किये जाने पर
भी भस्म की पूजा । भस्म के जल-प्रवाह किये जाने पर उस जल का सम्मान ।
उसी प्रकार बौद्धमत को त्यागकर अन्य मत का श्रादर निष्फल । १२३
- १३ इसी प्रकार निरन्तर उपदेश में मंत्री का पुनः मत-परिवर्तन । प्रातः सभा में पूछे
जाने वाले प्रश्न के उत्तर में मौन रखने का आदेश । १२३
- १४ प्रातः सभा में चारण मुनियों के आगमन का वृत्तान्त व मंत्री का साक्ष्य । किन्तु
बुलवाने पर मंत्री का न आना व श्राँखें दुखने का बहाना करना । १२४

- १५ मंत्री का बलपूर्वक सभा में आनयन व राजा द्वारा गत दिवस की घटनाओं को स्मरण करना । मंत्री द्वारा सत्य को छिपाना व कहना कि मैंने कुछ नहीं देखा । इस अमत्य भाषण से मंत्री की आँखों के मणियों का भूमि पर पडना व आसन से नीचे गिरना । १२४
- १६ पुन पूछे जाने पर भी अमत्य का न्याय न करने में पृथ्वी फट गई और मंत्री मरकर महानरक को गया । उसके वंशजों का अब तक भी जात्यघ होना । इम आश्चर्य से लोगों की धर्मरुचि । राजा का वैराग्य व तप । १२५

संधि-११

कडवक

पृष्ठ

- १ धर्म में अनुराग के चार भेद, भावानुराग, प्रेमानुराग, मज्जानुराग और धर्मानुराग । भावानुराग पर सागरदत्त की कथा । उज्जयिनी पुरी, सागरदत्त सेठ प्रियगुश्री पत्नी, जिसका पहले नागसेन से वाग्दान हो चुका था । सागरदत्त का जिनालय में उपवास । नागसेन का आगमन, रोष, बदला लेने हेतु अपना हार उसे पहनाकर चोरी-चोरी की पुकार, अधिकारी से निवेदन और हार देखकर राजा में निवेदन । १२६
२. राजा द्वारा प्राणवड का आदेश । तलवर का प्रहार मणिहार बना । देवों द्वारा पुष्पवृष्टि । यह आश्चर्य देख लोगों में धर्मानुराग की उत्पत्ति । १२६
- ३ प्रेमानुराग पर द्रव्यदत्त का आख्यान । विनीता जनपद, अयोध्यापुर, सुवर्णधर्म राजा, सुवर्णलक्ष्मी रानी, द्रव्यदत्त वणिक् का चतुर्दशी उपवास में ध्यान योग । पूर्व वैरानुबन्धी देव द्वारा उपसर्ग । सेठ की निष्कपता से सतुष्ट देव द्वारा पूजा व नभोगामिनी विद्या का दान । यह आश्चर्य देख राजा का वैराग्य । १२७
४. मज्जानुराग पर जिनदत्त-वसुदत्त का आख्यान । उज्जयिनी नगरी, जिनदत्त और वसुदत्त भ्राता, सार्थक मिलकर व्यापार निमित्त उत्तरापथ गमन । वन में म्लेच्छों द्वारा सार्थक की लूट । दोनों भ्राता लुटकर ससार से विरक्त व जिन-शासन में अस्थि-मज्जानुराग से रक्त । सोमशर्मा द्विज भी लुटकर सन्यास में स्थिर होकर पिपीलिकाओं का उपसर्ग सह, मरकर ब्रह्मलोक गया । १२७
- ५ धर्मानुराग पर लकुचकुमार का आख्यान । उज्जयिनी नगरी, धनवर्मा नरेश, लकुच राजकुमार, सीमावर्ती कालमेल म्लेच्छ द्वारा आक्रमण । लकुच कुमार द्वारा पराजित और बन्दी । राजा द्वारा कुमार का अभिनन्दन । १२८
- ६ कुमार को पगुल सेठ की पत्नी नागवर्मा पर आसक्ति । एक दिन मुनि दर्शन । धर्मश्रवण और मुनिचारित्र ग्रहण । विहार व पुन नगरागमन । महाकाल उद्यान में प्रतिमा योग । पगुल सेठ द्वारा पूर्व वैर स्मरण कर लकुच मुनि को लोहशलाकाओं द्वारा बाधा । धर्मानुराग सहित उपसर्ग सहकर स्वर्ग-गमन । १२८
- ७ मितभक्ति पर पद्मरथ नृपाख्यान । मिथिला नगर का पद्मरथ राजा शत्रु का दमन करने नृयप्रभ-पट्टन गया । वहाँ सुधर्म मुनीन्द्र के उपदेश से श्रावक

- हुआ। कोई अन्य भी ऐसा धर्मोपदेशक है, ऐसा पूछने पर साधु ने कहा, चम्पापुर मे वासुपूज्य तीर्थकर है, जिनकी वाणी त्रिभुवन पूज्य है। पद्मरथ ससैन्य वासुपूज्य तीर्थकर की वन्दना को चला। उसकी परीक्षा निमित्त अमितप्रभ और विद्युत्प्रभ देवो का आगमन। पहले उन्होंने यमदग्नि को अपने समय से चलायमान किया। फिर जैनधर्मानुराग की परीक्षा करनी चाही। १२६
- ६ विद्युत्प्रभ ने मिथिला नगर का दाह व घरदारो का ध्वस आदि मायाजाल दिखलाया। फिर भी पद्मरथ नही लौटा। देव द्वारा प्रज्ञासा। राजा द्वारा तीर्थकर की वन्दना। मुनि-दीक्षा, गणधर पद व मोक्ष प्राप्ति। १३०
- १० दर्शनभ्रम पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का आख्यान : अरिष्ट नेमि का तीर्थ, काम्पिल्य पुरी, राजा ब्रह्मरथ, महादेवी सोमिल्ला, पुत्र ब्रह्मदत्त बारहवा चक्रवर्ती, चक्रवर्ती विभूति। तप्त खीर से दग्ध। रसोइये पर रोष। उबलती खीर से उसका स्नान। मरकर लवण समुद्र मे राक्षस। १३०
- ११ पूर्व वैर स्मरण। वैष्णव के वेप मे फल लेकर आगमन। राजा का फल भक्षण और प्रश्न। अपने आश्रम मे उनके प्राचुर्य का कथन। राजा का समुद्र के बीच आश्रम को गमन। उपसर्ग व पूर्व वैर को स्मरण कराना। राजा मत्री, व सामन्त आहार-त्याग कर सन्यास मे स्थित।
- १२ नवकारमत्र स्मरण के कारण राक्षस राजा को मारने मे असमर्थ। राक्षस का प्रस्ताव—यदि जैन धर्म त्याग कर पचाक्षर मत्र को पैर से पोछ दे तो अभयदान। भयभीत होकर राजा के वैसा करने पर राक्षस द्वारा घात व रसातल के वडवानल मे प्रक्षेप व सप्तम नरक गमन।
- १३ दर्शन मे दृढता पर जिनदास का आख्यान। पाटलिपुर, जिनदास वणिक् जिनभक्त। वाणिज्य निमित्त भाड लेकर कचनद्वीप गमन। द्रव्योपार्जन कर लौटते समय पूर्व वैरी कालियदेह द्वारा प्रचंड वायु एव सघन बादल निर्माण व यह कथन कि जीवन चाहो तो जैनधर्म छोडो। जिनदास की निश्चलता। १३२
- १४ जिनदास की धर्मनिष्ठा से अणावि यक्ष का आसन कपायमान। यक्ष के द्वारा शत्रु के सिर पर प्रहार व वडवामुख मे क्षेपण। वरुण देव द्वारा वणिक् के पोत की रक्षा। लक्ष्मी का कलश लेकर आगमन। देवो द्वारा सम्मान। घर आकर सेठ का मुनिराज से उपसर्गकारी के विषय मे प्रश्न। १३२
१५. मुनि का कथन। हस्तिनापुर मे अग्निभूति विप्र। उसका वाद मे तुम्हारे द्वारा पराजय। राजा द्वारा निष्कासन। अपमान का रोष। कालियदेह राक्षस के रूप मे जन्म। पूर्व वैर स्मरण कर उपसर्ग। मुनि का यह कथन सुनकर सबकी धर्म मे रुचि। जिनदास की प्रव्रज्या। १३३
१६. दर्शन का पालन न करने का रुद्रदत्त का आख्यान। लाट देश, द्रोणिमान पर्वत के समीप गोद्रहपुरी, जिनदत्त वणिक्, पत्नी जिनदत्ता, पुत्री जिनमती। दूमरा वणिक् नागदत्त परम माहेश्वर, पुत्र रुद्रदत्त। उसके विवाह हेतु जिनमती की माग। धर्म भेद होने के कारण जिनदत्त द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार। १३३

- १७ नागदत्त का जैन धर्म स्वीकार करना । रुद्रदत्त का जिनमती से विवाह । रुद्रदत्त द्वारा शैव धर्म ग्रहण करने का प्रस्ताव । जिनमती की अस्वीकृति । १३३
- १८ रुद्रदत्त का आग्रह । जिनमतौ का प्रस्ताव कि दोनो अपना-अपना धर्म पालन करे । रुद्रदत्त का पुन वही हठ । जिनमती की दृढता । १३४
- १९ प्रति-पत्नी का इसी विषय पर विवाद और कलह एव परस्पर धमकी व अपने-अपने प्रस्ताव । भिल्लो द्वारा नगर पर आक्रमण । १३५
२०. पुर मे अग्नि-प्रकोप व रुद्रदत्त के घर तक अग्नि का प्रवेश । जिनमती का पति से प्रस्ताव कि जो देव इस उपसर्ग से रक्षा करे उसी को पूज्य माना जाय । १३५
- २१ प्रथम रुद्रदत्त द्वारा अपने इष्ट देव की आराधना व त्राण की प्रार्थना । किन्तु अग्नि की वृद्धि व निर्गमन मार्ग भी भग्न । १३५
२२. रुद्रदत्त द्वारा हरि, कमलासन, इन्द्र, चन्द्र आदि देवो का स्मरण व अर्घाजलि । तो भी अग्नि प्रकोप की निरन्तर वृद्धि । नागदत्त द्वारा जिनमती से अपने देव को अर्घ देने का आग्रह । १३७
- २३ जिनमती द्वारा अरहत देव का आराधन । शासन देवी द्वारा अग्नि का उप-शमन । सबका जैनधर्म स्वीकरण । १३६

संधि-१२

- कडवक पृष्ठ
- १ शुद्ध सम्यक्त्व से तीर्थकरत्व की प्राप्ति पर श्रेणिक चरित्र । जबूद्वीप, भरत क्षत्र, मगध देश, राजगृह पुर, उपश्रेणिक राजा, सुप्रभा रानी, श्रेणिक राजकुमार, पूर्व-वैरी सीमान्त नरेश अभिधर्म द्वारा प्रेषित दुष्ट अश्व । राजा की सवारी । भीषण वन मे अपहरण । किरातराज द्वारा सम्मान व अपनी पुत्री तिलकावती का परिणयन इस प्रतिज्ञा सहित कि उसी का पुत्र राजा होगा । नगरागमन । १३८
२. कुमार चिलातपुत्र की उत्पत्ति । राजा का नैमित्तिक से प्रश्न—कौन उसका उत्तराधिकारी होगा ? उत्तर—जो सिंहासन पर बैठकर भेरी बजाता हुआ, कुत्तो को चातुरी से सम्हालता हुआ पायस का भोजन करेगा, वही उत्तराधिकारी होगा । राजा द्वारा पाच सौ राजकुमारो की परीक्षा । नाना प्रकार के वरदान । १३९
- ३ श्रेणिक की माग । सिंहासन पर बैठकर भेरी बजाना । पायस भोजन । श्वानो का छोडा जाना । राजकुमारो का पलायन । श्रेणिक उन्हे भी थोडा खिलाता हुआ स्थिर । भूपाल के मन मे निश्चय । किन्तु दायादो के भय से कुत्तो के साथ भोजन के विटाल का दोष लगाकर नगर से निष्कासन । राजकुमार का नन्द ग्राम मे प्रवेश । १३९
- ४ नन्दग्राम के विप्रो द्वारा भी निष्कासन और परिव्राजको के मठ मे प्रवेश । बौद्ध-धर्म मे दीक्षित । वहा से दक्षिण देश गमन । गगास्नान से लौटते हुए काचीपुर के राजमत्री इन्द्रदत्त से मेल । राजपुत्र का कधे पर बैठने अथवा बिठलाने का प्रस्ताव । इन्द्रदत्त को भ्राति । १४०

५. मार्ग में हरा भरा खेत देखकर प्रबन्-खेत खा लिया गया, खाया जा रहा है या खाया जायगा। इस बेर के वृक्ष में कितने काटे हैं ? यह भैंसों को क्यों पीटता है ? यह वधू जो पीटी जा रही है, वह बद्ध है कि मुक्त ? राजकुमार का वृक्ष के नीचे छात्र धारण, पानी में चलने पर पनही धारण। राजकुमार के इन प्रश्नों व ऐसी क्रियाओं से विप्र की हैरानी। राजकुमार को काचीपुर के बाहर छोड़ विप्र का अपने घर गमन। पुत्री अभयमती का साथी के विषय में प्रश्न। १४०
६. भट्ट द्वारा राजपुत्र को पागल बतलाते हुए उस रू प्रश्नों व क्रियाओं का वृत्तान्त। कन्या द्वारा उनका युक्तियुक्त समाधान। १४१
७. कन्या का उस बुद्धिमान युवक को घर लाने का प्रस्ताव। युवक कीचड़ के मार्ग से लाया गया व कटोरे भर मात्र जल पैर धोने के लिए दिया गया। उससे भी कम जल में राजकुमार का पाद-प्रक्षालन। कन्या की उसे वरण करने की इच्छा। १४१
८. दोनों का विवाह। अभयकुमार पुत्र की उत्पत्ति। परदेश से वसुपाल नरेश का मंत्री को एक स्तभ प्रासाद बनवाने का आदेश। विज्ञानियों का सम्मेलन। १४२
९. चित्रपट देखकर भी एक स्तभ प्रासाद बनवाने में अपने असामर्थ्य का स्वीकार। सोमशर्मा की चिन्ता। जामाता द्वारा निर्माण। राजा का पुनरागमन व प्रासाद देखकर सतोष। १४२
१०. श्रेणिक में राजपुत्री वसुमित्रा का विवाह। उधर उपश्रेणिक द्वारा चिलात पुत्र को राज्य समर्पण। उसकी अनीति। मंत्रियों द्वारा श्रेणिक की खोज व पत्र-प्रेषण व राज्य निमित्त आमंत्रण। १४३
११. श्रेणिक का राजगृह आगमन व चिलातपुत्र को च्युत कर राज्य ग्रहण। इधर काचीपुर में अभयकुमार का माता से पिता के विषय में प्रश्न व वृत्तान्त जानकर प्रस्थान तथा नन्दिग्राम में आगमन। वहा सब द्विजों को उदास चित्त देख प्रश्न। १४४
१२. द्विजों द्वारा अपना परिचय—श्रेणिक नरेश के अग्निहोत्री। राजा का आकारण रोष व आदेश कि तुम्हारे ग्राम का कूप बहुत अच्छा है। उसे हमारे पास भेजो। अभयकुमार का धैर्यदान। १४४
१३. अभयकुमार द्वारा राजा को समुचित उत्तर प्रेषण। कूप से जाने को कहा, किन्तु नहीं जाता। उसके आकर्षण के लिये किसी सुन्दरी को भेजा जाय, क्योंकि नारी में पुरुष का वगीकरण है। इस सदेश से राजा निरुत्तर। १४४
१४. राजा का दूसरा आदेश—हाथी को कैसे तौला जाय। कुमार ने हाथी को नौका में चढाया व जितनी नौका पानी में डूबी उतने पत्थर भरकर उन्हें तौलकर हाथी की तौल बतला दी। राजा का तीसरा आदेश—प्रचुर जलयुक्त कूप को ग्राम के पूर्व में पश्चिम दिशा में करो। १४५
१५. कुमार ने ग्राम को कूप की पूर्व दिशा में बसा दिया। राजा का आश्चर्य। कोई नया विद्वान् ग्राम में आया है, जानकर आदेश—परदेशी को जब दिन हो न रात्रि, न भूमि न आकाश मार्ग से तुरत हमारे पास भेजा जाय। १४६

- १६ कुमार सव्या के समय रथ से लटकता हुआ राजगृह पहुँचा। पुत्र को पहचान कर राजा का हर्ष। उसे पुन काचीपुर भेजकर दोनों पत्नियों का श्रानयन। दूमरा प्रसंग। सिंधुदेश, वैशाली पुरी, कौशिक राजा व यगोमती रानी का पुत्र चेटक राजा व सुभद्रा रानी, सात पुत्रियाँ—प्रियकारिणी, सुप्रभा, प्रभावती, मृगावती, ज्येष्ठा, चन्द्रना और चेलना। १४६
- १७ राजा की वासगृह में चित्र लिखाने की इच्छा। कलाकार कोकास द्वारा स्त्री का चित्रलेखन। चित्रभूति चित्रकार का आगमन व कोकास से मेल। अनेक आश्चर्य, राजा का आमंत्रण। १४६
१८. राजादेश से चित्रभूति द्वारा महादेवी व कन्याओं के चित्रलेखन। चेलना के गृहस्थान पर मसि-विन्दु। राजा का रोप। चित्रकार का पलायन व राजगृह आगमन, श्रणिक को चेलना का चित्र प्रदर्शन। कन्या का परिचय। १४७
- १९ अपने पलायन का कारण वर्णन। कन्या के रूप की प्रशंसा। १४८
- २० राजा का अनुराग व मंत्रणा। किसी बुद्धिमान को भेजकर राजकन्या को भुलाकर ले आने की सम्मति। १४८
- २१ राजा का चित्रपट लेकर, व्यापारी के वेप में वैशाली गमन। चेटक राजा द्वारा सम्मान व निवास दान। वोट वणिक् के नाम से क्रय-विक्रय। १४९
- २२ प्रसिद्धि। चेलना को चित्रपट का समाचार। कौतुक वश आगमन व चित्र देखकर अनुराग। प्रिय के पास ले चलने का आग्रह। १४९
- २३ कुमार द्वारा राजकुमारी के भवन तक सुरग निर्माण। रात्रि में ज्येष्ठा और चेलना का वहिर्गमन। भूली हुई जिन-प्रतिमा व रत्न पट्टिका लाने के वहाने ज्येष्ठा को लौटाना। १५०
- २४ अभयकुमार का चेलना को लेकर पलायन। ज्येष्ठा का नैराश्य व तप-ग्रहण। १५०
- २५ श्रेणिक की प्रसन्नता व चेलना से विवाह। १५०

संधि-१३

कडवक

- १ चेलना के वारिसेन नामक व महादेवी के कूणिक नामक पुत्र का जन्म। राजा राजा द्वारा अपने वैष्णव गुरुओं (भगवो) को आमंत्रण। १५२
२. चेलना द्वारा साधुओं का स्वागत व तपाये हुए पट्टी पर आसन। साधुओं का पलायन। राजा को रोप। १५२
- ३ चेलना द्वारा उदाहरण। कौशाम्बी पुरी, प्रभापाल राज्य, यशोमती महादेवी, सागरदत्त वणिक् वसुमति गृहिणी, दूमरा वणिक् समुद्रदत्त, पत्नी समुद्रदत्ता। दोनों वणिकों की मैत्री। १५३
४. सागरदत्त का प्रस्ताव—यदि उनके पुत्र-पुत्री का जन्म हो तो परस्पर विवाह। सागरदत्त के भुजग का जन्म। समुद्रदत्त की नागदत्ता कन्या। परस्पर विवाह नागदत्ता का माता से कथन कि उसका पति रात्रि को पुरुष वेप में रहता है, किन्तु दिन में सर्प बनकर पिटारी में बन्द रहता है। माता का आश्वासन। १५३

- ५ समुद्रदत्ता का पुत्री के घर गमन । पुरुष बनकर प्रिया के पास जाने पर उसकी पिटारी का दमन व भुजग का सर्वकाल पुरुष रूप रह जाना । तदनुसार भगवो के मिथ्या रूप का दहन कर उनके सत्स्वरूप के प्रकटन के लिये उसका वह प्रयास । १५३
- ६ यह उत्तर पाकर राजा का मौन । एक दिन राजा का आखेट गमन । यशोधर मुनि का प्रतिमायोग मे दर्शन । इसे अपशकुन समझना । १५४
- ७ राजा का मुनि पर पाँच सौ कुत्ते छोडना । मुनि-माहात्म्य से उनका उपगमन । राजा की बाण-वृष्टि । उसका भी पुष्पवृष्टि मे परिवर्तन । फिर मुनि के गले मे मृत सर्प का डालना व सप्तम नरक की आयु बाँधना । उपर्युक्त आश्चर्य देखकर राजा का विनय व मुनि का आशीर्वाद । १५४
- ८ श्रेणिक की जैन शासन मे श्रद्धावृद्धि । सभा मे वनमाली द्वारा महावीर तीर्थकर आगमन का समाचार । १५५
- ९ राजा का विनय व वन्दना के लिए प्रस्थान । १५५
- १० विपुलगिरि की शोभा व उस पर समवसरण का दर्शन । १५५
- ११ समवसरण के विस्तार, तोरण, प्राकार, मानस्तम्भ, सोपान, उपवन आदि का वर्णन । १५६
- १२ समवसरण के द्वारो, प्रतिहारो, नृत्यो, धूपधरो केलिगृहो, नन्दनवनो अशोकवृक्ष का वर्णन । १५६
- १३, चार गोपुरो, वन वेदिका, ध्वजाश्रो व प्राकार का वर्णन । १५७
- १४ प्रतिहारो, नृत्यगृहो, कल्पवृक्षो, प्रासादो, तोरणो, सभाश्रो व द्वारपालो का वर्णन । १५७
- १५ सोलह भित्तियो, मणिमण्डप, सोलह सोपानयुक्त पीठ, धर्मचक्रो युक्त यक्षो, सुवर्ण पीठ, चक्रध्वज आदि का वर्णन । १५७
- १६ अरहत के ऊपर देवो द्वारा पुष्पवृष्टि, चौसठ यज्ञो द्वारा चमर चालन, उनकी दिव्यवाणी, सर्वजीव मैत्री आदि का वर्णन । १५८
- १७ पीठत्रय, भद्रासन व उस पर विराजमान तीर्थकर का वर्णन । १५८
- १८ स्तम्भो, स्तूपो, वेदियो का प्रमाण, वारह कोठो एव जयध्वनि का वर्णन व राजा का वहाँ पहुँचकर जिनेन्द्र दर्शन । १५९

संधि-१४

कहवक

- १ श्रेणिक द्वारा तीर्थकर महावीर की स्तुति । १६०
२. राजा की मुनिवन्दना व तीर्थकर के धर्मोपदेश का श्रवण । दो प्रकार के जीव, तीन काल, शल्य, रत्न, गति, गारव, गुण, गुप्ति, जगत, योग, वेद, मरुत् व मूढता, चार सज्ञा, वन्ध, कपाय, आराधना आदि क्रम से, आठ कर्म, भय और मद तक । १६०
३. नव ब्रह्मचर्य, पदार्थ, ग्रह, नय और पदार्थ से लेकर सोलह स्वर्ग, कपाय व भावना तक । १६१

- ४ सत्तरह सयम से लेकर तेतीस आसादन दोप तक । धर्म श्रवण कर श्रेणिक नरेश का गौतम स्वामी से अपने भवान्तर सवधी प्रश्न । १६१
- ५ गौतम स्वामो का उत्तर । विन्ध्य पर्वत पर खदिरसार नामक पुलिन्द । १६२
- ६ उस पुलिन्द द्वारा समाधिगुप्त मुनिका दर्शन व विनय । धर्मवृद्धि का आशीर्वाद । धर्म के स्वरूप का प्रश्न । हिंसा, मास भोजन व मद्यपान का त्याग ही धर्म । १६२
- ७ पुन असत्य, चोरी, परस्त्री, रात्रि भोजन, पैशुन्य व परवचन का त्याग ही धर्म । पुलिन्द का प्रश्न - समस्त धर्म पालन मे अशक्त हो तो क्या करे ? मुनि का उत्तर—देव-गुरु पर श्रद्धा रखकर शक्त्यनुसार धर्म पालन का भी महाफल । पुलिन्द का वायसमास के त्याग का व्रत ग्रहण । १६२
८. पुलिन्द को व्याधि । वैद्य द्वारा काक-मास खाने का विधान, पुलिन्द को अस्वीकार । पत्नी द्वारा अपने भ्राता सूरवीर का सारसपुर से आनयन । वन मे रोती हुई यक्षिणी से भेंट । १६३
- ९ वट-यक्षिणी द्वारा आत्म-निवेदन । भगिनीपति काकमास त्याग के फल से उसका भावी पति, किन्तु उसके व्रतभग के फल से देवयोनि की अप्राप्ति की आशका से रुदन । व्रत भग न करने का वचन देकर सूरवीर का भगिनीपति के समीप गमन । १६३
- १० काकमास खाकर व्याधि दूर करने का आग्रह, किन्तु पुलिन्द द्वारा निषेध । सूरवीर द्वारा यक्षिणी-वृत्तान्त सुनकर पुलिन्द का सब जीवो के मास का त्याग व मरकर प्रथम स्वर्ग मे दिवाकर नामक देव होना । १६४
- ११ लौटते हुए सूरवीर द्वारा पुन यक्षिणी से भेंट । यक्षिणी का पुन रुदन, क्योंकि उसी की बात सुनकर सर्वजीवमास के त्याग से पुलिन्द को उत्तम देव योनि मिली । सूरवीर का श्रावक धर्म ग्रहण । १६४
१२. उसी खदिरसार पुलिन्द का श्रेणिक के रूप मे जन्म । श्रेणिक का सक्षेप मे जीवन चरित्र । १६४
- १३ शेष जीवन चरित्र अभयकुमार के जन्म से लेकर काचीपुर से निकलने तक । १६५
- १४ पुन अभयकुमार के नन्दिग्राम मे पहुचने से चेलना के लाये जाने तक का सक्षेप वृत्तान्त । १६५
- १५ चेलना के विवाह से लेकर मुमि की महिमा देखकर श्रेणिक के उपशम भाव तक का वृत्तान्त । १६६
- १६ श्रेणिक का गौतम गणधर को प्रणाम, स्तवन, धर्मश्रवण, क्षायिक सम्यक्त्व उत्पादन, सप्तम नरक से काटकर प्रथम नरक का आयुबध, प्रबल सवेग से भावी तीर्थकरत्व लाभ व महावीर का निर्वाण हो जाने पर तथा चतुर्थ काल के तीन वर्ष आठ मास व पन्द्रह दिन शेष रहने पर मृत्यु की भविष्यवाणी । १६७

संधि-१५

कडवक

पृष्ठ

- १ राजा श्रेणिक का गीतम गणधर से कालक्रम मवधी प्रश्न । उत्तर—तुम्हारी (श्रेणिक की) मृत्यु के तीन वर्ष आठ माह पन्द्रह दिन पश्चात् आपाढ पूर्णिमा समाप्त होने पर श्रावण प्रतिपदा से पचम काल प्रारभ । तव उत्कृष्ट आयु १२० वर्ष व शरीर प्रमाण ७ हाथ । एक सहस्र वर्ष पश्चात् पाटलिपुर मे दुर्मुखकल्कि की उत्पत्ति । १६८
- २ साधुओ पर सकट । कल्की का मारा जाना । १६८
- ३ पचमकाल मे नीति व गुणो का ह्रास और अनीति की वृद्धि ।
४. स्त्री पुरुषो मे दोष वृद्धि । प्रकृति मे परिवर्तन । अन्तिम कल्कि कोशलपुर का दुर्दर्शन । १६९
- ५ कल्कि का उनकी वृत्ति के सबध मे प्रश्न । मन्त्री का उत्तर—भिक्षाहार । उसे भी ग्रहण करने पुरुष-प्रेषण । उस समय सागरचन्द्र नामक एक मात्र मुनि शेष । १७०
- ६ आज्ञा न मानने वालो के सबध मे प्रश्न । उत्तर मे निर्ग्रथ साधुओ के गुण-धर्मो का उल्लेख । १६९
७. और एक मात्र श्रावक सागरदत्त । आहार का भी कर देकर मुनि और श्रावक का स्वर्गवास । निर्ग्रथ साधुओ का अभाव । वज्रपात से राजा की मृत्यु । कार्तिक की अमावस्या को सूर्योदय मे सागरचन्द्र का स्वर्गवास, पूर्वाह्न मे धर्म-नाश, मध्याह्न मे राजकुल क्षय, अपराह्न मे अग्नि का नाश तत्पश्चात् सबका कच्चा भोजन । आपाढ पूर्णिमा के पश्चात् कलिकी समाप्ति । १७०
- ८ श्रावण प्रतिपदा से अति कलिकाल का प्रारभ । उत्कृष्ट आयु बीस वर्ष व शरीराकृति एक हाथ प्रमाण । फिर प्रलय काल । जल का सूखा, पृथ्वी का फटना । सप्त रात्रि वज्राग्निपात, सप्तरात्रि प्रचण्ड वायु, सप्त रात्रि विषयुक्त जलवृष्टि, सप्त रात्रि खारी जलवृष्टि फिर कपाय, कटु, तीखे व काजी सदृश व तत्पश्चात् अमृतोपम जलवृष्टि । फिर पृथ्वी पर बीजाकुरादि की उत्पत्ति व मानव वृद्धि पुनः राजा का गणधर से प्रश्न । १७१
९. क्या विजयार्ध पर्वत पर वज्रानल नही पडता ? उत्तर—नही । आर्यखड के मध्य मे ही प्रलय होता हे, पच म्लेच्छखडो मे नही । वहा सर्वत्र दुपम और सुपम काल मात्र की प्रवृत्ति । वहा आयु आदि का प्रमाण । १७२
- १० अतिदुपम काल के पश्चात्, दुपमकाल व आयु शरीर प्रमाण आदि । सहस्र वर्ष शेष रहने पर चौदह कुलकरो की उत्पत्ति । उनके नाम । १७२
- ११ तत्पश्चात् चौबीस तीर्थकर । उनमे प्रथम पद्म नामक तुम (श्रेणिक) । अन्य भावी तीर्थकरो के नाम । १७३
- १२ भरत आदि वारह भावी चक्रवर्तियो के नाम । तथा नव बलदेव नारायण और उनके प्रतिशत्रु । नव नारद, चौबीस कामदेव व अन्य प्रकार के राजा । उत्कृष्ट आयु व शरीर प्रमाण । दुपम-सुपम काल मे दश प्रकार के कल्प वृक्ष । १७३

- १३ क्रमशः न्युपम-दुपम सुपम व न्युपम-सुपम काल की प्रवृत्तिया । १७३
१४. फिर न्युपम, न्युपम-दुपम, दुपम-न्युपम, दुपम व अतिदुपम कालो का क्रम । यह नव नूनकर राजा को नतोप । गृह आगमन । आयु पूर्ण कर मरण । कृणिक कुमार का राज्याभिषेक । अभयकुमार व वारिषेण । राजकुमारो का तपग्रहण । १७४

संधि—१६

कहवक

पृष्ठ

- १ धर्म मे भक्ति के प्रभाव पर करकडु चरित्र । भारतवर्ष, अग देश चम्पापुर, धाडीवाहन राजा, वमुदत्ता महादेवी । समीप ही कुसुमपुर । १७५
- २ एक दिन धाडीवाहन का कुसुमपुर आगमन । चौराहे पर पद्मावती सुन्दरी का दर्शन । १७६
३. राजा का पद्मावती के प्रति अनुराग । उसके पिता कुसुमदत्त माली से सम्पर्क व राजा ने पद्मावती का वियाह । १७६
- ४ पद्मावती का शील देखकर राजा का उसके कुल के मवध मे सन्देह । कुसुमदत्त ने ज्ञात हुआ कि उसे एक दिन सध्या समय गगा मे बहती हुई पेटिका दिखी । १७६
५. पेटिका को घर लाकर देखने पर उसमे यह कन्या मिली । पद्म महाब्रह्म मे मिलने से नाम पद्मावती रखा । १७७
- ६ राजा ने वह पेटिका मगवाई जिसमे एक पत्र मिला । उसमे लिखा था कि यह कौगाम्ब्री के राजा वनुपाल और रानी वनुमती की पुत्री है । इसके गर्भवास मे माता को अनेक कष्ट हुए । अतः अशुभ जान गगा मे छोड दी गई । १७७
७. पद्मावती महादेवी हुई । चम्पापुर मे स्वागत । १७८
- ८ अन्तःपुर मे प्रवाद फैला कि राजा ने माली की नीच कुल की कन्या से विवाह किया । मुनकर देवी को खेद व पिहितान्नव मुनि के समीप गमन । १७८
- ९ रानी ने दीक्षा मागी । उसी समय अन्त पुर से उसे मनाने महादेवी आई । १७९
- १० वमुदत्ता महादेवी ने मनाकर पद्मावती को घर लौटा दिया और स्वयं तप ग्रहण कर लिया । १७९
- ११ वमुदत्ता तप कर स्वर्गलोक गई । इधर पद्मावती को एक रात्रि स्वप्न मे हाथी, श्वेत अश्व, वृषभ, श्रीमवन व कल्पवृक्ष दिखाई दिये । प्रातः राजा मे निवेदन । १८०
- १२ राजा ने स्वप्न का फल प्रतापी पुत्र की उत्पत्ति बतलाया । १८०
- १३ स्वप्नफल मुनकर पद्मावती का मन्तोप । गर्भोत्पत्ति । दोहला कि पुरुषवेग करके राजा के साथ हाथी पर बैठकर सपरिवार, शीतल मद पवन और वृष्टि होते समय नगर की प्रदक्षिणा करें । नगर मे उत्सव और श्रेष्ठ हाथी का श्रृंगार । १८१
- १४ विद्यावेग विद्याधर द्वारा पवन, मेघ और वृष्टि की मृष्टि । सजधज के साथ यात्रा प्रारम्भ । हाथी मदीन्मत्त होकर नगर से बाहर भाग उठा । १८१
- १५ हाथी कर्लिंग देश के दतीपुर के समीप जा पहुँचा । रानी ने मनाकर राजा को वृक्ष की शाखा पकड कर उतरने व घर लौटने पर राजी कर लिया । १८२

१६. हाथी का दतीपुर के पद्मसरोवर में प्रवेश, रानी का उतरकर पद्मसरोवर में नौसे ठहरना, माली का जल भरने आना व बहिन बहने पद्मसरोवर को पत्र ले जाना । चार मास सुप्त से व्यतीत । माली की अनुपस्थिति में मालिन राजा घर में निस्तारण । १८२
१७. पद्मावती का द्मदान में पुत्रजन्म । मातृगवेशी पुत्र का आवगमन व शान्त-निवेदन । भारत देश विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में विद्युत्प्रभपुर, विद्युत्प्रभ राजा, विद्युल्लेखा महादेवी । उनका पुत्र में ब्रह्मदेव, पत्नी देवमाता । एक दिन मलयचल की ओर विहार । १८२
१८. लौटते समय मथुरा के ऊपर विमान रथगित । नीचे योग में लीन श्रुति । उन्में विमान के निरोध का कारण जान अपमान । विद्या विच्छेद का दाग और क्षमा याचना । १८३
१९. शाप का श्रन्त तब जब दतीपुर के द्मदान में पद्मावती द्वारा प्रसूत पुत्र का तू चाण्डालवेप में पालन करेगा और युवक होने पर उसका राज्याभिषेक होगा । तभी से मैं (मातृगवेशी विद्याधर) यहाँ प्रतीक्षा में । १८३
२०. मातृग ने बालक की याचना की । उसे लेकर घर आया और पत्नी को दिया । पद्मावती जिनमदिर में गयी और श्रजिका के पान रहकर निरोग हुई । श्रजिकाओं के साथ समाधिगुप्त मुनि की वन्दना को गई । १८४
२१. पद्मावती ने मुनि से अपने पति-वियोग का कारण पूछा । मुनि का उत्तर— श्रावस्तीपुरी, वणिक् नागदत्त, पत्नी नागदत्ता व्यभिचारिणी, उसे छोड़कर पति की मुनि-दीक्षा, स्वर्ग-गमन । वहा से चम्पापुर में घाडीवाहन नरेश । १८४
२२. नागदत्ता का जार दतीपुर के वन में हाथी होकर घाडीवाहन का रेवात्तनक हाथी हुआ । नागदत्ता ताम्रलिप्ति नगर में वसुदत्त वणिक् की पत्नी नागदत्ता हुई । उसकी दो पुत्रियाँ धनवती और धनश्री । धनवती का विवाह नालदा के धनपाल से । उसने बौद्धधर्म ग्रहण कियां । धनश्री का विवाह कौशाम्बी के वणिक् वसुमित्र से । वह हुई श्राविका । माता विधवा व निर्धन होकर लघु पुत्री के पास कौशाम्बी आई । १८५
२४. नागदत्ता का मुनि के पास रात्रिभोजन त्याग का व्रत ग्रहण । नालदा जाने पर व्रत खडित । इसी प्रकार आते जाते तीन बार व्रत-ग्रहण और खडन । श्रन्त में धनश्री के पास व्रत लेकर मरण व वसुपाल नरेश की देवी वसुमती के गर्भ में जन्म । माता की पीडा । १८५
२५. जन्म से गंगा हृद से पेटिका में पायी जाकर माली द्वारा पालीजाने का वृत्तान्त । १८५
२६. माली द्वारा पत्नी को सौपने से लेकर राजा को अपना दोहला प्रकट करने तक का वृत्तान्त । १८६
२७. नगर की प्रदक्षिणा को निकलने से लेकर दतीपुर के सरोवर में हाथी से मुक्ति तक का वृत्तान्त । १८६
२८. माली के घर पहुँचने से लेकर मातृग द्वारा पुत्र ग्रहण तक का वृत्तान्त । तीन १८६

वार व्रतभग का फल क्रमशः जन्मते ही जलप्रवाह, हाथी द्वारा अपहरण और माली के घर से निस्सारण ।

१८७

संधि—१७

कडवक	पृष्ठ
१. बलदेव खेचर के घर बालक का संवर्धन । एक दिन पद्मावती उसे देखने आयी और उसे हाथ च्छुजाते देखकर करकंडु नाम दिया । विद्याधर द्वारा नाना शान्त्रो की शिक्षा ।	१८८
२. वीरभद्र जयभद्र मुनियो का आगमन । वहा नर-कपाल से निकले तीन वासो को देखकर मुनि की भविष्यवाणी कि वे राजा के अकुश, छत्र और ध्वजा के दंड होंगे ।	१८८
३. इम भविष्यवाणी को सुन एक विप्र का उन्हें काटना । करकंडु का उससे छीनना । उनके राज-लक्षण देख विप्र का विनय ।	१८९
४. करकंडु के पूछने पर विप्र का आत्मनिवेदन । पाटलिपुर का सुमति नामक सकलकला प्रवीण किन्तु निर्वन पंडित । अर्थोपार्जन निमित्त सब कुछ किया और सर्वत्र गया । किन्तु कार्य-निष्ठ नहीं । भ्रमण करते करते आना व मुनि वचन मुनकर वांम काटना ।	१८९
५. करकंडु से विप्र की याचना कि राजा होने पर उसे मन्त्रिपद दिया जाय ।	१८९
६. करकंडु की स्वीकृति । वृक्ष के नीचे निद्रा । दतीपुर के राजा बलवाहन का पुत्रहीन मरण । मन्त्री की चिन्ता । पट्टहस्ती का श्रृंगार कर, सूड में कलश दे राजा की खोज का निर्देश ।	१९०
७. हाथी का ध्मगान में जाकर करकंडु का कलश से स्नान । सबका जयघोष । करकंडु का हस्ति आरोहण । कुछ लोगो की मातंग के राज्याभिषेक पर आपत्ति । द्विज का आगमन ।	१९०
८. द्विज का विनय व आशीर्वाद । लोगो का संशय-निवारण । करकंडु का नगर प्रवेश व राज्याभिषेक ।	१९१
९. बलदेव विद्याधर का आकाश में विमान से अपना व करकंडु का परिचय देकर सबको आश्वस्त करना ।	१९१
१०. उन वासो के अकुश छत्र व ध्वज-दंड निर्माण । द्विज को मन्त्रिपद प्रदान । पद्मावती का आगमन व आशीर्वाद और शिक्षण देकर निर्गमन ।	१९१
११. चम्पापुर नरेश के दूत का आगमन व सेवा की माग, अन्यथा आक्रमण का भय ।	१९२
१२. करकंडु का अस्वीकार ।	१९२
१३. दूत का पुनः आग्रह व भय प्रदर्शन ।	१९३
१४. करकंडु की सभा के सभी सामन्तो व मन्त्रियो का रोष, दूत की भर्त्सना व स्वामी को वीरतापूर्ण सदेश ।	१९३
१५. दूत का लौटकर स्वामी को आवेदन । चम्पा नरेश का सैन्य सहित आक्रमण ।	१९४

- १६ गुप्तचरो द्वारा करकंडु की प्रचंड आक्रमण की सूचना । १६४
- १७ करकंडु की समर घोषणा । मुभटो की तैयारी । १६४
- १८ भटो की अपनी पत्नियों से दपौंक्तिर्था । १६५
- १९ भट-पत्नियों द्वारा विदाई । मवल मैन्य सहित राजा का निर्गमन । १६५
- २० दोनों सेनाओं का मध्यम । पद्मावती का आकर पिता-पुत्र की पहिचान कराना । १६६
- २१ पिता-पुत्र का आनिगन । मवलके द्वारा पद्मावती की म्नुति । १६६
- २२ करकंडु का चम्पापुर गमन व राज्याभिषेक का उत्सव । पिता की मुनि दीक्षा । १६७
- २३ कैलास पर्वत पर योग साधना और मुक्ति । करकंडु की मभा में गुप्तचर का आगमन । १६७
२४. गुप्तचर का मन्देश । दक्षिणापथ के चोल चेर और पाह्य नरेशों द्वारा करकंडु की प्रभुता अम्वीकार । दूत-प्रेषण । उक्त नरेशों की जिनेन्द्र को छोड अन्य किमी को प्रणाम न करने की प्रतिज्ञा । करकंडु का प्रकोप व द्रविण देश पर आक्रमण । १६८
- २५ करकंडु का द्रविण नरेशों से मग्राम । तीनों द्रविण राजाओं का वन्दीकरण । १६८
- २६ हुंकार सहित वामपाद में मिर पर प्रहार करते समय मिर पर जिनमूर्ति का दर्शन । करकंडु का पञ्चाताप व राजाओं की मुक्ति । उनका पुत्रों को राज्य देकर तप ग्रहण । १६९

सन्धि १८

कहवक

पृष्ठ

- १ दक्षिण विजय में लौटकर तेरापुर में आवान । २००
- २ तेरापुर के मिल्ल नरेश शिव का आकर करकंडु को नमन व महस्त्र-स्तंभ जिनालय व उनके ऊपर एक वामी का श्वेत हाथी द्वारा पूजन का आश्चर्य कथन । २००
- ३ करकंडु का गमन, जिनालय-वदन, वामी के हाथी द्वारा पूजन का चमत्कार दर्शन, स्वयं वामी का पूजन व वामी के रहस्योद्घाटन पर्यन्त उपवास ग्रहण ।
- ४ रात्रि के पश्चिम याम में नागदेव का आगमन व वृत्तान्त कथन । दक्षानन वशी सूर्य देव विद्याधर द्वारा पृष्टि नामक गिरि पर चौबीसो तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा । अमितवेग-मुवेग विद्याधरो का आगमन व प्रतिमा-दर्शन । २०१
- ५ अमितवेग का पाण्डव प्रतिमा को लेकर वहाँ (तेरापुर) तक आना व पर्वत पर प्रतिमा रखकर जिनालय की वदना करना । पुनः उठाने पर प्रतिमा का न उठना । निराश होकर वही मजूपा में रखकर तेरापुर के महस्त्र-कूट मंदिर में यशोधर मुनि का दर्शन । मुनि द्वारा वही विद्यालय जिनालय बनने की भविष्यवाणी मुन दोनों आनाओं की मुनि दीक्षा । २०२
६. सुवेग का मिथ्यानप । मरकर श्वेत हाथी की पर्याय । अमितवेग का देव होना व आकर हाथी को जाति-स्मरण कराना तथा जब तक कोई प्रतिमा का उद्धार न करे तब तक पूजन करने का उपदेश । २०२

- ७ नागदेव का आगे कथन । विजयार्ध से नील महानील विद्याधरो का निर्वासित होकर यहा आगमन । उनका सागर मुनि से प्रश्न । २०३
- ८ सागर मुनि की भविष्यवाणी । जब तुम दक्षिण देश के आभीर विषयवर्ती तेरापुर मे बारह वर्ष रह चुकोगे तथा धाराशिव पल्ली के समीप गिरितल पर सहस्र स्तभ जिनभवन बनवाकर अष्टाह्निक महोत्सव व आठ दिन का उपवास पूर्वक मंत्राराधन करोगे तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी । उन्ही का यहा आकर राज्यस्थापन । जिनालय निर्माण व पुन विद्याधर पद प्राप्ति । नागदेव द्वारा करकडु की भी प्रशसा । २०३
- ९ नागदेव का गमन । प्रात करकण्डु द्वारा वामी का खनन व जिनप्रतिमाकर्पण एव लयन मे आनयन । २०३
- १० लयन की मूल प्रतिमा मे पापाण-ग्रथि अवलोकन । ग्रथि का स्फाटन । जलवाहिनी निर्गमन । नैमित्तिक के वचनानुसार पापाण-चयन व बधान । २०४
- ११ करकडु का पश्चात्ताप । नागदेव का पुनरागमन व सबोधन । एक और लयन के निर्माण का उपदेश । २०४
- १२ दूमरा एक और छोटा लयन महादेवी के नाम का बनवाया गया । तीनों लयनों मे प्रतिष्ठा एक साथ करायी गयी । चम्पापुर आगमन । मुनि सघ का आगमन । वन्दना । पद्मनाभ मुनि से पूर्वभव सबधी प्रश्न । मुनि का उत्तर—तेरापुर मे नील-महानील के राज्यकाल मे धनमित्र वणिक् । २०५
- १३ उसके धनदत्त गोपाल का कमल तोडना, नागदेव द्वारा निरोध व सबसे श्रेष्ठ और पूज्य की उस कमल से पूजा का आदेश । धनमित्र की पूजा का प्रयत्न । २०५
- १४ वणिक् द्वारा नील राजा को, राजा द्वारा यशोधर मुनि को व मुनि द्वारा अरहत देव को पूजने का निर्देश । २०५
- १५ उस पूजा के फल से चम्पानरेश पद की प्राप्ति । करकडु का तपग्रहण व स्वर्ग-प्राप्ति ।

सन्धि १९

- कडवक पृष्ठ
- १ भक्ति के फल पर रोहिणीचरित्र । श्रेणिक का गीतम मुनि से प्रश्न । गीतम का उत्तर—भारतवर्ष, चम्पापुरी, राजा मधवत । २०७
- २ रानी श्रीमती के श्रीपाल आदि आठ पुत्र व उनसे छोटी पुत्री रोहिणी । कार्तिक मे नन्दीश्वर-पर्व के दिन रोहिणी का उपवास व पिता को शेष अर्पण । राजा को पुत्री के विवाह की चिन्ता । चारो मत्रियो के साथ मंत्रणा । २०७
- ३ सुबुद्धि मत्री द्वारा स्वयवर का प्रस्ताव । स्वयवर योजना । २०८
- ४ राजकुमारी के मडप मे आने पर राजाओं की चेष्टाए । २०८
- ५ नेपाल आदि देशो के राजाओं को व्यथा पहुचाती हुई राजकुमारी का अशोक कुमार के पास आगमन । २०८

- ६ धात्री द्वारा परिचय—हस्तिनापुत्र के राजा वीतशोक का पुत्र अशोक । कुमारी द्वारा वरमाला अर्पण । २०६
- ७ अन्य राजाओं का नैराभ्य और रोष । २०६
- ८ अशोक का राजाओं से युद्ध । २१०
- ९ अशोक से पराजित हो नरेशो का पलायन । २१०
- १० (अशोक-रोहिणी विवाहोत्सव) ।
- ११ (हस्तिनापुर आगमन । स्नेह । पुत्र जन्म) विलाप करती हुई महिला को देखकर रोहिणी का धात्री से प्रश्न ।
- १२ धात्री का उत्तर—विलाप का कारण शोक । रोहिणी का प्रश्न—शोक क्या और कैसा होता है ? इस पर धात्री का रोष । २११
- १३ रोहिणी की क्षमायाचना, किन्तु शोक नाम की वस्तु का अज्ञान प्रदर्शन । पति का रोष व लोकपाल पुत्र का प्रसाद से क्षेपण । देवों द्वारा बालक की रक्षा । २११
- १४ बालक को खेलते देख व रोहिणी के पुण्य प्रभाव को जानकर सबका विस्मय तथा धर्मरुचि । रूप्यकुभ और सुवर्णकुभ मुनियों का आगमन । राजा द्वारा वन्दना व पूर्वजन्म सबधी प्रश्न । २११
- १५ मुनि का उत्तर । उत्तर दिशा में वारह योजन पर नील पर्वत । मृगमारी व्याध । यशोधर मुनि का आगमन । उस दिन व्याध को कोई गिकार न मिला । मुनि को कारण जान उनके भिक्षा को जाने पर आसनशिला को तपाना । २१२
- १६ मुनि का शिला पर बैठते ही मरण व मुक्ति । व्याध को कुण्ठ-व्याधि व मरकर नरक नमन । पुनः पुनः पशु व नरक योनि में जन्म । फिर इसी नगर में ग्वाला वृषभसेन । दुर्गन्धयुक्त देह । नीलगिरी में दावाग्नि से मरण । अतएव उसकी माता का शोक । २१२
- १७ रोहिणी की भवावलि । उसी नगर में वसुपाल का राज्य । धनमित्र सेठ, धनमित्रा पत्नी । पुत्री दुर्गन्धा । वही सांगरसेन की श्रीमती भार्या का पुत्र श्रीषेण, खल स्वभाव के कारण मृत्युदंड को प्राप्त । २१३
- १८ उसे धनमित्र का प्रस्ताव कि यदि पुत्री को विवाह तो मृत्युदंड से मुक्त कराया जाय । स्वीकृति । राजा को प्रसन्न कर मुक्ति । दुर्गन्धा से विवाह । उसका स्पर्श अमह्य पाकर पलायन । मुनि आगमन । दुर्गन्धा का प्रश्न । मुनि का उत्तर—सौरठ देश । गिरिनगर । भूपाल राजा । गगदत्त वणिक् । मदनोत्सव की यात्रा । मुनिदर्शन । सिंधुमती भार्या से आग्रह— २१३
- १९ घर जाकर मुनि को भोजन करा आओ । रोषपूर्वक लौटकर कडवी तूबी का आहारदान । मुनि की मृत्यु । विमान द्वारा शव यात्रा । लौटते हुए राजा ने देखा और प्रश्न किया । २१४
- २० वृत्तान्त जानकर राजा का शोक व रोष । सिंधुमती का खरारोहण व निस्सारण कुण्ठव्याधि से मरण । कुत्ती, शूकरी, श्रगाली, उदुरी, जलूका, मातृगी, गर्दभी व गाय योनियों में भ्रमण कर तू दुर्गन्धा हुई । सुनकर दुर्गन्धा का पश्चात्ताप । २१४

- २१ पाप से मुक्ति का उपाय बतलाया गया रोहिणी उपवास । उसकी विधि । २१५
 २२ उपवास की उद्यमन विधि । फल—उत्तम कुल में जन्म ।

संधि-२०

- कडवक पृष्ठ
- १—साधु द्वारा रोहिणीव्रत माहात्म्य की कथा । भारतवर्ष, सकटविषय, सिंहपुर नरेश जयसेन । कनक प्रभादेवी का पुत्र दुर्गन्ध । नभ में असुरकुमार को देखकर पूर्वभवस्मरण व मूर्च्छा । सचेत होने पर पिता द्वारा मूर्च्छा के कारण का प्रश्न । २१७
- २ कारण न बतलाने पर केवली के समीप गमन । पूर्वभव में मुनिवध के कारण दुःख परम्परा । कर्लिंग देश, विन्ध्यपर्वत का महाशोक वन । २१७
- ३ वहा ताम्रकृति और श्वेतकृति नामक दो गजेन्द्र । परस्पर युद्ध में दोनों मृत । पश्चात् परस्पर वैरयुक्त मूषक-मार्जार, अहि-नुकल, काक-श्येन आदि रूपों में जन्म । फिर दोनों का कनकपुर के पुरोहित सोमभूति के सोमशर्मा और सोमदत्त नामक पुत्र होना । उनकी क्रमशः सुकाता और लक्ष्मीमती नामक पत्नियाँ । पिता की मृत्यु पर लघु भ्राता का राजपुरोहित होना । २१८
- ४ एक दिन भावज ने सोमशर्मा के दुराचार की बात कही । सोमदत्त का छिपकर स्वयं देखना व विरक्ति से मुनि-दीक्षा लेना । सोमशर्मा को पुरोहित पद । २१८
- ५ शकट देश के राजा द्वारा त्रैलोक्य सुन्दर हाथी की मांग । न देने पर आक्रमण । सोमदत्त मुनि का वही बिहार । सोमशर्मा की इसे अपशकुन बताकर मुनि को मरवा डालने की राजा को सलाह । विश्वदेव विप्र द्वारा विरोध । २१९
- ६ मुनिदर्शन शुभ शकुन के पक्ष में शास्त्रप्रमाण । प्रातः मगध नरेश द्वारा हस्ति-समर्पण । रात्रि में सोमशर्मा द्वारा सोमदत्त मुनि का वध । राजा द्वारा वधक को पिटवाकर निर्वासन । कुष्ठ-व्याधि । मरकर नरक गमन । २१९
- ७ सोमशर्मा नरक से निकल कर समुद्र में तिमिंगिल मत्स्य हुआ । फिर सिंह सर्प, भेरुड व बक पक्षी होकर अन्त में यह तेरा पुत्र दुर्गन्ध हुआ है । रोहिणी उपवास के पुण्य से दुर्गन्ध सुगन्ध हो गयी । २२०
- ८ राज्य किया । फिर अपने पुत्र श्री विजय को राज्य देकर तप और स्वर्ग गमन । फिर पूर्वविदेह क्षेत्र की पुडरीक नगरी के राजा विमलकीर्ति का दिवाकर कीर्ति नामक पुत्र । मित्र मेघसेन । उत्तर मथुरा के सेठ सागरदत्त का पुत्र सुमन्दिर । २२०
- ९ दक्षिणमथुरा के नन्दमित्र वणिक् की दो कन्याओं का सुमन्दिर से विवाह । रविकीर्ति (दिवाकरकीर्ति) का पहचान व नवोढाओं का अपहरण । नागरिकों द्वारा मनाकर पुनरावर्तन । रविकीर्ति के पिता ने सुना । रविकीर्ति का मित्र सहित निर्वासन । वीतशोक नगर जाना । वहा के राजा विमलवाहन की जयमती आदि आठ पुत्रियाँ । २२१
- १० नैमित्तिक की भविष्यवाणी, जो चन्द्रकवेध करेगा वही जयमती का पति होगा । चन्द्रकवेध की स्थापना । २२१

- ११ अन्य किसी के न वेध मरने पर अर्ककीर्ति का आदेश व उनके द्वारा वेधन तथा जयमती आदि कन्याओं का वरण । मोते हुए चित्रलेखा विद्याधरी द्वारा अपहरण । विजयार्द्र के शिवर पर मिट्टकूट मन्दिर में छोड़कर विकट-दन्त विद्याधर को समाचार २२२
- १२ इधर कुमार की उठकर वदना । वज्रकपाटो का खुलना । विकटदत्त का आगमन व वृत्तान्त कथन । अन्नपुर में पवनवेग विद्याधर की वीतशोका पुत्री । मुनि का वचन जिसके आने पर मन्दिर के वज्रकपाट स्वयं खुलेंगे, वही उमका पति होगा । कुमार को लेकर विद्याधर का गमन । २२३
- १३ उत्सव पूर्वक कुमार का नगर-प्रवेश । वीतशोका व अन्य इकतीस कन्याओं का विवाह । पाच वर्ष रहकर गृह की ओर प्रस्थान । अजनागिरि नगर, प्रभजन, भूपति, नीलाजना देवी, मदना, कनका आदि आठ पुत्रियाँ । उद्यान गमन । नीलगिरि हाथी का स्तम्भ भगकर भागना । जन कोलाहल । २२३
- १४ कुमार द्वारा हाथी का वशीकरण व कन्याओं का परिणय । पुडरीकिनीपुर गमन व अनेक आश्चर्य प्रदर्शन और बल-सचय । राजा से सग्राम । नामांकित वाण का प्रेषण । पिता-पुत्र की पहिचान व आलिंगन । २२४
- १५ उत्सव सहित पुत्र-प्रवेग । उल्कापतन देखकर दीक्षा-ग्रहण व निर्वाण प्राप्ति । इन्द्रधनुष की अनित्यता देखकर अर्ककीर्ति को वैराग्य । पुत्र विमलकीर्ति को राज्य देकर दीक्षा व स्वर्गगमन । वह वणिकपुत्री दुर्गन्धा रोहिणी उपवास के फल से तुम्हारी (अर्ककीर्तिकी) महादेवी हुई । २२४
- १६ तुम्हीं अर्ककीर्ति वीतशोक नरेश की पत्नी विद्युत्प्रभा से उत्पन्न अगोक नामक राजपुत्र हुए । महादेवी अगदेश में चपापुरी के राजा मधवत की कन्या रोहिणी । पुत्रों के जन्म वृत्तान्त । मथुरापुरी, श्रीधर राजा, अग्निशर्मा पुरोहित व उसके सात पुत्र । पाटलिपुत्र आगमन । सुप्रतिष्ठ राजा का पुत्र सिंहरथ । २२५
१७. विगतशोक (वीतशोक) नरेश द्वारा राजपुत्री कमला का सिंहरथ को दान । विप्रसुतो को वैराग्य व मुनि-दीक्षा । स्वर्गवास व तुम्हारे (अशोक के) पुत्रों के रूप में जन्म । पूर्वकाल का भल्लावक नामक विद्याधर पिहितासव मुनि के समीप ब्रह्मचारी हो गया । २२५
- १८ वही मरकर तुम्हारा (अशोक का) लोकपाल नामक पुत्र हुआ । चारो पुत्रियों के पूर्वजन्म । पूर्वविदेह, विजयार्द्र की दक्षिण श्रेणी अलकापुरी । गरुणवेग प्रभु, कमलादेवी की कमलश्री आदि चार पुत्रियाँ । क्रीडा हेतु उपवन-गमन । सुव्रतसूरि के दर्शन । २२६
१९. मुनि से प्रश्न—उपवास का स्वरूप व फल । पारमार्थिक और व्यावहारिक इन दो प्रकारों के उपवास । अन्य धर्मों में उपवास का प्रमाण । २२६
- २० उपवास का फल—पाप का शोधन व सुरासुर आदि का वशीकरण तथा मन्त्रसिद्धि । पचमी उपवास का स्वरूप और फल । २२७
२१. कुमारियों का पचमी उपवास व्रत । स्वर्गवास व तुम्हारी (अशोक की) पुत्रियों

	के रूप में जन्म । वसुधरी का मौनव्रत के फल सवधी प्रश्न । मुनि का उत्तर ।	२२८
२२	मौनव्रत के उत्तम फल ।	२२८
२३.	मौनव्रत का उद्यापन । वसुधरी का मौनव्रत धारण । सिर के श्वेत केश देखकर राजा को वैराग्य । वासुपूज्य तीर्थकर का उद्यान में आगमन ।	२२९
२४	राजा की वदनयात्रा, धर्म श्रवण, दीक्षा, गणधरपद प्राप्ति, मुक्ति । महादेवी का भी तप व स्वर्गगमन ।	

संधि--२१

कडवक		पृष्ठ
१,	भक्तिफल पर क्षीरकदम्ब की कथा । हस्तिनापुर में पाण्डव राज्य । द्रोण ब्राह्मण का आगमन । कृपाचार्य द्वारा शान्तनुपुत्र से मेल । पाण्डवों का द्रोण द्वारा प्रशिक्षण व प्रसिद्धि । समीपवर्ती वन में क्षीरकदम्ब भिल्ल ।	२३१
२	क्षीरकदम्ब द्वारा लेप्य पिडमय द्रोण की पूजा व धनुर्विद्याभ्यास । शब्दवेध व राधाचद्रवेध का ज्ञान । अर्जुनादि पाण्डव कुमारों का उस वन में आगमन क्षीरकदम्ब द्वारा उनके श्वान के मुख में बाण विसर्जन । अर्जुन का विस्मय ।	२३१
३	भिल्ल से भेट । गुरु का नाम द्रोण तथा अपनी शस्त्रविद्या का प्रकाशन । अर्जुन ने उसे अपने से भी अधिक विद्यावान् समझा ।	२३२
४.	अर्जुन ने इसे गुरु का अपने प्रति द्रोह समझा । गुरुसमीप गमन । द्रोण का अस्वीकार । क्षीरकदम्ब के पास आगमन व प्रश्न ।	२३२
५	भिल्ल द्वारा गुरु की लेप्य प्रतिमा का प्रदर्शन ।	२३१
६	द्रोण भक्ति की प्रशंसा । गुरु जानकर क्षीरकदम्ब का प्रणाम । गुरुदक्षिणा की माँग व दाहिने हाथ के अंगूठे का दान । धनजय की तुष्टि । विनय द्वारा चाप-विद्या की सिद्धि । भक्ति का माहात्म्य ।	२३३
७	भक्ति के माहात्म्य पर पद्मरथ की कथा । भारतवर्ष, विजय देश, पृथिवीतिलकपुर, प्रजापाल नरेश, सूरदत्त सेठ के सात पुत्र । सबसे छोटा पुत्र धन्वन्तरि, उसका प्रिय मित्र ब्राह्मण । दोनों दुर्व्यसनी चोर । कुटुंब द्वारा त्यक्त । हस्तिनापुर आगमन । यमदंड आरक्षक के घर निवास ।	२३५
८	चौरवृत्ति । वणिक् पुत्र द्वारा जीववध के त्याग व पचनमनस्कार मंत्र का ग्रहण । चोरी हेतु गमन । अपशकुन निवारणार्थ नाटक प्रेक्षण । गृहागमन । माता को वधू के साथ सोती देख सन्देह । मारने के लिये कृपाण-कर्षण । गुरुवचन का स्मरण । सीके पर प्रहार ।	१३४
९	'भाड-पतन, माता की निद्रा भंगन । व्रत का प्रभाव जानकर दोनों मित्रों की धर्म-रुचि । दीक्षा का विचार ।	२३४
१०.	माता और पत्नी का मित्र के साथ गृह-प्रेषण । इधर धन्वन्तरि का तप-ग्रहण व शास्त्राभ्यास । विश्वानुलोम द्विज का आगमन । मित्र को मौन पाकर सहस्रजटी तपस्वी का शिष्यत्व ग्रहण ।	२३५

- ११ एक का अच्युत स्वर्गगमन व दूसरे का विद्युत्प्रभ देव के वाहन हन्ति का पर्याय ।
प्रथम की नन्दीग्वर यात्रा व द्वितीय से भेंट । २३५
- १२ अपने-अपने धर्म का समर्थन । दोनों का यमदग्नि के समीप यमन । २३६
- १३ पक्षि-प्रपञ्च द्वारा यमदग्नि को क्षुब्ध करना । पुत्र बिना मद्गति नहीं, उन
विश्वास से यमदग्नि का कान्यकुब्ज जाकर रेणुका से विवाह व परशुराम
पुत्र की उत्पत्ति । राजगृह के श्मशान में जिनदान श्रावक का अटल प्रतिमायोग । २३६
- १४ जिनदान का योग भंग करने हेतु नाना उपसर्ग, किन्तु उसका चित्त अचल । २३७
- १५ अच्युत देव द्वारा प्रसन्न होकर जिनदान को आकाशगामिनी विद्या का दान ।
मिथिला नगर में पद्मरथ राजा वासुपूज्य तीर्थकर की वन्दना हेतु प्रस्थित ।
नगरदाह आदि उपसर्गों से भी वह अडिग रहा । २३७
- १६ विश्वानुलोमचर को सन्तोष व योजनघोषाभेरी का पारितोषिक । अमितप्रभ
देव द्वारा सर्वव्याधिहर-हार का दान । पद्मरथ नरेज द्वारा तप ग्रहण व
गणधरपद प्राप्ति तथा मोक्षगमन । विश्वानल देव द्वारा सम्यक्त्व ग्रहण । २३७

संधि-२२

कडवक

पृष्ठ

- १ नमोकार मंत्र की आराधना के फल पर सुदर्शन चरित्र । अग जनपद, चंपापुरी,
घाड़ीवाहन राजा, अभयमती रानी । ऋषभदास वणिक्, अरुहदासी सेठानी,
सुभग गोपाल का गाय लेकर वन-गमन । माघमास की शीत में योगस्थित मुनि
का दर्शन । चिन्तावश रात्रि में निद्रा भंग । प्रातः मुनिदर्शन । २३६
२. नमोकार मन्त्रोच्चारण के माथ मुनि का आकाश-गमन उस मन्त्र को ही
आकाश-गमन का कारण जान गोपाल द्वारा उसी का सर्वकाल उच्चारण
वणिक् द्वारा निवारण । गोपाल का आग्रह देख अनुमति । २३६
- ३ एक दिन महिषियों का नदी पार पर-क्षेत्र में गमन । उन्हें लौटाने जाते समय
नदी में एक पत्थर जूल से गोपाल का छेदन व मृत्यु व उसी सेठ के यहाँ सुदर्शन
नामक पुत्र के रूप में जन्म । कलाभ्यास यौवन । २४०
- ४ यही सागरदत्त की मनोरमा नामक कन्या से विवाह । सुकान्त नामक पुत्र की
उत्पत्ति । ऋषभदास का तप व स्वर्गवास । सुदर्शन प्रसिद्ध सेठ हुआ । उनका
मित्र कपिल । उसकी पत्नी कपिला सुदर्शन पर आसक्त । दूती सम्प्रेषण । २४०
- ५ मित्र-मिलन हेतु सुदर्शन का आगमन । कपिला का एकान्त में ले जाकर प्रेम-
प्रदर्शन । सुदर्शन द्वारा नपुंसक होने का बहाना । २४१
- ६ वसन्तगमन । राजा का वनक्रीडा हेतु गमन । मनोरमा को देखकर अभया रानी
का विस्मय । कपिला द्वारा उसका परिचय पाने की इच्छा । रानी द्वारा परिचय । २४१
- ७ कपिला का उसके पुत्र के विषय में सशय व वृत्तान्त-कथन । रानी ने उसे
सुदर्शन का बहाना बताया । २४२
८. कपिला की रानी को चुनौती । रानी की प्रतिज्ञा—यदि सुदर्शन से रमण न करे

- तो सदा के लिये ब्रह्मचारिणी । पडिता धात्री को रानी का आत्मनिवेदन व उसके द्वारा सबोधन । २४२
९. रानी का हठ व अभिनाषा पूर्ण न होने पर अग्नि-प्रवेश की प्रतिज्ञा । पडिता का आश्वासन । कुम्भकार को सात पुरुषाकार प्रतिमाये बनाने का आदेश । प्रतिपदा के दिन एक प्रतिमा लेकर रात्रि में राजाद्वार में प्रवेश । २४३
१०. द्वारपाल द्वारा निषेध । पडिता का रोप । प्रतिमा को फेककर फोड़ डालना । रानी के पुरुष-व्रत भंग का भय दिखलाना । द्वारपाल की क्षमा याचना । २४३
११. इसी प्रकार सात दिनों में सातों द्वारपालों को सिद्ध कर लेना । अष्टमी के दिन उपवास युक्त श्मशान में ध्यानस्थ सुदर्शन सेठ का आनयन । रानी द्वारा चलायमान करने का प्रयत्न । सुदर्शन की निश्चलता । २४४
१२. कल के दिन सकुटुम्ब शूली दिलाने की धमकी । सुदर्शन की धैर्यपूर्वक प्रतिज्ञा कि इस उपसर्ग से बचने पर तप-ग्रहण । रात्रि का अवसान । रानी का प्रपञ्च । सेठ पर शीलहरण का दोषारोपण । राजा द्वारा मृत्युदण्ड । २४५
१३. श्मशान में ले जाकर शिरच्छेद का आदेश । नागरिकों का खेद और आश्चर्य । श्मशान में पहुँचकर ग्रीवा पर प्रहार । २४५
१४. कृपाण पुष्पमाला ही गयी । देवों द्वारा पुष्पवृष्टि । राजा की मनवार, तथापि सेठ की मुनिदीक्षा । रानी द्वारा फाँसी से आत्मघात व राक्षसी जन्म-ग्रहण । धात्री पाटलिपुत्र भाग गयी व देवदत्ता गणिका के घर रही । ६४५
१५. सुदर्शन साधु का पाटलिपुत्र में विहार । पडिता द्वारा दर्शन व गणिका को परिचय । देवदत्ता की उसे वशीभूत करने की प्रतिज्ञा । मुनि को गृहप्रवेश कराकर द्वार मुद्रण । तीन दिन तक मुनि को क्षुब्ध करने का प्रयत्न । पश्चात् श्मशान में मोचन । मुनि का प्रतिमा-योग । २४६
१६. श्मशान में उस व्यतरी द्वारा सात दिन उपसर्ग । केवलज्ञान की उत्पत्ति । देवों द्वारा स्तुति । उपदेश । गणिका, पडिता तथा व्यन्तरी द्वारा सम्यक्त्व-ग्रहण । २४७

संधि—२३

कडवक

पृष्ठ

१. ज्ञानोपयोग के फल पर यमराज मुनीन्द्र की कथा—ओड़ विषय, धर्म नगर, यम नरेन्द्र, धनवती रानी, खर नामक दुर्मति पुत्र, कोणिका पुत्री, भविष्य वाणी—कोणिका का पति चक्रवर्ती होगा । भय से राजा द्वारा भूमिग्रह में निविष्ट । सुधर्म मुनि का आगमन । लोगों की वन्दन यात्रा । मंत्री द्वारा जानकर वाद-निमित्त राजा का भी गमन । २४८
२. मुनि के माहात्म्य से राजा मूढ होकर मौन । खर नामक पुत्र को राज देकर राजा का तप-ग्रहण । प्रयत्न करने पर भी शास्त्र के एक अक्षर का भी ज्ञान दुर्लभ । पूर्वदेश की तीर्थयात्रा हेतु गमन । खरयुक्त रथ का दर्शन । २४८
३. खड श्लोक की रचना । आगे नगर में बालको का खेल व अड़डी का लोप ।

- इस पर पुन श्लोक रचना । सध्या समय मेढक को निकला देख तीमरे श्लोक की रचना । ग्राम के समीप कुएँ की शिला पर गड्ढे देखकर पनिहारिनी से कारण पूछा और जानकर चौथी गाथा की रचना । मन में विचार उठा क्या मेरा मन पाषाण से भी निष्ठुर है ? २४६
- ४ पुन गुरु समीप आगमन । अपने नगर के नन्दन वन में वास । मंत्री की आशवा व राजा को दुर्मंत्रणा । तलवारें लेकर मारने के लिये आना । मुनि का प्रथम श्लोक सुनकर राजा को आशका । २५०
- ५ मुनि का दूसरा श्लोक सुनकर राजा को राजपुत्री कोणिका का स्मरण । तीसरे श्लोक से मंत्री की पाप बुद्धि की आशका । राजा द्वारा क्षमा-याचना व श्रावक व्रत-ग्रहण । दुष्ट मंत्री का निस्सारण । २५०
- ६ मुनि की गुरु में भेंट । तपवृद्धि, बुद्धि का विकास, ऋद्धि-सिद्धि । केवलज्ञान । मोक्ष । २५१
- ७ पंचनमोकार मंत्र के प्रभाव पर दृढसूर्य की कथा—उज्जयिनी, धनपाल राजा, दृढसूर्य चोर को अजन-विद्या सिद्ध । उसकी प्रिया वमन्तसेना की गानी का हार पाने की इच्छा । दृढसूर्य द्वारा आश्वासन व महादेवी के हार का अपहरण । बधन व राजाज्ञा से शूली आरोपण । २५१
- ८ जिनभक्त धनदत्त सेठ का आगमन । उनसे जल प्रार्थना । पंचनमोकार मंत्र देकर सेठ का पानी लेने जाना । चोर का मंत्रोच्चारण करते हुए स्वर्गवास । २५२
- ९ धनदत्त के चोर से सवध की आशका से उमका धन अपहरण करने की राजाज्ञा । दृढसूर्य देव द्वारा रक्षा । राजा का भागकर जिनेन्द्र भवन में मेठ की शरण में जाना । वृत्तान्त जानकर सेठ व वणिक् की मुनिदीक्षा । शूली के स्थान पर शूलेश्वर की आज भी पूजा । २५२
१०. शूली द्वारा आहत की एक और कथा—उत्तर मथुरापुरी, उदितोदित राजा, सुदितोदय पुत्र, मुबुद्धि मंत्री, अर्हंदास वणिक् और उसकी मित्रश्री आदि सात पत्निया । सुवर्णखुर नामक चोर । कार्तिक शुक्ला अष्टमी को कौमुदी महोत्सव । २५३
- ११ सात दिन धर्मोत्सव । पूर्णिमा को युवतियों की वनक्रीडा व पुरुषों के नगर में निवास की राजाज्ञा । सूर्यास्त वर्णन । २५३
- १२ चन्द्रोदय वर्णन । नरेश द्वारा प्रिया का स्मरण तथा मंत्री से वन में चलकर युवति-क्रीडा देखने का प्रस्ताव । २५४
- १३ मंत्री द्वारा विरोध व अहाना । हस्तिपुर में सुयोधन राजा । विजय-यात्रा । लौटने पर प्रजा का अभिनन्दन व राजा का कुशल प्रश्न । २५४
- १४ प्रजा द्वारा आरक्षक के शासन की प्रशंसा । ईर्ष्या से राजा का रोष व आरक्षक पर सन्देह । मंत्री व पुरोहित से मंत्रणा व भाण्डागार में खात लगाकर द्रव्याप-हरण व उस यमपाश आरक्षक को खोज लगाने का आदेश । २५४
- १५ आरक्षक का निरीक्षण व उसी स्थान पर मणिमय पादुका, यज्ञोपवीत और कटारी की प्राप्ति । सात दिन में चोर का पता लगाने का राजा का आदेश । आरक्षक की नागरिकों को सूचना । २५५

- १६ पता लगा या नहीं, ऐसे राजा के प्रश्न पर आरक्षक का अपनी सुनी हुई सुभा-
पित व हंसो की कथा सुनाना । मूल से बल्ली उत्पन्न हुई । शरण से ही भयो-
त्पत्ति । सरोवर तट पर एक ऊँचा वृक्ष । २५५
- १७ उस पर हंसो का निवास । मूल से लता की उत्पत्ति । वृद्ध द्वारा उसे खडित
कर डालने का उपदेश । बालको का उपहास । बेल बढी । उसी से चढकर
व्याध द्वारा सब हंसो को जाल में फँसाना । वृद्ध के उपाय से रक्षा । २५६
१८. दूसरे दिन राजा के प्रश्न पर कुलाल की बात, जिससे पोषण उसी से पीठ टूटी ।
मिट्टी के पिंड से जीवन, उसी से पीठ टूटना । तीसरे दिन की बात । वरशक्ति
नगरी के नरेश वरधर्म की विजय-यात्रा, किन्तु प्रतोली के पतन का अपशकुन । २५६
१९. प्रतिदिन प्रतोली का निर्माण व रात्रि को ध्वस । मन्त्री द्वारा नरबलि का सुभाष ।
राजा का निषेध, किन्तु प्रजा द्वारा एक लाख दीनार में नरबलि खरीदने की
घोषणा । २५७
- २० वरदत्त ब्राह्मण द्वारा सात पुत्रों में से सर्वलघु का विक्रय । प्रतोली की ओर
बालक का हसते हुए आगमन । २५७
- २१ पूछे जाने पर बालक का उत्तर । बाप से डरकर शिशु माता की शरण जाता है,
माता से डरकर पिता की । पिता से डरकर राजा की व राजा से डरकर नाग-
रिको की । किन्तु सभी के विरुद्ध होने पर धैर्य के सिवाय क्या शरण ? यह
सुनकर राजा द्वारा बालक की मुक्ति । देवी द्वारा साधुकार, राजा की पूजा व
गोपुर का पुन अचल होना । २५७

सधि—२४

कडवक

पृष्ठ

- १ आरक्षक द्वारा चौथे दिन अहाना । जहाँ सर्वजल विषमय, वन कूटच्छादित और
राजा स्वयं व्याध हो, वहाँ मृगों का वास कहाँ ? पाँचवे दिन का कथानक ।
पाटलिपुत्र, वसुपाल राजा, चित्रकवि मन्त्री । कवित्व में मात्सर्य । राजा को
कोप । बाधकर गगाद्रह में प्रक्षेप । डूबते हुए सुभाषित । सुनकर राजा को
सतोष व बधन से मुक्ति । छठे दिन की कथा । कुसुमपुर के राजा मुभद्र ।
सातवे दिन की कथा— २५६
- २ उज्जयिनी नगर । यशोभद्र सार्थवाह । वाणिज्यार्थ गमन । सायकाल लौटकर
व माता का वस्त्र देखकर पत्नियों को सर्वोधन । इस प्रकार छह दिन वीतने
पर राजा का रोष । आरक्षक का मणिपादुकादि लाकर प्रदर्शन । २५६
- ३ राजा स्वयं चोर सिद्ध । राजा का परिवार द्वारा निष्कासन व राजपुत्र का
अभिषेक । मर्यादा भंग का दुष्परिणाम । २६०
- ४ मथुराधीश द्वारा मन्त्री की प्रशंसा । नगर परिभ्रमण का प्रस्ताव । अजन विद्या
सिद्ध काचनखुर चोर का दर्शन । उसके पीछे-पीछे अहंदास के महल तक गमन ।
महल के समीप वटवृक्ष पर चोर चढा और राजा व मन्त्री वृक्ष के नीचे ठहरे ।
उसी समय मेठ का अपनी पत्नियों से प्रस्ताव । २६०

- ५ जिनालय मे जागरण किया जाय । मन्दिर गमन सेठ का पत्नियो से प्रश्न—
तुम्हारा सम्यक्त्व कैसे दृढ हुआ ? पत्नियो की पहले सेठ का ही वृत्तान्त सुनने
की इच्छा । २६१
- ६ सेठ का आत्म-वृत्तान्त । उदितोदित राजा, बुद्धिमान मन्त्री, सुप्रभा रानी, सुबुद्धि
पुत्र, रूप्यखुर चोर का पुत्र सुवर्णखुर । जिनदत्त सेठ, जिनमती मेठानी । २६१
- ७ उन्ही का पुत्र मैं अर्हदास । रूप्यखुर द्वारा चोरी व दान । अंजन लगाकर राजा
के साथ प्रतिदिन भोजन । राजा दुर्बल । मन्त्रियो द्वारा कारण का प्रश्न । २६२
८. राजा का उत्तर—चौगुना जीमने पर भी अघाता नही । मन्त्री द्वारा अंजन चोर
का सन्देह व पकडने की योजना । भोजनशाला मे धुएँ से भरे घटो की स्थापना
व प्रच्छन्न भटो की नियुक्ति । १६२
- ९ अर्क कलियो के फूटने से अंजन चोर के आगमन की सूचना । द्वार बंद । धुआँ
छोडा गया । चोर की आँखो से आसू आये । अंजन नष्ट । देखकर भटो द्वारा
बधन । राजा द्वारा शूली का दड । जिमसे वह बोले, जान लो उसी के पास
सब चोरी का द्रव्य । रक्षको की नियुक्ति । जिनदत्त का आगमन व पूर्वोक्त पानी
पिलाने की चोर की प्रार्थना । २६३
१०. जिनदत्त द्वारा नमोकारमन्त्र-दान आदि का पूर्वोक्त वृत्तान्त चोर के मरण पर्यन्त । २६३
- ११ चोर के देव होने से लेकर राजा के किंकरो के मार भगाने तक का पूर्वोक्त वृत्तान्त । २६३
- १२ राजा के स्वयं आने से लेकर उसके भागने व देव द्वारा पीछा किये जाने
का वृत्तान्त । २६४
१३. राजा द्वारा जिनदत्त की गरण लेना । जिनदत्त द्वारा राजा की मुक्ति । देव का
माया छोड स्वस्वरूप प्रदर्शन । २६४
१४. देव का आत्मनिवेदन व राजा व सेठ आदि का तपग्रहण । २६५
- १५ अर्हदाम का पत्नियो से कथन कि नमोकार मन्त्र के इसी प्रभाव को देखकर
उसका सम्यक्त्व दृढ हुआ । अन्य पत्नियो द्वारा समर्थन, किन्तु कुन्दलता की
अश्रुतीति । २६५
- १६ इस कथानक की तथा कुन्दलता के अविश्वास की राजा और चोर के मन
पर प्रतिक्रिया । २६६

संधि—२५

कडवक

पृष्ठ

- १ जिनदत्त की प्रथम पत्नी मित्रश्री का आत्मनिवेदन । राजगृह पुरी, राजा
सग्रामसूर, रानी कनकमाला, वणिक् ऋषभदास, भार्या जिनदत्ता बध्या ।
- २ भार्या का आग्रह व अपनी छोटी बहिन कनकश्री से विवाह । माता वधुश्री का
आगमन, सुख सबधी प्रश्न । कनकश्री का उत्तर—सौत के होते हुए सुख कहाँ । २६७
- ३ दोनो के जिनमन्दिर मे रहकर रति सुख भोगने का तथा अपने प्रति पति की
उपेक्षा का दोषारोपण । माता का रोष व विवाह प्रसंग पर ली गयी शपथ भग
का दोषारोपण । २६८

४. माता द्वारा उपाय की प्रतिज्ञा व पुत्री को आश्वासन । कापालिक का आगमन । विश्वास उत्पन्न कर वधुश्री से कथन । २६८
५. वधुश्री द्वारा जिनदत्ता को मार डालने का प्रस्ताव कापालिक की स्वीकृति । २६९
६. चतुर्दशी की रात्रि को कापालिक द्वारा श्मशान में चडमारी देवी की पूजा व शव का जागरण । २६९
७. जिनदत्ता को मारने का आदेश, किन्तु देवी जिनमदिर-प्रवेश में असमर्थ । तीन बार गमनागमन । चौथी बार दो में से जो भी दुर्भाग्य युक्त हो उसे मारने का आदेश । २७०
८. देवी द्वारा काचनश्री का हनन । प्रातःकाल माता द्वारा काचनश्री को देखकर राजा से प्रार्थना । सेठ-सेठानी को बाँधकर लाने की राजाज्ञा । गृहद्वार पर पुरदेवी द्वारा किकरो का स्तंभन । २७०
९. वृत्तान्त सुनकर जिनदत्ता का अनशन व ध्यान । कापालिक द्वारा यथार्थ वृत्तान्त की घोषणा । देवी द्वारा जिनदत्ता के निर्दोष होने की घोषणा । २७१
१०. इस आश्चर्य दर्शन से राजा को वैराग्य, सब लोगो में धर्मसचि । ऋषभदास और जिददत्ता की प्रव्रज्या । इसी आश्चर्य से मित्रश्री की सम्यक्त्व में दृढ़ता । कुन्दलता का अविश्वास । २७१
११. खंडश्री का कथानक । कुरुजागल देश, हस्तिनापुर, सोमदत्त द्विज, गुणी, किन्तु निर्बल । सोमिल्ला पत्नी की मृत्यु । शोक । मुनि उपदेश से शान्ति व श्रावक-व्रत ग्रहण । ऋषभदास वाणिक के घर निवास । २७२
१२. मरण समय पुत्री सोमा को श्रावक से विवाहने की सेठ से प्रेरणा । यौवन । वृत्त रूद्रदत्त । २७२
१३. जुवाडियो द्वारा सोमा का परिचय । उसे विवाहने की रूद्रदत्त की प्रतिज्ञा । २७३
१४. जुवाडियो ने कठिनाई बतलाई । रूद्रदत्त ने प्रतिज्ञा की यदि उसे न विवाहूं तो सबके समक्ष अग्नि-प्रवेश करूँ । रूद्रदत्त का देशान्तर गमन । मुनि के समीप ब्रह्मचारी बना व आकर ऋषभदास के मंदिर में ठहरा । २७३
१५. सेठ का प्रश्न । अपनी तीर्थ वन्दना का विवरण । अपने पूर्वाश्रम तथा व्रत-ग्रहण का परिचय । २७४
१६. यह जानकर कि उसने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया, सेठ द्वारा सोमा से विवाह का प्रस्ताव । रूद्रदत्त का ससार से विरक्ति का प्रदर्शन । २७४
१७. सेठ के अनुरोध से विवाह सम्पन्न । दूसरे ही दिन रूद्रदत्त का द्यूतशाला-प्रवेश व प्रतिज्ञा-पूर्ति का अभिमान । कुट्टिनी-पुत्री कामलता से पूर्ववत् प्रेम । सोमा का दुःख । देवमवन निर्माण । विम्बप्रतिष्ठा । उद्यापन । रूद्रदत्त, कुट्टिनी आदि को भी निमंत्रण । सोमा का सौन्दर्य देख कुट्टिनी की ईर्ष्या । २७५
१८. सोमा को मारने का उपाय—कलग में सर्पारोपण । सोमा के निकालने पर वह पुष्पमाला दृष्टा । विदा के समय सोमा द्वारा कामलता को पुष्पमाला अर्पण । २७६
१९. पुष्पमाला ने नर्प वनकर कामलता को डसा । कुट्टिनी-द्वारा सोमा पर दोषा-रोपण । राजसभा में विवाद । सोमा का यथार्थ निवेदन । २७६

२०. कुट्टिनी द्वारा कलश में सर्प प्रदर्शन । सोमा के ग्रहण से पुनः पुष्पमाला । २७७
२१. सोमा के स्पर्श से कामलता का पुनर्जीवन । राजा के प्रश्न पर वसुमित्रा कुट्टिनी द्वारा सत्य कथन । पृथ्वी और आकाश में सोमा की प्रशंसा व पुष्टि । राजा का वैराग्य व तपग्रहण । सवका धर्म-ग्रहण । सोमा की दीक्षा । रुद्रदत्त, कुट्टिनी व कामलता द्वारा श्रावक-व्रत ग्रहण । खड्गिणी की सम्यक्त्व में दृढता । २७७

संधि—२६

- कडवक पृष्ठ
१. विष्णुश्री का कथानक—वत्सदेश, कोशाम्बीपुर, त्रिष्णुश्री राजा, अजिताग, सोमश्री महन्त, समाधिगुप्त साधु का आगमन । आहारदान, रत्न-वृष्टि आदि पचाञ्चर्य । २७६
२. मन्त्री का कौतुक व चिन्ता । मुनि से प्रश्न । उत्तर-सुपात्रदान से ही आश्चर्य संभव । २७६
३. मन्त्री के प्रश्न पर मुनि द्वारा पूर्व उदाहरण । वेन्नातट नगर, सोमप्रभ नरेश । सुवर्णदान । विश्वभूति द्विज का कपोतवृत्ति से यव-सचय, सत्तू के चार पिंड । एक से अग्नि-आहुति, दूसरे के लिये अतिथि की प्रतीक्षा । मुनि आगमन । २८०
४. अतिथि पिंड के अतिरिक्त अपने व पत्नी के पिंड का भी दान । पचाञ्चर्य । अन्य द्विजों ने उसे राजा के सुवर्णदान का फल माना । राजा सहित आगमन । २८०
५. रत्नों को ग्रहण करने पर वे कोयला हो गये । नकुल द्विज द्वारा निवारण । राजा का आधा यज्ञफल देकर, भिक्षार्थ-फल लेने का प्रस्ताव । विश्वभूति का अस्वीकार । दोनों में सुमेरु और सर्प का अन्तर । २८१
६. श्रौषधदान का माहात्म्य—द्वारावती में वासुदेव गोविन्द ने मुनि को श्रौषधदान देकर देवों द्वारा पूजा व भात्री तीर्थंकरत्व प्राप्त किया । २८१
७. अभयदान का माहात्म्य—मेरु प्रमाण सुवर्णदान व नमस्त पृथ्वी के दान से भी अधिक फलदायी एक जीव की प्राण रक्षा । वाराणसी का दृढचित्त सुसुमार हृद में बाधकर डाला गया । किन्तु देवों ने रक्षा और पूजा की । उज्जयिनी के भवदेव धीवर ने मुनि उपदेश से एक मछली को चार बार छोड़ा, जिससे वह चार आपत्तियों से बचा व मरकर राजपुत्र हुआ । २८१
८. शास्त्रदान का माहात्म्य—खड्गलोक के फल से गरुड द्वारा सर्प की मुक्ति व गुरु मानकर जयकार । एकाक्षर दाता को भी गुरु मानने वाले की दुर्गति । २८२
९. मुनि के उपदेश से मन्त्री का श्रावक-व्रत-ग्रहण । मन्त्री के विरुद्ध राजा से शिकायत । राजा का छल से अपने व सभी सामन्तों के कृपाणों का निरीक्षण । २८२
१०. मन्त्री द्वारा परमात्मा का स्मरण कर अपने काष्ठमय कृपाण को देना व उसका सूरहास खड्ग में परिवर्तित हो जाना । राजा द्वारा पिशुनों की ओर तीक्ष्ण दृष्टि । सोमश्री द्वारा उनकी बात का समर्थन व अपनी अहिंसात्मक प्रतिज्ञा का निवेदन । २८३
११. सवकी प्रशंसा । देवों द्वारा साधुकार व पुष्पवृष्टि । राजा द्वारा पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ग्रहण । सवकी धार्मिक श्रद्धा विष्णुश्री के दृढ सम्यक्त्व का यही कारण । २८३

१२. नागश्री की कथा—काशी देश, वाराणसी पुर, जितारि नरेश की मुडिका पुत्री । ऋषभश्री आर्यिका द्वारा सवोधन से मृत्तिका खाने का त्याग । अपूर्व सौन्दर्य की प्राप्ति । औङ्गनरेश भवदत्त द्वारा पुरनिरोध । राजा की पलायन की इच्छा, किन्तु मुडिका का अस्वीकार । २८४
- १३ पुरोहित द्वारा प्रातिहार्य की भविष्यवाणी । राजा का पलायन । शत्रु का पुर प्रवेश । कन्या का गगाद्रह में प्रवेश । व्रत-माहात्म्य से रत्नमयी गृह । प्रवेश करते हुए शत्रु का पुरदेवी द्वारा स्तभन । क्षमायाचना । देवी द्वारा पूजा । सबकी धर्मरुचि । मुडिका की दीक्षा । नागश्री की दृढता का यही कारण । २८४

संधि—२७

- कडवक पृष्ठ
१. पद्मलता की कथा—अग जनपद, चपापुरी, घाडीवाहन राजा, ऋषभदास वणिक्, पद्मश्री पुत्री । दूसरा वणिक् बुद्धदास, पुत्र बुद्धसध । उसके द्वारा पद्मश्री का दर्शन व मोह । माता का प्रव्रन । २८६
- २ पद्मश्री से विवाह की आकांक्षा । पिता की चिन्ता । अन्य उपाय न देख श्रावक बनने का प्रपच । २८६
- ३ सहधर्मी होने से दोनो वणिको में स्नेह । ऋषभदास द्वारा भोजन का निमत्रण । विवाह का प्रस्ताव । ऋषभदास की स्वीकृति । २८७
- ४ बुद्धसध का पद्मश्री से विवाह । पुन धर्मपरिचर्तन और विवाद । ऋषभदास की मृत्यु । २८७
५. बुद्धगुप्त का कथन कि ऋषभदास मरकर हरिण हुआ । पद्मश्री द्वारा बौद्ध गुरुओं को निमत्रण व उनके अदृश्य ज्ञान की परीक्षा । २८७
- ६ बौद्ध गुरुओं का पराजय । सेठ से शिकायत । पुत्र व पुत्रवधू का निर्वासन । सार्थों से मेल । सविपनिगि भोजन कर सार्थ व बुद्धसध की मृत्यु । २८८
- ७ प्रातः पिता का आगमन व पद्मश्री पर दोषारोपण । बुद्धसध का पुनर्जीवन । २८८
८. सबके द्वारा धर्म की प्रशंसा व श्रावक-व्रत-ग्रहण । पद्मलता के दृढ सम्यक्त्व का यही कारण । २८९
९. कनकलता की कथा—अवन्ती देश, उज्जयिनी नगरी, समुद्रदत्त वणिक्, पुत्र उमक । वह व्यमनी । राजा की शिकायत । माता पिता द्वारा निर्वासन । २८९
- १० सार्थवाह पुत्र के साथ कोशाम्बी गमन । भगिनी द्वारा उपेक्षा । मुनि के समीप श्रावक-व्रत तथा अज्ञात फल न खाने का व्रत-ग्रहण । भगिनी द्वारा सम्मान । सार्थ के साथ स्वदेश गमन । वन में मार्ग भ्रष्ट । २८९
- ११ क्षुधावग सार्थ द्वारा किपाक फल भक्षण व मरण । उमक का अज्ञात फल जानकर निषेध । वनदेवी द्वारा परीक्षा । २९०
- १२ देवी द्वारा उमक को फल खाने का प्रलोभन । उमक की निष्ठा से प्रसन्न होकर वरदान । २९०

१३ देवी द्वारा सार्थ का पुनर्जीवन व मार्गदर्शन । सधका गृहागमन । देवी द्वारा पूजा-सम्मान । राजा सहित उमक का तप-ग्रहण । कनकलता की इसी से सम्यक्त्व-दृढता ।

२६१

सन्धि २८

कडवक

पृष्ठ

१. विद्युल्लता की कथा—तरपू जनपद, सूर्य-कौशाम्बी नगरी, सुगड राजा, विजयारानी । सुरदेव वणिक्पुत्र । वाणिज्य हेतु भगलिदेश गमन व एक विशेष तुरग लाकर राजा को उपहार । मासोपवामी मुनि का आगमन । आहारदान । उसी नगर के सागरदत्त सेठ का पुत्र समुद्रदत्त । २६२
२. अश्व प्राप्ति के लिये दो मित्रो सहित भगलिदेश गमन । तीन वर्ष पश्चात् पलाशग्राम में मिलने की सम्मति । अशोक नामक गृहस्थ के घोडो की रक्षा के लिये सेवा स्वीकार । अशोक की पुत्री कमलश्री । २६२
३. कमलश्री का सागरदत्त से स्नेह । सेवावधि की समाप्ति पर सागरदत्त के गमन का विचार । कमलश्री की साथ जाने की इच्छा । वणिक् द्वारा निवारण । २६३
४. दोनो में विवाद । कन्या का आग्रह । वणिक् द्वारा स्वीकृति । कन्या द्वारा जलगामी व आकाशगामी दो दुर्बल तुरगो की याचना का संकेत । २६३
५. दोनो अश्वो के लक्षण । गमन के समय सागरदत्त द्वारा उन्ही का चुनाव । अश्वस्वामी की चिन्ता । अन्य अश्व चुनने की सलाह । २६३
६. स्वामी द्वारा भेद खोलने वाले की खोज । किसी ने कन्या को दोषी बतला दिया । अन्तत दोनो का विवाह व अश्वदान । २६४
७. नाव द्वारा गमन । नाविक द्वारा एक तुरग की माग । अस्वीकार । पुन. उसी तीर पर अवतरण । आकाशगामी अश्व द्वारा आगमन । जलगामी अश्व का भी आनयन । २६४
८. राजा को आकाशगामी अश्व की भेंट । बदले में आवा राज्य तथा राजकुमारी अनगसेना की प्राप्ति । राजा द्वारा सेठ ऋषभसेन को उसका भेंट किया हुआ अश्व पालनार्थ अर्पण । उस पर बैठकर सेठ की तीर्थ वदना । प्रत्यन्त निवासी जितशत्रु । छली चरट । २६५
९. उसकी उस अश्व को पाने की इच्छा । कोडु नामक सहस्रभट द्वारा ब्रह्मचारी-वेप में जाकर अश्व का अपहरण । २६५
१०. अश्व द्वारा चोर का पात । चोर की मृत्यु । अश्व का सिद्धकूट जिनभवन को गमन । चिन्तागति व मनोगति चारण मुनियो द्वारा विद्याधर को अश्व का वृत्तान्त वर्णन । विद्याधर द्वारा तीन थपकी देने से अश्व का सूर्य-कौशाम्बी प्रत्यागमन । इधर सेठ का अनजन । २६६
११. अश्व के लोप से राजा का कोष । सेठ को प्राणदंड । पुरदेवी द्वारा रक्षण । अश्व की आकर प्रदक्षिणा । देवी द्वारा पुष्पवृष्टि आदि । राजा व सेठ आदि का तपग्रहण । इसी से विद्युल्लता की दृढता । २६६

- ६ श्रीदत्त की चिन्ता । मारने के लिये चाडाल को अर्पण । उमके द्वारा रक्षण । दूसरी वार मरवाने का प्रयत्न । गोविन्द गोपाल द्वारा पालन । यौवन । ३०३
- १० श्रीदत्त की गका । गोपाल द्वारा यथार्थ कथन । सेठ द्वारा लेख सहित प्रेषण । पुर के समीप नन्दन वन में मोने पर वमन्तसेना गणिका द्वारा पत्र में विष (विष) के स्थान पर दिसा (विष्वा-वर्णिककन्या) सशोवन । ३०३
- ११ सेठ के पुत्र ने पत्र पढ़कर अपनी वहिन विष्वा से विवाह किया । सेठ की लौटाने पर निराशा । संध्या समय नागदेव के देवालय में पूजानिमित्त प्रेषण व मरवाने का उपाय । ३०३
- १२ पुत्र का उमका अपरिचित नगर में अकेला जाना उचित न समझ स्वयं पूजा सामग्री लेकर गमन व नियोजित चाडाल द्वारा वध । नेठ का दुःख व पुन मारने के लिए गृहिणी से आग्रह । ३०४
- १३ गृहिणी द्वारा विष मोदक पुत्री को देकर जामाना को खिलाने का आदेश । नेठ के क्षुधातुर आने पर उसे ही विष के लड्डुओं का आहार । सेठ का मरण । सेठानी का भी विष खाकर पति का अनुगमन । जामाता की श्रेष्ठी-पद-प्राप्ति । ३०४
- १४ वसुदत्त नरेन्द्र द्वारा सद्गुणी जानकर आधाराज्य व राजकन्या का दान । जयकेतु ऋषि का आगमन । आहारदान । पूर्वभव श्रवण । धीवर की पर्याय में पाँच वार मछली की रक्षा करने से उसका पाच वार प्रापत्ति से बचकर वह वैभव । मोमदत्त का वैराग्य, तप व स्वर्गप्राप्ति । ३०५

सधि--३०

[एक जीव के मारने से अनेक वार वध पर यशोधर के कथानक की सूचना सुप्रसिद्ध होने से अलिखित ।]

कडवक

पृष्ठ

- १ जीवदया का फल । यमपाश चाँडाल की कथा । काशीदेश, वाराणसी पुरी, पाकशासन नरेन्द्र, जयदड कोट्टपाल, जमपाश चाडाल, नगर में घ्याधियो उपद्रव । शान्ति कर्म । आठ दिन हिंसा का निषेध । नियम भग करने से प्राणदड । ३०६
२. नगर में घर-घर पर धर्मोत्सव । धर्मनामक वर्णिक द्वारा नियम भग जानकर राजा का क्रोध । आठ दिन पश्चात् वध का आदेश । अमृतासत्र मुनि का आगमन । ३०७
३. मुनि के महात्म्य में व्यतर की वाधा समाप्त । यमपाश ने भी चतुर्दशी को अहिंसा व्रत किया । उस दिन छिपकर रहा । भट का उसकी खोज में आगमन । गृहिणी द्वारा अन्य ग्राम जाने का वहाना । ३०७
४. भट ने आज मारे जाने वाले के अनेक आभूषण चाडाल को मिलने का प्रलोभन दिया । पत्नी द्वारा उमके घर में होने का संकेत । चाडाल द्वारा चतुर्दशी व्रत का निवेदन । ३०७

५. राजा का रोप । बांधकर सुसुमार ब्रह्म में डालने का आदेश । चांडाल की व्रत में दृढता । ३०८
६. ब्रह्म में फेंके जाने पर धर्म की सहायता । सिंहासन व देवों द्वारा पूजा । व्रत छुड़ाने वाले राजा की भूत पिशाचों द्वारा पिटाई व नगर भ्रमण । राजा द्वारा त्राहि-त्राहि की पुकार । ३०८
७. चांडाल द्वारा कुल-स्वामी कहकर राजा की मुक्ति । राजा द्वारा उसका राज-कुमारी से विवाह व अर्ध राज्य का दान । सबकी धर्म में श्रद्धा । ३०९
८. सत्यव्रत का फल—मातंग कथा । भरत क्षेत्र, दक्षिणायन, मलयखंड मातंग दुर्ग, शवर देव । वहां विवाहकाल में छह मास ब्रह्मचर्य रचकर विद्यासाधन की व्यवस्था । सत्यता से व्रतपालन का महात्म्य । ३०९
९. असत्य का दुष्परिणाम । वासुराजकी कथा । विनीता देव अगोष्ठी नगर, विश्वावसु राजा, वसु राजपुत्र, क्षीरकदम्ब गुरु । पुत्र पर्वत, अन्य गिष्य नारद । तीनों का विद्याध्ययन । ३१०
१०. पर्वता की जडता । गुरु और गुरुपत्नी में विवाद । ३१०
११. गुरु द्वारा तीनों की परीक्षा । कौंडियों के चने लेकर खाओ और कौंडिया वापिस लाओ । पर्वत चने खाकर आ गया । वसु और नारद कुछ चने खाकर, उन्हें बुरे कह कौंडी वापिस ले आये । पत्नी का ध्यानाकर्षण । ३११
१२. दूसरी परीक्षा । कौंडी भी वापिस लाओ और बड़े भी धी से भर लाओ । पर्वत की असफलता व वसु-नारद की सफलता । तीसरी परीक्षा । जहां कोई न देखे वहां बकरे के कान काटकर लाओ । पर्वत कान काटकर ले आया । वसु और नारद ने ऐसा नहीं किया । ३११
१३. उन्होंने गुरु को कहा ऐसा कोई स्थान उन्हें न मिला जहां सूर्य, चन्द्र आदि कोई भी देख न रहे हों । गुरु द्वारा प्रशंसा । गुरुपत्नी को भी भरोसा हुआ । बृहदारण्यक का अध्यापन । दो चारण मुनियों का आगमन । ३११
१४. शिवभद्र और वीरभद्र का अपने अपने धर्म का समर्थन । वीरभद्र की भविष्य-वाणी कि उनमें से एक नरक जायगा । ३१२
१५. गुरु की उक्त वाणी सुनकर तपग्रहण । गुरुपत्नी द्वारा गिष्यों को खोज में प्रेषण । पर्वत द्वारा गुरु का निर्ग्रन्थ रूप में दर्शन । ३१३
१६. गुरु का परिधान, पनही व यज्ञोपवीत लाकर माता को प्रदर्शन । पर्वत को आचार्य पद प्राप्ति । विश्वावसु राजा का भी तप-ग्रहण वसु का राज्याभिषेक । ३१३
१७. वसु का गुरुपत्नी को वरदान । पुलिंद द्वारा स्फटिक शिला की प्राप्ति व राजा को भेंट । वसु द्वारा उनकी राज सिंहासन के नीचे स्थापना । सिंहासन अन्तरिक्ष में स्थापित समान । ३१३
१८. वसु की 'उपरिचर' उपाधि । नारद का पर्वत से अज के अर्थ पर विवाद—छेलक या यवत्रीहि ? नारद द्वारा गुरुपदेव से दूनरे अर्थ की पुष्टि । ३१४
१९. दोनों में कलह । असत्य होने पर अपनी अपनी जीभ कटा डालने की प्रतिज्ञा । वसु मध्यस्थ । पर्वत की चिन्ता । माता द्वारा नारद के मत की पुष्टि । ३१४

२०. माता का वसु के पास गमन, वरदान याचना और पर्वत के पक्ष में निर्णय का वचन लेना । ३१५
- २१ वसु का असत्य जानते हुए भी पर्वत के पक्ष में निर्णय । सिंहासन से वसु का पतन । पुनः असत्य का समर्थन व भूमि प्रवेश । तीमरी वार असत्य भाषण में मरण और नरक-प्रवेश । ३१५

संधि-३१

कडवक

१. पर्वत का निर्वासन । हस्तिनापुर के राजा मुयोधन वा रानी अतिथि की पुत्री सुलसा का वाग्दान पोदन के सुर्पिग नरेश के राजपुत्र मधुर्पिगल को । ३१७
२. अयोध्या के राजा वसुराय के पुत्र सागर का सुलसा पर मोहित होना व इसके लिये मन्त्री द्वारा जाली सामुद्रिक शास्त्र रचकर परिव्राजिका द्वारा सुलसा के आगे पढा जाना । ३१७
३. पुरुष के शुभ लक्षण-सगर सदृश । ३१८
४. पुरुष के अशुभ लक्षण-मधुर्पिगल सदृश । ३१८
५. परिव्राजिका द्वारा सगर की प्रशंसा, सुलसा का मोह और स्वयंवर का सुभाव । ३१९
६. सुलसा का स्वयंवर और सगर के गले में वरमाला । ३१९
७. सुलसा का विवाह और मधुर्पिगल का वैराग्य । एक वार पारणा के लिये अयोध्या में सागरदत्त श्रेष्ठी के यहाँ आना, विप्र द्वारा उनके लक्षण देखकर अपने सामुद्रिक शास्त्र को जला डालने का विचार, तथा सेठानी द्वारा पूर्व वृत्तान्त निवेदन । ३२०
८. वृत्तान्त सुनकर मधुर्पिगल मुनि का क्रोध व निदानवश असुर जन्म तथा ब्रह्मा का रूप धारण कर पर्वत से मेल । ३२०
९. ब्रह्मरूप धारी असुर का अजयज्ञ से छाग-त्रलि के अर्थ का समर्थन व सगर के समीप आगमन । ३२०
१०. यज्ञविधान और सगर सहित सबकी अपनी अपनी आहूति । इस प्रकार बदला लेकर असुर का गमन । ३२१

संधि—३२

कडवक

१. धनहानि से व्याकुल और धन के मेल से स्वस्थ होने वाले समुद्रदत्त षण्णिक का दृष्टांत । ३२३
२. परद्रव्यहारी श्रीभूति का आख्यान । जम्बूद्वीप, पश्चिम विदेह, गधमाल विषय, वीतशोक नगर का राजा वैजयन्त और रानी सत्यवती । पुत्र सजयन्त और जयन्त । स्वयंभू तीर्थंकर का आगमन और वैजयन्त नरेश की पुत्री सहित दीक्षा । वैजयन्त के केवली होने पर वरणेन्द्र का आगमन और उसके रूप से मोहित होकर जयन्त का निदान-वध और मरकर वरणेन्द्र उत्पत्ति । ३२३

३. मनोहरपुर के ऋषिगण ने संजयन्त मुनि पर उनके पूर्व बैरी विद्युद्दंष्ट्र विद्यावर द्वारा उपसर्ग । ३२३
४. रत्ना-निमित्त पूर्वजन्म के ज्ञाना जयन्त घरणेन्द्र का आगम और विद्यावर का वसन, तथा मूर्धन्य देव द्वारा समाधान व पूर्वजन्म वर्णन । सिंहपुर के राजा सिंहसेन, रानी रामदत्ता, पुरोहित श्रीभूति जो सत्य के लिये प्रसिद्ध था । उसकी श्रीदत्ता पत्नी । पद्मिनीपुर के वणिक् भद्रमित्र का आगमन । ३२४
५. भद्रमित्र द्वारा पांच रत्नों की श्रीभूति के पास बरोहर । किन्तु मांगने पर अस्वीकार । राजा के भी न्याय में विमुख होने पर वणिक् पागल हो गया । ३२४
६. उसकी राजप्रासाद के समीप वृक्ष पर चढ़कर श्रीभूति द्वारा रत्नों के हड़प जाने की पुकार । रानी रामदत्ता का उस ओर राजा का ध्यान आकर्षण । ३२४
७. रानी द्वारा श्रीभूति के साथ द्यूतक्रीड़ा व उसने घर भ्रमिजान भेजकर, उन रत्नों की प्राप्ति । ३२५
८. अन्य रत्नों में मिलाकर भद्रमित्र द्वारा रत्नों की पहिचान व श्रीभूति को दण्ड । ३२५
९. श्रीभूति का सर्वस्वहरण व मरण । राजा के भाण्डागार में अर्गवन नाग का जन्म । राजा द्वारा भद्रमित्र की राजश्रेष्ठि-पद पर तथा वम्मिल्ल की पुरोहित पद पर प्रतिष्ठा । वरवर्म मुनि का आगमन व राजा द्वारा श्रावक क्रतो का ग्रहण । ३२५
१०. वरवर्म मुनि का अपनी ही पूर्वजन्म की माता व्याघ्री द्वारा भक्षण व रामदत्ता रानी के सिंहचन्द्र पुत्र के रूप में जन्म । दूसरा पुत्र पूर्णचन्द्र । राजा सिंहसेन का भाण्डागार में उल्ल नाग के द्वारा दर्शन । गान्धर्विक का मंत्र प्रयोग । ३२६
११. मंत्र के प्रभाव से व विष खींचने की अस्वीकृति के कारण अर्गवन नाग का अग्नि में विनाश व कालवन में चमर मृग का जन्म । राजा का हाथी का जन्म व वम्मिल्ल पुरोहित का वन्दर का जन्म । सिंहचन्द्र राजा व पूर्णचन्द्र युवराज । पोदनपुर का राजा पूर्णचन्द्र । ३२६
१२. भद्रवाहु मुनि ने पूर्णचन्द्र व रानी हिरण्यवती की दीक्षा । दत्तवती आर्थिका सहित महामुनि पूर्णचन्द्र का दर्शन व रामदत्ता के विषय में प्रश्न । उसके विवना होने का समाचार । जाकर रामदत्ता को संवीधन । ३२७
१३. रानी रामदत्ता की दीक्षा । भद्रवाहु मुनि का आगमन व सिंहसेन के पुत्र सिंहचन्द्र का तप-ग्रहण । पूर्णचन्द्र राजा । सिंहचन्द्र दिव्यज्ञानी चारण मुनि । पूर्णचन्द्र राजा का मिथ्यात्व । जननी रामदत्ता को सिंहचन्द्रमुनि का दर्शन व प्रशंसन । भवान्तर कहने की प्रार्थना । ३२७
१४. कौशल विषय, वर्ककी ग्राम, मृगायन भट्ट । मृत्यु पश्चात् अयोध्या के राजा अतिव्रत की व रानी श्रीमती की पुत्री हिरण्यमती, जिसका पोदनपुर के राजा पूर्णचन्द्र से विवाह व पूर्वजन्म की नवरा का रामदत्ता के रूप में जन्म । रामदत्ता ने पूर्वजन्म की मृगायन की पुत्री वारणी का पूर्णचन्द्र रूप में जन्म । उक्त रत्नों के स्वामी भद्रमित्र का स्वयं मुनि सिंहचन्द्र के रूप में जन्म । राजा का हस्ती के रूप में जन्म व उपदेश से श्रावक-व्रत ग्रहण । ३२७

१५. राजा सिंहसेन को श्रीभूति ने नाग होकर डसा और स्वयं निर्यंच योनि में चमर मृग हुआ। हस्ती को कुक्कुट सर्प ने मारा और वह श्रीवर देव हुआ। धम्मिल्ल पुरोहित मरकर वानर हुआ और उसने कुक्कुट सर्प को मारा जो नरक गया। शृगाल भिल्ल ने उक्त हाथी के दात और मोती वणिक् को और उसने पूर्णचन्द्र राजा को दिये, जिन्होंने उनका मच और हार बनवाये। ३२८
१६. यह वृत्तान्त सुनकर रामदत्ता सिंहपुर गई और पुत्र को संवोधन किया। उसने श्रावकव्रत लिये। यथासमय मरण को प्राप्त हो सहस्रार स्वर्ग में मुन्दरदत्त नामक देव हुआ। रामदत्ता वही सूर्यप्रभ नामक देव हुई एवं सिंहचन्द्र उपरिम ग्रैवेयक में अहमेन्द्र हुआ। ३२९
- जव्वद्वीप, भरतक्षेत्र, वैताह्यगिरि की दक्षिण क्षेणी में तिलक नगर।
१७. वहाँ के विद्यावरेन्द्र अतिबल, पत्नी सुलक्षणा के वह सूर्यप्रभ देव श्रीधर तनया के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका विवाह अलकापुर नरेश सुदर्शन से हुआ। मुन्दरदत्त देव उसकी यगोधरा पुत्री हुई जिसका विवाह प्रभासपुर के सूर्यावर्त विद्याधर से हुआ। उसके गर्भ से श्रीवर नामक देव रश्मिवेग नामक पुत्र हुआ। उसे राज्य दे सूर्यावर्त मुनिचन्द्र से दीक्षित हुआ। ३२९
१८. श्रीधरा और यशोवरा द्वारा तप-ग्रहण (रश्मिवेग को सिद्धकूट में हरिश्चन्द्रमूनि का दर्शन और प्रव्रज्या। उक्त आर्याओं का उसकी वन्दना के लिए कांचन गुफा गमन। वहाँ उस कुक्कुट, सर्प, अजगर द्वारा उन तीनों का दर्शन, मरण व कापिष्ठ स्वर्ग आरोहण। अजगर पञ्चप्रभ नरक गया और सिंहचन्द्र अहमेन्द्र हुआ। ३२९
१९. चक्रपुरी के राजा अपराजित, रानी सुन्दरी, पुत्र चक्रायुध, पत्नी चित्रमाला। सिंहसेन का जीव जो हाथी, फिर श्रीवर देव, फिर, रश्मिवेग और फिर सूर्यप्रभदेव हुआ था, यह आकर चक्रायुध और चित्रमाला का पुत्र वज्रायुध हुआ। तथा जो श्रीधरा कापिष्ठ स्वर्ग गई थी, वह पृथ्वीतिलक के अतिवेग राजा और प्रियकर रानी की पुत्री रत्नमाला हुई। उसका विवाह वज्रायुध से हुआ। ३२९
२०. यगोवरा का जीव स्वर्ग से आकर वज्रायुध और रत्नमाला का पुत्र रत्नायुध हुआ। वज्रायुध को राज्य देकर चक्रायुध मुनि हो मोक्ष गया। रत्नायुध को राज्य दे वज्रायुध भी मुनि हुआ। रत्नायुध का राजहस्ती जाति-स्मरण कर खानपान छोड़ बैठा। राजा ने चिंतित हो वज्रदन्त मुनि से कारण पूछा। मुनि द्वारा पूर्वभवकथन-चित्रकार पुरी का राजा प्रीतिभद्र, रानी सुन्दरी, पुत्र प्रीतिकर जो मंत्रिसुत चित्रमति सहित मुनि हुआ। ३३०
२१. दोनों मुनि विहार करते साकेत आये। वहाँ बुद्धिसेना गणिका पर मोहित हो चित्रमति रसोइया हो गया। उसने मांस रस खिलाकर राजा को प्रसन्न किया तथा उस वैश्या से और धन पाया। वह मरकर तम तम नरक गया व सत्तार में भ्रमण कर तेरा हाथी हुआ। हमको देख उसे जाति स्मरण हो आया व उससे पापों का का परित्याग किया। सुनकर रत्नायुध श्रावक हुआ। जो अजगर पञ्चप्रभ नरक गया था, वह 'अतिदारुण' नामक शंवर हुआ। ३३०

- २२ उम व्याध ने वज्रायुध मुनि को प्रतिमायोग में देख बाण से वध किया। मुनि सर्वार्थसिद्धि गये। व्याध तम तम नरक गया। रत्नायुध और मणिमाला श्रावक-व्रत के फल से अच्युत कल्प में देव हुए और फिर धातकी खड्ग द्वीप के पूर्व मेरु, अपरविदेह, गधिल विषय, अयोध्यापुरी में अरुहदास राजा और सुव्रता और जिनदत्त रानियाँ हुईं। उनके पुत्र वीतभय और विभीषण हुए, जो क्रमशः बलदेव और नारायण हुए। ३३०
२३. उनका चिरकाल राज्य, फिर स्वर्ग और नरक गमन। विभीषण का जन्म जम्बूद्वीप, पश्चिम विदेह, गधमालिनि देश, वैताढ्य पर्वत, श्रीपुरी में श्रीधर विद्याधर और श्रीदत्ता देवी के पुत्र के रूप में, नाम श्रीदाम। विद्या साधते हुए भ्राता बलदेव ने देखा, सबोधन किया, जैनधर्म में स्थापित, पचम स्वर्ग में देव। इसी बीच वह सर्प तम तमा नरक से निकल पुनः सर्प, पुन नारकी हुआ। ३३१
- २४ पुन पुनः तिर्यच और नरक गतियों में भ्रमण कर वह भरतक्षेत्र, ऐरावती नदी के तट पर भूताटवी में खड्गमालि तापस और कनककेशी का पुत्र मृगश्रग (मृगाशन) मिथ्यात्वी पचाग्नि तपस्वी हुआ। चन्दाभ विमान को देख उसने निदान किया और मरकर नभवल्लभ नगर में वज्रदाढ और विद्युत्प्रभा का पुत्र विद्युद्वाढ हुआ। वह विमान द्वारा क्रीडा को निकला। इसी समय वज्रायुध का जीव सर्वार्थसिद्धि से च्युत होकर— ३३१
- २५ वीतशोक नगर में सजयन्त हुआ। उसे प्रतिमायोग में स्थित देख विद्युद्वाढ क्रुपित हो उपसर्ग करने लगा। उसे सहकर सजयन्त मोक्ष गया। यही वह सिंहपुर का राजा सजयन्त है, और यह है वह श्रीभूति। वही पुराना वैरी श्रीदाम जयन्त हुआ और तू वह भुजगराज व पूर्णचन्द्र और मैं हूँ वह रामदत्ता का जीव लातवेन्द्र। यह सुन धरणेन्द्र शान्त हुआ। ३३२
- २६ श्रीमत पर्वत पर जो सजयन्त की प्रतिमा है। उसके सम्मुख विद्याओं की सिद्धि। धरणेन्द्र यह कहकर अपने स्थान को गया। मथुरा के राजा अनन्तवीर्य और रानी धनमाला देवी के वे पूर्व जन्म के दोनो भाई पुन भ्राता राजकुमार हुए और विमलनाथ गणधर के समीप केवली होकर मोक्ष गये। ३३२
- परद्रव्यापहरण के पाप से श्रीभूति अब भी ससार के नाना दुःख भोग रहा है। ३३२

संधि-३३

कडवक

पृष्ठ

- १ विषयासक्ति का दुष्परिणाम—शिव शर्मा (वारत्रक) का आख्यान। अहिच्छत्र-पुर। शिवभूति विप्र। सोमशर्मा और शिवशर्मा पुत्र। पढने में मन न लगाने से पिता द्वारा वरत्रा (कोडे) से पीटे जाने के कारण लघु पुत्र का प्रसिद्ध नाम वारत्रक। उसका पांडित्य व उक्त नाम से अश्चि। निर्ग्रन्थ होना। जल

- मे स्वप्रतिविम्ब अवलोकन से गुरु की भविष्यवाणी । महिला के निमित्त से मृत्यु । स्त्री रहित स्थान मे तप करने का विचार । ३३३
- २ निर्जन वन मे तपस्या । वनदेवियों द्वारा आहारदान । साथी के साथ गगदेव नट व उसकी पुत्री मदनवेगा का आगमन । देखकर मुनि का अनुराग । ३३३
- ३ नदी से मुनि का विवाह । अहिच्छत्रपुर आगमन । गुरु की शिष्यों द्वारा निन्दा व सुधारने का प्रयत्न । मुनि का आग्रह । राजगृह गमन । राजा श्रेणिक के सम्मुख नाट्य प्रदर्शन । ३३४
- ४ विद्याधर युगल का दर्शन व पूर्वभद्र-स्मरण । विद्याधर के रूप मे लखिया विद्याधरी पर आसक्ति । विद्या-सिद्धि की मर्यादा । ३३४
- ५ मर्यादा पूर्ति पर विवाह । तपग्रहण । स्वर्गगमन व शिवभूति-पुत्र के रूप मे जन्म । लखिया का पुनर्जन्म मदनवेगा के रूप मे । नाट्य का त्याग । विद्याधरो की पुन. प्राप्ति । सबका विस्मय । तप । वराह विषय की वेदातटपुरी में जाकर मोक्ष । ३३५
६. महिलासक्ति के दोष पर गौरसदीप मुनि की कथा । भरत क्षेत्र, कुसाल जनपद श्रीवस्तीपुरी, द्वीपायन राजा । वसत ऋतु । वनक्रीडा । राजा द्वारा आम्रवृक्ष की मजरी का कर्णावतस । सभी का अनुकरण । वृक्ष का आमूल विनाश । ३३५
७. राजा द्वारा क्षणभंगुरता का दोष । पुत्र को राज्य देकर तप-ग्रहण । गुरुसभ सहित उज्जयिनी गमन । मुनिगिरि के शिखर पर गुफा मे एकातवास । संघ मे आचार्य की उस दिन नगर मे जाने वाले के महाव्रत भंग की भविष्यवाणी । ३३६
८. गुरु वाणी को न जानते हुए द्वीपायन मुनि का भिक्षार्थ नगर-प्रवेश । अन्त पुर मे तनुसुन्दरी विलासिनी की ईर्ष्या से रानी द्वारा अगुण्ठ छेदन । घाव मे पीव । राजा की उससे विरक्ति । ३३६
९. तनुसुन्दरी का निष्कासन व अगुण्ठ पर सुवर्णखोल चढाकर वेश्यावाटक मे निवास । राजा द्वारा परिखा निर्माण का कार्य । द्वीपायन मुनि का श्रमदान निमित्त अवरोध । तनुसुन्दरी के घर आहार । जलवाहिनी विद्या के बल से परिखा मे अथाह जल । मुनि द्वारा अपने निवास मे शिलातल पर तनुसुन्दरी का चित्र लेखन । ३३७
१०. परिखा के जल से नगर मे पूर । राजा की मुनि से प्रार्थना । तनुसुन्दरी का वचन मुनि को मान्य । राजा द्वारा उसका अर्पण । द्वीपायन के पुत्र द्वारा नगर निरोध । मुनि द्वारा निवारण । ३३७
११. तनुसुन्दरी को मुनि को प्रसन्न रखने का राजादेश । राजा द्वारा रत्न जटित उपानहो की भेंट । तनुसुन्दरी को पहनाते समय पके अगूठे को देख मुनि की विरक्ति । ३३८
१२. मुनि का पञ्चानाप । विमलचन्द्र मुनि से पुन तपग्रहण । किन्तु तनुसुन्दरी का पुनः संस्मरण । गुरु का सबोधन । तथापि मोह का प्रभाव । उधर तनुसुन्दरी द्वारा राजा के रोष के भय से आत्मघात । ३३८

- १३ उस मुन्दरी के रूप का मुनि द्वारा नख-शिख सस्मरण । ३३६
१४. नखशिख सस्मरण चालू । ३३६
- १५ सस्मरण से पुनः दर्शन की इच्छा । उसका मन जानकर गुरु द्वारा श्मशान में आनयन । दुर्गन्ध से व्याकुसता । गुरु से असह्य दुर्गन्ध का निवेदन । ३४०
- १६ गुरु द्वारा सुन्दरी के मृत घृणित शरीर का साक्षात् दर्शन । देखकर विरक्ति व चरित्र में दृढता । गौरसंदीप नाम का अर्जन । केवल ज्ञानोत्पत्ति । मोक्ष । ३४०

संधि—३४

- कडवक पृष्ठ
१. काम के वशीभूत होने से आपत्ति पर कडारपिंग की कथा । काम्पित्य नगर । नरसिंह राजा, सुमति मंत्री का कडारपिंग पुत्र । राजा का प्रिय । व्यभिचारी । धनदत्त वणिक की भार्या प्रियगुश्री पर कुदृष्टि । ३४२
- २ पिता से निवेदन । पिता का राजा से । धनदत्त सेठ को प्रजा सुख हेतु किंजल्क पक्षी लाने मुवर्णद्वीप भेजने की योजना । राजादेश । ३४२
३. सेठ की भार्या से मंत्रणा । भार्या ने कारण समझ सेठ को बतलाया । सेठ का सार्थ सहित प्रस्थान व कुछ दूर जाकर गुप्त रूप से गृहागमन । रात्रि में कडारपिंग का आगमन । ३४३
- ४ सेठानी द्वारा स्वागत व गृहकूप में पात । सेठ का पुनरागमन । कडारपिंग को निकालकर चंचु, पक्ष व पूछ लगाकर राजसभा में प्रदर्शन । स्वर से राजा द्वारा पहिचान । सेठ द्वारा वृत्तान्त कथन । राजा द्वारा निर्वासन । मरकर नरक गमन । ३४३
- ५ युवतियों के निमित्त अनेक युद्धों के लिये महाभारत और रामायण का उल्लेख । स्त्री के दुर्गुण । ३४३
- ६ नारी के दोष । भामा, रामा, वधू, वनिता, नारी, रमणी और प्रमदा सज्ञाओं की सार्थकता । ३४४
- ७ दयिता, योषा, दारा, कुमारी, अबला, वधूटी, कामिनी, विलया, भार्या, कान्ता, वाला, वल्लभा, स्त्री, प्रियाली और महेली शब्दों की दोष सूचक व्युत्पत्ति । ३४४
- ८ नारी दोष पर देवरति की कथा । विनीता देश, अयोध्यानगरी, देवरति राजा । मित्रमती में अनुरक्त । शत्रु का आक्रमण । मंत्री के वचन की उपेक्षा । प्रजा द्वारा निस्सारण व पुत्र का राज्यारोहण । मित्रमती सहित वनगमन । जल के अभाव में प्रिया की तृषा-शान्ति हेतु शरीर से शोणित का औषधि द्वारा जल में परिवर्तन । ३४५
९. देवरति का श्रीपुर-गमन । लोगो द्वारा सम्मान व निवास । समीप ही वापीगृह में किन्नररति नामक लगड़े गायक का निवास । मित्रमती की उस पर आसक्ति । वर्षगांठ उत्सव के वहाने पति को बाधकर यमुनाद्रह में पात । पगुल के साथ निवास । ३४५
१०. मछलियों द्वारा देवरति के बन्धनों का कर्तन । मगलपुर में वृक्ष तले विश्राम । राजा श्रीवर्धन की मृत्यु । पुत्र के अभाव में हाथी का विसर्जन । देवरति का

- अभिषेक । स्त्रियो से अरुचि । जयसेन नाम से उनके दान की स्याति मित्रमती के कानो पहुँची । ३४५
११. धन प्राप्त निमित्त मित्रमती का पगुल को कंधे पर बिठाकर गमन । पति-भक्ति देख सभी की श्रद्धा । ३४५
१२. नगर मे उनकी गायनकला की स्याति । राजसभा मे गमन । राजा का आशीर्वाद के स्वर से मित्रमती को पहिचानकर पुरानी बातो के स्मरण महित उनको सायुवाद । उसे धन देकर राजा की प्रव्रज्या । ३४६
१३. नारी के कपट पर सिंहवल नृप की कथा । पृथ्वीपुर का राजा गोविन्द, महावल पाइक । गोमती पुत्री पलासकूट के पटेल सिंहवल को विवाहित । दोनो मे कलह । सिंहवल का ग्रामान्तर गमन व हरिपेण की पुत्री सुभद्रा से विवाह । गोमती चुनकर रात्रि को सीत का सिर काट लायी । ३४६
१४. मार्ग मे विघ्न भय मे बट वृक्षारोहण । चोरो को डराकर धन प्राप्त । घर आकर तेल मे सिर को तलकर रखना । विक्षोभ सहित पति का आगमन । भोजन थाल मे सिर को परोसना । पति का भय । भाले से पति का वध ।
१५. पतिघात पर वीरवती की कथा । राजगृह, धनमित्र सेठ का पुत्र दत्त । निकटवर्ती ग्राम के वणिक की पुत्री वीरवती से विवाह । वधू पति से विरक्त, अगारक चोर से अनुरक्त । चोर को गूली । वीरवती का उसके समीप गमन । दत्त के मित्र मुपेण द्वारा छिपकर दर्शन ।
१६. चोर की इच्छानुसार पत्थरो के ढेर पर चढकर आलिंगन । चोर द्वारा ओष्ठकर्तन । पत्थरो के विघटन से वीरवती का पतन । घर आकर कोलाहल व पति पर दोषारोपण । राजा द्वारा प्राणदण्ड । मुपेण के साध्य से रक्षा । खडित ओष्ठ का चोर के मुख मे प्रदर्शन ।

संघि—३५

कडवक

पृष्ठ

१. प्रज्ञंसनीय महिलाओं के उदाहरण । रोहिणीकथा । सूरसेन जनपद, सीरीपुर, राजा वसुदेव, महादेवी रोहिणी, रोहिणेय पुत्र । सदा माता के समीप रहने से जनापवाद । पनिहारिनो मे चर्चा ।
२. गोपी द्वारा रोहिणी को समाचार । यमुना के पूर मे दिव्य परीक्षा ।
३. सतीत्व के प्रभाव से यमुनाजल का स्तभन, किन्तु नगर का प्लावन । लोगो की पुकार । सती के वचन से उत्तर की ओर प्रवाह आज तक ।
४. सीता के सतीत्व की अग्नि परीक्षा का उल्लेख मात्र । सर्प का माला मे परिवर्तन, पर सीमा की कथा का उल्लेख मात्र । चम्पापुरी, जिनदास सेठ । भार्या सहित श्रावस्ती गमन । वन मे भार्या पर सन्देह । जिनदासी द्वारा सिंह को देह समर्पण । महासती कह कर सिंह का परावर्तन ।
५. सती का आरयान । अयोध्या का राजा सुरत, रानी सती । धर्म श्रवण । मुनि

- आगमन की सूचना का आदेश । साधुओं का आगमन । राजा प्रिया के शृंगार में आसक्त ।
- ६ द्वारपाल का निवेदन । साधुओं का पडगाहन व रसोई घर में आसन । राजा का गमन व आहारदान । पचात्तिशय । मुनि निन्दा के कारण रानी को कुष्ठ व्याधि ।
७. त्रिविक्रम का आत्मान, मधुविन्दु दृष्टान्त—त्रिविक्रम नामक पुरुष वन में व्याघ्र से पीडित । जीर्ण कूप में शरस्तम्ब पकड़ कर लटका । चारों कोनों पर सर्प व नीचे अजगर तथा श्वेत व काले दो चूहे शरों को काटते दिखे । व्याघ्र भी उसे पकड़ने के प्रयत्न में लगा । उसे न पाकर तट वृक्ष पर पजों का प्रहार । मधुकरियोंकी बाधा । शाखाओं से मधुविन्दु का क्षरण ।
- ८ मुख में मधुविन्दु पतन और उसका मिठास । जगत्स्वभाव । ससार अटवी, मरण महाव्याघ्र, शरीर कूप, चार कषाय सर्प, व्याधियाँ मधुकरी, विषयसुख मधुविन्दु, आयु शरस्तम्ब, दो पक्ष मूपक, नरक अजगर । इस प्रकार ससार में सुख एक मधुविन्दु प्रमाण और दुःख मेरु समान ।
- ९ दुर्जन सग के दोष—चारुदत्त कथा । चम्पापुरी । भानु वणिक, सुभद्रा गृहिणी । पुत्र का अभाव । मुनि आगमन । पुत्रोत्पत्ति व वृद्धत्व में तपग्रहण की भविष्य वाणी । पुत्रनाम चारुदत्त ।
- १० कला प्रवीण । वनक्रीडार्थ गमन । कीलित विद्याधर का दर्शन । उसका मोचन व तीन औपधियों को वाटकर लगाने से क्षतपूर्ति । कृपाण लेकर गगन में दौड़ व प्रिया को छुड़ाकर पुनरागमन ।
- ११ विद्याधर का आत्मवृत्तान्त । दक्षिण श्रेणी, शिवपुर के कौशिक नामक विद्याधर का पुत्र अमित वेग । धूमशिख और गौरमुड नामक मित्रों सहित हिरण्यरोम तपस्वी की सुकुमालिका नामक सुन्दर कन्या का दर्शन । कामवेदना । विवाह । धूमशिख का द्वेष व मुझे खिलकर प्रिया का अपहरण ।
- १२ अमितवेग की कृतज्ञता । चारुदत्त का गृहागमन । सर्वार्थ वणिक की पुत्री सुमित्रमती से विवाह । पत्नी के प्रति उपेक्षा । माता द्वारा चेटको के साथ चारुदत्त को वेश्यावाट में प्रेषण । वसन्तसेना से प्रेम ।
१३. चारुदत्त की वेश्यासक्ति व सुरापान । समाचार पाकर माता-पिता का तपग्रहण । बारह वर्ष में छत्तीस कोटि धन का नाश । भार्या द्वारा अपने आभूषणों का प्रेषण । निर्धन जान कलिग सेना कुट्टिनी द्वारा त्याग का उपदेश । पुत्री द्वारा त्याग का निषेध । कुट्टिनी द्वारा नशा कराकर चारुदत्त का घर के बाहर प्रक्षेप ।
- १४ लज्जित होकर चारुदत्त का गृहागमन । घर की दुर्दशा देख पश्चात्ताप । मामा के साथ वाणिज्यार्थ निर्गमन । उपीरावर्त नगर में कपास खरीदकर ताम्रलिप्ति को जाते समय वन में अग्नि से कपास का नाश । मामा को त्यागकर प्रियनगर गमन । पिता के मित्र सुन्दर द्वारा सम्मान । निषेध करने पर भी नौका द्वारा यवन द्वीप गमन ।

१५. नगर और द्वीप के बीच जाते आते सात बार नौका भग । आठवीं बार नौका भग्न । फलक पर चढ़कर सैन्धव देश प्राप्ति । गोविन्द नामक भागवत द्वारा सिद्धरस का प्रलोभन व पहाड़ के विल में प्रवेश ।
१६. रस भरते समय शब्द-ध्वनि । वहा पड़े हुए पुरुष द्वारा वचना का संकेत व आत्मनिवेदन । उज्जयिनी से वाणिज्यार्थं काचनद्वीप गमन । लौटते समय नौका भग ।
- १७ भटकता फिरता इधर आया । भागवत द्वारा सिद्धरस हेतु इधर प्रवेश । तूवी भर सिद्धरस लेकर व सीका काटकर यहा पात । ऐसी ही अन्य सैकड़ों की दुर्दशा । अब तुम्हारी (चारुदत्त की) वारी । रस देने न देने से दोनों और विपत्ति की शका । ३५७
- १८ रस लेकर व रस्सी काटकर भागवत का गमन । चारुदत्त द्वारा सर्वज्ञ को नमस्कार, सन्यास ग्रहण व मित्र को धर्मोपदेश । ३५८
- १९ नरक की वेदनाओं का वर्णन । ३५८
२०. तिर्यंच गति की पीडायें । ३५८
- २१ मनुष्य गति के दुख । धर्म द्वारा शाश्वत सुख की प्राप्ति । ३५९

सन्धि ३६

कडक

पृष्ठ

- १ श्रावक धर्म व पचाक्षर मंत्र का उपदेश । रस कूप से निकलने का उपाय प्रश्न ? गोह की पूछ पकडकर निर्गमन । गोह के विल में प्रवेश कर जाने पर वृक्ष की जड़ का ग्रहण और फिर अज के पैर का । ३६०
२. अजपाल का अजगर की भाशका से खनन । मनुष्य की पुकार व निस्सारण । वन भैसे का आक्रमण । भैसे और अजगर का युद्ध । पलायन । मामा के मित्र रुद्रदत्त से भेंट व टकन देग गमन । ३६०
- ३ महानदी उत्तरण, वेत्राटवी प्रवेश, टकनगिरि लघन कर टकन देश प्राप्ति । दो प्रौढ मैडे लेकर पर्वतारोहण । रुद्रदत्त द्वारा मैडे का वध । चारुदत्त द्वारा कर्णजाप । खाली में दोनों का प्रवेश । भेरुंडपक्षियो द्वारा मांसपिंड जानकर अपहरण । मणिद्वीप की ओर उडान । अन्य पक्षी से भिडन्त व रुद्रदत्त के पिंड का पतन व मरण । ३६१
४. पर्वत पर चारुदत्त का अवतारण । खाल फाडकर निर्गमन । मुनि-दर्शन । मुनि का आत्म परिचय । कीलित विद्याधर का जन्मान्तर । ३६१
- ५ प्रिया को छुडाकर गृहगमन । पिता द्वारा राज्याभिषेक । एक पत्नी जयसेना से गधर्वसेना कन्या का व दूसरी पत्नी मनोहरा से सिंहयश और वराहग्रीव पुत्रों का जन्म । ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर तप ग्रहण । ३६१
६. सातों ऋद्धियो की प्राप्ति । द्वीप का नाम कडक व पर्वत का ककडक । सिंहयश का ससैन्य आगमन । मुनि द्वारा चारुदत्त का भ्राता के रूप में परिचय । परस्पर मिलन । एक देव का आगमन । ३६२

७. देव द्वारा पहले चारुदत्त को और फिर मुनि को प्रणाम । मुनि से पूर्व गृहस्य की विनय का कारण—गुरुपद । ३६२
८. देव का आत्म परिचय । चाराणसी में सोमशर्मा ब्राह्मण । दो पुत्रियां भद्रा और मुनसा । सुलसा अत्यन्त विदुषी एव वाद में अजेय । सुलसा की वाद में जीतने वाले से विवाह की प्रतिज्ञा । ३६३
९. याज्ञवल्क्य द्वारा पराजित होकर सुलसा का विवाह । ऋषि आश्रम में पुत्रोत्पत्ति । पिप्पल तले शिशु का त्याग । भद्रा द्वारा रक्षा व पिप्पलाद नामकरण और चाराणसी आनयन । पालन व पढाग वेदाध्यापन । माता-पिता के सम्बन्ध में प्रश्न । भद्रा द्वारा ययार्थ सूचना । ३६३
१०. मुनकर पिप्पलाद का रोष । जाकर याज्ञवल्क्य से वाद व विजय । भद्रा द्वारा मेल । माता-पिता का दध व पितृमेव यज्ञ । ३६३
११. मैं (देव) ऋषीन्द्र का वार्दलि नामक शिष्य । स्वर्ग हेतु नाना पशुयज्ञो का विधान । छेलक का जन्म । ३६४
१२. वेद की ऋचाएं पढ़कर छह वार बलिदान । सातवीं वार छाल हेतु रुद्रदत्त द्वारा मारे जाते समय चारुदत्त द्वारा सम्यक्त्व व पंचाक्षर मंत्र के दान से देवत्व प्राप्ति । यही चारुदत्त के गुरु होने का वृत्तान्त । इसी से उसे प्रथम प्रणाम । ३६५
१३. देव द्वारा चारुदत्त को रत्न-सुवर्ण देकर घर पहुँचाने का प्रस्ताव । चारुदत्त का निषेध । देव का गमन । विद्याधर द्वारा चारुदत्त का अपने घर आनयन । बहिन गंधर्वसेना का परिचय व गंधर्व (गान) विद्या में जीतने वाले से विवाह की भविष्यवाणी की सूचना । ३६५
१४. गंधर्वसेना सहित चारुदत्त को विमान द्वारा उसके घर पहुँचाना । वसुदेव का आगमन । गंधर्व विद्या ने विजय प्राप्ति व गंधर्वसेना से विवाह । यह संसर्ग-दोष से चारुदत्त वणिक् की विपत्ति का कथानक । ३६६

संधि—३७

कडवक

पृष्ठ

१. संसर्गदोष से चारित्रभ्रष्ट होने की शकटमुनि कथा—शकटमुनि का कौशाम्बी में आगमन व जयिनी के गृह में प्रवेश । आहार ग्रहण । गोष्ठी । वृद्धा द्वारा तप के कारण का प्रश्न । मुनि का आत्म परिचय । उसी नगर में सोमशर्मा द्विज व वीणा ब्राह्मणी । ३६७
२. पुत्र शकट । रोहिणी से विवाह । रोहिणी की मृत्यु । उसी के शोक में दिगम्बरी दीक्षा । जयिनी का स्व परिचय । शिवशर्मा भट्ट की पुत्री । शकर विप्र से विवाह । पति की मृत्यु ।
३. मुनि द्वारा पूर्व परिचय । बालकपन में एक ही उपाध्याय के पास दोनों का अध्ययन । पूर्व स्मरण से दोनों का परस्पर अनुराग, कुसुमपुर गमन व कवाड़ (कवाड़ी व्यापार) द्वारा निर्वाह ।

- ४ कूर्चवार मुनि की कथा—पाटलिपुत्र में मौर्यवंशी अशोक राजा, अशोकथी महा-
देवी, कूर्चवार पुत्र । वरवर्म मुनि का आगमन । धर्म श्रवण और मुनिव्रत
ग्रहण । जल में अपनी छाया देखने पर मुनि की महिला द्वारा व्रतभंग की
भविष्यवाणी ।
- ५ जहा स्त्री न दिखे ऐसे स्थान पर तप करने का निश्चय । गिरिगिखर गमन ।
उधर पाटलिपुत्र पर शत्रु का आक्रमण । कूर्चवार को मनाकर लाने के लिये
धीरमति वेश्या का प्रेषण ।
- ६ वेश्या का आर्थिका वेश धारण । पर्वत तल में प्रीट वेश्या को रखकर जेप सहित
पर्वतारोहण । मुनि की वन्दना । एक वृद्ध आर्थिका पर्वत पर चढ़ने में अशक्त,
किन्तु वन्दना की इच्छुक होने का निवेदन । मुनि का पर्वत तले आगमन व
महिला द्वारा प्रलोभन से व्रतभंग । गृह आगमन । शत्रु का पराजय । ३६६
- ७ पाराशर का कथानक । गजपुर का राजा सवर । जयंतीपुर के राजा विश्वमेन
की पुत्री तपकी से विवाह, इस प्रतिवध सहित कि उसके ऋतुमती होने पर
पति कहीं न जाय व जाय तो शीघ्र आ जाय । उधर इन्द्र की सभा में ब्रह्मा,
विष्णु, महेश सहित मव देवों की सभा । ३७०
- ८ सवर का इन्द्र की सभा में गमन । उसी समय रानी का ऋतु-स्नान । सदेश ।
राजा का प्रति-सदेश—कार्य गुस्तावश अगव्यता । ३७०
- ९ रानी द्वारा शुक के गले में पत्र बाधकर प्रेषण । राजा का पुटिका में शुक
प्रेषण । लौटते समय शुक की श्येन से झडप वा गगाद्रह में पुटिका पतन ।
शुक का मत्स्य मुख में प्रवेश व गर्भ । मछुए द्वारा मत्स्य वधन व उसके
उदर से बालिका की प्राप्ति । ३७०
१०. बालिका का यौवन । मत्स्यगधा नाम । ऋषि पाराशर का आगमन । मत्स्यगंधा
द्वारा नौका आनयन । नदी के मध्य ऋषि की कामवेदना । मत्स्यगंधा
का विरोध । ३७१
- ११ ऋषि का आग्रह । तप के माहात्म्य से बालिका का दि यवेष, योजनव्यापी
सुगंध । ३७१
- १२ गगन धूम से प्रच्छादित व नदी के मध्य पुलिन का आविष्कार । समागम ।
व्यास की उत्पत्ति । पुत्र का पिता के साथ गमन । योजनगंधा की आपत्ति । ३७१
१३. व्यास की स्मरण मात्र से माता के पास आने की प्रतिज्ञा । शान्तनु का अनु-
राग । पुत्र (भीष्म) द्वारा व्यवस्था से विवाह । तीन पुत्रों का जन्म । चित्र,
विचित्रवीर्य और चित्रागद । उनका अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका से
विवाह । योजनगंधा द्वारा व्यास का स्मरण व पुत्रोत्पादन । उनमें से धृतराष्ट्र
से कौरवों और पाण्डु से पाण्डवों की उत्पत्ति ३७२

संधि—३८

- कडवक पृष्ठ
- १ सात्यकी रुद्र कथा—विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी, किन्नरगीत नगर । रत्नमाली विद्याधर राजा, पुत्र रुद्रमाली । विद्या सिद्धि में सलग्न । विद्याधर कुमारी का दर्शन । मोह । भ्रमर बनकर मुख पर स्थिति । कुमारी द्वारा विद्यासिद्धि की अवधि । अपना परिचय, उत्तर श्रेणी में गधर्वपुर के राजा महाबल की पुत्री । ३७३
 - २ माता का नाम प्रभाकरी व स्वनाम अर्चामालिनी । अवधि की समाप्ति पर विवाह । मनोजय और चित्तवेग विद्याधर महाज्वालिनी विद्या द्वारा रुद्रमाली को बाध कर ले गये । रुद्रमाली का उन्हें जीतकर लौटना । पत्नी सहित दीक्षा ग्रहण । ३७३
 ३. दोनों का सन्यासपूर्वक स्वर्गवास । महेश्वरपुर के गांधार नरेश की भार्या सत्यमती के पुत्र सात्यकी के रूप में रुद्रमाली का जन्म तथा अर्चामालिनी वैशालीपुरी के राजा चेटक की पुत्री ज्येष्ठा के रूप में जन्म । सात्यकी को वाग्दान, किन्तु विवाह से पूर्व श्रेणिक राजा के पुत्र अभयकुमार का आगमन । ज्येष्ठा को वचना व चेलना का अपहरण । ३७४
 - ४ ज्येष्ठा की प्रव्रज्या । सात्यकी का भी तपग्रहण । उत्तर गोकर्ण पर्वत से आकर राजगृह के उच्चग्रीव पर्वत पर निवास । वदनार्थ आर्यिकाओं का आगमन । दृष्टि । ज्येष्ठा का सात्यकी की गुफा में प्रवेश । ३७४
 - ५ समागम । सात्यकी का आलोचना पूर्वक पुन व्रत । ज्येष्ठा को गर्भ । आर्यिका द्वारा चेलना को समर्पण । पुत्र-जन्म । अभयकुमार द्वारा स्वयभू गुफा में क्षेपण । चेलना द्वारा भ्रानयन व स्वयभू नामकरण । ज्येष्ठा की पुन प्रव्रज्या । स्वयभू के रुद्रस्वभाव से चेलना का रोष व यथार्थ कथन । ३७५
 - ६ स्वयभू का उत्तर गोकर्ण में जाकर पिता से दिगम्बर दीक्षा लेना । रोहिणी आदि विद्याओं की सिद्धि । सिंह बनकर सबको भयोत्पादन । महिला के निमित्त से मरण की गुरु द्वारा भविष्यवाणी । कैलाशवास । विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी के मेघनिबद्धपुर के विद्याधर नरेश कनकरथ के दो पुत्र देवदारु और विद्युज्जिह्व । ३७५
 - ७ देवदारु राजा व विद्याजिह्व युवराज । देवदारु का युवराज द्वारा निर्वासन । कैलाश पर विद्यापुर बनाकर निवास व योजनगधादि चार महादेवियाँ । योजनगधा की गधेल्ल और गधमालिनी व अन्य देवियों की कुल आठ पुत्रिया । जलक्रीडार्थ गमन । ३७६
 - ८ कुमारियों को देखकर रुद्र का मोह । मदन का बाणवेधन । स्नान के समय कुमारियों के वस्त्रों का अपहरण । माता-पिता की अनुमति लेकर वरण की प्रतिज्ञा पर वस्त्र प्रदान । ३७६
 ९. पिता का स्वयभू को सदेश कि यदि मेघनिबद्धपुर का राज्य दिला सके तो कुमारियों से विवाह । स्वयभू की स्वीकृति । देवदारु द्वारा गृहानयन व वृत्तान्त कथन । स्वयभू की प्रतिज्ञा । ३७७

१०. देवदारु का मेघनिवद्धपुर पर आक्रमण । वैरी का पुर से निष्कामन । आठों कुमारियों का स्वयंभू से विवाह । उनकी मृत्यु । पुनः अनेक कुमारियों से विवाह व उनकी भी क्रमशः मृत्यु । स्वयंभू का शोक । गौरी से विवाह का वृत्तान्त । एक आर्यिका को धीवर ने नदी पार उतारा । ३७७
११. धीवर के शीतल देहस्पर्श के सुख से उसी को अगले भव में पति पाने का आर्यिका का निदान । केवट अगले भव में ज्येष्ठा का पुत्र तथा वह आर्यिका विद्युद्दृष्ट की पुत्री । क्लेश के कारण श्रावस्ती की गुफा में प्रक्षेप । चार द्विजपुत्रों द्वारा उमा-उमा ध्वनि सुनकर उसका अपने घर ले जाना व उमा नामकरण । ३७८
१२. उमा का रानी को समर्पण, उसके द्वारा पालनार्थ धात्री को । पश्चात् इन्द्रसेन विद्याधर की पत्नी गिरिकणिका को समर्पित । यौवन तडिद्रय (विद्युद्देग) विद्याधर से विवाह । वैधव्य । रुद्र से विवाह । ३७८
१३. रुद्र का प्रेम । ईश्वरत्व प्राप्ति । शैवशास्त्र का प्रकाशन । शैवाचार्यों की दीक्षा । विद्याधरो की आशका । ३७८
१४. मारने के उपाय । गांधार देश के दुरड नगर में शिरच्छेद । देश में उपसर्ग । ३७९
१५. लिंग पूजा द्वारा ज्ञान्ति-स्थापना का विधान । ३७९

संधि-३९

कडवक

पृष्ठ

१. राजमुनि की कथा । भरत क्षेत्र, विदेह देश, मिथिला पुरी, मेरक राजा । दो पुत्र पद्मरथ और नमि । राजा और नमि की प्रव्रज्या । पद्मरथ राजा । वन में अपनी छाया देखते हुए नमि को गुरु-स्त्री के प्रसंग से तपभंग की भविष्यवाणी । निर्जन वन गमन । गौविन्द नामक नट का आगमन । ३८१
२. नटपुत्री काचनमाला से नमि का प्रेम व विवाह । गर्भ । पूर्व समुद्र तटवर्ती मुंडीरस्वामीपुर गमन । नाट्य । राजकुमारी का प्रेमी सहित नाट्य प्रेक्षण । ३८१
३. नट द्वारा सुभाषित के प्रथम चरण को सुनकर राजकुमारी का मन परिवर्तन व नट को धनदान । एक युवती परिव्राजिका मठ का द्रव्य लेकर किसी के साथ भाग रही थी । नट के श्लोक के द्वितीय चरण से उसका भी शील भंग न करने का निश्चय । धन की पीटली नट को समर्पित । अन्य दो राजपुत्रों का श्लोक के अन्य दो चरणों को सुनकर उन्मार्ग का त्याग व नट को धनदान । ३८२
४. धन से प्रिया को सन्तुष्ट कर तथा पुत्र उत्पन्न होने पर उसे श्मशान में छोड़ देने का उपदेश देकर नमि का पुनः गुरु समीप गमन व मुनिव्रत ग्रहण । इधर नटी को पुत्रोत्पत्ति, व पुत्रको मृदग में रखकर श्मशान में क्षेपण । नगर के राजा का मरण । भाई-भतीजा न होने से राजगज द्वारा राजा का चुनाव । हाथी द्वारा श्मशान में जाकर उसी बालक का स्वारोहण । ६८२

५. बालक का राज्याभिषेक । दुर्मुख नामकरण । नमि का आगमन । कुभकार कन्या विश्वादेवी पर मोह व प्रेम के बदले उसके कच्चे भांडो की वृष्टि से रक्षा का आश्वासन । ३८२
६. मंत्रित दण्डद्वारा भांडो का शीघ्र गृहप्रवेश । कुभकार का आगमन । विवाह । गर्भ । धनार्जन हेतु स्त्री की भर्त्सना । कापालिका निर्माण व गोविंद ब्राह्मण को अर्पण । प्रथम दिन की भिक्षा उसे देने का प्रतिवच । ३८३
७. रानी के श्रित्त के प्रसंग मे गोविन्द को भोजन व कापालिका को रत्नो का दान । उसके द्वारा मुनि को व मुनि के द्वारा पत्नी को दान । पुन उत्पन्न होने पर इमशान मे डाल देने का उपदेश देकर मुनि का गुरु समीप आगमन व पुनः व्रतग्रहण । नगर के राजा का निस्सतान मरण । ३८३
८. मंत्रियो द्वारा राजगज का प्रयोग व उसी करकडुनामक बालक का राज्याभिषेक । नमि का मरुदेश के मूलस्थान (मुलतान) गमन । राजकन्या दर्शन । गुप्तप्रेम । ३८४
९. राजकुमारी का गर्भ । धात्री द्वारा पूछताछ । यथार्थ निवेदन । दिन मे पहचान के लिये पीठ पर कुकुम के हत्ये मार देने का उपदेश । राजर्किकरो द्वारा राजा को निवेदन । गुणी जान कर उसी से राजकन्या का विवाह । ३८४
१०. नगइ नामक पुत्र का जन्म । नमि की पुन दीक्षा । आज भी लोगो की मुडीर नगर मे सूर्य के उद्गमन, कालप्रिय (उज्जैन) मे मध्याह्न व मूलस्थान मे अस्त-गमन की मान्यता । तीनों की नमि के पास प्रव्रज्या । चारो का उसी प्रजापति के ग्राम मे विहार । रात्रि मे ध्यानस्थ । ऊपर आवा लगा देने से चारो का मोक्षगमन । ३८५
११. नारी मोह के दोष पर ब्रह्मा का आख्यान । ब्रह्मलोक मे ब्रह्मा की चिन्ता—कोई समीप न आने जाने से अकेलापन । मर्त्यलोक मे आगमन । अन्य देवताओ की भक्ति व अपनी उपेक्षा देखकर रोष । ३८५
१२. ब्रह्मा की वन मे साढ़े तीन सहस्र दिव्य वर्षों तक तपस्या । पचविध कालप्रमाण । देवो की सभा । ३८६
१३. सभा मे सभी देवो व मनुष्य वर्गों का आगमन किन्तु ब्रह्मा अनुपस्थित । गवेपणा । वायु देवता द्वारा प्राप्ति । ३८६
१४. हर की चिन्ता व हरि से विचार-विमर्श । स्त्री द्वारा तपभग का उपाय । तिलोत्तमा की सृष्टि व वसत सहित प्रेषण । ३८७
१५. ब्रह्मा का मोह । तिलोत्तमा के आकाश नृत्य-दर्शनार्थ चारो दिशाओ मे व ऊपर की ओर पाचवें मुख की उत्पत्ति । ३८७
१६. तिलोत्तमा का लोप । पुन उर्वशी का समीपगमन । वसिष्ठ की उत्पत्ति । ३८७

१. अर्थ की अनर्थमूलता पर घनमित्रादि वनियों की कथा । कौशाम्बी के घन-मित्रादि बत्तीस घनिकों की वाणिज्य यात्रा । राजगृह के मार्ग में चोरो द्वारा लूट । चोरो की भी परस्पर द्वेष वृद्धि से विषमिश्रित मिष्टान्न खाकर मृत्यु । अर्थ के निमित्त श्रावक द्वारा मुनि को क्षोभ की कथा । मणिवत् पुरी के राजा मणिपति का मणिचन्द्र पुत्र । पिता की दीक्षा । मणिचन्द्र का राज्याभिषेक । मुनि का उज्जयिनी आगमन । ३८६
२. मुनि का इमशान में वास । रात्रि में विद्यासिद्धि हेतु कापालिक का आगमन व मुनि को मृतक जान उसके सिर पर अग्नि जलाकर खीर पाक । काय के चलायमान होने से कापालिक का भय से पलायन । प्रातः जिनदत्त सेठ द्वारा मुनि को लाकर वैद्य से परामर्श । सर्वरोग हर तैल का विधान । ३८६
३. सोमशर्मा की पत्नी चुकारी से तैल की प्रार्थना । घड़े से तैल लेने में तीन बार घड़ी का फूटना । सेठ का चुकारी के धैर्य पर आश्चर्य । ३९०
४. चुकारी को क्रोध न आने के कारण का वृत्तान्त । मोठ देश में आनंद नगर । शिवशर्मा ब्राह्मण की कमला भार्या व शिवभूति आदि आठ पुत्र व भद्रा नामक एक पुत्री में (चुकारी) । नगर में डिंडोरा कि मुझसे कोई चू भी न करे । अत नाम पडा घचुकारी । ३९०
५. सोमशर्मा से इसी शर्त पर विवाह कि उससे वह कभी अप्रिय न बोले । एक दिन पति के रात्रि में बहुत देर से आने के रोप में द्वार बंद । पति के दुर्वचन । ३९०
६. द्वार खोल वहिर्गमन । चोरों द्वारा लूटकर मिल्ल पल्लीपति को अपित । वनदेवी द्वारा शील-रक्षा । व्यापारी के हाथ विक्रय । उसके हाथ पारसकुल में विक्रय । उसके द्वारा क्रिमिराग कम्बल हेतु रक्त-शोषण । दुखी जीवन । ३९१
७. उज्जयिनी नरेश द्वारा राजकार्य हेतु प्रेषित मेरे भ्राता घनदेव का आगमन व मेरा यहा आनयन । पति द्वारा वैद्य से पूछकर लक्षपाक मक्खन की मालिश से स्वास्थ्य लाभ । मुनि से श्रावकव्रत ग्रहण । रोप का परित्याग । तबसे परम शान्ति । जिनदत्त वणिक् द्वारा प्रशंसा व तैल लेकर गमन । ३९२
८. उस तैल के द्वारा मणिपति मुनि को स्वास्थ्य लाभ । वर्षागमन का आलंकारिक वर्णन । जिनदत्त के जिनमंदिर में मुनि की योग-साधना । ३९२
९. अपने पुत्र कुवेरदत्त के भय से जिनदत्त द्वारा रत्न-सुवर्ण से भरे घट को मुनि के समक्ष भूमि में गड़ाना । पुत्र द्वारा उसे निकालकर अन्यत्र स्थापना । योग समाप्ति पर मुनि का प्रस्थान । जिनदत्त को घट की अप्राप्ति व मुनि पर अपहरण का सन्देह । ३९२
१०. मुनि को मनाकर लौटा लाना । कहानी कहने का प्रस्ताव । प्रथम जिनदत्त द्वारा कथा । ३९३

११. वराड देश, पद्मपुर, वसुपाल नरेन्द्र । कौशल नरेश के दूत की वन में तृष्णा से मूर्च्छा । कपि द्वारा जलदान । दूत द्वारा उठकर कपि का वध, चर्म-ग्रहण व जल भरकर गमन । दूत के अपने उपकर्ता के प्रति अयोग्य आचरण की मुनि द्वारा भी निन्दा । ३६३
१२. मुनि द्वारा दूसरी कथा । कौशाम्बी नगरी । शिवशर्मा ब्राह्मण । पुत्रहीन । नकुल का पालन । पुत्रोत्पत्ति । ब्राह्मणी का जल लेने जाना । सर्प द्वारा पुत्र का घात । नकुल द्वारा सर्प-घात । ब्राह्मणी का मृत-पुत्र दर्शन । ३६४
१३. नकुल पर सदेह कर बिना परीक्षा वध । इस अनौचित्य का वणिक् द्वारा समर्थन । ३६४
१४. जिनदत्त द्वारा तीसरी कथा । वाराणसी के जितशत्रु राजा का धनदत्त वैद्य । दो पुत्र धनमित्र और धनभद्र । दोनों मूर्ख । धनदत्त की मृत्यु । पुत्रों का चन्द्रपुरी गमन व शिवभूति के समीप वैद्यविद्या का अध्ययन । घर लौटते समय वन में अन्धे व्याघ्र का दर्शन । कनिष्ठ भ्राता द्वारा व्याघ्र के उपचार का प्रस्ताव । ३६५
१५. धनदत्त द्वारा अनिष्ट की आशंका व वृक्षारोहण । धनभद्र द्वारा व्याघ्र को दृष्टिदान । व्याघ्र द्वारा उसका घात । मुनि द्वारा अनौचित्य का समर्थन । मुनि द्वारा चौथी कथा । चम्पापुर में शिवशर्मा विप्र । ३६५
१६. भार्या सोमिल्ला सपुत्रा । उसकी सौत सोमशर्मा ईर्ष्यालु । सौत के पुत्र को मार कर नगर साँड के सींग में छेदन । सबके द्वारा साँड की निन्दा । साँड द्वारा तप्त लौह मुख में लेकर अपनी दिव्य परीक्षा । बिना परीक्षा लोक द्वारा साँड की निन्दा के अनौचित्य का जिनदास द्वारा समर्थन व पाँचवी कथा । गगानदी- ३६६
१७. गड्ढे में पड़े हाथी को लाकर आश्रम में पालना । उस भद्रजाति के गधहस्ति की ख्याति सुनकर श्रेणिक नरेश द्वारा प्राप्ति । बधन तोड़कर तीन बार पुनरागमन । तपस्वी द्वारा वापिस किये जाने पर हस्ति द्वारा रोष से तपस्वी का घात । मुनि द्वारा हस्ति की कृतघ्नता की निन्दा । ३६६
१८. मुनि द्वारा छठी कथा । गजपुर के राजा विश्वसेन का आम्रवन आरोपण । प्रथम फल में सर्प के विष का प्रवेश । राजा द्वारा महादेवी को अर्पण । खाकर प्राणान्त । रुष्ट नरेश द्वारा समस्त आम्रवृक्षों का छेदन । वणिक् द्वारा भी राजा के अविवेक की निन्दा । ३६६
१९. जिनदत्त की सातवीं कथा । महेश्वरपुर का वसुशर्मा विप्र वन में सिंह को देखकर वृक्ष पर चढ़ा । सिंह के चले जाने पर विप्र वृक्ष से उतरा । उसी समय वहा राजा के कहार पटो के योग्य काष्ठ की खोज में पहुँचे । विप्र ने उन्हें वही वृक्ष बतला कर उसे कटवा डाला । मुनि ने भी विप्र की निन्दा की । मुनि की आठवी कथा । अयोध्या का राजा शशिमित्र । ३६७
२०. चन्द्रमती रानी । जलक्रीडा निमित्त सुन्दर वापी का निर्माण । रानियों की क्रीडा । वापी में सर्प का प्रवेश । वृद्धा द्वारा मार डालने का उपदेश । किन्तु युवतियों द्वारा उपेक्षा । ३६७

- २१ सर्पदण्ड से महादेवी की मृत्यु । राजा द्वारा रोष से निर्विष डुडुभो का भी सत्या-
नाश । इसी प्रकार कौशाम्बी के मेदार्य मुनि ने माणिक्य के निमित्त दुःख सहा,
तो भी चोर क्रीच की बात न कही । इसी प्रकार दूसरे के द्वारा ग्रहण की गयी
वस्तु की बात हमे कहना उचित नहीं । वणिक् का निरुत्तर होकर मौन । ३६८
२२. पुत्र द्वारा अपहरण स्वीकार व धन-प्रदर्शन । वणिक् का परचात्ताप । प्रत्रज्या ।
स्वर्गारोहण । ३६८

संधि—४१

- कहवक १०८
१. धन के निमित्त दुःख प्राप्ति पर पिन्नाकगंध की कथा । पाचाल देश, काम्पिल्यपुर,
रत्नप्रभ राजा, विद्युत्प्रभा रानी । जिनदत्त सेठ । पिन्नाकगंध वणिक्, विष्णुदत्त
पुत्र । राजा का तालाब खुदवाना । लाखो कुदाली चलाने वाली मे से एक को
लोहे से मढी सौ सुवर्ण शलाकाओ की प्राप्ति । जिनदत्त द्वारा एक का क्रय व
उससे जिन-प्रतिमा का निर्माण । ३३६
२. दूसरी वार कुशी लाने पर जिनदत्त द्वारा अस्वीकार । पिन्नाकगंध द्वारा क्रय व
अन्य सभी पाने की इच्छा । एक-एक दो-दो प्रतिदिन लेकर निन्यान्नवे का
ग्रहण । भानजी के विवाह मे वणिक् का गमन । ३३१
३. पुत्र द्वारा रोष । एक कुशी का अस्वीकार । राजपुरुष द्वारा राजनामाकित देख
कर राजा से निवेदन । खनक से पूछताछ । एक जिनदत्त को व अट्टानवे
पिन्नाकगंध को देने का वृत्तान्त । जिनदत्त द्वारा प्रतिमा प्रस्तुत । ४००
४. जिनदत्त को क्षमा-प्रदान । पिन्नाकगंध का बस्तीस कोटि धन ग्रहण व पुत्र को
सक्रुटुम्ब कारावास । वृत्तान्त सुनकर वणिक् का आत्मघात व नरक गमन । ४००
५. धन लोभ पर फडहृत्य वणिक् की कथा । चम्पापुर, अभयनरेश, पुंडरीका रानी,
मूठ वणिक्, दो पुत्र गरुडदत्त और नागदत्त । सब जीवो के रत्नमय जोडो
का सेठ द्वारा निर्माण । वृषभ के लिये उपयुक्त काष्ठ की खोज मे मेघाच्छादित
अधकार मे गंगा के पूर से काष्ठ ग्रहण करते हुए रानी द्वारा देखा गया । ४००
६. अपने नगर मे ऐसे दरिद्री को देख देवी का राजा से निवेदन । सेठ का आगमन
व अपने एक वृषभ का जोड पाने की इच्छा का निवेदन । राजा की गोकुल से
लेने की अनुज्ञा । अपने वृषभ समान वहा न पाने का निवेदन । ४०१
७. उसके अद्भुत वृषभ को देखने राजा का सेठ के घर गमन व यक्ष, भुजग,
विहंग आदि सभी प्राणियो की मूर्तियां देखकर राजा का विस्मय । राजा को
रत्नो का धाल अर्पित करते समय उसके हाथ की छिन्न अगुलियो को देखकर
वणिक् को 'फटे हाथ' की उपाधि प्रदान । ४०१
८. फडहस्त सेठ का लोभ । वाणिज्य हेतु ताम्रलिप्ति, सुवर्ण भूमि, कलशपुर,
मिहलद्वीप आदि द्वीपो का वारह वर्ष भ्रमण । बहुधन अर्जित कर सिंध देश
जाने समय नौका नाश से मृत्यु । सर्व का जन्म पाकर द्रव्य के समीप सचार ।
पुत्र द्वारा वध । लघु पुत्र और मेठानी का धर्मविधि से स्वर्गवास । ४०२

- ९ अगले जन्म में फडहस्त महाहस्ती हुआ और उसका गरुडदत्त पुत्र कंकजंघ नाम का वनचर । ४०२
१०. कंकजंघ द्वारा दातो के लिये हाथी का वध । हाथी मरकर कीचक पक्षी हुआ और कंकजंघ द्वारा लगाई दावाग्नि में जलकर मिहल द्वीप के समीप द्रविड देश की वेन्ना नदी के सागर संगम में कंकडा हुआ, जो कंकजंघ के जीव मछुए द्वारा मारा गया । अगले जन्म में फडहस्त का जीव भगलिदेश के कसवल ग्राम में करभ नामक कृषक हुआ और गरुडदत्त का जीव अश्व । दोनों एक दूसरे को मारते पीटते । चारण मुनियों का आगमन । ४०३
११. करभ द्वारा नागार-व्रत ग्रहण व सोते हुए खल तुरण द्वारा मारे जाकर स्वर्ग प्राप्ति । वहा से च्युत हो चम्पापुर में भवदत्त वणिक का पुत्र भवदेव । वही जिनदत्त के पुत्र जिनदेव के रूप में नागदत्त का जन्म । पूर्व संस्कार वश दोनों को मैत्री । जिनदेव की दीक्षा । ४०४
१२. उसी से भवदेव का दीक्षा-ग्रहण । विहार करते कर्लिंग देश में नदिग्राम के समीप ऐरावती नदी के तट पर तप । नदी के पूर से तट पात व रत्नों से भरे घट का प्रकटन । पुराने लोभ संस्कार वश उसे आसन के नीचे गडाकर योग । वनदेवी द्वारा प्रलीभन व उपदेश । ४०४
१३. पूर्वभव स्मरण । आत्मनिन्दा । गुरुसमीप आलोचना । अचलपुर में सुभद्र सेठ के पुत्र भद्रबाहु का लोक सम्मान देखकर निदान पूर्वक स्वर्गवास । उज्जयिनी के सेठ सवधु की भार्या धनश्री के गर्भ में अवतरण । धननाश । पिता की मृत्यु । ४०५
१४. धनश्री का शिशु तट पर रुदन । मेदार्य पल्ली के महत्तर पर्वत द्वारा वृत्तान्त जानकर व वहिन मानकर गृह-आनयन । पुत्र जन्म । मेदार्य नाम । वही धनश्री के भ्राता भवश्रीसेन की पुत्री तिलकासुन्दरी के रूप में फडहस्त की पत्नी नाग-वसु का जन्म । पढाने के निमित्त पाठक को समर्पण । ४०५
१५. मेदार्य और तिलकासुन्दरी का साथ साथ विद्यार्जन । परस्पर स्नेह । एक दिन भवश्रीसेन ने दोनों को साथ भूले पर भूलते देखा और लात मारकर मेदार्य को उतार दिया । म्लेच्छों से विटाला हुआ तू पुत्री को क्यों छूता है ? कहकर निकाल दिया । सुनकर माता का शोक । ४०६
१६. माता द्वारा अपने कटु अनुभवों का वर्णन व प्रतिमा योग्य सुवर्ण पाने की असंभवता । मेदार्य का वन में जाकर आत्म-घात का प्रयत्न । ऋषिवेष में अच्युतेन्द्र का आकर व वृत्तान्त सुनकर बारह वर्ष पश्चात् तप करने की शर्त पर सुवर्ण प्रतिमा देने का वचन व मेदार्य की स्वीकृति । ४०६
१७. घर जाकर देवी की पूजा करने पर सुवर्ण प्रतिमा प्राप्ति की विधि का कथन । तदनुसार प्रतिमा प्राप्ति व कन्या की माग । कन्या के पिता द्वारा आगमन में क्षीरोदधि लाने की दूसरी शर्त । माता द्वारा पुनः निवारण । ४०७
१८. मेदार्य का आग्रह व श्मशान जाकर पुनः मरण का प्रयत्न । सुरपति का पुन-

- रागमन । विषय कषायो को छोड़ने का उपदेश । इच्छा पूरी कर ककण-हस्त ही प्रव्रज्या ग्रहण की प्रतिज्ञा । ४०७
- १९ सुरपति द्वारा चिन्तामणि रत्न का दान । उसके प्रभाव से क्षीरोदधिका प्रवाह । सब लोगो की त्राहि त्राहि पुकार । प्रवाह का नियंत्रण ४०८
- २० राजकन्या तिकलासुन्दरी तथा अन्य वत्तीस कन्याओ का परिणय व सुख भोग । साधु द्वारा प्रतिज्ञा का स्मारण । बारह वर्ष सुख भोगने की याचना । ४०८
- २१ सुरपति की स्वीकृति । बारह वर्ष पश्चात् पुन स्मरण कराने पर अन्य बारह वर्षों की याचना । स्वीकृति । तीसरी बार स्मरण कराने पर मेदार्य का कोप । देवमुनि की चिन्ता । ४०८
२२. अन्य दिन मेदार्य का रूप धारण कर सुरपति का गृह-प्रवेश । मेदार्य का राज-कुल से आगमन । दोनो मे विवाद । राजा से न्याय की याचना । राजसभा मे दोनो उपस्थित । ४०९
- २३ माया मेदार्य द्वारा उपाय प्रस्तुत—जो कोई राजा व मेदार्य दोनो की कुल परम्परा जाने वही सच्च । मच्चे मेदार्य का अज्ञान । सुर द्वारा अरिजय से लगाने कर वर्तमान हरिवाहन नरेश तक की संतति का व्याख्यान । ४०९
- २४ अपने कुल का मनु से लगाकर स्वयं तक का विवरण । राजा की प्रतीति व मेदार्य की लज्जा । प्राणदड । श्मशान मे शूली के समय उसी देव का आगमन । ४१०
२५. देव द्वारा पुन बारह वर्ष के सुख का प्रस्ताव, मेदार्य की अनिच्छा व तत्काल दीक्षा की मांग । देव द्वारा जाकर राजा से मेदार्य की मुक्ति की प्रार्थना व वृत्तान्त निवेदन । ४१०
- २६ मेदार्य का श्मशान से आनयन, सम्मान, तथा सुर द्वारा फडहस्त से लेकर अब तक का विवरण । सबकी धर्मरुचि । मेदार्य, उसकी पत्नियो तथा राजा और सामन्तो का तप-ग्रहण । ४११
- २७ मेदार्य का एक विहारी होकर कौशाम्बी आगमन । राजा गन्धर्वसेन, सुनार अगारवेग द्वारा मुनि की पडिगाहना व घर के भीतर गमन । इसी बीच राजा के मुकुट के एक रत्न का क्रीच पक्षी द्वारा माँस पिंड जानकर निगला जाना । ४११
२८. सुनार के पूछने पर मुनि का मौन । सुनार द्वारा मुनि की मारपीट । एक प्रहार उस पक्षी को लगने से मणि का मुख से पतन । मुनि का पर्वत पर जाकर प्रतिमा योग । ४१२
२९. मुनि को गुणस्थान-क्रम से केवलज्ञान प्राप्ति । देवो द्वारा वदना उज्जयिनी नरेश का प्रव्रज्याग्रहण । ४१२
- ३० कौशाम्बी नरेश द्वारा उपसर्ग के कारण की पृच्छा । मुनि द्वारा फडहस्त और गरुडदत्त के जन्म-जन्मान्तर द्वेष का सक्षिप्त वर्णन । प्रथम के नाग, हस्ती और क्रीच तथा दूसरे का ककजघ । ४१३
३१. कीचक के आगे केंकडे करभ, भवदेव और मेदार्य का तथा द्वितीय के धीवर, तुरग और अगारदेव सुनार का जन्म । ४१३

३२. नागदत्त का अच्युतेन्द्र देव होकर संवोधन तथा नागवसु का भेदार्य की पत्नी होकर आर्यिका व्रत । कौशाम्बी नरेश का मुनिव्रत व भेदार्य का मोक्ष ।

४१४

संधि—४२

कडवक

पृष्ठ

१. निदान का कुफल—उग्रसेन-वसिष्ठ कथा । सूरसेन जनपद, मथुरा नगरी, उग्रसेन नरेश, रेवती रानी, सेठ जिनदत्त, दासी प्रियगुश्री, कालिदीतट पर वसिष्ठ तपस्वी । एक पैर पर ऊर्ध्ववाहु, तथा ग्रीष्म मे पचाग्नि तप । जटाजाल । जन-पूजा । ४१५
२. पतिहारियो की प्रियगुश्री के ऋषि की वन्दना न करने पर आपत्ति और उसका कामकाज की व्यवस्था का बहाना । एक दिन सब का उससे आग्रह । ४१५
३. दासी का अस्वीकार । ऋषि की जिनदत्त के विरुद्ध राजा से शिकायत व दासी से राजा को पूछताछ । ४१६
४. प्रियगुश्री द्वारा तथ्य निवेदन । ४१३
५. वसिष्ठ द्वारा ब्रह्मा का पुत्र व पंडित व तपस्वी होने पर भी मछुए होने का दासी का अनुचित आरोपण । दासी द्वारा पचाग्नि द्वारा जीवघात व जटाश्रो द्वारा मत्स्य घात का निवेदन । ४१७
६. जटाश्रो को भडाने से मत्स्यपात द्वारा प्रियगुश्री की बात का प्रमाणीकरण । राजा का धार्मिक श्रद्धान । वसिष्ठ मुनि का वाराणसी के समीप गधवती और गंगासगम के तीर्थ पर तप । दिव्यज्ञानी वीरभद्र का पाच सौ मुनियो सहित आगमन । ४१७
७. एक मुनि द्वारा वसिष्ठ के तप की प्रशंसा तथा सघपति का तप मे दोषारोपण व जलते काष्ठ मे सर्प का सद्भाव-प्रदर्शन । वसिष्ठ का अहिंसा धर्म मे श्रद्धान । ४१७
८. वसिष्ठ का व्रत-पालन किन्तु भिक्षा की दुष्प्राप्ति । ४१७
९. वसिष्ठ मुनि का एक विहारी होकर मथुरागमन । गोवर्धन पर्वत पर उग्रतप से देवताश्रो का प्रकम्पन व प्रेषण की याचना । मुनि की निस्पृहता । सर्वजन प्रसिद्धि । मासान्तर से भोजन । राजा द्वारा स्वयं भोजन कराने की इच्छा से दूसरो द्वारा आहारदान का निषेध । ४१६
१०. मास मास के अन्तर से आहार की भिक्षार्थ भ्रमण । राजा के निवारण से प्रजा द्वारा आहारदान का अभाव व स्वयं राजा का अन्य राज्य कार्य मे व्याकुलता के कारण अनवधान । ऐसा तीन बार हुआ । गोवर्धन पर आकर देवियो का चिन्तन व राजा के वध का आदेश । देवियो द्वारा अस्वीकार । ४१६
११. मुनि का निदान । उग्रसेन की रानी पद्मावती के गर्भ मे जन्म । राजा के हृदय का रुधिर पीने की इच्छा रूप रानी का दोहला । किसी प्रकार दोहले की पूर्ति । पुत्र जन्म । स्वरूप । ४१६

- १२ भय की आशका से कास्य की मजूपा में रखकर कान्दिनी में प्रवाहित । कौशाम्बी की कलारिन द्वारा प्राप्ति । कास्य मजूपा में मिलने से कस नामकरण । उपद्रवी जानकर घर से निष्कासन । गीरीपुर जाकर वसुदेव का शिष्यत्व, शिक्षा व गुरु से वरदान प्राप्ति । उधर जरासव का प्रभुत्व व पोदनाधीश से विरोध । ४२०
- १३ शत्रु को पराजित करने वाले को इच्छित राज्य व राज्यकन्या जीवयशा के दान की घोषणा । वसुदेव का जाना व कस द्वारा पोदनाधीश पर विजय प्राप्ति । ४२०
- १४ शत्रु को बाधकर जरासव के सम्मुख प्रस्तुत । वसुदेव का सच्चे विजेता कम को कन्या देने का प्रस्ताव । कुल पूछने पर कस का आत्म निवेदन—कौशाम्बी से माता व मजूपा का आनयन तथा परीक्षण । ४२१
- १५ राजपुत्र जानकर कन्या से विवाह व इच्छित देश मागने का वरदान । मथुरापुरी मागकर कस का आक्रमण व उग्रसेन और पद्मावती का कारावास । कस के लघु भ्राता अतिमुक्तक की प्रव्रज्या व अष्टाग-निमित्त ज्ञान की प्राप्ति । गुरु वसुदेव का सम्मान व देवकी नामक भगिनी से विवाह । ४२१
१६. देवकी के गर्भावधान का महोत्सव । अतिमुक्तक साधु से जीवयशा का विनोद । साधु द्वारा रोपपूर्वक पुत्र से पति के मारे जाने की भविष्यवाणी । ४२१
- १७ साधु की पुत्र द्वारा देवकी के पिता के मारे जाने की भविष्यवाणी । देवकी की कंस को सूचना और उसका वसुदेव से वर मागना कि देवकी का जो पुत्र हो वह वैरी होने से मार डाला जाय । ४२२
१८. देवकी का दुःख । वसुदेव द्वारा सान्त्वना । साधु से मथुरेश को दिया वरदान मिथ्या करने के उपाय का प्रश्न । देवकी के हाथ से वृक्ष की शाखा छूटने से एक आम्रगुच्छ आकाश को गया व एक नीचे गिरा । निमित्त विचार कर साधु ने बतलाया कि देवकी के तीन युगल (छह) पुत्रों का नैगम अपहरण करेगा । भद्रिलपुर में उनका पालन होगा और वे तपकर मोक्षगामी होंगे । ४२२
- १९ सातवा पुत्र गोकुल में पाला जायगा तथा वह कस और जरासव का वध कर राज्य पावेगा । तदनुसार वृत्तान्त । मातर्वे पुत्र लक्ष्मीपति नारायण का जन्म । ४२३
- २० भादो कृष्ण अष्टमी को पिता द्वारा अपहरण, बलदेव द्वारा छत्र धारण, देव द्वारा धवल वृषभ के रूप में यमुनाप्रवाह में मार्ग-निर्माण, पार होकर दुर्गा के मन्दिर में निवास । वहाँ नन्द की पुत्री लेकर आगमन व उसे छोड़ वासुदेव को लेकर निर्गमन वसुदेव और बलदेव का लौटना । प्रातः कस को सूचना । ४२३
- २१ पुत्री देख, नाक चपटी व कुवडी करके भूमिगृह में रक्षण । युवती होकर तप-ग्रहण । विन्ध्याचल गमन व प्रतिमायोग । भिल्लो द्वारा लूट में सिद्धि होने पर पूजा की प्रतिज्ञा । व्याघ्र द्वारा भक्षण । भीलो का लूट में सफल होकर वची हुई हाथ पैर की अंगुलियों और रुविर का दर्शन ४२४
२२. भिल्लो द्वारा पूजा । वहा काष्ठ की प्रतिमा विन्ध्यवासिनी दुर्गा के नाम से स्थापना । उधर गोकुल में कृष्ण की वृद्धि व कस के अपशकुन । नैमित्तिको द्वारा नन्द की गोशाला में वैरी होने का संकेत । देवियों द्वारा कृष्ण के वध का प्रयत्न । ४२४

- २३ पूतना, रिष्ट, यमलार्जुन, स्यदन, वृषम व घोडो तथा कालिय नाग का मर्दन । गोवर्धन का उद्धरण, चाणूर का विदारण, कस का वध, उग्रसेन का राज्याभिषेक व जरासघ का वध करके कृष्ण का रत्ननिधि व अर्ध-चक्रवर्तित्व प्राप्ति ।

४२५

संधि-४३

कडवक

पृष्ठ

१. अभिमान के दुष्परिणाम पर लक्ष्मीमती की कथा—मगधदेश, लक्ष्मीग्राम, सोमदेव द्विज, लक्ष्मीमति पत्नी । पक्षोपवासी समाधिगुप्त मुनि का गोपुर प्रवेश । द्विज द्वारा पडिगाहन । लक्ष्मीमती द्वारा अपना शृंगार करते समय मुनि की निन्दा । मुनि का गमन । लक्ष्मीमती को कुष्ठव्याधि । निर्वासन ।
२. जन्मान्तर क्रमश खरी, चूकरी, श्वान । तत्पश्चात्, लाटदेश मे रेवातट पर, भरुकच्छ के समीप, अघलक ग्राम मे तीव्रमद धीवर की मडूकी नामक भार्या से दुर्गंधिनी, कुरूप, कनिया नामक कन्या । दुर्गन्ध से त्रस्त कुटुम्बीजनो द्वारा अलग कुटी मे वास । नौका द्वारा नदी पार उतारने का व्यवसाय । समाधिगुप्त मुनि का आगमन । शीतकाल मे मुनि के वैयावृत्य से पाप का शोधन । मुनि द्वारा उसे पूर्वकाल मे कही देखने की सूचना ।
३. मुनि से पूर्ववृत्तान्त सुनकर आर्यिका व्रत ग्रहण । सोपारकपुर को विहार । एकान्तर उपवास ग्रहण व बारह वर्ष तक कंजिका आहार । मरकर अच्युतेन्द्र की देवी हुई । पुन कुडिनपुर के रूप्यरथ राजा की रुक्मणी नामक पुत्री हुई । शिशुपाल को मार कर गोविन्द द्वारा परिणय । प्रद्युम्न का जन्म
४. निदान के कारण पतन पर चित्त-सभूत कथा—वाराणसी का सुषेण नामक किसान, गाधारी पत्नी । चित्त और सभूत नामक दो विद्वान् । देशभाषाओ मे प्रवीण पुत्र । नर्तक-होकर राजगृह आगमन । सभूत का स्त्रीवेष मे नृत्य । वशु-शर्मा पुरोहित की कामासक्ति । पुरुष जानकर भगिनी श्रीमती का विवाह । नटो का कुसुमपुर गमन । धर्म श्रवण । दिगम्बर मुनि-व्रत ग्रहण । पुनः राजगृह आगमन । वसुशर्मा को देखकर सभूत का पलायन वसुशर्मा का अनुधावन । मुनि के कोप से नगर मे अग्निप्रकोप । वृत्तान्त जानकर चित्त का आगमन व भ्राता तथा अग्नि का उपशामन ।
५. मुनियो की वनदेवी द्वारा चक्रेश्वर के रूप मे सेवा । सभूति का निदान । स्वर्ग-वास के पश्चात् पांचाल देश के काम्पिल्य नगर मे ब्रह्मदत्त नामक बारहवे चक्रवर्ती के रूप मे जन्म वसुशर्मा का उसके रसोदये के रूप मे जन्म । भोजन के प्रमग से सूषकार का वध । व्यतर योनि । प्रपच रचकर चक्रवर्ती का अपनयन व वध । ये निदान के दुष्परिणाम ।
६. माया शल्य के कुफल पर पुष्पदन्ता की कथा—भारतवर्ष, आर्यावर्त, पुष्पदन्तचूड राजा, पुष्पदन्ता रानी । देवगुरु नामक कृषि का आगमन । राजा का धर्म श्रवण व प्रव्रज्या । रानी की भी प्रव्रज्या । राजा का मोक्षगमन । रानी का अभिमान व विनय मे मायाचारी, आत्म प्रशसा व शरीर सस्कार ।

४२६

४२६

४२७

४२७

४२८

४२८

- ७ महत्तरी का सर्वोधन, रानी का मायाभाव, स्वर्गवास । पश्चात् चम्पापुर के सागर-दत्त सेठ की दासी घनदत्ता की पुत्री । सुन्दर किन्तु दुर्गन्धा । वणिक् द्वारा नैमित्तिक से पृच्छा । उत्तर—दुकान के सम्मुख जिस व्यक्ति के ठहरने से तुम्हें एक लाख दम्भ का लाभ हो व पुत्री की दुर्गन्ध सुगन्ध में बदल जाय वही घनमित्रा का पति होगा । वसुदेव के आगमन पर पूर्वोक्त घटनाये व कन्या का उससे विवाह । ४२६
- ८ मिथ्यात्व शल्य के कुफल पर मरीचि कथा । प्रथम द्वीप, पूर्व विदेह, पुष्कलावती देश, मथुरा वन, पुरुख भित्तल, सागरसेन मुनि का दर्शन व मार्ग प्रदर्शन । मुनि द्वारा मद्य मास मद्यु व पचोदम्बर एव निशिभोजन त्याग का उपदेश । ४२६
- ९ श्रावक व्रत पालकर शबर का स्वर्गवास व भरत के पुत्र मरीचि के रूप में जन्म । पितामह (ऋषभ) के साथ प्रव्रज्या । परीपहो का असहन व व्रत भंग । मिथ्यात्व के कारण नाना दुःख, ससार भ्रमण, चार लब्धिया प्राप्त कर सन्मति तीर्थंकर का पद प्राप्त । ४३०
१०. कुल मर्यादा के रक्षण पर अगन्धन सर्प की कथा । उज्जयिनी के राजा सूरसेन । पुत्र सूरवीर की सर्पदश से मूर्च्छा । वैद्यो को राजादेश । ४३०
- ११ सोमशर्मा वैद्य का गारुड शास्त्रानुसार कुमार का जीवन असम्भव बतलाना । राजा का आग्रह । वैद्य द्वारा मन्त्र-प्रभाव प्रदर्शनार्थ नागर्याष्ट मे समस्त सर्पों का आह्वान । ४३१
१२. कुमार को काटने वाले को छोड़ अन्य सर्पों का विसर्जन । गारुडिक का व्याख्यान विषैले सर्पों के दो कुल गधन और अगधन । गधन कुल द्वारा विष का अपहरण अगधन द्वारा कदापि नहीं । इस अगधन को छोड़ देने की सलाह । राजा का विषापहरण का आग्रह ।
१३. गारुडिक का ध्यान कर अगधन सर्पों को विषापहरण अथवा अग्निप्रवेश का आदेश । सर्प द्वारा कुल परम्परा का रक्षण व अग्निप्रवेश । इसी प्रकार मुनि द्वारा इन्द्रिय कषायों का वमन कर पुन ग्रहण अयोग्य । ४३१
- १४ घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होने के दोष पर गन्धमित्र कथा—कौशलपुर का राजा विजयसेन । राजपुत्र जयमित्र और गधमित्र । राजा की दीक्षा । जयमित्र की राज्य-प्राप्ति । युवराज गधमित्र द्वारा राज्यापहरण व ज्येष्ठ भ्राता का निस्सारण । नगर के समीप गिरिवन में जयमित्र का निवास । ४३२
- १५ पुन राज्यप्राप्ति को चिन्ता व छिद्रान्वेषण हेतु गुप्तचर प्रेषण । गधमित्र की विषयासक्ति । अन्तपुर सहित सरयू नदी में जलक्रीड़ा । जलमित्र द्वारा ऊपर प्रवाह से विषमय सुगन्धी पुष्पो का विसर्जन, गधमित्र द्वारा ग्रहण, सूँघना और मरण । ४३२
- १६ कर्णेन्द्रिय की विषयासक्ति पर पांचाल-गन्धर्वदत्ता कथा । पाटलिपुत्र की वैश्या गन्धर्वदत्ता की गायन कला से जीतनेवाले से विवाह की प्रतिज्ञा । वरो का गमनागमन । पोदनपुर का प्रसिद्ध गवैया पांचाल । ४३३

- १७ पांचाल का आकर नन्दनवन मे वास । शिष्य को सचेतकर वृक्षतले सुप्त । शिष्य की असावधानी व अन्य शिष्यों का पुर दर्शनार्थ गमन । गंधर्वदत्ता का स्वागतार्थ आगमन व लार बहाते घुरकते सोता देख विरक्त । ४३३
- १८ अशोक की पूजा कर व सरस्वती की निन्दा कर गंधर्वदत्ता का गृह गमन । पांचाल का जागरण व शिष्य का जागरण । वृत्तात जानकर शिष्य पर रोष । ४३४
- १९ पांचाल का राजसभा मे गमन । राजा का मनोरजन । निवास । रात्रि मे वीणावाद्य । सुन कर गंधर्वदत्ता की विह्वलता, प्रासाद से पतन व मृत्यु । ४३४
- २० जिह्वेन्द्रिय के दोष पर भीम नृपति कथा । जंबूद्वीप, भरत क्षेत्र, काम्पल्यनगर राजा भीम मांसप्रेमी । नन्दीश्वर पर्व मे मांस का निषेध । राजा की मांस लोलुपता । सूपकार द्वारा श्मशान से शव लाकर नरमांस का पाक । स्वाद से राजा की प्रसन्नता व सूपकार से पूछताछ । ४३४
- २१ सूपकार का यथार्थ निवेदन । नित्य उसी भोजन का आदेश । सूपकार का बालको को लड्डू आदि द्वारा प्रलोभन व मारकर मांस-पाक । वात खुलने पर प्रजा द्वारा राजा का निस्तारण व रसोइये का पलायन । ४३५
- २२ नेत्रेन्द्रिय दोष पर भद्रमित्र कथा । भद्रिलपुर, वनपति सेठ, भद्रमित्र पुत्र का देवदत्ता से विवाह । मित्र वसन्तसेन व गृहिणी वसन्तमाला । दोनो मित्रो की सपत्नीक उपवन-क्रीडा । ४३५
- २३ वसन्तसेन द्वारा पडे-पडे ही आम्र मंजरी गिराकर प्रिया की वही याचना । धनुर्विद्या न जानने से लज्जा । प्रिया को सोती छोड धनुर्विद्या सीखने गमन । ४३६
- २४ मेघपुर के राजा मेघसेन के अध्यापक से धनुर्विद्या शिक्षण । ४३६
- २५ राजा का कन्या मेघमाला का स्वयंवर चंद्रक-वेध द्वारा । भद्रमित्र की सफलता व विवाह । स्वजनो का गृहागमनार्थ आग्रह । श्वसुर द्वारा निरोध । ४३७
- २६ रथ द्वारा कान्ता सहित चुपचाप गमन । सुवेग भिल्ल द्वारा स्त्री हेतु प्रतिरोध । युद्ध । अस्त्रो की समाप्ति । धनुर्वाण लेकर रथ से उतरना । भिल्ल की स्त्रीमुख प्रेक्षण मे आसक्ति । श्रवसर पाकर उसकी आख मे वाण-प्रवेश । कुशल पूर्वक गृहगमन । ४३७

संधि--४४

कडवक

पृष्ठ

१. स्पशेन्द्रिय के दोष पर नागदत्ता कथा । दक्षिण देश, नासिक नगर, सागरदत्त गृहपति, गृहिणी नागदत्ता, पुत्र श्रीकुमार, पुत्री श्रीसेना बालविधवा, गोपाल नन्दिमित्र का गृहिणी नागदत्ता से प्रेम व प्रपच कर स्वामी का वध । पुत्र का शोक । माता द्वारा उसे भी मारने का सुभाव । ४३८
- २ पुत्र को गायें चराने भेजने का प्रपच । भगिनी द्वारा सतर्कता का सकेत । गोपाल का उसे मारने का प्रयत्न । किन्तु सावधानी के कारण उसके द्वारा स्वयं का वध । घर आने पर माता का प्रश्न । माता द्वारा मुसल प्रहार से घात तथा भगिनी द्वारा माता का घात । ४३८

३. क्रोधादि कषायो के दोष । क्रोध कषाय पर द्वीपायन मुनि की कथा । सोरठ देश में समुद्र के बीच द्वारावती पुरी । ४३६
४. नगर की लम्बाई चौड़ाई, गोपुर खिडकियां, कुट्टिम व प्राकार की शोभा । दश दशर व पाडवो का वास । वासुदेव नवमे नारायण चक्रेश्वर की विभूति । नेमि तीर्थकर का आगमन ऊर्जयत पर्वत पर । सबका वन्दनार्थ गमन । ४३६
५. बलदेव का तीर्थकर से प्रश्न ? केशव की सपदा कितने काल तक रहेगी ? उत्तर- वारह वर्ष पश्चात् विनाश । प्रश्न ' कारण ? हिरण्यनाभ का पुत्र व रोहणी का भ्राता द्वीपायन शम्बुकुमार द्वारा रुष्ट होकर, मरण कर अग्नि कुमार देव होकर द्वारावती को जला देगा, तथा जरत्कुमार के हाथ से छुरी द्वारा कृष्ण की मृत्यु होगी । ४४०
६. मद्यपान से विकल यादवो का परस्पर प्रहार द्वारा मरण होगा । सुनकर सबका विपाद । मद्यभाण्डो का क्षेपण । जरत्कुमार का विंध्यगिरि बास । छुरी को तोड़ फोड़कर समुद्र में विसर्जन । मत्स्य द्वारा छुरी के एक टुकड़े का भक्षण । जरत्कुमार के हाथ पहुँच कर बाणाग्र निर्माण । द्वीपायन का पूर्व देश गमन व वारह वर्ष पश्चात् सध सहित पुनरागमन, अंटगिरि के समीप निवास । वहाँ यादवो का वनक्रीडार्थ गमन । ४४०
७. यादवो द्वारा मुनि का क्षोभ । शम्बुकुमार द्वारा कडो से मुनि का सर्वांग आच्छादन । हरि द्वारा क्षमापन । यादवो का फूटे भाडो से मद्यपान, परस्पर युद्ध और विनाश । द्वीपायन का मरकर अग्नि कुमार जन्म व पुरी प्रज्वालन । बलदेव-वासुदेव का निर्गमन । वृक्षतले वासुदेव की निद्रा व बलदेव का जल की खोज में गमन । जरत्कुमार द्वारा विचित्र पशु जान हरि का बाणवेधन । बलदेव द्वारा छहमास तक हरि के शव का धारण व मुनि के उपदेश से उपशान्ति । ४४१
८. दक्षिणदेश के तुगी पर्वत पर तप कर बलदेव का ब्रह्मलोक गमन । ४४१
९. मान कषाय पर सगर पुत्रो की कथा । भारत क्षेत्र, विनीता नगर, सगर राजा साठ हजार पुत्र । पुत्रो का अभिमान । कैलाश के मदिरो की रक्षार्थ खाई खोदने का पितृ-आदेश । देव द्वारा निवारण । न मानने पर भस्मराशि । सगर का वैराग्य व तप । पुत्रो महित निर्वाण ।
१०. माया कषाय पर कुंभकार कथा । चम्पा के समीप वटग्राम, प्रजापति (कुंभकार) अत्यन्त अभिमानी । वैल पर भाड लादकर विक्रयार्थ गमन । भारतग्राम में सध्या । ४४२
११. देउल में निवास । महिलाओ द्वारा कल मूल्य चुकाने के बहाने भाड ग्रहण । युवको द्वारा कुंभकार को नाच गान में फसाकर वैल का अपहरण । प्रातः मूल्य मागने पर उल्टी भर्त्सना । ४४३
१२. कुंभकार द्वारा ग्राम का दहन । लोभ कषाय पर मृगध्वज की कथा । अयोध्या नगरी सीमंघर राजा, मृगध्वज राजपुत्र, ऋषभसेन वणिक् व उसकी बहुत सी भैसे । ४४३

- १३ सुभद्रा नाम की प्रधान भैस । सात बार भैस के पाड़ो का जन्म होते ही गोविन्द गोपाल द्वारा भक्षण । आठवीं बार पाड़े का जन्म । भैस का उसको चाटना । गोपाल द्वारा अभयदान । पाड़े का नकुल नामकरण । लोगो का विनोदकारी । ४४४
१४. पाड़े का सेठ को नमस्कार । सेठ की प्रसन्नता । राजा को प्रदर्शन । राजा द्वारा हाट हाट में उसके लिये खाद्य व्यवस्था । वणिक पुत्र द्वारा चोरी । नकुल भैसे पर दोषारोपण । तप्त लोह की दिव्य परीक्षा द्वारा भैसे की निर्दोषता सिद्ध । भद्रक नामकरण । अशोक वन की पुष्पकरिणी में क्रीड़ा । ४४४
१५. मांसलोलुपी मृगध्वज राजपुत्र द्वारा एक पैर काटकर भक्षण । राजा के समीप भैसे की पुकार । नवकार मंत्र पाकर स्वर्गवास । राजा का मृगध्वज को प्राणदंड । मंत्री द्वारा रक्षण । तपग्रहण । केवलज्ञानोत्पत्ति व मन्त्रिपुत्र मन पर्यय जानी । राजा का वन्दनार्थ गमन । ४४५
१६. महिष-देव का आगमन, सीमंघर राजा की स्तुति व आत्मपरिचय । केवली से वैर के कारण की पृच्छा । अश्वसेन-सेनापति की परम्परा का कथन । राजा की प्रव्रज्या । ४४५
१७. लोभकषाय पर कार्तवीर्य की कथा—कोशलपुरी, सहस्रवाहु नृप, चित्रमती रानी, कार्तवीर्य पुत्र । पिता-पुत्र का हाथी पकड़ने वन-गमन । विध्यवन में यमदग्नि तापस, रेणुका पत्नी, सीताराम और महेन्द्रराम पुत्र । अरिजय मुनि द्वारा कामधेनु और परशुविद्या का वरदान । राजा का यमदग्नि के आश्रम में आगमन । ४४६
१८. कामधेनु की कृपा से ऋषि द्वारा राजा की ससैन्य अभ्यागत विधि । राजा द्वारा यमदग्नि का वध करके कामधेनु का अपहरण । माता से परशुविद्या लेकर सीताराम द्वारा अनुधावन । राजा व राज पुत्र का सकुटुम्ब सपरिजन वध व दोनों का षाताल गमन । ४४६
१९. कार्तवीर्य की गर्भिणी भार्या पद्मावती का वन-गमन । शाण्डिल्य के आश्रम में पुत्र जन्म । सर्व गुप्त मुनि की भविष्यवाणी कि पुत्र सार्वभौम चक्रवर्ती होगा । नामकरण सुभौम । तापस द्वारा परिपालन । उधर परशुराम द्वारा इक्कीस बार क्षत्रियो को मारकर ब्राह्मणों को राज्यदान । जिसके देखने मात्र से दांत भात बन जाय उसके द्वारा परशुराम की मृत्यु की भविष्यवाणी । दानशाला की स्थापना व दांतों का पात्र दिखला कर ब्राह्मणों को भात देने की व्यवस्था । उधर सुभौम का माता से प्रश्न । ४४७
२०. माता का रोकर यथार्थ कथन । सुनकर सुभौम का कोशलपुर गमन । उसके देखने मात्र से दात भात बन गये । परशुराम के भटो द्वारा आक्रमण । किन्तु अक्रुति मात्र से पलायन । उसके द्वारा परशुराम का वध । ४४८

संघि ४५

कडवक

पृष्ठ

- १ परीपह विजय पर शीलसेन्द्र की कथा—दक्षिण देश, कल्पपुर, शीलसेन्द्र राजा श्रावक । श्रीपचमी का उपवास । ४४६
- २ शत्रु का समन्य आक्रमण । कल्पपुराधीश के भाल में वाण प्रवेश । उन अवस्था में भी युद्ध कर शत्रु का पराजय । पुर-प्रवेश, वाण का निराकरण । भूच्छा । सचेत होने पर पीष्टिक आहार की प्रेरणा । उपवास के कारण निषेध । भूत प्याम परीपह सहकर दूसरे दिन आहार-ग्रहण । ४४६
- ३ परीपह विजय पर अश्वत्थि सुकुमाल की कथा—कौशाम्बी पुरी, अश्वत्थि राजा, सोमगर्मा पुरोहित, दो दुर्विद्ध पुत्र अग्निभूति और वायुभूति । पिता की मृत्यु । पौरोहित्य से निष्कासित होकर पुत्रों का राजगृह गमन । सूर्यमित्र मामा द्वारा सम्मान । ४५०
४. अहनिश अव्यापन द्वारा चौदह विद्यायें प्राप्त । पुन गृहागमन व राजसभा में पतृक स्थान प्राप्त । सूर्यमित्र की प्रन्न्या व कौशाम्बी आगमन । अग्निभूति द्वारा आहार वान । वायुभूति की अश्रद्धा । ४५०
- ५ वायुभूति द्वारा भ्रातृ पत्नी के सिर पर पाद-प्रहार व गृह में निर्वासन । उसका निदान कि अगले जन्म में पैर व शरीर की हड्डिया चबा-चबाकर खाऊगी । वायुभूति का कुण्ठ व्याधि से मरण । ४५१
- ६ ज्येष्ठ भ्राता द्वारा संवोधन, तथापि लघु भ्राता का दुराग्रह । ज्येष्ठ भ्राता का तप-ग्रहण । उसकी पत्नी द्वारा देवर की भर्त्सना । ४५१
७. वायुभूति के खरी, शूकरी, कुक्कुरी, अंधी, कुरूप मातंगी रूप जन्मांतर । अग्निभूति के द्वारा दर्शन । सूर्यमित्र द्वारा पूर्वभव कथन । अग्निभूति द्वारा संवोधन । मातंगी को पूर्वभव स्मरण, श्रावक-व्रत ग्रहण व मरकर राजपुरोहित की पुत्री रूप में जन्म । ४५१
- ८ नागश्रीनाम । नागपूजार्थ नागवन गमन । वहा अग्निभूति का दर्शन व सूर्यमित्र द्वारा पूर्वभव कथन । नागश्री व श्रावक-व्रत ग्रहण व सूर्यमित्र द्वारा यह वचन कि यदि पिता व्रत त्याग करावे तो आकर उन्हें ही अर्पण किये जाय । ४५२
९. नागश्री की प्रतिज्ञा । गृह-गमन । पिता द्वारा क्षणिक धर्म त्यागने का आदेश । मुनि को व्रत लौटाने दोनों का उद्यान गमन । मार्ग में एक हत्यारे जुवाडी की दुर्दशा व प्राणदंड का दृश्य । ४५२
१०. कुमारी द्वारा अहिंसा व्रत की प्रशंसा । पिता द्वारा उस व्रत को रखकर शेष को त्यागने का आग्रह । महाभारत में व्यास द्वारा जीव दया के उपदेश का प्रमाण । अन्य एक बद्ध पुरुष का दर्शन व परिचय, धान्य के विक्रेताओं का पास के ग्राम में आगमन । ४५३
- ११ राष्ट्रकूट को धान्य की विक्री । माप करते समय चित्र का दर्शन व एक वणिक् को घोखा देकर धान्यापहरण की कथा । ४५३

- १२ चोरी के अपराध मे हाथ पैर काट डालने का राजादेश । सुनकर नागश्री द्वारा अचौर्य व्रत की प्रशसा । पिता द्वारा उस व्रत को भी रखकर शेष त्यागने का आग्रह । तीसरे बद्ध पुरुष का वृत्तान्त । मामा द्वारा कन्या का वाग्दान । वर का वाणिज्यार्थ गमन व वारह वर्ष तक न लौटने पर अन्य वर से विवाह की अनुमति । ४५४
- १३ वाग्दान की अवधि-समाप्ति व पूर्व वर के लघुभ्राता को वाग्दान । पूर्व वर का आगमन । दोनो वरों द्वारा पाणिग्रहण अस्वीकार । उसी कन्या पर बद्ध पुरुष की आसक्ति व न्याय मे तप्त लौह प्रतिमा के आर्लिगन का दण्ड । सुनकर नागश्री द्वारा परस्त्री त्याग व्रत की प्रशसा व पिता द्वारा उसे छोड शेष व्रत-त्याग का आग्रह । ४५४
१४. पुन बद्ध पुरुष का दर्शन, जिसने राजा के वरदान का दुरुपयोग कर बहुत गायो का सहार किया था और उस अपराध मे जिसे शूली का दण्ड मिला था । नागश्री द्वारा पाचो व्रतो की सार्थकता सिद्ध की जाना । पिता ने भी वेदपुराणो से उनका समर्थन किया । ४५५
- १५ तथापि पुरोहित ने मुनि के पास जाकर उसे आगे ऐसा करने से रोकना उचित समझा । मुनि को द्वार से पुरोहित का उपालम्भ । मुनि का उस कन्या को अपनी पुत्री कहना व नागश्री का उसके समीप जा बैठना । पुरोहित का रोष । राजा से पुत्रीहरण की शिकायत । ४५५
- १६ राजा का आगमन । मुनि द्वारा अपनी पुत्री को वेद-वेदाग पढाने का दावा तथा पूर्वभव वृत्तान्त । राजा तथा पुरोहित की प्रव्रज्या । ४५६
१७. अग्निमित्र और सूर्यमित्र का मोक्षगमन । नागशर्मा आदि का स्वर्गवास तथा पुनर्जन्म । नागशर्मा का जीव उज्जयिनी के सेठ इन्द्रदत्त का पुत्र सुरेन्द्रदत्त । नागशर्मा की पत्नी सुभद्रा सेठ की पुत्री सुभद्रा । सुरेन्द्रदत्त से विवाह तथा नागश्री का उनके पुत्र रूप मे जन्म । ४५६
१८. सुरेन्द्रदत्त और सुभद्रा के पुत्र का नाम अवन्ति सुकुमाल । यौवन । बत्तीस कन्याओं से विवाह । बत्तीस प्रासाद निर्माण । पिता की प्रव्रज्या । पुत्र के सम्बन्ध मे साधुदर्शन होने पर प्रव्रज्या-ग्रहण की भविष्यवाणी । माता द्वारा पुत्र का घर से बाहर जाना तथा मुनि का गृह-प्रवेश निषिद्ध । कमल से वासित तदुलो का आहार । ५४७
१९. दक्षिणापथ से रत्नकबलो के व्यापारियो का आगमन । बहुमूल्य होने से राजा का भी उनके ऋय का असामर्थ्य । सुभद्रा सेठानी द्वारा खरीदकर बहुओं के के पाहने बनवाना । सुनकर राजा का आश्चर्य व आगमन । सुकुमाल सहित वापी मे स्नान एव मणिखचित सुवर्ण के हार व अँगूठियो की प्राप्ति । ४५७
२०. अन्य भी आभूषणो की वापी मे प्राप्ति । राजा का आश्चर्य । भोजन के समय सुकुमाल के नेत्रो से अश्रु तथा थूक । माता द्वारा स्पष्टीकरण—कुमार को रत्नोद्योत तथा कमलवासित ओदन का अम्यास । सुकुमालस्वामी की उपाधि देकर राजा का गृहगमन । ४५७

- २१ गणधरादि मुनियो का आगमन । सुभद्रा की प्रार्थना कि वे मीन रहे । क्षमापना क्रिया मे जोर से पाठ । सुनकर सुकुमाल का पूर्वभव स्मरण व मुनिव्रत की याचना । आयु प्रमाण तीन दिन । स्वयंबुद्ध होकर तपग्रहण । इमशान मे मे ध्यानस्थ । पूर्वभव के सस्कारवश भल्लुकी द्वारा भक्षण । अच्युत स्वर्ग गमन ।
- २१ माता का पुत्रपत्नियो सहित रुदन, अग्निस्कार, आयिकान्नत ग्रहण । सुकुमाल के मृत्युस्थल की आज भी कापालिको द्वारा रक्षा । वहाँ अग्निस्कार से उत्तमगति की मान्यता । वहाँ महाकाल की स्थापना । भार्याओ के कलकल होने से कलकलेश्वर तीर्थ की ख्याति । आकाश से जहाँ गंधोदक बरसा था, उसी का नाम अब भी गधवत इमशान ।

४५८

संधि-४६

कडवक

पृष्ठ

१. परीषह सहन पर सुकोशल मुनि की कथा । भरत क्षेत्र, साकेत पुरी, प्रजापाल राजा, सुप्रभा रानी, बत्तीस कोटि का घनी सेठ सिद्धार्थ, बत्तीस पत्निया । प्रधान पत्नी जयवती । सभी पुत्रहीन । राजा के सिर मे श्वेतकेश । जयवती द्वारा मुट्ठी मे लेकर कथन-तुम्हारा दूत आ गया । ४६०
- २ राजा का कौतुक । महादेवी द्वारा स्पष्टीकरण-राजदूत नही, धर्मदूत । श्वेत-केश तथा आकाश मे विद्याधर युगल देखकर राजा का वैराग्य । मतिवर मित्र की प्रेरणा से पुत्रोत्पत्ति तक पुन गृहनिवास । ४६०
- ३ लौकिक धर्म त्याग कर सत्य धर्म धारण का मुनि द्वारा उपदेश । स्वर्ग से पुत्र पुत्र के गर्भ मे आगमन का कथन । पुत्र जन्म । किन्तु पिता के गृह-त्याग के भय से उत्सव का निषेध । ४६१
- ४ सेविका द्वारा सोमशर्मा को सूचना और उसकी सेठ को बधाई । सेठ का दान, पुत्रमुख दर्शन, धनदेव नामकरण, सबको आनंद दायक होने से सुकोशल उपाधि । सेठ की प्रव्रज्या । ४६१
५. शेष पत्नियाँ भी आयिकार्यें हुई । जयवती का पति पर रोप । पुत्र पालनार्थ पाच धात्रियो की नियुक्ति । बत्तीस कन्याओ से विवाह । मुनि दर्शन से वैराग्य की भविष्यवाणी । साधु के गृहप्रवेश का निषेध । ४६२
- ६ गवाक्ष से नगर की शोभा देखते हुए मुनि का दर्शन । माता से प्रश्न । उत्तर-— कोई दरिद्री भिखमगा । ४६२
- ७ सुकोशल की मुनि के लक्षणो को देखते हुए उसके भिखमगा होने की अप्रतीति । धात्री का सत्य सकेत । माता द्वारा निवारण व उसके दीन-दरिद्री होने की पुष्टि । ४६२
- ८ माता द्वारा अपने वचन की पुष्टि मे पुराणो के उदाहरण तथा नगर के भिक्षार्थियो का परिचय । ४६३
- ९ सुकोशल का फिर भी अविश्वास और चिन्तन । सूपकार का भोजनार्थ आमंत्रण व स्नान पूजन की प्रार्थना । ४६३

१०. माता और पत्नियों की भी स्नान, पूजन और भोजन हेतु प्रेरणा । सुकौशल को आगन्तुक का सच्चा परिचय पाने का आग्रह । धात्री द्वारा पिता होने का कथन । ४६४
११. पिता का पूर्ण परिचय । सुकौशल की उन्ही सदृश मुनि होकर आहार-ग्रहण की प्रतिज्ञा व निर्गमन, मुनि दर्शन और पूर्वभव-स्मरण । ४६४
१२. पूर्वभव—मलय पर्वत पर गजपत्नी पद्मावती और मलया । रुष्ट होकर मलया का भृगुपात से मरण व चम्पापुर में श्रीदत्त सेठ की पुत्री सुकेशी के रूप में पुनर्जन्म । उस नगर में पद्मावती जितरग वणिक् का पुत्र वराग हुआ । गंधमादन नृप द्वारा सुकेशी का दर्शन व आसक्ति । सुकेशी का मंदिर से लौट कर पिता को शेष अर्पण । ४६४
१३. माता पिता का सुकेशी का विवाह धनवधु के पुत्र धनमित्र से करने का विचार । राजा का स्वयं आकर सुकेशी से विवाह । वनहस्ती को पकड़वाने का उपाय । ४६५
१४. हाथी को देखकर व मलय हाथी का स्मरण कर सुकेशी का पूर्वजन्म स्मरण, मूर्च्छा, पूर्वजन्म चित्रण, हाथी के पकड़े जाने पर राजा की बधाई की उपेक्षा, मलय को पकड़ने का संकेत । राजा का उसे पकड़ने का प्रयास, किन्तु असफलता । ४६५
१५. मलय हाथी का मारा जाना व रानी को मोती और दाँत अर्पण । देखकर रानी का मरण व माता पिता का वैराग्य । कैवल्यप्राप्ति । पुन नगरागमन, सुकेशी के भवान्तर कथन । काँचीपुर, गांधार नृप, सुदर्शन सेठ, प्रियदर्शन पुत्र, नदी सेठ की पुत्री कीर्ति से विवाह । ४६६
१६. सुन्दर हाथी का दर्शन । उसी प्रकार जन्म पाने का निदान । मरकर हाथी का जन्म । कीर्ति मरकर मलया हस्तिनी हुई व मलय हाथी की दक्षिण देह भागिनी । पद्मावती वाम-देह-भागिनी । ४६६
१७. एक दिन पद्मावती को पहले कुवलय देने मात्र से अपमानित होकर मलया का अपने को पर्वत से गिराकर आत्मघात व सुकेशी के रूप में पुनर्जन्म । हाथी देखकर पूर्वभव स्मरण । ४६७
१८. गेप वृत्तान्त । मलयसुन्दर हाथी को पकड़कर बलवाने की इच्छा आदि । ४६७
१९. राजा का बनावटी उत्तर । राजा का हाथी को जीता पकड़वाना अशक्य, अतएव घात व सुकेशी का शोक व मृत्यु । ४६८
२०. सुकेशी के पुनर्जन्म के सम्बन्ध में राजा का प्रश्न । मुनि का उत्तर—सोरठ देश, गिरिनगर, अतिबल राजा की पुत्री मनोहरी के रूप में । वही विजय पुरोहित के पुत्र कुवेरकांत के रूप में चम्पानरेग का जन्म, तथा धनवत् वणिक् के पुत्र श्रीधर के रूप में पद्मावती का । दोनों में मैत्री । श्रीधर का मुख-मालिन्य देखकर कुवेरकान्त का प्रश्न । ४६८
२१. श्रीधर का उत्तर—तुम्हारी प्रिया का मणिकवल देखकर मेरी प्रिया ईर्ष्याविश प्रासाद से गिरकर मरी । अपनी मित्राणी की मृत्यु के शोक से कुवेरकान्त का भी मरण । कुवेरकान्त का जाति-स्मरण । निर्गमन । ऊर्जयन्त पर्वत पर विद्या-धर से विद्या विद्या की प्राप्ति । ४६९

- २२ राजप्रागण मे जाकर मलया नाम से नाच गान । देखकर मनोहरी का जाति-स्मरण । पूर्वजन्म का चित्रपट-दर्शन । पुरोहित व राजा को जानकारी । कुवेरकान्त और मनोहरी का विवाह । स्वयंवर मे आये अन्य नरेशो पर विद्याबल से विजय । ४६६
- २३ विद्याबल से सोपारकपुर मे राज्य । पत्नी सहित वज्रपात से मरण । अलकापुर के राजा चडवेग के पुत्र विद्युन्माली रूप मे जन्म । मनोहरी का जन्म मेघमाली विद्याधर की कन्या विरलवेगा के रूप मे । ऊर्जयन्तशिखर को देख विद्युन्माली का जाति-स्मरण । प्रज्ञप्ति विद्या की साधना । ४७०
- २४ पवनवेगा विद्या को भेजकर विरलवेगा को जाति-स्मरण कराना । विवाह । हिमवत पर्वत पर विहार करते समय पूर्ववैरी द्वारा दोनो का वध । ४७०
२५. कौशल देश अयोध्यापुरी, सागरसेन वणिक्, घनश्री सेठानी, पुत्र सिद्धार्थ के रूप मे विद्युन्माली का जन्म । राजगृह के सेठ समुद्रसेन की पुत्री श्रीकान्ता के रूप मे विरलवेगा का जन्म । सिद्धार्थ और श्रीकान्ता का विवाह । विद्याधर युगल को देखकर जाति-स्मरण व प्रव्रज्या । शेष पूर्वोक्त जयवती के व्याघ्री होने पर्यन्त । ४७१
- २६ सिद्धार्थ और सुकौशल का विहार करते उसी वन मे आगमन व व्याघ्री द्वारा भक्षण । दोनो का सर्वार्थसिद्धि स्वर्ग मे गमन । व्याघ्री का सुकौशल के हाथ के लक्षण देख जाति-स्मरण, आत्मनिन्दा, स्वर्गगमन । सुकौशल की पत्नियो का स्वर्गवास । गधमादन नरेश का पुत्र घाडीवाहन को राज्य दान व स्वयं जिन-दीक्षा ग्रहण, कैवल्य व पांडुक पर्वत पर निर्वाण । ४७२

संधि-४७

कडवक

पृष्ठ

- १ परीषह सहन पर गजकुमार कथा । भरतक्षेत्र, सोरठ देश, द्वारावतीपुरी, वसुदेव और गंधर्वदत्ता का पुत्र गजकुमार । पीदनपुर का वशीकरण । स्वच्छद विहार का वरदान । पगुल सेठ की पत्नी मनोहरी पर आसक्ति । सेठ का आन्तरिक रोष । नमि तीर्थकर का आगमन । गजकुमार की दीक्षा । ऊर्जयन्त पर्वत पर ध्यान । पगुले सेठ द्वारा भूमि पर सर्वांग फैलाकर लोहे के खिलो से कीलना । मुनि का वेदना सहकर स्वर्गवास । ४७३
२. परीषह-सहन पर सनत्कुमार चक्री-कथा । सौधर्म स्वर्ग । सुरेन्द्र सभा मे सगम नामक देव का आगमन । असाधारण देहप्रभा के सम्बन्ध मे देवो द्वारा प्रश्न । इन्द्र का उत्तर—पूर्वजन्म के तप का प्रभाव । प्रश्न—क्या नरलोक मे अभी भी कोई ऐसा है ? उत्तर—हाँ, सनत्कुमार । जय और जयन्त देवो का अश्रद्धान व ब्राह्मण वेष मे परीक्षार्थ हस्तिनापुर आगमन । ४७३
३. उक्त देवो द्वारा चक्रवर्ती का दर्शन, अभिनन्दन व सतुष्ट होकर गमन की इच्छा । चक्री का स्नान-भूषण सहित आत्मप्रदर्शन का अभिमान । ४७४

४. देवो द्वारा इस रूप मे तेजहीनता दर्शन । चक्री का वैराग्य व प्रव्रज्या । व्याधियो की उत्पत्ति । सर्वौषधि ऋद्धि होने पर भी उपचार की उपेक्षा । देव सभा मे इन्द्र द्वारा परीषह-सहन की स्तुति । ४७४
५. देवो का परीक्षार्थ वैद्यो के वेप मे आगमन । व्याधिहरण का प्रस्ताव । मुनि द्वारा दैहिक व्याधियाँ नही किन्तु संसार रूप व्याधि के अपहरण की इच्छा । देवो द्वारा अपना असामर्थ्य प्रकट कर गमन । सनत्कुमार का कर्मक्षय व निर्वाण ४७५
६. परीषह सहन पर एणिकापुत्र कथा । आनन्द नगर, आनन्द वणिक्, नन्दा सेठानी पद्मावती आदि सात सात पुत्रियाँ । सातवी पुत्री एणिका । सागरदत्त से विवाह । पुत्र एणिकापुत्र । वीरजिनेन्द्र का आगमन । अल्पायु कथन । मुनिदीक्षा । विहार । गगापार जाने हेतु नावारोहण । नौका डूबी । जल समाधि । मोक्ष । ४७५
७. भूख-प्यास परीषह सहन पर भद्रबाहु कथा । पुण्ड्रवर्धन देग, देवीकोट्ट पुर, सोम-शर्मा ब्राह्मण । पुत्र भद्रबाहु । गोली क्रीडा । गोवर्धन मुनि का आगमन व भद्रबाहु द्वारा चौदह गोलियो को एक पर एक पक्तिवद्ध खडा करने के आश्चर्य का दर्शन । ४७६
८. मुनि द्वारा चतुर्दश पूर्व जाता अन्तिम श्रुत केवली होने का निमित्त ज्ञान । माता-पिता से अर्घ्यापनार्थ माग । पढाकर गृह-प्रेषण । आकर मुनि दीक्षा । श्रुतरूपी समुद्र का पारगामी । ४७६
९. गोवर्धन गुरु का स्वर्गवास । भद्रबाहु संघपति । विहार । उज्जैनी आगमन, शिप्रातट वास । राजा चन्द्रगुप्त द्वारा वन्दना । भिक्षा भ्रमण । पालना भूलते बालक द्वारा जाइये, जाइये, वाणी । बारह वर्ष दुर्भिक्ष का निमित्त ज्ञान व सघ को घोषणा । ४७६
१०. पूर्णायु होने से स्वयं न जाने का निर्णय व सघ को समुद्र के समीप-देश को जाने का आदेश । चन्द्रगुप्त नृप की दीक्षा । दशपूर्वी विशाखदूत का गण सहित द्रविड देश गमन । रामिल्ल, स्थूलभद्र, व स्थविर आचार्यों का अपने-अपने मुनि-सघो सहित सिन्धुदेश गमन । स्थविर समन्तभद्र का वृद्धत्व के कारण वन मे निवास । केवल नवदीक्षित भद्रबाहु उनकी सेवा मे । ४७७
११. लघु मुनि का भिक्षार्थ भ्रमण । वनदेवता द्वारा पडगाहन । आहार न लेकर गुरु से निवेदन । ४७८
१२. गुरु द्वारा प्रगंसा । वनदेवी द्वारा माया नगर रचना । एक भवन मे आहार । गुरु द्वारा अनुमोदन । गुरु का स्वर्गवास । लघुमुनि का निपट्टा सेवन । ४७८
१३. सिंधु देश मे दुर्भिक्ष । लोक-त्रास के कारण रात्रि मे भिक्षा लेकर अपनी वसति मे भोजन की श्रावको द्वारा मुनियो से प्रार्थना । आपत्कालीन स्वीकृति । ४७९
१४. एक मुनि का रात्रि मे भिक्षार्थ भ्रमण । देखकर भयभीत श्राविका का गर्भपात । श्रावको की निर्ग्रन्थ रूप त्यागकर वामस्कंध पर आधारित अर्धफालिक वस्त्र से शरीर व भिक्षापात्र ढंकर दाहिने हाथ मे दंड रखकर चर्याकी प्रार्थना । मुनियो की स्वीकृति । ४७९

- १५ दुर्भिक्ष की समाप्ति पर अर्धफालिक त्याग का आदेश साधुओं द्वारा अमान्य । इस प्रकार जिनकल्प से दो भेद (जिन और स्थविर) । रामिल्ल आदि आचार्यों जिनकल्पियो सहित लौटना व लघु भद्रवाहु के समीप पहुँचना । पूर्व-वृत्तान्त कथन । समीपनगर की बात । ४७६
- १६ सघ का भिक्षार्थ नगर को गमन । भद्रवाहु पीछे होने से नगर लुप्त । आगे होने पर नगर प्रकट । आहार ग्रहण । लौटने पर मुनियो के पैर कीचड से लिप्त, किन्तु भद्रवाहु की चतुरंगुल-ऋद्धि प्राप्त । एक मुनि भावक के घर कर्मडल भूल आया । जाकर देखने पर कमडल मिला, किन्तु नगर लुप्त । सबने लघु भद्रवाहु को ऋद्धिसम्पन्न माना । ४८०
- १७ लघु होने पर भी गुणो के कारण सब मुनियो द्वारा भद्रवाहु की प्रदक्षिणा । उज्जैनी मे भी दुर्भिक्ष का अन्त व विशाख मुनि का पुनरागमन । नगर की मायापुरी जान लघु भद्रवाहु सहित सबका उज्जैनी गमन व भद्रवाहु श्रुतकेवली की निषद्या की वन्दना । कुछ दिन रहकर सबका अन्यत्र प्रस्थान । ४८०
१८. उधर अर्धफालिक साधु सौराष्ट्र के बलभी नगर मे पहुँचे । बधराय की रानी द्वारा सत्कार । राजा द्वारा न पूरे नग्न, न पूरे परिधान युक्त साधुओं की निन्दा । सबने श्वेत वस्त्र धारण किया । श्यामली पुत्र द्वारा जप्पुलिय (यापनीय) सघ की स्थापना । ४८१
१९. परीपह सहन पर इन्द्रदत्तादि वणिको की कथा । कौशाम्बीपुर मे इन्द्रदत्तादि वत्तीस वणिक् । केवल ज्ञानी से आयु का प्रश्न । सात दिन की आयु जानकर वैराग्य, यमुना तट पर स्वाध्याय व प्रायोग्यमरण मे रत । अतिवृष्टि । पूर मे सबका बहना । ब्रह्मे मे पडकर भी अविचलित व स्वर्गवास । ४८१

सन्धि ४८

कडवक

पृष्ठ

१. तृषा परीपह सहन पर धर्मघोष मुनि की कथा । चम्पापुर मे भट्टारक धर्मघोष । मासोपवास पश्चात् गिरिगुफा से आहारार्थ निर्गमन । वन मे मार्गभ्रष्ट । हरिततृण पर गमन निषिद्ध । गगातट पर वृक्ष के नीचे आसन । गंगादेवी द्वारा सुवर्ण पात्र मे जल अर्पण । मुनि द्वारा निषेध । देवी का पूर्वविदेह गमन व शंका निवारण । ४८२
२. प्रातिहार्य दर्शन । शीतल वायु और जलवृष्टि । साधु का शुक्ल ध्यान, केवल-ज्ञान । इन्द्रादि देवो का आगमन । साधु का मोक्षगमन । ४८३
३. परीपह सहन पर श्रीदत्त भट्टारक कथा । इलावर्धन नगर, जितशत्रु राजा, इलारानी, विनयवती धात्री, विकराल रूप । रानी की फाल्गुन अष्टाह्निक पूजा निमित्त गमन । धात्री का अममल रूप के कारण गमन निषिद्ध । उसकी आत्मनिन्दा व अष्टाह्निक उपवास । राजा का वापिस आगमन । दुर्बलता का कारण जानकर धात्री को वरदान । धात्री की अन्य आठ दिन जिन-पूजा की माग । ४८४

४. राजादेश से पुनः अष्टाह्निक पूजा का उत्सव । घात्री का पुन अष्टाह्निक उपवास । पारणा के दिन हिमवन्त पद्मद्रह निवासिनी श्रीदेवी का आकर घात्री की पूजा व पंचाश्चयं । घात्री का निदान पूर्वक मरण व श्रीदेवी रूप मे जन्म । लोगो को स्वप्न मे दर्शन । ४८४
५. उद्यान मे प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने से सब इच्छाओ की पूर्ति का वरदान । श्रीदेवी के मंदिर की स्थापना व प्रतिमा की प्रतिष्ठा । सिद्धि दात्री की स्थाति । इलारानी की पुत्रोत्पत्ति की याचना । देवी द्वारा पूर्वविदेह गमन । ४८४
६. स्वयम्भू तीर्थकर से प्रश्न—इलादेवी के पुत्र होगा या नहीं ? उत्तर—होगा । श्री देवी द्वारा इलादेवी को स्वप्न मे पुत्रोत्पत्ति की सूचना । गर्भ । पुत्रोत्पत्ति व श्रीदत्त नामकरण । नगर व माता तथा पृथिवी के नाम से इलावर्धन भी कहलाया । ४८५
- ७ साकेत नरेश की पुत्री अशुमती से विवाह । ववु के साथ एक विद्वान् शुक का आगमन । द्यूतश्रीड़ा मे शुक द्वारा रानी का पक्षपात—रानी के जीतने पर दो और राजा के जीतने पर एक रेखा का अंकन । राजा का कोप व प्रहार । राजा पर क्रोध सहित शुक की मृत्यु । वनदेवता के रूप मे पुनर्जन्म । ४८५
८. मेघ विलय देखकर श्रीदत्त राजा का वैराग्य व मुनि-दीक्षा । एक विहारी होकर उसी नगर मे आगमन । रात्रि मे प्रतिमा योग । व्यन्तर का प्रचंड पवन द्वारा उपसर्ग । मुनि की निश्चलता । कैवल्य व मोक्ष प्राप्ति । ४८६
९. उष्ण परीयह सहन पर वृषभसेन मुनि कथा । उज्जैनी के राजा प्रद्योत का गज पकडने हेतु वनगमन । सवारी के हाथी का उन्मत्त हो राजा को लेकर पलायन । वृक्ष पकड़कर राजा का उद्धार व ग्राम मे प्रवेश । कूप तट मे वास । जिनदत्ता पनिहारी से पानी की याचना । ४८६
१०. पानी पिलाकर घर जाकर पिता को सूचना । पिता का जाकर राजा को घर लाना व आतिथ्य सत्कार । सेना का राजा की खोज मे आगमन । राजा द्वारा जिनदत्ता की याचना । विवाह । महादेवी पद प्राप्ति । ४८७
११. राजा का हाथी पकडने बहिर्गमन । जिनदत्ता की वियोग-पीडा । अन्य रानियो द्वारा द्वेषपूर्वक भर्त्सना । ४८७
१२. क्रुद्ध होकर जिनदत्ता का एकान्तवास । राजा का आगमन । जिनदत्ता के कोप व ब्रह्मचर्य व्रत की सूचना से राजा का खेद व उसका श्मशान मे परित्याग । पुत्रोत्पत्ति । राजा का स्वप्न मे दहाडते हुए श्वेत वृषभ का दर्शन व मंत्री से प्रश्न । ४८७
१३. स्वप्न का फल—पुत्रोत्पत्ति । अन्य रानियो का पुत्र-जनन अस्वीकार । जिनदत्ता की सम्भावना व गवेषणा । पुत्रोत्पत्ति जानकर माँ-बेटे का आनयन । उत्सव । वृषभसेन नामकरण । उल्कापात से राजा का वैराग्य व अष्टवर्षीय पुत्र के अभिषेक की इच्छा । ४८८
- १४ मनुष्यों पर राज्य करने की पुत्र की अनिच्छा व स्वर्ग-मोक्ष राज्य की इच्छा । पिता सहित दीक्षा । एक विहारी होकर कौशाम्बी आगमन । दयावर्त गिरि पर

- आतापन योग । भिक्षार्थं नगर मे जाने पर बुद्धदास वणिक् द्वारा भ्रामन शिला को तपाना । मुनि का उस पर बैठकर ध्यान, कैवर्य-प्राप्ति श्रीर मोक्ष । ४८८
१५. परीषह सहन पर अग्निपुत्र कथा । कार्तिकपुर । राजा अग्नि । वीरमती रानी । बंधुमती आदि छह पुत्रिया । छहों का नदीश्वर उपवास । आशीर्वाद लेने पिता के सम्मुख गमन । राजा की कनिष्ठ-पुत्री कृत्तिका पर आसक्ति । ४८९
- १६ राजा का मन्त्री-सामन्तो से प्रश्नोत्तर श्रीर कृत्तिका से विवाह । गर्भ । दोहला । पुत्र जन्म । नाम कार्तिकेय । दूमरी सन्तान पुत्री वीरश्री । रोहतक के राजा श्रौच से विवाह । ४८९
- १७ कुमार की आयु चौदह वर्ष । वसन्तोत्सव मे कुमारो के मातामहो के उपहार । कार्तिकेय का अपने मातामह के सम्बन्ध मे माता से प्रण । पिता ही मातामह भी है, जानकर लज्जा । निर्गमन । श्रौच गिरि पर योग-साधन । वृष्टि से शरीर के मल का प्रक्षालन । ब्रह्म निर्माण, जिसमे स्नान से व्याधि-शान्ति की मान्यता । पुत्र वियोग के शोक मे कृत्तिका की मृत्यु । श्री पर्वत पर व्यन्तरी का जन्म । ४९०
- १८ व्यन्तरी द्वारा कार्तिकेय की रक्षा । रोहतक आगमन । भगिनी द्वारा पहिचान व आहारदान । राजा से किसी की शिकायत । राजा का प्रहार व मुनि की मूर्च्छा । व्यन्तरी का आकर मूर्च्छित पुत्र का दर्शन । ४९०
- १९ व्यन्तरी का रुदन । मुनि की चेतना तथा माता को द्वेष त्याग का संवोधन व शीतल स्थान मे ले जाने की याचना । ४९१
- २० व्यन्तरी द्वारा मोर बनकर व ऊपर विठलाकर कपिल धारा पर ले जाना । वही मुनि का स्वर्गवास । उधर भगिनी का भ्राता के लिये शोक व स्नान-भोजन त्याग । ४९१
- २१ राजा का पश्चात्ताप व रानी को प्रसन्न करने का प्रयत्न । बहुरूपिये द्वारा भ्राता का वेष धारण कर रानी को सात्वना । उसी दिन से भाउवीज (भाईदूज) की मान्यता । ४९१
२२. परीषह सहन पर अभयघोष मुनि कथा । चतुष्टारपुरी काकन्दी । अभयघोष राजा । श्रीडार्थं गमन । चारो पैरो से लटकते हुए कच्छप को लिये धीवर का दर्शन । चक्र द्वारा कच्छप के चारो पैरो का कर्तन । कच्छप का राजकुमार चंडवेग के रूप मे पुनर्जन्म । चन्द्रग्रहण देखकर राजा की मुनिदीक्षा । विहार कर उसी नगर मे आगमन । सस्कार-वश पुत्र द्वारा मुनि के हाथ-पैरो का छेदन । वेदना सहन कर मुनि का मोक्ष । ४९२

संधि—४९

कडवक

पृष्ठ

१. बंशमशक परीषह पर विद्युच्चर मुनि कथा । मिथिलापुर पद्मरथ के वश मे राजा वामरथ । रानी बधुमती, यमदंड तलवर । विद्युच्चर चोर । दिन मे कोढ़ी के रूप मे । राजभवन से हार की चोरी । ४९३

- २ आरक्षक द्वारा खोज । विद्युच्चर का बधन । किन्तु उसका अपने को निरपराध बतलाना । ४६३
- ३ आरक्षक द्वारा घर ले जाकर नाना प्रकार से दडित तथापि चोर का अपने को निरपराध ही घोषित करना । राजा द्वारा अभयदान दिये जाने पर अपराध स्वीकृत । ४६३
- ४ यमदड की बत्तीस यातनाओं का सहने का कारण । पूछे जाने पर चोर ने कहा, वे मुनि के वचनानुसार नरक की यातनाओं से हीन है । राजा द्वारा एक वरदान । चोर द्वारा अपने मित्र तलवर के अपराध की क्षमा याचना । तलवर मित्र कैसे हुआ ? उत्तर । आभीरदेश मे वेन्नातट नगर । ४६४
- ५ राजा जितशत्रु, रानी जिनमती । उन्ही का पुत्र मैं विद्युच्चर । वही यमपाश तलवर का पुत्र यही यमदड मेरा मित्र । साथ अध्ययन—मेरा विषय चौरशास्त्र, यमदड का तलवर शास्त्र । परस्पर एक दूसरे के समीप रहने की प्रतिज्ञा । राजा की मृत्यु । ४६४
- ६ मैं राजा और यह कोटपाल । चोर और रक्षक के कर्तव्य मे वैषम्य देख यमदड का इधर आगमन । मेरा भी इसकी खोज मे यहा आगमन व इसकी बुद्धि की परीक्षा । चोरी के धन की वापिसी । भगिनीपुत्र जानकर राजकन्या महालक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव । विद्युच्चर की अस्वीकृति । ४६५
- ७ विद्युच्चर की राजधानी से राजपुरुष का आगमन । वापिस चलने का प्रस्ताव । वामरथ नरेश की आज्ञा व कोटपाल को लेकर स्वनगर आगमन । पुत्र को राज्य दान । दीक्षा ग्रहण । विहार । ताम्रलिप्ति आगमन । ४६५
- ८ दुर्गादेवी द्वारा दुर्गोत्सव के समय सघ के पुर प्रवेश का निवारण । उपेक्षा । पुर प्रवेश । निशाचर भूत योगिनियो आदि द्वारा घोर उपसर्ग । दशमशको द्वारा शरीर-भक्षण । अन्य मुनियो का पलायन । विद्युच्चर का परीषह सहन व मोक्ष । ४६५
- ९ परीषह सहन पर गजकुमार कथा । भरतक्षेत्र, श्रावस्तीपुर इक्ष्वाकुवशी उपरिचर नरेश । पद्मावती रानी, अनन्तवीर्यादि पाच सौ पुत्र । वसतोत्सव, उद्यान गमन । रानियो सहित जलक्रीडा । ४६६
- १० विद्युद्दृष्ट खेचर का आगमन । विद्याधरी द्वारा राजा की प्रशंसा । खेचर की ईर्ष्या । विद्याधरी को घर पहुँचाकर पुनरागमन तथा बडी शिला से वापी का भ्रमन । राजा मरकर सर्प हुआ । रानियो का स्वर्गवास । उसी वन मे सारस्वत साधु का आगमन । ४६६
- ११ अनन्तवीर नरेश की साधुवन्दना व पिता के सम्बन्ध मे प्रश्न । गुरु का यथार्थ कथन । पुत्र का मुनिवचनानुसार सर्प को सबोधन, मुनि समीप आगमन, जाति-स्मरण । ४६७
- १२ अल्पायु जान सर्प का सन्यास-ग्रहण । नागकुमार के रूप मे पुनर्जन्म व आकर मुनि-वन्दन । अनन्तवीर्य का तपग्रहण व मोक्ष । नागकुमार का वन्दनार्थ

- मेरुगिरि गमन व विद्युदंष्ट्र का वध । विद्युदंष्ट्र नगर से निकलकर तोणिमंत पर्वत पर व्याघ्र हुआ । सर्प मरकर कुन्वशी विजयदत्त नरेश का पुत्र गुरुदत्त हुआ । ४६७
१३. राजा की दीक्षा, गजकुमार का राज्य । लाटदेश के तोणिमंत पर्वत की पूर्वोत्तर चन्द्रपुरी का राजा यादववशी चन्द्रकीर्ति, रानी चन्द्रलेखा, मात पुत्रियाँ । सर्व लघु अभयमती । उसके निमित्त गुरुदत्त का आक्रमण ।
१४. भीषण युद्ध । चक्र से छिन्न एक सामन्त का हस्त पक्षी द्वारा अपहृत व प्रासाद पर अभयमती राज्यकन्या के समक्ष पतित । धात्री द्वारा उसी के निमित्त घोर संग्राम की सूचना । ४६८
१५. अभयमती का पिता को सन्देश कि उसके के निमित्त यह भट-संहार करना उचित नहीं । गुरुदत्त से विवाह । तोणिमंत पर्वत पर व्याघ्र के उपद्रवों की सूचना । गुरुदत्त द्वारा व्याघ्र को घेरना । ४६९
१६. जनसमूह को देख व्याघ्र का गुफा प्रवेश । तृण काष्ठ एकत्र कर अग्नि द्वारा व्याघ्र का नाश । विश्वदेवद्विज के पुत्र कपिल के रूप में व्याघ्र का पुनर्जन्म । गुरुदत्त का स्वनगर गमन । सुवर्णभद्र पुत्र की उत्पत्ति । श्रमृतासव मुनि का आगमन । राजा का वन्दनार्थ गमन । धर्मोपदेश व पूर्वजन्म कथन—उपरिचर, सर्प, नागकुमार और गुरुदत्त । ४६९
१७. अभयमती के पूर्वजन्म । चन्द्रपुरी के प्रधान पारधी ग डवेग की पत्नी गोमती । हिंसा व मधु-मास त्याग का व्रत । पति का तीतरी पकडकर लाना, पत्नी द्वारा मोचन । पति का रोष । पत्नी का निदान पूर्वक वापी में डूबकर आत्मघात । चन्द्रलेखा रानी की पुत्री अभयमती के रूप में पुनर्जन्म । ४६९
१८. अभयमती और गुरुदत्त की दीक्षा । मुनि का चन्द्रपुरी आगमन व कपिल के खेत के समीप निवास । कपिल का मुनि को खेत सम्बन्धी सन्देश । मुनि की उपेक्षा । भोजन लेकर आयी पत्नी के प्रश्न पर मौन । पत्नी का वापिस जाना । कपिल का घर आकर रोष । ५००
१९. मुनि द्वारा पता न देने पर कपिल का मुनि के शरीर व सिर पर अग्निदाह । मुनि को वेदना सहकर कैवल्य प्राप्ति । कपिल का पूर्वभव मुनकर तप-ग्रहण । ५०१
२०. कोकण देश के वन में अग्नि से दाह व अच्युत स्वर्गवास । आग लगाने वाले तुगभट का पश्चात्ताप व अग्नि प्रवेश, देव व श्वेतहस्ती का जन्म । अच्युत देव द्वारा सबोधन, पूर्वभव स्मरण, दावानल में दहन । ५०१
२१. राजगृह में श्रेणिकराजा की पत्नी धनश्री के गर्भ में अवतरण । नाग का स्वप्न । गजपर बैठकर वनक्रीडार्थ गमन का दोहला । अभयकुमार द्वारा दोहला पूर्ति । पुत्र गजकुमार की उत्पत्ति । यौवन । धर्ममेवन । ५०२
२२. महावीर तीर्थकर का आगमन । धर्मश्रवण व कुमार का दीक्षा-ग्रहण । कलिग देश में दन्तीपुर गमन । भव्यो का वन्दन । बुद्धदास मंत्री द्वारा राजा को द्वेष-पूर्ण सूचना । ५०२

२३ मुनि के वातरोग का निवारण कैसे हो ? ऐसा राजा के पूछने पर आसन शिला को तपाने का सुभाष । भिक्षा के पश्चात् शिला पर मुनि का आसन, वेदना सहन व मोक्ष । देवागमन । बुद्धदास की जिनभक्ति । राजा की प्रव्रज्या ।

५०२

संधि--५०

कडवक

पृष्ठ

१. परीषह सहन पर चिलातपुत्र कथा । मगध विषय के गुणहिल वणिक् ने वन मे मुनि को तिलगुड का आहार दिया । फलस्वरूप हेमवत द्वीप की भोगभूमि मे, स्वर्ग मे श्रीर फिर मगध देश, राजगृह नगर के राजा श्रेणिक के चिलातपुत्र नामक पुत्र के रूप मे जन्म । राजा का उज्जैन के प्रद्योत नरेश को बाधकर लाने हेतु उदयन कुमार को प्रेषण ।

५०४

२. गौर उरगपुर के राजा उदायन का रण मे प्रद्योत द्वारा बधन । विजय नामक राजपुत्र द्वारा छल से मोचन । प्रद्योत का आक्रमण । श्रेणिक की प्रद्योत को पकडकर लाने वाले को यथेच्छ वरदान की घोषणा । चिलातपुत्र द्वारा बाधकर आनयन । नगर मे स्वच्छद विहार का वरदान प्राप्त । राजा का तप व चिलातपुत्र का राज्य ।

५०४

३. अन्याय से प्रजा का त्रास । मत्रियो द्वारा काचीपुर से श्रेणिक का आनयन व चिलातपुत्र का निष्कासन । राज्यभ्रष्ट होकर वन मे कोट बनाकर निवास व चौरवृत्ति । भद्रामिश्र की सहायता से मामा की सुभद्रा नामक पुत्री का बलपूर्वक अपहरण ।

५०५

४. वार्ता सुनकर श्रेणिक का ससैन्य अनुधावन । चिलातपुत्र का पराजय । उसके द्वारा कुमारी का घात । उसी वन मे व्यन्तरी के रूप मे पुनर्जन्म । चिलातपुत्र का वैभार पर्वत पर मुनि-दर्शन ।

५०५

५. मुनि का उपदेश । तप-ग्रहण । श्रेणिक द्वारा आकर दर्शन व पूजा-अर्चा । व्यन्तरी का काकी के रूप मे आकर सिर पर बैठकर नेत्र अपकर्षण व सर्व-शरीर-छेदन । वेदना सहकर सर्वार्थसिद्धि स्वर्गगमन ।

५०५

६. परीषह सहन पर धन्यकुमार कथा । पूर्वविदेह, वीतशोक नगर, अशोक राजा । कृषि कार्य । धान्य की मडाई के बैलो के मुख पर बधन । रसोई करने वाली नारियो के स्तन बधन, जिससे बालको को दूध पिलाने मे कालहरण न हो । राजा को मुख का रोग । वैद्य की औषधि । मुनि आगमन, राजा का आहार दान ।

५०६

७. राजा के रोग का विनाश । पुनर्जन्म आमलकठ के नृप अरिष्टसेन के पुत्र धन्यकुमार के रूप मे । गुणानुसार अन्य नाम दमदत्त, जितशत्रु, बहुवीर्य व अपराजित । सुबुद्धि मंत्री केवल धन्यकुमार नाम से पुकारता । कुमार का प्रश्न । मंत्री का समुचित उत्तर ।

५०६

८. दमदत्तादि नाम मुनियो को उचित, राजकुमार को नही । मुनि होने का निश्चय । मंत्री की सम्मति नेमीश्वर का आगमन ।

५०७

- ६ मुनि-दीक्षा । आहार की अप्राप्ति अथवा चमन । सीतेली माता द्वारा श्रीपधि-उपचार से रोग-निवारण । शीरीपुर आगमन व यमुनातट निवास । यमुनावक्र राजा का शिकार को गमन व मुनि दर्शन का अपशकुन मानकर वाण-वेधन । वेदना सहकर मुनि का मोक्ष । उस स्थान पर अब भी सिद्धक्षेत्र रूप तीर्थ । ५०७
१०. परीषह सहन पर अभिनन्दनादि पाँच सौ मुनियों की कथा । दक्षिण देश, कुम्भ-कारक पट्टन, दडक राजा, सुव्रता रानी, पालक मंत्री । अभिनन्दनादि पाँच सौ मुनियो का आगमन । एक मुनि द्वारा वाद मे मंत्री का पराजय । मंत्री ने रानी के मन्वन्ध से राजा को रुष्ट कर समस्त मुनियो को यत्र मे पिलवाया । समाधि से मरकर मुनियो का स्वर्गवास तथा मंत्री और राजा का नरकवास । ५०८
- ११ परीषह सहन पर चाणक्य मुनि कथा । कुसुमपुर, नन्दराजा, सुव्रता रानी, कावि, सुवधु, गकटाल और कपिलमुत्त चाणक्य मंत्री । सीमावर्ती राजाओ का क्षोभ । कावि मंत्री द्वारा एक लाख सुवर्ण के वार्षिक दान पर सधि । राजकोप का क्षय । ५०८
- १२ राजा द्वारा काविमंत्री का सकुटुम्ब अधकूप मे क्षेपण व एक शराव अन्न का प्रतिदिन दान । केवल कावि द्वारा प्रतिशोवनिमित्त भक्षण व जीवनधारण । विशेष जानी मंत्री से रहित जान राज्य पर दस्यु दल का आक्रमण । ५०९
१३. मनाकर कावि का कूप से उद्धार । वरदान । दर्भमूल खोदते हुए चाणक्य से भेट । ५०९
१४. चाणक्य को पैर मे चभने वाले दर्भों को निर्मूल नष्ट करने मे दृढ-सकल्प देख, उसके द्वारा नन्दराजा के कुलक्षय की संभावना से कावि की मैत्री । परीक्षा निमन्त्रण । रात्रि मे सहस्र द्रम्म का दान । ५०९
- १५, कावि का नन्द को इन्द्रपद प्राप्ति हेतु एक लाख गौओ के दान का उपदेश । ब्राह्मणो का सम्मेलन । चाणक्य का प्रधानासन ग्रहण व उपकरणो से अन्य आसनो का अवरोधन । राजा द्वारा आसन से च्युत कराया जाना । ५१०
- १६ रोप । निष्कासन । नन्दवश के उच्छेद की प्रतिज्ञा । चन्द्रगुप्त से मेल । जलधि मध्य निवास । वनराज सिंह को सूचना व आनयन । मंत्रणा, भट सचय व नन्द के किकरो का भेद । ५११
- १७ नन्द का वध व चन्द्रगुप्त का अभिषेक । चाणक्य मंत्री । मतिवर मुनि से दीक्षा । सधाधिपतित्व । पाच सौ शिष्यो सहित दक्षिण देश मे वनवास गमन । क्रीचपुर के पश्चिम मे निवास । राजा व सुमित्र की वन्दना । ५११
- १८ नन्द का मंत्री सुवधु भी राजा के साथ । चाणक्य को देख द्वेष । मारने का निश्चय । प्रत्यागमन । सध्या को सब ऋषियो को करीष से पूर कर अग्नि प्रज्वालन । समाधिपूर्वक मरण । आज भी वहा निषद्या की पूजा । ५११
- १९ परीषह सहन पर ऋषभसेन मुनि कथा—दक्षिणापथ, आघ्रदेश, कुणालपट्टन, वैश्रवण राजा, ऋद्धिमिथ्यात्व मंत्री । ऋषभसेन मुनि का आगमन । राजा की वन्दना । मंत्री द्वारा द्वेष से वाद । मुनि द्वारा पराजय । रात्रि मे वसही का अग्निदाह । मुनियो का स्वर्गवास । ५१२

संधि-५१

पृष्ठ

कडवक

- १ प्रत्याख्यान के अखंड पालन पर श्रीपाल कथा—विन्नाट देश, तलाटवी पुर, शिवारि राजा, श्रीमती रानी, शल्यपति मंत्री, पत्नी श्रीदेवी । श्रीपाल कुमार । आपाठ शुक्ला चतुर्थी के अपरान्ह मे गुरु समीप पचमी व्रत-ग्रहण हेतु गमन । गुरु वन्दना । ५१३
- २ माता द्वारा व्रत-ग्रहण देख श्रीपाल का भी व्रत-ग्रहण । माता की हास्य पूर्वक स्वीकृति । बालक का भोजन निषेध । ५१३
- ३ सायकाल कुमार की तृषा वेदना । गवाक्षजाल से प्रकाश दिखला कर सूर्योदय भ्रान्ति का प्रयत्न । किन्तु कुमार की दृढता । ५१४
- ४ गणी को बुलाकर सूर्योदय का साक्ष्य । तथापि कुमार की व्रत-निष्ठा । दुस्सह शरीरदाह । मरण । स्वर्गवास । ५१४
- ५ उच्छिष्ट भक्षण व प्रायश्चित्त पर राजपुत्र कथानक—दक्षिण देश, किंशुकपत्तन पुर, विजयादित्य राजा, नर्मवादी वणीन्द्र । दुर्भिक्ष । भोजन के समय एक क्षत्रिय युवक का आगमन व उच्छिष्ट भक्षण । सेठ द्वारा विधिवत् भोजन का आमन्त्रण । ५१५
- ६ यथेच्छ भोजन, ताम्बूल ग्रहण, वहिर्गमन । उच्छिष्ट भोजन पर घृणा व छुरी से उदर विदारण । श्रावक का आगमन व सबोधन । समाधि पूर्वक मरण व स्वर्ग-गमन । ५१५
- ७ आहारगृद्धि पर शालिसिक्थ कथा—स्वयभूरमण समुद्र, तिमिगिल महामत्स्य, षण्मास-भक्षी, षण्मासशायी । मुख मे कच्छप मत्स्य आदि जीवो का आवागमन । उसके मल से उत्पन्न कर्णगोचर शालिसिक्थ मत्स्य का दुश्चिन्तन—यह महामत्स्य मूर्ख है । यदि मेरा इतना बडा मुख होता तो एक भी जीव बचकर न जाता । ५१५
- ८ इस दुर्भाव के कारण शालिसिक्थ सप्तम नरक गया व तिमिगिल भी । भोजन की लोलुपता से दुर्गति पर सुभौम चक्रवर्ती की कथा । भोजन प्रसंग से सूपकार का वध । उसका समुद्र पर राक्षस रूप मे जन्म । जाति-स्मरण । फलो द्वारा राजा का प्रलोभन व समुद्र मे लाकर वध । ५१६
- ९ ससार की अनिष्टकारिता पर धनदेव कथा । उज्जैनी की वेश्या वसन्त-तिलका । सुदत्त सेठ से प्रेम । गर्भिणी और व्याधिग्रस्त । प्रेमी द्वारा त्याग । शिशु-युगल का जन्म । भोगविघ्नकारी सन्तान पर माता का रोष । ५१६
१०. शिशुओं का त्याग । पुत्री का दक्षिण दिशा मे । सुकेतु सार्थवाह द्वारा ग्रहण व कमला नामकरण । पुत्र उत्तर दिशा मे । साकेत के सुभद्र सार्थवाह द्वारा ग्रहण । ५१७
११. पुत्र का नामकरण धनदेव । कमला और धनदेव का विवाह । धनदेव का वाणिज्यार्थ उज्जैनी आगमन । वसन्ततिलका से भोग विलास । साकेत मे कमला की वियोग-पीडा ५१७
१२. मुनि का आगमन । कमला की वन्दना व पति के विषय मे प्रश्न । मुनि द्वारा वास्तविकता का कथन । ५१८

- १३ मुनि द्वारा वसन्ततिलका का पूर्व जन्म मे वाप व इस जन्म मे माता होने का वृत्तान्त । उज्जैनी के सोमशर्मा और काव्यपी पति-पत्नी । अग्निभूति और सोमभूति पुत्रो सहित दो मुनियो का दर्शन । आर्यिकाओ के प्रणाम पर उपहास । ५१८
- १४ सोमशर्मा का वसतसेना की पुत्री वसततिलका के रूप मे पुनजन्म व दोनो पुत्रो का उसके युगल पुत्र-पुत्री के रूप मे जन्म । पूर्ववत् वृत्तान्त । घनदेव से वसन्त-तिलका को पुत्र जन्म । ५१८
- १५ कमला का क्षुल्लिका-व्रत-ग्रहण व उज्जैनी गमन । वसन्ततिलका के पुत्र का पति भ्राता, भ्रातृ-पुत्र, सौत पुत्र व भ्राता कहकर सबोधन । वसतसेना ने सुनकर मर्म पूछा । ५१९
१६. कमला द्वारा वृत्तान्त कथन । सुनकर वसन्ततिलका का जाति-स्मरण व आत्म-निन्दा और घनदेव सहित तप-ग्रहण । ५१९

संधि—५२

कडवक

पृष्ठ

१. कर्मफल की प्रवलता पर सुभोग नृप कथा—विदेह देश, मिथिला नगर, सुभोग नृप, मनोरमा रानी, देवरति पुत्र, मुनि आगमन । लोक-वन्दना । मिथिलेश के आगामी भव का प्रश्न व उत्तर । आज से सातवे दिन आघात से मरण और घर के पीछे काले सिर-कीट के रूप मे पुनर्जन्म । ५२१
- २ तथा आज पुर प्रवेश के समय मुख मे मलपात व श्वान दर्शन तथा घोड़ी के किशोर का जन्म होगा । राजा का मुनि-वचन मे अविश्वास । यथादिष्ट घटनायें । पुत्र को कीटक का जन्म होने पर मार डालने का आदेश । भयपूर्वक जलगृह मे प्रवेश । सातवे दिन अशनिपात से मरण व कीटोत्पत्ति । पुत्र द्वारा मारने का प्रयत्न करने पर विल-प्रवेश । ५२१
- ३ जीव जिस गति मे जाता है, उसी मे रति करने लगता है । यह विचार कर देवरति का वैराग्य । संसार के झूठे नातो पर सुकौशल स्वामी के चरित्र का सकेत । ५२१
४. नातो के विपरिवर्तन पर सुदृष्टि अलसकुमार कथा—उज्जैनी, प्रजापाल नृप, सुदृष्टि सुनार । विमला पत्नी का शिष्य से कुत्सित सबध । पति द्वारा निन्दा । पत्नी का रोष । शयन के समय वक्र नामक शिष्य द्वारा वध । पति द्रोहिणी पत्नी के गर्भ मे वास । जन्म । अलसकुमार द्वारा हार की सम्हाल । राजा के पूछने पर अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त । सुनकर राजा का वैराग्य । अलसकुमार की प्रव्रज्या । शौरीपुर विहार । उत्तर दिशा मे यमुना तट पर निर्वाण । जाति-विपरिवर्तन पर अग्निभूति-मरुभूति कथा की सूचना । ५२३
६. व्रतभग पर धर्मसिंह मुनि की कथा—कौशलपुर, धर्मसिंह राजा दक्षिणदेश, कोल्लगिरि, वीरसेन राजा, चन्द्र राजपुत्र व चन्द्रश्री राजकन्या । धर्मसिंह से विवाह । धर्मश्रवण व दमवर मुनि से दीक्षा । चन्द्रश्री की वियोग-पीडा । ५२३
- ७ चन्द्रश्री की अवस्था देखकर उससे पिता द्वारा धर्मसेन को तप छुडाकर, पुन गृह मे आनयन । पुन. दीक्षा, पुन. आनयन, अनेक बार । अन्तिम बार मुनि का घर

- से पलायन व चड का अनुधावन । मुनि का मृत हस्ती के शरीर मे प्रवेश व रत्नत्रय स्मरण सहित स्वर्गवास । ५२४
८. व्रतभंग पर ऋषभसेन मुनि कथा—कुमुदपुर, ऋषभदत्त वणीन्द्र ऋषभसेन पुत्र, धनपति वणिक् की पुत्री धनश्री के विवाह । तप-ग्रहण । धनश्री का दुःख । पिता द्वारा बलपूर्वक मुनि का गृह मे आनयन । ५२५
९. ऋषभसेन की पुन. प्रव्रज्या, पुन आनयन, बारवार । आलोचना पूर्वक श्वास निरोध द्वारा मरण । स्वर्गवास । ५२६
१०. आत्मघात द्वारा संघ रक्षा पर जयसेन नृप कथा—श्रावस्तीपुर, जयसेन राजा, बौद्ध राजगुरु बुद्धसेन । मुनि आगमन, राजा का धर्म-श्रवण व श्रावक होना । बुद्धसेन का कोप व राजा के वध का उपाय । ५२६
११. पृथ्वीपुर के बौद्ध राजा सुमति का बौद्धधर्म पुन ग्रहण का सन्देश । जयसेन का अस्वीकरण । सुमति का रोष । सहस्र भटो के नायक अचल का प्रेषण । ब्राह्मण वेष मे पुर-निवास व राजा के वध का उपाय-चिन्तन । अभिसार नामक भट द्वारा वध का भार-ग्रहण । उपासक वेष ग्रहण व मुनि से तपश्चरण की याचना । ५२७
१२. तप-ग्रहण । राजा का आगमन । मुनि से एकान्त मे वार्ता । अभिसार द्वारा छिपकर राजा का वध व पलायन । मुनिसंघ के नायक की चिन्ता । ५२७
१३. यह कुकर्म हमने नहीं, अभिमार ने किया, किन्तु उपद्रव निवारण हेतु मैं अपने प्राण अर्पण करता हूँ, ऐसा भित्ति पर रुधिर से लिखकर छुरी से उदर-विदारण द्वारा प्राणत्याग व स्वर्गवास । कुमार का क्षोभ । उक्त वाक्य पढ़कर उपशमन, सूरि चरित्र का अभिनन्दन व आत्म निन्दा । ५२८

संधि-५३

कहवक

१. शास्त्र विधि से मरण कर स्वर्गवास पर शकटाल मुनि कथा—वत्स देश, कौशाम्बी पुरी, सुभूति ब्राह्मण, कपिला ब्राह्मणी, अप्पर और उवप्पर नामक दो पुत्र । ५२९
२. ज्येष्ठ पुत्र मूर्ख, कनिष्ठ वेद-वेदांग ज्ञाता । ज्येष्ठ पत्नी सुमित्रा, कनिष्ठ-पत्नी सुप्रभा । सुप्रभा द्वारा मूर्खव्रत ग्रहण व उद्यमन । अमावस्य के दिन ज्येष्ठ को अति-मूर्ख समझ काला बैल, काले वस्त्राभूषण आदि वस्तुओं का दान । गृहागमन व पत्नी की भर्त्सना । खिन्न मन से वनगमन । देवता की वन्दना । पांडित्य का वरदान । गृहागमन । ५२९
३. अध्यापक पद प्राप्ति । प्रसिद्धि । समीपवर्ती ग्राम मे नररुचि, नमुचि, बृहस्पति और इन्द्रदत्त का आगमन व अप्पर गुरु से अध्ययन । विद्यापारगामी होकर सहस्र गौओं की गुरुदक्षिणा हेतु कुसुमपुर के राजा नन्द के समीप गमन । ५३०
४. उसी समय नन्द की मृत्यु । नमुचि का नन्द के शरीर मे प्रवेश । राज्यपद । गुरुदक्षिणा प्रेषित । स्वयं शिष्यो के न आने से गुरु का रोष चारो को शाप । नमुचि को मद्य से विटलकर कुलहीनता, वररुचि को अशुभ, बृहस्पति को तनुशोष व इन्द्रदत्त को महाग्रहदोष का । ५३०

- ५ शकटाल मन्त्री द्वारा छल मे स्वामी नन्द के वेप मे नमुचि) को मद्यपान । रोप से सकुटुम्ब कूप मे प्रक्षेप । सागरदत्त की पत्नी सुभद्रा पर मोहित होकर एक भूत का सेठ के वेप मे गृह-प्रवेश । विवाद । निर्णय मे सबका असमामर्थ्य । ५३१
- ६ राजसभा मे विवाद । शकटाल का स्मरण । कूप से निष्कासन । पिशाच की पहिचान व मन्त्र से निराकरण । राजा द्वारा पुनः अधिकार प्रदान । एक दिन राजा द्वारा वररुचि को श्लोक का चतुर्थ चरण देकर प्रथम तीन चरणों की पूर्ति की समस्या प्रदान । ५३२
- ७ वररुचि द्वारा समस्या-पूर्ति । अन्य भी काव्य रचना । राजा की प्रसन्नता व संगति । शकटाल की ईर्ष्या । रानी मे सबव बताकर राजा को उत्तेजित करना वररुचि को प्राणदण्ड । ५३२
- ८ श्रारक्षी द्वारा विद्वान् जानकर वररुचि का मोचन व राजा को वररुचि को प्राणदण्ड दे देने की असत्य सूचना । वररुचि का पलाशकूट ग्राम में छिपकर निवास । अश्व द्वारा राजपुत्र सुनन्द का अपहरण व वन मे मोचन । रात्रि मे रक्षार्थ वृक्षारोहण । व्याघ्र के भय से रीछ का आकर उसी वृक्ष पर वास व राजकुमार को आश्वासन । व्याघ्र का वही आगमन । ५३३
- ९ व्याघ्र की क्षुधाशान्ति निमित्त रीछ से मनुष्य को नीचे गिराने की याचना । रीछ द्वारा शरणागत के घात का निषेध । दूसरे प्रहर रीछ के सोने व कुमार के जागने की बारी । व्याघ्र द्वारा कुमार मे रीछ को गिराने की याचना । ५३३
- १० कुमार द्वारा निषेध । व्याघ्र का आग्रह व भय की सूचना । कुमार द्वारा रीछ को गिराना । शाखाओं मे उलझने से रीछ की रक्षा । रीछ द्वारा राजपुत्र को शाप-उन्ने वा ते' आदि दश अक्षरो को छोड़ अन्य भाषणशक्ति व बुद्धि का नाश एव शापमोचन का वरदान । ५३४
११. राजकुमार का गृहागमन व केवल उक्त दश अक्षरो का उच्चारण । अर्थज्ञाता का अभाव । राजा का पलाशकूट ग्राम पर रोप व ग्राम-वानियो को नभस्तल मे चलते हुए जल को लाने का आदेश । ग्रामीणों की चिन्ता । वररुचि द्वारा ओस जल से भरे घट भिजवाना । ग्राम मे विदेशी विद्वान् की सूचना । ५३४
१२. राजा ने नृपकूप मगाया व अन्य असम्भव कार्यों का आदेश दिया व यथोचित प्रत्युत्तर पाया । विलक्षण रीति से उस विदेशी विद्वान् को आकर राजा से मिलने का आदेश और वररुचि द्वारा पालन । राजपुत्र द्वारा उच्चारित अक्षरो का वररुचि द्वारा यथोचित प्रर्थ व आत्म-परिचय । कुमार का स्वास्थ्य-लाभ व वररुचि का पूर्ववत् पद-ग्रहण । ५३४
- १३ तीनों की शाप मुक्ति व स्वपद-प्राप्ति । महापद्म मुनि का आगमन । शकटाल की दीक्षा । विहार । पुनरागमन । वररुचि द्वारा पूर्व वैर के कारण प्रपच से राजा को रोषोत्पादन । ५२६
- १४ शकटाल का छुरी से उदर-विदारण व समाधिपूर्वक मरण कर स्वर्ग गमन । यथार्थ बात जानकर राजा द्वारा वररुचि को निर्वासन । महापद्म मुनि से दीक्षा । ५३६

मुनि-सिरिचंद-विरहयु

कहकोसु

मुणि-सिरिचंद-विरइयउ

कहकोसु

संधि १

१

ऊँ नम परावेवि चित्तं थवेवि नट्टुट्टादसदोसु ।

लोयत्तयवदु देउ जिरोदु आहासमि कहकोसु ॥

परावेप्पिणु जिणु सुविसुद्धमइ

ससारि असारु सव्वु अथिरु

सपय पुणु सपहे अणुहरइ

सुविणयसमु पेम्मु विलासविहि

जोव्वणु गिरिवाहिणिवेयगउ

जीविउ जलवुव्वुयफेणणिहु

अवरु वि ज कि पि वि अत्थि जणे

इदियसुहु सोक्खाभासु फुडु

चित्तइ मरिण मुणि सिरिचदु कइ ।

पियपुत्तमित्त मायातिमिरु ।

खणि दीसइ खणि पुणु ओसरइ । ५

देहु वि खणिभगुरु दुक्खणिहि ।

लायणु वणु करसलिलसउ ।

हरिजालु व रज्जु अवज्जगिहु ।

त त छाहि व्व पलाइ खणे ।

जइ ण तो सेवइ कि ण पडु । १०

घत्ता—इय जाणिवि णिच्चु सव्वु अणिच्चु मणु विसएसु ण खचिउ ।

जे दाणु ण दिणु णउ तउ चिणु तेणप्पाणउ वचिउ ॥ १ ॥

२

वहुदुक्खेणज्जिउ छलिवि जणु

वधवयणु लज्जइ णोसरइ

सहभूउ सया जो पोसियउ

णउ जाइ समउ ता केम वरु

अणुगमइ सुहासुहु केवलउ

वावारु करइ सव्वाण कए

पच्छा साइज्जइ भाइयहिँ

ण णियति णियतअयाणमणा

मुयमणुयहो पउ वि ण जाइ धणु ।

सुहु सत्थभूउ तामणुसरइ ।

सो देहु वि दुज्जणविलसियउ ।

वसुपुत्तकलत्तवधुणियरु ।

परभवपाहुणयहो सवलउ । ५

अणुहवइ दुक्खु पर एककु जए ।

धणु पुत्तकलत्तहिँ दाइयहिँ ।

परपुरिमु पलोयइ सव वियणा ।

घत्ता—इय वुज्जिवि पत्ते पुण्णपवित्ते दिज्जइ सइँ विलसिज्जइ ।

एत्तिउ फलु अत्थे जणियाणत्थे ज दुत्थियणि वइज्जइ ॥ २ ॥ १०

३

वीहत्थहो खलु खयभावियहो
 कयघराहु सरीरहो एउ फलु
 गउ जिह रयणायरम्मि रयणु
 बहुजोगिसहासु भमतु जिउ
 नडु नावइ नाणारुवघर
 जुयसविलानाएँ कह व पुणु
 अहखल्लविल्लजोएण जण
 पवणाहउ पत्तु भमतु जिह

दुग्गघसहावहो तावियहो ।
 ज किज्जइ सजमु वउ विमलु ।
 दुल्लहु मणुयत्तणु तिह जि गणु ।
 चिरु दुक्खसयाडँ सहतु थिउ ।
 बहुभेयाणोयकसायकरु । ५
 अणुसरइ सरीरी मणुयत्तणु ।
 पावइ मणुयत्तणु पावखणु ।
 त ठाणु लहइ मणुयत्तु तिह ।

घत्ता— पत्ते वि पवित्ते फुडु मणुयत्ते देसु वसु वउ सोहणु ।

नउ नीरोयत्तु पावइ वित्तु सुयणसगु सवोहणु ॥ ३ ॥ १०

४

अह एत्तिउ सवणगहणु लहइ
 अन्नाणु कुमग्गे सचरइ
 आवज्जइ दुक्किउ दुग्गइहे
 इय भाविवि पाविवि मणुयभउ
 गिणु गु [रुव-] वुद्धिलद्धोववउ
 नीसेसहु कम्महो करिवि खउ
 तउ लेवि निवारिउ जेण मणु
 विणु भाणज्जयणहिँ सासुगइ
 किं तवेण परस्सुसु जामु मणु

तो ऊहापोहु न सभवइ ।
 गुरुउवइट्टउ हिउ णउ करइ ।
 पइसरइ पुणो पउरावइहे ।
 सुइखेत्तु सुगोत्तु पसत्थु वउ
 किज्जइ जिणानाहपउत्तु तउ । ५
 पाविज्जइ जेण महतु पउ ।
 तहो हत्थगेषु सासयरुवणु ।
 न वि वज्जइ विणु वरणाणवइ ।
 तहो पुरउ परिट्ठिउ भवभमणु ।

घत्ता— चित्तिज्जइ चारु मोक्खदुवारु अप्पसहाउ म यजहि । १०

त लब्भइ ज्ञाणु दुक्खवसाणु कहिउ कसायकयतहिँ ॥ ४ ॥

५

अज्जयण सत्थत्थवभासो
 पचक्खाहियविसयनिरोहो
 दंसणाणाचरित्तपयासो
 सज्जायम्मि पसत्तहो वइणो
 अन्नो नो सज्जायसमाणो
 तेण सया सज्जाणु पयत्तं
 अज्जयणो य कइत्तविसेसो

पउपयणियघम्मधिवपोसो ।
 नाणागुणासोवण्णो गेहो ।
 दुक्कियकम्मन्नाणनिरासो ।
 होइ निरोहिय निरयणागइणो ।
 अत्थि तवोहु तवाण पहाणो । ५
 कायव्व मुणियाणोहोत्त ।
 दूरीकयकम्मासवदोसो ।

अज्जयरोणां वसिज्जइ चित्त तेण ह्य मह तम्मि पयत्त ।
 किं कीरड कव्वउ^३ व निरुत्त तो कहिय^३ मेत्त पि कइत्त ।
 किं पुण नाणाभावनिउत्त कड कव्व विरएइ विहत्त । १०

घत्ता—किं कीरड ताप्र वरवायाप्र जइ वि विमुक्क सुधम्महं ।

वणिज्जइ नेयगुरा बहुभेय देवागमगुरुधम्महं ॥ ५ ॥

६

निप्पक्खु पक्खि उड्डुगामणु व्व गुणकोडिविवज्जउ सुरधणु व्व ।
 जइवि ह् वरवण्णु विसुद्धमइ सामग्गिहीणु किं करइ कइ ।
 विविहागमु कइयणससयणु वायरणु सतक्कु^१ देसिवयणु ।
 छदालकारु नाउ भरहु वेज्जय-गहगरिणय-कव्वनिवहु ।
 विन्नाणाइँ रजियजणमणाइँ अवरइँ वि अणोयइँ लक्खणाइँ । ५
 सामग्गि कइत्तरोणा जडिय अवर वि बहुगुरामणिसजडिय ।
 पावइ एत्तियहँ न मज्जे महँ तुडि कवण चिराणकईहिँ सहुँ ।
 आगमु आगमणमयहिँ मुण्णित्त मइँ अण्णु कयावि रोय भण्णित्त ।
 कइ वाणार तहुँ ससयणु वरणे वायरणु वयणसगामु जणो ।
 लक्खियउ तक्कु मइँ महिउ पर देसी वि विविह वणिजार नर । १०
 सच्छदु वियणि वणायरिणायरु साहरणु तहालकारु वरु ।
 अहिनाउ भरहु पुरु चक्कवइ विज्जउ निव्वाहो वायगइ ।
 गह रक्खस गरिणया सव्ववहु आयामिसरासि कव्वनिवहु ।
 विन्नाणाइँ विगयणाणारसइँ लक्खणा मुणोमि ण सारसइँ ।

घत्ता—महु धम्मं परेक्क भत्ति गुरुक्क अण्णु किं पि न वियाणमि । १५

जलहि व्व असोमु जो कहकोसु सो हउँ केम समाणमि ॥ ६ ॥

७

जो विरइउ आसि महामईहिँ महरिसिहिँ अणोयहिँ सक्कईहिँ ।
 त रयमि केम हउँ मदमइ भूयरहो होइ किं गयणागइ ।
 अह जो जूहिदे मग्गु कउ किं कलहु ण वच्चड^१ तेण मउ ।
 इय जाणोवि जइ किं पि वि करमि तो दुट्टमणाहँ ण उव्वरमि ।
 विणु कज्जे वड्ढियपावमल साण व छणाससिहे भसति खल । ५
 किं ताण भएण न उग्गमइ तारावइ जणतमोहु समइ ।
 जीवउ जणु परगुराजिणायजउ अहवा दुज्जणाहँ वि दोसु नउ ।
 ससहाउ पयासइ सव्वु जणु उण्हत्तु व सिहि सीयत्तु वणु ।

५ १ अन्नेणेन । २ किं करइ वउ । ३ कहिए ।

६. १ सत्तक । ७ १ पवच्चड ।

घत्ता—लइ लेउ हयासु दुज्जणु दोसु मुक्को मोक्कल्लिउ किं पि वि ।

महु एत्थ पसत्थे पेच्छइ सत्थे जइ जोयतु कंहि पि वि ॥७॥ १०

८

गराहरहो पयासिउ जिणवइणा
सिवकोडिमुर्णिदि जेम जण
तिह गुरुकमेण अहमवि कहमि
महु देवि सरासइ सम्मुहिय
आयणाहो मूलाराहराहे
गाहतरियाउ सुसोहराउ
धम्मत्थकाममोक्खासयउ
ताणत्थ [इह] मणिऊण पुरउ

सेणियहो आसि जिह गरावइणा ।
कहकोमु कहिउ पचमसमण ।
नियबुद्धिविसेसु रोव रहमि ।
सभवउ समत्थलोयमहिय ।
सग्गापवग्गसुहसाहराहे । ५
वहु कहउ अत्थि रजियजणाउ ।
गाहासु जासु सठियउ तउ ।
पुणु कहमि कहाउ कयायरउ ।

घत्ता—सवधविहूणु सव्वु वि हीणु^१ रसु न देइ गुणवतहँ ।

तेणिय गाहाउ पयडिवि ताउ कहमि कहाउ मुणतहँ ॥ ८ ॥ १०

९

भणिद च—जिह कुड्डेण विहूण आलेक्ख नत्थि जीवलोयम्मि ।

तिह पवयेण विहूण पावति कह न सोयारा ॥

सिद्धे जयप्पसिद्धे चउव्विहाराहराणफल पत्ते ।

वदित्ता अरहते वोच्छ आराहरा कमसो ॥ [भ० आ० १]

अस्या नमस्कारगाथाया नवपदानि भवन्ति । अथ पदार्थकथनम् । तद् यथा—सिद्धे ५
सिद्धान् । कीदृग्गुणविशिष्टान् ? जयप्पसिद्धे जगति प्रसिद्धा प्रख्यातास्तान् । अथवा जगत् प्रसिद्ध
प्रकटं करतलामलकवद् येषा तान् । एतेन अञ्जनगुटिकादिसिद्धाना निरास । चउव्विहाराहराणफल
चतुर्विधाराधनाफल कार्यम् । किं तत् ? अव्यावाधमनन्त सुख पत्ते प्राप्तान् । वंदित्ता वन्दित्वा
नमस्कृत्येत्यर्थ । अरहते न केवलं सिद्धान् अर्हतश्च पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टान् । रजोहननादिगुण-
त्रयोपलम्भप्रादुर्भावादिन्द्रादिविनिर्मितामतिगयवती पूजा प्राप्ता ये तेऽर्हन्तस्तान् । एतेन हरिहर- १०
हिरण्यगर्भादीना निरास । वोच्छ वक्ष्ये । क ? आराहरा आराधनगर्भिवान शास्त्रम् । कमसो
क्रमशः परिपाठ्या पूर्वाचार्याणा मतानुल्लङ्घनेनेत्यर्थ ।

उज्जोवरणमुज्जवरण निव्वहरा सिद्धिसाहरा च नित्थरणा ।

दसणाणाणचरित्ते तवाणामाराहरा भणिया ॥ [भ० आ० २]

उज्जोवणं उद्योतन प्रकाशनमित्यर्थ । उज्जमण यजन गन्धप्रसूनादिपूजादिभि पूजनम् । १५
निव्वहण निव्वहि ईप्सितस्थानप्रापणमित्यर्थ । सिद्धिनिष्पत्तिरित्यर्थ । साधनं फलावसानान्त
तात्पर्यम् समाप्तिकरणमित्यर्थ । नित्थरणं निस्तरणमवसानं नीत्वा गमनम् । दसणणाणचरित्ते
एवं भणिते दर्शनज्ञानचारित्रतपसाराधना पूर्वोक्तदृष्टान्तैरेव भणिता भवति प्रोक्ता भवति इत्यर्थ ।
एषा दृष्टान्तगाथा—

उज्जोवणाय दुविह नेय	लोइय-लोउत्तरिय-विभेय ।	
उज्जवण पि तहेव असेस	इण्ह भण्णइ दुविहविसेस ।	२०
उज्जानयरे पालियखत्तो	भरहो भरहाहिवई होतो ।	
तेणुप्पन्न सिण्णवि रवन्नं	हयगयग्रसिदड बहुवन्न ।	
चक्क सारगा सव्वाण ^१	दिव्व देवासुरविजयाण ।	
साहकारं दरिसियघाय	साहिवि सव्वाहिं खडाय ।	
त दिव्व पउरयर राय	पावेप्पिणु वड्ढियअणुराय ।	२५
लीलासचोइयवरपत्तो	सहु सेन्नाण सनयर पत्तो ।	
भुवणात्तयपायडियसनामो	खयरासुरनरविहियपरणामो ।	
ज सो उप्पाइयपयसुत्थो	होवि थिओ चिरु तत्थ कयत्थो ।	

घत्ता—भुजतु सुहाइँ गयदुक्खाइँ त उज्जोवणु लोइयउ ।

लोउत्तरभेउ कहमि अलेउ जिह सव्वण्हुपलोइयउ ॥ ९ ॥ ३०

१०

तह चय साहु	सीलबुवाहु ।	
सुहसाहणाहे	आराहणाहे ।	
कारणु लहेवि	सघहो कहेवि ।	
अणुसरमि पुज्जु	हउँ अप्पकज्जु ।	
तेणाणुभाउ	वज्जिउ पमाउ ।	५
सम्मत्तराण	तवचरणझाण ।	
सेणाइ मोह	मिच्छत्तजोह ।	
इदिय कसाय	परिसह विसाय ।	
उवसग्गआइ	निज्जिज्जि अराइ ।	
पावेवि मोक्ख	सिरि पहयदुक्ख ।	१०
ज सव्वु कालु	बुज्जिभउ तियालु ।	
खयजम्मकदु	तेलोक्कचदु ।	
अट्टगुणवतु	माणइ अणतु ।	
उवमाणचत्तु	सुहु अप्पयत्तु । [दुहडहउ नाम छट्टु]	

घत्ता—त लोउत्तरिउ विउसायरिउ उज्जोवणु जाणिज्जइ । १५
उज्जवणहो किं पि भेयदुय पि सुणि सपइ भाणिज्जइ ॥ १० ॥

११

चपाए नयरीए जियसत्तुराएण	उज्जाणवणु परमसोहाणुराएण ।
सिरिनाय पुत्राय नारग नालियर	तह तिलय अइमुत्तलवलीलसनियर ।
किण्हागरू राइणा मलय मायंद	पोफ्लदुमासोय चपय कयाणद ।
वरजवु जवीर विज्जउर खज्जूर	कक्कोल पल्लास सिरिखड कप्पूर ।
कयलीउकरमर महु केसरा परास	अवरेवमाइ तहि मुणइ को वहुस । ५
वावेवि वरखेत्ति पालेवि वडुविय	सजायफलपुफ्लसघायओणविय ।
दट्टूण सपुण्णजोव्वणसिरीसोहु	अहिरामु आरामु रविरस्सिकयरोहु ।
तुट्टेण घणदाणभोयणकियापुव्वु	किउज्जवणु वरतूरमगलरवापुव्वु ।

(मदनवेतारु)

घत्ता—ज सुट्टु विसालु तेण वि सालु तप्फलु पच्छा पासिउ ।

लोइयउज्जवणु जिम वणु^१ पवणु त समयम्मि पयासिउ ॥ ११ ॥ १०

१२

तहा मुणी कायकिलोससोहिए	सरीरछेत्ते तवसीरवाहिए ।
ववेवि सहसणानाणसजमे	महीरुहे चारुविवेयसजमे ।
नएवि विद्धि सुहसीलवारिणा	दुरंतजम्मासुहतावहारिणा ।
पसिद्धिपूया कुसुमोहसोहए	गुणोहसभूयफलोहरोहए ।
मणोहिरामे बहुवित्थर गए	निएवि ते वारियतावसकए । ५
महोच्छत्र मोयणदव्वचायय	करेवि ताण तणुचायजायय ।
लहेवि सिद्धि च समाहिकारण	समत्थससारदुहोहवारणं ।
पहुजए ज सरस निरतरं	सुह सया तप्फलज अणुत्तरं ।
तमुत्तम सव्वविह्वचत्तय	जणुत्तर उज्जमण पउत्तय ।

(वशस्थ छन्दः)

घत्ता—इच्छियउ अणतु जेवि महतु भारुत्तारिवि माणधणु । १०

ज नर मुहि होइ भासहिं जोइ त लोउव्वभउनिव्वहणु ॥ १२ ॥

१३

दिव्खासमयम्मि नवेवि गुरु	उच्चाएवि सजमभारु गुरु ।
पाविवि निज्जावयजोग्गु गणी	उत्तारिऊण त तेम मुणी ।
सिद्धि गउ ज मुहु अणुहवइ	णिव्वहणु जणुत्तर तं हवइ ।

: १ १ लोइयउज्जवजिवणु ।

आहारपहूइ कज्जनिवहु
अणुहुजइ ज तज्जणिउ जणु
सदसणु नाणु चरित्तु तउ
पाविवि निव्वाणु विमुक्कतणु
अइदुल्लह देवामुरमहिया
वयसीलोवासजुएण चिरु

निप्पाइऊण आलस्समहु ।
सुहु सा लोइय ससिद्धि भणु । ५
वड्ढाविऊण कयकम्मखउ ।
ससेवइ ज सुहु साहुजणु ।
ससिद्धि जणुत्तर सा कहिया ।
काणणि उवसग्ग सहेवि निरु ।

घत्ता—एयग्गमणेण माणघणेण साहेवि विज्जासाहणु । १०
दहगीवे पत्तु सोक्खु महत्तु ज त लोइयसाहणु ॥ १३ ॥

१४

भवरणिण विसवि कु वि साहुवरु
दूसहु सहेवि उवसग्गणु
रयणत्तयविज्जउ सोहरणउ
ज सिद्धखेत्तु पावेवि सुहु
अइदुक्कर सुट्टु निरजणिया
ठिउ उसहदत्तु नामेण वणी
गउ सिघलटीवहु सोहरणइ
वोलेवि दीवसायरवणइ
जं पत्तु सोक्खु त नित्थरणु
वहुदुक्खसयाइँ सहत्तु थिउ
मणिदीवु मणुयगइ पइसरेवि
ससारसमुट्टुत्तरिवि गुरु
पाविवि ज अग्वावाहसुहु

दुद्धरवयसीलोवासधरु ।
निच्चलु करेवि मेरु व्व मणु ।
साहिवि सव्वावइरोहरणउ ।
अणुहुजइ दूरुच्छिट्टुहु ।
लोउत्तर सा समग्गि भणिया । ५
वाणिज्जहो सयलकलासु गुणी ।
रवणइँ लहेवि तमखोहरणइ ।
पावेप्पिणु नियजणवयजणइ ।
ववहारिउ भासइ विउसयणु ।
अवरगइ निग्गिवि कहव जिउ । १०
सम्मत्तचरणारयणइँ भरेवि ।
दुक्खाडइ छडिवि मोक्खपुरु ।
अणुहवइ अणत्तु पणट्टुहु ।

घत्ता—तहु होतु कयाइ एइ न जाइ जम्मइ मरइ ण जिज्जइ ।
ससारुत्तारु त नित्थारु परमत्थेण भणिज्जइ ॥ १४ ॥ १५

१५

गाथा—आराहणाप्र कज्जे परियम्म सव्वहा वि करणिज्ज ।
परियम्म भाविदस्स हु सुहसज्जाराहणा होदि ॥ [भ० आ० १९]
जोग्गो भाविदकरणो सत्तु जेद्वण जुद्धरगम्मि ।
जघ सो कुमारमल्लो रज्जवडाय वला हरदि ॥ [भ० आ० २२]

जोग्गो समर्थ । भाविदकरणो अभ्यस्तसमस्तविज्ञान । गन्नू जित्वा सङ्ग्रामरगे ५
यथा न प्रसिद्ध कुमारमल्लो राज्यपताका बलाद् हरति गृह्णातीत्यर्थ । अत्राख्यानम् ।

भद्विलपुरे भद्वगुगोहहरु
जिणायत्तहे तामु वि पियहे हुउ
वरवीरु सलक्खणु बहुगुगाउ
जिणामइमहएविपुत्तु भगिणवि
होऊणु अभावियकरणु जणो
पुरु वेडिउ जणु सतासियउ
त नियवि सकोहु सरहु सघउ
सो पाराउट्टउ तेण कउ
असराले सरजाले लइउ
घणुधाराधोरणपहयतणु

जिणचट्टु राउ रिउरायहरु ।
सुउ सूरदत्तु सूरेहिं थुउ ।
अवभसियसिक्खरंजियजणउ ।
जिणायत्तु जणोरे वुत्तु मुणिवि । १०
जामच्छइ तामेक्कम्मि खणो ।
भिल्लक्के कलयलु घोसियउ ।
जिणायत्तु सवलु सन्नहवि गउ ।
कलिकाले न घम्माइसउ ।
नं विसयवले नवपव्वइउ । १५
गउ घरहो पलाप्रवि जेम घणु ।

घत्ता—एत्थतरे राउ सवलसहाउ जा चलिउ रुसेप्पिणु ।
ताणुप्परे तेण लहुतराएण ता विन्नविउ नवेप्पिणु ॥ १५ ॥

१६

भो रायराय उद्धरियधर
पाइक्कहो अवसरु एहु महु
दासेण वि होते सामि जहिं
जइ जममुहे पेसमि पिणुणु नउ
इय वयणहिं पहु सतोसियउ
रहसिहरारूढु महावनिउ
सवरोहे इत्तु विट्टु सरहु
आसणु ढुक्कु सो तामु किह
जामज्जइ पुरउ न पइसरइ
चउदिसहिं भमिउ रहु ताम किह
आलायचक्कु रहु न भमइ
सदाणुउ सीहे गयनिवहु
तासेप्पिणु सहसा गाढभउ

लहुहत्थुत्थल्लहिं पहयपर ।
तुहुं नियहि चोज्जु सव्वेण सह ।
जुज्जइ वोलिज्जइ काइं तहिं ।
तो छित्त पाय मइं ताय तउ ।
सहुं आसीवाएँ पेसियउ । ५
जालधरवहे पत्थु व चलिउ ।
नावइ तमनियरे सूररहु ।
महणम्मि समुदहो मेरु जिह ।
पारक्कउ पहरणु वावरइ ।
नवमेहहिं विज्जुलपुजु जिह । १०
पडिवक्खहो लक्खु नेय गमइ ।
अहिउलु गरुडेण व लोयवहु ।
सज्जाणहो नं अण्णाणु गउ ।

घत्ता—नियनयरे पड्डु, विजउ पघुट्टु, परिवड्ढियअणुरायहो ।

पेसणु साहेवि वडरि वहेवि पणविउ सो नियतायहो ॥ १६ ॥ १५

१७

तेरा वि तहो पवर पसस किय
 परमुच्छवेरा सव्वहिं नविउ
 सव्वत्य सूरदत्तहो तराउ
 पसरिउ जमु मुट्टु मुहावराउ
 एक्कहिं दिणे वडरिविहसराउ
 अत्थारिणि थिएँ केरा वि भगिणउ
 जियसत्तु मुएप्पिणु अन्नु नउ
 सयलेहिं वि त जि समत्थियउ
 किं मेच्छवरायजयम्मि जए
 तवखग्गे इंदियवडरिवलु
 सासयसुहरज्जुवडायधर
 ता त पि निमित्तु पवित्तु हुउ

तुट्टेरा दिन्न जुवरायसिय ।
 नाउ वि जियसत्तु परिट्टविउ ।
 गिव्वइ वणिज्जइ घराघराउ ।
 जिगायत्तहो नवर दुहावराउ ।
 सजायउ मुहडपससराउ । ५
 किं बहुरा निच्चउ मइँ सुगिणउ ।
 सुदरु साहससुहडत्तपउ ।
 जिगादत्ते पर अवहत्थियउ ।
 मुहडत्तणु कामकसायखए ।
 निट्ठारिवि मारिवि अइपवलु । १०
 जे लेति सूर ते साहु पर ।
 गुरुनामं निज्जियसत्तु थुउ ।

घत्ता—जायउ जुवराउ जित्तकसाउ कार्मिदियदलवट्टणु ।

उप्पाएवि नाणु भुवरापहाणु गउ त सासयपट्टणु ॥ १७ ॥

१८

भगिणद च—धम्मेरा होइ सूरा मारणसूरेत्ति गव्विदा होह ।
 एक्को वि धम्ममूरो मूरसहस्साण सामिओ होइ ॥
 तिह भावियसामणु साहु कुमरो वि धुरधरु ।
 सम्महंसणारहे वलगु वयसीलाउहधरु ॥
 मिच्छत्ताइरिऊ जिरोवि सन्नासरणगणो । ५
 गेण्हइ आराहणवडाय गय कित्ति नहगणो ॥
 पुव्वमभाविदजोग्गो आराहेज्ज मरणे जट्ठि वि कोइ ।
 खन्नुगनिहिदिट्टु त खु पमाण न सव्वत्य ॥ (भ० आ० २४)

पुव्वमभाविदजोग्गो पूर्वकालेऽननुष्ठितयोग्याचरण । यद्यपि कञ्चित् मरणकाले
 आराधनामाराधयति तत्तु स्फुट सर्वत्रापि न प्रमाणं स्थाणुनिधानलाभ इव तत् । अत्राख्यानम् । १०

वगडविसयहो होतु भडु कज्जवसु समायउ ।
 उत्तरमहुरहे सोमसम्मु नामे विक्खायउ ॥
 जिणहरि तत्थ जिणिदयट्टु वदेवि नियच्छिउ ।
 नंदिमित्तु नामेण साहु धम्मक्खरु पुच्छिउ ॥
 तेण वि तिह तिहो कहिउ सव्वु जिह हुउ उवसतउ । १५
 लेवि महव्वय मुयवि गथु सहसा निक्खतउ ॥

पढिउ कयावि ण कि वि तेण नाराउ निरक्खर ।
 दिन्न सिद्धमाड्य लिहेवि अक्खर अक्खरगुरु ॥
 ॐ नम सिद्धं पि हु न एउ पुणु पुणु वि कहिज्जइ ।
 मुक्खु भणेविणु वार वार गुरुणा जूरिज्जइ ॥ २०
 नावइ नम सिद्धं पि जामु सो काइँ करेसइ ।
 अन्नाणिउ पावज्ज लेवि किम निव्वाहेसइ ॥
 त निमुणेवि विराउ हूउ वर मरणु सुहावहु ।
 सव्वजहणु जडत्तु नेव संजाउ दुरावहु ॥
 इय चित्तेवि अत्तेक्कु साहु कयविणएँ भासिउ । २५
 केरिमु मरणविहाणु तासु तेणावि पयासिउ ॥
 सम्महंसणनाणचरणतवसोहि करेप्पिणु ।
 अरुहएवपडिँविवु फलिहसकासु सरेप्पिणु ॥

घत्ता—जो मेल्लइ देहु सो सुहगेहु होइ देउ देवालए ।

पुणु कम्मविमुक्कु गुरुहँ गुरुक्कु मुद्धु बुद्धु सिद्धालए ॥१८॥ ३०

१९

माणसे डण घरेवि	तिप्पदक्खिणं करेवि ।	
जिणस्स मदिरे जिणिंदु	वदिऊण लोयचट्टु ।	
मणिण वडिँढयाणुराउ	निग्गओ तओ पुराउ ।	
दारुण वर्णं पइट्टु	तित्थु जक्खरुक्खु दिट्टु ।	
रुद्धभाणु भावयासु	ठाइऊण मूले तामु ।	५
पाणभोयणाण चाउ	देहि निप्पिहत्तभाउ ।	
सिद्धवंदण करेवि	दुक्कियाईँ वोसरेवि ।	
पासुए सिलायलम्मि	ज्ञायमाणओ मणम्मि ।	
देउ देवविद्वंदु	काउसग्गे मुक्कतंदु ।	
अच्छिऊण पंचरत्तु	पाणयम्मि पाणवत्तु ।	१०
सग्गे सग्गिवासे भारु	रुवरिद्धिजित्तमारु ।	
दिव्वभोयसोक्खफारु	पत्तु ओहिणाणपारु ।	
वीससायरोवमाउ	साहु सो मुहासि जाउ ।	

(समानिका नाम छन्द)

घत्ता—जह कहमवि तामु कम्मवसासु हुउ सग्गहिँ अविद्याणहो ।

खन्नयनिहिलाहु तं तस लाहु वच्चइ वयणपमाणहो ॥१९॥ १५

२०

याणुयनिहाणदिदृंतकहा
उज्जेणिहिं अत्थि अलच्छिवः
सो एक्कहिं वासरं पत्तियण
अदरंघलया मग्गेवि जणु
तुहुं पर नवसुडु करेहि छणु
निल्लज्जु निरज्जमु पउररिमु
किं पडं जीवते नीसरहि
निमुणेप्पिणु भामिणिवयणगड
जंतहो उम्मूलियपायवहो
सिरच्छित्तरत्तओहलियतणु

आहासमि लोयपसिद्ध जहा ।
दिउ विण्हुदत्तु अनयणपसर ।
गरहिउ कव्वाडविरत्तियण ।
आणहिं कुडुवनिव्वाहघणु ।
मेल्लिवि नउ जाहि कहिं वि भवणु । ५
कम्मेण केण तुहुं किउ पुरिसु ।
जाजाहि जमाणे पइसरहि ।
निग्गउ घराउ कयमरणमइ ।
अविभडिउ खंडु भालम्मि तहो ।
छज्जइ न उययमाणु तवणु । १०

घत्ता—दूसिउ दोसेण कम्मवसेण भउ आलोयणु भल्लउ ।

जा जोयइ पामु ता तले तामु नियइ निहाणउ दुल्लउ ॥ २० ॥

२१

अहिमारो मरणहो चल्लियउ
सिरवेहिं रहिरुग्गालु कहिं
अह पुण्णहिं सव्वु वि संपडइ
दारुणु अरिचक्कु वि उवसमड
जलियग्गि वि जायइ सीयलउ
तं लेवि महाहरिसहो भरिउ
सनिहाणु सलोयणु निग्रवि वरु
वणवंतहो पेसलु सयलु जणु
तं निग्रवि सलोयणु लद्धघणु
कलहेप्पिणु सयल वि वियलगइ
महि ढंडोलंत भर्मत गया
जेमंवहो लोयणलाहु तहो

कहिं खडु तेण सिरि सल्लियउ ।
कहिं दिट्ठिलाहु निहिलाहु कहिं ।
जं ण घडइ त पि हु सघडइ ।
विसु अमियरसायणु परिणवइ ।
सुकिय सव्वत्थ वि सोहलउ । ५
गउ गेहहो विण्हुदत्तु तुरिउ ।
किउ आयर सोमिल्लाण वरु ।
वणहीणहो सयणु वि दुव्वयणु ।
चित्तिउ अवरघलजुवइजणु ।
निद्धाडिय लोहिं निययपइ । १०
ते गडुं विहडु पडेवि मया ।
फुडु तेम समाहि अणायमहो ।

घत्ता—जाणेप्पिणु एउ जणियविवेउ जइणागमु भाविज्जइ ।

सिरिचदपहूइ पुज्जविहूइ जं समाहि पाविज्जइ ॥ २१ ॥

विवहरसविसाले णेयकोउहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥ १५

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोमे सुन्दरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।

पढमो पीडियनामो अहियारो य समत्तो त्ति ॥

॥ सवि १ ॥

संधि २

१

सम्मत्तादीचारा सका कखा तहेव विदिगिच्छा ।

परदिट्ठीण पससा अणायदणसेवणा चेव ॥ (भ० अ० ४४)

सम्यक्त्वस्य अतीचारा । के ते ? शङ्खादय । शङ्खा आप्तागमार्थगुरुधर्मादिषु सन्देह । काङ्क्षा स्वस्यागामिभोगाभिलाष । विदिगिच्छा विरूपकमिदमिति घृणा । परदिट्ठीणपसंसा मिथ्याद्गृप्रशसनम् अनायतनसेवा अन्यदेवादीना सानुकूलता । एतेऽतिचारा इति । ५

विग्घविणासणु भुवणगुरु पणवेप्पिणु देउ निरजणु ।
सपइ समदसणहो दोसहँ करमि पउजणु ॥

सिरिरायगेहि उरि अत्थि सेट्ठि
एक्कहिँ दिणि सो विंभियमणेण
पव्वेसु पवच्चह निच्चमेव
भासइ वर्णिदु भो सोमदत्त
वण्णतरि पुव्वमुरेण चारु
घोरोवसग्गसहणाउ गुज्जु
ता णागणिगणपहभासुराई
विणिवारियकुगइभवतराई
तहिँ वदहँ नयणाणदिराई
वणिवयणु सुणेप्पिणु दियवरेण

जिणदासु जणियजिणधम्मदिट्ठि ।
विणएण भणिउ घरवभणेण ।
कहिँ तुम्ह नहगणि जेम देव । १०
आयण्णाहि पुत्त पवित्तभत्त ।
तुट्ठेण समित्ते गयणचारु ।
ससिद्धु समप्पिउ मतु मज्झु ।
अणवरयपणयदेवासुराई ।
अकयाई कयाई निरतराई । १५
हउँ जामि तेण जिणमदिराई ।
बोल्लिउ विज्जागहणायरेण ।

घत्ता—सो परमक्खरु म तुमहँ पहु देहि पसाउ करेप्पिणु ।

जिण जइवर तुम्हेहिँ सहुँ वदामि जेम जाएप्पिणु ॥ १ ॥

२

पभणइ वर्णिदु सजणियचोज्ज
साहहँ सावरहँ दुहेण जाइ
तुह वयणँ जइ पाणावसाणु
निट्ठा हु निएप्पिणु कहइ तामु
काळण पढमु छट्ठोववामु
उद्धाणणु तलि नवनिसियघारु

पुण्णेण लद्ध मइँ सिद्ध विज्ज ।
तीसत्तहँ सत्तहँ सुगइ नाइ ।
कहि करेमि तो वि साहणविहाणु ।
विज्जासाहणविहि अरुहयासु ।
पिउवणँ गिरिसिरि वडपायवामु । ५
असिकोततिसूलपहूड चारु ।

ठविऊण पयत्ते पहरणोहु
 अट्ठुत्तरपायसएँ समाणु
 बधिवि करेवि पूयाविहाणु
 लोयगनिवासु पईसरेवि
 थिरु पलियकेण वईसरेवि
 असिदुहिय सहत्थेणुद्धरेवि
 विद्धइ एक्केक्कउ तासु पाउ
 ता सिज्झइ मतु नहग्गजाणु

दिसि दिसि एक्केक्कु पयडु गोहु ।
 साहहि सिक्कउ सउ लबमाणु ।
 भूयदिणि भूयविग्घावसाणु ।
 सिक्कम्मि य तम्मि पईसरेवि । १०
 मदरधीरत्तु वईसरेवि ।
 अरहतनमोक्कारुच्चरेवि ।
 जा ण हवइ अज्ज वि भूमिजाउ ।
 इयरहँ नउ केमवि सिद्धि जाणु ।

घत्ता—ईसि हसेप्पिणु ता भणिउ वणिवयणु सुणेप्पिणु विप्पे । १५
 अवरु वि करमि किमेत्तिएण उवएसहि काई वियप्पे ॥ २ ॥

३

पेक्खेप्पिणु तासु अईवगाहु
 किउ तेण समग्गु वि त विहाणु
 जारुहइ रुहइ पुणु पुणु वि जाइ
 तहिँ एवजणचोरेण दिट्ठु
 नीसेसु आइमज्झावसाणु
 सभवइ अससउ एउ सव्वु
 इय चित्तिवि मग्गिउ मतु मित्त
 विहिवसिण विहिउ कि पि वि ण खेउ
 थिउ भद्दपुत्तु साहसु नियतु
 सहसत्ति वडेप्पिणु ढुँकु रोहु
 हेलाए सव्वु नामकएण

उवएसिउ मतु नहावगाहु ।
 पाणेण निएप्पिणु भाविहाणु ।
 नावइ कइ फललोहाणुजाइ ।
 पुच्छिउ निमित्तु तेणोवदिट्ठु ।
 चित्तइ मणि परदव्वावसाणु । ५
 न चवइ असच्चु सो साहु भव्वु ।
 दिज्जउ महँ सुहिसयचत्तमित्त ।
 किउ तेण तम्मि विज्जाणे खेउ ।
 चोरेण वि अवगणिणउ नियतु ।
 उच्चारिवि मतु सुहकरोहु । १०
 कत्तरिउ सिक्कु नीसकएण ।

घत्ता—आवेप्पिणु सो अद्धवहे निवडतु धरेप्पिणु विज्जए ।
 कि किज्जउ दे आएसु पहु विन्नविउ सुरासुरपुज्जए ॥ ३ ॥

४

जाणेवि तेण सब्भावसेवि
 सुरसेलि सयभुजिणालयाई
 ता सुहडु लेवि लाइउ निखेउ
 देवाहिवकयपवरच्चणाई
 अणवरयगेयतूरारवाई
 जयजयपभणतसुरासुराई

पच्चक्ख निएप्पिणु भणिय देवि ।
 दक्खालहि नेवि सुहालयाई ।
 आयासि विहिउ विज्जाए वेउ ।
 विरइयसुरकामिणिनच्चणाई ।
 उप्पाइयसुयणमणुच्छवाई । ५
 सुदरसरीरभाभासुराई ।

निडुहियचउग्गइकाणणाई
केण वि कयावि न कयाई जाई
पडुयवणि सउमणसम्मि जेम
आणिउ सिरिभट्टासालनामि

चउमु वि दिसासु चउराणणाई ।
जिणविवई जिणभवणाई ताई ।
नदणवण वदावेवि तेम ।
उज्जाणि जइणभवणे हिरामि । १०

घत्ता—तत्थ नमतहो देउ तहो सुहमइ आणम्मि निविट्टउ ।

देवदिसिहि सव्वणहुघरो दिट्ठीवहि सेट्ठि पइट्टउ ॥ ४ ॥

५

ता झत्ति पदक्खिण देवि आसु
गुरु तुहुँ महु हउँ तव तणउ सीमु
ता काउस्सग्गु मुएवि तेण
कह गुरुविणेयसवधु केम
सिरिविजयनयरि अरिमथु राउ
दुल्ललिउ ललिउ नामेण पुत्तु
अयरिसकरणजणु कहिमि नाउ
जाणेवि जणेरेँ दुट्टभाउ
सो हउँ जणदव्वु हरतु जाम
अजणसुदरिवेसाए वुत्तु
जइ छिण्णिवि णिवसम्माणियाहे
निसि निववहुकठहुँ लेवि हारु
तत्तेएँ असिवरफरकरेहिँ

विन्नविउ नवेप्पिणु अरुहयासु ।
दरिसावहि पहु धम्मोवएसु ।
पुच्छिज्जइ वणिजणणायगेण ।
आहासइ सो पुणु वित्तु जेम ।
सुदरि महएविहे तेण जाउ । ५
वहुखुद्दविज्जदुव्वसणभुत्तु ।
सो तेणजणयेणो त्ति णाउ ।
नीसारिउ रायगिहे समाउ ।
तहिँ अच्छमि एक्कहिँ दियहे ताम ।
तो तुहुँ महु निच्छउ होहि कंतु । १०
वरहारु समप्पहि राणियाहे ।
निग्गउ राउलहो सवेयचारु ।
निग्गंतु नियच्छिउ तलवरेहिँ ।

घत्ता—हुउ कोलाहलु अइवहुलु नरवडपाडक्कसहासहिँ ।

अच्छोडियसरघोरणिहिँ सदाणिउ चउहिँमि पासहिँ ॥ ५ ॥ १५

६

ता चित्तिउ णिग्गमणह उवाउ
सारेविणु पेसणु गहियमोस
एत्तहिँ वि देहिदेहावसाणु
तहिँ जामि भमतु भमंतु जाम
वडविडविमूलि नाणापयारु
कयअट्टविहच्चणु आउहोहु
माहाए पउरपायहिँ समाणु
पुणु पुणु नरु एक्कु महीरुहग्गु

अट्टसणु हारु मुएवि जाउ ।
गय सुहउ नियत्तिवि घरु सतोस ।
पुरवाहिरि जहिँ भीसणु मसाणु ।
गिरिसिहरे नियच्छमि चोज्जु ताम ।
उट्टाणणु धरिउ फुरंतधारु । ५
एक्केक्कदिसाए दिसाए जोहु ।
विणिवट्टउ सिक्कउ लवमाणु ।
उत्तरइ चउइ णावड पवगु ।

घत्ता—सो तेहावत्थाप्र मडँ आलोप्रवि विभियचित्ते ।

किमिउ किमत्ये किं करिउ पुच्छिउ कह सन्वु पयत्ते ॥ ६ ॥

१०

७

पयासिउ तेण जयम्मि पयासु
स सावउ सव्वगुणोहनिवासु
तिणा महुँ अक्खिउ एउ विहाणु
निएवि अहो हउँ पाणवसाणु
वणीसहुँ केम वि वोल्लु असच्चु
महामइ धम्मपरो समभावि
विचित्तिवि एउ मणम्मि वि जाइ
पयच्छहि तो महुँ मतुवएमु
तओ लहुमेव समप्पिउ तेण
विसिप्पिणु सिक्कए सक मुएवि
तिवारउ मतु महतु भणेवि
नभोगइ साहिय विज्ज तुरंति

इहत्थि वणिट्टु परो जिणदासु ।

अमच्चु सया हउँ वभणु तासु ।

विइण्णिउ मतु नहगणजाणु ।

पकपमि^१ भाउय साहयमाणु ।

हवेइ अससउ तो महु मच्चु^२ ।

५

न सेट्ठि असच्चु चवेइ कया वि ।

पउत्तु मया जइ वीहहि भाड ।

करेमि वियाणमि जेणं विसेसु ।

मया वि पडिच्छिउ एयमणेण ।

करेण क्वाणसुया सिय लेवि ।

१०

समग्गु वि त सहसत्ति लुणेवि ।

समागय पेसणु देहि भणति ।

घत्ता—भणिय सुरिदगिरिदं मडँ वदावहि नेवि जिणालय ।

सुरसुदरि सव्वायरेण दक्खालहि जिणदासहो पय ॥ ७ ॥

८

पडुयवणि पडुयपडुरीउ
नदणवणि आणदियतिलोउ
वंदाविवि देउ दयानिवासु
हुउ गुरुविणयेसवधु एव
तिह करहि सामि सव्वोवयारि
ता तत्थायउ तवसिरिनिकेउ
जाणिप्पिणु [ते तहो] कम्महाणि
कडलासे सेलि सिलेसि जाउ

सउमणसि सुमणसिमहासिरीउ ।

सिरिभद्दासालि मुभद् जोउ ।

एत्थाणिउ विज्जए तुज्झ पासु ।

एवहिँ सभवइ परत्थु जेव ।

देवावहि तउ ओ दुक्खहारि ।

५

चारणमुणि दमवरनामधेउ ।

[मुण्णिदक्ख दिन्न दुक्खावसाणि ।]

हुउ उभयभट्ठु वभणु वराउ ।

घत्ता—एउ वियाणिवि देवगुरुधम्मायमि ससयचत्तउ ।

जो होसइ सो भव्वयणु पावेसइ मोक्खु महतउ ॥ ८ ॥

१०

९

सपड सकखणिककखभेउ
 सव्वासुहवज्जिण सुहपएसि
 तहिँ पयपकयरविमयगहत्थि'
 पिय कयणमाल मयणग्गिजाल
 जसहर-विस्सभर-नामधार
 दट्ठण एत पहुपुत्त^३ दो वि
 बहुखडखीर घयपूर साय
 तद्धिन्नाहरणफुरतकाय
 भोयणकत्तारु कणिट्ठु सुट्ठु
 मुउ मूढु विसूइण मदभाउ
 ताएण वि कयसंतोसभाउ
 डयरु वि निएवि मुउ हुउ विराउ
 साकखु सया सम्मत्तहीणु

आहासमि दुग्गइसुगइहेउ ।
 पट्टणु उज्जेणि अवतिदेसि ।
 विस्सभरु वरु नरनाहु अत्थि ।
 मुय विन्नि ताहे भुयवलविसाल ।
 एक्कहिँ दिणे गय गोउलु कुमार । ५
 मिहरेण सनिलयहो निय नवेवि ।
 भु जाविय पडिवत्तीण भाय ।
 ससहाय सघरु अवरणिह आय ।
 पुणरवि जेमेप्पिणु हुउ तिचिट्ठु ।
 अवरहो वि सतण्हहो एहु नाउ । १०
 किउ राउ पससिउ पढमु जाउ ।
 पव्वइउ करेप्पिणु सव्वचाउ ।
 परिभमइ घोरससारं दीणु ।

घत्ता—डय जाणेवि जो कख मणे तिविह वि तिविहेण मुएसड ।

सो छड्ढिवि सव्वावयउ सासयसुहभायणु होसड ॥ ९ ॥ १५

१०

अवरु वि उज्जेणिहि गयणचदु
 दुविहारिवग्गसंजणियतासु
 अतरदीवाहिउ परममित्तु
 नहसुदरिकतहे तहो सनाम
 मुउ'काले जते गयणसूरु
 आयणिवि मित्तु परोक्खु हूउ
 हक्कारिवि वेवि वयससूणु
 आलोणवि आलिगिवि भरेण
 दुव्वारवयरिकुलकालदडु
 हा गयणाडच्च नरिदभीह

नूवु अत्थि नियन्नयगयणचदु ।
 आयासलच्छि महएवि तासु ।
 नामेण नरेसरु गयणमित्तु ।
 उप्पन्न पुत्त जयविजय नाम ।
 जण नत्थि कयतहो को वि सूरु । ५
 दुहु जाउ गयणचदहु पहूउ ।
 आणिय घरु सव्व वि रूवसूणु ।
 कय सजल नयण विस्सभरेण ।
 हा गउ महु दाहिणु वाहुदडु ।
 जणवल्लह सत्तुकरिदसीह । १०

घत्ता—एवविहु सोएवि वहु सम्माणिवि पउरपसाएँ ।

भुजाविज्ज विसन्न मुय सूयारु पउत्तउ राएँ ॥ १० ॥

६ १ गलत्थि । २ पत्त ।

१०. १ मुय ।

११

पडिवत्तिप्र पहुपेसणपरेण
 सयणत्थु भणह ता निसिहिँ जेट्ठु
 थरथरथरेड परिभमइ अगु
 लहुएणाउच्छिउ किं निमित्तु
 किं पइँ नेहउ निववयणु सुणिउ
 विसमिस्साहारु विसन्नु भाय
 विजएण भणिउ तउ जइ विसन्नु
 भन्नइ विसन्नु न विसेण जुत्तु

भु जाविय ते भोयणकरेण ।
 सजाय जीह महु जड्ड सुट्ठु ।
 अच्छीहिँ न पेच्छमि किं पि चंगु ।
 खलियक्खरु भासइ सघिणचित्तु ।
 दिज्जसु विसन्नु सूयारु भणिउ । ५
 मज्जेरिस तेणावत्थ जाय ।
 ता होइ सरुवु न महुँ किमन्नु ।
 आहारु मणोज्जु विसन्नचत्तु ।

भणिद च-विपान्नमिव भोक्तृणा श्रुतिरन्या न रोचते इति ।

जाणेवि एउ विदिगिँछभाउ
 इय वारिज्जतु वि मन्नमाणु
 दुग्गइहे मरेप्पिणु अट्टजाणु
 इयरो वि पससिउ पत्थिवेण
 कालेण दुविहविदिगिँछसुद्धि

परिहरहि कयायर जणियताउ । १०
 विसमिदि आहारु दुगु छमाणु ।
 गउ गयणसूरनदणु पहाणु ।
 पुज्जेविणु पेसिउ सपउ तेण ।
 सो गउ मरेवि सव्वत्थसिद्धि ।

घत्ता—इहभवे जीविउ रज्जु सुहु परभवे देउ अणुत्तरु । १५

नोविदिगेछे पावियउ इयरेण वि दुक्खु निरतरु ॥ ११ ॥

१२

दूरज्जिभयमिच्छामयवियारु
 विज्जाहरु सावउ एककु कांवि
 सचल्लिउ वदणहत्तिहेउ
 सपत्तउ दाहिणमहुरे विट्ठु
 तप्पायमूलि गयभवरिणाइँ
 विन्नविउ नवेप्पिणु भुवणसेव
 ता मुणिणा भणिउ महामईहिँ
 वदण वि मुणिदहो सुव्वयासु
 किं कारणु साहुहुँ साहु ताहँ
 इय तेण विचित्तिवि किउ तिखुत्तु

निसुणह अमूढमरागुणवियारु ।
 आयासमग्गि एककगु होवि ।
 वदतु महामुणि अरुहएउ ।
 मुणिगुत्तु नमसिउ मुणिवरिट्ठु ।
 अच्छेवि तेण कयवइ दिणाइँ । ५
 जाएसमि उत्तरमहुर देव ।
 आसीस कहेज्जसु रेवईहिँ ।
 त निसुणिवि विभउ हूउ तासु ।
 इयरहँ गुरु नामु न लेई ताहँ ।
 पुणु पुणु वि जईसे त जि वुत्तु । १०

घत्ता—त निसुणोप्पिणु सावण्ण विहसेप्पिणु भणिउ भडारउ ।

को गुणु तहे पहु पसियउ जेणासीवाउ तिवारउ ॥ १२ ॥

१३

एयारहगसुयसायरासु
नीसेसवत्वुससयहरामु
दुद्धरपरिपालियसजमामु
कि वदणाप्र कि पि वि न तासु
निमुणेप्पिणु भासिउ भावयासु
भो अभवसिद्धि मिच्छोदएण
सम्म सदहइ न जइणसुत्तु
साविय वि सव्वसदेहचत्त
सम्मत्तमुद्ध निम्मल मणेण
मुणिवयणु सुणिवि किचि वि सखेउ
पेच्छह तवसीण वि रायदेसु
अह एण वियप्पे कि किएण
इय चितिवि गउ नहे पवणवेउ

वच्छल्लमहागुणसायरासु ।
पव्वडयहो सपइ गणहरासु ।
भवसेणानाममुणिएणुवासु ।
पट्टवह साहु सवाहिवासु ।
पभणइ मुणिएण परमावहिपयासु । ५
वामोहिउ भो मोहियजएण ।
तहो तेण पणामु ण होइ जुत्तु ।
कुच्छियगुरुदेवायमविरत्त ।
तहे पेसिउ आसीवाउ तेण ।
चितइ मणिएण खयरु न घडइ एउ । १०
ज साविय वर किय मुणिकुलेसु ।
गुणगुरु भुवणयलि ससकिएण ।
सपत्तउ त पुरु पउरकेउ ।

घत्ता—ता तहिँ तेण विउव्वियइँ बभाइयदेवहँ रूवइँ ।

विज्जपहावे चउदिसहिँ जणवयमणविभयभूयइँ ॥ १३ ॥ १५

१४

पयडीकरतु नियनियविहोउ
अन्नहिँ दिणिएण किउ अरहतवेसु
भवसेणु सव्वसघे समेउ
ससारमहादुहदाइयाहँ
वाणारसिरायहो तणउ पुत्तु
नव विणुहु रुद्ध एयारसेव
तित्थयर ते वि चउवीस सामि
निच्छउ माथाविउ को वि एहु
इय भणिएणि न गइय विवेयखाणिएण

गउ भत्तिहरिसवसु सव्वु लोउ ।
तहो वदणाप्र अमुणिय विसेसु ।
गउ जाणिएणुण तित्थयरदेउ ।
दट्टव्वु काइँ रुद्धाइयाहँ ।
जो वभु सो हु काले समत्तु । ५
ते काले कवलिय सावलेव ।
गय मोक्खहो सव्वदुहोवसामि ।
जणमणहो जेण सजणिएण खोहु ।
थिय रेवइ रेविवि लोयवाणिएण ।

घत्ता—ता तहिँ अवसरि खेयरेण विभियमणेण चित्तिज्जइ । १०

वामोहिउ जणु सयलो वि मइँ पर तो वि न तहे मणु भिज्जइ ॥ १४ ॥

१५

महरिसि वि समागय वीयराय
लइ ऋरमि को वि अज्ज वि उवाउ

पर एकक ण वरुणनरिदजाय ।
परियाणामि जे तहिँ तणउ भाउ ।

इय चित्तेप्पिणु अइयत्तु जाउ
 रेवइघरपवलिसमीवभाए
 कोवीराकमडलपिच्छजुत्तु
 आवतु सतु अक्खुडिवि पडिउ
 त वयणु सुरोप्पिणु रेवइए
 आणिवि उवयारु करेवि जोग्गु
 तेरा वि नीसेसु समच्छरेण
 आयरिसिउ असणु अमगलेरा

थिउ निवडिऊण वियरालकाउ ।
 ता कहिय वत्त केणावि माए ।
 को वि धम्मपुत्तु मुच्छाए भुत्तु । ५
 अच्छइ दुवारि कोढेरा सडिउ ।
 गतूरा तेत्थु सुदरमईए ।
 सइँ दिण्णउ भोयणु विगयरोगु ।
 न वक्कगएणा सणिच्छरेण ।
 जलु साइगएणा व मगलेरा । १०

घत्ता—नवमेहेण व उव्वमिउ त सयलु तेण सकसाएँ ।

ताए करेहिँ पडिच्छियउ नावइ अउदायणु राएँ ॥ १५ ॥

१६

सावियहिँ निएप्पिणु सुद्धु भाउ
 कयइच्छाकारे तेरा ताहे
 गुरुआसीवाउ कहिउ भवेरा
 तुहुँ का वि महासइ समयदेवि
 वित्ततु समग्गु वि निउ कहेवि
 जाइवि खत्तियगुह गुणनिहाणु
 वदरा कहेवि जहजोग्गु तासु
 भवसेरापासु गउ वडुउ होवि
 नियपायपओरुहपरायगत्तु
 पुच्छिउ को तुहुँ कहिँ होतु आउ

विज्जाहरू नियरुवेण जाउ ।
 वदाविवि देउ सुहासयाहे ।
 ताए वि नविवि लइयउ सिरेण ।
 गयससयसय एव थुरोवि ।
 सदेहु निहिललोयहो सहेवि । ५
 पणवेप्पिणु सुव्वउ मुणपहाणु ।
 वच्छल्लु निएप्पिणु सुहपयासु ।
 तहिँ अवसरि बाहरु चलिउ सो वि ।
 मुणिराणा वि मुणोवि अउव्वु पत्तु ।
 त निसुणिवि भासइ सो समाउ । १०

घत्ता—भइपुराविवसत हउँ विज्जत्थिउ बहुविज्जेसर ।

सुणिवि कित्ति कचीपुरहो तुह पासु आउ परमेसर ॥ १६ ॥

१७

पडिगाहिउ एव भरांतु तेरा
 बहुएणा वि विणएणणुसरेवि
 थोवतरु जाएप्पिणु समेउ
 सव्वत्थ वि मग्गु निरतरेहिँ
 अप्पासुयपहु पेच्छिवि नियत्तु
 किं कारणु पहु वाहुडिय जत्त

नावइ अणत्थु अमुणियमणेण ।
 मग्गेवि कमडलु करि करेवि ।
 वेउव्विउ तासु परिक्खहेउ ।
 सच्छण्णउ कयउ तणकुरेहिँ ।
 छुडु ता नवल्लसीसे पयत्तु । ५
 आहासइ मुणि सुणि विणयवत ।

हरियकुरु जीवाणुवरि वुत्तु
भासइ दिउ जइ ए जीव होति
पच्चक्खपमारिण किमारिसेण

आयमि न जाण जइवरहँ जुत्तु ।
तो किं न चलति न चत्तवलंति ।
करि कंकणे व किं आग्गिसेण ।

घत्ता—तहो वयणेण अयाणमणु आयमुत्तु न पमाणु करतउ । १०
नाइँ वि सचूरतु गउ काणणतरु कग्गिर्व व पमत्तउ' ॥ १७ ॥

१८

अग्गए गतूण विमुद्धवुद्धि
इयरेण वि तक्खणि किय धरित्ति
विज्जाए करेप्पिणु तोयनासु
जा जोयइ ता तहिँ नत्थि अप्पु
मुणिसन्न निएप्पिणु भणइ घुत्तु
तुम्हइँ मुएवि गउ कहिमि नेव
पुणरवि वियडिहिँ कय सन्न तेण
हउँ सन्न न वुज्जमि मूढभाउ
किं मोणे संदेहावहेण
आणहि कयपयडिमलावसाणु

स वड्डु करेवइँ कायमुद्धि ।
भप्पोवलवियडिविहीण अत्ति ।
मग्गतहो कुडिय दिन्न तामु ।
सन्नाए समोणे भणिउ विप्पु ।
कर जोडिवि मायाभट्टपुत्तु । ५
मइँ काइँ कियउ सलिलेण देव ।
वुच्चइ जाणतेण वि दिएण ।
वयणेण पयासह करमि साउ ।
ता वोल्लिज्जए मिच्छावहेण ।
इट्टालु रक्ख अह सुक्कछाणु । १०

घत्ता—आलु पलोएवि चउदिसउ विप्पेणावेवि पउत्तउ ।
मइँ सव्वु वि पहु जोडयउ पर किं पि न व्दिट्ठु निरत्तउ ॥ १८ ॥

१९

किं अन्ने एँ निम्मलेण
किज्जउ सउच्चु ता भणइ साहु
फसणेण सरीरहो ते मरति
जइ अत्थि वि तो दीसहिँ न काइँ
सयमेव तत्थि जाएवि जाम
सव्वण्हुवयणु अवगणिणुण
अप्पामुयपुहइए नइजलेण
भवसेणु भणेवि अब्भवसेणु
गउ कचीपुरु मुणिगुत्तपासु

वरमट्टियाए जमुणाजलेण ।
एत्थत्थि पउरजीवावगाहु ।
कज्जेण तेण जइ परिहरति ।
आयणिवि वड्डुयपयपियाइँ ।
आलोइय नियइ न किं पि ताम । ५
तहो भणिउ सव्वु मणि मन्निऊण ।
किउ सउच्चु तेण सहसा जलेण ।
खेयर परवित्तसहावथेणु ।
पणवेवि निवेइय वत्त तामु ।

घत्ता—जइ देवायलु सचलइ पच्छिमेण उग्गमइ दिवायर । १०
तो पहु तुम्ह वाणि चलइ अहवा जइ सूसइ सायर ॥ १९ ॥

१७. १ करि व पमत्तउ ।

२०

तहविहु बहुअलियवियप्पजोउ
 जो तुम्हहँ वयणु सुणेवि हूउ
 देदेहि तासु पच्छित्तु करमि
 भवियव्वु वियाणिवि तेण तासु
 चिरयालु करेप्पिणु परमनिट्ट
 गउ बभलोउ देवरिसि जाउ
 दमवरमुणिपाय नवेवि साहु
 रेवइ वि गपि करहाडदेसि
 दुद्धरु तउ करिवि विमुक्कपाव

पत्तियइ न केमवि मूढलोउ ।
 परिणामु मज्झ सामिय विरूउ ।
 परमत्थपथु तउ तिब्बु चरमि ।
 तउ दिन्नु दुक्खसदोहनासु ।
 निन्नासिवि तासिवि दूरि तिट्ट । ५
 एत्तहे खेयरवरु वरुणराउ ।
 सजायउ सुहसीलबुवाहु ।
 तवसिणिय हूय मुणिगुत्तपासि ।
 सभूय सुरिंदु अमूढभाव ।

घत्ता—एउ वियाणिवि परसमग्र जो जिउ परिणामु चएसइ । १०
 सो सुरेदु सिरिचदजसु होएप्पिणु अखउ हवेसइ ॥ २० ॥

विवहरसविसाले णेय कोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
 भुवणविदिदणामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतीसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।
 दसणदोसवियारो वीओ सधी समत्तो य ॥ १५

॥ सधि २ ॥

संधि ३

१

उवगूहण ठिदिकरण वच्छल्ल पहावणा गुणा भणिदा ।

सम्मत्तविसोहीए उवगूहणकारया चदुरो ॥ [भ० आ० ४५]

दर्शनोद्वाहप्रगमनमुपगूहनम् । व्रतभ्रष्टस्य नानादृष्टान्तोपायै पुनस्तत्रैवावस्थापनं
स्थितिकरणम् । सधर्माणा घोरोऽसर्गारोगातङ्कादिषु प्रतीकारकरणं वात्मल्यम् । यथाशक्ति
व्रतपूजादानादिभिरर्हदर्शनोद्योतन प्रकाशनम् प्रभावना । एते चत्वारोऽपि उपगूहन-कारका ५
रक्षाहेतव । कस्या ? सम्मत्तविसोधीए सम्यक्त्वविशुद्धः ।

ध्रुवक—अइयार पउत्त दुग्गडुक्खविणासणहो ।

गुण कहमि पहाण सम्म सम्मद्दसणहो ॥

ज पउत्तु पयणियजणसोसह

किउ जे जेमप्पउ आयासमि

पुप्फनयरि कयवइरिरहासहो

पुत्तु विसाहु मईए अनुच्छउ

सत्तदिणेषु गएसु सकते

तवज्जाणाणलहुयवम्मीसरु

गोउरि पविसमाणु पेक्खेविणु

घरु आणेप्पिणु पुज्ज करेप्पिणु

उवगूहणउ पयासणु दोसह ।

आयन्नह त तेम पयासमि ।

रायहो कतविसाहविसासहो ।

जायउ तासु विवाहमहुच्छउ ।

मडवि मडणविहिणाच्छते ।

वालमित्तु मुणिगुत्तु मुणीसरु ।

सहसुट्ठिप्पिणु ठाह भणेप्पिणु ।

पणवेप्पिणु वरभोयणु देप्पिणु ।

घत्ता—आउच्छिय तेण नववहुनेहवसगणण ।

सोमिल्ल व पुप्फ डाले आसिविसगणण' ॥१॥

२

वोलावेप्पिणु पिए थोवतरु

एव भणेवि मुणिहि अवलग्गउ

मुणि न भणइ सो केम नियत्तइ

केण वि भणिउ मित्तु मुणिगुत्तहो

ता तमेव तहो कारणु हूयउ

दूरुज्जियपमायविसयासउ

सुणिवि पियहो तववहुपरिणयणउ

आवमि लग्गउ मित्तमुणीसरु ।

धम्मालावहि दूरपह गउ ।

गय विन्नि वि तहिँ जहिँ रिसिसतइ ।

आउ तवत्थु एत्थ सुपवित्तहो ।

गुरुनामे पिहियासउ नूयउ ।

नियसरुवसनिहियसयासउ ।

कणयसिरिए ओहुल्लिउ' वयणउ' ।

१. १ आसिविणयंगणण ।

२. १ ओहुल्लिय ।

जइ हउँ तो कि कारणु अन्नप्र
अप्पउ असहतप्र सावत्तउ
रक्खसि सुहगइजणियविमद्दे

चित्ति वि एउ-समुज्जलवन्नप्र ।
परमुद्देएँ कक्करि घित्तउ ।
हुय मिच्छामरणेण रउद्दे ।

१०

घत्ता—दूरुज्झउ तेण मिच्छामरणु जिणायमप्र ।

विहरतु मुणिदु कहिमि काले सो दिट्ठु तप्र ॥२॥

३

वुज्झउ वोहे पुव्वभवतरु
निट्ठुरु निद्दयमणु निल्लक्खणु
सो जिह उवहसिऊण पणट्ठउ
एव विचित्तिवि एयविहारिहिँ
सा [हु] हयास हिमाचलधीरहो
भोयणकालि कसायकयतहो
करइ उवद्दउ लज्जइ जे वणु
काले जते दुक्कियसवरु

परियाणिउ एसो सो महु वरु ।
कुलपरिहासहीणु अवियक्खणु ।
एवहिँ कहिँ महु वच्चइ दिट्ठउ ।
मुणिसीहहो गय मासाहारिहिँ ।
दूसहभुक्खाखामसरीरहो ।
लिंगवियारमिसेण सया तहो ।
नियवि विविज्जइ कयजणजेवणु^३ ।
जाउ तयट्ठियसेसु दियवरु ।

५

घत्ता—सो एकदिणम्मि विहरमाणु सच्छदगइ ।

चरियाप्र पइट्ठु रायगेहु पुरु धीरमइ ॥३॥

१०

४

तहिँ भोयणु पउत्तविहिपुण्णप्र
चिरभववेरिणीप्र वेउव्विउ
त निएवि उड्डाहाभीयप्र
मुणि आसाइयतवसिरिसाइउ
भुत्तु निरतरु कुगइनिरोहणु
देवेहिँ साहुक्कारिय राणी
साहू विय अईवनिव्विन्नउ
सुक्कज्झाण विसेवि विचित्तउ
देवागमणु दूउ मइवतप्र
किउ उवसग्गु केण कि कारणु
आइ मज्झु अवसाणु न रक्खिउ

चेल्लणमहएवीप्र विइन्नप्र ।
लिंगवियारु तासु सहसा किउ ।
चेडयनामनराहिवधीयप्र ।
चउदिसु कडवडे पच्छाइउ ।
एव करइ को किर उवगूहणु ।
तिहुयणविक्खाणी मुणि जाणी ।
काणणे सच्चवाउ पडिवन्नउ ।
णाणु अणोवमु त सपत्तउ ।
पुच्छिउ जइवरु सेणियकत्तप्र ।
कहि सामिय गुरुससयवारणु ।
ता तेणावि सवइयरु अक्खिउ ।

५

१०

घत्ता—मुणिवयणु सुणेवि अट्टरउद्दाइसु विरउ ।

सजायउ लोउ दसणनाणचरित्तरउ ॥४॥

३. १ काइ । २° नेवणु ।

५

अवरु वि उवगूहणअक्खाणउ
 चउविहसुरनिकायमज्जत्थे
 मिच्छाधम्मकरिदमइदे
 धम्मस्सवण करते सते
 भूयलि राया सेणियसन्निउ
 त निसुणेवि असद्दहमाणउ
 निप्रवि नराहिउ एतु ससेणउ
 चामरवाहिहाणु विक्खायउ
 ता तहिँ मगहेसरु सपत्तउ
 गुरुहारज्जहे मीणप्पतउ
 मइँ दासे होतेणाहम्मउ

कहमि समुज्जियदोमुट्टाणउ ।

मुयनाणोहिनाणसामत्थे ।

ग्रणुरजणिप्र कहाप्र मुरिँदे ।

फेडियपुच्छयजणमणभते ।

दिढसम्मत्तु भणेप्पिणु वन्निउ । ५

एप्पिणु नहि चोडयसविमाणउ ।

मगसगेवरि कडिँडयमीणउ ।

मुरवरु जालहत्थु रिसि जायउ ।

जइ आलोप्रवि जालु धिवतउ ।

पणवेप्पिणु विणएण पउत्तउ । १०

जुज्जइ तुम्हइँ एउ न कम्मउ ।

घत्ता—जइ कज्जु भसेहिँ तो तुम्हइँ पासत्थ पहु ।

अच्छह होएवि हउँ सपाडमि मच्छवहु ॥५॥

६

वियाणिय निम्मलराउ मणेण
 धराहिउ एत्तियमेत्तहिँ चैव
 तओ विरईहे कराउ लएवि
 गओ मगहावइ गेहि नवेवि
 निएविणु तारिसु ताण विधम्मु
 मुणेवि वियडिँडण अन्नदिणम्मि
 सलेहदलाउ नियकधराहु
 विदिन्नउ सव्वहँ रायसुयाहँ
 नवेप्पिणु निव्विदिँगिँछमणेहिँ
 चडाविउ ताउ लएवि ससीसे

पउत्तु पवचु मुणिँदे तेण ।

पओयणु मीणहिँ अन्नहिँ नेव ।

करे अणिमेस सभिच्चहो देवि ।

विसज्जिउ सजउ सजइ वेवि ।

दुगुछइ लोउ दियंवरधम्मु । ५

णिदसणु सदरिसाविउ तम्मि ।

करेप्पिणु मुदुउ जीवणु ताहु ।

[पुरीसविलित्तउ कारिवि ताहँ]

करेवि कयजलि सव्वजणेहिँ ।

ससेहरे चपयवासविमीसे । १०

घत्ता—त निप्रवि णिवेण भणिय सव्वसामतवरे ।

मुदियउ कियाउ किँ तुम्हहिँ विरुयाउ सिरै ॥६॥

७

जियसत्तुचक्केण सुयसामिचक्केण
 एहम्म जीवस्स चैयणप्र तणु जेम
 त वयणु निसुणेवि कुलकुमुयचदेण
 जइ निहिलजियनाहजिणमुद्दधारस्स
 मइँ मुयवि विदिँगिँछ नवया किउ तासु

विणएण सलविउ सामंतचक्केण ।

सपुज्जणिज्जादिवदणिय फुडु तेम ।

विहसेवि ते भणिय सेणियनरिँदेण ।

गुरुविणयपुव्वेण मच्छधियेरस्स ।

ता तुम्ह किँ कारण करहु उवहासु । ५

ता तेहिं तं मन्नियं कयपणामेहिं
 तुहुं एककु पर धण्णु भो रायराएस
 निरवज्जु जयपुज्जु पर एककु जिणघम्मु
 तं सुणिदि आवेवि देवेण नरनियर
 वुत्तो सि तुहुं जारिसो देवराएण
 इय भणिवि पुज्जेवि वित्ततु अक्खेवि
 तं नियवि वित्ततु मिच्छत्ति पविरत्तु

मन्नाविओ सामिओ विहियसामेहिं ।
 जसु अच्लु मणु धम्मं कयपावविहेस ।
 दोसे असक्कस्स किं होइ नउ गम्मु ।
 मज्जे नृवो भणित्त हो भावितित्ययर ।
 अहिएण फुडु तारिसो घम्मराएण । १०
 गउ अमरु मुरलोउ तहो हारु वरु देवि ।
 मजाउ जणु सव्वु जिणसमए अणुरत्तु ।

घत्ता—अवरेण वि एव सासयमोवखुक्कांठिण्ण ।

कायव्वु सया वि उवगूहणु समयट्ठिण्ण ॥७॥

८

भासमि सच्चियमलसहरणहो
 रायगेहिं पहसाहियरायहो
 दंसणनाणचरित्तसमिद्धउ
 एयंवरु निसि पडिमाजोएँ
 तम्मि चय नयरम्मि सतासउ
 थंभणमोहणाइवहुविज्जउ
 साहसपउ बहुवसणाकंतउ
 एक्कहिं दियहिं जाम तहिं मदिरु
 ताम भज्ज पेच्छइ विच्छाई
 पुच्छिय मन्नावेवि वराणणि
 भासइ गणियासुवरि दुल्लह
 किंतुज्जाणवणम्मि महापहु
 हारु निएवि मज्ज उम्माहउ
 थिय पहेवि पिय तेणुद्वेएँ

निसुणह कह पवित्त ठिठिकरणहो ।
 वारिसेणु नुउ सेणियरायहो ।
 पालियपव्वोवासु पसिद्धउ ।
 अच्छइ पिउवणे पावविओएँ ।
 अत्थि चोट विज्जुच्चरनामउ । ५
 अंजणसिद्धु कयंतु व विज्जउ ।
 गणियासुंदरिगणियाकंतउ ।
 जाइ निसिहिं सो नयणाणदिरु ।
 विगयचदचद्विम न राई ।
 रट्टु ममोवरि काइँ अकारणि । १०
 नउ तुज्जुवरि कोहु महु वल्लह ।
 चिल्लणदेविहिं कंठि सुहावहु ।
 जाउव्विट्ठु भोयवणलाहउ ।
 ता धीरिय घण कयजणखेएँ ।

घत्ता—उट्ठुट्ठि देवि करि सिंगार चित्त हणहिं ।

किं एकके तेण अवरु वि आणमि जं भणहिं ॥८॥

१५

९

रंजिऊण भामिणीहिं
 अद्धरत्ति रायगेहु
 निग्गओ लएवि हारु
 नं कयंत वद्धकोह

चित्तु हंसगामिणीहिं ।
 गपि वट्ट लच्छिनेहु ।
 वुज्जिऊण पायचारु ।
 घाइया नरिदजोह ।

हारतेयमग्गि लग्ग
जे मसाणे हक्कमाण
काउसग्गि अच्चमाणु
तत्थ पावपक्खि सेणु
घल्लिरुण चट्हासु
न किलेमु सिद्धु कोवि
त निएवि हारु लेवि
तेहिं भासिय मुणेवि
पेसिया भडा भणेवि
दुट्टएण किं मुएण
किकरा सुणेवि वाणि
अत्ति एत्त त पएमु

तास मग्गया समग्ग । ५
वाणजालु मेल्लमाण ।
अप्पि अप्पु आयमाणु ।
पेच्चिरुण वारिसेणु ।
पायमूलि हारु तामु ।
सो थिओ अलक्खु होवि । १०
गपि सामिणो नवेवि ।
राडणा सिर धुणेवि ।
एहु तामु क लुणेवि ।
कुस्मुएण किं मुएण ।
पत्थिवस्स खग्गपाणि । १५
जत्थ सो विमुद्धलेमु ।

घत्ता—चउदिसु वेढिवि अकोलिउ सो तेहिं किह ।

रयणायग्ग्वेलजलकल्लोलेहिं सेलु जिह ॥९॥

१०

जाइं जाइं पहरणइं सरोसहिं
ताइं ताइं हाइवि सयवत्तइं
पुणु असिलट्ठि पमेल्लिय कठहो
सा वि मान्ण सजाय मुहिल्लिय
तहिं अवसरि नहि ददुहि वज्जिय
त सुणेवि कियपउरविसाएं
अच्चिरु तो वि नेव कुलमडणु
एक्कहिं वासरि पालियदिक्खहे
तत्थ फुफडालेण नियच्चिरु
भुजाविवि वोलावहुं मुणिवरु
रम्मपएससयाइं कहत्तउ
तो वि नियत्तहे भणइ न सजउ

मुक्कइं रायाएसे दासहिं ।
वम्मफलेण धरायलु पत्तइं ।
विज्जु व मेहिं गिरिउवकठहो ।
न तववहुग्र सयवरि घल्लिय ।
एवि सुरेहिं तासु पय पुज्जिय । ५
गपि पुत्तु मन्नाविउ राएँ ।
जाउ महारिसि कोहविहडणु ।
गामु पलासखेडु गउ भिक्खहे ।
वालसहाएँ यतु पडिच्चिरु ।
निग्गउ पिय पुच्छेप्पिणु दियवरु । १०
गउ दूरतहो पय पणवत्तउ ।
गय वेण्णि वि जण जहिं रिसिआसउ ।

घत्ता—केण वि तहिं वुत्तु वक्करेण गुणमणिखाणिहे ।

तवचरणहो [इत्थु आयउ]सहयरु वारिसेणमुणिहे ॥१०॥

११

त मुणेवि लज्जग्र पव्वइयउ
वारह वरिसइं महि विहरंतउ

अच्चिरु रइसभरणे लइयउ ।
समवसरणु समित्तु सपत्तउ ।

तत्थ नवेप्पिणु वीरजिणिदहो
धम्माहम्मु मुहानुहसगमु
जतहँ ताहँ लयाहरमडवि

वे वि वडट्टु मज्झि मुणिविदहो ।
आयण्णेविणु तउ कउ निग्गमु ।
गायउ केण वि सुरयणतडवि ।

५

तं जहा—मइल कुचेली दुम्मणा नाहे पव्वसिएण ।
किम जीवेसड धणिय धर डज्जती विरहेण ॥

मुणिवि एउ दियमुणि मणि सल्लिउ
चलमणु परियाणेप्पिणु धुत्ते
पुत्तु समित्तु एनु पेक्खेप्पिणु
नविवि परिक्खाहेउ रवन्नइँ
नीरायासणम्मि वडसेप्पिणु
लइ लइ एयउ मित्त सरज्जउ
किं भणु एक्कए ताए निहीणए
तं निमुणेवि मुट्ठु सो लज्जिउ
तहो दिवसहो लग्गिवि सजायउ

पियहे पासु नियगामहो चल्लिउ ।
निउ नियनयरहो भोलिवि मित्ते ।
सहसा अन्भुट्ठाणु करेप्पिणु । १०
चेल्लणाए आसणइँ विइण्णइँ ।
नियअतेउर कोक्कावेप्पिणु ।
भणिउ वारिसेणेण मणोज्जउ ।
वभणीए दोगच्चे खीणए ।
दिढमणु दुप्परिणामविवज्जिउ । १५
गुरुआलोयणत्तित्थे ण्हायउ ।

घत्ता—अवरेण वि एव चलचित्तहो दुक्कियहरणु ।

कायव्वु अवस्स पउरपउत्तिहि ठिदिकरणु ॥११॥

१२

भणिद च—

दसणचरणुवभट्टे जीवे दट्ठूण धम्मवुद्धीए ।

हिदमिदमवगूहिय ते खिप्प तत्तो णियत्तेज्जा ॥ [भ आ २६२]

आयण्णह वच्छल्लकहाणउ
मति चयारि तासु बलिआइय
एक्कहिँ वासरि तत्थाकपणु
सत्तहिँ रिसिसएहिँ परियरियउ
तत्थ निमित्तु किं पि अवधारिवि
कयदिढमोणुववासउ अच्छउ
होसइ थोरुवसगु मुणेप्पिणु
एक्कु चेय पर पच्छा एतउ
मुणि सुयसायरु गुरुउवइट्टउ

सिरि सिरिधम्मज्जेणिहे राणउ ।

वभण दुप्परिणामविराइय । ५

आउ महारिसि धम्मु व अप्पणु ।

गपि असोयवणे अवयरियउ ।

वारिउ सघु तेण हक्कारिवि ।

अज्जु कहिँ पि को वि मा गच्छउ ।

किउ सव्वहिँ गुरुवयणु नवेप्पिणु । १०

दीहरमग्गसमेणाकतउ ।

अमुणिवि पुरु चरियाए पइट्टउ ।

घत्ता—एत्तहे सउहयले सुहुँ अच्छते नाइँ कलि ।

जणु जतु निएवि पुच्छिउ सिरिधम्मेण बलि ॥१२॥

१३

एत्तिउ जणवउ हरिमुप्पेल्लिउ
भणइ मति कुललज्जविवज्जिय
थिय आवेप्पिणु जां तहु भत्तउ
भणिउ नरिदि मइँ वि निरुत्तउ
मते वुत्तु ताहँ को भासिउ
जइ सवणत्थु धम्मु तो पहु सुणु
ज वेएण वुत्तु त किज्जइ
भासिउ नरवरेण वेयत्तउ
सपइ सवणधम्मवहु केहउ
जाणेविणु सामिहिँ गमणागहु
जइ जाएसहुँ तेत्थु निरुत्तउ

घत्ता—मज्झत्ये नाह अच्चेवउ

जे णिउणवयणाइँ ते वाएँ

कहिँ अयालजत्तहे सचल्लिउ ।
नग्ग सवण उज्जाणि अपुज्जिय ।
सो जणु जाइ एह मइचत्तउ ।
गंपि मुणेवउ ताण पउत्तउ ।
मुणइ मुईसत्थहिँ सद्दसिउ । ५
धम्ममूलु वेएहिँ महागुणु ।
अण्णु सव्वु दूरेण चइज्जइ ।
निसुणिउ मइँ वागउ बहुत्तउ ।
सुणहुँ गपि तहिँ नीसदेहउ ।
भासइ सुत्तकठु मलसगहु । १०
तो एत्तिउ किज्जउ महु वुत्तउ ।

मोणेण पइँ ।

कायव्व मइँ ॥१३॥

१४

एम होउ भणिऊण नराहिउ
पय पणवेप्पिणु पुरउ निसन्नउ
ता दिएहिँ भासिउ भो रिसयहो
आगउ आसमगुरु सभासह
तो वि न किंपि को वि तहिँ वोल्लइ
नियवि निरुत्तर कयउवहासहिँ
सामिय ए पसु असुइ अमगल
रायसहाए किमुत्तर देसहुँ
एण भएण मुक्ख थिय ज्ञाणे
निसुणिवि ताण वयणु विरूयउ
सहसुट्टेप्पिणु जणमणरमणहो

घत्ता—गोउरहो समीवे सो सुयसायर साहु तउ ।

आलोएवि एंतु पुणु वि तेहिँ उवहासु कउ ॥१४॥

गउ तहिँ जहिँ ससघु सघाहिउ ।
आसीवाउ न केण वि दिन्नउ ।
तुम्हारासमे सामिउ विसयहो ।
नियसमयाओ धम्मु पयासह ।
गुरुसकेयवयणु मणि सल्लइ । ५
भासिउ चउहिँ मि तेहिँ हयासहिँ ।
एयहुँ वयणरयण कहिँ मगल ।
सहुँ विउसयणहिँ काइँ चवेसहुँ ।
जणमणरजणमायामोणे ।
राउ वि कि पि विलक्खीहूयउ । १०
चल्लिउ सहुँ सेणाए सभवणहो ।

१५

पेक्खु पेक्खु पहु खाएवि एतउ
निदावयणु मुणेवि मुणिदे
निच्छउ वंदणहत्तिए राणउ

अवर वइल्लु कहिँ पि वि होंतउ ।
चित्तिउ परवाइव्वमइदे ।
इ उ होतउ जहिँ सघपहाणउ ।

वायत्थीहिँ तत्थ अविणीयहिँ
 त न पयासिउ केण वि कज्जे
 अवरु वइल्लु नियच्छह एतउ
 जइवि वाउ असमाहिँहिँ कारणु
 उवसमेण उवसमइ कि दुज्जणु
 जइ अच्छमि सहेवि इय भासिउ
 राउ वि एउ मणेसइ तिच्छउ
 कि गुणसंपयाए तए किज्जइ

पुच्छिउ कि पि ह्वेसइ एयहिँ ।
 गुरुणा दूरविमुक्कावज्जे । ५
 तेणेयहिँ पहु एउ पउत्तउ ।
 करमि तो वि खलदप्पनिवारणु ।
 जाम न किज्जइ माणविहंजणु ।
 तो सव्वु वि मइँ कज्जु विणासिउ ।
 सासणु एयहँ बुद्धिए तुच्छउ । १०
 जाए ससमउ लहुत्तहो निज्जइ ।

वत्ता--इय चित्तेवि तेण साहुवाद वाएण दिय ।

फणि गारुडिएण मतेण व निदृप्प किय ॥१५॥

१६

मति निरुत्तर निएवि नरिदे
 जय परवाइतमोहदिवायर
 अन्नहो एह लील कहिँ छज्जइ
 जिणसासणु परेक्कु अखलियगइ
 एव थुणेवि लेवि सावयवउ
 सुयसायरेंण गपि गुरु दिट्ठउ
 त निसुणेप्पिणु सघपहाणे
 किउ अजुत्तु पइँ काइँ विवाएँ
 अवमाणिय' अवमाणु करेसहिँ
 वायठाणे जइ पावविओएँ
 तो तुह पाडिहेरु सपज्जइ

साहु पससिउ परमाणदे ।
 जय अणतगुणमणिरयणायर ।
 पइँ मुएवि को महु मणु रजइ ।
 जहिँ पइँ जेहा अत्थि महामइ ।
 राउ सपरियणु नियगेहहुँ गउ । ५
 पणवेप्पिणु वित्ततुवइट्ठउ ।
 भणिउ वियाणियभाविविहाणे ।
 कलिमूलेण समाहिविराएँ ।
 अज्जु निसिहिँ त सघु हणेसहिँ ।
 अच्छहि जाएवि पडिमाजोएँ । १०
 मरणमहावय सघु विवज्जइ ।

वत्ता—गुरुवयणु सुणेवि चित्तमाणु तो सघहिउ ।

जाएप्पिणु तत्थ थिरु पडिमाजोएण थिउ ॥१६॥

१७

एत्तहे तेहिँ चऊहिँ वि मतिहिँ
 गहियकिवाणहिँ नाइँ कयतहिँ
 गोउरवाहिरि ज्ञाणकयायर
 चित्तिउ कि अन्नाण वराएँ
 सो हम्मइ जो हणइ पसिद्धउ
 एणम्हइँ परिहविय विसाले

परिहवपरिवड्ढिय जि अकित्तिहिँ ।।
 मारहुँ सवणसघु निग्गतहिँ ।
 आलोएप्पिणु मुणि सुयसायर ।
 घाइएण खवणयसघाएँ ।
 एउ वयणु सत्थेसु निबद्धउ । ५
 खज्जउ एहु अज्जु खयकाले ।

१६. १ अवसाणिय ।

एम भणेवि जाम आमेल्लहिँ
ता ते जाणियजुत्ताउत्ते
ताए अरवत्थए पसरि नियच्छिय
मति भणेवि निवेण न मारिय

घत्ता—कुरुजगलदेसे हत्थिणपुरे महपोमु निउ ।
न नरवेसेण वत्तधम्मु ढडवेण किउ ॥१७॥

१८

लच्छि व लच्छीमइ तहो जाया
णामे पोमु विण्हु विक्खाया
एकहिँ दिणि कयभव्वाणदो
वदणहत्तिए तासु नरिदो
देवि पदक्खण पुरउ निसन्नो
सुणिवि धम्मसवण उवसतो
जेट्टसुयस्स समप्पियपोमो
एत्तर्हे वेतत्थामुहभग्गा
बुद्धिविसेमु निएप्पिणु राएँ
वलिणा मडवलेण वलवतो
सव्वहिँ साहुक्कारु पघुट्टो

घत्ता—पुज्जेवि पउत्तु कुरुनरनाहे मतिवरु ।
जो भावइ सो हु मग्गहि मडमयरहर वरु ॥१८॥

१९

पभणइ वलि मग्गेसमि जइयहुँ
ता काले जते विहरतउ
थिउ आविवि आदावणजोएँ
वलिणा जतु जणोहु नियच्छिउ
तेण वि कहिउ होतु सुहजोणिहिँ
सहुँ सर्धि सिवसोक्खुक्कठिउ
तासु वि विहियदुहोहविच्छित्तिए
त सुणेवि सूलेण व सल्लिउ
जाण कारणेण नीसारिय
ते वि इहाय दुट्ट कि किज्जइ

घाउ किवाणहिँ मुणितणु मत्तहिँ ।
कीलिय देवे पानियस्वेत्ते ।
सव्वेहिँ मि लोएहिँ दुगुच्छिय ।
वित्थारिवि नयरहो नीसारिय । १०

महपोमु निउ ।

ढडवेण किउ ॥१७॥

नटण वेत्ति ताए सजाया ।
इदपडिद व सग्गहो आया ।
आउ मुणी मुयसायरचदो ।
गयउ समेन्नो नाइँ मुँरिदो । ५
न वीरग्गइ गोत्तमसन्नो ।
सलहुसुओ समतिसामतो ।
पव्वइओ राया महपोमो ।
गपि पाव ओलग्गहुँ लग्गा ।
मति चयारि वि किय सपसाएँ । १०
सीहरहो सीहवलो जित्तो ।
तं निएवि पोमो संतुट्टो ।

करि पसाहु पहु देज्जसु तइयहुँ ।
सूरि अकंपणु तहिँ सपत्तउ ।
गउ जणु त वदहुँ सविहोएँ ।
पुणु पासत्थु को वि आउच्छिउ । ५
आउ अकपणु मुणि उज्जेणिहिँ ।
एत्थ सेलि आयावणि सठिउ ।
जाइ एहु जणु वदणहत्तिए ।
गपि गेहु सहु भाइहि वोल्लिउ ।
रुसिवि राएँ कहव न मारिय ।
एवहिँ को उवाउ विरइज्जइ । १०

सो मज्जत्थु एहु फुडु एयहँ
जइ जाणइ पुव्विलउ वइयर
भेसइणा पउत्तु तहिँ गम्मइ
नमुइ भणइ धीरत्तु न मुच्चइ

भत्तउ राउ विमुक्कविवेयहँ ।
तो सपेसइ अम्हई जमहर ।
नाउ वि एयहँ जत्थ न सुम्मइ ।
करउ दई ज किं पि वि रुच्चइ ।

घत्ता—पल्हाएँ वुत्तु जाव न पडिवक्खहो फलउ ।

१५

किउ ताव कि होइ जीवियव्वसुहसोहलउ ॥१९॥

२०

त पर हवइ रज्जसपत्तिण
एउ वयणु सव्वहिँ मि समत्थिउ
जो पडँ आसि अमोहपयपिय
सोज्जि पसाउ करेप्पिणु दिज्जउ
त निसुणेवि नरिंदे वुच्चइ
ता विप्पेण भणिउ मुणि वासर
तुहुँ चित्तवियमणोरहपूरउ
पडँ अवहत्थिउ महु मणसल्लउ
एम भणेवि जणियनिव्वाहे
मुग्रवि तत्ति परिवारहो देसहो
एत्तहे परिवड्ढियमुहरायहो
जन्नविहाणमिसेण वियभिउ
वेढिवि सवणसधु नेरतर
खणिय कुड हुयवह पज्जालिवि

दरिसियदुट्ठाणिट्ठपवित्तिण ।
वलिणा गपि राउ अम्भत्थिउ ।
वरु पडिवन्नु मज्जु पुहर्डपिय ।
नियपइज्जनिव्वाहउ किज्जउ ।
मग्गि मित्त ज किं पि वि रुच्चइ । ५
रज्जु पयच्छहि कुरुपरमेसर ।
तुहुँ मडवरु सूराहँ वि सूरउ ।
ज दिज्जइ त तुह परिभल्लउ ।
दिन्नु रज्जु तहो करिपुरनाहे ।
निवइ पडट्ठु मज्जे रणिवासहो । १०
भमिय आण मडले वलिरायहो ।
घोरुवसग्गु तेहिँ पारभिउ ।
किउ मडलु सच्छन्नदियतर ।
साहु सुद्धधूमेण करालिय ।

घत्ता—उवसग्गु निएवि समसहाव दुविहाणसणे ।

१५

थिय तउ उवसग्गसहणु एउ चित्तेवि मणे ॥२०॥

२१

मडवि मग्गणेहिँ महि खुम्भइ
हुयवहि जीवनिवहु होमिज्जइ
देवयपियरुद्देसे दिज्जइ
मारिवि जीव मुअति सरुडइँ
रत्तेणुत्तिट्ठु ति विरुद्धा
एव भणति हर्णात्त सुवद्धहिँ
गलि धिवंति पसु अतावलियउ

ज^१ मग्गिज्जइ त त लम्भइ ।
पिज्जइ सोमपाणु पलु खज्जइ ।
ते हयास ताण गए मुडइँ ।
चगउ ज सयल वि उवलद्धा । ५
वार वार सीसम्मि दसद्धहिँ ।
नाइँ भुयंगमीउ चलचलियउ ।

ज ज तेत्थुच्छिट्टुउ पावहिँ
सुमरिवि पुव्ववेरु वोल्लड वलि
भेसड भेसावइ उवत्तामइ

त त नेवि पुरे घल्लावहिँ ।
जाहु अज्जु काह्ण देमि दिसावलि ।
नमुड न मुयड मुनिट्ठुरु भानड । १०

घत्ता—जड साहु सवति तो करति तेलोक्कखउ ।
पर एत्तिउ देउ ज कामु वि रुसति नउ ॥२१॥

२२

एत्यतरि मिहिलानयरे
निसि नहे थरहरतु सवणु
महपोमे गुरुणा मुणिउ
हा हा भो उवसग्गु वहु
पुप्फयंतअज्जेण तउ
कहि केसं केमुवसमइ
सह संघेण अकपणहो
वरिसियवग्घसीहमुहहो
विण्हुकुमारु मुणी वसइ
त निसुणेवि नवेवि गुरु
गंपि मुणिंदु नमसियउ
किं महु अत्थि विउव्वणिय
एम भणेवि परिक्ख किय
सेलभित्ति फाडेवि गय
लग्गा गपि वि सायरहो
जडसगाओ अपहगइ
न नियकित्तिदुवारु वरु
अज्ज वि अच्छइ तम्मि नए

अच्छतेण जिणिद्रहरे ।
निप्रवि अईवारत्ततणु ।
नाणवियक्कवणेण भणिउ ।
वट्टइ साहुहुँ दुव्विसहु ।
पुच्छिउ गुरु सदेहखउ । ५
उवएसइ अणुकपमइ ।
गयउरि गणिहे अकपणहो ।
जो भूभूसणु गिरिगुहहो ।
तासु विउव्वणाए ल्हसइ ।
गउ खेरु त गिरिविवरु । १०
गुरुआएमुवएसियउ ।
रिद्धी जणमणरजणिय ।
वाह पसारिय तेण निय ।
न गंगानइ साइसय ।
कामिणि व्व रयणायरहो । १५
खचिय विउसेण व समइ ।
पयडु जाउ जणचोज्जकरु ।
तित्थभूउ त रधु जए ।

घत्ता—हुउ निण्णउ
सव्वासुहचत्तु

गपि विण्हुकुमारे दिट्ठु गुरु ।
नावइ सिद्धे सिद्धिपुरु ॥२२॥ २०

२३

मग्गिउ दे आएसु महापहु
जाहि संघउवसग्गु निवारहि
न करइ जो वच्छल्लु ससत्तिए
कवण सुद्धि तहो फुडु चारित्तए
पइँ मुएवि दूरज्जियदूसणु
२२. १ णय ।

भणइ महामुणि कयधम्महँ वहु ।
भइ सुकित्ति भुवणि वित्थारहि ।
सत्तहँ जिणमयसत्तहँ भत्तिए ।
नाणि तवम्मि सीले सम्मत्तए ।
अन्नहो त न समप्पए पेसणु । ५

पभणड विण्हुमुणी णयमत्थउ
जासु तुम्है कयअवरविहत्तिय
एम भणेप्पिणु पणवेप्पिणु गुरु
गपि सहोयर जेट्ठु पउत्तउ
एरिमु कम्मु एत्थ संताणए
जामज्ज वि सकुडुवु न नासहि
ताव तुरतु निवारहि वभण

हउँ परेक्कु भुवणम्मि कयत्थउ ।
करह नाह सभावण एत्तिय ।
विण्हुकुमारु अत्ति गउ गयउरु ।
कि उवसग्गु मुणीणाढत्तउ ।
किउ केणावि न भुवणपहाणए । १०
पावे कुभीपाए पईसहि ।
पावयम्म रिसिसुघनिसुभण ।

घत्ता—विन्नविउ नवेवि पोमत्तरिदे साहुवरु ।

किं कीरड भाय दिन्नु ताहँ मई रज्जु वरु ॥२३॥

२४

त पर वोल्लिज्जइ ज किज्जइ
जामावहि न पूरवइ दाणहो

चलवयणेण लोइ लज्जिज्जइ ।
ताव न नेमि दुट्ठु अवसाणहो ।

उक्तं च—सकृज्जल्पन्ति राजान सकृज्जल्पन्ति साधवः ।

सकृत्कन्याः प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सकृच्छकृत् ॥

विगयलज्ज जज्जाहि अयाणउ
एव भणेवि विहियउवसोहहो
वावणवेसु करेवि पइट्टउ
कयपच्छणु पउत्तु जं रुच्चइ
कज्जु न किं पि राय महु अन्नहिं
पणयवारकर एत्तिउ किज्जउ
भणिउ असासयरज्जे दियवरु
मायावावणेण वोल्लिज्जइ
पाणियम्मि पाणियलि निहित्तए
ता वचणवेसे भूदेवे

तुहँ वि तेहिं विप्पेहिं समाणउ । ५
निग्गउ रिसि वासे निवगेहहो ।
जन्नसाल बलिराएँ दिट्ठउ ।
मग्गि भट्ट ता तेण पउच्चइ ।
हयगयरहघणघन्नसुवन्नहिं ।
महु मडियत्थु तिपय महि दिज्जउ । १०
मग्गहि अवरु किं पि ज वहु वरु ।
कज्जु जेण त पर मग्गिज्जइ ।
पावियम्मि पुहई पायत्तए ।
वेउव्विउ सरीरु सखेवे ।

घत्ता—महियलु गयणतु जाम ताम पवियभिउ ।

तिहुयणघरखंभु नाई विहाएँ उट्ठिभउ ॥२४॥

१५

२५

एक्कु पाउ देवसेलसीसे साहु समिओ ।
वीउ माणुसोत्तरम्मि तेण सनिवेसिओ ॥
तइयरु अपावमाणु ठाणु खे परिट्ठिओ ।
नाई ताण दुज्जणाण घूमकेउ उट्ठिओ ॥
न मुणिदविद-विग्घवारि-रासिपोयओ ।

५

न जगेक्कचक्क-चित्तचारुचोज्जजोयओ ॥
 एत्थु अतरे तिलोयलोयखोहु जायओ ।
 खेयरिंददेवदाणविंदविंदु आयओ ॥
 आविऊण अत्ति तेहिँ पुज्जिऊण त कम ।
 रुसिऊण नासिऊण जन्नहोमसगम ॥
 सघविग्घनिग्गह करेवि कालदूवए ।
 वधिऊण घल्लिओ सवधु अधकूवए ॥
 कि जओ कहि पि होड पावकम्मकारए ।
 किज्जए सुणेवि एउ चित्तु धम्मसारए ॥
 तक्कमाणुमग्गलग्ग धावमाणइ तया ।
 सामि सघरघि सघरघि भो भणत्तया ॥
 खेयरामरा निएवि खचिओ कमो तिणा ।
 लग्गओ अमग्गि चित्तदडु न विवेडणा ॥
 सठिओ सरूवि भव्वपुडरीयनेसरो ।
 ता खमाविऊण तेहिँ पुज्जिओ जईसरो ॥
 सोहणार वाइयाउ वीणओ रवण्णओ ।
 लोयपच्चयत्थु तिन्नि किन्नरेहिँ दिन्नओ ॥
 तेत्थु जेत्य वे वि एककु खत्ति दिव्वसपए ।
 खेयरा सहस्स सेडि दक्खिणुत्तरहए ॥
 पुज्जिऊण वदिऊण साहुपायपकय ।
 सव्व विभियासया गया निय निय पय ॥

१०

१५

२०

२५

[तोणओ नाम छदो]

घत्ता—एत्थतरे गपि पणमिउ मेरुअकपणहो ।

मुणि विण्हुकुमारु सघाहिवहो अकपणहो ॥२५॥

२६

तेण वि आलोइउ सायरेण
 सभासिउ ससिउ गुणनिवासु
 को एम सघवच्छल्लु करइ
 किं किज्जइ अन्ने परमजोड
 भणिऊण एउ करुणावरेण
 चत्तारि वि कूवहो गलियगाव
 ते पेच्छवि परमुवसमि वलग्ग

नहरुदु चदु न सायरेण ।
 पईं मुग्गवि सत्ति एवडु कासु ।
 घोरोवसग्गु हेलाग्र हरइ ।
 पहु तुम्ह पहावे सव्वु होइ ।
 ते विण्हुकुमारे जइवरेण ।
 कड्ढाविय नयरहो नाईं पाव ।
 पाएसु अकपणमुणिहिँ लग्ग ।

५

ततो द्विवनहो नग्नि विमुक्कपाव
 पोमेण वि पुत्तहो देवि रज्जु
 नं नियवि चोज्जु चिनियम्मणेहि
 उवमग्गु हरेप्पिग्गु दुत्तिवारु
 गउ विष्णुकुमारु नसूग्गिणाम्
 तोत्तेप्पिग्गु उद्वियमोक्कच्छाम्

हय नावय मंति विसुद्धभाव ।
 गहं ब्रह्मनिर्वेह किउ अप्पकज्जु ।
 जिणघम्मु लउउ राव्वहिं जणेहिं । १०
 पणवेवि अकपणु रावणमारु ।
 आलोऽवि निद्रिवि कम्मपासु ।
 कान्निण पत्तु पुरु मोक्खत्तासु ।

घत्ता—जाशोप्पणु एउ सिरिचदुज्जलगुणगणहो ।

वचउन्नु नया वि किज्जउ ताहम्मियजणहो ॥२६॥

१५

धित्तहम्मदिनारे गेयकोउहनाले । गनिययदरागाले अत्थमदोहमाळे ॥
 भूदणविदिदनामे गच्छसोमोदनामे । इह गत्तु कहकोमे सुदरे दिम्भतोमे ॥
 मुग्गिग्गिरिचपउत्ते मुविचित्ते पत्तपयदनजुत्ते ।
 कयउच्छन्नदग्गणे नश्यो मणी गमत्तो य ॥

॥ सधि ३ ॥

संधि ४

१

बुवय—सासयमुह्वावणु कहमि पहावणु कह आयन्नह देवि मणु ।
भरहखेत्ति कुरुजंगलि जणवणु निम्मलि करिपुरु अत्थि वियड्ढजणु ॥

हेला—त पालए महावलो कित्तिए वलक्खो ।

वालसिरिपियाजुओ [गुणनिही] सुलक्खो ॥

तहु रुददत्तु नामि पुरोहु
सोमिल्लहिँ हुउ वभणिहिँ तासु
एत्तहिँ पट्टणि अहिच्छत्तनामि
दुम्मुहमहएविहे जणियकामु
कासवि पिय नदणु सोमभूइ
अवभसियसव्वसत्थत्थवेउ
सो एक्कहिँ वासरं करिपुराउ
सुहगोद्धिण परिओसियमणाइँ
विणएण पउत्तु जणेरिभाड
गव्विउ मिच्छत्तरुई रिऊण
मामहो मुणेवि असमजसत्तु
धूलीधूसरिउ विवक्कवेसु
वहुभेयइँ गेयइँ गायमाणु
नीसल्लमल्लसंजणियसोहु'

सुहकम्मु व सव्वावइनिरोहु ।

५

मुउ सोमदत्त गुणगणनिवामु ।

दुम्मुहु नरिदु नयणाहिरामि ।

तस्सत्थि पुरोहु सुभूइनामु ।

सुय जन्नदत्त न मयणदूइ ।

नियवुद्धिविसेसपयासहेउ ।

१०

ससियत्तु सुभूइसमीवि आउ ।

अच्छेवि तेण कइवयट्ठिणाइँ ।

दक्खालहि सपहु गुणाणुराड ।

थिउ त सुभूइ अवहेरिऊण ।

[तहो घरु नुएवि गउ सोमयत्तु ।] १५

ण्हाणक्खणु जडसजायकेसु ।

पहे चच्चरि घरि घरि णच्चमाणु ।

सच्छदवारिजणजणियखोहु ।

घत्ता—नाणावेसविसेसहिँ लोयसहासहिँ परिवेढिउ विभउ करड ।

कीलइँ नीसरियउ गणपरियरिउ गोरीपडपुरे सच्चरइ ॥१॥

२

हेला—नाणाभावघारओ विविहपत्तयड्ढो ।

रगहिँ पड्ढओ न नडो वियड्ढो ॥

पसरतनूरवदिणनिणाउ

पेच्छवि जणमेलावउ महतु

कज्जेण केण दीसइ जणोहु

एक्कहिँ दिणि वहि नीसरिउ राउ ।

पासत्थु पुरिमु पत्थिवेण वुत्तु ।

जाइवि जोएवि मिलतु ओहु ।

५

१ १ निमल्लमल्ल ।

तेणुत्तउ कत्थइ होतु आउ
 सो सव्वगुणान्दउ चाग्गउ
 नच्चेवडुँ गाएवउँ वरिदुँ
 चउसु वि वेएनु नयंभु नाउँ
 त गुणविणोयजणियाहिलानु
 जहिँ गच्छइ तहिँ नहिँ मनउ जाइ
 त्त नुणवि पहिदुउ पुह्विनाहु
 पेसिउ हक्कारिउ सो वि राउ
 अन्नोत्तु पलोउउ गायरेहिँ
 गभीरमहरदुँ दुहिव्वेण

एत्थच्छइ इहु वभणु पिसाउ ।
 णं जाउ मरनु एत्तिउ विरुउ ।
 महु भावइ जइ तेणोवडुँटु ।
 मत्थत्थे मुयएवी विभाइ ।
 वणु जणु वि न मेत्तइ तामु पामु । १०
 मोहणु गहिलेण विडणु नाइँ ।
 गुणिवत्तए तूसइ किं न साहु ।
 आलोयवि लहु सयमेव आउ ।
 दोहिँ मि न रविकमलायरेहिँ ।
 उच्चारिउ आसीवाउ तेण । १५

घत्ता—मेइणि जाम ममायर चददियायर मुरगिरि सग्गि मुराहिवड ।
 ताम रज्जु रज्जेसर कुरु परमेसर होउ निरतरु धम्मि मइ ॥२॥

३

हेला—अानीवाउ देवि नीसेससत्थपत्त ।
 पायटिय तिणा निय निम्मल बुहत्त ॥

पहयावरविउमत्तणमयाउँ
 विभिउ नरिदु गुणरयणगेहु
 अर्हमिदु चंदु खगवड किमक्कु
 मुरमति गहिल्लायारवारु
 किं विस्सकम्मु सव्वगजाणु
 अह्वेहु सहसमृहु पत्तगेसु
 अह्वेहु जि पुच्छिज्जइ निरुत्तु
 इय चित्तिवि चित्तियपयसिवेण
 को तुहुँ कहिँ हांतु किमंत्यु आउ

[दरिसाविय अच्छेरयसयाइँ ।]
 निच्छउ सामणु न होइ एहु ।
 हरिहरु कमलासणु मुक्कु सक्कु । ५
 अहवाउ पलोयहुँ पुहइ चारु ।
 किं सव्वसिद्धु भुवणप्पहाणु ।
 किं सरसईए किउ पुरिसवेसु ।
 किं अलियवियप्पहिँ चलइ चित्तु ।
 परिपुच्छिउ सो सइँ पत्थिवेण । १०
 उवएसहि सुदरमइ सहाउ ।

घत्ता—वयणु मुणेप्पिणु रायहो वड्ढियरायहो कहइ स वडयर विप्पवर ।
 अत्थि देसि कुरुजंगलि रिद्धिसमग्गलि नरवरिद करिणायपुरु ॥३॥

४

हेला—तत्थ महावलो वलो पत्थिवो पहाणो ।
 सिवदत्तो पुरोहियो तामु सव्वजाणो ॥

सजाउ पुत्तु तहो वभणीए
 मु वि मुयणहँ नयणाणदु देतु

सोमिल्लए कामु व रप्पिणीए ।
 वड्ढिउ नवयंदु व कलउ लेतु ।

सो हउँ निव नामे सोमयत्तु
 तहिँ तायपसाएँ सुहसयाइँ
 चित्तिउ मणि मईँ एक्काहिँ दिणम्मि
 ज अज्ज वि जणणविढत्तु वित्तु
 सव्वो वि को वि तायहो धणेण
 सभुयज्जिउ भुजहिँ जे पवित्त
 डय लोयाहाणउ मग्गु जाउ
 उज्जमु करेवि कयलच्छिसोहु
 डय चित्तवि हउँ निग्गउ घराउ
 नयधम्मु अणोवमु चाउ भोउ
 पुहईपिय दूरुज्जियसहाउ

बुद्धिप्र गथत्थहँ पारु पत्तु । ५
 माणतहो वहुवरिसईँ गयाइँ ।
 धी धी एहउ जीविउ जणम्मि ।
 बलि किउ विद्दवमि अलज्जचित्तु ।
 टिट्ठिरि जणु करइ विढत्तएण ।
 ते विरला जणणि जणेइ पुत्त । १०
 लइ दूरुज्जमि आलस्सभाउ ।
 भुवणम्मि पयासमि नियगुणोहु ।
 आयन्नवि परमगुणाणुराउ ।
 तव कित्ति थुणतु समग्गु लोउ ।
 तेणेत्थु गुणतरवेइ याउ । १५

घत्ता—आवेप्पिणु नियमामहो गेहे सनामहो थियउ सुभूइहे तणइँ पहु ।

सो मईँ भणिउ सराएँ समउ सराएँ कारावहिँ दसणु दुलहु ॥४॥

५

हेला—पुणु पुणु पयत्तहो वुत्तु तो वि तेण ।

मज्ज तुमं न दाविओ देव गव्विएण ॥

अहवा परकज्जे कासु कज्जु
 परमेसर अहिमाणट्टिएण
 मईँ दुत्थियदुहसदोहनास
 नाणाविणोयकीलावसेहिँ
 एत्थच्छमि नयरि नरिंदसीह
 सपत्तु जम्मफलु मईँ मणोज्जु
 संसारविसमविसतरह्हाइँ
 ज सुदरकव्वरसाणुसाउ
 सो अज्जु महामइ मज्भु जाउ

सव्वो वि जयम्मि सयज्जि सज्जु ।
 तव दसणसोकखुक्कठिएण ।
 किउ गहिलवेसु विसमारितास । ५
 जणमणु मोहतउ नवरसेहिँ ।
 करमाणु तुहारी दसणीह ।
 त दिट्ठो कह व जि अज्ज अज्जु ।
 वेन्नि जि गुणिगणियइँ निम्मलाइँ ।
 सहँ सयणहिँ सगमु पहयताउ । १०
 ज दिट्ठु देव तुहँ गुणनिहाउ ।

घत्ता—एउ सुणिवि नरिंदे परमाणदे सहँ सहाए परमायरेण ।

ससेवियसाएँ परमपसाएँ परिपुच्छिउ परमायरेण ॥५॥

६

हेला—अणुवमगुणगणालओ मुणेवि सव्वतोसो ।

अइमयमइमहल्लओ किउ महतओ सो ॥

हुउ सव्वदेसपरियणपहाणु
 राउ वि तेणुत्तउ करइ सव्वु

अहवा को वारइ चिरविहाणु ।
 नउ चित्ते तो वि तहो किं पि गव्वु ।

७. १ संमेदियकसाए ।

अहवा सप्पुरिसहँ नत्थि एत्थु
तारिस पेच्छेवि विहूइ तामु
नवजोव्वण फणिकन्न व रवन्न
अह सायरु सहणहो सव्वु को वि
तहो ताग्र जन्नदत्ताग्र चारु
लीलाइँ कालु वियलियउ हूउ
कहि किं रुच्चइ तग्गयहिण्ण
लज्जति किं पि लायन्नखाणि

जं न हवइ सोक्खहो हेउ वत्थु । ५
हुउ किं पि सुभूइहे हरिसु तामु ।
मन्नाविवि नियनदणिय दिन्न ।
निद्धणहो विरज्जइ सोयरो वि ।
सहँ रइसुहु माणतहो सतारु ।
गुरुहारहे तहे दोहलउ हूउ । १०
पुच्छिय किंसगि पेच्छिवि पिण्ण ।
भासइ सइ निमुणिवि रमणवाणि ।

घत्ता—जइ सइँपक्कवहलइँ परिमलवहलइँ आसायमि गुणरयणनिहि ।

तो महु मणहो मणोहर सिरिपोमिणिसर जायइ पिययम परमदिहि ॥६॥

७

हेला--त निसुणंवि भामिणी धीरिया वरेण ।

तक्कज्जेण किकरा पेमिया सायरेण ॥

अलहत ताइँ भग्गाणुराय
निप्फल निएवि पाइक्क सामि
दुल्लहु अयाले दोहलउ एहु
हा करमि काइँ कहिँ जामि ताइँ
इय चित्तिवि सुइसीयलवणेहिँ
गउ जलवाहिणि वाहिणिहे ऊहु
तेणेक्कु पक्कु साहारु दिट्ठु
विभिउ त पेच्छिवि सोमदत्तु
फलऊण निरतरु छाइयक्कु
इय भाविवि परमुवसमि वलग्गु

सव्वत्थ पलोग्रवि भिच्च आय ।
चित्ताविउ मणि मायगगामि ।
अलहतु सुसेसइ दइयदेहु । ५
पूरमि पिययमहे समीहियाइँ ।
सहु सेन्ने पउरवयवणेहिँ ।
तहिँ जोयतेणवयसमूहु ।
जइ जोएँ तहिँ तहो तलि वइट्ठु ।
माहप्पु एहु एयहु निरत्तु । १०
जेणवउ एहु अयालि पक्कु ।
गपिणु मुणि पणमिउ गुणसमग्गु ।

घत्ता—जोउ मुएवि मुणिदे भुवणाणदे परियाणेप्पिणु तामु मइ ।

आसीवाउ मणोहरु सव्वसुहकरु देवि पयासिय परमगइ ॥७॥

८

हेला—धम्मो धम्मकारिणो करइ परममुक्ख ।

पाव पावकारिहे विविहभेयदुक्ख ॥

सुणेवि मती मुणिणाहजपिय
विरत्तचित्तो खयसोक्खसायणे
पियत्थमायंदइँ जे सहायया

फुडक्खर सव्वजणाण' ज पियं ।
हुओ पुरत्तोक्खयसोक्खसायणे ।
समप्पिऊण पहिया सहायया । ५

मुमित्तसन्न [सिव-] सोक्खपावणं
 विमुक्कगथो परियत्तसन्नओ
 महामई सो गुणहसमाणसो
 वुहेमु सपत्तमहापहुत्तओ
 थिरासओ अप्पपहूइत्तए
 सिलायले सीलनिहाणु अच्छए
 तओ समुल्हाणसनेहवत्तिया
 सम विसाएण तमेण पत्तिया
 पसूय पुत्त बहुलक्खणन्निय

मुणिंदमासेवितमेव पावणं ।
 हुओ जई जित्तकसायसन्नओ ।
 समेण सघेण विसुद्धमाणसो ।
 कमेण सोपारपुर पहुत्तओ ।
 विंचितयतो रदिभेयत्तए । १०
 नगम्मि[ता] ताहि स जोइ अच्छए ।
 सुणेवि कतस्स तवस्स वत्तिया ।
 हुया सुख्खाणलि नाई पत्तिया ।
 लएवि रोसेण सहोयर निय ।

घत्ता—सा विहिसुद्धि लहेप्पिणु तहिँ जाँएप्पिणु ज्ञाणेसियहु जईसरहो ।
 घल्लिवि तहो सोमालउ अगग्र वालउ गय बहु दुव्वोल्लिवि घरहो ॥८॥

९

हेला—अद्धप्पहरसजुया निग्रवि सा सबधू ।
 विट्ठि व चित्ति सकिओ भव्वपोमवधू ॥
 वयभगोवसग्गु जाणेवि नट्टनेहो ।
 दुविहाणसणि सठिओ धम्मसाहिमेहो ॥

एत्तहि अमरा [वइ-] पुरपहाणु
 नामेण दिवायरदेउ अत्थि
 सो विहिवसेण विहियायरेण
 वलिएण पुरदरसन्नएण
 सगामे परज्जिवि पहयमाणु
 सोवन्ननयरि नियसालयासु
 नहे वदणहत्ति परिभमंतु
 मुणि वदिवि पेच्छेवि सिसु अणिदु
 केणेत्य न जाणिउ [किं पखित्तु]
 किं बहुणा लड होसइ महतु
 वज्जंक्रियकरचरणाहिरामु
 जय कारिवि जइ रजियमणाई
 तहिँ सिसु कुलकुमुयाणदु देतु

विज्जाहरु विज्जावलनिहाणु । ५
 दुन्नयतमदूसणु गुणगभत्थि ।
 रज्जत्थि लहुणा भायरेण ।
 खलवयणपवड्ढियदुन्नएण ।
 नीसारिवि घल्लिउ बलसमाणु ।
 थिउ एवि विमलवाहणहो पासु । १०
 एत्थंतरि तत्थायउ सकंतु ।
 थीमुहु निएवि जपइ खगिदु ।
 पिग्र एहु वालु लक्खणविचित्तु ।
 दूसहपयाउ बहुलद्धिवंतु ।
 तहो वज्जकुमारु करेवि नामु । १५
 गेहहो गयाई वेत्ति कि जणाई ।
 वड्ढिउ णवयदु व कलउ लेतु ।

घत्ता—नाणासत्थपुराणई बहुविन्नाणई सिक्खिउ जणमणमोहणइ ।

अभणु वइरिनिसुभणु विविहु वियभणु वसियरण जणखोहणइ ॥९॥

१०

हेला—हुड सव्वगजाणओ विमलवाहणते ।

जिणधम्मि सया रओ मरणजम्मणते ॥

वरसत्तिपयासणु न कुमार	न सुट्ठु सुहकर सुरकुमार ।	
नावड सयमेवागड कुमार	कालेण सुरिदाउहकुमार ।	
न जयजसरज्जुप्पत्तिथाणु	रविदेवहो न दुक्खावसाणु ।	५
दुव्वसणवेल्लिच्छिदणक्किवाणु	सुदरमइ सजायउ जुवाणु ।	
एक्कहिँ दिणि सवयसहिँ समेउ	हिरिमतगिरि गड रमणहेउ ।	
अलयावइ खेयरु पवणवेउ	अरितरुनिम्मूलणपवणवेउ ।	
अगमड नाम तहो तणिय जाय	रइपीड नाइँ पच्चवख जाय ।	
तहे कामएवसत्ति व सनाम	उप्पन्न पुत्ति मणवेय नाम ।	१०
एयग्गे यत्ति अणतविज्ज	आवाहयति पन्नत्तिविज्ज ।	
पवणाहयसाहग्गएण	सा विद्ध विलोयणे वक्कएण ।	
निक्कटय कुवलीकटएण	विद्धच्छिवत्ति विहियट्टएण ।	
पीडाए चित्तविकखेउ जेण	वट्टइ नउसिज्जइ विज्ज तेण ।	
कयमताराहण परमनिट्टु	तहिँ ताए अवत्थए तेण दिट्टु ।	१५
कयकरुणे नयणाणंदणेण	सूरामरखेयरनदणेण ।	
गलविद्ध व पेच्छिवि मच्छु अच्छि	उद्धरिउ सल्लु सुहि हुय मयच्छि ।	

घत्ता—ता पीडावसु चचलु जावउ निच्चलु जाउ चित्तु अरिदप्पहरि ।

सिद्ध विज्ज पन्नत्ती सोक्खुप्पत्ती भणिउ ताए सो पुरिसहरि ॥१०॥

११

हेला—तुज्जेसा पसायदाणेण मज्झ विज्जा ।

ससिद्धा अणेयविउव्वणा मणोज्जा ॥

मग्गहि ज सच्चड एउ मित्त	लज्जामि भणती चारुचित्त ।	
लइ तो वि किं पि आएसु देहि	सप्पुरिस अणुग्गहु महु करेहि ।	
त सुणिवि तेण पडिवन्ननेह	मणवेय भणिय महु विज्ज एह ।	५
दिण सत्त समप्पहि किं परेण	ता ताए दिन्न परमायरेण ।	
मुयणहो किउ सामण्णोवहारु	सभवइ कप्पतरु निव्वियारु ।	
दुज्जणहो अणत वि गुण न भति	ज्ज किज्जहिँ तो एमेव जति ।	
जाडवि अमरावइ पियरभाइ	सन्नकु वि समरगणि जासु भाइ ।	
नीसारिवि घल्लिउ निज्जिणेवि	पणत्तिपहावे पुरियणेवि ।	१०

परमुच्छवेण रइयाहिसेउ

किउ राउ ताउ आइच्चदेउ ।

जए वज्जकुमारु परेक्कु वन्नु

को करइ एव पुत्तत्तु अन्नु ।

घत्ता—अवर वि द्ढु निवारिय दूरोसारिय सुयणु समग्गुन्नइहे निउ ।

हुउ सव्वत्थ पसिद्धउ तत्थ समिद्धउ दिव्व भोय भुजतु थिउ ॥११॥

१२

हेला—मणवेयाइयाहिँ रत्ताहिँ रत्ति एसो ।

हरिवि निउ कयाइ सोवतु मुद्धलेसो ॥

अह सुदरगु रुच्चइ न कामु

कुढे लग्गु दिवायरदेउ तासु ।

पेसिय विज्जाहर दसदिसासु

अलहत सुद्धि आगय निवासु ।

ता तव्विओयसजायताउ

अच्छइ सकत्तु विलवतु ताउ । ५

परिपत्तपरमसपयसमेउ

पचमदिणे पचसरोवमेउ ।

तो पविकुमारु परिणेवि आउ

पचसयसख खेयरसुयाउ ।

अणिरुद्धसमागमे न सरामु

हुउ परमहरिसु खयरेसरसु ।

पयसद्वियमणिमयनेउरासु

पंचसयपमाणतेउरासु ।

महएवि पहाण मणोहरामु

मणवेय हूय वलनहिय तासु । १०

सहुँ ताए अणोवममुहसयाइँ

माणतहो बहुवरिसइँ गयाइँ ।

कालेण जणेरिए जाउ पुत्तु

तहो लग्गिवि एक्कहिँ दिणे अजुत्तु ।

भासिउ मुणेवि सजाउ खेउ

पुच्छिउ पणवेवि पयगदेउ ।

घत्ता—कहि कि ताय तुहारउ पेसणसारउ मुउ अन्नहो हउँ अहव कहो ।

पुच्छतहो अणुवधे वायावधे कहिउ असेसु वि तेण तहो ॥१२॥ १५

१३

हेला—त निसुणेवि चल्लिओ सो गुरुसयास ।

पियमायाइएहि मन्नाविओ पगास ॥

तो वि न त्थिओ गोत्तमडणो

चलिउ जत्थ गुरु कामखंडणो ।

जाणिऊण ते तस्स निच्छय

त लहेवि बहुपुत्तसचय ।

एवि विविहधयछाड्यवर

उत्तराइमहुरापु र पर । ५

वरविहूइए विहुणियाहओ

गपि खतिगुह मुत्तवराहओ ।

दिट्ठु तेहिँ मुणि सोमयत्तओ

पुज्जिऊण पणविउ वित्तओ ।

सूरएवपिउणा पउत्तओ

वइयरो [जहेवेय] वित्तओ ।

दीणवयण पयपोम लग्गया

ता खमाविऊण समग्गया ।

सयण जणण वंधव विमज्जिया

गुरुकमा कुमारेण पुज्जिया । १०

मुक्कमाणमयमच्छराइय

[लेवि] साहुवित्त विराइयं ।

वल्लहा वि मणवेयनामिया
तउ करतु सुहझाणसजुओ
गुरुपयाडँ आराह्यतओ
वसड जाम भव्वयणसठुओ

हूय नाहचरणणुगामिया ।
सत्तलद्धि नहचारणो हुओ ।
पविकुमारु सुडसय सुणतओ ।
अवरु ताम तहिँ वड्यरो हुओ । १५

घत्ता—तेत्थु जे नयरि नयालउ फुहईपालउ पुहईमुहु परदुव्विसहु ।
कयजिणधम्मपहावण पवरपहावण नामेणोविल कत तहु ॥१३॥

१४

हेला—सायरदत्तु सेट्टि सपत्तसव्वकामो ।
पउरगुणो समत्थि समत्थनायनामो ॥

तहो सायरयत्त पवित्त पत्ति
कालेण वणीवड कालु पत्तु
हा गय सुहसय सोमालगत्त
वहुवाहि अट्टिचम्मावसेस
तत्तणय वि घरं घरं पिणिघिणति
एक्कहिँ दिणि चरियहिँ चारुचित्त
रत्थहे उच्छिट्ठडँ भक्खमाण
अहिनदणु भणइ कणिट्ठु साहु
हा नियहु केण कज्जेण एह
त मुणिवि ओहिनाणावयासु
भो एयहे एहावत्थ जाय
कडवय दिणेहिँ एत्थु जि मणोज्ज

पयणियदारिद्द दरिद्द पुत्ति ।
गउ तेण समेउ जि ईसवत्तु ।
परपेसणु करइ समुट्टदत्त । ५
मलमुत्तलित्त दुप्पेक्खवेस ।
अच्छइ मच्छिउलहिँ भिणिहिणति ।
वे मुणि पडट्ट पालियचरित्त ।
पेक्खेविणु सा सुणहहिँ समाणु
चित्ततु कम्मगइ मडसणाहु । १०
जीवइ वराय दुहपहयदेह ।
नदणु मुणि भणइ अमोहभासु ।
मा करहि विसाउ निएवि भाय ।
नरनाहहो होसइ एह भज्ज । १५

घत्ता—त निसुणेवि सचोज्जे पहयावज्जे पुच्छिउ जइणा जइ पवरु ।
कहि कम्मे केणेरिस एह असुहवस हुय होसइ किम राउ वरु ॥१४॥

१५

हेला—ता तहो धम्माणदणो नदणो मुणिदो ।
कहइ दरिदियाकय कम्मय अणिदो ॥

गामे गोमयनामे गामउडो गोहडो त्ति नामेण ।
होतो गुणवडकतो गुणवतो पउरधणवतो ॥१॥
तस्स सुया गुणमाला मयमत्ता रुवजोव्वणाइन्ना ।
एक्कदिणे गय छेत्त भत्त गहिऊण हलियत्थ ॥२॥

सा सकेयट्टाण हलियविड सद्दिऊण सन्नाए ।
 जा णडमजुलाए मज्झ मल्हति मज्झन्हि ॥३॥
 सीमाए तत्थ जोएण सठिय सत्तुमित्तसमचित्त ।
 ता नियइ सवणमेक्क सिलाए नग्गोहमूलम्मि ॥४॥ १०
 दट्ठूण भीयरूयए मज्झ इमो मन्निऊण अरसउणो ।
 गहिदूण गले धित्तो खलाए तहो मारिदो सप्पो ॥५॥
 साधू वि धीरवीरो विरत्तचित्तो सरीरसोक्खेसु ।
 पच्चक्खाण दुविह धित्तूण थिओ विरुसग्गे ॥६॥
 तइयम्मि दिणे तत्थागएण ताएण तेम दट्ठूण^१ । १५
 मुणि गलमाणसप्पविसम सभरिदसव्वग ॥७॥
 हा हा केणेरिसय कय हयासेण निदिद कम्म ।
 ता कहिय केणावि हु सव्व दुहियाहे दुच्चरिय ॥८॥
 सोदूण सडिदपदिद सपयत्तदो फेडिदूण फणिगत्त ।
 लुहिदूण सव्वमगं खमाविदो सुट्ठु सो साधू ॥९॥ २०
 गेह गतूण तदो गुरुरोसवसेण तेण सा पावा ।
 गहिदूणाकित्ती^१ विव वियणे घल्लाविदा रडा ॥१०॥
 सडिदूण तत्थ कोढेण सत्तदिवसेहिं सा मदा सती ।
 पढमम्मि समुप्पन्ना नरयम्मि महत्तदुक्खम्मि ॥११॥
 तत्थेक्कसायरोवममाणमणत्त सुदसह दुक्ख । २५
 सहिदूणाणेयविह विणिग्गदा साधुदोहयरी ॥१२॥
 मायगपुरे मायगीवाडए मारणेक्कसव्भावा ।
 अलिउलत्तमालकज्जलवन्ना सुणही समुप्पन्ना ॥१३॥
 चिरमणुहुजिददुक्ख पडित्तपसगा वणम्मि मरिदूण ।
 जाया मडलजाया तत्थेव पुणु पुणो पावा ॥१४॥ ३०
 तत्तो चुदा सिवाली सभूया गड्डसूयरी बहुसो ।
 तह य जलम्मि जलूया पुणो पुणो गद्दही र्हा ॥१५॥
 पच्छा सा सामगी मायगी धीवरी विरूवगी ।
 नामेणं दुग्ंधा दुग्ंधा दूहवा हूया ॥१६॥
 परच्छेत्ते^१ नइक्कच्छे जत्थ ठिओ महामुणी एक्को । ३५
 अदिसीट्वादवद्वलवहुले सिसिरे निसासमये ॥१७॥

अच्छंतो अच्छमणो विगयावरणो निरिक्खदो तीए ।
 कयकरुणाए विइन्नो आणेदूण पलालेसा ॥१८॥
 पासम्मि वालिदोगी ।
 कम्मोवसमवमाए पणामपुव्व कय सव्व ॥१९॥ ४०
 मुणिगा वि मुणेवि तदो भवियव्व पेच्छिऊण तह भत्ति ।
 कहियाइँ अणुवयाड साणत्यमियाइँ सहलाइ ॥२०॥
 हिंसादिदोस कधिदे दुक्खसदोहभीदचित्ताए ।
 इट्ट मुणिउवइट्ट ता गहिद तीए भत्तीए ॥२१॥
 उव्वरियपावसेमा सा एह मरिवि एत्थ सजाया । ४५
 मायरयत्तस्स मुया वणिणो दारिद्धिणी नाम ॥२२॥
 मपत्ते पचत्ते ताए पावेण सपया नट्टा ।
 परकम्म च जणेरी करइ इमा एम निव्वहइ ॥२३॥

[गाहा कडवय]

घत्ता—कियमुकियस्स पहावे उज्झयतावे कडवय वरिसहिँ नाइँ सिय ।

सयलतेउरसारी पाणपियारी होसइ महुरावइहे पिय ॥१५॥ ५०

१६

हेला—एउ मुणेवि भिक्खुणा चितिय निरुत्त ।

होइ कयाड नन्नहा साहुणा पउत्त ॥

बुद्धधम्मनामेण वालिया	वाहरेवि सा दुहकरालिया ।	
गलगलतभूओहकुच्छिया	पीणिऊण भिक्खाए पुच्छिया ।	
कहिँ तुहच्छए पुत्ति मायरी	कहहिँ एहि लहु महु सहोयरी ।	५
गपि ताए ता तहो महालए	कहिय माय कम्मति वालए ।	
मिलिय एह महु कह व सुदरी	वहिणि जोयमाणस्य सोयरी ।	
कहिवि एउ लोयहो सपुत्तिया	निय विहार तेणुवहिदत्तिया ।	
चारुक्कतिभारेण भामुर	परमरुवरजियसुरासुर ।	
करिवि कुसलवेज्जोवएसिय	ताहे तारिसग वर किय ।	१०
सुदरम्मि सजाए जोव्वणे	माहणस्स मयणुच्छवे दिणे ।	
सव्वजणमण मोहयतिया	सहुँ सहीहिँ दोलतिया तिया ।	
निग्गएण वहि सा मयच्छिया	माहुराण नाहे नियच्छिया ।	
चितिय च किं कामसोयरी	नायकन्न अहवेह किन्नरी ।	
रंभ उव्वसी किं तिलोत्तिमा	मीणईँ सईँ किं वईँ उमा ।	१५

घत्ता—इय चित्तु पयत्ते त पालते तग्गयमणु जाणेवि हउ ।
सरहिँ सणेण सिरीवड किउ दूमियमड कहव कहव नियनिलउ गउ ॥१६॥

१७

हेला—थिउ मेज्जाए सव्ववावारनिव्वियारो ।

सिद्धि ज्ञायमाणु न कोई जोईसरो ॥

लच्छीमडदसणे कित्तिसारु	जिह जायधरि वीरावयारु ।
तिह ताहे सलोयणिजणियताउ	कामेण गलत्थिउ सुट्ठु राउ ।
जर हूउ निरारिउ मुयइ सास	परिसुसइ वयणु वड्ढइ पियास । ५
जिह जिह किज्जइ डाहोवयारु	तिह तिह अइयारु डहेइ मारु ।
कचुडणामच्चवरेण तासु	परिपुच्छिउ परियाणेवि सासु ।
कह एहावत्थहे हेउ ^१ देव	किं मज्झु वि गोवहि भुवणसेव ।
काह वि पहु तुहुँ आसत्तचित्तु	मुणिओ सि मया चिण्हहिँ निरुत्तु ।
ता कहिउ असेसु वि तेण तामु	अहवा सहुँ गुरुणा गोप्पु कासु । १०
एत्थतरि समउ पहाणएहिँ	जाएवि तत्थु वहुजाणएहिँ ।
मडवडणा मग्गिउ वुद्धधम्मु	दिज्जउ लहु कन्नारयणु रम्मु ।
दिहि वट्ठइ महरावडहे जेण	त वयणु मुणेप्पिणु भणिउ तेण ।
जड लेइ धम्मु वुद्धोवडट्ठु	तो करमि सव्वु ज तहो मणिट्ठु ।
ता त पि करेवि महत्थवेण	परिणिय सा सुदरि पत्थिवेण । ५१

घत्ता—पोमावड व फणिदहो सड व सुरिदहो राहवचदहो^१ नाइँ सिय ।

सा तहो खवयहो खति व सुयणहो सति व रडव सरहो सजाय पिय ॥१७॥

१८

हेला—सजाउ अईव पेमाणुरायवधो ।

किउ राएण ताहे महएविपट्टवंधो ॥

कहिँ सा कहिँ एवविहु पहुत्तु	अह अलिउ होइ किं रिसिपउत्तु ।
किं एत्तिउ एउ भणंति जोड	तन्नत्थि ज न पुण्णेहिँ होइ ।
कीलतहो रडरसरजियामु	गउ समउ ताए छम्मास तासु । ५
सत्तमइँ मासि वियसियसरम्मि	आसन्निहूड नदीसरम्मि ।
कोमुडयजन्नपत्थावि ताए	विन्नविउ नराहिउ नियसहाए
संपड पढम महँ वुद्धदेव	रहु भमउ देहि आएमु देव ।
त मुणिवि तेण निरु निम्मलाहे	वाराविउ रहवरु ओविलाहे ।
ता ताए गपि गुरु तवपयत्तु	विन्नविउ नवेप्पिणु सोमयत्तु । १०

१७ १ देउ । २ जायवचदहो ।

कयमाणमलणु बहुदुहपसगु
जिणधम्मपहावण होइ जेम
को अवरु भडारा सरणु अम्ह

जायउ मईयरहजत्तभगु ।
करुणाए कि पि पहु करहि तेम ।
को अवरु समइ आसियदुहुम्ह ।

घत्ता—त निमुणेवि मुणीसें पवरमणीसे चित्तिउ इय करणिज्जु मुहु ।
वज्जकुमारु पउत्तउ हरहि निरुत्तउ एयहे गुरुअहिमाणदुहु ॥

१५

१९

हेला—भणिउ सो वि तीए भयवत दूसियत्ता ।

किज्जउ तेम जेम सभवइ देवजत्ता ॥

ता घोरिय रिसिणा सरिवि हेउ
गउ एम भणेवि तुरतु तित्थु
विज्जाहर विज्जावलसगन्व
रहजत्तुत्तरमहुराहि जेम
आयन्नवि तं भासइ अणिदु
इउ अम्ह सामि सयमेव जुत्तु
इय भासिवि भाभामुरमरीर
विज्जावलनिम्मियवरविमाण
जिणजम्मणि न चउ मुरनिकाय
पेच्छिवि विज्जाहरजणु अणतु
परचक्कासक करतु सतु

धिर थाहि माए मा करहि खेउ ।
अमरावइ नयरि कुडुवु जित्थु ।
पयपणय भणिय ते तेण सव्व । ५
ओविलहे होइ लहु करहु तेम ।
आइच्चवेउ विज्जाहरिदु ।
करणिज्जु तुज्ज वयणे निरुत्तु ।
विविहालकार गिरिदधीर ।
निमिसेण नहगणु छायमाण । १०
सयल वि गयणेयर तेत्थु आय ।
सखुहिउ लोउ किमिण भणतु ।
सन्नद्धु महीवइवलु तुरतु ।

घत्ता—त थभिवि मणुज्जए थभणविज्जए उत्तरतु नीसकियउ ।

तहिं बुधदासिहिं रहु नाइं मणोरहु चूरिवि सयसक्करु नियउ ॥१९॥

१५

२०

हेला—इयरो खेयरेहिं सयमेव सज्जिओ सो ।

न पुण्णेहिं निम्मओ ओविलाहे तोसो ॥

सव्वसुवण्णमओ मणिजडियउ
पडिवालपडिपट्टुवित्तो
लवियवरमुत्ताहलमालो
धूवगधवासियट्ठिभाओ
चउदिमु जिणपडिमाअहिरामो
कुसुमामोयमिलियसारगो
अट्टु वि वासर पुज्जिज्जतो

नावइ रहु सूरहो नहवडियउ ।
तिहुयणचित्तुप्पाइयचित्तो ।
कणरणतकिणिणियवमालो । ५
पयणियभव्वाणदसहाओ ।
नावइ सेलो मदरनामो ।
किं वण्णिज्जइ सो सारगो ।
घरि घरि भव्वहिं पणमिज्जतो ।

मगलधवलगेयथुडवाएँ	पह्याणेयाउज्जनिनाएँ ।	१०
परमुच्छाहे जयजयकारे	भामिउ रहु पुरि खयरासारे ।	
पेच्छेप्पिणु एय अच्छरिय	नरवइणा दुरिय परिहरिय ।	
बुद्धदासिसहिणु सराएँ	अवरु वि परियणेण तहुँ राएँ ।	
सदरिसावियसासयसम्मो	पडिवन्नो परमो जिणधम्मो ।	
रहवित्ततपरुवणपिणुण	तत्थेक्क यूह थविऊण ।	१५

घत्ता—पविकुमारु पुज्जेप्पिणु गुरुहु नवेप्पिणु जणमणनयणाणंदयर ।
साहम्मियसाहारण परिहववारण गय गेहहो ते गयणचर ॥२०॥

२१

हेला—अज्ज वि देवनिम्मिओ अच्छए स थूहो ।
कोड्डुणा निएइ गतूण लोयजूहो ॥

जए वज्जकुमारु परेक्कु धनु	को करइ पहावण एव अन्नु ।	
सव्वणहु अणिडिउ वीयराउ	होएवि जयत्तयपुज्जपाउ ।	
कालेण कम्मकाणणहुयामु	सपत्तउ सामयसुहनिवामु ।	५
धम्मत्थसत्थवित्थरणसारु	पावयणीवाडमयावहारु ।	
नेमित्तिउ संभूइयनिमित्तु	तवसी वि परममज्जत्थवित्तु ।	
ए पच वि जण जइवरपहाण	ए पच वि गुणगणमणिनिहाण ।	
ए पंच वि दूहनिन्नासणासु	भासयर भणिय जिणसासणासु ।	
अवरु वि विणिवारियभवभवेण	नाणाविहेण दूसहतवेण ।	
नाणे विन्नाणे नवनवेण	दाणेण जइणमहिमुच्छवेण ।	१०
जोडसमतोसहिविज्जएण	अवरेण वि लोयमणोज्जएण ।	

घत्ता—कहीसइ सुहदावण धम्मपहावण वज्जकुमारु जेम जणु ।
सो सिरिचउ सुरिर्दाहि नविउ नरिर्दाहिँ जाएसइ सासयभवणु ॥२१॥

विविहरसविसाले णेयकोउहलाले, ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते रातपयदसंजुत्ते ।
जिसावरसनयपहावणकहाणयं चउत्थओ सधी ॥

संघि ५

१

सदृहया पत्तियया रोचयफासतया' पवयणस्स ।

सयलस्स जे णरा ते सम्मत्ताराहया होति ॥ [भ. आ ४८]

सदृहणं श्रद्धानमनन्यमित्यर्थं । पत्तियणं प्रतीतिकरणं बुज्झणमित्यर्थं । रोचणं तुष्टि-
करणम् । फासणमनुष्ठानकरणम् । पवयणस्स धर्मस्य सकलस्य ये कुर्वन्ते ते पुरुषा सम्यक्त्वारा-
धका भवन्ति । एत्यक्खाराण । ५

ध्रुवक—पणवेप्पिणु जिणदेवहो दुक्कियतमदिणहो ।

फलु सदृहणादीण आहासमि जणहो ॥

हत्थिणपुरि विणयसमिद्धमई	धणपालु राउ पिय धणयमई ।	
सिरिउसहदासु वणिलोयवई	पिय उसहदासि कलहसगई ।	
जिणदासु ताप्र सजणिउ सुउ	धम्मु व दयाप्र सुयणेहिँ थुउ ।	१०
कालेण कुलवरणेसरहो	हुय वाहि सरीरे नरेसरहो ।	
सो नत्थि जो न पडियारु कउ	पर तो वि रोउ नोवसउँ गउ ।	
निर्वे दूसहदुक्खदवक्कडिया	पेक्खेप्पिणु मुहि ससप्र पडिया ।	
एत्थतरि आयउ चारुमई	विहरतु महामुणि चित्तगई ।	
वणिनदणु त वदणहुँ गउ	पेक्खेप्पिणु तहो परमाइसउ ।	१५
आवेप्पिणु रायहो वज्जरिउ	आयण्णहि देव महच्छरिउ ।	
एत्थज्जि समायउ एककु जइ	परमेसर तहो आयासगउ ।	
पयधुवणोदयपाणेण गउ	तहो जणहो सरोयहो सव्वु गउ ।	

घत्ता—सेट्ठिसुयहो जिणदासहो आयण्णिवि वयणु ।

राप्रँ राप्रँ जोडयउ नियमतिहिँ वयणु ॥१॥

२०

२

मुहमुणियचित्तेण

सिद्धत्थनामेण

त वाहिविद्वणु

उच्छ्रलियजयकित्ति

पीडावहरणम्मि

वहुवुद्धिवतेण ।

पहुसोक्खकामेण ।

मुणिणाहपयधुयणु ।

आणाविय ज्जत्ति

तणुसोक्खकरणम्मि ।

५

भासियउ किं गहणु	इउ हरइ जरमरणु ।	
निमुणेवि राएण	परमाणुराएण ।	
त सदहतेण	त पत्तिय तेण ।	
त रोचयतेण	त फासयतेण ।	
अमिड व मुणतेण	पीय पय तेण ।	१०
सतोसपाणेण	लोहो व्व दाणेण ।	
नेयप्पवेसेण	धणु वयविसेसेण ।	
गउ गउ सरीराउ	सजाउ सुहि राउ ।	
मणि देउ धरिऊण	सदेहु हरिऊण ।	
अणुदिणु विगव्वेण	पायव्वु भावेण ।	१५
घत्ता—धम्मु रसायणवाणिउ पुट्टिपयासणउ ।		
जम्मजगमरणत्तयवाहिविणासणउ ॥२॥		

३

अववादियलिगकडो वि सगसत्तिमगूहमाणो हु ।
णिंदणगरहणजुत्तो सुज्झदि उवाधि परिहरतो ॥ [भ आ ८९]

अववादियलिगकडो वि परलिगधारकोऽपि परिधानावृतलिङ्गोऽपि सगसत्तिं स्ववल
अगूहमाणो प्रकाशमान निंदणगरहणजुत्तो सुज्झदि शुद्धिं लभते विशिष्टा कर्मनिर्जरा करोतीत्यर्थं ।
उवाधि परिग्रह परिहरन् सन् । आत्मदुग्धा निन्दा । परप्रकाश्या गुर्वादीना प्रकाश्या गर्हा । ५
निन्दाख्यान कथ्यते ।

वाराणसिपुरि पहयारिवलु	नरणाहु विसाहदत्तु पवलु ।	
तहो कणयमाल महएवि सइ	वल्लहिय सुरिदहो नाइँ सइ ।	
एक्कहिँ दिणे रूसेवि रायहरि	गउ सो गउडाहिवस्स उवरि ।	
अरिदमणु दमेप्पिणु विहिउ वसु	काराविउ-केर विइन्नवसु ।	१०
तहिँ नियवि अईव अणोवमउ	देवाण वि कयमणसभमउ ^१ ।	
पडु लेवि लिहावेप्पिणु सयलु	एप्पिणु पुरु नाइँ सगसयलु ^२ ।	
नामेण चित्तविस्सभकरु	पासाउ कराविउ तेण वरु ।	
कासीविसएसे एत्थ जइ	अणुरुवु विचित्तु चित्तु हवइ ।	
तो सग्गु वि दूसइ काइँ परु	इय चित्तिवि-चित्तयारनियरु ।	१५
हक्कारिवि दाविउ धवलहरु	सुरहरु व अणोवमसोहघरु ।	

पभणिउ आलिहहि विचित्तयर
ग्रहु वयणु सुणेप्पिणु चित्तयरा

इह चित्तु पयत्ते चित्तयर ।
भासति समग्ग वि जमलकरा ।

घत्ता—अम्महँ मज्झे तहाविहु को वि हु नत्थि नरु ।

जो आयहो अणुरुवउ चित्तु विलिहइ वरु ॥३॥

२०

४

इह विस्सकम्मु सयमेव जइ
नासिज्जइ अम्महहिँ भित्ति परा
जइ कज्जु विरुवे तो करहुँ
पूरउ जि मणोरहु नरवरहो
सव्वण्हुपायपकयभमरु
विसकम्मु व माणुसवेसघरु
नावइ इहु पुण्णहिँ पेरियउ
एककहिँ दिणि गुणहिँ विराइयउ
आवेप्पिणु पावतावदवणे
तहिँ दिट्ठु नमसिउ जिणधवलु
सिरिचदु सूरिसघे सहिउ
पुच्छिउ मुणिणा जाणावियउ

आलेवइ चित्तु विचित्तमइ ।
कुकर्डहिँ सुकव्वहो जेम वरा ।
पहु तुज्जाएसहो नोसरहुँ ।
त सुणिवि विसज्जिय ते घरहो ।

निल्लोहसहावु पसिद्धिपरु ।

५

नामे चित्तयर विचित्तयर ।

सयवइयरहरिसाऊरियउ ।

उज्जेणिहिँ होतु पराइयउ ।

उत्तरिउ सुलोयणु जिणभवणे ।

थुउ ण्हविउ पपुज्जिउ पहयमलु ।

१०

पुणु पणउ पयत्ते मयरहिउ ।
तेणप्पउँ नियगुणु दावियउ ।

घत्ता—वक्खाणतु महामुणि सो सीयारजुओ ।

लिहिउ निएवि अणोवमु विंभउ कसु न हुओ ॥४॥

५

जिणमदिरे को वि अउव्वु नरु
रिसिरुउ तेण तहिँ आलिहिउ
त दिट्ठु जेण न माइ सय
इय अन्नहो अन्ने साहियउ
अणवरउ निहालइ एइ तहिँ
राएण वि किउ तत्थागमणु
त चित्तु सचित्तु व जोइयउ
पुच्छिउ मुणिनाहे साहियउ
कि एउ सव्वविन्नाणघरु

एत्थायउ जणमणचोज्जकरु ।

नावइ सिट्ठारि सविहिउ ।

तहो चक्खुफल एमेव गय ।

आयण्णेवि जणु रहसाहियउ ।

संपत्त वत्त नरनाहु जहिँ ।

५

नुउ जिणु ससघु गणि गुणभवणु ।

पुणु वार वार पोमाइयउ ।

इउ एण सुमइणालेहियउ ।

पुहईस एहु गुणपोमसरु ।

निसुणेवि एउ चित्तिमइणा
नियहत्थाहरणहिँ पुज्जियउ

तहो दिन्नु पसाउ महीवइणा । १०
पट्टणि गुणपडहउ वज्जियउ ।

घत्ता—सिरिसिरिचदु महामुणि दुक्कियविद्वणु ।

पणवेप्पिणु पयपाले नियउ सो नियभवणु ॥५॥

६

गुणु जाणिवि जीवणु सारयरु
तहो दाविउ त नवधवलहरु
तहिँ विविहवत्तरसभावधरु
पारद्धु चित्तु मुमुहुत्ति तिणा
पिय तासु वि चित्तवडाय सई
तायत्यु तत्थ गहिऊणसणु
तहिँ एककदिणम्मि अणोवमए
सिहिपिच्छु लिहिउ तक्काले निउ
सच्च पिव पडिउ मुणेवि सुह
मुक्खो त्ति भणेप्पिणु उवहसिउ
अन्नहिँ दिणि सूयारे नविउ

दिन्नउ सुदरु आवासधरु ।
न मुकइहे कहवित्यारु वरु ।
मुविचित्तु मुक्खु व चित्तहरु ।
तिहुयणजण करहुँ नाड विहिणा ।
सजाय ताए सुय बुद्धिमई । ५
अणुदियहुँ पवच्चइ सा सुयणु ।
कीलाए ताए मणिकुट्टिमए ।
तत्थायउ कोऊहल्लपिउ ।
त गेण्हमाणु मोरगरुह ।
लज्जिउ मणे मोणु करेवि थिउ । १०
पेच्छतु चित्तु एहु विन्नविउ ।

घत्ता—एहि देव आरोग्गहे रजियजणमणहो ।

जाइ लग्गु म चिरावहि जोव्वणु ओयणहो ॥६॥

७

पेक्खइ पर तो वि न तं मुणइ
अदिमुक्खु पुणो वि तीए भणिउ
पुणरवि अन्नहिँ दिणे आइयउ
त मुयवि पलोयहुँ अन्नु गउ
महमुक्खु एहु फुडु भूमिवइ
आयण्णिवि इय महिवइ कुविउ
निक्कारणु सामिय कि कुवहि

इयरो वि हु वार वार भणइ ।
निसुणेवि महीवइ मणे वणिउ ।
आलेक्खावरणुच्चाइयउ ।
दुव्वयणे पुणु वि तीए पहउ ।
न वियाणइ काइँ वि कज्जगइ । ५
ता ताए नवेप्पिणु विन्नविउ ।
असुहावहु कलुसभाउ मुयहि ।

५. २ सा नियत्थाहरणहिँ ।

६. १ चित्तकरु ।

पुच्छिय किं कज्जे जणियदुहु
ता कन्नप्र अत्थु पदरिसियउ

पुणु पुणु वि पवोल्लहि एउ तुहुँ ।
त सुणिवि नरेसरु हरिसियउ ।

घत्ता—वयणपउत्तिवियक्खण जाणेवि पुहइवइ ।

१०

किय महएवि विवाहिवि राएँ बुद्धिमइ ॥७॥

८

सयलु वि त मुहए मुदियए
सीहासणत्थ अत्थाणि जहिं
सेवाए एति पणमति पया
भणिरुण घरहो जतीउ वरे
गच्छति खलाउ सा वि सहइ
सव्वणहु महापहु परमपरा
पाविट्टु दुट्टु दुच्चारणिया
होती तुह पयपडिकूलमई
वहु एवमाइवयणहिं घणउ
दिवे दिवे जिज्जति निएवि सइ

पहु खणु वि न ताए विणा जियए ।
सा राणियाउ सव्वाउ तहि ।
जय परमेसरि महएवि सया ।
देप्पिणु एक्केक्कु दसद्धु सिरे ।
देवगाए अप्पउँ विग्गहइ ।
तिहुयणचित्तामणि पावहरा ।
हुँ चिरभवे कुच्छियकारिणिया ।
तेणेउ मज्झ दिणे दिणे हवइ ।
सुदरमइ निंदइ अप्पणउ ।
पुच्छइ पयवइ वि न वज्जरइ ।

५

१०

घत्ता—एव गदवदि काले एक्कदिणम्मि निउ ।

जिणहरं तेत्थु पईसिवि पच्छन्नगु थिउ ॥८॥

९

तावाइयउ
रइकोच्छरउ
नृवमाणियउ
कयजंसपसरे
ढुक्काउ तहिं
पुण्णासमहे
अच्छेवि खणु
जय देवि तुम
कोवकियए
निव्वकरए
पहणेवि गयउ
तीए वि तथा

रइराइयउ ।
न अच्छरउ ।
रायाणियउ ।
सेवावसरे ।
बुद्धिमइ जहिं ।
पणवेवि तहे ।
सुविणोयघणु ।
भासेवि इम ।
एक्केक्कियए ।
सिरि टक्करए ।
तहो दुम्मयउ ।
निय निंद कया ।

५

१०

चित्तियमइणा त निप्रवि तिणा ।
 पुज्जेवि सई थुय सा मुमई ।
 डयरहँ वि तउ गुरु दडु कउ ।
 नाऊण इण नविऊण जिण ।

१५

घत्ता—अवररेणावि सया वि हु भव्वेणप्पणउ ।
 निदेवउ छिदेवउ दुट्टुवियप्पणउ' ॥९॥

१०

सो वि य अविहेयकलत्तवसु झिज्जइ फुडु थेरहो तरुणि विसु ।
 सोवइ अण्णे पावासयए एक्कहिँ दिणे मारिउ सपइ तए ।
 मारइ मारावइ सई मरइ त नत्थि ज न तियमइ करइ ।
 छज्जियहे छुहेप्पिणु जाररया तं घल्लहुँ निसि पिउवणहो गया ।
 जणपच्चयकारणु धुत्तियए थंभिय देवीए निउत्तियए' ।
 अच्छोडइ ताडइ उल्ललइ पेल्लइ करेहि वेवइ वलइ ।
 सिरु धुणइ समुट्टइ वइसइ वि आरडइ पडइ सा नउ तइ वि ।
 जिह जिह विहि पवहइ आरसइ तिह तिह अईव देवय हसइ ।

५

घत्ता—हुय निफट्टुइवि नाइ नवाहु पसु ।

विगय विहावरि दुक्खे पिउवणे कहव तसु ॥१०॥

१०

११

ता भणइ देवि सद्धम्मचुया कि तउ हयासि दुब्बुद्धि हुया ।
 जे पहउ सपइ हले घम्ममइ तेणेह तुज्ज संजाय गइ ।
 जइ पयडहि नियदुच्चरिउ जणे तो फिट्टइ वुल्लियदुट्टुमणे ।
 त सुणिवि ताए असुहाउलए पइसिवि पुरे घम्मनयाउलए ।
 उव्भासिउ भो भो पउरजणि मई जेही का वि म होउ धणि ।
 जारहो कारणि रडवुद्धियए परिहासचुयए नियवुद्धियए ।
 सई वहिउ जाए भत्तारु निउ एत्थच्छइ पेच्छह परमदिउ ।
 भासतिहे एउ ताहिँ चलिउ सहुँ कुच्छयाए दुक्किउ गलिउ ।
 अवररेण वि घम्मे ठिएण इउ जाणेविणु जीवे अप्पहिउ ।

५

घत्ता—गुरुपयपोम समासिवि दुक्कियगरहणउ ।

अवसमेव कायव्वउ कम्मनिरोहणउ ॥११॥

१०

६ १ *वियप्प दुब्बयएहि भराड ।

१०. १ थभिउ देविए तं निउत्तियए ।

१२

उक्त च—आलोचनैर्निन्दनगर्हणैश्च व्रतोपवासे स्तुतिसकथाभि ।
 शुद्धैश्च योगै क्षपण करोति विषप्रतीघातमिवाप्रमत्त ॥
 आणक्खिदा य लोचेण अप्पणो होदि धम्मसड्ढा य ।
 उग्गो तवो य लोचो तहेव दुक्खस्स सहण च ॥ [भ आ ९४]

आणक्खिदाश्चर्यमत्यद्भूत लोचेन दर्शित भवति । अथवा आणक्खिदा आत्मपरीक्षा आत्म- ५
 प्रमाण नालोचने प्रकाशित भवति । उग्रं च तपो लोचः । तथा दु खस्य सहन च कृत भवति ।
 लोचाख्यान कथ्यते ।

एत्थत्थि वरिदी देसु वरु	तहिँ पट्टणु देविकोट्टु पवरु ।	
तत्थ वि पसत्थसव्वत्थनिदु	सिरिसोमदत्तु दिउ वेदविदु ।	
सोमिल्ला वल्लह तर्हे विलया	सुय सूय ताए वे गुणनिलया ।	१०
पढमो गिगभूइ छक्कम्मरउ	मरुभूइ वीउ सव्वत्थरउ ।	
अवरो वि तत्थ वहुदव्वरउ	हरिदत्तु विप्पु हरिदत्त सड ।	
तहो दव्वुद्धारे नित्थरइ	ससियत्तु महामइ वित्थरइ ।	
एक्कहिँ दिणि साहुसमीवे मुउ	सव्वण्हुधम्मु निव्वेउ हुउ ।	
मरुभूइजणेरे मुएवि घरु	उच्चाइउ रिसिचारित्तभरु ।	१५
गुरुणा समेउ गउ दिक्खियउ	समएण समग्गु वि सिक्खियउ ।	
पुणरवि भमतु तत्थाइयउ	हरिदत्तएण निज्जाइयउ ।	
भासिउ भो गेण्हवि मज्झ धणु	एवहिँ हुओ सि नग्गउ सवणु ।	
त दिन्नु न जाम ताम अब्रुह	जइ वल्लहि तो जिणआण तुह ।	

घत्ता—त निसुणेवि महामुणि सोमयत्तु लवइ ।

२०

पोढ पुत्त महु अच्छइँ ताण पासं लइ ॥१२॥

१३

तेणुत्तउ अन्ने कि करमि	पडँ लइउ दव्वु पडँ पर घरमि ।	
विहुदत्तु भणइ निग्गथु मुणि	हउँ नत्थि कि पि भो मज्झ धणि ।	
किं देसमि मुयहि म गाहु करि	जाएप्पिणु नदणं वे वि धरि ।	
पुणरवि आहासइ नत्थि धणु	किं सोमयत्त तुम्हाण भणु ।	
तुज्झत्थि धम्मु सो देहि महु	अहवा त विक्किणिऊण लहु ।	५
ता भवियव्व ओहिण मुणिय	सिरिवीरभद्दगणिणा भणिय ।	
भो सोमयत्त कयधम्मदिसि	एत्थज्जु पगपि मसाणि निसि ।	

विककेवि धम्मु ज लडउ वसु
मुणिऊण एउ गुरुजपियउ

देदेहि अस्स भो अप्पवसु ।
सीसेण न किं पि वियप्पियउ ।

घत्ता—जामिणिभरं जाएप्पिणु भीसणु सवसयणु ।

१०

भासिउ ढिमउ निहालिवि नीसकं गयणु ॥१३॥

१४

भो भो आयन्नह सक्क सिहि
रुदाहिराय विज्जाहरहो
विककाइ धम्मु जो लेउ तसु
भणियम्मि अम्मि पुणु पुणु वि पिणु
तट्टेविण्ण पुच्छिउ निव्विसउ
ज विककहि ता तहे दिव्वन्नुणि
मुरसुदरि अट्टवीस पवरा
सुणु तत्थ अहिंसा सच्चवउ
नगिणत्तणु लोहनिरोहणउ
निकखेवणगहणविसोहि तह
पचेदियपसरनिवारणउ
अवसणु अण्हाणु भूसोवणउ

जम नेरिय वरुण वाय सणिहि ।
वणदेवहो गहहो ससहरहो ।
हउँ देमि अससउ लेमि वसु ।
करिऊण सविग्गहु पयडगुणु ।
भयवत धम्मु कहि केरिसउ ।
सविसेमु पयासड विप्पमुणि ।
मज्जत्थि मूलगुण पावहरा ।
परिहारु दव्व तह कामजउ ।
इरिया भासेसण सोहणउ ।
उच्छगसुद्धि हयपाणिवह
लोचो छावासयधारणउ ।
ठिदिभोयणु दंताधोयणउ ।

५

१०

घत्ता—एयभत्तु एवविहु गयभयमरणजरु ।

धम्मु देवि विककाए समीहियसोक्खवरु ॥१४॥

१५

भणिद च—धम्मो जयवसियरण धम्मो चिंतामणि अणग्घेउ ।

धम्मो मुहवसुधारा धम्मो कामदुहा धेणू ॥१॥

कि जपिदेण वहुणा ज ज दीसेइ जीवलोयम्मि ।

इदियमणोहिराम त त धम्मफल सव्व ॥२॥

सर्वे वेदा न तत् कुर्युं सर्वयज्ञाञ्च भारत ।

सर्वतीर्थाभिपेकश्च यत्कुर्यात्प्राणिना दया ॥३॥

५

एवमादि धर्मगास्त्रकारै धर्मफल वर्णितमिति ।

अवरो वि आयणिण जिणधम्मु दहभेउ ।

उत्तमखमा महव मोक्खमुहहेउ ॥४॥

अजव च परिणामु सच्च च सउच च । १०
 तउ चाउ सजमु महाकिचणत्त च ॥५॥
 सरिहरसुरिदाइवसकारि कामारि ।
 निद्वलणखमु वभओ दहमु सुहयारि ॥६॥
 दोण्ह पि एयाण मज्झम्मि जो सारु ।
 सो देवि लड धम्मु ससारनित्थारु ॥७॥ १५
 निसुणेवि एय वियड्ढाए देवीए ।
 भणिओ मुणी अरुहपयकमलसेवीए ॥८॥
 अवरस्स सव्वस्स धम्मस्स भयवत ।
 दाउ फुड तीरदे मोल्लु मयणत ॥९॥
 जो पुण विमुद्धो सया सव्वसुहयारि । २०
 दारिद्व-दोहग्ग-दुह-दाह-घणवारि ॥१०॥
 निव्वाणगमकारणो कम्मघणपवणु ।
 अमिओवमो सव्वजीवाण गुणभवणु ॥११॥
 अदुइज्जओ णोवमो णग्घु अकलकु ।
 उवरि द्विओ सव्वधम्माण नीसकु ॥१२॥ २५
 तेलोक्कचक्कच्चिओ चारुचित्तेण ।
 पन्नतु सव्वण्हुणा भुवणमित्तेण ॥१३॥
 एवविहस्सावि दुलहस्स को तस्स ।
 मोल्ल अयाणो जणो देवि धम्मस्स ॥१४॥
 दाउ दयावासचेलक्क^१ लोचक्क । ३०
 वीमुदिया^२—मोल्लमवि भुवणं के मक्क ॥१५॥

घत्ता—तो वि तुज्ज उवसग्गहो सामिय करमि खउ ।

देमि मोल्लु तहो किं पि वि एउ भणेवि तउ ॥१५॥

१६

मोत्तियमाणिक्हें मरगयह

वज्जहँ वेडुज्जपवालयह

१५ १ देवसेक्क । २ चीमुदिया ।

कक्केयणपूसरायसवह ।

रुजगहँ रेरुगहँ पहालयह ।

वरफलहेदीवरवण्णयह	जलससिरविकतभुवण्णयह ।	
हरिनीलमहानीलकियह	कउ रासि असखु महतयह ।	
हक्कारिवि विण्हुदत्तु घणिउ	ता सोमयत्तमुणिणा भणिउ ।	५
कि जोयहि लइ लइ एउ घणु	मुए सवहुत्तारहि मज्झ रिणु ।	
तेण वि त नियवि विचिंतियउ	विभिण्ण विरुवउ मइँ कियउ ।	
खव्भालिउ हा ज जइ पवहँ	पेच्छहो धम्मस्स पहाउ' वरु ।	
देवा वि हु जेण नमति पया	मग्गिज्जइ ज त दिति सया ।	

घणसचयादो वर पुण्णसचओ एस पडिदा वेति । १०
 धम्मो मदमणुगच्छदि घण पि अन्ने विलुपति ॥
 थोव थोव धम्म करेह जइवि हु बहु न पारेह ।
 विरला वि रुक्खछाया न होदि दुक्खावहा नूण ॥

ता चित्तिवि इउ निव्वेयमणु	जरतणु व मुएप्पिणु रयणगणु ।	
तासु जि समीवि सवेयजुउ	हरियत्तु अकिचणु सवणु हुउ ।	१५
सग्गापवग्गु पयलग्गमणा	साहति पयत्ते दो वि जणा ।	
निवडिउ मणिरासि पएसि जहि	सिरिकोडि तित्थु नामेण तहि ।	
सजाउ तित्थु अज्ज वि वहइ	जणु दूरहो गपि गपि महइ ।	

घत्ता—जाणिवि एउ करह तउ पइसेवि जइणमइ ।

सिज्जइ ज नउ तं नउ अत्थि तवेण जइ ॥१६॥ २०

उक्त च—यद्दूर यच्च दुर्ग च दुराराध्य च यद् भवेत् ।

तत्सर्वं तपसा साध्य तपो हि दुरतिक्रमम् ॥

एव लोचक्खाण गद ।

१७

काले विणए उवहाणे वहुमणे तहेवनिण्हवणे ।

वजण अत्थ तदुभय विणओ नाणम्मि अट्टविहो ॥ [भ आ ११५]

काले एव भणिदे दब्बे खेत्ते काले भावे कालादिचतुष्टये सध्यादिदोषरहित शुद्धो वाचना-
 कालस्तस्मिन्नित्यर्थ । पर्यङ्गकरमुकुलितनमनकरणादिको विनयस्तस्मिन् । उपधानमवग्रहविशेष-
 स्तस्मिन् । आदरादिवहुमानस्तस्मिन् । गुर्वादीनामनिण्हवणमगोपन तस्मिन् । व्यंजनमक्षरशुद्धि । ५
 अत्य अर्थशुद्धि तदुभयं अक्षरार्थशुद्धि हीनाधिकशब्दार्थविवर्जितम् । तदुभयविशुद्ध शास्त्र पठित-
 व्यमित्यर्थ । सपइ कालक्खाण । तं ज्रहा—

सिरिवीरभट्टनामेण जइ
 निज्जणवणि गिरिगुञ्जतरए
 निज्जियसमु समननिरोहणए'
 तव्वोहणहेउ वियक्खणए
 सहसा गोवालणितणु रइया
 अइसुरहि सुसाइ अईववर
 विक्कामि तक्कु गेण्हह भणइ
 चिरु अच्छिवि गोरसविक्कणिया
 किं बुद्धिगहिल्ली ह्य तुहु
 इट्ट मिट्ट महुर भणहि

सत्थत्थव्भासनिवद्धरइ ।
 सट्ठिअ अधारनिरतरए ।
 पढदि त्ति अयालि सलक्खणए । १०
 [सुयदेविप्र चित्तिवि तक्खणए]
 सीसम्मि महणमथणि लइया ।
 भो भो रिसि सुहपरिणामकरु ।
 परिभमइ पुरउ साहु वि सुणइ ।
 तवलच्छिवहूवरेण भणिया । १५
 निसि पुरउ अपत्थावम्मि महु ।
 जे तक्कु अयाणिप्र विक्कणहि ।

घत्ता—एहउ सुणिवि अहीरिप्र वीरभट्ट भणित्ठ ।

किं तुहुँ साहु गहिल्लउ जे न मग्गु मुणित्ठ ॥१७॥

१८

सव्वहिद विउल निरवज्ज
 देवयरक्खियय सुदनाण
 काइँ अकाले पुज्ज जइण
 पढहि सुणेप्पिणु एय वयण
 ता नक्खत्तविहाए नाओ
 हा द्दुट्ट कदमिदमविवेय
 गुरुपयमूले पायच्छित्त
 पुणु दव्वादिचउक्कविसुद्ध
 तुट्ट कम्मचउक्क तेण
 साहुकय भयव भणिऊण

निउणनिकाचिदय अदुइज्ज ।
 अमय मिट्ट सव्वरसाण ।
 वयण पडिवक्ख दुग्गइण ।
 जोयइ जा निग्गेप्पिणु गयण ।
 पाढहो कालाइक्कमु जाओ । ५
 भणिऊण करेवि निव्वेय ।
 लेप्पिणु दूसेप्पिणु दुच्चरित्त ।
 विणएण पढतु सुदखध ।
 जाद केवलमचल नाण ।
 पुज्जिवि उच्छवेण नविऊण । १०

घत्ता—गय सुयदेवि समदिरु नाणाचाररउ ।

कालकमेण मुणिंदु वि मोक्खनिवासु गउ ॥१८॥

१९

अवरु वि आणदियभव्वयणु
 अरुणोदयम्मि सज्झायखणु
 सो सव्वकाल अमुणियसमउ
 असमाहिप्र मिच्छत्तेण मुउ

होतउ सिवनदणक्खु सवणु ।
 होदि त्ति गहियसकेयमणु ।
 पढिऊण जिणिंददेवसमउ ।
 गगादहम्मि पाढीणु हुउ ।

१७. १ निज्जियसमुननिरोहणए ।

तहिँ पुलिणि पढतु मुणेवि जइ
 हा मई पाविट्टे आसि कउ
 जलयरु, जई वि जणपणयपउ
 इय निंदिवि अप्पउ उप्पडिउ
 तेणावि मुणिउ नाणेण तउ
 मुउ हुउ सत्तासु करेवि वरु
 अवरु वि जो विहिण्ण विसुद्धियए

जायउ जाईसरु तोयगइ । ५
 सुयनाणाइक्कमु तेण भउ ।
 हा विहि वलवतो अन्नु नउ ।
 एप्पिणु मुणिपायते पडिउ ।
 सबोहिउ दिन्नु वरत्थवउ ।
 सुहभावणाण्ण मुरु सुहपउरु । १०
 कालाण्ण चउट्टण्ण मुद्धियए ।

घत्ता—इय जाणेवि पढेसइ दुग्गइविट्ठवणु ।

सो सिरिचदुज्जलजसु होसइ सुहभवणु ॥१९॥

विवहरसविसाले णेय कोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
 भुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतोसे ॥
 मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।
 एसो अयालअज्झयणफलकहा नाम पंचमो सघी ॥

॥ संघि ५ ॥

संधि ६

१

ध्रुवय—इय अक्खिउ जिह लक्खिउ दोसु अयालज्झयणहो ।
गुणपणयहो सुयविणयहो गुण भासमि भव्वयणहो ॥

दुवई—वच्छाजणवयम्मि कोसबीपुरि परिपालियावणी ।
अत्थि नरिंदु नाम धणसेणो धरणीवइसिहामणी ॥

तहो वल्लभ रइ व्व मणभवणहो
सा सइ जणमणनयणाणदिरि
राउ वि भागवदो परिवायहँ
तहो गुरु तत्थुवलद्धपडट्टुउ
सव्वकाल अग्गासणि भुजइ
एत्तहँ वेयइढहे जियसुरपुरु
विज्जुप्पहु नामेण पहाणउ
सावउ अभिगयसम्माइट्टिउ
विज्जुप्पह नामे पियपत्ती
वंदणहत्तिहेउ नीसकइँ
दिव्वविमाणं गयणि भमतइँ
माहमासि धणतुहिणनिवायग्र
ण्हाएप्पिणु हरि हरि पभणेप्पिणु

धणसिरि धणसिरि व्व दणुदवणहो । ५
जिणमुणिदकमकमलिदिंदिरि ।
भत्तु सया वि मुरारिहँ पायहँ ।
अत्थि भगवु नामे सुपडट्टुउ ।
जलथभणमते जणु रजइ ।
दाहिणसेढिहँ रहनेउरपुरु । १०
अत्थि तत्थ विज्जाहरराणउ ।
कुगुरुकुदेवह दूरि परिट्टिउ ।
तासु विण्हुपयपकयभत्ती ।
वे वि ताइँ नावइ सइसक्कइँ ।
एक्कहिँ दिवहँ तत्थ सपत्तइँ । १५
कयवद्दलिग्र वहतरवायग्र ।
जमुणदहे बहुवुड्डुउ देप्पिणु ।

घत्ता—ते तहो नियमतहो जाउ जवतु जलोवरि ।
उवविट्टुउ कयनिट्टुउ भिसियाए भासेवि हरि ॥१॥

२

विंभिय त निएवि विज्जाहरि विज्जाहरहो भासए ।
नियसमयट्टियाण तवसीण माहप्प पयासए ॥

एदिसम्मि अदिसीदवद्दले
ण्हायिरुण जमुणानईजले
झाणजोग्र एयग्गभावणो
त सुणेवि कुमुयाणुगामिणी

पेच्छ पेच्छ पहु एत्थ निम्मले ।
तववलेण ठिउ जेम भूयले ।
एहु अम्ह तवसी सुहावणो । ५
भणिय विज्जतेएण भामिणी ।

जाहि मुद्धे मा विभय इमो
 कुपहवम्मरायाणुरजिओ
 खेयरीण निमुणेवि विप्पिय
 भासिय विमुद्धे पसिद्धए
 पुज्जणिज्जि अवियारणि ज्जए
 वेयवयणि एसो णुरत्तओ
 वीरवीर कयपरमनिट्ठओ
 सव्वसत्तहिउ कमु न रुच्चए
 अत्तु धम्मु अत्तो तवोहणो
 तो वि चित्तसवित्ति नावए
 परदुगुच्छणं अप्पससण

मदवुद्धि अत्तायसंजमो ।
 पावयम्मु परमत्यवज्जिओ ।
 गुरुदुगुच्छण नाहजपिय ।
 अकण्ण गोवसे णाण्ण सिद्धए । १०
 हेउवाडणावाहणिज्जए ।
 विण्हुदेवपयपोमभत्तओ ।
 सुद्धु बुद्धु तवसी वरिट्ठओ ।
 कहसु केम अत्ताणु वुच्चए ।
 जइवि सुट्ठु तउ तवइ सोहणो । १५
 अडयणाहिँ हिरिभाउ नावए ।
 भणिउ एइ सप्पुरिसदूसण ।

घत्ता—ता बुत्ते पिय कते भणिय म एम वियप्पहि ।

आयडंभु परमत्ये भणमि हियत्ये अमुणती मा कुप्पहि ॥२॥

३

दुवई—किं बहुएण भदि दक्खालमि तवमाहप्पु आयहो ।

एहि भणेवि तीण्ण सहँ खेयरु ओयरियउ विहायहो ॥

गहियमसच्चम्मइँ कुणिमगइँ
 उवरि गपि जगलु पक्खालहुँ
 दूसिउ जलु दुग्गथे भग्गउ
 वणरुत्तपूयपवाहे भूसिउ
 छड्डेवि त पएसु अत्तेत्तहे
 बहु वाराउ एम चंडालहिँ
 मेल्लिवि ण्हाणु जाउ आलसिवि
 एत्तहे पेक्खत्तहो तहो सोहणु
 वेउव्विउ पासाउ रवण्णउ
 हेमुज्जलहिँदोले वलग्गउ
 गमणागमणु नहग्गणि दाविउ
 अवराओ वि अणेयउ पाणँ
 त्रिभिउ तं निएवि परिवायउ

जायइँ वे वि जणइँ मायगइँ ।
 पारद्वउ त मणु सचालहुँ ।
 जाण्णवि उवरि ण्हाहुँ सो लग्गउ । ५
 पुणरवि उवरि गंपि पउ दूसिउ ।
 गउ भगओ पवित्तु जलु जेत्तहो ।
 खव्भालिउ कयमायाज्जालहिँ ।
 थिय ओसरिवि ताइँ सो दूसिवि ।
 पवरुज्जाणु नरामरमोहणु । १०
 नं सुरवडविमाणु अवडण्णउ ।
 जुवईयणु सोहाइ समग्गउ ।
 विविहरसोइण्ण जणु जेमाविउ ।
 रइयउ किरियउ विज्जापाणे ।
 चित्तण्ण हरिसुद्धूसियकायउ । १५

घत्ता—जगमत्तइँ सामण्णइँ एयइँ होति न पाणइँ ।

गुणिसेवइँ अह देवइँ विज्जाहरइँ ण्हाणइँ ॥३॥

४

दुवई—अन्नहँ एह सत्ति सभवइ न जणमणचोज्जदाइणी ।

अत्थि परेक्क मज्झ जलथभिणि विज्जा विज्जभाइणी ॥

लव्भइ अवर एह जइ विज्जय
तो महु को वि न जाइ अखद्धउ
पणउ करेप्पिणु करु जोडेप्पिणु
के तुम्हई किं कज्जेणायइँ
सूयइँ अइअच्चवभुयभूयइँ
कहइ खयरु तुम्हहि वि नियच्छिय
पुच्छह ज आगमणु अठायइँ
आयरियणँ एक्केण सपणयहँ
ताहे पहावे जणमणहारइँ
भासइ भगउ पसाउ विहिज्जउ
भणइ पाणु ज तुम्हहँ दिज्जइ

परमविज्ज खयरामरपुज्जिय ।
इय अवधारिवि तहो कुढि लग्गउ ।
पुच्छइ ताई समीवि हवेप्पिणु । ५
सघह करह केम फुडु आयइँ ।
जणमणविभणियाइँ वहूयइँ ।
अम्ह जाइ मायगी कुच्छिय ।
इहु पुरमेव भमतइँ आयइँ ।
दिन्न विज्ज अम्हहँ कयविणयहँ । १०
रुवइँ करहुँ अणयेपयारइँ ।
अम्हहँ एह विज्ज ढोइज्जउ ।
सच्चउ त परेक्कु सलहिज्जइ ।

घत्ता—अप्पवसी त तवसी किं तुम्हहँ दुक्कियरउ ।

गुणजणएँ विणु विणएँ सिज्जइ मत्तु न नीरउ ॥४॥

१५

५

दुवई—जत्थम्हई निएसि जइ तत्थ विसज्जिउ माणगारउ ।

करेवि तिपदक्खिणाउ पणवेवि पयासियभत्तिभारउ ॥

सामिय तुम्हहँ पायपसाएँ
पभणहि एउ अससउ तो तुह
भासइ सुप्पइट्ठु दिहिगारउ
देहि विज्ज ता दिन्न समिच्छिय
विन्नासेप्पिणि सुइरु सहत्थे
देवि पदक्खिणाउ पणवेप्पिणु
पुच्छिय राएँ भुजियभोयणु
भासइ सो निव सव्वसुहावउ
सो संपुणु अज्जु सजायउ
अवर वि देव महामहिमाहर
उच्छवेण पुज्जेवि नमसिवि

जीवमि चितियसोवखउवाएँ ।
सिज्जइ विज्ज न इयरहो भो बुह ।
करमि सव्वु भासिउ तुम्हारउ । ५
तेण वि भत्तिपरेण पडिच्छिय ।
सिद्धि वियाणेप्पिणु परमत्थे ।
गउ राउलु जय गुरु पभणेप्पिणु ।
भयव अज्ज काइँ लाइउ खणु ।
जो किउ एत्तियकालु महावउ । १०
वभु विणु माहेसरु आयउ ।
गण गधव्व जक्ख विज्जाहर ।
गय सयल वि म सुइरु पससिवि ।

बहुवारहु य तेण सराएँ पुच्छिउ एउ सुणेवि स राएँ ।
किं फहाउ तहो तेण कहिज्जइ ज चित्तिज्जइ त पाविज्जइ । १५

घत्ता—त निसुणेवि सिरु विहुणेवि विभिएण वणसेणे ।
सो नवियउ विन्नवियउ अरिविहगगणसेणे ॥५॥

६

दुवई—दावसि नियतवस्स माहप्प भो भयवत सोहण ।
सवोहहि जणोहु जणवल्लह कुरु ससयनिरोहणं ॥

भगवेणुत्तउ एवहिँ अच्छउ पसरि नराहिव दावमि निच्छउ ।
सवलु सवाहणु एउ करेज्जसु आमतिउ मढियहे आवेज्जसु ।
भोयणभूसणाडविहि सयल वि हउँ जि करेसमि सकुलवररवि । ५
एम भणेप्पिणु गउ परिवायउ विगय विहावरि वासरु जायउ ।
मुप्पडट्टु गुरुपायपओरुह पुज्जहुँ चलिउ राउ पुज्जारुह ।
आवउ मव्वु को वि डय घोसण देवि सधम्मपक्खपरिपोसण ।
सगयपउरपउरपरियणजणु गउ नरिदु तहिँ कोऊहलमणु ।
दिट्ठु नमसिउ जयजयकारे पुज्जिउ सो निवेण परिवारे । १०
अवरेहिँ मि भत्तीए नमसिउ तेण वि नियसामत्थु पयासिउ ।
परमुज्जाणु विविहरुक्खाउलु पट्टणु दिव्वु एककु किउ राउलु ।
तत्थ नरेसरु आवासाविउ चारुरसोइए जणु जेमाविउ ।
तवोलइँ कुसुमाइँ सुयधइँ वत्थइँ आहरणाइँ सगधइँ ।
ज जमु जोगु तासु त दिन्नउ हीणदीणदालिदु विहिन्नउ । १५

घत्ता—अन्नहो नउ एहउ तउ अत्थि समीहियदायउ ।

विभियमड पुहवीवड एव मुट्ठु सजायउ ॥६॥

७

दुवई—एउ निएवि विण्हुधम्ममि समग्गु वि लोउ लग्गओ ।

मायगाइँ ताइँ एत्थतरि एव ठियाइँ अग्गओ ॥

विट्ठी कहिँ एयाइँ अभट्टेँ आयइँ पावरयाइँ रउट्टेँ ।
अट्टुव्वेँ दुट्टेँ मारहो नेहु लेहु नहु दूरोसारहो ।
इय भगवहो वयणेण जणोहे कह व न मारियाइँ कयकोहे । ५
निव्वत्थेवि ताइँ निट्ठाडिवि घल्लियाइँ उवलहिँ अइताडिवि ।
तेनु गएनु विउव्वण नट्टी रायहो सक मणम्मि पइट्टी ।

भयव किं एय सपन्न
 त सुणेवि भगवेण विलक्खे
 अम्हारिसह राय दुवियड्ढहँ
 जत्थम्हइँ निएसि कयसत्तिप्र
 इय भणिरुण एण पडिवन्ती
 ताप्र एउ चित्तियफलपत्तिप्र
 किउ नवयारु न तुह लज्जते
 कोसंवीसे एउ सुणेप्पिणु

कि तव छिड्ड अहवा अन्न ।
 वुत्तउ विज्जानासे सदुक्खे ।
 कत्थ एत्थ तउ सजमु थड्ढहँ । १०
 तत्थ नवेज्ज सुगुरुयप्र भत्तिप्र ।
 मायगेण विज्ज महु दिन्नी ।
 रइउ असेसु वि मइँ पहयत्तिप्र ।
 विज्जासत्ति पणट्ठी निव ते ।
 गपि पाणु मग्गिउ पणवेप्पिणु । १५

घत्ता—जो आयहो परिवायहो दिन्नउ मतु महाइउ ।

दय किज्जउ पहु दिज्जउ सो महु चित्तियदाइउ ॥७॥

८

दुवई—पुव्वुत्त भणेवि चित्तामणिविज्जा भुवणमन्निया ।

पेच्छेवि परमभत्ति परिओसे तेण वि तासु दिन्निया ॥

वेउव्वेवि जहिच्छइ भूवइ
 अन्नहिँ दिणि अत्थाणि परिट्ठिउ
 त जोएप्पिणु हरिसुक्कठिउ
 कर मउलेवि पयाहिण देप्पिणु
 पेच्छतहो नरवरसघायहो
 नविवि पउत्तु निवारियदुट्ठे
 जाणिय भावसुद्धि अणुराएँ
 किं एयप्र विज्जाप्र सपणयहो
 एम भणेवि सरूवु पयासिउ
 भगवपरिक्खहेउ माय गउ
 सुणेवि एउ सोहणु सामते
 विभिणुण चित्तियपरलोएँ
 मेल्लिवि लोयधम्मु गुणगाहे

आउ समदिरु परिओसियमइ ।
 एप्पिणु अतजु पुरउवविट्ठु ।
 हरिवीढहो सहसत्ति समुट्ठिउ । ५
 भत्तिप्र जय जय गुरु पभणेप्पिणु ।
 नरवइ पाणहो नविउ सजायहो ।
 जीविउ रज्जु सोक्खु तइँ तुट्ठे ।
 राउ पससिउ खेयरराएँ ।
 सिज्जइ तेलोक्कु वि तुह विणयहो । १०
 नाउँ ठाउँ सविहउ उब्भासिउ ।
 जाउ सरामु राय मायगउ ।
 सपुरोहे समतिसामते ।
 समउ सब्वपरियणपुरलोएँ ।
 सावयधम्मु लइउ नरनाहे । १५

घत्ता—त जोएवि दिढ होएवि सा तहो खयरिदहो वहु ।

गयच्छम्महो जिणधम्महो लगग मुप्रवि मिच्छावहु ॥८॥

९

दुवई—मायगहो वि विहिउ विहिपुव्वो जेम निरायिणा तिणा ।

तेम सया वि विणउ सुयणाणहो कायव्वो हिएसिणा ॥

त कह ? पलियक-निसेज्ज-गदो पडिलिहिय कयंजली कदपणामो ।
 सुत्तत्थजोगजुत्तो पढिदब्बो आदसत्तीए ॥ [मूला. २८१]
 विणएण सुदमधीद जदि वि पमादेण कह व वीसरिद । ५
 त उवठादि परभवे केवलनाण च आवहदि ॥ [मूला २८६]

॥ एव विणयक्खाण गद ॥

पुरि अहिच्छत्ति राउ वसुवालउ	वसुमइदेविहे कतु गुणालउ ।	
सहसकूडु नामेण जिणालउ	तेण कराविवि सुट्ठु सुहालउ ।	
तम्मि पुणो पारभिय देवहो	पासहो पडिम जयत्तयसेवहो ।	
किज्जइ दिणि निसाहे सा विहडइ	रायरोसु लेप्पयरहो निवडइ ।	१०
वित्थारइ मारड नीसारइ	दिणि दिणि अवर अवर हक्कारइ ।	
एव गदवदि काले आओ	अन्नो लेप्पयरो विक्खाओ ।	
देवाहिद्वियय जाणेप्पिणु	गपिणु गुरुपयाइँ पणवेप्पिणु ।	
तन्निमित्त पुयाइ करेप्पिणु	महुमसाइ अदग्गहु लेप्पिणु ।	
तेणाणोवमु भुवणाणदहो	निप्पाइउ पडिविबु जिणिदहो ।	१५

घत्ता—त जोएवि पोमाएवि वरवयणहिँ परिओसे ।

विन्नाणिउ सम्माणिउ पउरत्थेण महीसे ॥९॥

१०

दुवई—एवविहा वि साहुसघेण विससयभावपावह ।

गहियावग्गहेण पढिदब्बं सुयनाण सुहावह ॥

त कह ? आयंवि ल निव्वियडी अन्न वा जस्स होदि ज जोग्ग ।
 त तस्स करेमाणो उवघाणपरो हवदि एसो ॥ [मूला. २८२]
 सम्मत्तम्मि तम्मि सुयणाणे इंदाइहिँ सय कया । ५
 पुज्जा पाविऊण पाविज्जइ अक्खयसोक्खसपया ॥

॥ एवं उवहाणक्खाणं गद ॥

निसुणहो भासमि बहुमाणहो कह
 वाराणसि भणेवि जाणिज्जड
 अत्थि सया अणुहुजियभट्टो
 वसुमड नामे पाणपियारी
 अत्थि समीवि ताहे गंगायडि

पुरि कासीविसयम्मि सुहावह ।
 इदु वि जाहि सनयरिहे लज्जइ ।
 राया तहिँ पसिद्धु वसुभट्टो ।
 पिय तहो सव्वतेउरसारी । १०
 गामि पलासखेडि जणसकडि ।

पत्तासोड ग्रसोड महतउ
सो बहुगोडलसामिड रायहो
घियहो घडाण सहासु पयच्छइ
पयणियजणमणनयणाणदा

जणवयवच्छलु दूरज्जियभउ ।
वरिसि वरिसि पालियमज्जायहो ।
निरुवद्दउ कुलेण सुहु अच्छइ ।
पणइणि गुणनिहाण तहो नदा । १५

घत्ता—सा वज्जा अवरज्जा परिणिय तेण सुनदा ।

नवजोव्वण थोव्वडथण मुहनिज्जियच्छणयदा ॥१०॥

११

दुवई—ता पडिहाइ तासु अहवा नवपेम्म कासु न प्पिय ।
कलहु निएवि ताण कुलवडणा अद्ध समप्पिय ॥

नदा गाईण गोवाण
गहण जतीण अणुगमण
एतीण एप्पिणु पडिगहण
निसि घास लोण खलदाण
अवर पि हु दावइ सम्माण
गोवालाण वि करइ पयत्त
भुजावेप्पिणु सुहसाउयय
देवि विसज्जइ तरुसछन्न
जेसु जेसु ठाणेसु मणोज्ज
तेसु तेसु सुरहीउ हियत्ते
मुमरिप्पणु सामिणिसम्माण
गेह अडईदो आयाण
पियवयण दुरियासणदाण
भोयण च सयण पत्थरण

बहुमाण कारइ सव्वाण ।
गणिरुण गोवयमालवण ।
सल्लानिन्नुन्नयनिम्महण । ५
गाईय गोभत्त पाण ।
ताउ वि देति पय अपमाण ।
घयदुद्ध दहिय वरभत्त ।
हत्थे लडुयाइ खाउयय ।
गपि ते वि सत्तुट्टा रण्ण । १०
विउल जल च तणं च सखज्ज ।
चारयति पायति पयत्ते ।
करहिँ दुहिवि नेव पयपाण ।
ताण नावइ नियजायाण ।
पयधुवण अन्नगणणहाण । १५
पावरण सरीरसुहकरण ।

घत्ता—एवविहु अवरु वि बहु करइ निच्च गोसाविणि ।

सम्माण धणदाण गोवाण गयगामिणि ॥११॥

१२

दुवई—दुज्जइ दुद्धु जेसु जावि ज्जइ जन्न ताण सोहण ।
भडाण करेइ कमलाणण धुवणक्कढणसोहण ॥

सुनदा वि सोहग्गावेण गीढा
न गाईण गोवाण भडाण भत्ता

न नेत्तेहिँ नीहालए कि पि मूढा ।
गयाणागयाण न पुच्छेइ वत्ता ।

विचितेइ चग न निव्वाहवत्त
 न गच्छति दूर वण चारुचारिं
 न जोयति कालेण पायति नीर
 गए पचमासे हुया दाणवाली
 घडाए घएण सया पच पुण्णा
 कणिट्ठा वि आणेहि कतेण वुत्ता
 पउत्त तथा सामिणो निव्वियप्प
 मुणेऊण एय असोएँ हयासा
 पुणो तास नीएइ नदाए अन्ना
 कया मुट्ठु तुट्ठेण कतेण पूया
 धण गोउल सव्वमेवप्पिय से
 वियाणेवि साहू वि एय निरुत्त

न गोवा वि कुव्वति गाईपयत्त । ५
 सया देति तवाण ते भुक्खमारिं ।
 दुहेऊण सेच्छाए घोट्टति खीरं ।
 घयस्सागया राइणो भडसाली ।
 तन्नो जेट्टभज्जाए आणेवि दिण्णा ।
 तुमं एत्तिआ सप्पिकुभा निरुत्ता । १०
 मईण घरे नत्थि थोव पि तुप्प ।
 सकोवेण कुट्टेवि नीसारिया सा ।
 निवत्थ निवा तेत्तिय नेवि दिन्ना ।
 मणोवल्लहा सव्वकालं व हूया ।
 न किं वाहवा होइ भो भत्तिलेसे । १५
 सयाकाल काऊण एयग्गचित्त ।

घत्ता—सुयनाणहो उवयरणहो तहो अज्जावयनियरहो ।

सुहदाणं बहुमाण करउ आण तित्थयरहो ॥१२॥

१३

दुवई—सुत्तत्थं जपतो वायतो चावि निज्जराहेदु ।

आसादण न कुज्जा तेण कद होवि बहुमाण ॥

सो सोक्खेण पढइ आयन्नइ गत्थत्थ विउज्जए ।

नाणोवरणु लहइ कम्मक्खउ विसयसुहे न मुज्जए ॥

जो नउ करइ विगयमइ गव्विउ बहुमाण जिणागमे । ५

सो भवगहणे भमइ दुहपहउ सुनदा जेम दुव्वभमे ॥

॥ बहुमाणक्खाण गद ॥

उज्जेणिहि दिहिसेणु महीवइ

तणुरुहु चारु चदपज्जोयउ

एत्तहे वक्खिणदेसि रवण्णए

वम्हणु सोमसम्मु विक्खायउ

नदणु नियकुलभवणपईवउ

सो समत्थसत्थहँ पारगउ

अट्टारह लिवि देसीभासउ

पुहइ भमतु विसालहे आयउ

पिय महएवि तासु मलयावइ ।

नाएँ नियसताणुज्जोयउ ।

वेन्नायडपुरि सिरिसपुण्णए ।

पिय सोमिल्ल ताए सजायउ । १०

कुमडकयतु कालसदीवउ ।

तक्कछदवायरणपयासउ ।

परियाणइ सव्वउ सविसेसउ ।

गुरु दिहिसेणमुयहो सजायउ । १५

तेण वि सो जाणाविउ भव्वइँ	अक्खरलिविवायरणइँ कव्वइँ ।	१५
तक्कइँ तरलवाइविणिवारइँ	निग्घटइँ छदालकारइँ ।	
जोइसाइँ गणियइँ गधव्वइँ	अवराइँ वि विन्नाणइँ सव्वइँ ।	
जमणविसयभासक्खरलिवि तहो	केम वि नेइ परेक्क पढतहो ।	
एक्कहिँ दिणि कुद्धेणुज्जाएँ	मुक्खु भणेवि पहउ सिरि पाएँ ।	
तासिएण गुरुपायपहारे	ता रोसेण पवुत्तु कुमारे ।	२०

घत्ता—सुहु देसइ महु होसइ रायलच्छि फुडु जइयहुँ ।
दडेसमि खडेसमि दुट्ट कमो इसु तइयहुँ ॥१३॥

१४

दुवई—गुरुणा मुणेवि एउ भवियव्वु वियाणिवि निव्विबधण ।
भणिय तुज्ज रज्जे महु होसइ पायहो पट्टबधण ॥

एव भणेवि महागहसारहो	कइवय वरिसइँ रायकुमारहो ।	
सयलकलाकुसलत्तु करेप्पिणु	गपि सुधम्मु मुणिदु नमेप्पिणु ।	
दाहिणदेसि कालसदीवे	लइयउ तउ सन्नाणपईवे ।	५
रज्जे चदपज्जोउ थवेप्पिणु	दिहिसेणु वि निग्गथु हवेप्पिणु ।	
पव्वइयउ परमप्पउ जायउ	एत्तहे रज्जु करइ तज्जायउ ।	
एक्कहिँ दियहे लेहु अणुराएँ	पेसिउ जवणजणतहो राएँ ।	
सो केणावि न वाइवि सक्किउ	ता निवेण सइँ लेवि वियक्किउ ।	
गुरु सभरिउ मुक्कनीसासे	भणिउ सजलनयणे दीणासे ।	१०
जइ गुणनिहि न पयत्तु करतउ	तो हउँ एह केम जाणतउ ।	
जइ न मुणतु एह तो होतउ	मुक्खभाउ महु लोउ भणतउ ।	

घत्ता—इय भासेवि सभूसिवि पेसिय मति गवेसहुँ ।
तेहिँ वि वरे कचीपुरे दिट्ठु साहु सघे सहुँ ॥१४॥

१५

दुवई—पय पणवेवि भणिउ भो भयव भुवणाणददाइणा ।
अम्हइँ तुम्ह पासं सपेसिय ससिपज्जोयराइणा ॥

सुमरइ निच्चमेव सुणि मोक्खु व	सुमरइ विहलउ सपयसोक्खु व ।	
सुमरइ कोइलवालु वसतु व		
सुमरइ नीलकठु नवमेहु व	सुमरइ सरुउ निरामयदेहु व ।	५
सुमरइ किंकरु पहसम्माणु व	सुमरइ घन्नु सुपत्तहो दाणु व ।	

सुमरड विरहिड पियससग्गु व
सुमरड ससहरु छणव्णिणत्तु व
सुमरड लोड सधम्मु नरिदु व

सुमरड चक्कु उयतु पयगु व ।

... ..

सुमरड भवभयभीड जिणिदु व ।

घत्ता—हमु व सरु पहिड व घरु विञ्जु करी व सया वि हु ।

१०

पडँ गुणगुरु सुमरड गुरु नड वीसरड कया वि हु ॥१५॥

१६

दुवई—एम भणेवि तेहिँ तहिँ होतु महामुणि दिव्वनाणिओ ।

मन्नावेवि कालसंदीवुज्जेणीनयरमाणिओ ॥

निद्वणत्तणएण व बहुकसवरु
सिद्धेण व सभाविड सिवपुरु
परिअचिवि अचिवि सविहोएँ
पणवेप्पिणु कयदोसावायहो
अच्छवि तत्थुवसामिवि जणवड
समड तेण विहरतड सतड
तत्थ विडलगिरिसिहरि रवण्णड
विणिण वि ते तहिँ वदणहत्तिप्र
समवसरणवाहिरि उवविट्टड
साहु गोरसदीड णियच्छिड

तिसिएण व पहिएण महासरु ।

नरनाहेण पलोडड नियगुरु ।

थुणिवि मुणिदु चदपज्जोएँ ।

५

विरइड पट्टवधु तप्पायहो ।

देवि गउरसदीवनिवहु तड ।

पट्टणु रायगेहु संपत्तड ।

सम्मइसमवसरणु अवइण्णड ।

जति निच्च कयसोक्खुप्पत्तिप्र ।

१०

एक्कहिँ वासरि पालियनिदुड ।

वदिवि सेणियराएँ पुच्छिड ।

घत्ता—कहिँ को गुरु अम्हहँ गुरु दुद्धरु कयकम्मक्खड ।

सगहियड-जयमहियड जासु पासे परिद्विक्खड ॥१६॥

१७

दुवई—लज्जागारवेण गहिएण पडत्तड तेण रायहो ।

जयसामियहो सीसु हडँ देवहो वीरहो वीयरायहो ॥

गड आयणिणिवि एड नरेसरु
हासकाससकासरवण्णड
वड्ढमाणु जिणनाहु नमसिवि
सेणिड सहुँ मेत्तेण समायड
पेच्छिवि विभियचित्तु नियत्तड
किं भयवत नेयसदीवहो
हिमहरहारहममनिकायड

गुरुनिण्हवदोसेण मुणीसरु ।

हुड इगालधूममसिवण्णड ।

साहुंसधु दुक्किड विद्वसिवि ।

५

सियसदीवदेहु विच्छायड ।

पुच्छइ गोत्तममुणि नयगत्तड ।

दुक्कियकम्मधारपईवहो ।

अलितमनिहु मरीरु सजायड ।

भासिउ गोत्तमेण घणघोसे
 एउ मुणेवि एवि मगहेसे
 भयव तुम्हए एसु न जुज्जइ
 गुरुनिण्हवणहो अन्न न दुक्किकउ
 जइ पत्तियह न तो नियदेहहो

हुउ तमु तहो गुरुनिण्हवदोसे । १०
 भणिउ सेयसदीउ विसेसे ।
 ज गुरुदेवहो निण्हवु किज्जइ ।
 मइँ वि अससउ एउ वियक्किकउ ।
 पेच्छह नट्ठु तेउ तवगेहहो ।

घत्ता—इय भासेवि सिक्खावेवि मुणि तप्पयपणयगउ । १५
 बहुजाणउ घर राणउ इयरु वि गुरुपास गउ ॥१७॥

१८

दुवई—निदणगरहणाए काऊणाणुट्टियपायच्छित्तओ ।

काले सुद्ध बुद्धु हुउ केवलि पयपाडियजयत्तओ ॥

॥ निण्हवणकहा समत्ता ॥

मगहामडले मयणसमाणउ
 वीरसेणु नामेण पहाणउ
 पुत्तु पुण्णवतहो सुच्छायउ
 सुहगइ सीहु भणिज्जइ नामे
 एक्कहिँ वासरे विप्पडिवन्नहो
 को सो किं न पई सईँ भासिवि
 दूसिउ जणवउ रिद्धिविसालउ
 किज्जइ निच्चमेव उवकालउ
 कयकोट्टारोहेणच्छते
 चित्तिउ बहुसहायसामत्थउ
 जाणइ नउ कइयहुँ वसि होसइ

रायगेहिपुरि पीणियदीणउ ।
 अत्थि राउ भग्गारिपहाणउ ।
 वीरसेणमहएविए जायउ । ५
 सो सुदरु सलहिज्जइ कामे ।
 रायहो उवरि सीहरहसन्नहो ।
 गउ मागहनरवइ आरुसिवि ।
 रुद्धउ पुरु सुदरु सोहालउ ।
 तो वि न पणमइ पोयणपालउ । १०
 एक्कहिँ दिवहे अराडकयते ।
 विसमु विइरि अन्न वि दुग्गत्थिउ ।
 केत्तिउ कालु एत्थ लग्गेसइ ।

घत्ता—एक्कु जे सुहु महु तणुरुहु सो अज्जु वि अपढतउ ।

अच्छइ घरं हसु व सरं पयणियसुगडपयत्तउ ॥१८॥ १५

१९

दुवई—सो नउ वप्पु माय सा वेवि विवक्खइँ ताइँ निच्छउ ।

जेहिँ न बालभावे सुउ पाठिउ हक्केवि सकिणुत्थउ ॥

लालणु णाणादोसहुँ कारणु
 वरिसइँ अट्टु जाम लालिज्जइ
 मुणिवि वरिसु सोलहमउ सतउ

ताडणु फुडु गुणोहहक्कारणु ।
 पुणरवि मत्त ताइँ ताडिज्जइ ।
 मित्तु व दीसइ पुत्तु निरुत्तउ । ५

मुक्खु न अप्पउ परु परियाणइ
 रायउत्तु जो होइ निरक्खर
 एउ विचिंतिवि लेहु लिहाविउ
 नेवि समप्पिउ कयनवयारे
 त वायहुँ वायउ हक्कारिउ

हेयाहेउ न किं पि वियाणइ ।
 सो न कयाइ पयाहि सुहंकरु ।
 पहुणा नियनयरहो पट्टाविउ ।
 वीरसेणदेविहे लेहारे ।
 तेण वि उम्मुट्टिवि उच्चारिउ । १०

तद्यथा—स्वस्ति श्री पोदनपुराद्राजाधिराजपरमेस्वरश्रीवीरसेनो राजगृहावस्थिता श्रीवीरसेना
 महादेवी मन्त्रेपुरोहितादीञ्च परमादरेण कुशलीकृत्याज्ञापयति यथा महतादरेण सिंह-
 मवापय^१ इति ।

सुणिवि एउ देविण परिभाविउ
 बहुकाले विक्खु वसि जायउ
 पुच्छिउ पढिउ सीहु सियसेविण
 किं कारणु किउ लेहुवड्डउ

ता तणुरुहु पच्छन्नु थवाविउ ।
 पूरपइज्जु महीवइ आयउ । १५
 पढिओ आहासिउ महएविण ।
 ता राएण लइवि सइ दिट्टउ ।
 सिंहमध्यापय इति ।

घत्ता—इय पेच्छिवि परियच्छिवि कयकोविं विच्छाडिउ ।
 दुम्मेहउ सो वायउ^२ नरणाहे निद्धाडिउ ॥१९॥

२०

दुवई—एवमिहावि पढइ सुयणाण जो वजणविवज्जिय ।
 सो ससारं भमइ दुहपीडिउ लहइ पय न पुज्जियं ॥

॥ एवं वजणहीणक्खाण ॥

अवरु वि कोसलपुरि परमेसरु
 सो सदरसियआणाभगहो
 गउ धावेवि उवरि अरिर्विदहो
 ल्हसिवि देसु सव्वु वि सुहवट्टणु
 जाणिवि कालखेउ मइवतहो
 लेहु लिहाविवि गेहहो पेसिउ

होतउ चिरु वसुपालु नरेसरु ।
 सवलु सवाहणु कयरणरगहो । ५
 वीरदत्तनामहो बुहविदहो ।
 थिउ वेढिवि उज्जेणीपट्टणु ।
 पढणनिमित्तु तेण नियपुत्तहो ।
 तत्थ वि कायत्थेणुव्भासिउ ।

तद्यथा—स्वस्त्युज्जयिन्या प्रणताशेषसामन्तचक्रवाल-प्रपालितसमस्तेलातलो विपक्षपक्षवृक्षौघोन्मूल-
 नैकवायुत्रलो राजा श्री वसुपालो विनीतावस्थिता वसुमती महादेवी मन्त्रिगण च १०
 कुशलीकृत्याज्ञापयति । कार्यं च—महायत्नेन वसुमित्रकुमारोऽध्यापयितव्यः उपाध्यायस्य
 च सालिभक्त घृत मसि च दातव्यमिति ॥

इय जिह जिह वक्खाणिवि कहियउ
पुत्तु समप्पिउ जयविक्खायहो
गग्गहो भोयणकालि विसालए
सरलु विरलु घवलुज्जलु सालिहे

तिह तिह भूवइभज्जइँ विहियउ ।
पढइ पासि सो गग्गुवझायहो ।
सुट्ठु सुयधु सुवण्णहो थालए । १५
कूरु पवाहिँ सहुँ घयनालिहे ।

घत्ता—परिसेप्पिणु पीसेप्पिणु खिप्पइ उवरि इगालउ ।
जयपुज्जहो तहो अज्जहो जाउ जीउ असुहालउ ॥२०॥

२१

दुवई—भुजइ त पि करइ किर काइँ परव्वस्सु सुयणु पंडिओ ।
चित्तइ अवस एहु रायाण आयारो अखडिओ ॥

जेणुज्झायहो गउरवु किज्जइ
इय परिभाविवि मोणेणच्छइ
काले रायकुमारु वि जायउ
एत्तहिँ वइरि वहेप्पिणु आएँ
भासिउ गग्गे कुसलु नरेसर
एत्तिउ पर अकुसलु गरुयारउ
केरिसु ज उज्झायहो खिप्पइ
भणइ राउ अम्हाण न एसो
कहि कहि केम एउ सजायउ
ताम नृवेण लेहु आणाविउ

निच्चमेव मसिभोयणु दिज्जइ ।
अणुदिणु सत्थुवएसु पयच्छइ । ५
सुदरु सत्थन्नउ निम्मायउ ।
पुच्छिउ कुसलवत्त गुणराएँ ।
ज दिट्ठो सि अज्जु परमेसर ।
ज दुक्करु आयारु तुहारउ ।
आणिवि खीरोवरि मसि घिप्पइ ।
आयारो गुणिजणियकिलेसो । १०
पइँ सपेसिय लेहापायउ ।
सइँ हत्थेण लेवि परिभाविउ ।

आचार्यस्य शालिभक्त घृत च मसि च दातव्यमिति ।

कहियत्थेण राउ रोसाविउ

वायउ मसिभोयणु भुजाविउ ।

घत्ता—दंडेप्पिणु मुडेप्पिणु विल्लनिवधु करेप्पिणु ।

रोहिवि खरि भामिवि पुरि घल्लिउ नीसारेप्पिणु ॥२१॥

१५

२२

दुवई—साहू वि य पढतु अत्थेण हीण एवमाइय ।

इहभवि परभवम्मि परिपावइ दूसहुदुखसाइय ॥

॥ एवं अत्थहीणक्खाण गद ॥

करिउरि परपत्थिवपोमाणणु
परवसुपरवहुमसमहुव्वउ

अत्थि नरिदु पोमु पोमाणणु ।
जिनमुणिपायपउम्ममहुव्वउ ।

रुवगुणहिँ मुणिहि वि मणभामिणि
 एककहिँ दिणि चउखधावारे
 पोयणपुरु ससरियहरिणायहो
 किउ कयकोट्टारोहे सो वसु
 तत्थ समारिउ थभसहासे
 सहमकूडनामेण जिणालउ
 अहमवि हत्थिणपुरवरि एहउ
 कारावमि इय चित्तिवि पउरहो

पोमलच्छि तहो सुहमणभामिणि । ५
 सो सह सव्वे खधावारे ।
 गउ रायहो उप्परि हरिणायहो ।
 इच्छियसेवसमप्पियवहुवसु ।
 जिणवरमदिरु सत्तुसहासे ।
 तेण पलोइउ सुट्ठु सुहालउ । १०
 सव्वावडहरु हयदुरिएहउ ।
 लेहु विसज्जिउ सपयपउरहो ।

तद्यथा—स्वस्ति श्री पोदनपुरात् महाराजाधिराजपरमेस्वर श्री पद्मनरेन्द्रो हस्तिनागपुरे समस्त-
 जनमाज्ञापयति यथा स्तभहस्त्राणा बहूनां संग्रह कर्तव्यञ्चैत्यायतननिमित्तमिति
 वाचयित्वा कथितम् ॥ १५

घत्ता—लद्धाणे ता थाणे पोढतरुणवयसाण ।

बलनिग्गहु कउ संगहु बहुवोक्कडसहसाणं ॥२२॥

२३

दुवई—एत्तहे लद्धविजउ वीसभरु विसमाहियहियावली ।

सपत्तो नरिदचूडामणि कुरुनाहो महावली ॥

उच्छवेण नियनयरे पड्डउ
 पहुदसणमणु विविहोवायणु
 नंद वट्ट जय जीय भणेप्पिणु
 सरहसु सुहदिट्ठीणु नियच्छिउ
 देवहु कारणि दुक्कियनिग्गहु
 ता तुरतु नयरेणाणाविउ
 त निएवि पुहईसरु रुट्टउ
 भासिउ भीयहिँ तेहिँ नरेसर
 सच्चउ दोसवंतु सो लेहउ

गपि गेहु हरिवीदुवड्डउ ।
 गउ वद्धावउ सयलु महायणु ।
 पुरउ निविट्टउ पय पणवेप्पिणु । ५
 राएँ कयसम्माणे पुच्छिउ ।
 विरइउ थंभसहासहेँ संगहु ।
 वोक्कडविदु नरिदहो दाविउ ।
 पभणिउ हणहु एहु जणु दुट्टउ ।
 एत्थु नं अम्ह दोसु परमेसर । १०
 वाइउ जेण थम्भ इदि एहउ ।

घत्ता—अकसाएँ ता राएँ हक्कारेवि दुज्जायउ ।

विच्छारिवि नीसारिवि घल्लिउ सो दुव्वायउ ॥२३॥

२४

दुवई—एउ वियाणिऊण सुयणाण वजणअत्थहीणय ।

न पढिज्जड मणा वि संसयसयणिण्णासणपवाणय ॥

॥ एव वजणत्थहीणक्खाण गदं ॥

सिरि सोरट्टुदेसि गिरिनयरु
 घम्मसेण तहो देवि मणोहर
 मुहमड सव्वसत्थपारगउ
 दुद्धरपचमहव्वयघारउ
 तत्येव य धरसेणु महामुणि
 सीसहो वि सत्थत्थु कहते
 एक्कहिँ दिणि निसि पच्छिमजामण
 पढमवयस वे वसह सदक्खिण
 वयणु निण्यमाण मणहिट्ठिय
 ता दक्खिणदेसाउ समाया

पट्टणि घम्मसेणु पट्टु नयरु ।
 न सइ सक्कहो पीणपओहर ।
 उग्गदित्ततवतावकिसगउ । ५
 कामकोहभयमोहवियारउ ।
 अत्थि तिलोयवदु नवघणञ्जुणि ।
 चदगुहोयरम्मि निवसते ।
 सुइणु पलोडउ तेणहिरामण ।
 धवलवण्ण दाऊण तिपक्खिण । १०
 पय पणवेप्पिणु पुरउ परिट्ठिय ।
 वेन्नि साहु तहिँ जयविक्खाया ।

घत्ता—भूयवली भूयवली कयकामो मइवतउ ।
 सुविणीयउ तह^१वीयउ पुप्फयतु^१ मलचत्तउ ॥२४॥

२५

दुवई—परियचेवि तेहिँ पणवेवि पउत्तउ पउरविज्जओ ।
 सामिय वायणाण सिद्धतहो अमह पसाउ किज्जओ ॥

आयण्णेप्पिणु एउ मुणिदे
 बुद्धिपरिक्खाहेउ रवण्णउ
 एक्कहो एक्कमणहो हीणक्खरु
 ता एयति वे वि उववासिय
 एक्के दिट्ठ देवि एक्कक्खिय
 चित्तिउ देवसहाउ न एहउ
 एउ वियप्पिवि जोइयच्छदहिँ
 साहिवि मतजाउ आढत्तउ
 गपि गणेसहो पाय नमसिय
 तेण वि मइपयासु तहु केरउ
 कयसिद्धतहो अत्थपउजण
 सम्मत्तम्मि तम्मि आवेप्पिणु

ते पडिगाहिय भुवणाणदे ।
 सुहदिणि वे विज्जाउ विडण्णउ ।
 अन्नहो दिन्नु मतु अहियक्खरु । ५
 सठिय ते विज्जव्भासासिय ।
 अवरे उट्ठुरिय निरिक्खिय ।
 मतदोसु इमु नीसदेहउ ।
 हीणाहियउ तेहिँ नित्तदहिँ ।
 दिट्ठउ देविउ सोहणगत्तउ । १०
 सव्व वत्त जह्वित्त पयासिय ।
 पेक्खिवि जणमणजणियच्छेरउ ।
 जाया ते पवीण विन्नि वि जण ।
 पुज्जिय देवहिँ ते पणवेप्पिणु ।

मुहसत्यत्यलाहपरिग्रोसिय
एवमिहावि पढड जो नाण

मूरि नमसिवि दक्खिणु पवसिय । १५
सो पावइ सव्वुन्नइठाणं ।

घत्ता—नाइंदहिं खयरिदहिं मणुसिदहिं देविदहिं ।

पणविज्जइ पुज्जिज्जइ सो सया वि सिरिचदहिं ॥

विवहरमविसाले णेयकोळ्हलाले । ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।

सुयविणयाइगुणाणं पयासणो छट्टओ सधी ॥

॥ एवं ज्ञानाचारः समाप्तः ॥

॥ संधि ६ ॥

संधि ७

१

भगिणीए वि विहम्मिज्जतीए एयत्तभावणाइ जघा ।
जिणकप्पिअो न मूढो खवगो वि न मुज्झदि तधेव ॥

भगिणीए भगिन्या विहम्मिज्जमाणाए चौरं परिगृह्यमाणायाम् एकान्तभावनया नागदत्त-
प्राप्तो मनागपि मोह न गत । तधेव तथा चैव क्षपको ऽ पि सल्लेखनाकाले मोह न गच्छति न
मुह्यतीत्यर्थं । अत्राख्यानम् । ५

घुवय—इय नाणाचारहो दोसगुरा कहियायण्ह नउ रहमि ।
एयत्तभावणा एयमण ज किय ज फलु त कहमि ॥

वस्तु—अत्थि पट्टणु नाम उज्जेणि

खणि धम्ममहामणिहि सुयणलोयसत्थाहँ वल्लहु ।
पयपालु नरिदु तहिँ करइ रज्जु परजुवइदुल्लहु ॥ १०

चाएँ भोएँ विक्कमेण रूवे जणजणिएण ।

धम्मे समु तहो सो ज्जि पर बहुणा किं भणिएण ॥

पियधम्म तासु नामेण जाय
पियधम्मु एककु पियधम्मनामु
जे रूवे निज्जिउ पंचवाणु
एक्कहिँ दिणे तत्थायउ मुणिदु
तहो पासि धम्मु सोऊण वे वि
तउ करिवि सग्गु दुहजलणवारि
दोहि मि अणुहुजियसुहसयाउ
जेट्ठेण पउत्तु कणिट्ठु भाउ
नरलोउ भोउ न मुयइ कयाउ
तो सग्गत्येण कयायरेण
दोहिँ मि सुरेहिँ पडिन्ननु एउ
कालेण एत्थु लहु भाउ आउ

सुदरिहि ताहि वे पुत्त जाय ।
वीयउ पियसम्मु गुणोहठाणु ।
नियवुद्धिअ गुरुहु वि मलिउ माणु । १५
दमवरु नामेण तिलोयवदु ।
निव्विण्ण हूय रिसिदिक्ख लेवि ।
गय पचमु पचसरतकारि ।
बहुवरिसलक्ख उव्वरिउ आउ ।
पढम जो अम्हहँ मज्जे जाइ । २०
जइ न हवइ जिणधम्माणुराइ ।
सो सबोहेवउ भायरेण ।
अह मुणि मुयति किं धम्महेउ ।
थिरु नत्थि एत्थु देवहँ वि आउ ।

घत्ता—अहिधम्मु अत्थि नयवंतु निवु उज्जेणिम्मि महानयरि । २५

सो नायदत्तु हुउ तासु सुउ नायदत्तदेविहि उयरि ॥ १ ॥

२

वस्तु—अवर सुदरि ताहि उप्पन्न

सुय नामे नायसिरि वच्छदेसि कोसवि पुरवरे ।
जिणदत्तु नराहिवइ अत्थि अत्थि अत्थिअ मणोहरे ॥
परिणेप्पिणु जिणधम्मरइ सो तहें वल्लहु जाउ ।
जोग्गु करग्गहु जोड करि हुउ सयणहिँ अणुराउ ॥

५

अहियत्तु सव्वविन्नाणपारु
घम्मोवरि मणु न करइ कया वि
बहुततइँ मतइँ गारुडाइँ
एत्तहि पियधम्मे पउरलोइ
जइ तो महु जायअ पुण्णवधु
ता ओहिअ वइयरु सव्वु नाउ
हा अज्ज वि न हवइ वीयरउ
किं बहुणा कयजरमरणजम्मु
इय चित्तिवि तहो सबोहणत्थु
नवघणगवलजणवण्णविवु
पुरमज्झि पइट्ठु भमतु एउ
भो अहिखेलावउ जो सहोडु
खेलावहुँ सप्प निएवि सत्ति

पत्तउ नवजोव्वणु नाइँ मारु ।
सिक्खइ अवभासइ सो सया वि ।
वड्ढावइ भूयइँ पेरुडाइँ ।
चित्तइ कहियहुँ निव्वाहु होइ ।
लइ करमि सच्चु आयहो निवधु । १०
हा अज्ज वि भाइ अधम्मभाउ ।
हा अज्ज वि अवावारराउ ।
वलवंतउ सयलहँ होइ कम्मु ।
तत्थाउ सप्पपेटारहत्थु ।
रत्तच्छु भीमु होएवि डोवु । १५
आहिडइ मायाडोवु देउ ।
एत्थत्थि एअ सो करहुँ कोडु ।
अत्तोत्तु पयासहुँ जणि सक्कित्ति ।

घत्ता—अहिदत्ते आयण्णेवि इउ भणिउ पाणु रे भीममुह ।

खेलावमि हउँ विसि विसमय पूरिपूरमि कोड्डु तुह ॥२॥

२०

३

वस्तु—भणइ अतजु रायपुत्तेहिँ

वीहामि तुम्हेहिँ सहु सप्पकील सुदर करतउ ।
जइ कहव पमाउ तुह होइ मरणु तो महु निरुत्तउ ॥
तो निवपुत्ते धीरियउ दूरज्झहि भयभाउ ।
मुअ फणि अत्तोत्तु जि दुइ वि वुज्जहुँ मतपहाउ ॥

५

करेप्पिणु सव्वसहा नृवु सक्खि
परिदमुएण वि सो विविहेहिँ
पउत्तु पुणो वि अरे अहि डोव

पमोक्कु तिणेक्कु तओ मरुभक्खि ।-
पसाधिउ भेयहिँ दिन्नसुहेहिँ ।
पमेल्लहि वीउ जमजणविव ।

सुणेप्पिणु एउ पयंपड पाणु
 अगम्मु महोसहिमतहिं दुट्ठु
 हसेविणु जपइ ता जुवराउ
 मह महमतसुमडलमुद्द
 तुरतु तिणा तउ सप्पु विमुक्कु
 समग्गु वि लघिवि तेरा विहाणु
 विसे निविसेरा वि विग्गहु चिन्नु
 नियच्छिवि त भयभतमणेण
 निवेण तत्रो सहसा सपइज्ज
 पउत्त पयत्तपरेण करेहु

इमो फणि दिट्ठिविसो हियपाणु ।
 इमस्स विराउ वि सकइ सुट्ठु । १०
 करेसइ काइँ किरेहु वराउ ।
 विहाणपरस्स सुमुच रउद्द ।
 कयतु व भूवइपुत्तहो डुक्कु ।
 निवंगउ खद्धु गुणोहनिहाणु ।
 निवण्णु धरायलि रुक्खु व छिन्नु । १५
 विमुक्कउ घाहउ वधुजणेण ।
 अणेय पवीण अणाविं वि वेज्ज ।
 विसक्खउ पुत्तहो जीविउ देहु ।

घत्ता—ता तेहिं वियाणिवि लक्खणहिं कहिउ निवहो सोयाउरहो ।
 प्रहु कालदट्ठु देवा वि नउ जीवाविहिं गउ जमपुरहो ॥३॥

२०

४

वस्तु—मुणिवि राएँ एउ मायग्गु

मिल्लतेणसुइँ गगिराए सगिराए वुत्तउ ।
 जीवाविहि पुत्तु तुहँ देमि अद्धु रज्जहो निरुत्तउ ॥
 भासिउ चडालेण पहु अत्थि एककु महु मतु ।
 तासु पहावे सुदरहो सजीवइ तुह पुत्तु ॥

५

एसो मइँ मज्जायाए लद्धु
 तेणेह महीस मणोहेरण
 सो जइ निग्गथु हवेवि चारु
 तो जीवावेज्जसु भणिवि एउ
 जइ एउ समिच्छइ नदणेसु
 राएण पउत्तउ एव होउ
 डोवेण फुराविय निययसत्ति
 सतुट्ठु सव्व थुइ विहिय तासु
 ता जीवियव्वविहि वज्जरेवि
 सुउ धम्मु सुणाविवि राणएण
 एत्थतरि देवे पुव्ववित्तु
 कालेण वियाणिवि गुणविसेसु

जो जीवाविज्जइ सप्पखद्धु ।
 दूरहो ओसारियगरभरेण ।
 जिणदिक्ख लेइ उज्झियवियारु ।
 दिन्नउ गुरुणा महु मतु देउ ।
 तो वाहमि मतु विसोहणेसु । १०
 छुडु जीवउ पुत्तु पलाउ सोउ ।
 उट्ठाविउ निवनदणु भडत्ति ।
 एवड्डु भुवणि माहप्पु कासु ।
 दमवरमुणिपायसमीवि नेवि ।
 लेवाविउ तउ सुवियाणएण । १५
 सवधु जणाविउ रायउत्तु ।
 हुउ सो जिणकप्पिउ सुद्धलेसु ।

कीदगा. किल जिनकल्पिनो भवन्तीति कथ्यते—

जिदरागदोसमोहा उवसग्गपरीसहारिवेगसहा ।

विहरति जिणा इव ते तेण हु जिणकप्पिया होति ॥

२०

घत्ता—तं निएवि निवाइवहुउ जणु सजायउ जिणघम्मरउ ।

देवो वि हवेवि कयत्यमणु मुणि पणवेप्पिणु सग्गु गउ ॥४॥

५

वस्तु—गलिए कालप्र निप्रवि तित्थाइँ

पुव्वाउ आवतु मुणि नायदत्तु तवगुणवरिट्ठउ ।

पच्चतचरेण वणि सूरदत्तराएण दिट्ठउ ॥

भासिउ तहो पुरिसेहिँ पहु एतहि वद्धउ पथु ।

अम्हइँ निवपल्लीहे इह कहिँ आयउ निग्गथु ॥

५

एत्थेव धरिज्जप्र एहु ताम

न तो अक्खेसइ गपि वत्त

मा घरहु जतु न करति चित्त

ता तेहिँ विसज्जिउ मुणिपहाणु

सुय लेवि एति कोसवि माय

दट्ठूण सपुत्तिप्र तीप्र पुत्तु

भयवत एत्थ किं अत्थि नत्थि

साहू वि समुज्जियरायदोसु

इय पुच्छिंवि पुरउ चलति जाम

असरालहिँ सरजालहिँ वणत

वहु तक्कर काइँ करति वीर

भयक्कपिरु कायरजणु पलाणु

वर्धेवि ताउ दोन्नि वि जणीउ

आगच्छइ पत्थिवपल्लि जाम ।

त सुणिवि भिल्लपहुणा पउत्त ।

ए कासु वि अरिमुहिसरिसचित्त ।

जामग्गइ गच्छइ गुणनिहाणु ।

तामतरि मिलय सबलसहाय ।

१०

मुणि नायदत्तु नविऊण वुत्तु ।

भउ कहसु सक्किव भवभयपमत्थि ।

थिउ तुण्हक्कउ सुविसुद्धलेसु ।

चउदिसहिँ समुट्ठिय चोर ताम ।

लइ मारि मारि हणु हणु भणत ।

१५

मुय सामिकज्जि जुज्जेवि धीर ।

लइयउ धणु तेणहिँ अप्पमाणु ।

नीयउ नियपल्लिहिँ दुम्मणीउ ।

घत्ता—रविदत्ते रत्ति सहाभवणे सठिएण सुहडासण्ण ।

सुहगोट्ठिप्र अच्छतेण तहिँ भणिय भिच्च तुट्ठासण्ण ॥५॥

२०

६

वस्तु—सो धरिज्जइ मा हु तुम्हेहिँ

इय भासिउ सव्वहिँ वि पहु निरुट्ठु पुहईंसपल्लिहे ।

अम्हेहिँ जाएवि इमु फुडु निसेहु काही इहंतिहे ॥

पेच्छह त न जणावियउ अरिसुहिसमचित्तेण ।

अह निग्गयमहामुणिहिँ काइँ लोयचित्तेण ॥

५

त मुणिवि कोवग्गिजालापलित्ताए
दे देहि मे खग्ग धूया किमुत्तेण
ता पुच्छिया सूरदत्तेण हे माए
कहिय रुयतीए उतो तथा चारु
निरु निट्ठुरो निट्ठो निक्कवो पाउ
गुणु कवणु तहो तणउ भणु जणियउट्ठेउ
ता धीरिया सूरदत्तेण दुक्खस्स
जा जणणि जइवरहो तहो चत्तमोहस्स
सा महु वि तुहुँ जणणि इय भणिवि अप्पेवि
कोसंवि सपेसिया सिसुमयच्छीए
तेणावि गतूण सवेयचित्तेण
वहुरायउत्तेहिँ सह समियकम्मेण

वुत्तो निरिक्काहिवो नायदताए
फाडेमि पोट्ट इम दुज्जण जेण ।
किं कारण कहसु भुवणम्मि विक्खाए
जो नग्गसवणो समुद्धूयउवयारु ।
सो मज्झ उयरम्मि एयम्मि सजाउ । १०
फाडेमि घल्लेमि खलु पोट्टु तेणेउ ।
दे पाणिय अव ह्यदेहरुक्खस्स ।
तेलोक्कवदस्य कम्मारिजोहस्स
वसु सव्वु पणवेवि पाइक्क बहु देवि ।
सहिया सधूयाए सा नायलच्छीए । १५
मुणिनायदत्तस्स पास तुरतेण ।
वउ लइउ निम्मुक्कससारसम्मेण ।

घत्ता—कालेण करेप्पिणु कम्मखउ सुरनरिदनाइदथुउ ।

अजरामरु नायधम्मतणउ समउ सूरदत्तेण हुउ ॥६॥

७

वस्तु—मायवहिणि वि वेवि चोरेहिँ

घेप्पतउ निएवि वर्णे परमवुद्धि अच्चतपावणु ।

जह मोह नेव गउ नायदत्तु एयत्तभावणु ॥

तह खवगेण वि परमपउ ईहतेण मणावि ।

मोहवस मूल दुहहो गतव्व न कयावि ॥

५

॥ एव एगत्तभावणा-अक्खाण गद ॥

त वत्थु मोत्तव्व ज पदि उप्पज्जए कसायग्गी ।

त वत्थु अल्लिएज्जो जत्थोवसमो ह्वे तेसि ॥ [भ० आ० २६७]

त वत्थु तद्वस्तु पूर्वोक्त परिग्रहादि मोत्तव्व परिहर्तव्य ज पदि यदाश्रित्य उत्पद्यते कपायाग्नि ।
अग्निरिवाग्निरत्यन्तदहनात्मकत्वात् । तत् सम्यक्त्वज्ञानचारित्रतपोमार्दवादि अल्लिएज्जो आश्रितव्य
जत्य यत्रोपशमो भवति तेसि क्रोधादिकपायानाम् । अत्राख्यानम् । तद् यथा—

१०

एत्थत्थि पुव्वमालवे पसिद्धु

नामेण मणोहरु पत्ररकच्छु

तहिँ दूरोसारियवडरिसेणु

पुरु तलिया रट्टविसए समिद्धु ।

वरकामिणिवयणु व दीहरच्छु ।

नयवतु नरेसरु सूरसेणु

महएवि तासु सइ सूरसेण
 गन्भेसरु जणमणजणियहिट्ठि
 तहो कत सूरदत्ताहिहाण
 पढमिल्लु नियन्नयगयणमित्तु
 वीयउ सुहिसज्जणकुमुयचदु
 तइया मित्तमड मणोज्ज पुत्ति
 वणिवइहे हूउ कालेण कालु

रइ रभ नाइँ रामामिसेण ।
 मुइ सूरदत्तु पुहईससेट्ठि । १५
 हुय पुत्त विन्नि तहे गुणनिहाण ।
 नामेण पसिद्धउ सूरमित्तु ।
 अन्नाणमलुज्जिउ मूरचदु ।
 सजाय ताप्र न मयणजुत्ति ।
 गउ तेण समउ जिम वसु विसालु । २०

घत्ता—पेक्खेविणु घरे दालिदुहु दोन्नि वि भायर नीसरिय ।
 अत्थत्थिय हिंडिवि सयल महि सिंघलदीवु पईसरिय ॥७॥

८

वस्तु—तत्थ पत्तउ सयलमहिमोल्लु

कह कह व महारयणु सूरविबसमतेयवतउ ।
 त लेवि पहिट्टमण चलिय मपुरु बहुगुणनिउत्तउ ॥
 एत सत एक्केक्कु दिणु वणे परिवाडिप्र भाइ ।
 एक्कु निहालप्र त रयणु एक्कु वि भिक्खहे जाइ ॥ ५

हत्थम्मि हवइ त जासु जासु
 जइ जेट्टहो करे त चडइ पाउ
 लहुओ वि मुणइ मारेवि जेट्ठु
 अवरोप्परु पुणु सयमेव वे वि
 डय हत्था हत्थिय समप्पमाण
 दियहेहिँ पत्त नयरहो समीउ
 वीसामु करेप्पिणु सूरमित्तु
 महु कज्जु न एण मणोज्जवाय
 पुच्छिउ रविचदे कयविवेउ
 किं कारणु सयलु वि मज्जु देहि

दुम्मइ परिवड्डइ तासु तासु ।
 तो तहो लहुमारणि हुवइ भाउ
 मणि लेमि एउ एक्कु जि वरिट्ठु ।
 हा इउ अकज्जु अच्छउ भणेवि । १०
 अन्नोन्न विघाउ वियप्पमाण ।
 वेत्तवइतीरि कुलहरपईउ ।
 भासइ विहसेवि विसन्नचित्तु ।
 लइ तुहुँ जि एउ माणिककु भाइ ।
 तुम्हँ मह पि सामन्नु एउ ।
 [त मज्जु] परमवधव कहेहि । १५

घत्ता—ता कहिउ तेण तहो एउ महु जामच्छइ करम्मि रयणु ।
 एक्कु जि गिण्हमि हणमि पईँ होइ एउ ता निच्च मणु ॥८॥

९

वस्तु—जाउ मसाणहो वत्थु त सव्वु

ज वंधुविओयकरु काइँ तेण सुदर सुवण्णेण ।
 ज तोडइ कण्ण दुहकारणेण भणु तहिँ किमन्नेण ॥

पाविज्जइ मणि घन्नु घणु अवरु वि ज ज चारु ।

एक्कु न लब्भइ भाइ निउ जइ गम्मइ परपारु ॥

५

भासइ कणिट्ठ उज्झयविमुट्ठि
कि वहुणा एण न कि पि कज्जु
इय मतिरुण दुम्मइनिमित्तु
मच्छेण निएप्पिणु निवट्ठमाणु
तहिँ होत सहोयर घरहो आय
ना ताण निमित्ते न किउ खेउ
एत्तहं त मारणकयधिएण
बहुमोल्लु वियाणंवि गरुउ मीण
परिनुट्ठु पोढु पाढीणु लेवि

मज्झु वि उप्पज्जइ एह वुट्ठि ।
लइ आयहो पावहो पडउ वज्जु ।
दोहिँ मि वेत्तवइदहम्मि खित्तु ।
सो गिलिउ ज्जत्ति पलदलसमाणु ।
आलयवि पुत्त पहिट्ठु माय ।
गय हट्ठहो मीणाणयणहेउ ।
सो वट्ठु मच्छु मच्छधिएण ।
गउ विक्कहुँ पुरु पयगडपवीणु ।
गय सूरदत्त तहो मोल्लु देवि ।

५०

घत्ता—गपिणु मदिरु गयमदगइ जाम वियारइ रोहि सइ ।

१५

ता जलजलतु उडयक्कनिहुँ रयण निहालइ साहु सइ ॥१॥

१०

वस्तु—त निएप्पिणु जाउ दुब्भाउ

मचित्तइ देवि विमु दारयाइँ विणिण वि वहेप्पिणु ।

एक्कल्लिय लेवि हउँ सुहुँ कयत्थ अच्छमि हवेप्पिणु ॥

पुणु वि पढीवउ चित्तियउ हा हा एउ अजुत्तु ।

ज अत्थत्थे सुहि सयणु मारिज्जइ पिउ पुत्तु ॥

५

बहुदिणाह कहव पुणोहिँ रम्मु
एयहो निमित्त कयविणयजुत्ति
इय चित्तिरुण सुदरमुहाहे
जीवउ मुहेण एया आणेण
दुहियाए वि चित्तिउ त लहेवि
एक्कल्लियाहे जे मज्झु एउ
सयमेव समुज्झिउ पुणु वि ताए
भुजाविवि पहसमसमियगत
करकमलहिँ लालिवि सुदरीए
कहिँ गय कहिँ अच्छिय कि विठत्तु

आयहँ कह हम्मइ तणुयजुम्मु ।
हा हम्मइ केमँ मणोज्ज पुत्ति ।
त रयणु समप्पिउ तणुरुहाहे ।
जीवेसमि तणयाणियधणेण ।
एयाइँ विणासमि गरलु देवि ।
पावइ माणिककु महत्तेउ ।
त अप्पिउ मायहे कयदयाए ।
वीसमिय सयणि निसिसमए पुत्त ।
आउच्छिय विन्नि वि मायरीए ।
ता कहइ नवेप्पिणु सूरदत्त ।

१०

१५

६ १ उयक्कनिहु । ७ सउ

१० १ सहु । २ केण ।

सुणि माए अणयालाववेसु
सिघलदीवहो कह कह व एककु
तहो तणउ सहाउ अउत्तु कोड
त इतहिँ कारणु दुम्मईहे

महि परिभमत देसेण देसु ।
सपत्तु तत्थ माणिककु एककु ।
जमु हत्थि वडरि सोवरहो होड ।
जलि अज्जम्हहिँ घल्लिउ नईहे ।

घत्ता—ता ताए सपुत्तिए पुत्तयहँ कहिउ रयणु परिणामु भउ ।

२०

निव्विन्नहिँ सव्वहिँ त मुएवि लइउ तेहिँ अरहंतवउ ॥१०॥

११

वस्तु—सेट्ठिपुत्तहिँ तेहिँ मोत्तूण

जह वत्थु कसायकरु अप्पकज्जु किउ वउ वरिट्ठउ ।

तह चेव तवट्ठिण चयवि सत्तु पयणियअणिट्ठउ ॥

वज्जपरिग्गहु परमगइगमणमणेण मणोज्जु ।

दुप्परिणामहो परिहरणु होइ सया करणिज्जु ॥

५

॥ एव सल्लेहणाकहाणय कहिदं ॥

गुणपरिणामादीहिँ य वेज्जावच्चुज्जुदो समज्जेदि ।

तित्थयरनामगोत्त तिहुयणसखोहण पुण्णं ॥ [भ० आ० ३३३]

गुणपरिणामादीहिँ य एवं भणिते दर्शनविशुद्ध्यादि-तीर्थकरत्वकारणानि षोडश परिणामो
गुणपरिणामः स आदि येषा परिणामाना गुणपरिणामादयस्तैः समज्जेदि उपार्जयति ।
तीर्थकरनामगोत्रम् । नाम च गोत्रं च नामगोत्रम् द्वंद्वैकवद्भाव तीर्थकरस्य नामगोत्रम् । तत्को-सौ १०
समर्जयति ? वेज्जावच्चुज्जुदो वैयावृत्योद्यत । तिहुयणसंखोहणं त्रैलोक्यसंक्षोभणकर पुण्णं पुण्य
घर्ममिति । अत्राख्यानम् ।

सोरट्ठरट्ठे निट्ठवियदुट्ठु
होतउ सुहिँ सहुँ भाएँ वलेण
सो खयरामरनरनमियपाउ
गउ समवसरणु घम्माणुराउ
नमिऊण मणुयकोट्ठुए वइट्ठु
आयणिणउ घम्मु जिणोवइट्ठु
निरु खीणु नियच्छिवि भुवणपुज्जु
किं रोउ एहु किं वयविसेसु
तणुचिणहु निहालिवि भणइ वेज्जु

वारमइ नयरि नरनाहु विट्ठु ।

भरहद्धु जेण साहिउ वलेण ।

एक्कहिँ दिणम्मि परिमियसहाउ । १५

तहिँ निएवि नेमिजिणु वीयरउ ।

दूरीकयदुग्गइदुक्खनिट्ठु ।

तहिँ मुव्वउ तेण मुणिदु दिट्ठु ।

परिपुच्छिउ हरिणा जीवु वेज्जु ।

हुउ जइ जेणट्ठितयावसेसु ।

पहु वाहि एहु ह्यदेहविज्जु ।

२०

घत्ता—ता सच्चहामनाहे भिसउ भणिउ भणसु भेसहु पवर ।

तेण वि सत्यत्थु समत्थियउ उवएसिउ ओसहनियरु ॥११॥

१२

वस्तु—ता सुमोयय मयणवप्पेण

कारावेवि घरि घरि ठविय पउरमत्थविदहो ।

ते लेतहु रोयखउ दियहि दियहि जायउ मुणिदहो ॥

वेज्जावच्चे तेण तहिँ रुप्पिणिपिण्ण मणोज्जु ।

नामु गोत्तु तित्थयरहो आवज्जिउ जयपुज्जु ॥

५

कइवयदिणेहिँ पुणु वासुएउ

पुच्छिउ मुणि पेच्छिवि पुट्टगत्तु

तेण वि न किं पि समसुहदुहेण

मुणि नियवि निरुत्तरु जायखेउ

जइ तो किं जाणहुँ देतु राउ

मरिऊण वेज्जु विञ्जाडईहे

तावेत्तहे सममाणावमाणु

तत्थाउ सतु तरुतलि निसन्नु

अच्छतु सजूहे सहियनिट्ठु

जइ जोइऊण जाईसरेण

भो दूरीकयभवभवणताउ

गउ समवसरणु थुउ नेमिदेउ ।

भयवत जाउ वउवाहिचत्तु ।

भासिउ भूमिवइहि निरु बुहेण ।

भउ भल्लउ एउ भणतु एउ ।

इय मुइरु करेप्पिणु अट्टभाउ ।

हुउ मक्कडु तडि रेवानईहे ।

पुव्विलमुणी महि विहरमाणु ।

पलियकि पडियसाहाग्र भिन्नु ।

वणि हिडतेण वि तेण दिट्ठु ।

चित्तिउ कइणा विभयपरेण ।

पेच्छह रिसीण नीसगभाउ ।

१०

१५

घत्ता—जे ससरीरे वि करहिँ नउ मोहु महामइ जयमहिय ।

ते होति केम अम्हारिसहँ नेहाउरमण मलरहिय ॥१२॥

१३

वस्तु—एउ चित्तिवि पुव्वभववेरु

परिहरेवि पसन्नमणु हुउ अईव साहामिएसरु ।

विरएप्पिणु करमउलि नविउ तेण सीसे रिसीसरु ॥

करेवि पयत्तु पयगमेहिँ वधवि वेल्लिगुणेहिँ ।

सा तरुसाहहे उवरिमहे कडिडय सव्वजणेहिँ ॥

५

पुणो महोसह वणे

करेवि उत्तचुण्णय

मुणी ण वेयण गअो

पवोहिऊण सावअो

तुहाउसत्तु' पत्तय

समाणिऊण तक्खणे ।

वियक्खणेण दिण्णय ।

हुअो तिणा पवगअो ।

कअो विसुद्धभावअो ।

वियाणिऊण वुत्तय ।

१०

कई वि सव्वचायए
 पहिल्लमग्गवासए
 मरेवि मुद्धभावणो
 तिलोयलोयमगल
 अमेयतेयभासुरा
 स घाडवधणच्चुओ
 पपुच्छिओ य केवली
 चराचर समग्गय
 मुणेवि ते पहिट्टया
 वियाणिऊण संभव
 तओ स वाणरामरो
 महाविभूइराडओ

थिओ सुहोहदायए ।
 विमाणए पहासए ।
 हुओ मुरो सुहावणो ।
 मुणी वि पत्तु केवल ।
 ममागया सुरामुरा ।
 भरेण तेहिँ सथुओ
 पयासिया भवावली ।
 पयत्थसजुय जय ।
 नवेवि त घर गया ।
 चिरतण तहा नव ।
 चलतचारुचामरो ।
 समागओ णुराडओ ।

१५

२०

अत्ता—पुज्जेवि पससेवि परमगुरु सव्वेहु पसाड तवेहु पहु ।

इय भणिवि नमसिवि चत्ततणु पुज्जेप्पिणु गउ गयणपहु ॥१३॥

१४

वस्तु—विरएवि रएवि वामुएवेण

जह वेज्जावच्चगुणु दुक्खलक्खसदोहनासणु ।
 आवज्जिउ तित्थयरनामगोत्तु सिवसुहपयासणु ॥
 अवर वि वेज्जावच्चकर नर त तिह पावति ।
 विज्जावच्चु मसत्तियग्र किज्जइ तेण न भति ॥

५

॥ वैयावृत्याख्यानकम् ॥

मुयणो वि हवे लहुओ दुज्जणसम्मेलणाय दोसेण ।

माला वि मोल्ललहुई होदि हु मडयस्स संसिट्ठा ॥ [भ० आ० ३५०]

सुयणो वि मुजनो ऽ पि साधुरपि हवे भवेत् लहुओ लघु सामान्य इत्यर्थ । केन ? दुर्जनससर्ग-
 दापेण । यथा माला मूल्यगुर्वी सती भूत्वा पश्चान्मृतकस्य सस्पृष्टा मृतकालिङ्गिता अथवा मृतकस्य
 मिलिता स्पृष्टा लघुर्भवति मूल्यहीना भवतीत्यर्थ । एत्थ मालवखाराण । तं जहा—

१०

पुरु टक्कविसग्र नयणाहिरामु
 वलभद्धु राउ अणदत्तु सेट्ठि
 अणवड नामेण मणोहिराम
 तहिँ पुण्णभद्वणिनामएण

अत्थीह पयडु वलदेवनामु ।
 अणदत्ता वल्लह अत्थदिट्ठि ।
 तहो तणिय पुत्ति जणजणियकाम ।
 मा पुण्णचदपुत्तहो कएण ।

१४ १ लहुओ । २ नयणेहि ।

धणदत्तु पमग्गिउ गपि गेहु
 बहु अत्थु लेवि सुय दिन्न तासु
 सा तम्मि वेय दिवहम्मि रत्ति
 ता चित्तिउ धणदत्तेण एउ
 किं बहुणा खलु सजणियताउ
 इय भणिवि सुवण्णे तेण माल
 उवसोह करेप्पिणु ताए वाल
 ता भणिउ पुण्णभद्देण सव्वु
 भासिउ धणदत्ते त समग्गु

तेणावि समीहिउ धणु न नेहु । १५
 विरइउ विवाहु सुहिसुहपयासु ।
 सपत्त मरेवि कयतथत्ति ।
 वलि किज्जउ दव्वकिलेसु लेउ ।
 एयाए समेउ जि एउ जाउ ।
 काराविवि रम्म महाविसाल । २०
 नीसारिय सुहिरोवणवमाल ।
 कुडि एह डहह महु देहि दव्वु ।
 धणु पुत्तिहे उवसोहाए लग्गु ।

घत्ता—नउ अत्थि कि पि अवरुव्वरिउ अच्छइ एह पसाउ करि ।

जइ भावड जो लइ माल तुहुँ जा हुँ देहेमा मडहुँ धरि ॥१४॥ २५

१५

वस्तु—वुत्तु अप्पहि पुण्णभद्देण

धणदत्ते त पि किउ कहिउ तेण वणिउत्ततडयहो ।
 विक्कती को वि तहिँ लेइ नेव सा भणेवि मडयहो ॥
 हुय सवसगवसेण जणि जिह माला अमणोज्ज ।
 दुज्जणससग्गेण तिह सुयण वि होत्ति अपुज्ज ॥ ५

उक्त च—अपवादो भवेद् येन येन चाप्रत्ययो भवेत् ।

नरक गम्यते येन न तत्कर्म समाचरेत् ॥

॥ लघुत्वाख्यानकम् ॥

दुज्जणससग्गीए सकिज्जदि सजदो वि दोसम्मि ।

पाणागारे दुद्ध पिवतओ वभणो चेव ॥ [भ० आ० ३५१]

दुज्जणससग्गीए दुष्टमेलापकेन सकिज्जदि आशङ्क्यते एपोऽपि इत्यभूत् इत्यर्थः । कोऽसौ? १०
 सजदो वि तपस्वी अपि दोसम्मि दोषविषये चैव । यथा पाणागारे पानगृहे ब्राह्मणो दुद्धं क्षीर
 पिवमानो ऽपि मद्य पिवतीत्याशङ्क्यते । एत्यक्खाण—

वच्छाजणति जणजणियचोज्जे
 रसवणिउ पुण्णभद्दाहिहाणु
 भामिणि मणोज्ज तहो माणिभद्
 तहे पाणिग्गहणि समग्गु तेण
 रायहो पुरोहु वभोवमाणु

कोसवीपुरि धणवालरज्जे ।
 चिरु होतउ वणिवइ पयपहाणु ।
 वसुमित्त पुत्ति परपुट्टसइ । १५
 भुँजाविउ जणु रजियमणेण ।
 सिवभूड जयच्चिउ सव्वजाणु ।

महु पाणाण पि पिऊ पवित्तु
अकयत्थु अम्ह तो हुयउ सव्वु
इय चित्तिऊण गतूण गेहु
भयव जइ मइँ भिच्चेण कज्जु
सिवभूइ भणइ सोहणु पउत्तु
विरइज्जइ ज जणवयविरुद्धु

जइ जेमाविज्जइ नेव मित्तु ।
गिहधम्मु विवाहु अईवभव्वु ।
सुहि भणिउ नवेप्पिणु वद्धनेहु । २०
तो महु घरि पइँ भोत्तव्वु अज्जु ।
पर मित्त एहु अम्हहँ अजुत्तु ।
अन्नु वि रिसीहिँ आरिसि निसिद्धु ।

उक्त च—गूद्रान्न गूद्रसुश्रूषा गूद्रप्रेषणकारिता ।

गूद्रदत्ता च या वृत्ति पर्याप्त नरकाय तत् ॥

२५

न गूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम् ।

न चास्योपदिगेद् धर्म न चास्य व्रतमादिगेत् ॥

घत्ता—एवविहु समयनिसेहु सुहे अवरु वि लोयवियोरियउ ।

घरि तुम्हहँ तेणम्हारिसहिँ भोयणपाणु निवारियउ ॥१५॥

१६

वस्तु—इउ सुणेप्पिणु पुण्णभट्टेण

पणवेप्पिणु पुणु भणिउ अम्ह गेहे तुम्हहँ अजुत्तउ ॥

भयवत भोत्तव्वु जइ तरिहे एउ किज्जउ निरुत्तउ ॥

वणे गोट्टिणु अम्हेहिँ सहुँ सक्करसप्पिसमाणु ।

मन्नह दियनिव्वत्तियउ अविस्द्धउ पयमाणु ॥

५

तामेण समिच्छिउ एम होउ

इयरेण वि कय सामग्गि भव्व

सुदरपएसि सिवभूइ मित्तु

अप्पणु सकुडुवु अदूरे तामु

एत्थंतरं मित्तसिणेह मुद्धु

मज्ज पिवादि त्ति जणेण घोमु

पुहईपहुणा वि य एहु वत्त

हक्कारिवि आउच्छिउ पुरोहु

पहुवयणु सुणेप्पिणु भणइ विप्पु

जइ ससउ तो जं भणहि देव

केण वि पउत्तु कयमच्छरेण

ता तेण त पि किउ न किउ खेउ

तहो मज्जगंधु परिणइवसेण

अह नेहँ करइ न काइँ लोउ ।

गय उववणभूमि मिलेवि सव्व ।

थविऊण तत्थ अवियड्ढचित्तु ।

गोट्टिहं वइट्ठु सो कयविलासु ।

सिवभूइ पियतु निएवि दुद्धु । १०

किउ लाइउ निहोसहँ वि दोसु ।

सुय उल्लासीकयपिसुणवत्त ।

कहि काइँ एहु जपइ जणोहु ।

इउ अलिउ इलेसर निव्वियप्पु ।

त करमि पयासहि भुवणसेव । १५

उव्वमहि असिउ कि वापरेण ।

उग्गिरिउ खीरु सक्करसमेउ ।

आयउ आरोसियमाणसेण ।

घत्ता—निदोमु वि दोसवतु भणिवि चिरकयकम्मे पेल्लियउ ।
गरहेप्पिणु राएँ सो जणेण नीसारेप्पिणु घल्लियउ ॥१६॥

२०

१७

वस्तु—चुयणु सोत्तिउ सीलसत्तिल्लु

चउवेयसडगविउ पुज्जणिज्जु वंभु व पसिद्धउ ।
सिवभूड जणेण जिह दोसवतु मन्नेवि निसिद्धउ ॥

कयदुज्जणससग्गु तिह गुणि तवसी वि वरो वि ।
लोए नेहु वि एरिसउ मन्निज्जड अवरो वि ॥

५

उक्तं च—न स्थातव्य न गतव्य दुष्टेन सहकर्मणा ।

गौण्डैः सह पयः पीतं वारुणी मन्यते जनः ॥

अवि सजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणढि दोस ।

जध घूयकदे दोसे हसो वहिओ अपावो वि ॥

अतीव संयतो ऽपि दुर्जनकृतेन दोषेण दोष प्राप्नोति । यथा उलूककृतेन दोषेण हसो हन
अपापो ऽपि । एत्थक्खाण । तं जहा—

मगहामंडलि पयसुहयरम्मि
तत्थेव एककु कोसिउ उयारि
स कयाड रायहसहँ समीवु
एक्केण तत्थ कयसागएण
भो मित्त त सि को कहमु एत्थु
धयरट्टहो वयणु मुणेवि घूउ
कयसावाणुग्गहविहिपयासु
वसवत्ति सव्व सामतराय
कीलाइ भमतउ महि पसत्थ
डय वयणहिँ परिओसिउ मरालु
किउ चारु महापहु भुवणसेव
अम्हि सिसु व्व सामिय सया वि

पयपालु राउ पाडलिपुरम्मि ।
णिवसड सया वि गोउरहु वारि ।
गउ विहरमाणु मुरसरिहे दीवु ।

पुच्छिउ हसे वयसागएण । १५

आओ सि पएसहो कहो किमत्थु ।

भासड हउँ उत्तमकुलपसूउ ।

आयहो पहु पुहईमडलासु ।

महु वयणु करंति कयाणुराय ।

तुम्हईं निएवि आओ मि एत्थ । २०

विणएण पयपिउ मइविसालु ।

किय ज अम्होवरि बुद्धि देव ।

तुम्हहँ पालणिय महापयावि ।

घत्ता—भणिरुण इणइँ नाणाविहइँ चारु मुसायइँ मुरहियइँ ।

दव्वाइँ मुणालइँ आइयइँ तहो तेणावि समप्पियइँ ॥१७॥

२५

१८

वस्तु—तेहिँ पीणिउ तुट्ठु कायारि

अन्नोन्न सणेहु हुउ तहिँ वसेवि वे तिन्नि वासर ।

विहसेप्पिणु हसवरु भणिउ तेण गुणगयणनेसरु ॥

आवहिँ मित्त महु तणउ घरु जाइज्जड अज्जु ।

पइवन्नउ त पाडलिण वयणु भावि अमणोज्जु ॥

५

ते तरणिअत्थिवेलाए वेवि

सपत्ता सखेवेण तत्थ

अत्थमिउ दिवायरु तहिँ पइट्ठु

एत्तहिँ वि विजयजत्ताहे जोग्गु

दिन्नउ जोइसिएँ तच्चलेण

गच्छतु सतु समुहु पुराउ

भो मित्त नियच्छह एहु राउ

जइ वारमि तो निच्छउ न जाइ

हसेण भणिउ करि कोइडु चारु

त सुणिवि उलूँ जमदिसाए

अवसउणु जाउ नरवइ नियत्तु

माहप्पु दिट्ठु पल्लट्ठु राउ

इय वोल्लिवि वामासाए सद्दु

लहिऊण सउणु हरिसे विसट्ठु

पुणरवि अवसउणिउ नरपहाणु

गय गगणगणि उट्ठाणु लेवि ।

गोउरसमीवि तं छिद्दु जत्थ ।

णिय रत्ति इट्ठुगोटीए इट्ठु ।

तिहिँ वासरु जोग्गु मुहुत्तु लग्गु ।

पयपालु राउ सहुँ नियवलेण ।

पेक्खेवि पयपइ रत्तिराउ ।

विजिगीसु जतु सेणासहाउ ।

अहवा सपेसमि तो न थाइ ।

दक्खालहिँ नियसामत्थु सारु ।

किउ सद्दु होवि दाहिणदिसाए । १५

पुणु भणिउ देवभीएण मित्तु ।

जइ भणहिँ पुणु वि पेसमि सराउ ।

किउ जत्ताजोग्गु अईव भद्दु ।

सहुँ पहुणा साहणु पुणु पयट्ठु ।

आरुट्ठु सुट्ठु सरवेहजाणु । २०

घत्ता—ता कोसिउ सद्दु मुएवि खलु सहसा त पइट्ठु विवरु ।

सिरिचदसमप्पहु गुणनिलउ हुउ वाणेण तेण वि वरु ॥१८॥

उक्त च—विकालचर्या विपमा च गोष्ठी कुमित्रसेवा न कदापि कुर्यात् ।

पण्यांडज पद्मवने प्रसूत धनुर्विमुक्तेन शरेण ताडितम् ॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले, ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले ।

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते एतपयदसजुत्ते ।

एसो कुमित्तसेवाफलकहणो सत्तमो संघी ॥

सधि ८

१

आसयवसेण एव पुरिसा दोस गुण च पावती ।

तम्हा पसत्थगुणमेव आसय अल्लिएज्जाह ॥ [भ. आ ३६१]

आसयवसेण म्यानविशेषवशेन पुरुषा दोष गुण वा प्राप्नुवन्ति । तस्मात्प्रशस्तगुरामेवाश्रयत ।

एत्थक्खाराण--

दुहनिलयदुट्टुसगुज्जणेण सज्जणसगवसेण जिह ।

५

हरिसेणहो सयलडलेसरहो हुय परमुन्नइ कहमि तिह ॥

वस्तु—जम्बुदीवप्र भरहवरिसम्मि

अगेत्ति पसिद्धु जप्र अत्थि देसु देसहँ सिरोमणि ।

देवाण वि वल्लहउ विविहसस्सवणसोहियावणि ॥

पहे पवहतहिँ पथियहिँ पहे पहे पवहे पवित्तु ।

१०

दहिँ ओल्लिउ अल्लयसहिँउ जहिँ जिम्मिज्जइ भत्तु ॥

तहिँ सिरिमहत्ति

उवमाणवत्ति ।

भुवणाहिरामि

कपिल्लनामि ।

पहयारिविदु

पुरवरि नरिँदु ।

हरिकेउनामु

न रूवे कामु ।

१५

मयवत्तवत्त

जिणधम्मरत्त ।

गुणमणिनिहाण

वप्पाहिहाण ।

महएवि तासु

तिहुयणपयासु ।

खलमइयवट्टि

मुउ चक्कवट्टि ।

हरिसेणु ताहे

हुउ निरुवमाहे ।

२०

अवरि वि निवम्म

नरिँच्छमइ तस्स ।

नामेण कत

सोहग्गवत्त ।

सछन्ननेत्त

जिणमयविरत्त ।

निरु रुढभाव

सप्पिणि व पाव ।

गप्र काले तम्मि

पुरे फग्गुणम्मि ।

२५

निट्टाहियाप्र

अट्टाहियाप्र ।

बप्पइँ पवित्त	अरुहरहजत्त ।
आढत्त जाम	रयराइ ताम ।
बद्धाणुराउ	विन्नविउ राउ ।
महु तणउ बभ-	रहु अरिनिसुभ ।
वज्जतमुरउ	परिभमउ पुरउ ।
कियभुवणसेव	पुणु इयरु देव ।

३०

घत्ता—ता राएँ बप्पाएविरहु वाराविउ कयजयहरिसु ।
अहवा अणुरत्तु न किं करइ मुइवि वरन्नु खाइ करिसु ॥१॥

२

वस्तु—सुणेवि सामियवयणु महएवि

सचितइ किं करमि कहमि कासु कहो सरणु गच्छमि ।
को सारइ माणु महु कासु अज्जु मुहयदु पेच्छमि ॥
अहवा पहु अन्नाउ जहिँ करइ वविउ वइ खाइ ।
तहिँ किं किज्जइ अन्नबहि मेर मुएप्पिणु जाइ ॥

५

माणिणि अहिमाणवसाविसन्न	इय चित्तिऊण हुय कयपइन्न ।
जइ पुव्वमेव रहवरु मईउ	नयरम्मि भमेसइ अट्ठुईउ ।
तो आहारहो सलिलहो पवित्ति	इयरहँ पुणु निच्छउ महु निवित्ति ।
इय भासिवि सुयणु सुयधमीसे	थिय वेणिनिबधु करेवि सीसे ।
तावायउ कीलेप्पिणु कुमारु	पच्चक्खु नाइँ सयमेव मारु ।
निय माय निएप्पिणु भग्गमाण	आउच्छिय वीरे रोवमाण ।
मलिणाणण दीसहिं स्वहिं काइँ	कहिं अब हियइ दुक्खाइँ जाइँ ।
सज्जणमणनयणाणदणासु	ता ताए पयासिउ नदणासु ।

१०

घत्ता—हे पुत्त एत्थ पुरवरि पयडु सव्वकालु महु तणउ रहु ।
नदीसरि नदीसरि भमइ पुत्तिववासरि दुरियरहु ॥२॥

१५

३

वस्तु—गोत्तमडण तुज्ज ताएण

कम्मेण मणोरहु व वाराविउ सो मईयउ ।
लच्छीमइ-वम्हरहु पढमु पच्छा तईयउ ॥
तेणहिमाणे तणय मईँ लइयाहारनिवित्ति ।
सपज्जेसइ चित्तियउ जइ तो अत्थि पवित्ति ॥

५

तइयहुँ एयहि वेणिहि मि मोक्खु
इय लेवि पइज्ज सया वि पुत्त
कारणु सुणेवि भुयवलविसालु
किं करमि जणेरहो कयरएण
जइ अवरु जणइ अहिमाणु तुज्जु
थिर थाहि म ख्वहि पसन्नवाप्र
इय धीरिवि जणणि पलवपाणि
एक्कल्लु मल्लु केण वि न दिट्ठु
मेल्लतु विसम तरुसरिपयाइँ
गिरिसकडि दावियतिक्वभल्लि

होसइ जइयहुँ महु मणहो सोक्खु ।
थिय रोवमाण अहिमाणचित्त ।
मायरिहे कहइ अविओलु वालु ।
लज्जिज्जइ गुरयणअविणएण ।
तो निच्छउ अमरु वि मरइ मज्जु । १०
तव पुण्णहिँ होसइ सव्वु माप्र ।
निग्गउ निसीहु निसि समप्र माणि ।
भीसावणु गिरिकाणणु पइट्ठु ।
पेच्छतु सतु सावयसयाइँ ।
पत्तउ विज्जुच्चरचोरपल्लि । १५

घत्ता—हरिसेणु निएप्पिणु इतु तहिँ पजरत्थु तहुँ कहइ सुउ ।
लहु लहु लहु वर्धेवि धरहु जाव न नासइ रायसुउ ॥३॥

४

वस्तु—सुणिवि एयइँ सुयहो वयणाइँ

चित्तेप्पिणु कज्जगइ तुरिउ कुमरु ओसरिउ तेत्तहे ।
विहरतउ तावसहँ गउ गइँदगइ निलउ जेत्तहे ॥
तत्थ वि पभणइ करु करह तुट्ठह अब्भुत्थाणु ।
आयउ आसमगुरुत्तणउ लहु विरयह सम्माणु ॥ ५

ण्हावह भुजावह करह भत्ति
इउ पूसयवयणु सुणेवि वुत्तु
कणइल्ल पयपहिं किं पियाइँ
आयण्णिवि भासइ रिच्छु एउ

सव्वहँ अब्भगउ गुरु न भत्ति ।
विंभियमणु पुज्जइ रायउत्तु ।
मइँ दुट्ठइँ सुयवयणइँ सुयाइँ ।
सुणु सुयणु दुट्ठु पियवाणिहेउ ।

तद्यथा—माताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्षिण । १०

अह मुनिभिरानीत स तु नीतो गवाशनै ॥

शृणोति वाक्य स गवाशनानामह च राजन्मुनिपुङ्गवानाम् ।
प्रत्यक्षमेतद् भवता हि दृष्ट संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ॥

निसुणेप्पिणु' इउ चित्तइ नरेसु
इय जाणिवि वज्जइ दुट्ठसगु

लइ वुज्झिउ आसयगुणविसेसु ।
आसयह सुहकर सुयणसगु । १५

४ १ निसुणिवि ।

ता तत्थ कुमारु अतामसेण
नहिँ अच्छड कयपडिवत्ति जाम

निउ घरु सयमणूतावसेण ।
अत्तेक्कु कहतरु हूउ ताम ।

वत्ता—नामे जणमेज्जहो तावसहो तहो नागवडपियाहे हुउ ।
चपापुरि पुत्तु पयडवलु करड रज्जु मुहिसयणजुउ ॥४॥

५

वस्तु—मयणकित्ति व मयणसत्ति व

तिहुयणजणवसियरणि मयणवाणपति व मणोहरि ।
मयणावलि तामु सस सरससंकजोण्ह व सुहकरि ॥
तहि आएमु निमित्तिण्ण किउ बहुगुणहिँ निउत्तु ।
होसड एसा थीरयणु चक्केसरहो निरुत्तु ॥

साहणा केण केण न सा मग्गिया
तन्निमित्तेण तत्तेण कामग्गिणा
उद्दुरायाहिराएँ सिया मुन्दरी
जाणिऊण असज्जो अरी राइणा
तव्भएण तओ न रई मीणई
दिट्ठओ भाविचक्केसरो न सरो
किं पि ने जाणए तग्गयासामई
तारिस तं निएऊण आसंकिदा
पुत्ति पुत्ती तुम चक्किणी होहिसी
अन्नचित्ताए कि ताए सा लज्जिदा
मो वि तेलोक्ककजेक्कसीयत्तुणा

तो वि दिण्णा तिणा नेव सामगिया
आविऊण रुसा सारसामग्गिणा ।
कालनामेण सरुद्ध चपापुरी ।
सा सुरगाए नीसारिया भाइणा
नायथाण समाया समाया सई ।
लग्गओ कामएवस्स चित्ते सरो ।
जाय निज्जीव न वाहविद्धा मई ।
वारए मायरी होहि मा दुक्खिदा ।
पुच्छिओ आसि अम्हेहिँ एक्को रिसी
जाय कामावली कामसपुज्जिदा ।
पीडिदो ल पलोएवि तं कंतुणा ।

वत्ता—तग्गयमण नियवि बुहेण सुय सयमण्णे नीसारियउ ।
हरिसेणु हरि व निद्धूयभउ गउ नियपुण्णहिँ पेरियउ ॥५॥

६

वस्तु—जत्थ पट्टणु सिधुनयनामु

सिधुनयतीरे वरु सिधुनाउ नामे नरेसरु ।
सिधुरवइदीहकरु करड रज्जु नदिवि सुरेसरु ॥
सिधुमई महएवि तहो सिधुदेवि सुय जाय ।
किं वण्णमि हूँ मदमइ सा सरविजयवडाय ॥

कन्ना मदेण सहिया विणिग्गदा
 लग्गाणुमग्गे करिणी अकुच्छिया
 एत्थतरे अत्तरितारिवेयओ
 दट्ठूण रुद्ध भयभिभल तिणा
 गभीरनाएण गयदवालओ
 आसाए अन्नाए नएहि सोहण
 मेठेण सोऊण इण पउत्तय
 अप्पाणय जे ण गणेसि वधुर
 एव भणेऊण तिणा सुसामओ
 लद्धूण सन्न लहु धाविओ करी

णहादु सर सारसरावि णगदा ।
 सदाणिदा दाणवदामयच्छिया ।
 तत्थाउ सो पोढपयंगतेयओ ।
 कन्नागणं कालनिहेण दत्तिणा ।
 वुत्तो अरे वालय वालवालओ^३ । १०
 भेसेसि कि मुद्धकुमारियागण ।
 धिट्ठो सि त गोह अरे निरुत्तय ।
 नो मन्नसे कि पि वि रायसिधुर ।
 सचोइओ समुहओ महामओ ।
 तस्साभिवत्तो थिउ रायकेसरी । १५

घत्ता—विरएप्पिणु विज्जु खित्तु नहे करणु करेप्पिणु दतियउ ।

अप्फालिवि हत्थे कुभयलु उप्फदेवि^४ पुणो वि गउ ॥६॥

७

वस्तु—खणि जि पच्छए पुरउ खणि थाइ

खणि गत्त तरिवि सइ छिवइ दतु करिकुभु खणि खणि ।
 खणि भमइ चउदिसउ विज्जुपुजु चलु नाइ नवघणि ॥
 हक्कइ रोक्कइ आहणइ खणि खणि सरु ससरेण ।
 नाणाकरणहिँ एव करि किउ वसु चक्कहरेण ॥ ५

खित्ताइँ सीसि कुमुमइँ सुरेहिँ
 परिओसिउ पुरु परियणु नरिदु
 जो चिरु कहिओ सि वियक्खणेहिँ
 इय भणिवि नमसिवि निउ निवासु
 कन्नासएण सहूँ सिधुदेवि
 सोवतु सुहउ एक्कहिँ दिणम्मि
 निज्जतु सतु हरिकेउपुत्तु
 भणु भद्दे का सि कि खयरि देवि
 भासइ सा सामिय सुणु विचित्ति
 वेयड्ढहो सेढिहे उत्तराहे
 सुरघणु नामेण नरेसरासु

गाइउ नहि साहसु किन्नरेहिँ ।
 जामाउ दिट्ठु वसिकयकरिदु ।
 सो सइँ दिट्ठो सि सईक्खणेहिँ ।
 सम्माणिउ ससुरे सिरिनिवासु ।
 दिन्नी विवाहु किउ विहि रएवि । १०
 निउ खयरिण हरिवि नहगणम्मि ।
 पुच्छइ पप्फुल्लयपउमवत्तु^५ ।
 सचत्तिलय तुहुँ मइँ कहिँ लएवि ।
 जवूदीवतरि भरहखेत्ति ।
 सूरुदयनयरि गुणुत्तराहे । १५
 पिय बुद्धिमई रइ न सरासु ।

घत्ता—जयचदजसुज्जल गुणनिलय पुत्ति पवित्तुप्पन्न तहिँ ।

सा कि वणिणज्जइ रूवनिहि मुणि वि मयणवसु जति जहिँ ॥७॥

८

वस्तु—तो तहें चित्तहो को वि न वि पुरिसु

पडिहासइ सुदरु वि जइ वि कामु सयमेव वासउ ।
 आणिउ केणावि तउ चित्तपट्टु मोहियजणासउ ॥
 त पेच्छिवि सा सुहय हय सुदरि निरु कामेण ।
 हउँ सपेसिय ताए तइँ लहुवेया नामेण ॥

५

तहि कारणु सहियहिँ गुणसमग्ग
 वयणेण एण रूवजियकतु
 सपत्तु तत्थ सोहग्गसारु
 हियवइ न ताहें सतोसु माउ
 चक्केससूरदसणि अण्णिदु
 सतुट्ठु सुट्ठु नहगमणु राउ
 गधव्वपुरेसरु भग्गमाणु
 आयण्णिवि पाणिग्गहणु ताहें
 आरुट्ठु सुट्ठु निट्ठुरकरग्गु
 भो पेच्छह उल्लघियकमेण
 वज्जेप्पिणु विज्जाहर रवण्ण
 परिहउ परमत्थे पहयनेहु
 वहुएण किमाहवे वेवि अज्ज
 अवरो वि को वि जेणेउ कम्मु

परमेसर हउँ पइँ नेवि' लग्ग ।
 निहुयउ गउ सिधूदेविकतु ।
 दिट्ठुउ जसचदए नाइँ मारु ।
 रोमचमिसेण य पयडु जाउ ।
 जायउ पप्फुल्लु महारविदु । १०
 सहसा सुयाहें सहँ किउ विवाहु ।
 गगावरु विज्जाहरपहाणु ।
 हरिकधरु नाइँ सयपहाहें ।
 भासइ अहिमाणाहयधरग्गु ।
 किउ काइँ तेण खयरधमेण । १५
 भूगोयरवरहो विइन्न कन्न ।
 अम्हहँ तुम्हहँ वि समाणु एहु ।
 मारेवि एहुँ खल ते अलज्ज ।
 नायरइ कयावि विमुक्कधम्मु ।

घत्ता—इय भासेवि [सइँ रूसेवि] खयरसहासहिँ परियरिउ
 अवहत्थिवि मत्तिसुहासियइँ विज्जाहरवइ नीसरिउ ॥८॥

२०

९

वस्तु—एत्थ अतरे गपि चरनरहिँ

जाणाविउ सुरघणुहे देवदेव दुज्जउ महाइउ ।
 विज्जाहरचक्कवइ रूसिऊण तुज्जुवरि आइउ ॥
 ज दिन्नउ कन्नारयणु भूगोयरहो पवित्तु ।
 तेणहिमाणघएण फुडु अग्गि व सित्तु पलित्तु ॥

५

जइ सक्कहि तो तहो समुहु थाहि अहवा लइ लहु नीसरिवि जाहि ।

८. १ नेमि ।

२°पुरेसुर ।

किं माणे जेणावड अत्रज्जु
इय चरवयणहिं नहयरनरिदु
वलियउ विज्जाहरराउ आउ
निसुणेवि एउ हयमुयणसल्लु
थिरु थाहि माम आवउ वराउ
को मुन्दरमड अहियावसाणि
वयणेण एण पहु तहो तणेण
अववभु नियच्छिवि सुदरामु
चित्तइ सुरधणु अ दइच्चु कोड
अहवा रिसीहिं आएसु आसि
वरु पुत्तिहे तेण रणे दुमेहु

जीवतहँ होसइ अन्नु रज्जु ।
चित्तइ हुउ मलिणमुहारविदु ।
एवाहिं चित्तिज्जइ को उवाउ ।
जपइ जामाउ जगेक्कमल्लु । १०
दसमि खलु खलहो कयतराउ ।
पइँ परिहवेइ मइँ जीवमाणि ।
अप्पाइउ विञ्जु व नवघणेण ।
जसवतहो जसयदावरासु ।
सामन्नु अन्नु न हु एहु होड । १५
किउ होसइ जो गुणरयणरासि ।
मारिस्सइ' परमत्थेण एहु ।

घत्ता—इय चित्तिवि नीसदेहमणु सन्नहेवि सेन्नेण सहु ।

सूरोदयवइ जामायजुउ अमरिसवसु नीसरिउ लहु ॥९॥

१०

वस्तु—पत्तु एत्तहे ताम तवणीय—

सदणसयहयगयहिं भड्थडेहिं भूयलु निरतरु ।
छायतु चलतधयवरविमाणनियरेण अवरु ॥
अधारिउ न नवघणहिं नट्टुउ भाणुज्जोउ ।
चउदिसु असिसोदामणिउ नियइ फुरतिउ लोउ ॥ ५

कयकायरजणमणसभमाइँ
वहुभेयइँ सखावज्जियाइँ
सदेण ताहँ वहिरिउ दियतु
थरहरिय धराधर धरणि वीर
आसकिय जम-वडसवण-सक्क
जणु जपइ कपइ काइँ एउ
वेयड्ढनामु वेयड्ढवासि
हरिसेणहो हरिसवसेण हूउ
अन्नोन्नु निएवि समच्छराइँ
धावियइँ पवाहियवाहणाइँ

सुहडोहपयासियसभमाइँ ।
उहयाइँ वि वज्जइँ वज्जियाइँ ।
न हसिउ गिलेप्पिणु जगु कियतु ।
सजाय जलहि झलझलियनीर ।
डोल्लिय नहि रिक्ख-ससक-सक्क । १०
एत्थतरि सदडु मुणेवि देउ ।
पहुपुण्णहिं तत्थायउ सुहासि ।
जाणाविवि पय पणवेवि सूउ ।
दच्छइँ रत्तच्छिनियच्छराइँ ।
सुरधणुगगाधरसाहणाइँ । १५

घत्ता—धावतहँ सेन्नहँ पयपहउ पसु पणासियदिट्ठियउ ।

नावइ सुहडामरिसानलहो धूमसमूह समुट्ठियउ ॥१०॥

११

वस्तु—पढमु पायहँ लग्गु पुणु करहिँ

पुणु लग्गउ अकवहँ जाम केम न करतु' वारिउ ।

रुसेप्पिणु नाइँ रउ पुणु विलग्गु केसहँ निराग्गिउ ॥

चलवलत—भडपवर—करतिकखखग्गभयभग्गु ।

न कूवारउ मुरवरहँ कग्हुँ वल्लग्गउ सग्गु ॥ ५

जयगोमिणिकामिणिलपडाइँ

वहुपक्खविक्खक्खयकराइँ

अच्चतच्चित्तअमरिसवसाइँ

आसिक्खयर।क्खयकुलछलाइँ

मुसुमूरियचूरियरहवराइँ

आमोडियपाडियगयघडाइँ

अच्छोडियतोडियभडसिराइँ

अइसइयरइयसरपजराइँ

पलपोसियतोसियरक्खसाइँ

हयवसमुच्छावियभभलाइँ

अरुणारुणदारुणविग्गहाइँ

नीरधकवधपणच्चणाइँ

हयम्मअरम्मगिरुवभडाइँ ।

उरकयक्खयक्खग्गभयंकराइँ ।

सवियारइँ सारइँ रणरसाइँ ।

अवियत्तइँ अविभट्टइँ वलाइँ ।

निहारियमारियकिकराइँ । १०

सरपूरियविहडियहयथडाइँ ।

सुविचित्तच्छत्तधयखडिराइँ ।

गुरुविहुरपहरसयजज्जराइँ ।

सगलियमिलियसिववायसाइँ ।

विलुलतअतफणिच्चुभलाइँ । १५

पहुमित्तचित्तदुहनिग्गहाइँ ।

सुरयणमणनयणपणच्चणाइँ ।

घत्ता—वणियगइँ कयकेसग्गहइँ रत्तच्छइँ दट्टाहरइँ ।

जुञ्जतइँ मेहुणाइँ व बलइँ दिट्टइँ आमेल्लियसरइँ ॥११॥

१२

वस्तु—दडदुडुह खग्गपाढीण

छत्तोहाफणुज्जलिय तुरयथट्टपच्छरनिरतर ।

सिररुहसेवालचय नरकरकमयरहिँ दुरुत्तर ॥

दुरयधराहरवणविवरनिग्गय घोर वहति ।

दिट्ट खगिदिहिँ रत्तनय भडथडतर भजति ॥ ५

एत्थतरि सुरधणुरायदंडु

पाडिउ उववाडिउ दिच्चु नाइँ

गलियाउहकर विलुलतकेसु

साहारिवि सबलु ससावलेउ

११ १ करति ।

परवलेण करेप्पिणु खडु खडु ।

रणभूदेविहँ कत्थ वि न माइ ।

भयभीउ भग्गु उच्चरिउ सेसु ।

सरहसु सेणावइ सीहकेउ ।

धाविउ ससरासणु सामदेहु	वरिसतु सरहिँ न पलयमेहु ।	१०
सो रहु न उ सारहि सो न पत्ति	सो नेवारोहु न सो वि दति ।	
सो तुरउ न सो न उ आसवारु	सामतु न सो सामत्यसारु ।	
सो नउ धउ छत्तु न त विमाणु	त नाउहु न उ जंपाणु जाणु ।	
वस वीस तीस जहिँ सूसुयत	न उ लग्ग मग्गणा तहो फुरत ।	
सहसत्ति सराहउ सत्तुसेनु	ओसरिउ समग्गु वि भयविसत्तु ।	१५

घत्ता—नियसेन्नु निएप्पिणु हणिउ रणे पच्चारेप्पिणु पवलवलु ।

वलवइविज्जाहरसामियहो वलिउ तामु नामेण वलु ॥१२॥

१३

वस्तु—वे वि दुद्धर धरणिधरधीर

धुरधोरिय वे वि जण भडपहाण पडिभडविमहण ।

सरणागघसामि मुहिकज्जकरण कणयमयसदण ॥

अडपयड कोयडकर समरसएहिँ रउद्द ।

अवरोप्परु ते अत्तुलिय न मुरसिहरिसमुद्द ॥

हरिकेउ परज्जियपरवलेण	सरजाले पच्छाइउ वलेण ।	
पहवंतु पहायरु दुद्धिणेण	दिणयरु व नहगणे नवघणेण ।	
पाडिउ धणु धउ धवलायवत्तु	आहय हय सारहिँ धरणि पत्तु ।	
किउ विरहु महारहु रहवरम्मि	थिउ अन्नहिँ नवर मणोहरम्मि ।	
एत्यतरि वडरिविणासहेउ	आरुट्ठु सुट्ठु भडु सीहकेउ ।	१०
वरवसुब्भुउ गुणनमियकाउ	सुकलत्तु व अवरु लएवि चाउ ।	
पडिक्खहो पिहियनहतारालु	कप्परिउ खुरप्पहिँ वाणजालु ।	
पत्येण नाइँ पडिक्खचित्तु	पाडिउ चूडामणि विप्फुरतु ।	
तिहिँ सरहिँ चाउ धउ छत्तु छिन्नु	पचासहिँ देहावरणु भिन्नु ।	
किउ वियलु वलुद्धरु वलु खणेण	केसरिधउ ससिउ सुरयणेण ।	१५

घत्ता—ता वलेण विलक्खीह्यण अवरु सरासणु करेवि करे ।

रक्खेज्जसु पच्चारेवि पहउ सरसएण सहसत्ति उरे ॥१३॥

१४

वस्तु—ज्ञत्ति तिक्खहिँ भिन्नु सन्नाहु

कह कह वि हु न वि हियउ दुज्जणेहिँ वाणेहिँ नावइ ।

गुणधम्मुज्जियहिँ नउ [सम्म-] दिट्ठि सधानु पावइ ॥

१३ १ सारेहि ।

एव भणेवि विमुक्क सर दीह सविस अपमाण ।
तेण वि खडिवि अट्टवहि पाडिय सप्पसमाण ॥

५

आलग्ग वे वि विज्जाहरिद
विन्नि वि पयड सगरसमत्थ
विन्नि वि आसियदुहदाहकद
विन्नि वि महत्तसपयसमिद्ध
विन्नि वि चारहडा चायसूर
विन्नि वि सरणागयरक्खकारि
विन्नि वि थिग्गरिकरदीहपाणि
अग्गेयहि वारुणवायवेहिं
करिसीहहिं हरिअट्टावएहिं
हयमहिसहिं उरग्गहिं पन्नएहिं
हक्कति हणति चलति धति
खणि अट्टसण खणि पयड होति
खणि एति जति नहयन्नि भमति

अमरिसवस न आमाकरिद ।
विन्नि वि परिओसियसयणसत्थ ।
विन्नि वि सुदरजसवेल्लिकद ।
विन्नि वि जयरामारइपडट्ट ।
विन्नि वि निम्मलकुलकमलसूर । १०
विन्नि वि विवक्खवहुवलयहारि ।
पहरति परोप्परु वे वि माणि ।
खणि तम्मि ढिणहिं सिलपायवेहिं ।
खणि फणिगळ्ढहिं पविपावएहिं ।
खणिसायरमेत्तमहतएहिं । १५
खणि खणि अन्नोन्नु जि धीरवति ।
खणि वट्टिवि रविमडलु छिवंति ।
खणि नाणावेसहिं सभवति ।

वत्ता—छलु लहिवि कहव गगाधरेण करवालेण दुहाइयउ ।

सुरवरधणु हणु भणतु पुणु विहिं^१ रूवेहिं पराइयउ ॥१७॥

२०

१८

वस्तु—दो हु खडिय चारि सजाय

चउ आहय अट्ट हुय अट्ट पहय सोलह भयकर ।

वन्नीस चउसट्टि सउ अट्टवीमु सकिवाण फरकर ॥

इय दुण दुण वड्ढेवि [तहिं] सुरधणु होवि अणंत ।

धाइय सव्वदिसासु तहो [हणु हणु एहु भणत] ॥

५

सुरिदधणुस्स निएवि अमाण
हणत असेस निवेस सुसत्तु
तओ हयवेरिविउव्वणथाम
मुराहिवच्चावु वियभिउ ताए
विणट्टविउव्वणरिद्धिपहाउ
इहतरि सीहधयस्स सुएण
चिरावहि काइं नियच्छहि चोज्जु
१७. १ रग्गहिं पत्तएहिं । २ विवहिं ।
१८. १ अजज्जु ।

विउव्वण रिद्धि हयाहियमाण ।
सहामरु विभिउ वित्तहो सत्तु ।
विचित्तिय विज्ज तिणामियथाम ।
विणासिउ सव्वु वि साइसयाए ।
तहेक्कु थिओ जयचदहे ताउ । १०
पउतउ मामहं चारुभुएण ।
पचोयहि सदणु वेरि अनज्जु ।

करेइ पसाउ न मामहो जाम
सुणेवि इण सहसत्ति सुरेण
निओ रहु जेत्तेह् अच्छइ सत्तु

वियारमि अस्स उरत्थलु ताम ।
पडिच्छियसगरभारधुरेण ।
मुराउहएण सम पहरत्तु ।

१५

घत्ता—हक्किउ हरिसेणे वडरि रणे लुद्ध मुद्ध अन्नायपर ।

कहिं जाहि अज्जु काले कलिय वलु वलु आरा रे खयर ॥१८॥

१९

वस्तु—भणइ सुरसरिधरणु विहसेवि

कि मसएँ मत्तकरि पत्यरेण कि मेरु जिप्पइ ।

दूसहु जोडगणेण कि कयाड रवितेउ हिप्पइ ॥

तुह नामु वि कि ताव पुणु तुहुँ वराय अविआण ।

जा जाहि सरहि मा महु समरि रक्खाहि वल्लहपाण ॥

५

एय मुणेऊण परचित्तसल्लेण
अलिएण खल सुहुड वाएण भज्जति
भणिएण किर काइँ वहुणा असारेण
लड पहरु कि नियहि जइ अत्थि सामत्थु
खयरेण कोवग्गिणा पज्जलतेण
अद्धवहि सहसत्ति आहवसमत्थेण
जे जे हि विज्जामया निहय पडिवक्ख
ते ते खणद्धेण गयणद्धि वाणेहिं
वाणेहिं बहुभेयधणुवेयविहिजाणु
खयरेण मोग्गार मुसढीउ सत्तीउ
सहुँ भिडिमालेहिं परसेन्नतासेहिं
कणएहिं सह दुक्खसदोहजणणीउ

भणिय कुमारेण तेलोक्कमल्लेण ।
सप्पुरिस रडाण राडीए लज्जति ।
जाणिज्जए धीरु धीरोहसारेण' ।
दसेमि तुह अज्जु जमरायपुरपथु ।
निसुणेवि एय विमुक्का सरा तेण । १०
ते खडिया चंडकोयडहत्थेण ।
पटुवइ अणवरउ अरि मग्गणा तिक्ख ।
निटुवई चक्केसरो अप्पमाणेहिं ।
सक्को न जेउ वियाणेवि भूजाणु ।
गय वज्जमुट्ठीउ ह्यसत्तसत्तीउ । १५
अतेहिं पासेहिं सहुँ नायवासेहिं ।
अस मुसल हल चक्क मुक्काउ असणीउ ।

घत्ता—तो देवदिन्नदिव्वाउहहिं जणमणनयणाणदर्णेण ।

सव्वइँ हयाइँ परपहरणइँ वप्पाएविहे णदर्णेण ॥१९॥

२०

वस्तु—मुणिवि दुज्जउ वइरि वलवतु

पण्णत्तिपहूइयउ चितियाउ तेणासु विज्जउ ।

आयाउ भणतियउ कहसु काइँ खयरिद किज्जउ ॥

ज ज धणु करयले करड मुरधणु सेणपहाणु ।

त त छिन्नड दडउ जिह वलु अविहडियमाणु ॥

५

सामतहिँ सदरिसियदुहेहिँ
निज्जाइय चित्ति अणत सत्ति
खलविज्जपहाउ पडिक्खलति
जयलच्छि नाइँ हरिकेउकित्ति
सा करि करेवि केसरिधएण
नयखयरमउडमाणिककराय
जइ सरणु पईसहि वासवासु
निसुणेवि एउ भासिउ वलेण
को तुहुँ को सो तुह तणउ राउ
दसमि तुह रे खल कालरत्ति

जाणिवि अवज्जु अरि आउहेहिँ ।
मुरधणुभिच्चेण अमोहसत्ति ।
आगय गयणगणि पज्जलति ।
नावड दुरत पडिभडभवित्ति ।
अरि भणिउ पणासहि किं मएण । १०
लइ तुज्ज कुद्ध सुरधणुहिँ पाय ।
पई पेसमि तो वि कयतवामु ।
गलगज्जिणएण किं निप्फलेण ।
खणभगुरु निग्गुणु वकभाउ ।
लइ मेल्लि मेल्लि सहसत्ति सत्ति । १५

घत्ता—ता सा तोसेप्पिणु तेण तहो मुक्क उरत्थलि सत्ति किह ।

सव्वह वि धरतधरतह पडिय महीहरि विज्जु जिह ॥१४॥

१५

वस्तु—एहए पडिभडे इदधणुवलेण

किउ कलयलु तूरसरु सुणिवि अरिहिँ पडियाइँ चित्तइँ ।

मुक्कइँ हरिकेउसिरि सुरहिँ सुरहिकुसुमइँ विचित्तइँ ॥

अवरु वि जो जसु अविभडिउ सो सो तेण रणम्मि ।

आयामेप्पिणु निययजसु वित्थारिउ भुवणम्मि ॥

५

ता एत्थतरि

पालियकुलवलु

आवट्टतउ

वाणासणकरु

अइअमरिसवसु

दुज्जयविककमु

एक्कु अणतहिँ

रुद्धु खगिदहिँ

जयसिरिमाणणु

दूसहपहरहिँ

सीसु घुणाविय

समरमहाभरि ।

पेच्छिवि नियवलु ।

पलयहो जतउ ।

सुइँ गंगाधरु ।

घाइउ सरहसु ।

न भुक्खिउ जमु ।

रइयक्खत्तहिँ ।

करिवरविदहिँ ।

न पंचाणणु ।

ते सरनहरहिँ ।

भड कडुयाविय ।

१०

१५

निम्मय पवल वि	भजिय सवल वि ।
गरुडु सभोइ व	पवणु पओइ व ।
चीरु वियारिवि	दूरोसारिवि ।
चोइयपत्तउ	तहिँ सपत्तउ ।
जत्थ ससंदणु	पहु वासवधणु ।

२०

घत्ता—पच्चारिउ रे अविद्याण तुहुँ अज्ज जमे निज्जाइयउ ।

पहदो' हा दुज्जण दुव्विणय कहिँ महु जाइ अघाइयउ ॥१५॥

१६

वस्तु—रे अलज्जि रे मुक्कमज्जाय

मत्त अम्हए मुएवि मदभाय भूयरहो दिन्नउ ।

अविद्याणियकुलगणहो नारिरयणु ज पई रवन्नउ ॥

तहो फलु अन्नायधिवहो दावमि अज्जु अणिट्ठु ।

खुडमि रसतहो सीसु तुह सभरु देउ भणिट्ठु ॥

५

इय आयण्णेप्पिणु वित्तु सत्तु

परधणपररमणीहरणचित्त

विज्जाहराहँ भुयवलविसाल

किं आसि सुहद् महीसरेण

सिहिजडिणा कि न सयपहक्ख

भणु किं किउ मई अन्नाउ एत्थु

परनिदणअप्पपससणाई

जोइयई सयवरि काई जाई

च्चिर पुरिसपयासिउ एहु मग्गु

निक्कारणि जो मारेइ रुट्ठु

सइ अहवा नरहो विणासकालि

वाणासणेण विहसेवि वुत्तु ।

वडु तरेण भुत्लो सि मित्त ।

भूगोयर सामिय मयलकाल ।

परिणिय न भद् भरहेसरेण ।

सुय दिन्न तिविट्ठहो सिरिसमक्ख । १०

ज जंपहि पुणु पुणु अप्पसत्थु ।

मणुयहँ सकित्तिविद्धसणाई ।

जा जासु विहिय सा तासु जाइ ।

अविसिट्ठहो पर भावइ अजोग्गु ।

सो सामि भणिज्जइ केम दुट्ठु । १५

नासइ मइ रविदित्ति व वियालि ।

घत्ता—इय वयणहिँ मम्मतिमहिँ तहो पच्चुद्दीविउ वइरि किह ।

पज्जलिउ सहोयरु मारुयहो निक्खित्तेहिँ तिणेहिँ जिह ॥१६॥

१७

वस्तु—वयणविवरहो मज्जे रे धिट्ठु

दप्पिट्ठु खल खुद् तुह अत्थि जीह एहउ चवतहो ।

सयखडई किं न गय पावयम्म गुरुसिक्खवतहो ॥

कि उच्छेल्लिवि महि सयल सहसा तोयवमाले ।

सगहु सचदाडच्चनहु कि घल्लहुँ पायाले ॥

५

त मुणिवि तेण

खयराहिवेण ।

निहयावयाउ

भणियाउ ताउ ।

अन्नेण कज्जु

महु नत्थि अज्जु ।

एत्तिउ करेहु

खलु खयहो नेहु ।

विज्जाहिँ वुत्तु

सामन्नु सत्तु ।

१०

न हु होइ एहु

जयलच्छिगेहु ।

पच्चक्खु कामु

हरिसेणनामु ।

नायानुवट्ठि

पहु चक्कवट्ठि ।

दिवासिद चद

वासव फण्णिद ।

सगामि जासु

निम्मलजसासु ।

१५

सकंति सव्व

अवर वि सगव्व ।

काह केम तासु

किज्जइ विणासु ।

पुहईपियामु

गतूण पामु ।

मेल्लेवि रोसु

दारुण कोसु ।

पणवेवि देव

आयरसु सेव ।

२०

इयरह न तुम्हि

होसहुँ न अम्हि ।

घत्ता—णिसुणेवि एउ अहिमाणघणु भणइ खगिदु वराइयहि ।

जा जाहि काइँ तुम्हेहिँ किर किज्जइ परेण पराइयहि ॥२०॥

२१

वस्तु—छुडु सहेज्जा चड भुयदड

तए तइण्ण' महुँ कि पवेण अवरेण किज्जइ ।

लइ आयहु लुणमि सिरु जइवि चदरुद्दिहिँ धरिज्जइ ॥

इय भणिवि तेण करयलि करिवि वसुनदउ सखग्गु तुरिउ ।

घाविउ हक्केप्पिणु आहयणि विज्जाहरु रोसहिँ भरिउ ॥

५

हरिसेणु वि जाणियखत्तवित्ति

रहु मुण्णवि सामि तहो भिडिउ ज्जत्ति ।

तिहुयणपसिद्ध वीरारिवीर

पहरति वे वि पुलइयसरीर ।

खणि ओसरति खणि पइसरति

खणि खणि अवरोप्परु चप्परति ।

भमियइँ नित्तिसइँ धगधगति

अन्नोत्तु जि लग्गिवि खणखणति ।

मणिमयवसुनदय विप्फुरति

२१. १ तह तइयउ ।

उड्डतहँ कपइ भइण भाणु
पयभारे महि पायालु जाइ
ता वप्पाएविहे नदणेण
ओसरिवि सरिवि नहि उल्ललेवि
पडिवक्खनिसागमनेसरासु

निवडतहँ फणिवइ मुयइ ठाणु । १०
हक्कतहँ फुट्टइ भुवणु नाइँ ।
कयवहुभडथडकडमदणेण ।
असिणासिवत्तु सहसा खलेवि ।
तहो विज्जाहरचक्केसरासु ।

घत्ता—रणसरवरि असिवरचचुयप्र नृवहसे सरलच्छिदलु ।

१५

दसणावलिकेसरु सिरिनिलउ तोडिवि पाडिउ सिरकमलु ॥२१॥

२२

वस्तु—निहप्र दुद्धरे अमरवरधीरे

गगाधरे सुरवरहिँ चक्कवट्टि सथुउ नहगणे ।
आरुट्टकयतनिहु हणप्र एहु को किर रणगणे ॥
घन्नउ तिहुयणेक्कविजड तुहुँ पर एककु निसीह ।
अरिपव्वयपवि भुवणयले को पावड तुह लीह ॥

५

हप्र गगाधरि सुरधणु पहिट्ठु
जाणेविणु खलगलकालवासु
विज्जाहर सयल गयावलेव
वेन्नि वि खगसेठिउ वसि करेवि
सोहणनिहाणरयणइँ लहेवि
हेलाप्र सयल साहिवि धरित्ति
परियरियउ पउरवलेण ज्जत्ति
परिपुण्णमणोरहु पुण्णवत्तु
आलोइय मायरि सायरेण
नियनदणरिद्धि निएवि माय

परमुच्छवेण नियउरि पइट्ठु ।
चक्कवइ समुज्जलजसपयासु ।
हुय किंकर देव वि विहियसेव ।
पडिवक्खमडप्फरु अवहरेवि ।
ससुरहो खयराण पहुत्तु' देवि । १०
परिणिवि मयणावलि तवसिपुत्ति ।
परमेसरु दूरोच्छलियकित्ति ।
सत्तमदिणम्मि नियनयरु पत्तु ।
न नवमियकतणु सायरेण ।
सहुँ राएँ विभियचित्त जाय । १५

घत्ता—ता लच्छीमइहे मणोरहउ चूरवि रहु उवसामियउ ।

जिणसदणु नियमायहे तणउ परमविहूडप्र भामियउ ॥२२॥

२३

वस्तु—को वि पसवणवियणवियलाहे

उप्पज्जइ जसधवलु जणियाहे जयसिरिविहूसणु ।
हरिसेणसमाणु सुउ सुयणसरणु पिसुणयणदूसणु ॥

गुणरयणोहनिहाणु सुइ सुंदरमइ सुपसत्थु ।
तो चितादुहसायरहो उत्तारणहं समत्थु ॥

५

गिज्जतहिं घवलहिं मगलेहिं
दीणहं दाणहिं दिज्जतएहिं
सुरगायणेहिं गायतएहिं
बहुहावभावविबभमयरीहिं
रजियजणेहिं कोड्ढावणेहिं
जय जय पभणतहिं मुरवरेहिं
सोहणदिणि लग्गि मुहुत्ति जोण
अहिंसिचिवि पहयाहियमरट्टु
तहिं रज्जु करते सुंदराइं
मयणावलिवरणनिरतराइं
भुजेप्पिणु चिरु चक्कवडभोय
कालेण पत्तु सव्वत्थसिद्धि
हरिसेणु व मइसपयसमेउ

सजोइज्जतहिं मगलेहिं ।
वभणवदिणहिं पढतएहिं ।
वज्जतहिं वरवाइत्तएहिं ।
नच्चतहिं वरविज्जाहरीहिं ।
कीलतहिं खुज्जयवावणेहिं ।
ताएँ समेउ बहुनरवरेहिं ।
ससिवले आणदियवधुलोण ।
हरिसे हरिसेणहो वद्धु पट्टु ।
भरहम्मि त्रिणेसरमदिराइं ।
कारावियाइं दुरियंतराइं ।
तउ करिवि निरुभेप्पिणु तिजोय ।
पावेसड भाविभवम्मि सिद्धि ।
आसयह मुणिवि गुणदोसभेउ ।

१०

१५

घत्ता—अवरो वि विरुद्धासउ मुइवि जो सुयणसेउ पहयरउ ।

आसियइं सो हु सिरिचदजसु पावइ सोक्खपरपरउ ॥

२०

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले, ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ।
भुवणाविदिदनामे मव्वदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते एतपयदसजुत्ते ।

हरिसेणचक्किचरिय नाम इमां अट्टमो संघी ॥

॥ सधि ८ ॥

संधि ६

१

अप्पो वि परस्स गुणो सप्पुरिस पप्प बहुदरो होदि ।

उदए व तेल्लविंदू कह सो जपिहिदि परदोस ॥ [भ० आ० ३७८]

अप्पो वि स्तोको ऽ पि परस्यान्यस्य गुणा सप्पुरिसं उत्तमपुरुष पप्प प्राप्यातीव बहुर्भवति पानीये पतितस्तैलविन्दुरिव । इत्यभूतो य स कथ परदोषान्वदिष्यति । अपि तु नैव जल्पिष्यति । एत्थक्खाणा । त जहा—

५

गाणभाणु पणवेवि मोहतमोहपणासणु ।

करमि किं पि कमणीउ सयणसहावुब्भासणु ॥

अत्थि एत्थु भरहम्मि रउद्दहो
नेमिनाहअवयारि घणेसे
त किं सव्वसारु वणिज्जइ
रुप्पिणिदेवीकतु कुमारहो
सो तहिं करइ रज्जु सुहु सुंदरु
एत्तहे सगगलोप्र सुरसारे
उत्तिमपुरिसपसस महतरि
आयप्पिणप्पिणु केण वि देवे
परमपहाववत परमेसर
कहइ पुरदरु तहो पुच्छतहो

नयरु मज्जे वारमइ समुद्दहो ।

ज निम्मविउ सुरिदादेसे ।

कि उपमाणउ तासु भणिज्जइ । १०

जो जणेरु पज्जुन्नकुमारहो ।

वासुएउ पहु नाई पुरदरु ।

दरिसियधम्माहम्मवियारे ।

किय चउदेवनिकायनिरत्तरि ।

पुच्छिउ कोसिउ कियपयसेवे । १५

कहि केरिस हवति उत्तम नर ।

देवहो देहपहाप्र फुरतहो ।

घत्ता—दोसु कया वि परस्स लेइ न परु वि निवारइ ।

जो गुणु भुवणि^१ मणा वि वहु करेवि वित्थारइ ॥१॥

२

पियहियवाणि माणमच्छरचुउ
भणइ देउ देविद^१ निरुत्तउ
सो नउ दीसप्र को वि जयत्तप्र
जवूदीवप्र भारहखेत्तप्र
वासुएउ हरिवसहो मडणु
सो सप्पुरिसु पससहो जोगगउ

माणसु सो सप्पुरिसु जयत्थुउ ।

जो परदोसग्गहणविरत्तउ ।

भासइ सयमुहु अत्थि विवित्तप्र ।

वारमईपुरे राउ पवित्तप्र ।

दुद्धरवइरिरायसिरखडणु ।

जसु मणु परपरिवायहो निग्गउ ।

५

१. १. भुवणु ।

२. १. देविंदु ।

मुणिवि एउ विभियमणु जायउ
तम्मि कालि उज्जतगिरिदहो
भत्तिहरिसवमु सप्परिवारउ
हत्थिपमाणु अईव भयकर
दुप्पेक्खउ दुग्गधु दुवण्णउ

ता त नियहुँ देउ तत्थायउ ।
वदणहत्तिप्र नेमिजिणिदहो ।
एतु नियच्छिवि जायवसारउ ।
साडिउ पकिमिकुलेहिँ निरतर । १०
पयडियदत्तपति गयसन्नउ ।

घत्ता—सो सुर सुणहसरीर वेउव्वेपिणु वट्टहे ।

पडिवि परिक्खाहेउ किउ अणवरउ पयट्टहे ॥२॥

३

निएप्पिणु पडिउ' सुभीयरु साणु
समुद्धु व खोहविवज्जिउ वीरु
महामड दोसविवायविरत्तु
इहतारि वभणवेसु करेवि
जयावणिनाह भरेण सरेवि
निएप्पिणु मडलु दूसियमग्गु
हयामु कहतहो आइउ एहु
अदसणु दीसइ सुदर नेव
पयपड विण्हु म वोत्तहि एव
मुहम्मि मणुज्ज नियच्छहि ताव
सरीरु वि अन्नहो एत्तिउ कासु
सुणेप्पिणु एउ पसन्नगिरेण
सुराण वरेण परूढविवेय
भणेवि इण हरि पुज्जिवि देउ

समग्गु वि लोउ भएण पलाणु ।
सुमेरु व कपविमुक्कसरीरु ।
परेक्कु थिरो थिउ कसकयत्तु ।
निलिपु मुरारिसमीवु सरेवि ।
पिहेप्पिणु नासिय सीसु धुणेवि । ५
अणेयवियप्पहिँ निदहुँ लग्गु ।
अलक्खणु पाविउ पूड्यदेहु ।
पयट्टहुँ आवहि पत्थिवदेव ।
असुँदर एहुँ पवुच्चड केव ।
दियावलि अस्स फुरंतपहाव । १०
कह इमु निग्गुणु दोसनिवासु ।
पससिउ रुप्पिणिकंतु सुरेण ।
जहा भणिओ सि तहा तुहुँ चेय ।
गओ सनिहेलणु खे मणवेउ ।

घत्ता—महमहणु व सप्पुरिसु परदोसग्गहखचणु ।

अवरु वि हु गुणगाहि लहड तिलोयजणच्चणु ॥३॥

१५

४

चोल्लय पासय घन्ने जूद रयण सिविण चक्क च ।

कुम्म जुग परमाणू दस दिट्ठता मणुयलभे ॥

महाकल्याणोपेत पूर्वं चक्रवर्तिगृहे भुक्त्वा समस्तान्त.पुर-सामन्तचक्रग्रामपुरनगरखेटकवंटपत्तनादिपु
गृहे गृहे दानसम्मानप्रतिपत्तिपूर्वक यद् भुज्यते तच्चोल्लयमिति भण्यते । एत्थ चुल्लयक्खाण—

पुरि साकेड सयलपुहईसर
 भुवणि पसिद्रउ पोरिसधामे
 वसुमित्ताप्र पुत्तु वसुमित्तउ
 अग्रहियगुरुयणसिक्खालावउ
 अमुणियरायउत्तविन्नाणउ
 गउ कालेण जणेरु जमालउ
 मुक्खु भणिप्पिणु भुवणाणदे
 तहो परिच्छिन्नउ अन्नहो दिन्नउ
 धाडिय वसुमइ सहूँ वसुमित्ते
 तहिँ सुउ ताप्र दुआलियखवियउ
 हुउ खमु दूरज्जाणहो जागेवि
 गपि पुत्त पहुपाय निहालहि

होतउ वभदत्तु चक्केसरु । ५
 तहो विट्ठमु सहसभडु नामे ।
 जायउ तहो घरिणीप्र दुचित्तउ ।
 दुव्वसणायरु कीलणभावउ ।
 थक्कउ सो होएवि अयाणउ ।
 हुउ समाउ मुउ सोएँ कालउ । १०
 तायहो जीवणु तासु नरिदे ।
 अह रायहँ कहिँ किर पडिवन्नउ ।
 थिय जुण्णालप्र दृक्खियचित्ते ।
 धावहुँ वरतुरउ व सिक्खवियउ ।
 वसुमित्ताइँ वुत्तु सम्माणिवि । १५
 ओलगहि पियपउ उज्जालहि ।

घत्ता—पुव्वावरु निसुणेवि पुलिणसमाणनियवहे ।

गउ वसुमित्तु कुमारु पय पणवेवि नियवहे ॥४॥

५

तहिँ कप्पडिओ लग्गिय सामिहे
 एक्कहिँ दियहिँ सकुलनहनेसरु
 आयामिउ समेण धावतउ
 सहूँ पहुणा भमतपचाणणु
 तहिँ सरवरपालिहिँ उत्तरियउ
 पाडिउ सिहि पाहाण तवेप्पिणु
 तेँ छुहेवि तावेप्पिणु त जलु
 वसुमित्तेण वसुधरिधारउ
 नवकमलेहिँ देहु पुज्जाविउ
 समु अवणेप्पिणु सम्मुहूँ नयरहो
 आगच्छतेँ सतेँ सतेँ
 पुरियइसारि तेण तहो दिण्णउ

ओलगहुँ लग्गउ गयगामिहे ।
 निउ दुट्ठासे हरिवि नरेसरु ।
 परियणु निरवसेमु परियत्तउ ।
 सो पर एक्कु पइट्टउ काणणु ।
 गउ हरि पहु पुण्णेणुव्वरियउ । ५
 गड्डु विउलु पाणियहो भरेप्पिणु ।
 पहसमदेहु सेयसचयमलु ।
 ण्हावेप्पिणु चक्कवइ भडारउ ।
 निम्मलु नियसवलु भुँजाविउ ।
 निउ दुत्थियविडन्नधणपयरहो । १०
 भिच्चि क्किउ उवयारु सरते ।
 नियकरककणु एक्कु रवण्णउ ।

घत्ता—इउ आवणि विक्किणिवि जीवहि जाहि लएप्पिणु ।

मिलियसेत्तु नरनाहु गउ घरु एव भणेप्पिणु ॥५॥

६

सीहासणि अत्थाणि निविट्ठे
 वसिकयनिरवसेसभूवाले

हक्काराविवि पालियसिट्ठे ।
 आरक्खिउ पउत्तु पयपालेँ ।

पुरि पइसतहो मणिवेयडियउ
 त जाएप्पिणु चोरु वियाणहि
 गउ आरक्खिउ रायाड्डुउ
 तेण धरेवि झत्ति वधाविउ
 एहु सामि सो तक्करु पाविउ
 भासिउ हउं तुह तुट्ठु निरुत्तउ
 सो पभणइ महु माय महीवइ
 वुत्तु नरिदे लेवि इहावहि
 ता गतूण थेरि तेणाणिय
 भणिउ माए उवयारु वरिड्डुउ
 मग्गि मग्गि जो वरु पडिहासइ

महु करककणु कत्थइँ वडियउ ।
 निच्छएण न तो तुहुँ जाणहि ।
 त विक्कतु हट्टि सो दिट्टुउ । ५
 नेवि समोसु नरिदहो दाविउ ।
 ता चक्केसरेण मेल्लाविउ ।
 मग्गि मित्त ज चित्तायत्तउ ।
 ज मग्गइ त देवि हयावइ ।
 सज्जण नियजणेरि महु दावहि । १०
 सइँ पुहईसरेण सम्माणिय ।
 किउ तुह पुत्ते तं हउं तुट्टुउ ।
 भासइ नियवयणेण महासइ ।

घत्ता—जइ अम्हहँ सपसाउ तो पहु एत्तिउ किज्जउ ।

नियघरु आइ करेवि चोल्लय-भोयणु दिज्जउ ॥६॥

१५

७

ता सुविहूइए जणमणहरणहिँ
 निययरसोइए भुजावेप्पिणु
 सम्माणेप्पिणु भुवणाणदे
 महएवीघरु आइ करेप्पिणु
 गेह गेह पइँ भुजेप्पिणु
 महिलाण छन्नवइ वरिड्डुइँ
 सहसइँ पट्टणाहँ अडयालइँ

ण्हाविवि पुज्जिवि वत्थाहरणहिँ ।
 पउरयर च सुवण्ण देप्पिणु ।
 भणियइँ विन्नि वि ताइँ नरिदे ।
 सव्वदेसगामेसु भमेप्पिणु ।
 पुणु जेमेज्जह महु घरि एप्पिणु । ५
 [देसहँ सहस दुतीसइँ सिट्टुइँ]
 खेडहँ सोलह ताइँ विसालइँ ।

घत्ता—पुरवराहँ चउवीस कचणपीणियनीसहो ।

सहसइँ चउवाणवइँ होति असेस महीसहो ॥७॥

८

नव पवरायर रयणपसाहण
 धणकणपउरहँ सहलारामहँ
 विरइयनाणाभक्खपयारहँ
 चउरासी लक्खइँ गुणसहियहँ
 चउरासी कोडिउ सुपसत्थहँ
 अट्टारह कोडिउ राउत्तहँ
 आयरेण घरि घरि भुजतहँ
 ७ १ नवरिद्धइ ।

सोलह सहस भणिय सवाहण ।
 कोडिउ छन्नवइउ वरगामहँ ।
 सहसइँ तिण्णि [निउण-] सूयारहँ ।
 मत्तकरिदहँ रहवररहियहँ ।
 पाडक्कहँ सगामसमत्थहँ । ५
 अवरहँ पडिसेवयहँ अणतहँ !
 वसुवसणाहरणाइँ लहतहँ ।

ताण महाकल्लाणु मुणंतहँ
को जाणइ कयाइ पुणु आवइ
ससारम्मि अणत्ति भमतउ

चक्कवट्टिपरि [-वारु] गणतह ।
तिह माणवु मणुयत्तणु पावइ ।
दूसह दुक्खसयाइँ सहतउ ।

१०

घत्ता—एउ वियाणिवि पत्तु मणुयत्तणु मा नासह ।

विसयासत्ति मुएवि अरुहधम्मु अब्भासह ॥८॥

॥ चुल्लयक्खाण गद ॥१॥

९

पुरवरु सव्वपयारहिँ सारउ
निवइ नयालउ अरिसयदारउ
तेण तम्मि पट्टणि सउ दारहँ
थभह [दारि दारि] गुरुभरधर
थंभि थभि असियउ विसालउ
एक्केक्कहे असियहे जिणारहँ
रमइ सया वि समप्पियगहणउ
सव्वदारथभसियजूयहँ
गपि दिएणेक्केणोलग्गिय
जइ तुम्हहँ सव्वहँ समु दाइउ
तो सप्पुरिसहो त महु कसम
त पडिवन्नु तेहिँ ता पडियउ
दिन्नउ धणु परिओसिउ वंभणु
दिव्वझुणीए सुईउ पढतउ

मगहादेसि अत्थि सयदारउ ।
जयपसिद्धु नामे सयदारउ ।
कारिउ मणिमयतोरणधारहँ ।
एयारह एयारह सय वर ।
नवइ नवइ छह छह सोहालउ ।
एक्केक्कउ पेडउ जूवारहँ ।
वेसयणु व परवचणपवणउ ।
पासि सिरी सु होइ' जमदूयहँ ।
ते जूयार पढेप्पिणु मग्गिय ।
आवइ एक्कु वाउ सुहदाइउ ।
देज्जह सव्व वि सव्वसुहकरु ।
सव्वहँ एक्कु दाउ विहिघडियउ ।
बोत्तिउ जासु न कि सो सज्जणु ।
अच्छिउ पुणु परिवाडि नियतउ ।

५

१०

घत्ता—एक्क वार जइ कह व पुणु समु दाइउ आवइ ।

१५

तिह मणुयच्चु पुणो वि जीवु किलेसइँ पावइ ॥९॥

॥ एव पासयक्खाणं गद ॥२॥

१०

जवूदीवु पल्लु विविहन्नहिँ
देवेणेक्के हायणि हायणि
जणमणविभयहेउ महल्लउ
न उ पुणु माणुसजम्महो निग्गउ
ताउ समाणिवि परिवाडिए पुणु

भरिउ निरतरु नाणाधन्नहिँ ।
अवणिज्जते एक्केक्कए कणि ।
सो हु कयाइ समप्पइ पल्लउ ।
जीउ अणेयलक्खजोणीगउ ।
परिपावइ मणुयत्तु मुहावणु ।

५

६ १ होह ।

अहवा एव घन्नक्खाण
अत्थि अउज्जानयरि नयालउ
तामूवरि रायगिहपुरेमर
नुविहाणहो निमित्तु भयभीयण
सव्वहिं नियनियाइं निवकेरणं
जियसत्तु वि पुरु लेहुं न सक्किउ
गउ पल्लट्टिवि निययनिवासहो
मग्गिउ अन्न जणेहिं पउत्तउ
एक्कहिं मिलिउ केम ओलक्खहिं

कहियव्व सोयारजणाण ।
पुहईवड पमिद्धु पयपालउ ।
गउ रुसेवि जियारि नरेसर ।
नेप्पिणु सयलपयाण विणीयण ।
घन्नइं निहियइं कोट्टागारण । १०
तहो निट्टाहु निएप्पिणु सकिउ ।
हूई सति रायपुरदेसहो ।
निवेण वियाणिवि लेहु निरुत्तउ ।
त परिछेइउ होवि विलक्खहिं ।

वत्ता—विविहजोणिसस्सेमु मिलिउ न जीउ वियक्कइ ।

१५

तिह निव्वाहिवि लेहुं नरभवसस्सु न सक्कइ ॥१०॥

॥ एव घन्नक्खाण गदं ॥३॥

११

पुरि सयदारि दारि एक्कक्कय
खलयहं खलण खलण जूयारहं
तहिं जूयारिउ नामे वडयउ
सो सयल वि ते नियधणु देप्पिणु
एक्कहिं वासरि सव्वु जिणेप्पिणु
गय जूयार असेस विनासिवि
ते जूयार कवड्डा कत्तउ
एक्कहिं मेलहुं जीउ समत्थउ
अहवा एउ एम पयडिज्जइ

पच पच सय सोहगुरुक्कय ।
पच पच सय परवेयारहं ।
अत्थि पउरघणकणसचइयउ ।
जूउ रमावइ लाहु मणेप्पिणु ।
वसु कत्ताउ कवड्डा लेप्पिणु । ५
थिउ वडयउ अप्पाणउ दूसिवि ।
वाउ कया वि हु होइ निरुत्तउ ।
न य पुणु माणुसजम्मु पसत्थउ ।
जणहो कहाणउ भति हणिज्जइ ।

वत्ता—निल्लक्खणु नामेण चिरकयकम्मे जूरिउ ।

१०

तम्मि चैय नयरम्मि अत्थि एक्कु जूयारिउ ॥११॥

१२

सो अणुवघे रमइ सयाइ वि
एक्कहिं वासरि कहमवि जित्तउ
दुत्थियदीणहं निक्कप्पडियहं
हरिमियचित्तं तेण विचित्तउ
ताण चैव वेलाण विणिग्गय

पर सुइणे वि न जिणइ कयाइ वि ।
सव्वहं सव्व कवड्डाकत्तउ ।
नाणादेसागयकप्पडियहं ।
दिन्न वराडय तेत्तउ कत्तउ ।
सयल वि ते निय-निय-निलयहो गय । ५

१० १ नव्वह । २ नियकेरण ।

तेसु गएसु तेहिँ घग्घाविवि
 कत्तउ ताउ वियक्खण वड्डुय
 भणइ अलक्खणु ते मइँ देमिय
 कहिँ लब्भनि काइँ किर किज्जइ
 किं बहुवित्तरेण जिह जाणहि

नित्तक्खणु पउत्तु मन्नाविवि ।
 लेवि मोल्लु ते देहि कवड्डुय ।
 दीणहुँ दिन्ना ते वि हु पवसिय ।
 [सुणिवि जुआरहिँ पुणु वि भणिज्जइ ।]
 तिह निच्छउ जोएप्पिणु आणहि । १०

घत्ता—कह वि हु विहिजोएण ते मेलवहुँ अलक्खणु ।

तरइ कयाइ न जीउ माणुमजम्मु सलक्खणु ॥१२॥

॥ जूदक्खाण गद ॥४॥

१३

भरहो सयरो पहु महवतो
 नती कुयू अरु अरनामो
 हरिसेणो वक्को नयसेणो
 एयाण एक्केक्को दिन्तो
 ते देवा मणिणो तक्काया
 कहमवि पुणु एक्कक्क कयाई
 अहवा एवं रयणक्खाण
 वणिओ नामे सायरदत्तो
 मिघलदीव गयउ समित्तो
 इतहो जलजाणेण रउहे
 पुणु तल्लाहु व दुल्लहु^१ लोए

तह य सणक्कुमारु नयवतो ।
 नवनिहिनाहु सुभूमो पउमो ।
 वभदत्तु अरिखेयरसेणो ।
 चूलमणी देवेहिँ रवन्तो ।
 जीवा ते^१ वारह भूराया ।
 सघडति नउ माणुसजाई ।
 वत्तव्व भुवणम्मि पहाण ।
 चित्तियअत्थोवायपयत्तो ।
 तत्थेक्क माणिकक पत्तो ।
 पडिद त हत्थाउ समुहे ।
 नरभवु बहुसजोयविओए ।

५

१०

घत्ता—सुविणए रज्जविलासु कव्वाडियहो जहा तह ।

एक्कसि माणुसजम्मु पुणरवि पाविज्जइ कह ॥१३॥

॥ रयणक्खाण गद ॥५॥

१४

ससिवेहु व दुल्लक्खु नरत्तणु
 अह त कोइ कयाइ वि विघड
 मायदीपुरि पउरसहायहो
 दोवइ कउरववसभवित्ति व
 जिणिवि सव्वसगामसमत्थेँ

को आसघड पावियकित्तणु ।
 न पुणु जीउ मणुयत्तणु सघइ ।
 धीय सयवरि दोवयरायहो ।
 विधिवि चदवेहु धरकित्ति व ।
 लइय रइ व्व मणोहरि पत्थे ।

५

॥ सिविणक्खाण गद ॥६॥

१३. १ से । २ बहुल्लहु ।

ग्रहव मुदसणु चक्कु मुभूमहो
जीवा तक्काइय तहो रक्खण
पुणु पुव्वावत्याए असेसहं
एयाण कयाइ मेनावउ

चक्किहं अतुलपरक्कमभूमहो ।
जक्खदेव पानियमेवाग्वण ।
कम्महं नोकम्माण पएसहं ।
होइ न माणुमभवहु मुहावउ ।

घत्ता—इय दुल्लहु मणुयत्तु पावेप्पिणु जो मूढउ ।

१०

न करइ धम्मु दुरते अच्छइ सो भवे छूढउ ॥१४॥

॥ चक्कक्खाण गद ॥७॥

१५

मुम्मइ मज्झिमलोए महत्तए
अत्थि सयभूरमणु पहाणउ
चम्मु वि तप्पमाणु तहिं कच्छउ
नामि नदु एक्कनयणुल्लउ
तत्थेच्छाए तेण अच्छते
अजिणहो छिद्दे रवि आलोइउ
आणिवि त अच्छरिउ ससयणहं
ता त नदुउ नेव नियच्छइ
जीउ वि पुणु वि वेइ गुणसासणु

सव्वदीवसायरपज्जंतए ।
भीयरु रयणायरु अपमाणउ ।
निवसइ मनिले अईव अतुच्छउ ।
वहुपियपुत्तमित्तसयणुल्लउ ।
कहमवि बहुकालेण समत्ते ।
किमिण नियमणु विभइं ढोइउ ।
दसइ जा विप्फारियनयणहं ।
अह कहमवि कयाइ सो पेच्छइ ।
नियइ नरत्तसूरु तमनासणु ।

५

॥ कुम्मक्खाण गदं ॥८॥

पुव्वसमुद्दे समिल अवरन्नवि
ताण कयाइ पुणो वि पयत्ते

जूउ निहित्तउ गुरुवेलारवि ।
सगमु जीवहो नउ मणुयत्ते ॥

१०

॥ जुगक्खाण गद ॥९॥

सव्वचक्कवट्टीण पहाणउ
कय परमाणुय तहो भेएप्पिणु
न मिलइ सव्वभवत्तरसारउ

दडरयणु चउहत्थपमाणउ ।
गय वि कयावि मिलत्ति पुणप्पिणु ।
माणुसजम्मु तिलोयपियारउ ।

॥ परमाणु-अक्खाण गद ॥१०॥

घत्ता—दसणु नाणु चरित्तु मुणिवि एउ अब्भासह ।

१५

अइदुल्लहु मणुयत्तु पावेप्पिणु म विणासह ॥१५॥

॥ इमे दस दिट्ठ ता मणुयलभस्स ॥

१६

जह वाली जपतो कज्जमकज्ज च उज्जुय भणदि ।

तह आलोचेदव्व माया मोस च मोत्तूण ॥ [भ० आ० ५५३]

जह यथा येन विधिना बालो अपत्य जपंतो जल्पन् सन् कज्जमकज्जं च कार्याकार्यं च हिताहितं च उज्जुयं प्रगुणं प्राञ्जलमित्यर्थं भणदि ब्रूते । तथा तेनैव विधिना आलोचेद्व्वं आलोचनीयम् गुरोः प्रकाशनीयं कृतावद्यम् । किं कृत्वा ? मोक्षणं मुक्त्वा । किं तत् ? मायावचनं मोक्षं व्यलीकं च । एत्यक्खाणं । जहा—

कोसवीपुरि पहु जयपालउ
दुट्टुपक्खवणदहणदवाणलु
वणिजणकुलकमलायरनेसरु
सायरदत्त कत तहो सुंदरि
पुत्तु समुददत्तु मणमोहणु
सव्वकालकयदुक्खियभावणु
गेहिणि सोमा सोमउ नामे
दोहँ वि वालहँ ताहँ समायउ
एक्कहिँ दिणि रमत रजियमण
विविहाणग्घविहूसणलोहे
भवणव्वभतरि अत्थु लएप्पिणु
एत्तहँ पियरइँ त अनियतइँ
जोइउ सव्वत्थ वि न नियच्छिउ

घत्ता—एत्यतरि रममाणु नयणाणदजणेरिउ ।

आयउ वावणपुत्तु घरु सुहितायहो केरउ ॥१६॥

१७

अलिगिवि वाहुल्लियनेत्तए
पियवयणहिँ लालेप्पिणु पुच्छिउ
कहिँ सुसोहमय' तुह पियसहयरु
कहिउ तेण आहरणइँ लेप्पिणु
गेहव्वभतरि मित्तु महारउ
ता जाणाविउ दुज्जसवत्तहो
तेण वि हक्कारिवि आरक्खिउ
त निसुणेवि दुट्टुजमदडे
जोयतेण दिट्ठु सोमालउ
ता रुट्ठेण तेण कयनायहो
राएण वि रूसिवि सो पाविउ
जिह पुच्छंतिहँ ताहँ पउत्तउ
१६ १ पावेण । १७ १ मो सोहे मय ।

जयमइ भज्ज मणोज्ज गुणालउ ।
कोट्टुवालु जमदडु महावलु ।
सायरदत्तु सेट्टि गब्भेसरु ।
न अवइण्ण का वि सुरसुंदरि । १०
जायउ उयरि ताहँ निरु सोहणु ।
अवरु वि अत्थि तत्थ वणि वावणु ।
नदणु तासु कम्मपरिणामे ।
मित्तत्तणु वडिडयअणुरायउ ।
गय वावण'गेहहो वेन्नि वि जण १५
तेण समुददत्तु दुम्मेहे ।
मारिवि गड्डिउ खड्डु खणेप्पिणु ।
सजायाइँ समाउलचित्तइँ ।
घरि घरि सव्वु को वि आउच्छिउ ।

२१

अके करेप्पिणु सायरदत्तए ।
वच्छं बहुय वार कहिँ अच्छिउ ।
पुत्तु समुददत्तु महु सुहयरु ।
निक्खउ महु ताएँ मारेप्पिणु ।
अच्छइ मायरि पुत्तु तुहारउ । ५
ताए र्वतिए सायरदत्तहो ।
सयलु वि वावणवइयरु अक्खिउ ।
[जाइवि वावणभवणु समडे ।]
मोडियगलु गयासु वणिवालउ ।
निउ वधिवि समीवु सो रायहो । १०
सकुडुँवु वि सहसा खडाविउ ।
वालि वइयरु जो जिह वुत्तउ ।

प्रत्ता—तिह सिरिचदजसस्स कि पि नेव गोवेवड ।

सघाहिवहो नवेवि नियदुच्चरिड कहेवड ॥१७॥

विविहरमविमाले जेयकोऊहलाले । नलियवयणमाले अत्यगदाहसाले ।

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । उह एलु कहुकोसे मुंदरे दिप्ततोमे ।

मुणिमिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।

नवमो नरत्तलभे दम दिट्टुताण सघोमो ॥

॥ मधि ९ ॥

संधि १०

१

अच्छीणि सघसिरिणो मिच्छत्तनिकाचिदेण पडिदाइ ।
कालगदो वि य सतो जादो सो दीहससारी ॥ [भ. आ ७३६]

अच्छीणि चक्षुपी लोचन इत्यर्थ । पडिदाइ भूमौ पतिते । कस्य ? सघसिरिणो सघश्री-
नाम्नो मन्त्रिण । केन ? मिच्छत्तनिकाचिदेन मिथ्यात्वदृढबन्धकारणेन । कालगदो संतो मृत्युगत
सन् जादो यातो दीर्घससारी महाससारी । ५

तिविहेण नवेवि भुवणत्तयगुरुकमकमलु ।
आहासमि कि पि आयण्णह मिच्छत्तफलु ॥धुवय॥
अधविसप्र सिरिपव्वयहे पच्छिमे पुरु वल्लूरु ।
अत्थि पसिद्धउ भुवणयले दुत्थियदुहनित्लूरु ॥दोहउ॥

जसहरु नामेण तत्थ निवइ	महएवि वसुधरि हसगइ ।	१०
उप्पन्न पुत्त तहो त्तिन्नि वर	धम्मत्थकाम न कामसर ।	
एक्कहिँ दिणे निप्रवि विलीणु धणु	सजाउ राउ वइरायमणु ।	
गउ एहु मणोहरु मेहु जिह	जाएसइ अवरु वि सव्वु तिह ।	
ससारहो एहावत्थ जहि	कि कीरइ इह रइवुद्धि तहि ।	
कि बहुणा सासय जेण गइ	पाविज्जइ किज्जइ तम्मि मइ ।	१५
इय चित्तिवि रजियजणमणउ	वाहरिवि अणतवीरु तणउ ।	
फहुणा पुउत्तु पिसुणतयरा	पडिगाहहि नदण रज्जधुरा ।	
हिउ साहमि जामि परत्तहिउ	विब्भाडमि कम्मकलकहिउ ।	
आहासइ पुत्तु पवित्तमइ	जा ताय तुज्जु सा महु वि गइ ।	
खलरज्जे कि पि न कज्जु महु	पई विणु जणेर केवलउ दुहु ।	२०
सिरिधरेण वि विउसदुगुच्छियउ	दिज्जतु वि त न समिच्छियउ ।	

घत्ता—पियचदहो देवि रज्जु सपुत्तु नराहिवइ ।
केवलिहे समीवे वरदत्तहो सजाउ जइ ॥१॥

२

जसहरु दुद्धरु चरेवि तउ उप्पाएविणु नाणु ।
कम्मकलकविवज्जियउ गउ काले निव्वाणु ॥

तहो तणउ अणतवीरु सवणु
 दरिसतु जणोहहु धम्मदिसि
 आवेप्पिणु सिरिगिरिसिहरि थिउ
 उज्जाणि वसति वसतभरं
 अइमुत्तयमडवम्मि रसिउ
 विसवेयणाए पाणेहिं चुउ
 हा रज्जभमु सजाउ किह
 जसहरमहरायपहूड [वड]
 इय भणिवि गवेसहुं कज्जकर

सव्वन्थसिद्धि गउ मुद्धमणु ।
 विहरनु मत्तु सिरिहरु वि रिसि ।
 एत्तहं पियच्चट्टु विणोयहिउ । ५
 मणहारिमहुरमाहवियमरं ।
 नाडउ नियतु ग्रहिणा डसिउ ।
 चित्तापवन्नु कुलमति हुउ ।
 अन्नो न घुरघरु अत्थि इह ।
 वट्टति कत्थ परलोयरड । १०
 संपेसिय सव्वदिसानु नर ।

घत्ता—पावेप्पिणु सुद्धि आहिंडिवि महि किकरहिं ।
 आवेप्पिणु वत्त सपाइय सगयकरहिं ॥२॥

३

सामि जसोहरु मोक्खपउ तोडेप्पिणु भवपासु ।
 गउ अणतवीरो वि मुणि पचाणुत्तरवानु ॥

सिरिहरु भयवतु करतु तउ
 निसुणेवि एउ आणदियउ
 वइयरु पउत्तु जो जेम भउ
 अन्नो न तुम्ह वसम्मि नरु
 सजाउ वसवुच्छेउ पहु
 अणुदियहु सव्ववावारचुउ
 पालिज्जइ जइ राएण पया
 पुज्जिज्जहिं जइ निद्धूयरया
 वारिज्जइ पररामासु मणु
 भोगोवभोगपरिणामवउ
 बहु एवमाइवयणेहिं मणु

अच्छइ सिरिपव्वइ पहयरउ ।
 गउ तत्थ मति मुणि वदियउ ।
 पियच्चट्टु कयतहो पासु गउ । ५
 जो जोग्गु पडिच्छइ रज्जभरु ।
 जणणीवहिणीउ लोयनिवहु ।
 अच्छइ विलवतु अणाहु हुउ ।
 गुणवतभत्ति सव्वण्हुपया ।
 मग्गतहं दिज्जइ अत्थु सया । १०
 वहवधणमोसवयणमुयणु ।
 जइ किज्जइ तो गेहे वि तउ ।
 सचालिउ आणिउ मुणि भवणु ।

घत्ता—अह कन्नविसेण जणु आघत्तु न किं करड ।

सुर पिवड कवालि दुलहु सिरित्तणु परिहरड ॥३॥

१५

४

उच्छवेण अहिसेउ तहो करिवि निवद्धउ पट्टु ।

दुज्जणु चित्ति चमक्कियउ हरिसे सुयणु विसट्टु ॥

ज मुडिग्र पट्टनिवधु सिरै
 मुडव्वनरेसरु तेण तहो
 किउ सिरिहरेण तउ तम्मि नग्र
 तहो जाउ नाउ दुक्कियहरणु
 सो वसु तदाड विमुक्करउ
 केवलु विहारितित्थकरहो
 उप्पण्णु वियक्खणेहिं थुण्डिउ
 तहिं वसि अणेय नरिद हुय
 उप्पण्णु पुणो सपयपउरे
 नामे घणसेणु नराहिवड

किउ विप्फुरतमणिमउडधरे ।
 सजायउ नाउ मज्झि जणहो ।
 सिरिपव्वउ तेण पसिद्धु जग्र । ५
 अज्ज वि जाएप्पिणु नियग्र जणु ।
 मुडियवसो त्ति पसिद्धि गउ ।
 नेमिहि वरदत्तहो गणहरहो ।
 मुडियवसो वि सो वि भण्डिउ ।
 मुइ धम्मसील कालेण चुय । १०
 अधाण देसि धन्नयडपुरे । ।
 साहियनियबलेण पराहिवइ ।

घत्ता—सुदरमइ सव्वसत्थपुराणायमकुसलु ।

सो सावउ परमु जिणमुणिपायकमलभसलु ॥४॥

५

अणुदिणु तेणत्थाणे जणु धम्मस्सवणु करेवि ।
 सयलु वि जिणधम्मम्मि दिट्ठु किउ मिच्छत्तु हरेवि ॥

विहिवसिण तत्थ केणावि किउ
 पाविट्ठु दुट्ठु सो बुद्धसिरि
 तहो परमोवासगु सघसिरि
 सुय सुदरि नामे बुद्धिमइ
 दूरज्झिवि बुद्धहो धम्मु हुय
 सघसिरि एककु पर दुट्ठमणु
 जामाउ धम्मसविन्नमइ
 पर तो वि मणा वि न मणु चलड
 नियधवलहरोवरि एकदिणे
 चारणमुणिगुण वण्णतु गुणि
 तामवहिनाणसयलत्थमुणि

गुणगणहो मज्जे दोसम्मि थिउ ।
 थिउ एवि भिक्खु दुम्मग्गिगि ।
 निवमति तासु पिय कमलसिरि । ५
 महएवि नरिदहो सा सुमइ ।
 दिठ साविय मालइमालभुय ।
 मन्नइ नउ केम वि देउ जिणु ।
 दक्खालइ तहो जिणधम्मगइ ।
 वलवतउ कम्मु न अन्न लइ । १०
 नरवड समति अवरणहखणे ।
 जामच्छइ घणगभीरइणि ।
 णहि एत नियच्छि वि सुद्धगुणि ।

घत्ता—ते आलोएवि सहसुद्धेवि नरेसरेण ।

अइमुहु पडसत गपिणु पणवेप्पिणु सिरैण ॥५॥

६

कर मउलेवि पउत्तु पहु एह करेवि पसाउ ।
 अणुकपाग्र सक्किकरहो दरिसह धम्मसहाउ ॥

त वयणु सुणेप्पिणु सपरहिय
रिसि पासाओवरि ओयरिय
अणवरउ पयासियधम्मकहु
निवमणु मुणेवि कयकुवहवह
जिह मति सव्वसदेहचुउ
गय रिसि नरिदु परिओसियउ
धन्नो सि तुम ह्यदुग्गइउ
तव धम्मग्गहणे महतु महु
किं वहुणा पइँ अत्थाणियए'
वित्ततु कहेवउ एउ सयलु
जिह लइउ धम्मु सोहणु जिणहो

आयासहो लोयत्तयमहिय ।
निवदिन्नि वईसणि वइसरिय ।
पणवेप्पिणु पुरउ निविट्ठु पहु । ५
तिह कहिय मुणिदे धम्मकह ।
सावउ जिणधम्मु लएवि हुउ ।
सहुँ देविण्ण मामु पससियउ ।
जिणधम्मु जेण दुल्लहु लइउ ।
सजायउ मइमयरहर मुहु । १०
कल्लण्ण नरनियरविराइयए ।
ज दिट्ठउ चारणजइजुयलु ।
जिह होइ चोज्जु सव्वहो जणहो ।

घत्ता—निसुणेप्पिण एउ परमहरिसु उद्धुसियतणु ।

आयन्नहि ताय^३ भणइ मति पहसियवयणु ॥६॥

१५

७

बुद्धपहइ कुधम्मु फुडु दूसिवि सयलु सहाण्ण ।

पयडिन्विउ पुहईस मइँ जिणवरधम्मु पहाण्ण ॥

चारणमुणिजुयलु निहालियउ
भासेसमि सयलु सहायणहो
सप्पहपरिपथिएण कुवहे
हउँ लाइउ जेण सोज्जि पुरहो
इय चित्तिवि बुद्धविहार जहि
रे दुठ्ठ^१ बुद्धसिरि भासियउ
जा जाहि न हणमि भणेवि गुरु
ससारमहासमुदतरणु
गयणगणगमणु अईव गुणी
सामीवि ताण परमेसरहो

मइँ पावपकु पक्खालियउ ।
भणिऊण इण गउ सभवणहो ।
मोहेवि कुजुत्तिहिँ दुन्निवहे । ५
नीसारमि वेसमि जमपुरहो ।
रोसेण मति सपत्तु तहिँ ।
पइँ मज्झु परत्तु विणासियउ ।
सपइ सिवसुहयर सव्वगुरु ।
महु जिणवरिदसासणु सरणु । १०
पच्चक्ख नियच्छिय अज्जु मुणी ।
मइँ लइयउ धम्मु जिणेसरहो ।

घत्ता—मणसा वि न अन्नधम्मु पउजियजीववहु ।

मन्नामि न देउ दोसवतु गुरु कयविकहु ॥७॥

६. १ अत्थाइयए । २ ताह ।

७ १ दुट्ठ ।

८

नीसरु जाहि न जत्थ पईं पेच्छमि खल नयणेहिँ ।

एउ सुणेप्पिणु वुद्धसिरिँ भासिउ पियवयणेहिँ ॥

मडवर थिरु थाहि वईसरहि
को किर पईं रुट्टयम्मि धरड
इय वयणहिँ किं पि पसणमणु
वुद्धेसे सासणु पोसियउ
सुम्मत्तु सत्तु रमणीयत्तरु
गिरितरुणयराड सव्वु खणिउ
हरिजालु एहु जाणइ निवड
जड चोज्जु तुज्झु तो हउँ वि वुह
इय भणिवि तेण आयासि रिसि

पच्छा ज रुच्चइ त करहि ।
पुहईसरु जासु वयणु करड ।
थिउ रायमत्ति उवसततणु । ५
तेणावि हसेप्पिणु भासियउ ।
परमत्थे किं पि न अत्थि परु ।
किं पईं न कयाइ एउ सुणिउ ।
दावइ मुणि तेणायासे गइ ।
दक्खालमि लग्ग मुणीण सह । १०
दाविय दरिसावियधम्मदिसि ।

घत्ता—अवरो वि हु तेण इदजालु तहो दरिसियउ ।

आलोप्रवि सघसिरि माणसि परिओसियउ ॥८॥

९

आलजालु पेच्छेवि डमु सदरिसियसिवसम्मु ।

सुणिवि वयणु पासडियहँ छडि म वुद्धहो धम्मु ॥

आयण्णहि सुदर कहमि कह
वाराणसि भुवणि पसिद्ध पुरी
तहिँ उग्गसेणु नामेण वरु
तहो सोमसम्मु अव्वभसियमुड
पोमावइ पिय पच्चक्खसिरि
सा सुदरि सयलकलासहिया
हुय पोढ कुमारि मयणमणहो
तहो सोमसम्मदियवरहो सया
किउ ताहँ हेउ महु तेण वरु
निरु सुदरु न तारुणभरु

जाणहि खलु धम्माहम्मु जह ।
एत्थत्थि सरिद्धि जियन्नपुरी ।
धरणीसरु घणसिरिदेविवरु । ५
जणे पयडु पुरोहिउ सुद्धसुइ ।
उप्पन्न पुत्ति तहो लोमसिरि ।
तायहो अईवमणवल्लहिया ।
किय मारि व दइवे जुवयणहो ।
भुजति भगव धरि पच्चसया । १०
तहिँ भगवु भमतु सुवण्णखुरु ।
नाणाविहसत्थपुराणधरु ।

घत्ता—विप्पच्चियपाउ वहुपरिवायहिँ परियरिउ ।

आवेप्पिणु सोमसम्ममढासए ओयरिउ ॥९॥

१०

निप्पाएप्पिणु पाउसडँ वडिडउ ताए पविन्नु ।

त पर भोयणु सो करउ हरिआराहणचित्तु ॥

परिवायपायपकयअलिणा
धुत्तहो जणमणसयपजरहो
पणवेप्पिणु रजियजणमणिया
होज्जसु पुत्तिए सिरि पाय परा
काले जते अणुरत्तमई
पच्छन्नहँ माणतहँ मुरउ
विप्पहो मुय अहिणवपेम्मभर
निमुणेप्पिणु सोयविसठुलउ
सोयाउलु निवडहे पासु गउ

यजमाणे तेण कयजलिणा ।
नावड दहिहडिय मंजग्गहो ।
तहो तणय समप्पिय अप्पणिया । ५
अणुदिणु सा भत्ति करेइ वरा ।
अवरोप्परु दोहँ वि ह्य रई ।
गउ वासारत्तु पत्तु सरउ ।
गउ रयणिहिँ लेवि मुवण्णखरु ।
सजायउ विप्पु मुट्टुवलउ । १०
त निएवि निवहो कारुण्णु भउ ।

घत्ता—पेक्खेवि अवत्थ तारिस तासु सोमु धुणिउ ।

रुट्टेण निवेण वाहरिवि तलवरु भणिउ ॥१०॥

११

रे रे जोएप्पिणु तुरिउ गपिणु सव्वदिसामु ।

वधेप्पिणु सो दुट्टमणु आणहि भगउ ह्यामु ॥

सव्वत्थ वि तेण स जोडयउ
सहुँ वभणधीयए दावियउ
तेण वि धम्माहियारकरणु
तेण वि उवएसिउ सामियहो
जो कन्नासाहसु आयरउ
पासडिउ सिवपयमडमनउ
ता राएँ रक्खसभीमवणे
उल्लक्कं दाविवि विहियरउ
दुहियाहे समागमेण समुही

कत्थडँ पच्छन्नु पलोइयउ ।
आवेप्पिणु रायहो दावियउ ।
पुच्छिउ कयदोसदण्डकरणु । ५
सनयहो अनीडउवसामियहो ।
किज्जइ न देव तसु आयरइ ।
मारिज्जउ निज्जउ खयमनउ ।
नामेण पिउवणे भीमवणे ।
माराविउ सो लहु विहियरउ । १०
तो सोमसम्मु सजाउ सुही ।

घत्ता—तहे मरणविहाणु सुणेवि सिणेहे संचलिय ।

वभणसुए पाव गय तहिँ सोयविसठुलिय ॥११॥

१२

वत्याहरणविलेवणहिँ भूसिवि पणयपयासु ।
पुणु तबोलु मुहेण मुहे ताए विइन्नउ तासु ॥

आलिगिवि चुविवि सुइरु वरु
तारिस निसुणेवि निवेण विहि
पुणरवि मोहध पुरधि तहिँ
पुज्जेवि भूइ वरपरिमलेण
पुज्जेविणु पुप्फहिँ सोह किय
त तहो पहाए ताएण तहे
तेणेव विहाणे पुणु वि गया
आलिगणे कि तहो जाउ सुह
कि भूइजलालिगणिण तए
कि तत्थ गवेसतीए वरु

गय बहुविलाउ सा करिवि घरु ।
देवाविउ तहो रुट्टेण सिहि ।
गय भम्मीकउ भत्ताए जहिँ । ५
सिचेवि वहलचदणजलेण ।
त आलिगेवि रुयति थिय ।
पेच्छेवि छुहाविउ छारु वहे ।
जलि पिउ नियति बुड्डेवि सया ।
पुज्जाइवि पाविउ पहयदुह । १०
सपत्तउ सोक्खु रुयतियए ।
आलोइउ दावियनेहभरु ।

घत्ता—जिह तत्थ न तीए पत्तउ सुहु सो दिट्ठु नउ ।
तिह बुद्धमयस्स वाहिरस्स किर सोक्खु कउ ॥१२॥

१३

जे निसुणेप्पिणु एह कह बुद्धहो वम्मु मुयति ।
जम्मसए वि न ते नर' सोक्खु कयावि नियति ॥

एवविह अवर कुहेउ सया
गउ पुणु मिच्छत्तहो कम्मगइ
पणवेप्पिणु गुरु मन्निउ खणिउ
रायहो पहाए अत्थाणि मइँ ।
इय सक्खिवाउ सदेहहरु
ता भासइ भिक्खु उवासयहो
उल्हाविज्जइ न पईवु वरु
तेणेउ भणिज्जहिँ कि पि नउ
कि बहुणा कल्लि म राउलहो

दावेवि तेण तहो कुमइ हुया ।
पेच्छह कि करइ विमुद्धमइ ।
मन्नाविवि मतीसे भणिउ । ५
पुच्छतहे चारण दिट्ठु पईँ ।
दायव्वु किमुत्तरु कहसु गुरु ।
जुज्जइ न पससणु परमयहो ।
सिरि सुगयधम्मु कल्लाणकरु ।
मइँ दिट्ठउ किं पहु कहमि तउ । १०
जाएज्जसु नरनियराउलहो' ।

घत्ता—पडिवज्जेवि एहु पणवेप्पिणु तहो भत्तिपरु ।
गउ मति सगेहु गयतमि उइउ तमोहहरु ॥१३॥

१४

एत्तहे सच्चावसरे पहु पसरे सहाप्र निविट्ठु ।

आवेप्पिणु भेवयसयहिँ पहु पणवेप्पिणु दिट्ठु ॥

उवविट्ठु सव्व दुरिओहवह

चारणमुणिगुणसदोहु थुउ

परिपुच्छिउ वृज्जिउ धम्मपहु

भासड पुहडंसरु कल्ले मडँ

उवएसिवि सजमसील सया

त निमुणिवि विभयभरियमणु

हा हुउ विरुवु ज दिट्ठु न वि

ससयकर के वि कहति नर

पहु भणड न जइ पत्तियह महुँ

पाग्द नग्दि धम्मकह ।

आयणिवि लोयहो हरिमु हुउ ।

कि केण वि ते फुडु दिट्ठु पहु । ५

आलोडय चारण सवण सडँ ।

सघमिरि धम्मि लाएवि गया ।

भासड समग्गु सामतगणु ।

चारण मुणि भव्वभोयरवि ।

कहिँ किर हवति मुणि गयणयर । १०

आउच्छह तो मघमिरि तुहुँ ।

घत्ता—ता राएँ तामु लहु हक्कारउ पट्टविउ ।

न समीहड एहुँ दुक्खहिँ अक्खि भणेवि थिउ ॥१४॥

१५

पुणरवि कोक्काविउ किकरहिँ तो वि न आवड पावियउ ।

आऊण पवचु पाएसरेण उच्चाडवि [सहसा-] णावियउ ॥

पुच्छिउ वडिडयमिच्छत्तमलु

थिउ मोणे कि पि वि नउ चवड

पडँ मडँ महएविप्र [धवलहरे]

आलोडय चारण वेत्ति मुणि

पडिगाहिउ धम्मु निरजणहो

कहिँ मुणि कहिँ गयणगणगमणु

भासतहो तहो सहसत्ति गया

महि पडिय नियच्छिवि अच्छि पहु

भो अज्ज वि वोल्लहि सच्चु वुह

कि दिट्ठुउ चारणजइजुयलु ।

किं कहहि न माम भणइ निवड ।

अच्छतहिँ चुवियअवुहरे । ५

निसुणेवि ताण पडँ दिव्वञ्जुणि ।

त पयडहि किं न मज्जे जणहो ।

मडँ कि पि न दिट्ठु एउ वयणु ।

लोयणमणि विभियलोयसया ।

जपइ दूरज्जियपावपहु । १०

मा वसुअवत्थ सभवउ तुह ।

घत्ता—कि कहमि न दिट्ठु पुणु भणतु दइवे नडिउ ।

सहसा भूमीप्र आसणाउ किं पि वि पडिउ ॥१५॥

१६

पुणरवि राएँ सो भणिउ अज्जु वि भासहि सच्चु ।

निक्कारणु अलिएण पुरु माम म पावहि सच्चु ॥

दिट्टु न पुणो वि भणत्तु गउ
 किं नदड कहिं मि असच्चरउ
 मिच्छत्ते को न वियारियउ
 सताणि तासु मिच्छत्तहरा
 अच्छरिउ एउ पेच्छेवि जणा
 राया वि सपुत्तहो रायसिरि
 सुदरमइ पत्थिवसयसहिउ
 पणवेवि समाहिगुत्तपयहँ
 चिरयालु करेप्पिणु तवचरणु

महि फुट्ट मरेवि महानरउ ।
 जहिं सच्चु तत्थ पर होइ जउ ।
 हुउ सो अणतससारियउ । ५
 अज्ज वि जायध हवति नरा ।
 सजाय सव्व सम्मत्तमणा ।
 गउ अप्पिवि अप्पणु गहणगिरि ।
 निव्वेयचित्तु चित्तियसहिउ ।
 लग्गउ निच्चलमणु मुणिवयहँ । १०
 महि विहरिवि सबोहेवि जणु ।

घत्ता—सिरिचदजसोहु सुरनरिदनाइदनुउ ।

गोवज्जगिरिदे परमप्पउ सिवसतु हुउ ॥१६॥

विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णत्तपयदसजुत्ते ।

मिच्छत्तफलपयासो दसमो सधी समत्तो य ॥

॥ सधि १० ॥

संधि ११

१

भावाणुराय—पेम्माणुराय—मज्जाणुरायरत्तो य ।

धम्माणुरायरत्तो य होहि जिणसासणे निच्च ॥ [भ आ. ७४१]

भावाणुरायरत्तो मनोजुरागानुरक्त । पेम्माणुरायरत्तो प्रीतिरागानुरक्त । मज्जाणुरायरत्तो मज्जा मद्या अस्थ्या मध्ये वमा मापि जिनवचनानुरागरञ्जिता यस्य स मद्यानुरागरत्तो भण्यते धम्माणुरायरत्तो धर्मे अनुरागस्तेनानुरक्त होहि भव त्वं जिणसासणे सर्वज्ञवचने निच्चं सर्वकालम् । ५

इय कहिउ किं पि मिच्छत्तफलु
भावाणुरायरत्ताइयहँ
उज्जेणीपुरि अत्थि पसत्थउ
तेण समुद्दत्तनामालहो
परिणिय नवजोव्वण किं सीसड
सा पुव्व पउत्त फणिसेणहो
लग्गिवि ताहे खेरि मो लेप्पिणु
एक्कहिँ दियहे कयाड सुहालग्र
थिउ पडिमाजोएण विराइउ
वइरु सरेप्पिणु सायरदत्तहो
घल्लेप्पिणु अप्पणु धावंतउ
गउ नयरहो अठ्भतरि तलवरु

पणवेप्पिणु देउ विमुक्कमनु ।
वावन्नणु करमि महामडयहँ ।
सायरदत्तु सेट्ठि वहुअत्थउ ।
पुत्ति पियगुसिरि त्ति गुणालहो ।
जाहि समाण अन्न नउ दीसड । १०
वणिउत्तहो कुलमाणपवीणहो ।
थिउ तामुप्परि माणु करेप्पिणु ।
सो उववासिउ गपि जिणालग्र ।
नागसेणु ता तेत्थु पराडउ ।
हारु कसोवरि निच्चलचित्तहो । १५
मुट्टउ मुट्टउ एउ भणतउ ।
धाविउ त सुणेवि पहरणकरु ।

घत्ता—नाणाविहविग्घविणासकरे
सो तेण सहारु निरिक्खियउ

जाएप्पिणु तेण जिणिदहरे ।
आवेप्पिणु रायहो अक्खियउ ॥१॥

२

जाणतेण वि राएँ निच्छउ
तो वि जणापवाउ रक्खंते
मारहु' एहु अत्ति किं दुट्ठे
आयण्णेप्पिणु पिसुणपियारउ

सो नउ परधणहरणसमिच्छउ ।
पेसिय किकर एउ भणते ।
जीवंते ते जणियाणिट्ठे ।
जणकोलाहलु हणहणकारउ ।



निमुणेवि जिणवयणविहि सो वि तहुँ पामे
पिप्पीलियाडिहि किउ सहेवि उवसग्गु

सावयवय नेवि थिरु थियउ सन्नामे ।
मरिऊण सोक्खेण सोहम्मु गउ राग्गु

घत्ता—तहो चुउ अभयकुमारु हुउ
लद्धूण समाहि विमुद्धमण

सेणियनरनाहहो पढमु नुउ । १०
गय वभलोउ ते दो वि जण ॥४॥

॥ एव मज्जाणु रायत्तक्कारण गउ ॥

५

उज्जेणिहे उज्जियदुक्कम्मउ
घणवम्मामहएविप्र जायउ
जामच्छड वलविककमवतउ
ता पच्चतवरेण पयडे
कालमेलमेच्छेण मिलावणि
जे जे केड निवेण विसज्जिय
पहु पणवेप्पिणु साहकारे
ता सपेसिउ पुहईपाले
गपिणु तेण विरोलिउ परवलु
मारिय के वि नट्टु अवमाणिउ

होतउ नरवरिदु वणवम्मउ ।
नदणु लकुचु तामु विक्खायउ ।
सो जुवराउ तत्थ कीलतउ ।
पुव्वविरोहे सगरसोडे ।
करेवि विमालवडस्त ह्यावणि । ५
ते ते सयल वि तेण परज्जिय ।
मग्गिउ पेसणु लकुचकुमारे ।
नाइँ कियतु विसज्जिउ काले ।
नावड मदरेण सायरजलु ।
कालमेलु वधेप्पिणु आणिउ । १०

घत्ता—त निग्रवि निवड परिओसियउ
वाहरिउ भणेप्पिणु अरिडमरु

पुज्जेवि कुमारु पससियउ ।
सव्वत्थ वि अछलु विडन्नु वरु ॥५॥

६

एक्कहिँ दिणे सच्छदविहारे
पगुलसेट्ठिहे जोव्वणइत्ती
आलोएवि जायअहिलासे
वणिवरो वि वित्ततु सुणेप्पिणु
एक्कहिँ दिणे कीलप्र नदणवणु
आयण्णेवि धम्मु निव्विन्नउ
काले सव्वत्थ वि निम्मायउ
निसि महकालुज्जाणे निएप्पिणु
पगुलेण रिउसुहिसमचित्तहो
लोहसलायउ कयवहुवाहउ

अच्छते तहिँ तेण कुमारु ।
नायवम्म मणहारिणि पत्ती ।
माणिय माणिणि माणविणासे ।
थिउ तुण्हक्कउ रोसु धरेप्पिणु ।
गउ जुवराउ दिट्ठु मुणि सतणु । ५
समगुणि मुणिचारित्तु पवन्नउ ।
महि विहरेवि पुणो तत्थायउ ।
पुव्ववेरसवधु सरेप्पिणु ।
पडिमाजोएणच्छतहो तहो ।
सव्वसधिवधेसु समाहउ । १०

मडें किउ एउ मय विसहिज्जड

घन्ता—इय चित्तेवि मुह्प्राणासियड

धम्माणुगयरत्तामयड

अन्नहो कि कामु वि रुसिज्जड ।

मुणि परमत्तमाए विहूसियड ।

उवमग्गु सहेवि सग्गु गयड ॥६॥

॥ एव धम्माणुगयरत्तक्काए गद ॥

७

एक्का वि जिणं भत्ती निदिट्ठा दुक्खलक्खनासयरी ।

नोक्खागमणत्ताण होदि हू मा कारण परम ॥

एकापि जिने सर्वज्ञे भक्ति निदिट्ठा दुःखलक्षणाशकारिणी कथिता होदि हू भवति सा हू फुट्ठारण निमिन्म । केदा ? परमुत्तट्ठाना मोन्यानाम् । कथभूताना ? अन्नत्तानामिति । जिणभक्ति अक्काए । न जहा ।

५

मिहिलानयरि पोमरहु राणड

गो कयाड मुज्जण्ह पट्टणु

नत्थ मुधम्मु मुणिदु कहतड

आयण्णेप्पिणु विभियभावड

पुच्छड कि अरग वि एवविहु

भानड माहु अप्पमड केरिनु

मुणु चपापुरि सव्वमुहकरु

ममवसरणि तिहुवणजणसामिड

घन्ता—नीसेसत्तसदेहहर

भुवणत्तयपुज्जिय जामु गिर

होतड आसि सुरिदसमाणड ।

गड मसेणु पडिक्खपलोदुणु ।

दिव्वज्जुणी धम्मु दयवतड ।

मेल्लिवि कुपहु ह्वेपिणु सावड ।

अत्थि निलोए धम्मु कहि एविहु । १०

धम्मुतएमु करड अम्हारिमु ।

अच्छड वामुपुज्जित्थकरु ।

परमत्ताणि पचमगडगामिड ।

नूणाहियहीण अईववर ।

उवमिज्जड जए को तामु किर ॥७॥ १५

८

आयण्णेवि एउ अणुराएँ

निच्छड जो मामिय तुम्हहँ गुरु

अवसमेव दट्टवड भडारड

एउ मणेवि भत्तिभरभरियड

उच्चरिलड जहिँ देउ निरजणु

एत्तहँ अमियापह-विज्जुप्पह

धम्मविवाएँ जाय विलक्खा

जड जमयग्गि जमहो चालेप्पिणु

घन्ता—नहि जतहिँ मत्तुसीहसरहु

अमियपहे परसमयासियड

कयविणएण भणिड मुणिराएँ ।

वदणिज्जु सो अम्हहँ गुरुगुरु ।

दुग्गडदुक्खलक्खविणिवारड ।

सहँ सेन्ने नयरहो नीसरियड ।

वामुपुज्जु तिहुवणमणरजणु ।

पुव्वमित्त मुरवरहँ महप्पह ।

वे वि डहागय करहुँ परिक्खा ।

पुणु जिणयत्तथिरत्तु निएप्पिणु ।

आलोडवि नरवड पोमरहु ।

विस्साणुलोमचरु भासियड ॥८॥ १०

९

भो भो सहयर एहु निहान्हि
 अविद्याणियविसेमु नवधम्मिउ
 वामुपुज्जजिगवदणहत्तिप्र
 त घन्नतरिचरहो समित्तहो
 विज्जुपहेण तासु सखेवे
 नयरडाहु दिसडाहु भयकरु
 दरिसिउ कालसप्पपहखडणु
 कूलिवाउ अणवरउ पवरिसइ
 मज्जमाणु दक्खालिउ कुजरु
 हत्थि मुएवि घरेप्पिणु जिणमुणि^१
 ता तुट्ठेण सुरेण पससिउ
 जोयणघोसभेरि सहू हारे
 जाएप्पिणु जरसरणनिवारउ

भूवड जड सक्कहि तो टालहि ।
 सपरिवारु अम्हहँ साहम्मिउ ।
 जतु पडज्जारुहु ह्यत्तिए ।
 वयणु मुणेप्पिणु जिणमयचित्तहो ।
 मायाजालु पयासिउ देवे । ५
 घरगोउर विवाउ अमुहकरु ।
 अन्नोत्तु जि ससेन्नभडभडणु ।
 नवघणु नहे चलविज्जु पदरिसइ ।
 कद्दमे तो वि नियत्तु न नरवरु ।
 घल्लिय अप तेण तहिँ खगणि । १०
 कयपवचु^२ नीसेसु पणासिउ ।
 दिन्नी तहो ह्यरोयवियारे ।
 समवसरणु भव्वोहपियारउ ।

घत्ता—पणवेप्पिणु जिणु सुपसन्नमणु
 गणहरु होएप्पिणु मोक्खु गउ

पोमरहु राउ जायउ सवणु ।
 देवेण वि दिढसम्मत्तु लउ॥९॥ १५

॥ एवं जिणभत्तिअक्खाणं गद ॥

१०

दसणभट्टो भट्टो न दु भट्टो होदि चरणभट्टो दु ।

दंसणममुयतस्स हु परिवडणं नत्थि संसारे ॥ [भ. आ ७४३]

वंसणभट्टो दर्शनाद् भ्रष्ट नष्टो नष्ट एव स । सम्यक्त्वविनाशे यो नष्ट सुतरा स
 नष्ट एवेत्यर्थ । न दु नैव होदि विशंपतो भवति चरणभट्टो त्रयोदशविधचारित्रेण भ्रष्टो विनष्ट ।
 अपि सभावने । यथा सम्यक्त्वविनाशे दूरे नश्यति न तथा चारित्रविनाशे नश्यतीति । द्वयो नष्टयो. ५
 को दूर नष्टो भण्यते ? सम्यक्त्वेन नष्ट अर्धपुद्गलावर्तप्रमाणं ससारे परिभ्र-तीति नष्ट. ।
 व्रतभ्रष्टः पट्पण्ठि सागरोपममात्रं काल नष्ट एतद्भ्रूणितं भवति । दंसणं सम्यक्त्व अमुयंतस्स
 अमुचमानस्य हु खलु अवधारणे परिवडणं नत्थि संसारे ससारे भवावर्ते न विद्यते परिपतनम् ।
 तस्य दसणभट्टक्खाण । तद्यथा—

तित्थि अरिट्टुनेमिभयवतहो
 रायहो वभरहहो रामिल्लप्र
 वभदत्तु नार्मि विक्खायउ
 चउदह रयणइँ नवति निहाणइँ

पुरि कपिल्लि अराइकयतहो । १०
 पट्टमहाएविप्र सोमिल्लप्र ।
 चक्कवट्टि वारहमउ जायउ ।
 सिद्धइँ मडलाईँ अपमाणइँ ।

६. १ जिणु मुणि । २ कयपवंतु ।

नन्वइ निरविसेम विज्जाहर
भोयामत्तहो भोयणकालण
मुकञ्जहाजुनि व जाणतहो
आणेष्पिण्ण तहो अग्गि सवन्नउ
दड्ढउ तेण महाणसनारहो

विहिय जेण देवा वि सकिंकर ।
सूवारेण मुवन्नहो थालए । १५
नाणारसग्गोड माणतहो ।
पायनु पुहन्नाहहो दिन्नउ ।
रुद्धउ चक्कवट्टि सूयारहो ।

घत्ता—ता त कडनु आणान्निघउ
उज्जेन्नि तेण दुक्खेण मुउ

सिरि ग्वीरु [तस्स] घल्लावियउ ।
रक्खसु सो लवणसामुद्धि हुउ ॥१०॥ २०

११

परियाणिवि पुच्चिल्लउ वडयरु
आणउ विविट्ठफलाइँ लएप्पिणु
फलरगु आसावेवि सराएँ
कत्थ इमाइ पयानियच्चोज्जटं
भगवेणुत्तु मज्ज मट्ठियासमं
एयइँ अवगाँ वि रसमारइँ
आयणेष्पिणु एउ सपरियणु
गउ पहु जलकल्लोलरउदहो
तहिँ उवसगु तेण पारभिउ
मुमरहिँ सूययारु उवयारिउ
विजयमेणु नामेण पहाणउ

भगववेणु विरएवि निसायरु ।
दिट्ठु नरिद्धु ताइँ ढोएप्पिणु ।
पुच्छिउ नो अन्नहिँ दिणं राएँ ।
अत्थि फलाइँ अईवमणोज्जइँ ।
उववणे मज्जि समुदहो दुग्गमे । ५
पत्थिव अत्थि अणेयपयारइँ ।
जलजाणेण फलासायणमणु ।
अवभतरु पडसरिउ समुदहो ।
भीसणवेससएहिँ वियभिउ ।
हउँ पइँ पण्ण पएप्पिणु मारिउ । १०
होतउ रसविसेसविहिजाणउ ।

घत्ता—लड वल्लहु देउ को वि सरहि
ता सव्वाहारनिवित्ति किय

महुँ अज्जि जियत्तु न उव्वरहि ।
सामत मति सन्नासि थिय ॥११॥

१२

विग्घविणामहेउ सिव मुह्यर
मंतपहावे चित्ति चक्कड
चित्तिवि तेणोवाउ पउत्तउ
जइ जिणिदसासणु न समिच्छहि
ता भीएण तेण जयपुज्जिय
लुहिय कमेण लिहेवि सहावे
ता मारेप्पिणु तेण रसायलि

लग्गउ पहु मुमरहुँ पचक्खर ।
रक्खु वि त मारणहुँ न सक्कइ ।
मारमि वभदत्त न निरुत्तउ ।
जइ पच वि पय पाएँ पोछ्छहि ।
सिद्ध अणाइ मत अपरज्जिय । ५
वुत्तु नत्थि जिणसासणु पावे ।
घल्लिउ चक्कवट्टि वडवाणलि ।

गउ सत्तमनरयहो निक्किट्टहो

अह किं होड न दसणभट्टहो ।

घत्ता—इयर वि सामत मतिपमुह

आयत पचपहु परमवुह ।

लट्टण समाहि मुएवि वउ

सपत्त सुहेण मुहामिभउ ॥१०॥

१०

॥ एव दसणभट्टक्खाराण गद ॥

१३

वणि जिणदासु आमि पाडलिपुरि

होतउ जिणपयभत्तउ सुदरि ।

सो कयाड वाणिज्जहो निग्गउ

भरियभडु कचणदीवहो गउ ।

तहिं विटवेवि दव्वु वहु एतहो

कालियदेहु पुव्ववेरे तहो ।

करेवि पयडवाउ घणवट्टु

भासड मखोहियमायरजलु ।

जइ जीविण्ण कज्जु तो दूसह

जिणसासणु नत्थि त्ति पघोसह । ५

न तो सव्वसरीरहो सारउ

छिदमि उत्तमगु तुम्हारउ ।

आयण्णेप्पिणु एउ परोहणु

अदोलिज्जमाणु मणखोहणु ।

आलोएविणु वणिय वियक्खण'

सयल वि कियअन्नोन्ननिरिक्खण' ।

जपहिं एत्थ काले किं किज्जइ

ता जिणवरदामेण भणिज्जइ ।

घत्ता—अइदुलहु कयावि न भावियउ

जिणदसणु पुण्णहिं पावियउ । १०

मा मुक्खविरमु ससारभउ

मा वभदत्तगइ सभवउ ॥१३॥

१४

मेट्टिहे भासिउ एउ सुणेप्पिणु

दिट्टमण दुविहाणसणु लएप्पिणु ।

करकमलजलि सीसे निवेसिवि

वणि भणति जिननाहु नमसिवि ।

वच्चउ पलउ पोउ जइ वच्चइ

रक्खस करहि किं पि ज रुच्चइ ।

तो वि अवण्णवाउ भुवणेसहु

करहुं कयावि न अम्हि जिणेसहु ।

ता ताणोवसग्गु जाणेप्पिणु

आसणकपे करणु करेप्पिणु । ५

अत्ति अणाविं नामे जक्खे

पेसिउ भव्वजणावडरक्खे ।

चक्कुत्तरकुरुभूमिहे होतउ

आरसहस्साधारफुरतउ ।

सिरकमलम्मि तेण सो ताडिउ

पावयम्मु वडवामुहि पाडिउ ।

घरिउ पोउ वरुणेणावेप्पिणु

लच्छि पराडय कलसु लएप्पिणु ।

तुरिउ परोहणु तीरु पराणिउ

देवहिं वाणिवग्गु सम्माणिउ । १०

घत्ता—गयविग्घ सव्व सपत्त घरु

जिणदासे पुच्छिउ जइपवरु ।

तेलोक्कु वि तुह वोहम्मि थिउ

कहि सामिय केणुवसग्गु किउ ॥१४॥

१५

आयण्णेवि एउ मुणि भासइ
 निसुणि सुयण सपयसपुण्ण
 अग्गि व अग्गिभूइ नामालउ
 सो वाएण न केण वि निज्जिउ
 कयपइज्जु राएँ वित्थारिउ
 अवमाणेण गपि वणु तावसु
 तत्थ मरेप्पिणु दुप्परिणामे
 मज्झि समुद्दहो जाणिवि खुहे
 तुहँ दिढदसणु देवहिँ पालिउ

वणिहे वइरसवधु पयासइ ।
 चिरु हत्थिणापुरम्मि' रवण्णए ।
 होतउ विप्पु जइणपडिकूलउ ।
 पइँ पर सुदरवुद्धि परज्जिउ ।
 करिवि खरारोहणु नीसारिउ । ५
 जाउ अजाणियपरमागमरसु ।
 हुउ रयणीयरु कालिउ नामे ।
 किउ तउ तेणुवसग्गु रउद्दे ।
 पहउ हयासु रहगे कालिउ ।

वत्ता—निसुणेवि धम्मरुइ मुणिवयणु जणु जाउ सव्वु जिणधम्ममणु । १०
 सुदरमइ निव्वेइ लइउ जिणदासु वणीसरु पव्वइउ ॥१५॥

॥ एव दसराममुयत्तक्खाण गद ॥

१६

अवर वि आयण्णह महसत्तहो
 लाडदेसि महुरक्खरभासए
 पुरि गुलि गोद्दहम्मि गुणवतउ
 कत तासु जिणदत्त महासइ
 अवरु वि तत्थ परममाहेसरु
 अत्थि नायदत्ताए पसूयउ
 तासु निमित्तेण य सुदरमइ
 जिणदत्तेण भणिउ भो तुम्हइँ
 माहेसरसावयहँ सलक्खण

कहमि कहा दसणु अमुयतहो ।
 दोणिमतपव्वयहो सयासए ।
 वणि जिणदत्तु अत्थि जिणभत्तउ ।
 पुत्ति मणोज्ज ताहे हुय जिणमइ ।
 नायदत्तु नामेण वणीसरु । ५
 रुद्दत्तु तहो पुत्तु सरूयउ ।
 मग्गिउ पिउ जाएप्पिणु जिणमइ ।
 माहेसर वरसावय अम्हइँ ।
 केरिसु भणु सवधु वियक्खण ।

वत्ता—आयण्णेवि नायदत्तु चवइ जइ किज्जइ तो निच्छउ हवइ । १०
 धम्मो एक्को च्चिय भिन्नु नउ दिन्नस्स वि नत्थि कयावि खउ ॥१६॥

१७

कि वहुणा भणु हउँ वि निरुत्तउ
 एम भणेवि गपि तवसाहहो
 छड्ढिवि सिवपन्नत्तु सपुत्ते
 परिणिवि जिणमइ जिणमउ चत्तउ

लेमि धम्मु सव्वण्हुपउत्तउ ।
 पासि समाहिगुत्तमुणिनाहहो ।
 लइउ जिणिदधम्मु फणिदत्ते ।
 भासइ रुद्दत्तु हरभत्तउ ।

हलि मेल्लेवि जयत्तयसेवहो
अन्न न दुग्गइगमणनिवारी
वज्जेप्पिणु गुरुदोहु न केहिँ वि

निरु निरवज्ज दिक्ख हरएवहो । ५
अन्न न मोक्खपरपरकारी ।
हम्मइ अकरणेहिँ गरएहिँ वि ।

उक्त च—भवविच्छेदिनी दीक्षा निरवद्या सुनिर्मला ।

नृपगूना हितार्थयि महादेवेन भापिता ॥

न चातुर्यगतेनापि शार्वा सा हन्यते सती । १०

गुरुद्रोहादृते पुसामित्याह परमेश्वर ॥

तेण तुम पि मुएप्पिणु' जइणी
वयणु सुणेवि एउ वरइत्तहो

लड सिवदिक्ख दुक्खसयरीणी ।
भासइ सड जिणसमयविरत्तहो ।

घत्ता—किं पुट्ठिहि सामिय सिधुरहो
लज्जिज्जइ केम सीसु परहो

चडिऊण चडिज्जइ पुणु खरहो ।
नाविज्जइ नमिउ जिणेसरहो ॥१७॥ १५

१८

कि बहुणा तेल्लोक्कनमसिउ
अन्न धम्मु न मणा वि समीहमि
मा मुज्झहि तुम पि पडिवज्जहि
आयण्णेवि एउ वरु जपइ
मेल्लिवि सामलगि सइवाणउ
जिणदत्तहो दुहियाए पुणो पड
तो तुहुँ पिययम कुरु माहेसरु
पभणइ रुददत्तु जइ हुंतउ
ता तुहुँ करहि केम ता जिणमइ

दुल्लहु मेल्लिवि अरुहपयासिउ ।
दुस्सहदुग्गइदुक्खहँ वीहमि ।
मिच्छादसणु दइय विवज्जहि ।
महु वयणेण एण मणु कपइ ।
को किर करइ धम्मु खमणाणउ । ५
वुत्तउ जइ न वि केम वि कप्पइ ।
अहमवि करमि धम्मु जइणेसरु ।
करहुँ न देमि धम्मु अरहतउ ।
जपइ जिणमयम्मि निच्चलमइ । -

घत्ता—जइ हउँ मि न देमि तुज्झ करहुँ
तो सवहि सामि काइँ करहि

कुलधम्मु कवालिहे कम सरहुँ । १०
लड अलियइँ वयणइँ परिहरहि ॥१८॥

१९

एव ताण कयाइ पलावे
अन्नोन्न पि कयाइ निसेहे
गए बहुकालए कलिलविरत्ती
जइ जिणभवणु जाहि जइ जइणहँ
तो तइँ हउँ वित्थारमि मारमि
जिणमइ भणइ तुहुँ वि जइ गच्छहि

अन्नोन्न पियधम्मालावे ।
पुणु कलहेण कयाइ सिणेहे ।
भणिय रुददत्तेण सपत्ती ।
दाणु देहि निंदियपरवडणहँ ।
निच्छउ मदिराउ नीसारमि । ५
हरघरु तवसिहिँ भिक्ख पयच्छहि ।

तो निच्छउ अप्पउँ सघारमि
अहवा मा वच्चसु रुदालउ
एव भणेवि वे वि मज्जायण

भुवर्ण अकित्ति तुज्ज वित्थारमि ।
हुँ मि न जामि कंत चइतालउ ।
सठियाइँ नियनियए निओयण ।

घत्ता—अच्छतहँ एव ताहँ भवणि
पुरु वेदिवि भिल्लहिँ लाडयउ

आवेप्पिणु तामेक्कम्मि दिणि ।
जणु सयलु किलेसहुँ आइयउ ॥१९

२०

पयडु हवेवि जलंतजलतउ
आलोएवि समाउलचित्तउ
एत्तिउ कालु धम्मसवाएँ
तो वि नाह मईँ तुज्जुवएसिउ
सपइ जो आयहो उवसग्गहो
भत्तिभरेण तमेवाराहमि
आयण्णेवि एउ वोल्लइ वरु
कि बहुणा महु एव पउत्तउ
तिउरहारि मेल्लेवि किँ अन्नहो
करणघरणसहरणसमत्थउ
अन्नु कवणु चउदहभुवणासिउ

रुददत्तघरु सिहिसंपत्तउ ।
जिणमईँ भत्तारु पउत्तउ ।
गउ अम्हहँ अन्नोन्नविवाएँ ।
किउ न कयाइ मज्ज पईँ भासिउ ।
रक्खइ सो पहु देउ समग्गहो ।
निच्छउ तासु धम्मु पडिगाहमि ।
भासिउ भज्जे अईव मणोहरु ।
परम दावमि मग्गु निरुत्तउ ।
अत्थि सत्ति रक्खहुँ सामन्नहो ।
अन्नु कवणु पयडियपरमत्थउ ।
अन्नु कवणु सव्वगउ सयासिउ ।

घत्ता—ता जिणमईँ गधक्खयहिँ
देप्पिणु हत्थेसु अग्घु रमणु

सुहसलिले कुसुमहिँ चोक्खहिँ ।
घुत्तीणु भणिउ घुवकरचरणु ॥२०॥

२१

आयहो उवसग्गहु उव्वारहि
एव भणेप्पिणु पहयाणिट्टहो
देहि अग्घु एयग्गु हुवेप्पिणु
पुव्वमुहेण तेण गुरुसद्दे
लोयकम्मसाखिज्ज'पवन्नहो
जइ माहेसरधम्मु महतउ
सुमरणमित्तेण वि भमु फिट्टइ
निरु निम्मल कम्मक्खयकारी
तो ससहोयर पुत्तकलत्तउ

सकुडुवु वि सामिय साहारहि ।
देवहो पय पणवेप्पिणु इट्टहो ।
एउ सभामिणिवयणु सुणेप्पिणु ।
भासिय चित्ति विचिंतियरुद्दे ।
पच्चलोयवालहो आयन्नहो ।
जइ देवाहिदेउ सिवसतउ ।
जइ इच्छाइ तासु जणु वट्टइ ।
जइ निव्वाणदिक्ख तहो सारी ।
मईँ परितायउ पलयहो जतउ ।

इय अग्घो वि विडच्चु तिवारउं
जालासय मेल्लतु भयावहु

तो वि न कि पि जाउ साहारउ । १०
पवणाइडुडुडाइउ हुयवहु ।

घत्ता—वेडिउ घरु भग्गउ निग्गमणु
सहसत्ति म कि पि खेउ करहि

पुणु भणिउ ताईं पिउ भीयमणु ।
लड अवरु वि काईं देउ सर्गहि ॥२१॥

२२

जो अम्हईं मरणहो उव्वारड
ता परिवाडिण्ड हरि कमलासण
धरण वरुण गह गउरि गणेसर
अवर वि मुर मुमरेवि रवणणउ
पर मरुमुहि केण वि न निवारिउ
एत्थतरे विलक्खु असरणमणु
जिणमड जिणवरसासणवच्छले
अत्थि देउ जलणेण जलतडं
मो कि पहु जो देउ न रक्खड
सपड तुहुं दे अग्घु जिणिदहो

मयणुव' जलणु जलतु निवारड ।
इद चद अहमिद हुयासण ।
भगवड जक्ख रक्ख दिवसेनर ।
आयरेण अग्घजलि विण्णउ ।
घवसित्तु व पज्जलड निरारिउ । ५
भासइ नायदत्तु वणिनदणु ।
न वि एत्तियहं मज्झि एककु वि हले ।
जो अम्हईं रक्खेड मरतईं ।
पावयम्मु पिसुणु व उप्पेक्खड ।
जेण विमुच्चहुं पाणविमद्दहो । १०

घत्ता—सडं लेप्पिणु ताणतरि वरहो
दौजण [-हं] दुविह सन्नामु तए

मुयसासुयसुणहहं देवरहो ।
भासिउ विच्चासियजिणमयए ॥२२॥

२३

जइ अरहतु महतु महापहु
जइ देवाहिदेउ अजरामरु
वीयराउ परपरमु परावरु
इह परलोयसरणु अमिओवमु
धम्मु महत्तमोक्खसयदावणु
जइ निव्वाणदिक्ख सुहयारी
तो महुं इह सपुत्तभत्तारिहे
एम भणेवि अहोहविओएँ
ता तहो तक्खणेण सियसेविण्ड
महसा सिहि जलतु उल्हाविउ

सिद्धु बुद्धु सकरु भवभयमहु ।
परमप्पउ पर्यपणयनरामरु ।
जइ तवनिलउ तिलोयरमावरु ।
तेण पउत्तु अईव अणोवमु ।
अत्थि अहिंसालक्खणु पावणु । ५
ता सुपवित्त भवासुहहारी ।
रक्ख हवेउ निरुत्तउ मारिहे ।
अग्घु देवि थिय पडिमाजोएँ ।
सत्ति पयासिय सासणदेविण्ड ।
किउ सुहि जणु भिल्लोहु पनाविउ । १०

त निएवि जिणमइभत्तारे
जम्मनिवित्ति करेवि कुधम्महो

पउरयणे राएँ परिवारे ।
सगहु विहिउ जिणागमधम्महो ।

घत्ता—सिरिचदप्पहु पचमगइहे कारणु सासयमुहसुहमइहे ।
सम्मत्तरयणनिद्धूयतमु मा मुयह मणा वि सुणेवि इमु ॥२३॥

विवहरसविमाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥

भुवणविदिदणामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।

दिट्ठसम्मत्तक्काण एयारहमो इमो सधी ॥

॥ सधि ११ ॥

संधि १२

१

सुद्धे सम्मत्ते अविरदो वि अज्जेदि तित्थयरनामं ।

जादो हु सेण्णिओ आगमेसि भद्दो अविरदो वि ॥ [भ. आ. ७४४]

सुद्धे सम्मत्ते निर्मले सम्यक्त्वे सति सप्तप्रकृतिविवर्जिते श्रद्धधाने इत्यर्थ । अज्जेदि अर्जयति उपार्जयतीत्यर्थं तित्थयरनाम तीर्थकरनामकर्म । कोऽसी ? अविरदो वि असयतोऽपि । अपि संभावने आस्ता तावद् व्रती व्रतहीनोऽपि सम्यक्त्वविद्युद्धो नियमादागामिनि भवे तीर्थकरो भवतीत्यर्थः । ५ जादो प्रादुर्भूत भाव्यपि अविनाभावत् जात इति भण्यते । हु खलु अवधारणे । सेण्णिओ श्रेणिकनामा महाराज । आगमेसि अनागते काले भद्दो सर्वज्ञ । त्रैलोक्यमंगलीभूतत्वात् । अविरदो व्रतैर्वि-वर्जितोऽपि । साप्रतमत्र श्रेणिकात्यानम् ।

ध्रुवकं—पणवेप्पिणु जिणवरु सिद्धिवहूवरु दूरोसारियदुच्चरिउ ।

आयण्णह कहसोहणु जणमणमोहणु आहासमि सेणियच्चरिउ ॥ ध्रुवकं ॥ १०

खंडय—जवूदीवि दाहिणे
मगहादेसि सुदर

भारहखेत्ति सोहिणे ।
अत्थि रायगिह' पुरं ॥

जहिँ दोमु मणा वि न गुणु जि सव्वु
उवसेणिउ नामे परमकित्ति
हुउ पुत्तु ताहे सेणिउ कुमारु
पुव्विल्लु सरेप्पिणु वडरहेउ
एक्कहिँ दिणि राएँ दुट्ठु आसु
पेक्खेप्पिणु परिओसिउ मणेण
तत्थारुहेवि दुज्जउ वलेण
ता नरहरि हरिणा हरिवि तेण
चइळण तुरउ तरुतले निविट्ठु
जमदडे दुट्ठुकयंतवानु
सम्माणिळण अवित्तथसधु
जो होसइ आयहे देव पुत्तु

तहिँ अत्थि राउ पहयारिगव्वु ।
तहो सुप्पह देवि सुसीलवित्ति ।
गुणगणनिवासु पच्चक्खु मारु । १५
पच्चतचरेण पयडवेउ ।
अहिधम्मे सपेसिउ हयासु ।
थुउ वाइ निवेण सपरियणेण ।
गउ वाहियालि कोऊहलेण ।
निउ भीसावणु वणु तक्खणेण । २०
तत्थ वि किरायराएण दिट्ठु ।
सगहिउ नमसिवि निउ निवासु ।
काळण तेण वायानिवधु ।
दायव्वु रज्जु तहो तइँ निरुत्तु ।

घत्ता—इय भणिवि मणोहर पीणपओहर तिलयावइ तमहरमुहिय । २५

पेसिउ मुहवट्ठणु [अरिदलवट्ठणु] परिणावेप्पिणु नियडुहिय ॥१॥

२

खडयं—ता तहिँ तीप्र सम तहो
बहुसमाणे सररीरउ

रइसोक्ख माणतहो ।
जायउ मयणसररीरउ' ॥

किउ ताएँ नाउँ चिलायपुत्तु
एक्कहिँ दिणि सक्कममाणएण
महु पच्छप्र पुत्तहँ मज्झु एत्थु
आहासइ परियाणियसमत्थु
ताडतु भेरि भीमारि तासु
भुजेसइ पायमु सो निरुत्तु
ता तेण परिक्खाहेउ सव्वु
हक्कारिवि पच वि सुयसयाइँ
ज ज तुम्हहँ पडिहाइ वत्थु
निसुणेवि एउ पहसियमुहेहिँ

कालेण कुमारु पमाणपत्तु ।
पुच्छिउ नेमित्तिउ राणएण ।
कहि होमइ को रज्जहो समत्थु । ५
जो निवसिंघासणमत्थयत्थु ।
सुणहाण देतु वरमइपयासु ।
होसइ तुह रज्जहो जोग्गु पुत्तु ।
सोहणदिणि करणे सुलग्गे सव्वु ।
भणियाइँ नरिदे नुयपयाइँ । १०
त त निस्सकिय लेहु एत्थु ।
सहसा पुहईसरतणुरुहेहिँ ।

घत्ता—केहिँ वि आहरणइँ हरिकरिरयणइँ गधइँ तवोलइँ वरइ ।
लइयइँ सुविचित्तइँ वरवाइत्तइँ केहिँ मि कुसुमइँ सुदरइ ॥२॥

३

खडय—सेणिओ सिंहासणे
आरुहेवि भेरि वरि

मणिगणकिरणुव्भासणे ।
थक्को काऊण करि ॥

परिवाडिप्र सूयारहिँ कुमार
रायाएसेण सुवण्णथाल
भुजतहँ ताहँ ललतजीह
आवत निएप्पिणु भीम साण
गभीरु धीरु परि एक्कु थक्कु
ताडतु विणोएँ भेरि दित्तु
जेमिउ वीसत्थउ मइविसालु
जो रज्जहो जोग्गु अणतविज्जु
इय चित्तिवि दायज्जहँ भएण
मडलविट्टालिउ एहु पाउ

वइसारिय सयल वि न कुमार ।
दाऊण खीरि वडिढयरसाल ।
पविमुक्का मडल नाइँ सीह । ५
सहसा भएण सयल वि पलाण ।
सेणियकुमारु भयभावमुक्कु ।
सुणहाण थोवथोव हसतु ।
जायउ निच्छयमणु भूमिपालु ।
सो सव्वपयत्ते पालणिज्जु । १०
पुहईसरेण जाणियनएण ।
जो देसइ आयहो को वि ठाउ ।

सो हउँ वि सुनिच्छउ तामु सव्वु

अवियारु हरेसमि पाणदव्वु ।

घत्ता—इय देप्पिणु घोमण खलमणपोसण नीसारिउ नयरहो तुरिउ ।

तिसभुक्खायामिउ सिंघुरगामिउ नदगामु सो पइसरिउ ॥३॥ १५

४

खडय—तत्थ वि भीयहिँ विप्पहिँ

नीसारिउ अवियप्पहिँ ।

ता परिवायमढ गउ

तेण वि अब्भागउ कउ ॥

ण्हाविउ भुजाविउ दिन्न वत्थ

उव्भासिय सकियायमविवत्थ ।

किउ बुद्धधम्मि परमाणुराउ

मुप्पहर्हे पुत्तु भागवउ जाउ ।

अच्छेवि तत्थ खलकुमयमित्तु

गउ दाहिणदेसहो धीरचित्तु । ५

एत्तहे कचीपुरि इदयत्तु

निवडहे सुविप्पु कयसत्तियत्तु ।

मुरवडनईहे ण्हाएवि एतु

पथम्मि सएसहो मिलिउ जतु ।

पणवेप्पिणु सो मुमहुररवेण

पुच्छिउ पुहईसतणुव्भवेण ।

जाएसहि कहिँ ता तेण तामु

उवएसिउ कचीपुरनिवासु ।

विप्पेण वि पुच्छिउ तुम्ह कत्थ

कुमरेण कहिउ तेत्थु जि पसत्थ । १०

इय वयणहिँ विहिँ वि सिणेहु जाउ

थेवेतरि पुणरवि रायजाउ ।

आहासइ भो सप्पुरिस मज्ज

चडि खधि अह व हउँ चडमि तुज्ज ।

सोक्खेण जेण नित्थरहुँ पथु

निसुणेवि एउ अवियाणियत्थु ।

घत्ता—चित्तउ नउ भल्लउ एहु गहिल्लउ पथरीणु निरु फुट्टपउ ।

किं पि वि न वियप्पड तेण पयपड वयणु एउ उवहासपउ ॥४॥ १५

५

खडय—अतरगि एयविहु

णेविज्जिवि' तुण्हक्कु' थिउ ।

पहि एक्क बहुकणभर

खेत्तु निएवि मणोहर ॥

पुच्छइ कुमार कि खद्धु खेत्तु

कि खज्जदि खज्जीहदि निरुत्तु ।

कड कटय वोरिहे कहमु ताय

किं महिसिउ पहणइ एसु वाय ।

कि वद्ध एह अहवा विमुक्क

पिट्टिज्जइ वहु अवराहडुक्क । ५

वहु एवमाइ पुच्छतु जाइ

पर तो वि कि पि न चवड सुजाइ ।

तरुमूलि सिरोवरि धरड छत्तु

पहि खधहिँ विसहइ उण्हवत्तु ।

पहि पाणहियउ पाणिहिँ करेड

जलि परिहेप्पिणु [पुणु] उत्तरेइ ।

पेच्छतु एउ उत्तर न देतु

गच्छइ कुविओ कोहे जलतु ।

५, १ एय वि णेविज्जिवि । २ तुण्हक्के ।

सपत्ता कंचीनयरु वे वि

गउ घरु त पुरवाहिरु थवेवि ।

१०

घत्ता—परिओसियसज्जणु दूमियदुज्जणु मिलिउ कुडुवहो विप्पवरु ।

पुच्छिउ अभयमईए विउलमईए पई सहुँ को आइउ अवरु ॥५॥

६

खडय—भासड सो पुरिसो सुए
वाउलओ अन्नाणिओ

आयउ एक्को गुणजुए ।
तेण मया सो णाणिओ ॥

एत्थाउ भणेसड अट्टसट्ट
निमुणेवि खधवहणाइ सव्वु
नउ होइ गहिल्लउ नायसत्थु
ज खधारुहणे जाणु तेण
त परिसुत्तहँ कह कहहि मज्जु
जइ खद्धुद्धारु लएवि वप्प
अहवा घरि सपड-तवणि तेण
जुत्त करेवि जइ नत्थि भति
वकुज्जुय कटय दोन्नि वेव
जइ जायपुत्त तो जुवइ वद्ध
जइ दुज्झहिँ तो सेरिह पियाउ

पुच्छइ मुय केरिसु कहइ भट्ट ।
पभणइ कुमारि सो ताय भव्वु ।
आयण्णाहि उज्जुय कहमि अत्थु । ५
वुत्तउ अन्नोन्नु वियवखणेण ।
अहवा मुणु हउँ पायडमि तुज्जु ।
तो खद्धु खेत्तु फुडु निव्वियप्प ।
तो खज्जदि एउ पउत्तु तेण ।
खाएवउ तो खज्जीहदि त्ति । १०
कुवलियहे हवति हे अन्न नेव ।
पिट्ठिज्जइ अह न तो अबद्ध ।
अह ण तो पाहण ताय ताउ ।

घत्ता—ज पार्वेवि तरुत्तलु छायासीयलु आयवत्तु सो सिरि धरइ ।

त दुरहिविमीसहो कायपुरीसहो णिवडतहो रक्खणु करइ ॥६॥

१५

७

खडय—खरकक्करकटाइय
तेण जले पाणहियउ

ण मुणिज्जइ दुहदाइय ।
परिहइ सो पाणहियउ ॥

णउ होइ गहिल्लउ गयमईउ
इय वयणहिँ तायहो तणउ चित्तु
सो वप्प विप्पणदणु तुरतु
ता पेसिउ पुरिसु कहेवि ठाउ
घरु वट्टुई कइमजुत्तियाए
तो ताए परिक्खाहेउ तासु

सो साहु सयाणउ ससणीउ ।
रजेप्पिणु पुणु धुत्तीए वुत्तु ।
आणावहि इह वहुवुद्धिवत्तु । ५
तेण वि गतूण महाणुभाउ ।
आणीउ अभयमइपुत्तियाए ।
कच्चोले करेप्पिणु मइवरासु ।

७. १ पाउत्तियाए ।

कि पि वि पउ धोवह इय भणेवि
तेण वि कवीप्र वियक्खणेण
उग्घोडिवि थोवजलेण पाय
अवसेसु समप्पिउ सलिलु ताहे

सइ अप्पिउ आसणपट्टु देवि ।
अवणेप्पिणु खजणु तक्खणेण । १०
पक्खालेवि परममुवण्णराय ।
णिउणत्ताणदियमाणसाहे ।

घत्ता—भुत्तुत्तरकालप्र भासिउ वालप्र लज्ज मुएप्पिणु सुदरहो ।
कुलकमु णिव्वाहहुँ देहि विवाहहुँ मइँ जणेर आयहो वरहो ॥७॥

८

खडय—जाणेप्पिणु आसत्तिया
सोहणदियहे रवणिया

तेण णिरुत्त पुत्तिया ।
करेवि महुच्छउ दिणिया ॥

सहुँ ताप्र तत्थ सो णिवकुमारु
माणतु अणोवमु गुणणिवामु
एत्तहे विलवतीवणे मरेवि
पावेप्पिणु वणियहो कण्णजाउ
अभयमइहे अभयकुमारु णामु
एत्थतरे दिव्विजयहो गएण
परदेसे एयथभेण हम्मु
दट्ठूण पडम्मि लिहेवि देवि
कहि गपि सोमसम्मस्स वत्त
तामेरिसु राउलमज्जे जेम
तत्थाविऊण जिह णरवरेण

णावइ रईइ रइसोक्खु मारु ।
अच्छइ अणेयविहमइपयासु ।
जो वभणु अणसणविहि करेवि । ५
सोहम्मसग्गे मुरु पवरु जाउ ।
सो सुउ सजाउ मणोहिरामु ।
णिण्णासियतासियअरिसएण ।
वसुपालणिवेण अईवरम्मु ।
संपेसिउ पुरिसु इण भणेवि । १०
जामेमि करेप्पिणु विजयजत्त ।
सिज्जइ पासाउ करेमु तेम ।
उवइट्ठु पयासिउ तिह णरेण ।

घत्ता—सयलावइरोहे सुणिवि पुरोहे रायवयणु अहिणदियउ ।
सम्माणिवि किंकरु सपेसिउ घरु विण्णाणियकुलु सद्दियउ ॥८॥ १५

९

खडय—आणेप्पिणु पडु दावियउ
भणियं णो विण्णाणिया

तेहिँ वि सो परिभावियउ ।
एत्थम्हे अण्णाणिया ॥

किं वहुणा एउ अउव्वु कम्मु
गय एम भणेप्पिणु ते सहम्मु
किं किज्जइ सिज्जइ जेण एउ
ता वहुविण्णाणविराइएण

सयमेव करइ जइ विस्सकम्मु ।
चित्तापवण्णु हुउ सोमसम्मु ।
णं तो रुसेसइ एवि देउ । ५
णिमुणेवि वत्त जामाइएण ।

घोरिउ थिरु थाहि म करहि खेउ
इ१ भणेवि थोवदिग्रहेहिँ तेण
एत्थतरं वसिकयणिरवसेसु
आयउ अणेयविहभेयकम्मु
पुच्छइ हसेवि सजायचोज्जु
ता कहिउ सोमसम्मेण सव्वु
पासाउ अणोवमु एहु देव

महु लग्गइ निच्छउ माम एउ ।
णिप्पाइउ गियणिउणत्तणेण ।
परिपुण्णमणोरहु णरवरेसु ।
पासाउ णिएवि अईवरम्मु । १०
केणेरिसु किउ मदिरु मणोज्जु ।
जो करइ णत्थि सो कोइ भव्वु ।
किउ महु जामाएँ सुयणसेव ।

घत्ता—तं सुणेवि नरिंदे विहियाणदे भासिउ जो जामाउ तुह ।

सो मज्ज वि जामाइउ गुणहिँ विराइउ एव भणेवि पसण्णमुह ॥१॥ १५

१०

खडय—णाइँ मणोभवसत्तिया
सव्वसलक्खणगत्तिया

णामेण वसुमित्तिया ।
दिण्ण तासु गियपुत्तिया ॥

सहुँ दोहिँ ताहिँ सेणिउ कुमार
णावड विहिँ करणिहिँ करिवरिंदु
अच्छइ तहिँ भोयासत्तु जाम
दाऊण चिलायसुयस्स रज्जु
सजायउ राउ चिलायपुत्तु
ता मतिहिँ दूउ लहेवि सुद्धि
गतूण तेण सुप्पहसुयासु
रज्जम्मि थवेवि चिलायपुत्तु
सयल वि पय रज्जु करतएण
किं बहुणा गच्छहुँ एहि सिग्घु

सोहइ रडपीइहिँ णाइँ मारु ।
ण खतिदयाहिँ महामुणिंदु ।
एत्तहं वि तासु ताएण ताम । ५
धीरेण अणुट्ठिउ अप्पकज्जु ।
सो करइ कयावि न कि पि जुत्तु ।
सपेसिउ कचीपुरु सुवुद्धि ।
उवएसिउ वइयरु णिवसुयासु ।
सजायउ ताउं मुणी तिगुत्तु । १०
सताविय तेण कयतएण ।
कुरु रज्जु णिवारहि लोयविग्घु ।

घत्ता—जणवल्लह पोमिणि जिह गयगोमिणि परिपीडिय दोसायरंण ।

सभरड पहायरु देउ दिवायरु तिह पइँ पय परमायरंण ॥१०॥

११

खडय—अभयमईवसुमित्तउ
रायाण सपुरोहिय

पुच्छेवि कतो कतउ ।
आयउ सो णिलय गिय ॥

गपिणु चप्पेवि चिलायपुत्तु
सुहदिणं सुहिसयणहिँ वद्धु पट्टु

णीसारंवि घल्लिउ अणयजुत्तु ।
सुदरमइ अरिगयघडघरट्टु ।

तोसेवि मुदयणहिं मव्वलौय
 एत्तहे अभाएण मणोज्जवाय
 सव्वेहिं मि सुदरु सव्वु कालु
 सो कहहि कत्थ महु तणउ ताउ
 ता कहिउ ताए अवगुणणिसेहि
 सग्गम्मि व रज्जु करतु इदु
 उक्कठियमणु णिसुणेवि राउ
 णिग्गउ कुमारु णयणाहिरामु
 तत्थ वि एकत्थ विमण्ण सव्व
 पुच्छिय किं कारणु मलिणवत्त

थिउ रज्जे दिव्व भुजतु भोय । ५
 आउच्छिय एककहिं ढिणे समाय ।
 मुमरिज्जइ जो नरगुणगणालु
 अच्छइ जणेरि जणियाणुराउ ।
 तुह ताउ पुत्त पुरे रायगेहि ।
 अच्छइ मुहेण पहयारिविदु' । १०
 पुच्छेप्पिणु मायरि ण किउ खेउ ।
 सपत्तउ दियहहिं णदिगामु ।
 दिय मिलिय णिहालेवि गलियगव्व ।
 दीसह सव्वे वि विसण्णचित्त ।

घत्ता—तेहिं वि तहो अक्खिउ गुज्जु न रक्खिउ अत्थि एत्थ सपयपउरे । १५
 असिदूसहु धामे मेणिउ णामे पुहईसरु रायगिहपुरे ॥११॥

१२

वडय—तस्सम्हे सिहिहोत्तिया
 रायपरपरपुज्जिया

सताणागयसोत्तिया ।
 जत्थ सया भयवज्जिया ॥

अच्छहुं कुमार धणकणयसारु
 सपइ ण वियाणहुं काइं एउ
 दुक्करु अईव आएमु दिन्नु
 किं करहुं किमुत्तरु देहुं तामु
 केरिमु आएसु कहेह जेण
 निमुणेवि एउ भासति विप
 वडकूउ तुम्ह गामे मुभोउ
 लहु पेसह सो पुरु मज्झ पामु
 डय भणेवि पुरिमु पेसिउ निवेण

भुज्जइ' इउ अम्हहं अग्गहारु ।
 किउ राएं अम्हहं वडरिखेउ ।
 ते थाणु सव्वु चित्तापवन्नु । ५
 ता पुच्छइ नदणु सेणियामु ।
 सगहिया तुम्ह महाभएण ।
 ज पुच्छिउ त आयणिण वप्प ।
 निसुणिज्जइ मुट्ठु मुसायतोउ ।
 अह न तो तुम्हहं करमि नामु । १०
 सजाया आउलचित्त तेण ।

घत्ता—मइसपयमारो एउ कुमारे आयण्णेप्पिणु विप्पयणु ।
 धीरिउ मा वीहो निवहो दुरीहहो हउं देसमि तहो पडिवयणु ॥१२॥

१३

वडय—एम भणेविणु सोहणा
 पट्टविया परमेसरो

मिक्खवेवि वे माहणा' ।
 गपि तेहिं पुहईसरो ॥

विणएण पउत्तु कयारिखेव
 तुह नदिगामु पायहँ पवित्तु
 अम्हहिँ पहु जणमणचोज्जभूउ
 पुरु रायगेहु मा एत्थ थाहि
 सो केम वि नावइ ता मिलेवि
 किउ गामहो वाहिरि पुणु वि वुत्तु
 मा होउ इहाणाभगु अम्ह
 ता अच्छइ कारणु एककु चारु
 मेल्लेवि जुवइयणु कामसेत्तु

आसियकप्पघिव निसुणि देव ।
 विन्नवइ नवेप्पिणु भत्तिवतु ।
 सो सव्वपयारहिँ भणिउ कूउ । ५
 तुम्हहँ सामियहो समीवु जाहि ।
 नीसारिउ सव्वहिँ तालु देवि ।
 पर तो वि न आवइ कुडिलचित्तु ।
 पडिहासइ जइ पुहईस तुम्ह ।
 तेणत्थावइ सो निव्वियारु । १०
 पुरिसहो वसियरणु न होइ अत्तु ।

उक्त च—पुरुषस्य सर्ववगीकरणाना स्त्रियो वशीकरणमुत्तममिति ।

अपर च—कि न दद्यात्कि न कुर्यात् स्त्रीभिरभ्यर्थितो नर ।

अनञ्चोऽप्यञ्चता याति अपर्वणि मुण्डित शिर ॥ [पचत्तत्र ४,६]

एत्थत्थि रूवजोवणगुणइड्ढ मुपसिद्धिय वररूविय' वियइड्ढ । १५
 सा पेसहि जइ तो नत्थि भत्ति' करि करिणिहे लग्गु व एइ झत्ति ।

घत्ता—निमुणेवि सटुत्तरु जाउ निरुत्तरु थिउ तुण्हिक्कउ नरपवरु ।

पुणरवि सकसाएँ रइयउवाएँ पेसिउ नरु भणेवि अवरु ॥१३॥

१४

खडय—गपि तेण वण्णुत्तमा भणिया ते वण्णुत्तमा ।

आएस तुज्ज निवो देदि गुणोहनिही निवो ॥

पलभारसखाए एकको मया मत्तु गउ गहिउ दाऊण वहु दव्वु गुरुगत्तु ।
 तहो तारिसो नत्थि इह को वि सन्नाणु जो कहइ तोलेवि पलभारपरिमाणु ।
 गामम्मि विप्पा फुड तुम्हि वहुभेय सत्थत्थसुविसुद्धमइ अत्थि चउवेय । ५
 तेणस्स तोलेवि सव्वे तुमे चेव पलभारसखा पयासेह लहुमेव ।
 नं तो निरुत्त कलत्तेहिँ पुत्तेहिँ पेसेमि जममदिर समउ मित्तेहिँ ।
 हत्थी वि सपेसिओ वुद्धिसारेण साहारिया वभणा पुणु कुमारेण ।
 सलिलम्मि नावाए करिण चडावेवि वुड्डेवि एसियपमाण विहावेवि ।
 उत्तारिऊण गओ त च भरिऊण उवलेहिँ तोलेवि पलसख करिऊण । १०
 जाणाविय सामिणो सो वि सुणिऊण काऊण मोण थिओ सीसु धुणिऊण ।

घत्ता—पुणरवि तहो पत्ती दिन्नाणत्ती पुहईवडणा पउरजलु ।

नेप्पिणु सारामहो पच्छिमि गामहो करह तुरिउ सो कूउ खलु ॥१४॥

१३ १ सुपसिद्धवरकूविय । २ तति ।

१५

खडयं—ता सव्वो गामो तिणा निवपुत्तेण मुमतिणा ।
 पुव्वासाण वसाविओ कूवहो निवहो कहाविओ ॥
 पुहईसे एरिसु मइपयासु पुच्छिउ विभियचित्तेण कामु ।
 पहुवयणु सुणेप्पिणु भणइ दूउ तहिँ पहिउ एक्कु कमणीयरुउ ।
 आयउ अच्छइ तहो एह बुद्धि जाणमि हउँ सामिय सव्वमुद्धि । ५
 निसुणेवि एउ आरुदुएण राएण निवारियदुदुएण ।
 पट्टाविउ पुरिसु पुणो वि तेण तेण वि जाएप्पिणु वभणेण ।
 उवएसिउ रायाएसु ज्जत्ति सो देसिउ वासरं नेव रत्ति ।
 दुस्सिक्खिउ भूमिण नउ पहेण पेसह एत्थावउ नउ नहेण ।
 अह न तो सव्व कयतथाणु पट्टावमि परमत्थेण जाणु । १०

घत्ता—ता विप्पहिँ भासिउ दइवदुविलसिउ नियह एहु अम्हहँ सरणु ।
 अणिमित्तु पवित्तहो हा मइवतहो केमाइउ आयहो मरणु ॥१५॥

१६

खडय—एव भणंत रडतया विप्पा धीरेप्पिणु तया ।
 कुमरो वरमइसपओ तत्थुज्झियसंको गओ ॥
 आयउ रहे ओलवतगत्तु सभावेलाणु निएवि पुत्तु ।
 अहिणाणहिँ परियाणिवि निरुत्तु आलिगिवि नरनाहे पउत्तु ।
 पइँ मेल्लिवि एरिसु मइपयासु अवरहो कुलमंडण सहइ कासु । ५
 पुणु पुच्छिउ पिउणा पिसुणसूलु सपेसिउ कचीपुरहो मूलु ।
 आणाविऊण रमणीउ दो वि थिउ रज्जि राउ निच्चित्तु होवि ।
 एत्तहिँ वि सिधुदेसे जणत्ति नामेण विसाली पुरि महत्ति ।
 कोसियनिवेण जसमइहे जाउ सोहणमइ चेडयनामु राउ ।
 सुपसिद्धु अत्थि कलयठिसइ महएवि तामु नामे सुहइ । १०
 धूयाउ सत्त सिधुरगईण सजायउ राणु महासईण ।

घत्ता—पियकारिणि सुप्पह छणचदप्पह थभइ नियरुवेण रवि ।
 तह तइय पहावइ अवर मृगावड जेट्टा चदण चेल्लण वि ॥१६॥

१७

खडय—एक्कहिँ वासरि राइणा तेण पउत्त राइणा ।
 एत्थ लिहावेज्जइ वरे [वरु] आलेह वासहरे ॥

निउणयरे जणमणचित्तयार
 तत्येव य एककु महामईउ
 जंतमउ तेण रजियजणोहु
 विन्नाणिय बहु दुल्लक्खएण
 एककहिँ दिणि सोहणगुणविहूइ
 निमुणेवि वत्त देसतराउ
 पुच्छेवि गेहु गपिणु पइट्ठु
 वीसामु करेवि मुएवि खेउ
 तेण वि निएवि विणओवयार
 अच्छते तहिँ हियजणमणेण

पर नत्थि कोइ सो चित्तयार ।
 कोकासु नामु निववड्ढईउ ।
 किउ इत्थीरूवु अउव्वसोहु । ५
 खव्भालिय तेणाहयमएण ।
 चित्तयरो नामे चित्तभूइ ।
 सजायचोज्जु त नियहुँ आउ ।
 कोऊहलकरु कोकासु दिट्ठु ।
 उवएसिउ नियआगमणहेउ । १०
 जाणाविउ तहो विन्नाणु चारु ।
 चोज्जाइँ अण्येइँ कियइँ तेण ।

घत्ता—आयन्नवि राएँ सो अणुराएँ हक्कारिवि आणावियउ ।

सम्माणिवि मदिरु नयणाणदिरु सतेउरु तहो दावियउ ॥१७॥

१८

खड्य—रायाएसे चित्तय
 त महएवीरूवय

लिहिय तेण विचित्तय ।
 कन्नाण व सुरूवय ॥

रूवं चेल्लणाहँ पर एकक
 लेहणिहत्यो त भावतो
 ता मसिंविदु गलेवि विवत्ये
 आयं भावहो रूव राओ
 जाणेप्पिणु नट्टो चित्तयरो
 सजाणाविवि तेणत्थाण
 दिट्टो सेणियरायमियको
 विभिउ त पेक्खेवि नरिंदो
 पुच्छइ कहसु एह कहु केरी
 किं किन्नरि खेयरि इदाणी

केमइ नावइ भावहो एकक ।
 जामच्छइ सो तग्गयचित्तो ।
 पडिओ कम्मवसेण उवत्ये । ५
 त निएवि जाओ सकसाओ ।
 आउ रायगेहिँ चित्तयरो ।
 गपि सुरेंदसहाणु समाण ।
 दाविउ पडु चेल्लणरूवको ।
 नावइ रुप्पिणिरूउ उविदो । १०
 सव्वसलक्खण सोक्खजणेरी ।
 नायकन्न किं रइ रुदाणी ।

घत्ता—ता कहइ वियक्खणु देव सलक्खणु अत्थि विसालीपुरि निवइ ।

अहिहाणे चेडउ अनयनिहोडउ नावइ सग्गि सुराहिवड ॥१८॥

१९

खंडय—तस्स सुहदा नामिया वल्लह भज्ज सनामिया ।
जाया ताग्र किसोयरी एसा सामिय सुदरी ॥

चेल्लण नामेण अईव भव्व उवमिज्जइ कही पहयारिगव्व ।
तहि तेण एउ कयपयसिवेण हउँ रूउ लिहाविउ पत्थिवेण ।
मई सव्वु समारिउ तो वि देव पर केम वि भावही एइ नेव । ५
ता चित्ततहो दइवेण घडिउ मसिंविदु गुज्झि लेहणिहै पडिउ ।
हुउ रूउ सरूउ निएवि राउ सकसायभावु मज्झुवरि जाउ ।
तहो अत्थि चित्तु पुत्तिग्र समेउ इयरहँ कह वुज्झइ गुज्झभेउ ।
निमु ेवि एउ नासेवि रत्ति पडु लेवि आउ हउँ एह इत्ति ।
किं बहुणा सा सारगनेत्त तुह जोग्गी वरसयवत्तवत्त । १०

वत्ता—किं किज्जइ बहुयहिँ पत्थिव बहुयहिँ तिजगुक्कोडयकामसिहि ।
वर एकक वि सारी पाणपियारी अणुवमगुणलायण्णनिहि ॥१९॥

२०

खंडय—आयण्णेवि पउत्तय एय पीणियसोत्तय ।
हुउ नरवइ अणुरत्तओ कामपरव्वसच्चित्तओ ॥

अत्थाणु विसज्जि वि मतगेहि वइसेवि समति विचित्तसोहि ।
परिपुच्छिउ मयणाउरमणेण सिद्धत्थिनामु पालियजणेण ।
कह कहमुवलब्भइ सा कुमारि विणु ताग्र अससउ विरहमारि । ५
पहुव्रयणु मुणेप्पिणु पहयभति आयण्णहि भूवइ भणइ मति ।
तुज्झुवरि राउ सो असमभावि मग्गतहँ देइ न सुय कयावि ।
अहवा जइ अवहत्थियवलेण धिप्पइ कुमारि गपिणु वलेण ।
न वियत्तुँ तो किं होइ तेत्थु सां वि य अईव सामिय समत्थु ।
ससयतुलाग्र पणिय अवज्जु विरयति सुमइ न कयावि कज्जु । १०
जो जिप्पइ सो खलु वलविणासु अह हारप्पइ तो लोयहासु ।
इय जाणिवि किज्जइ देव तेम अहि मरइ न भज्जइ लट्ठि जेम ।
सिज्जइ नएण ज नउ वलेण साहिज्जइ त निच्छउ छलेण ।

वत्ता—पहु अन्नु न किज्जइ तहिँ एसिज्जइ बुद्धिवतु कोइ वि पुरिसु ।
भोलेवि स सुदरि भुयणमणोहरि जो आणइ पयणइ हरिसु ॥२०॥ १५

२१

खडय—एय मइकरभासिय

सुणिवि निवेण पससिय ।

वयणकमलु मइसारहो

जोडउ अभयकुमारहो ॥

दिट्ठीण वियाणिवि तायचित्तु
 एत्तियहँ मज्झि अहमेक्कु धन्नु
 इय भणिवि लिहाविवि पडि कुमारु
 वणिवेसे होडवि सत्थवाहु
 दियहेहिँ तत्थ सपत्तु दिट्ठु
 तेण वि सम्माणु करेवि वुत्तु
 सो भणइ नाह नायाणुचारि
 इच्छमि कयविककउ करहँ एत्थु
 ता राएँ नियनिलयहो निवासु

पणवेप्पिणु पय पुत्तेण वुत्तु ।
 पइँ जासु सामि आएसु दिन्नु ।
 पडिविवु जणेरहो लेवि चारु । ५
 बहुवक्खरु बहुजणवयसणाहु ।
 बहुरयणहिँ चेडयणिवु वरिट्ठु ।
 किं किज्जइ दिज्जइ कहि निरुत्तु ।
 तुह पायमूलि उम्मूलियारि ।
 ठाएण पसाउ हवउ पसत्थु । १०
 आसन्नु दिन्नु सइँ सपयासु ।

घत्ता—बहुकेणयसारउ [अभयकुमारउ] करइ असेसकलासु गुणि ।

कयविककउ वप्पहो कारणि अप्पहो नाउँ धरेप्पिणु वोदु वणि ॥२१॥

२२

खडय—जो कोइ वि तत्थत्थियो

जो केण वि कज्जत्थियो ।

त त तस्स विणा धण

देड सया रजइ जण ॥

हुउ पुरि पसिद्धु गुणु सव्वु कोड
 जाएप्पिणु तग्गुणरजियाहिँ
 परमेसरि एत्थायउ अउव्वु
 पडि लिहिउ रूउ सोहग्गभारु
 अच्छइ तहो केरउ सामिसालु
 जणवच्छलु कयविककउ करेड
 कोऊहलेण त सुणिवि कन्न
 चित्तवडु निएप्पिणु जणियखेउ
 आसन्नहूय गुणगोयरीण
 सजायरूढि अणुदियहु एइ

गेण्हइ अह दाणे कि न होइ ।
 चेल्लणहे कहिज्जइ लजियाहिँ ।
 नामे वणि वोदु अइवभव्वु । ५
 दुक्करु जइ तारिसु होड मारु ।
 त पुज्जइ पणमइ सो तिकालु ।
 जो ज मग्गइ त तासु देइ ।
 विभियमण तत्थागय सुवन्न ।
 पवियभिउ माणसि कामएउ । १०
 पेक्खइ त चदण सोयरीण ।
 इयरो वि हु सेणियगुण कहेइ ।

घत्ता—एककिहँ दिणि रत्तण सो एककतण भणिउ ताण गयगामियहो ।

विरहेण म मारहि मइँ साहारहि नेहि पासु नियसामियहो ॥२२॥

२३

खड्य—त निमुणेवि निवंगया तेणाणगवस गया ।

म भीसहि मडदरिसिणा भणिय कवडवणिणा तिणा ॥

पडिवालहि कइ वि दिणाईं भद्दि
इय भणिवि ममालोडवि मणेण
तेण वि कुमारिभवणतु जाम
जेट्टाए समेउ सहोयरीए
विन्नाणकलालायन्नेजेट्ट
जहिं अच्छइ तिहुयणमणु हरति
सुदरयर जहिं छणयंदकति
इय चित्तिवि परमणमेल्लणाए
वीसरिय अक्कि जायाहिसेय'
अइदुल्लहु जणमणजणियचोज्जु

जा करमि उवाउ पसन्नसद्दि ।
वाहरिवि भणिउ नियखणउ तेण ।
किय तुग सुरग मणोहिराम । ५
नीसरिय कुमारि विहावरीए ।
जगजुवईयहुं उप्परि वि जेट्ट ।
तहिं अम्हारिसियउ किं करति ।
तहिं तारियाउ कहिं विप्फुरति ।
विणएण भणिय सा चेल्लणाए । १०
सव्वण्हुपडिम कयदुरियछेय ।
अवरु वि करडु मणिमउ मणोज्जु ।

घत्ता—गुणनिहि लहु धावहि लेप्पिणु आवहि रूयपरज्जियरइपियहो ।

दूरुज्जियच्चित्तउ वे वि तुरतउ मिलहुं जेण गपिणु पियहो ॥२३॥

२४

खड्यं—आयण्णेप्पिणु सोयरी
अवियाणती वचण

वयणमिणं गुणगोयरी ।
गय पल्लट्टिवि सभवण ॥

एत्थंतरि वणिउ सलक्खणाए
म चिरावहि आवहि चारुचित्त
भयभीयहे विहियपियासयाहि
निमुणेवि एहु चित्तवइ वोद्धु
अइलोहे मत्थए भमइ चक्कु
किं लाहे मूलु वि गलइ जेण
नीसरिउ कुमारि लएवि ज्जत्ति
जामावइ जेट्टा पडिम लेवि
विलवति विलक्खी होवि कण्ण

निवपुत्तिए वुत्तु वियक्खणाए ।
को जाणइ केरिसु होइ मित्त ।
किं आवहु जाइ न जाइ ताहि । ५
अइलोहु कयाइ न होइ भद्धु ।
अइलोहे पडइ अकालचक्कु ।
इय चित्तिऊण सुदरमणेण ।
नं चेडयरायहो तणिय कित्ति ।
ता नियइ न ताईं गयाईं वे वि । १०
गय जिणवरभवणु सुवण्णवण्ण ।

घत्ता—तहिं निज्जियकामहि जसमइनामहिं पिउवहिणिहे वेल्लहलभुय ।

पयमूलि महासइ सिधुरवरगइ हुय तवसिणि भव्वयणथुय ॥२४॥

२५

खड्य—एतहि बुद्धिविसारउ
वहुववहारपवट्टण

निव्वेगेण कुमारउ ।
सपत्तो नियपट्टण ॥

सुदर सव्वगावयवपुन्न
सायरि नावइ छणयदमुत्ति
सप्पुरिसे नावइ अणहवित्ति
नवमेहावलि मोरेण नाई
सतुट्ठु जुट्ठु धरणीवईसु
सुहिसयणहिँ परमुच्छवसणाहु
दिन्नई दीणाणाहहँ धणाई
मणि हरिसु विवडिँडउ सज्जणाहँ
करकमलि वाल लगी वरासु

आलोइय नरनाहेण कन्न ।
सुयणेण व वरकइकव्वजुत्ति ।
णवपोमे णावइ अक्कदित्ति । ५
भमरेण व नववियसत्ति जाइ ।
उमवयणालोयणि नाई ईसु ।
सोहणदिणम्मि विरइउ विवाहु ।
मणिबधि विवद्धई ककणाई ।
दूसहु दुक्खाणलु दुज्जणाहँ । १०
सिरि हरिहे दया विव मुणिवरासु ।

घत्ता—अतेउरसारी पाणपियारी हुय सा सुद्धय भूवइहे ।

सिरिससहरकतिप्र भुवणु भमतिप्र धवलित्त जाहिँ महामइहे ॥२५॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणामाले अत्थसदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते एतपयदसजुत्ते ।

चेत्तएदेविविवाहो नाम इमो दोदहमु सघो ॥

॥ सधि १२ ॥

संधि १३

१

सिरिसेविष्ट चेल्लणदेविष्ट काले जते मलविलड ।
सजणियड नामे भणियड वारिसेणु सुड गुणनिलड ॥

देविष्ट सुदुट्टपरिणामुजुड
नरनाहु विण्हुधम्मम्मि रड
अन्नोन्न ताहँ दोह वि सया
एक्कहिँ दिणि सकसाएण पिया
पुरिसहुँ गुरु निच्छड विप्पयणु
चिरपुरिसपयासिड एड जए
किं बहुणा जो महुँ देड गुरु
भत्तिष्ट आराहणिज्जु हवइ
जँ गुरुहुँ विणड पिय मणहि तुहुँ

कोणिड नामेण पसूड सुड ।
चेल्लण पर मन्नइ जिणसमड ।
वहुधम्मविवाएँ दिवस गया । ५
रोसेण भणिय गयमदगया ।
महिलहे भत्तार न अन्न पुणु ।
दुग्गइ हवेइ एयम्मि हए ।
सो तुज्झि विसेसे दुरियहर ।
निसुणेवि एड चेल्लण चवइ । १०
त सव्वु अवस करणिज्जु महु ।

घत्ता—इय घोसिवि पड परिओसिवि सइँ आमतिवि घुत्तियए ।

आणिय गुरु वहुलच्छीहर अन्नहिँ वासरि भगव तए ॥१॥

२

अवभतरु पय विच्छुलिवि निया
अवयरह सय इय विण्हुपया
देप्पिणु अग्घजलि लाइयड
जाणासणु मेल्लिवि गाढभया
निसुणेप्पिणु पुहईसेण पिया
साविय भणेवि जइ अन्न नड
तो भुक्खतिसासमसमियतणु
खव्भालहुँ किं हलि महु तणड
पहुवयणु मुणेप्पिणु राणियए

गधक्खयपुप्फहिँ पुज्ज किया ।
इय भणेवि तिन्नि वाराड तया ।
सिहि जलिड पट्टे' सुहि साइयड ।
सहसत्ति पलाइवि सयल गया ।
कुविएण भणिय जिणधम्मपिया । ५
पडिहासइ धम्मायरणु तड ।
विहिँ पहरहिँ आणेप्पिणु भवणु ।
जुज्जइ तवसीयणु वहुगुणड ।
भासिड विणएण सयाणियए ।

घत्ता—त छज्जइ ज रुसिज्जइ पावेप्पिणु कारणु रमण ।

निक्कज्जड जणियावज्जड कोवु न किज्जइ अरिदमण ॥२॥

१०

३

तुहँ जाहँ पयासहि भक्तिभर
कज्जेण तेण मईं विन्न सिही
एत्थत्थि सुणिज्जउ देव कहा
कोसवी नामे अत्थि पुरी
पयपालु पयाहिउ पुहइवई
वणि सायरदत्तु धणाहिवई
तहिँ अत्थि समुद्दत्तु अवरु
अन्नोन्नु ताहँ मित्तत्ति हुय
एक्कहिँ दियहम्मि अईवसुही

गुणगुरुहँ ताहँ हउँ अहिययर ।
रोसेण नाह नउ नायविही ।
वच्छाजणत्ति कयवइरिवहा ।
सुदरपएसमय सोक्खयरी ।
जसमइ महएवि मरालगई । ५
गेहिणि तहो वसुमइ नाम सई ।
वणिवरु समुद्दत्ताहे वरु ।
बहुकालि परमपीईग्र जुय ।
सायरदत्तेण पवुत्तु सुही ।

घत्ता—गुणमदिर नयणाणदिर मित्त परोप्पर नेहगइ । १०
न नियत्तइ सुइरु पवत्तइ जिह तिह करइ विसुद्धमइ ॥३॥

४

जइ जम्मइ भज्जय पुत्ति तुह
अह मज्झ तुज्ज तो नदणहो
पडिवन्नु विहिँ मि कालेण हुउ
इयरेण वि रजियजणमणउ
तहो नायदत्त नामेण सुया
वहुदियहहिँ पीणघणत्थणिया
कहि केरिसु पुत्तिग्र तुज्ज वरु
निसिसमए सो पुणु होइ नरु
कलिकालोवमु तणु सवरिवि

ता देवी महु तणयहो सुमुह ।
देसमि फुडु नयणानदणहो ।
वसुमइयहि गत्थि भुयगु सुउ ।
पालिउ पडिवन्नउ अप्पणउ ।
सप्पहो वि समप्पिय ललियभुय । ५
पुच्छिय जणणीग्र सनदणिया ।
ता कहिउ ताग्र तारुण्णधरु ।
पुणरवि दिणम्मि फणि जणियडरु ।
अच्छइ पेट्टारग्र पइसररेवि ।

घत्ता—इय वत्तग्र वियसियवत्तग्र भणिउ जणेरिग्र करमि तिह । १०
दिहिगारउ कतु तुहारउ पुरिसु सया वि हु होइ जिह ॥४॥

५

इय भणिवि समुद्दत्त घरहो
थिय तत्थ जाम पच्छन्नतणु
नीसरिउ मुएप्पिणु कचुयउ
न कामएउ विहिणा विहिउ

गय रयणिसमग्र दुहियावरहो ।
इम लक्खइ जेम न को वि जणु ।
वसुमइहे पुत्तु ता नरु हुयउ ।
सहँ सेज्जग्र समउ पियाग्र थिउ ।

पेट्टारउ कच्चुलियण सहिउ
एत्तहिँ वसुमित्तु पहाण तहिँ
पेक्खेप्पिणु दड्हु नियासिरउ
आणदिउ वधवसयणगणु
वीयहे सुहकारणु जेम तए
अहिँवेहु मुएप्पिणु असुहयरु

ता सासुयाण धुत्तिण डहिउ । ५
आयउ पइसरहुँ करडु जहिँ ।
हुउ सव्वकालु नरु नयनिरउ ।
जायउ विभियमणु सयलु जणु ।
पज्जालणि पेट्टारयहो कए ।
सुहिँ सव्वकालु सो जाउ नरु । १०

घत्ता--हरिलोयहो निरुवमभोयहो गयहँ तेम मइँ ताहँ तणु ।
दहणत्थ परमसुहत्थं सामिसाल जालिउ जलणु ॥५॥

६

पुणरवि आवेप्पिणु दुक्खभरे
तवचरणु वि एउ निमित्तु तहु
मेल्लेप्पिणु माणवकुणिमतणु
कज्जेण एण सिहिँ जालियउ
भल्लेण विरुवउ होइ जहिँ
आयण्णवि एउ वराहिवइ
एक्कहिँ दिणे किकरपरियरिउ
अडविहिँ पइसारि समप्पपरु

पइसति न जेम सरीरघरे ।
पाविज्जइ जेण अणतु सुहु ।
ज होइ मुरारिलोयगमणु ।
पहु मइँ न को वि खव्भालियउ ।
वोलिज्जइ किज्जइ काइँ तहिँ । ५
थिउ मोणु करेप्पिणु कुवियमइ ।
पारद्धिहे नरवइ नीसरिउ ।
परमेसरु अवहीनाणघरु ।

घत्ता—मुणि जसहरु पेच्छिवि जसहरु पडिमाजोए दुरियहरु ।

काहिँ दिट्ठउ एहु अणिट्ठउ असउणु कज्जविणासयरु ॥६॥

१०

७

इय च्चितिवि सुमरिवि पावहिउ
अइरोसवसेण मुणीसरहो
वहहेउ कयंत व जणियभया
मुणिमाहप्पेण विणीय किया
ते निणवि नरिंदे निप्पसरा
मुणिनाहहो होवि पुप्फपयरु
पुणु सण्णु वित्तु मुउ झत्ति गले
रिसिवहपरिणामे तहिँ समए
वद्धाउ हवेप्पिणु उवसमिउ

गुरुदोहु महाएवीणु किउ ।
पुहईसरेण परमेसरहो ।
सुणहाण विमुक्का पच्चसया ।
दाऊण पयाहिणु पुरउ थिया ।
करे करिवि सरासणु मुक्क सरा । ५
चलणोवरि वडिउ वाणनियरु ।
तवयरणकरणणिट्ठवियमले ।
नरयम्मि नरेसरु सत्तमए ।
त चोज्जु निएवि मुणिहे नमिउ ।

घत्ता—भयवते समरिउमित्ते जाणेप्पिणु उवसतमणु ।

१०

वरभासए पुण्णपयासए उच्चारिवि आसीवयणु ॥७॥

८

दुक्कियकम्मिघणजलणसिह
निसुणेवि अणोवमु मुणिवयणु
जायउ जिणसासणि लीणमणु
नहयलि सुरेहिँ अहिणदियउ
वदेप्पिणु सिरिजसहरसवणु
दूरुज्झय मिच्छासमयमणु
चेल्लणमहएविप्र परियरिउ
एक्कहिँ दियहम्मि सहाभवणे

किय धम्मस्सवण अणेयविह ।

निवु निंदिवि अप्पुणु पुणु जि पुणु ।

पडिवन्नउ खाइउ सद्दहणु ।

ता राउ जाउ आणदियउ ।

आयउ पुहईवइ नियभवणु ।

५

सुहँ करइ रज्जु पालियसुयणु ।

रामु व सीयाप्र अलकरिउ ।

जामच्छइ पहु नरनियरघणे ।

घत्ता—आवेप्पिणु कर मउलेप्पिणु ता वणवाले विन्नविउ ।

परमेसरु नाणदिणेसरु देवदेउ सुरनरनविउ ॥८॥

१०

९

सामिय तइल्लोयलोयसरणु
जियदुज्जयकामकसायरणु
दुग्गइ दुहपकनिदाहदिणु
आयण्णेवि एउ धराधरणु
सहसत्ति कयासणपरिहरणु
परिओसिउ तद्दिसि कयगमणु
पणवेप्पिणु भूयलि लुलियत्तणु
सम्मत्ते सगयसव्वजणु
गच्छंतु सतु सपयभवणु

अमराहिवरइयसमोसरणु ।

दूरीकयजाइजरामरणु ।

विउलइरि पराइउ वीरजिणु ।

तहो देवि सव्वअगाहरणु ।

पय सत्त सुविणयालकरणु ।

५

जयदेव भणेवि पसन्नमणु ।

भेरीरवपरिपूरियभुवणु ।

गउ वदणहत्तिप्र करिवि खणु ।

सपत्तउ सेलममीववणु ।

घत्ता—वरवसउ लद्धपससउ सकरि सहरि सचमरु ससिरि ।

धरधारउ रयणहिँ सारउ नियसमु राएँ दिट्ठु गिरि ॥९॥

१०

१०

करतसच्छनिज्झरो
गिरीसु तुगदेहओ
अणेयनायनाइओ

भरतरुदकंदरो ।

तडीनिसन्नमेहओ ।

अणेयरुक्खराइओ ।

अण्यदेवयासिओ
भमतमत्तभिगओ
अण्यसावयाउलो
अण्यसिद्धेयरो
पलोइओ महीहरो

अण्यपुप्फवासिओ ।
नहमगलगसिगओ ।
अण्यचोज्जसकुलो ।
वई व जो मणोहरी ।
घराइ नाइँ सेहरो ।

५

घत्ता—तहो मत्त्यप्र दिट्ठु पसत्त्यप्र मोक्खु व तइल्लोयग्गि थिउ ।

भवभयहर सुट्ठु मणोहर समवसरणु भव्वयणपिउ ॥१०॥

१०

११

जोयणपमाणु निद्धूयमलु
नित्तलमुताहलतोरणउ
जहिँ पच्चवण्णमणिधूलिमउ
कच्चणमणिमयइँ मणोहरइँ
माणवमाणत तिलोयथुया
चउ चउ चउ दिसहिँ सुहावियउ
कीलतहंसकारउ सया
पुणु परिह विसाल पवित्तजला

अमराहिवनीलनिवद्धतलु ।
न वभु चारु चउराणणउ ।
पायारु महंतु सुरेहिँ कउ ।
अणुलगगइँ तासु अरुहघरइ ।
पुणु माणथभ जिणविवजुया ।
मणिमयसोवाणउ वावियउ ।
पप्फुल्लहिँ फुल्लहिँ दिहियपया ।
सपुरिसमइ व्व अविलद्धतला ।

५

घत्ता—चउ विसु घणु पुणु वेल्लिवणु कुसुमामोयभमियभमरु ।

हेमुज्जलु चुवियनहयलु पुणु पायारु अईववरु ॥११॥

१०

१२

वारेमु जासु निरु निम्मलइँ
वणमुर विविहालंकारघरा
मुरवहुपारंभियनच्चणउ
वाइत्तयसद्दमुहालियउ
अणवरयसुधूयधूमनिवहा
चउसु वि दिसानु दो दो पयडा
ससरोवरगिरिकेलिहरइँ
फलपुप्फपवालजालघणउ

सोहत अण्यइँ मगलइँ ।
पडिहार परिट्ठिय वज्जकरा ।
सुरगायणरजियजणमणउ ।
पुणु दो दो नच्चणसालियउ ।
वासियदियतरायावसहा ।
कच्चणमय सठिय धूयहडा ।
कीलंतसुरासुरसुदरइ ।
पुणु विउलइँ चउ नंदणवणइ ।

५

घत्ता—चउवारप्र तिप्पायाराप्र पीढि तिमेहलि मणिकिरणे ।

अडकोमलु चलकिसलयदलु सहइ असोउ असोयवणे ॥१२॥

१०

१३

देवगवत्थपच्छाइयउ
 सुरतरु वरमालोमालियउ
 गुमुगुमुगुमतमत्तालिगणे
 सत्तच्छउ वणि सत्तच्छयाहँ
 चउगोउर पुणु वि सुहावणिया
 सामीवइ ताहे दिसासु गया
 कमलद्धयहसखगिदधया
 अट्टोत्तरपडिधयसयसहिया

चउदिसि जिणविंवविराइयउ ।
 भत्तिण भव्वेहिँ निहालियउ ।
 चपउ चपयवणि सुहपवणे ।
 पवरायइ अबउ अबयाहँ ।
 वणवेइय कलहोयहो तणिया । ५
 मालावत्थद्धयमोरधया ।
 केसरिगोविसकरिचक्कधया ।
 सोहति विचित्तायमं कहिया ।

घत्ता—बहुसीसउ लद्धपससउ गुरु विव जणमणचित्तयर ।

लिहियवरु चउगोउरवरु पुणु पायारु विचित्तयर ॥१३॥

१०

१४

जहिँ मरगयदडासत्तकरा
 पुणरवि धूवहडनट्टहरइ
 पुणु कप्पमहीरुह सोक्खयरा
 बहुमगलदव्वविराइयइ
 तारावइकतसियच्छविया
 दिव्वतदेवनियरावरिया
 नव नव अइउन्नय नाई धरा
 रयणमयइँ रजियजणमणइ
 पुणु मुणिसहमडवधम्मकहा
 पुणरवि गरुययरु अणोवमउ

पवलिहिँ पडिहार नायकुमरा ।
 नवरसजुत्तइँ जणमणहरइ ।
 पुणु जवूणयवेइय पवरा ।
 चउदारइँ पुणु विमहाइयइ ।
 अणवरयवेणु वीणारविया । ५
 पासायपति सुमणोहरिया ।
 मणिपुजविचित्त तमोहहरा ।
 पुणु पतिनिवद्धइँ तोरणइ ।
 तोसिय खयरामरमणुयसहा ।
 पायारु परिट्टिउ फलिहमउ । १०

घत्ता—तहिँ किर कप्पुवभव नाई मणुवभव देवदिवायरतेयहर ।

इदाणण जत्थ पहाणण दारवाल थिय दडकर ॥१४॥

१५

आयासफलिहनिव्वत्तियउ
 ताणुप्परि मणिमडवु सहइ
 सोलहसोवाणहिँ सोहियउ
 थिय पीढु मणोहरु मज्झं तहो

तहो लग्गोवि सोलह भित्तियउ ।
 जो सरयणगयणलील वहइ ।
 वर वेरुलिएहिँ पसाहियउ ।
 भुवणत्तयपीढु नाइ नहहो ।

चउदिसु तहो उवरि निहाणधरा
 पवरट्टमहाधयसोहधर
 जे भीयर मोहचक्कु पहउ
 जो दुद्धमु मणकरि वसि करइ
 विसु धम्मु पयासिउ जेण जए
 जमु मुहकम कमलनाहु नवइ
 जो नीरवर अवर मुणइ
 जो निठभउ सीहु व पहयमउ
 जो विसयकसायसप्प दमइ

थिय धम्मचक्ककर जक्खसुरा । ५
 तहो उवरि सुवन्नवीढु अवरु ।
 तहो रेहइ रयणरहगधउ ।
 तहो तवेरमु धउ अणुसरइ ।
 तहो नत्थि भत्ति विसु थाए धए ।
 तहो निच्छउ कमलकेउ हवइ । १०
 तहो अवरच्चिधउ को हणइ ।
 तहो अवसे सोहइ सीहधउ ।
 सो विणयासुयवडाय लहइ ।

घत्ता—मुक्काउहु भडकुसुमाउहु जासु मएण पणट्ठु रणे ।

अनिवारिउ होइ निरारिउ कुसुममालधउ तासु जणे ॥१५॥

१५

१६

अवरु वि तासुवरि विचित्तयर
 जवूनयमउ मणिविप्फुरिउ
 तहिँ सठिउ सोहइ भुवणगुरु
 मरगयलट्ठीए महाइयए
 छत्तत्तउ सहइ समुद्धरिउ
 रविकोडिसमप्पहु भावलउ
 आरत्तपुप्फथवयचियउ
 गयसोयहो पासँ असोयतरु

छज्जइ पीढत्तउ चित्तयर ।
 पुणु भद्दासणु सीहहिँ धरिउ ।
 तइल्लोयसिरम्मि व मोक्खपुरु ।
 कक्केयणपव्वविराइयए ।
 निरु निम्मलु न नाहहो चरिउ । ५
 जणनयणहँ तइ वि हु सीयलउ ।
 न अमयरसोहे सिंचियउ ।
 नं दीसइ निग्गउ रायभरु ।

घत्ता—न अक्खइ गुज्जु न रक्खइ दुदुहियुरुसरेण जणहो ।

मा मुज्जह सहिउ विउज्जह गलइ पावु पणवहो जिणहो ॥१६॥

१०

१७

वरपरिमलामोयवासियदियत्ताइँ
 न देव अच्चासणाभएण रिक्खाइँ
 चउसट्ठि जक्खामरा चमर चालति
 णं केवलन्नाणजरपुरिसकेसोहु
 गभीर मुपसन्न सयलत्थ मयखाणि
 वहुरस [विडविया-] ह धार व्व जलयस्स
 जं ज जए किं पि किर वत्थु सुपसत्थु

गयणाउ निववंति कुसुमइँ विचित्ताइँ ।
 महि धिवहिँ अप्पाणय मुणियसिक्खाइँ ।
 जिण खीरसायरतरग व्व दीसति ।
 चिरुपुण्णपवणेण सचलइ कयसोहु ।
 पवियंभए परममहवीरजिणवाणि । ५
 नियनियहिँ भासाहिँ परिणमइ सव्वस्स ।
 त तं तहिँ निहिउ आणेवि सव्वत्थु ।

अन्नोन्नचिरवइरु नउ को वि सभरइ
सव्वत्थ परिभमइ जहिं जहिं जि मणदिट्ठि
सुनियत्थसुपसत्थनेवत्थवरकाय

अणवरउ परमाए मेत्तीए सचरइ ।।
तहिं तहिं जि खयरामरापणयपरमेट्ठि ।
नियनिलउ नीसुन्नु काऊण न आय । १०

घत्ता—सिरिसरसइ मेल्लेप्पिणु सइ दूरोसारियभवरिणहो ।
को य क्कइ वण्णहुं सक्कइ समवसरणसपय जिणहो ॥१७॥

१८

उन्नइ घरतरुथभहं तणिया
पायार थूहमणि वेइयउ
महि मेल्लिवि पचसहासधणु
जहिं जिणवयणामयलीणमणु
रिसि पढमि वोए कप्पामरिउ
तुरियइ जोइसियहं सुदरिउ
छट्टए भवणामरजुवइजणु
अट्टमइ अट्टविहसुरनिवहु
दहमए कप्पामर पणयपरा
वारहमए हरि करि किडि ससया
अणवरउ जत्थ सगीयसरु
सहुं सेन्ने हरिसुद्धु सियतणु

जिणतणुमाणे वारहगुणिया ।
अट्टउणउ नवर निवेइयउ ।
ज थिउ गयणगणि रम्मतणु ।
वारहकोट्टेसु निविट्ठु जणु ।
तइयम्मि कोट्टे सयमधरिउ । ५
पचमइ वियाणह वेतरिउ ।
सत्तमए ताहं भत्तारगणु ।
नवमइ नक्खत्त थिया सपहु ।
एयारहमए नीसेस नरा ।
सिहि सप्प अवर तिरियच सया । १०
सयलु वि जणु जयजयकारपरु ।
तहिं राउ पइट्ठु पहिट्टमणु ।

घत्ता—पेच्छिवि सुहु जिणदेवहो मुहु विहसिउ मगहाहिववयणु ।
सिरिचदहो जयणाणदहो दसणेण न कुमुयवणु ॥१८॥

विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
भुवणाविदिदनामे सव्वदोमोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते कहकोसे एत्थ सेणियक्खलाणे ।
जिणसमवसरणरयणानिरूवणो एस तेरसज्झाउ ॥

॥ सधि १३ ॥

संधि १४

१

संवडम्मुहु सव्वणहु पेक्खेप्पिणु अणुगएँ ।
पणवेप्पिणु पारद्धु थुणहुँ भडारउ राएँ ॥

जय जय परमेसर परममेह ।
जय पउलोमीपियपणयपाय
जय अट्टमहामयमयकिराय
जय दुग्गइदुक्खसमुद्दपोय
जय भुवणवधु वधवविहीण
जय विसमविसयविसहरविराय
जय सिद्ध बुद्ध सिव परमहस
जय दूरीकयमायापवच
जय सधरधराधरणेक्कसेस
जय उक्खयमोहणविडविमूल
जय जय तिसल्लभजणसमत्थ
तुहुँ कामवेणु कमणीयकाउ
तुहुँ सासयपुरपहसत्थवाहु
तुहुँ निक्कलकु सयलावलोउ
तुहुँ देवदेउ जगगुरु न भति
तुहुँ चित्तियदाइ दुहोवसामि

जय भुवणावयसिहिममणमेह ।
जय दूरोसारियतरयपाय ।
जय तणुतेयाह्यर्किकिगय । ५
जय कामकुभिपचासपोय ।
जय भव्वकमलवाहण विहीण ।
जय सत्तुमित्तसममण विराय ।
जय सीलसरोवरपरमहस ।
जय जाणियनिहिलजयप्पवच । १०
जय सामिय दुद्धरवयविसेस ।
जय सिद्धिपियापट्टवियमूल ।
जय कोहविमुक्क महासमत्थ ।
पइँ पालिउ छज्जीवहँ निकाउ ।
पइँ न किउ किवावरसत्थवाहु । १५
तुह कित्तिग्र धवलीकउ तिलोउ ।
तुह भत्तहँ भवकाणणे न भति ।
हउँ अन्नु न मग्गमि कि पि सामि ।

घत्ता—सासयसोक्खनिवासु भवि भवि भवभयवज्जिय ।

नियचरणोवरि भत्ति महुँ दिज्जउ जयपुज्जिय ॥१॥

२०

२

इय जिणु थुणेवि पत्थिववरिट्ठु
जिणवयणहो निग्गय दिव्ववाणि
तस थावर ते वि वहुप्प्यार
दो दोस त्तिकाल तिभेयपत्तु
गइ गारव गुण गुत्तीउ त्तिन्नि
चउ सन्नउ वध वि चउ कसाय
वय विणय समिदि सज्झाय पच

मुणि वंदिवि नरकोट्टुग्र वइट्ठु ।
तहिँ निमुणिय तेण दुभेय पाणि ।
अणुहुत्तसुहामुहकम्मभार ।
सल्लत्तउ रयणत्तउ पवित्तु ।
जग जोय वेय मरु मूढ त्तिन्नि । ५
आराहण गइ चउ मुरनिकाय ।
पचत्थिकाय परमेट्ठि पच ।

छव्वासय छल्लेस्सासहाव
छज्जीव काल पोग्गलविसेस
ठाणडँ सघादणड छ चये

छद्द्व्व छरस अन्नन्नभाव ।
मिच्छत्तनडहो छादण विसेस ।
तच्चाडँ सत्त मय सत्तभेय ।

५

घत्ता—सत्तपयारु सरीरु अट्ट सिद्ध गुणगणिया ।

कम्मु वि अट्टपयारु अट्टा भय मय भणिया ॥२॥

३

नव वभचेर नवविह पयत्थ
उत्तमखमाड दहभेउ धम्मु
एयारह रुद्द रउद्दभाव
वहुमुयवित्थारेयारसग
वारह मुणिपडिमउ दुक्कराउ
चारित्तु सुगडगमणहो उवाउ
रयणाडँ चउद्दह मग्गणाउ
चउद्दह आहरणडँ रज्जुयाउ
चउद्दह मल जीवसमासभेय
गुणठाण चउद्दह पुव्व वत्थु

नवविह गह तह नव नय पयत्थ ।
दस पायच्छित्तडँ सवणधम्मु ।
एयारह सावय पहयपाव ।
वारहविह तव कयकामभग ।
अणुपेक्खउ कम्मखयंकराउ ।
किरियाउ तहा तेरहविहाउ ।
चउद्दह नईउ दुत्तरवणाउ ।
सोयारपिंडयडहि जुयाउ ।
कुलयर वि चउद्दह मइसमेय ।
अभतरु चउद्दहभेउ गथु ।

५

१०

घत्ता—पनरह जोयपमाय कम्मावणिउ निरुत्तउ ।

सोलह सग्ग कसाय तह भावणउ पवित्तउ ॥३॥

४

दससत्ता सजम दुरियठाय
नाहज्जभयणडँ एऊणवीस
सवलेक्कवीस परिसह दुवीस
तित्थडँ चउवीस सुहावणाउ
छव्वीस पुहइभेयतराहँ
आयार कप्प पर अट्टवीस
दुम्मोयमोहठाणाडँ तीस
वत्तीस महत्त जिणोवएस
ज सुहुमु थूलु जइ किं पि वत्थु
णाणासुहदुक्खनिरतराडँ

अट्टारस भासिय सपराय ।
असमाहीठाणडँ होति वीस ।
तियअहिय ठाणविही वि वीस ।
पणवीस महव्वयभावणाउ ।
गुण सत्तावीस जईसराहँ ।
पावहो सुत्तडँ एऊणतीस ।
कम्महो विवाय खलु एक्कतीस ।
तेत्तीसच्चासणभेय दोस ।
ज नत्थि हुयउ होसइ समत्थु ।
सव्वाण कहाउ भवतराडँ ।

५

१०

घत्ता—आयण्णेप्पिणु सव्वु वड्ढियपरमाणदे ।

पुच्छिउ गोत्तमसामि निययभवाइ नरिदे ॥४॥

५

भणइ राउ पयपणयगत्तओ
 किं कय वय जयपहाणओ
 त सुणेवि नवजलहरज्झुणी
 नियसिरग्गओथभियवरो
 पज्झरतसरभरियकदरो
 दत्तिदत्तनिम्बिन्नदेहओ
 सुरसभूहसेवियतडावणी
 नरवइ व्व मायगसारओ
 जिणहरो व्व हरिसेविओ सया

कहसु काइँ हउँ सामि होतओ ।
 जेण एत्थ सजाउ राणओ ।
 कहइ मगहनाहहो महामुणी ।
 अत्थि एत्थ धरणीयले धरो ।
 विंझु नामु तरुनियरसुदरो ।
 कयरणो व्व सुहडो सलेहओ ।
 गिरिपहाणु दिणयरसिहामणी ।
 सिरिहरो व्व सारगधारओ ।
 जासु भत्तिपर विविह सावया ।

५

घत्ता—तम्मि गिरिदि रउद्दु सीहु व पहयकारिदउ ।

१०

खइरसारु नामेण अत्थि पयडु पुलिदउ ॥५॥

६

पाणिवहपवड्ढियदप्पकडु
 भपडवमालतरुसरिससीसु
 दीहरउद्दुतरुविरलदंतु
 एक्कहिँ दिणि तेण सकतएण
 तरुमूलि निसन्नु तिगुत्तिगुत्तु
 मुणि माहप्पेणुवसतु जाउ
 वइणा पवुत्तु कयपावसुद्धि
 त वयणु सुणेप्पिणु वणयरेण
 कहि सामिय वुच्चइ काइँ धम्मु

करकयपयडकोयडदडु ।
 आरत्तनेत्तु भूभगभीसु ।
 गवलालिवणु नावइ कयतु ।
 काणणि कीलाए भमतएण ।
 आलोडउ साहु समाहिगुत्तु ।
 पाएसु पडिउ समहिलु चिलाउ ।
 सभवउ वच्छ तुह धम्मवुद्धि ।
 पुच्छिउ रिसि सिरि सगयकरेण ।
 आयण्णवि भासइ समियकम्मु ।

५

घत्ता—सो फुडु भण्णइ धम्मु जहिँ न जीउ मारिज्जइ ।

१०

खज्जइ असुइ न मसु जत्थ न सुर महु पिज्जइ ॥६॥

७

सो भण्णइ धम्मु असच्चचाउ
 मुच्चइ परयारु अणत्थमूलु
 वज्जिज्जइ परपेसुन्नभाउ
 जो करइ एउ सजणियसोक्खु
 निमुणेवि एउ पुणरवि पुलिदु
 ज भासिउ तुम्हहिँ सोक्खहेउ

धिप्पइ परदव्वु न जणियताउ ।
 निसिभोयणु धम्मसिरम्मि सूलु ।
 परवचणु दुग्गडगमउवाउ ।
 सो नियइ कयावि न किं पि दुक्खु ।
 बोल्लइ पप्फुल्लमुहारविदु ।
 जो सव्वु न सक्कइ करहुँ एउ ।

५

ज सककइ तं जइ करइ कोइ
मुणि भणइ होइ नंदण निरुत्तु
तो जं सककइ त करइ चारु
परमत्थे एण कमेण जीउ

तो तासु धम्मु किं किं पि होइ ।
छुडु देवगुरुप्परि अचलचित्तु ।
सद्धइ इयरु वयसीलभारु ।
पावइ परसुहफलु पुण्णवीउ । १०

घत्ता—मुणिवि एउ भिल्लेण मुणिहे परज्जियमारहो ।

लइय नवेवि निवित्ति वायसमासाहारहो ॥७॥

८

गउ साहु कहिमि सव्वोवयारु
कालेणासोत्तियदेहसाहि
ओसहविहाण किउ निरवसेसु
वल्लिपलभोयणु वज्जरइ विज्जु
तहो सालउ' सुहिमुहसज्जणेहिँ
ता सूरवीरनामेण तेण
निवभयमण नयणंमुय मुयति
मुक्कालय हा हा पिय भणति
सो भणिउ ताइँ ह्यइदुसोक्खु
जज्जाहि वप्प तुहुँ चलिउ जत्थ
पुणु भणिउ तेण रक्खहि म गुज्जु
सा भणइ वीर निस्सकचित्त

निवपल्लिनिवासहो खइरसारु ।
जायउ गिंभु व दुहदाइ वाहि ।
पर किं पि नेव जायउ विसेसु ।
त मणइ मणावि न कयपइज्जु ।
कोक्किउ पियाए सुहिसज्जणेहिँ । ५
सारसपुराउ आवतएण ।
आलोइय वरकामिणि रयति ।
पुच्छिय किं रोवहि हरह भति ।
रोविज्जइ अप्पणउ दुक्खु ।
कि कहियए अम्ह कहाए एत्थ । १०
कहि का तुहुँ किं मणि दुक्खु तुज्जु ।
अक्खिज्जइ जइ जायइ परिउत्त ।

घत्ता—ता भणिय सूरवीरेण मा भी रयहि ससुदरि ।

ज मइँ सिज्भइ कज्जु त कहि करमि किसोयरि ॥८॥

९

भणिय ससिवयण विसालनेत्त
दिढमणु सुयमुणिवरवयणसारु
सो कायमांसवज्जणफलेण
सव्वहिँ सुरगइहिँ विणासहेउ
भज्जइ पइज्ज तहो तणिय जेण
ते रयमि भाउ नउ अन्नु मौसु
सुदरि पइज्ज दिढवयहो जासु
गउ एम भणेवि तुरतु तेत्थु

वडजक्खणि हउँ वणि एत्थु मित्त ।
जो तुह वहिणीवइ खइरसारु ।
होसइ महु पिउ पुण्णहो वलेण ।
वुत्तउ पर खाइ न कयविवेउ ।
ते तुहुँ तहिँ आहूयउ जणेण । ५
निसुणेवि भणइ सजायतोसु ।
को करइ सयाणउ भगु तासु ।
वहिणीवइ मरणावत्थु जेत्थु ।

घत्ता—गपि पयासियनेहु वाहिविलीणु सविणएँ ।

दिट्ठु सहोयरिकंतु विहसियमुहु कयपणएँ ॥१॥

१०

१०

पुणु भणिउ भणइ ज किं पि वेज्जु
जे सुहि सुहु होइ सरीरु रम्मु
लइ खज्जउ जगलु वायसासु
दिढमणु अरवगणियवाहिवाहु
ते भणिउ जाइ जइ पलइ काउ
निट्ठाहु निएप्पिणु सहरिसेण
पुणु जक्खिदेवित्तनु तासु
आयणिवि परियाणियविसेसु
कयसच्चजीवमासहो निवित्ति

त किज्जइ चित्तिज्जइ सकज्जु ।
जीवतहँ होसइ धम्मकम्मु ।
पुणु तासु करेवउ दोसनासु ।
निसुणेवि एउ वज्जरइ वाहु ।
भजमि वउ तोवि न खामि काउ । ५
भत्तारु पसंसिउ ससह तेण ।
पायडिउ भावि सुरलोयवासु ।
सतुट्ठु सुट्ठु मणि वणयरेसु ।
एत्तहे हय काले पाणसत्ति ।

घत्ता—मुउ निम्मोहु धरेवि गुरुगिर चित्तं चिलायउ ।

देउ दिवायरु नामु पढमसग्गे सजायउ ॥१०॥

१०

११

कहिँ असुइ चिलायत्तणु अहम्मु
इय जाणिवि दूरि विमुक्ककम्मु
एत्तहे काऊण परोक्खकज्जु
पियसोयाहय विच्छायकति
एतेण तेण पुणु दिट्ठु देवि
किं पालियवयमुक्कियसणाहु
ता कहिउ रयतिग्र ताग्र तासु
ज कहिउ भावि वरइत्तलाहु
काऊण सच्चपलकवलचाउ
सपन्नुत्तमदेवत्तलाहु
वयणेण एण जक्खिहँ तणेण

कहिँ देवत्तणु सुइ परमरम्मु ।
भणु केम न किज्जइ जइणधम्मु ।
तहिँ थाग्र थवेप्पिणु भाइणेज्जु ।
साहारिवि ससहोयरि रयति ।
वोत्तलाविय जमला कर करेवि । ५
हुउ महु वहिणीवइ तुज्जु नाहु ।
किउ मइँ सयमेव सकज्जनासु ।
हरिसिउ तुह वयणु सुणेवि वाहु ।
गुरुपय सुमरेवि महाणुभाउ ।
महु पुणु वि तहट्ठिउ विरहडाहु । १०
जाएप्पिणु विभियमाणसेण ।

घत्ता—नावयधम्मु समाहिगुत्तमुणिहँ पणवेप्पिणु ।

लउउ सूरवीरेण ससग्र निवित्ति करेप्पिणु ॥११॥

१२

सुदरु मंजणियजणाणुराउ
उवमेणिउ नामें गुणनिहाणु

इह रायगेहनयरम्मि राउ ।
होंतउ विवक्खमाणावसाणु ।

सइ सककहो सिरि व सिरिहरासु
 सो खइरसारसुरु सूणु ताहे
 सो तुहुँ नरिद नयणाहिरामु
 नेमित्तियवयणे राणएण
 पुव्वज्जियकम्म पेरिओ सि
 गउ णदिगामु तत्थ वि दिएहिं
 सम्माणिरुण अप्पाइओ सि
 मिच्छामयपरिणामे हओ सि

वल्लह सुप्पह महएवि तासु ।
 सजायउ सइहे अणोवमाहे ।
 सेणिउ नामेण ह्यारिथामु । ५
 मडिवि मिसु मतवियाणएण ।
 जाणेवि जोगु नीसारिओ सि ।
 अवगण्णिओ सि भयभीयएहिं ।
 भगवेण सधम्महो लाइओ सि ।
 सहुँ वणिएँ कचीपुरु गओ सि । १०

घत्ता—वणिणा तहिं तेण नियसुय सुट्ठु रवणी ।

नामे अभयमइ त्ति' तुज्झु विवाहहुँ दिण्णी ॥१२॥

१३

उप्पन्न पुत्तु तहे अभयनामु
 एत्तहे ताए पडिवन्न वाय
 मगहाहिवु करिवि चिलायपुत्तु
 पारद्धु अणाउ अयाणएण
 परिवारें तुहुँ पेसेवि पुरिसु
 आवेप्पिणु देप्पिणु धम्मदारु
 पडिगाहिउ कोसु असेसु देसु
 पुहईस पुव्वदूसणवसेण
 सताविउ पइँ सपयपगामु

सुरगुरु मईग्र रूवेण कामु ।
 निव्वाहिय पालिय नियय छाया ।
 धीरेण महातउ तिव्वु तत्तु ।
 परिपीडिय पय तव राणएण ।
 आणाविओ सि जणजणियहरिसु । ५
 निद्धाडिउ सो पइँ अनयकारु ।
 जाओ सि वप्प तुहुँ मागहेसु ।
 रोसेणालियपेसणमिसेण ।
 दडहुँ पारभिउ नंदिगामु ।

घत्ता—एत्तहे अभयकुमारु नेहभावरसभरियउ ।

१०

लहहुँ सुद्धि तउ तणिय कचिपुरहो नीसरियउ ॥१३॥

१४

आवतु वलेप्पिणु तहिं पइट्ठु
 पुच्छेवि सुमइणा किउ उवाउ
 आणाविउ जुत्ति करेवि धुत्तु
 सभासिउ दरिसिउ परमपेम्मु
 नामेण सम्म चिरजम्मपत्ति
 पालिवि सावयवय समियकम्म
 तत्तो चुय चेडयरायधूय
 तहि रूउ चित्तयारें मणोज्जु
 १२. नदयसत्ति ।

कदतु कणतु जणोहु दिट्ठु ।
 धीरिउ तुह दायहो दिन्नु दाउ ।
 परियाणिउ पइँ अप्पणउ पुत्तु ।
 आणाविउ पुणु नियनारिजुम्मु ।
 तुह मरणदुक्खसखीणगत्ति । ५
 हुय कत तुज्झु सोहम्मि रम्म ।
 सजायाणोवम परमरूय ।
 एत्थाणिउ जणमणजणियचोज्जु ।

त निग्रवि नराहिव विहियखेउ
न सुहाइ किं पि पेक्खवि अवत्थ

पवियभिउ तुह मणे मयरकेउ ।
गउ वरमइ अभयकुमारु तत्थ । १०

घत्ता—विरएप्पिणु विन्नाणु सयलकलागमसारी ।

आणिय चेल्लिण तेण हुय महएवि तुहारी ॥१४॥

१५

सजाउ परोप्परु रम्मु पेम्मु
अन्नोन्नव्भासियदोसजालु
एक्काहिं दिणि देविप्र भगवसत्थु
निसुणेप्पिणु पडै गरहिय सपत्ति
थिउ मोणु करेप्पिणु तुहुँ समन्नु
तहिँ दिट्ठु महामुणि मयणतासु
दट्ठूण पहूउ पहूउ खेउ
कहिँ दिट्ठु अणिट्ठु विमुक्कलज्जु
इय चित्तिवि पडै पचाणण व्व
मुणिमाहप्पेण तमेण मुक्क
आलोइवि साण अलग्गमाण

अहवा को लंघइ पुव्वकम्मु ।
गउ धम्मविवाएँ विहि मि कालु ।
खव्भालिउ किउ आणिवि अणत्थु ।
ता कहिय ताप्र दिट्ठंतजुत्ति ।
अन्नहिँ दियहम्मि गओ सि रत्तु । ५
नामेण जसोहरु जसनिवासु ।
पारद्धिहिँ एहु अलाहहेउ ।
खलु खवणउ खाउ कयतु अज्जु ।
निम्मुक्क पघाइय सुणह सव्व ।
काऊण पयाहिण पुरउ थक्क । १०
पुणु रोसवसेण विमुक्क वाण ।

घत्ता—सरसमूहु कुसुमोहु होप्रवि पडिउ न लग्गउ ।

तुहुँ मुणिमहिम निएवि उवसमभावि वलग्गउ ॥१५॥

१६

पणवेप्पिणु समपरिणइसणाहु
तेण वि मुहदुहगइगमणहेउ
निम्मुणेप्पिणु सासयसुहनिहाणु
जो विहिउ साहुवहकरणि भाउ
कट्टिवि तउ निरु निम्मलमणेण
गुरुसवेगेण मणोहिरामु
भुवणवइपणयपायारविदे
तिन्नि जि सवच्छर अट्ट मास
एत्तिप्र अच्छंतिप्र तुरिप्र काले
सीमतनरप्र दुक्खहो खणीहिँ

सथुउ पयभत्तिभरेण साहु ।
उएसिउ धम्माहम्मभेउ ।
पडिवन्नउ खाइउ सदहाणु ।
त सत्तमनिरप्र निवद्धु आउ ।
पुणु वद्धु पढमि दसणवलेण । ५
एत्थज्जिउ पडै तित्थयरनामु ।
निव्वुइपरे सम्मइजिणवरिदे ।
दस अवर वियाणहि पंच दिवस ।
पंचत्तु ह्वेसइ तुह वयाले ।
जाएवउ पडै पढमावणीहिँ । १०

नारइउ निरतरदुक्खवरिसु
नीसरिवि तओ ह्यदुक्खजालि

होसहि चउरासी वरिससहसु ।
ओसप्पिणीहे तइयम्मि कालि ।

घत्ता—सिरिचदुज्जलकित्ति जगगुरु सव्वसुहकरु ।

नामे पोमु महाड होसहि तुहुँ तित्थकरु ॥१६॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

भुरिासिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णत्तपयदसजुत्ते ।
चउदहमो सधीमो सेणियचिरजम्मकहराक्खो ॥

॥ सधि १४ ॥

संधि १५

१

एउ सुणेप्पिणु पुणरवि सेणिउ विन्नवइ ।

कहि कालक्कमु केरिमु होसइ साहुवइ ॥ धुवय ॥

कहि केत्तिय अच्छइ अवसप्पिणि
केरिमु ताहँ सहाउ वि होसइ
भो मगहामडलवइ सुहमइ
पइँ परोक्खि ह्यग्र तिहिँ वरिसहिँ
गयहिँ चउत्थग्र कालि पवित्तग्र
सावणपडिवयदिणि पडसेसइ
वीसुत्तर वरिसहँ सउ सुदर'
तहो पवेसि सव्वण्हुपउत्तउ
तम्मि पहीयमाणि पाडलिपुरि

कइयहुँ होसइ सा उच्छप्पिणि ।
एउ सुणेवि महामुणि घोसइ ।
आयण्णेहि कालकमपरिणइ । ५
अट्ठहिँ मासहिँ पणदह दिवसहिँ ।
आसाढहो पुण्णिमग्र समत्तग्र ।
पचमु कालु रउद्दु ह्वेसइ ।
परमे मणुयाणं सत्त जि कर ।
आउसररीरपमाणु निरुत्तउ । १०
वरिसि सहासि गयम्मि मणोहरि ।

घत्ता—नामे दुम्मुहु दुम्मुहु कक्की भूमिवइ ।

होसइ रिसिभिव्वद्ध लेसइ दुट्ठमइ ॥१॥

२

साहु वि उपन्नावहिनाणउ
सव्वाहारहो चाउ करेप्पिणु
भिव्खागहणेणतरं कक्की
पावे नरयालग्र पडसेसइ
चोज्जु निएप्पिणु तहिँ विँभियमणु
करिवि नियत्तणु दुक्कियकम्महो
वरिसहँ सहसि सहसि एक्कक्कउ
ताम जाम विसए एक्काहिय

परियाणेप्पिणु कक्की राणउ ।
जाएसइ सुरलोउ मरेप्पिणु ।
मारेवउ वज्जेण सुवक्की ।
अनयाचारहो सति न दीसइ ।
दुम्मुहरायसु आडउ बहु जणु । ५
लगेसइ दिहु जिणवरधम्महो ।
होसी कक्की निवु नयमुक्कउ ।
सयल वि एम मरेसहिँ साहिय ।

घत्ता—कहइ महामुणि रायहो समयसहावु पुणु ।

दुक्खिउ दीणु दरिदिउ होसइ सव्वजणु ॥२॥

१०

३

निग्गुणु निट्ठुरु^१ परसताविरु
माणुत्ताणउ रोसपरव्वसु
मज्जमसपिउ पावासत्तउ
सव्वु वि परपरिवाउनिलीणउ
जलयावलि पविरलु वरिसेसइ
रोउ रउद्दु दुहिव्वु हवेसइ
पुत्त पियर घराउ घल्लेसहिँ
तवसि वि माढावन्नु करेसहिँ
विप्प वि किसिकम्महो लग्गेसहिँ

वचणसीलु असच्चपलाविरु ।
परदारारउ ईहियपरवसु ।
कुगुरुकुदेवकुधम्महँ भत्तउ ।
विरलउ होसइ को वि कुलीणउ ।
मेडणि किंचि किंचि फलु देसइ । ५
सयलु वि जणु जणेण खज्जेसइ ।
देवभोय पुहईस लएसहिँ ।
निय छक्कम्मइँ दूरे चएसहिँ ।

घत्ता—करभरु पउरु करेवउ सुद्धहिँ राणएहिँ ।
होएवउ चडालहिँ आयमजाणएहिँ ॥३॥

१०

४

खिसत्तणु^१ काही कुलउत्तिय
नउ मन्नेवउ गुरुहुँ गुरुत्तणु
नउ निव्वाहेसहिँ पडिवन्नउ
भरियउ अइभरियउ जि भरेवउ
छेत्तइँ ऊसरत्तु जाएसहिँ
गामहणइँ पिंपिलसंकिण्णइँ
पयहिय पयणियजणसतावे
अक्खमि केत्तियाइँ बहुरूवडँ
आयण्णहिँ भो आगामिय जिण
एत्तियमेत्ते तम्मि अछत्तण

होसइ चल परपुरिसासत्तिय ।
छडुवेउ सीसहिँ सीसत्तणु ।
मित्तहिँ काहीसहिँ पेसुन्नउ ।
निद्धणु सयलु वि परिहरएवउ ।
धन्नइँ अवदायइँ नासेसहिँ । ५
रण्णइँ वव्वुलचोरहिँ छन्नइँ ।
पुहईसर कलिकालपहावे ।
अवरइँ होसहिँ जाइँ विरूवइँ ।
चउयालीस मास पणरह दिण ।
जणवड दुक्कियकरणि पवत्तण । १०

घत्ता—कोसलपुरि दुद्दसणु सयलधराहिवइ ।
सव्वह पच्छिमु कक्की^२ होसइ इह निवड ॥४॥

५

एक्कहिँ दिणि सहाण अच्छत्तउ
किं महु कोइ वि अत्तिय असिद्धउ

पुच्छेसइ सो निययमहतउ ।
तामासेसइ बुद्धिसमिद्धउ ।

३. १ निट्ठउ ।

४. १ एसत्तणु । २ कक्कीस ।

सयलु लोड सयलु वि पासडिड
 एक्क मुएवि साहु निगँथा
 एउ मुणेप्पिणु पुणु पुच्छेसइ
 ताहँ अउव्व का वि गड नरवर
 गभीरत्तणेण रयणायर
 सच्चसउच्चाचारपरायण
 सव्वसत्तसुहयारि^१ पसिद्धा
 मुरनरपुज्जणिज्ज तिहुयणगुरु
 निच्चनिरजणम्मि अणुराइय
 सीलसहाय खतिरहे थाइवि

केर कराविउ पई बहुदडिड ।
 अवर सव्व तुह नामियमत्था ।
 केरिस ते पुणु मति कहेसइ । ५
 जे धीरत्तणेण सुरगिरिवर ।
 जे ग्रन्नाणधारदिवायर ।
 नहनिम्मलमण गुणगणभायण ।
 नउ कासु वि पवणवपडिवद्धा ।
 जे जाएसहिँ मोक्खमहापुरु । १०
 सूरवीर महसत्त महाइय ।
 सजमकवएँ तणु पच्छाग्रवि ।

घत्ता—दिहु दसणु वाणासणु लेप्पिणु ज्ञाणसर ।

जेहिँ कसाय परीसह किय रिउ निप्पसर ॥५॥

६

निम्मलकित्तिवडायालकिय
 मेल्लिवि देवदेउ सामन्नहो
 जे निच्छय निप्पिह पहयत्तिय
 किं बहुणा जइ ते परमेसर
 तो हुकारमेत्तवावारे
 इय वयणावसाणं सकसाएँ
 कहसु सुमइ साहारियकाएँ
 मंति भणेसइ भिक्खाहारे
 त गेणहहु आसन्नविणासे

कामकरीकेसरि निस्सकिय ।
 जे मणसा वि नमति न अन्नहो ।
 ते तुह केम हति वसवत्तिय ।
 केम वि कोवु करति नरेसर ।
 तेलुक्कु वि डहति अवियारे । ५
 पुणरवि सो पुच्छेवउ राएँ ।
 निव्वहति ते केण उवाएँ ।
 सुणवि तेण दुक्कियपव्वभारे ।
 सपेसेवउ पुरिसु हयासे ।

घत्ता—तम्मि कालि एक्को च्चिय होसइ एत्थ जइ ।

सायरचदु पसिद्धउ नामे चारुमइ ॥६॥

१०

७

सायरदत्तु नाम पालियवउ
 तहो घरि रिसि चरियहे पडसेसइ

एक्को चेय ह्वेसइ सावउ ।
 गपि भाउ सो नरु मग्गेसइ ।

नियकरकवलु दियवरु देसड
चित्ततहो तहो नाणु हवेसड
मुणिवि आउ सन्नासु करेसड
तइयहुँ अरुहधम्मु नासेसड
निदणिज्जनरयहो जाएसड
कत्तियमासामावसवासरि
सग्गहो अवहिनाणुगुणधारण^१
धम्मनासु^२ होसड पुव्वण्हण
अवरण्हण हुयवहु नासेसड

किमियमदिट्टपुव्वु चित्तेसड ।
तेणासेसु वि परियाणेसड ।
सावण सहुँ सग्गु गमेसड । ५
राउ वि वज्जासणिण मरेसड ।
अवरु वि आयण्ह ज होसड ।
साइरिक्खे उययति दिणेसरि ।
गण सिरिसायरचदे भडारण ।
निवइकुलक्खउ पुणु मज्झन्नए । १०
सयलु वि जणु कच्चउ भुजेसड ।

घत्ता—आसाढहो पुण्णिमदिणि रयणिविणिग्गमणे ।

एसड समउ समत्तिहे कलि रविउग्गमणे ॥७॥

८

सावणपढमदिवसि पइसेसड
सपवेसि तहो दुरयणि तणुयहो
करपमाणु सोलह वरिसाउसु
एहु वि आसाढहो समचदिणो
तासु सहाउ काइँ किर सीसड
पलयकालु सव्वहँ मि हवेसड
सोसहु सलिलु सव्वु आवेसड
सत्त रत्तु वज्जग्गि पडेसड
सत्त पयडवाउ वाएसड
सत्त जे गरलवारि वरिसेसड
सत्त कसायउ कडुयउ तिक्खउ
पुणु अमिओवसु तत्थ निरतरु
वेयड्हहो गुहासु पइसेसहिँ
तेहिँ पुणो पयसिद्धि करेवी
पियरसयणसवधविवज्जिय
सयल वि सयलोवायविहीणा
गिरिसरिसायरनियडनिवासिय

अइकलिकालु रउद्धु हवेसड ।
वीस वरिस परमाउसु मणुयहो ।
तहो निग्गमणे हवेसड माणुसु ।
समउ समाणे चउ पुण्णिमदिणे ।
सुदरु जत्थ न किं पि वि दीसड । ५
वासरसामि अईव तवेसड ।
मेइणि निरवसेस फट्टेसड ।
सधराधरघरिति डज्जेसड ।
कुलिसइलायलु पयडु हवेसड ।
सत्त पुणो खारवु सवेसड । १०
अवर सत्त कजियसारिक्खउ ।
थलि उप्पज्जेसहि वीयकुरु ।
वाहत्तरि परिजुयल जिएसहिँ ।
इत्थीपुरिसहिँ भूमि भरेवी ।
नग्गा पसुसमतल्ल अलज्जिय । १५
खरफरुसगा वाहिविलीणा ।
कदमूलफलदलमसासिय ।

होएप्पिणु सच्छद वि दुक्खिय

जीवेसहिं चिरदुरियनिग्गिक्खिय ।

वत्ता—एउ सुणेप्पिणु ससयभावधारहर ।

पुच्छिउ पुणरवि राएँ गणहरद्विसयर ॥८॥

२०

९

केम रहेसइ वेयड्ढायलु
भणइ महामुणि निमुणि महामड
मेल्लिवि अज्जखडमज्जिमु मुय
तेमु दुसमसुसमहो परसतड
हाणिण्ण मुणिकरतणु कयहरिसहँ
पचसरासणसय देहुन्नइ
अवरु न किं पि अत्थि हीणाहिउ
पचेरावएसु भरेहमु वि
नत्थि विदेहि अन्नु कयदुक्खउ

किं न पडेसइ तहि वज्जाणलु ।
नत्थि खयायलि कुलिसग्गिहँ गइ ।
न पडण्ण पचमेच्छक्खडेमु य ।
अण्णकालु न कयावि पवत्तड ।
जीविउ पचुत्तरु सयवरिसहँ । ५
पुव्वकोडि परमाउसु मन्नड ।
सेणिय सम्मइनाहि साहिउ ।
एस कमो जाणमु सव्वेसु वि ।
मेल्लिवि कालु दुसमसुसमक्खउ ।

वत्ता—भासइ गोत्तमसामि मुम्मउ पत्थुयउ ।

१०

जहिँ होसहि तित्थकरु तुहँ नुरसथुयउ ॥९॥

१०

गण्ण अइदुसमि दुसमु पइसेसड
तहो पवेसि दुरयणि देहुच्छउ
अतहिँ वरिसह सउ वीसुत्तरु
वरिससहाससेसि तहिँ मुहयर
नामइँ ताहँ इमाइ सुणेज्जसु
कणयारउ तह तडउ पसत्थउ
पचमु कणयपुगवुद्धिउ
सत्तमु नलिणप्पहु जाणिज्जइ
राणउ नलिणद्धउ निरुँ नवमउ
एयारहमु होइ पउमप्पहु
पउमकेउ पत्थिउ तेरहमउ

वीस वरिस परमाउसु होसइ ।
होसइ जणवउ बुद्धिण तुच्छउ ।
जीवेसइ तणुमाणे मुणिकरु ।
चउदह उप्पज्जेसहिँ कुलयर ।
कणउ कणयपहु वीउ भणेज्जसु । ५
कणयकेउ भासियउ चउत्थउ ।
[नलिणतामु छट्टउ पुणु सिट्टउ ।
अट्टमु नलिणाराउ सुभणिज्जइ ।]
तह पुगमु नलिणाइउ दहमउ ।
पउमाराउ वारहमउ सुप्पहु । १०
पुगमु पउमाइउ चउदहमउ ।

घत्ता—ए कुलयर निम्मलमइ सव्वोवायकर ।

पुणु चउवीस मुहकर होसहिँ तित्थयर ॥१०॥

११

पच्छिमकुलयरामु धरि सुदरु
नुहुँ महपोमु नामु भवभयहरु
लकेसरु सुरदेउ सलक्खणु
हरिसुप्पहु तह अवरु सयंपहु
जयदेउ वि देवाहिववदिउ
पहुकित्ती जयकित्ति वि सुव्वउ
विमलु विमलपहु ब्रहलु जि निम्मलु
देउ समाहिगुत्तु जगवच्छलु
कदप्पु अणिदिउ पुणु जयकरु
दिव्ववाउ देवच्चियपायउ

पायपओरुहपणयपुरदरु ।
होसहि पढमु एत्थु तित्थकरु ।
तहो गणनाहु हवेसइ लक्खणु ।
पुणु सव्वाउहु सिवपरसपहु ।
उदयदेउ पहदेउ उदकिउ । ५
पुण्णवुद्धि निकसाउ महावउ ।
चित्तगुत्तु उप्पाइयकेवलु ।
पुणु सयभु सच्चियसिवसुहफलु ।
विमलु विसालसीलु गुणगणहरु ।
पुणु अणतवीरिउ विक्खायउ । १०

घत्ता—ए भासिय तित्थयर तिहुयणसतियर ।

मुणु एवहिँ जे होसहिँ वारह चक्कहरु ॥११॥

१२

भरहु भरहसामिउ पहिलारउ
पुणु जडदतु वइरिवयमेणउ
पुहईसरु सिरिभूइ सुहालउ
पोमु महापोमु वि पोमाणणु
विमलवाहु ड्हियाहियकाणणु
नव वलएव नव जि नारायण
नव नारय नरवडकलिकारण
कामएव चउवीस सुहकर
पच सवाय चावसय माणुसि
वायालीस वरिससहसूणए

दीहदतु अन्नायनिवारउ ।
गूढदतु पुणु नउ सिरिसेणउ ।
सिरिकतु वि नरनाहु नयालउ ।
राउ चित्तवाहणु भूमाणणु ।
अवरु अरिट्टनेमि सिरिमाणणु । ५
पडिसत्तु वि नव सत्तुपरायण ।
नाणाविह विज्जाहर चारण ।
अवर वि विविहभेय पुहईवर ।
सुहयरि पुव्वकोडि परमाउसि ।
सायरकोडाकोडिपमाणए । १०

घत्ता—दुसमसुसमसमए गए दहविह कप्पतरु ।

पइसेसए सुहयारउ कालसमउ अवरु ॥१२॥

१३

नामे सुसमदुसमु सो वुच्चइ
तासु पवेसि कोडिपुव्वहँ जणु

सिरिसव्वणु भडारउ सुच्चइ ।
जियइ सवाय पचधणुसयतणु ।

अवसाणम्मि एक्कपल्लाउसु
सायराहँ सो सोक्खइँ देसइ
पुणु दुसमहो पवेसे पुव्वुत्तउ
निग्गमि वेगाउय गरुयारउ
जलहितिकोडाकोडिपमाणु
सुसममुसमु नामे पुणु छट्टउ
मुसमहो निग्गमे आउ तणुन्नइ
अवसाणम्मि तिकोसपमाणउ

एक्कु कोसु देहुत्तणु माणुमु ।
वे कोडाकोडियउ हवेसइ ।
आउसु कायपमाणु निरुत्तउ । ५
वउ वे पल्लाउसु सुह्यारउ ।
पत्तमि कालि तम्मि बोलीणु ।
होसइ समउ अईववरिदुउ ।
ज त तामु पवेसइँ मन्नइ ।
पल्लइँ तित्थि चिराउममाणउ । १०

घत्ता—चउ कोडाकोडिउ सायरहँ निरु सो कालु वहेसइ ।

तम्मि गयम्मि पुणो वि नवअवसप्पिणि होसइ ॥१३॥

१४

ताहे वि सुसमसुसमु पुणु सुसमउ
दुस्समु अडदुस्समु छह होसहिँ
एउ सुणेवि सव्वु रिसिभासिउ
गउ नियनिलयहो नयणाणदहो
काले जते रज्जु करतउ
सवेयाडमहागुणवत्तउ
वयसजमसीलहिँ परिचित्तउ
तत्तो नीसरेवि तिहुयणगुरु
एउ सुणेवि धरह दिदु दसणु
कोणयकुमरु रज्जधुरधारउ
अभयकुमारवारिसेणाडय

मुसमदुसमु पुणु दुस्समसुसमउ ।
समयावट्टिहे हाणि करेसहिँ ।
पुहँईसरु अईव परिओसिउ ।
पय पणवेप्पिणु वीरजिणिदहो ।
नइधम्मणेण पुहइ पालतउ । ५
सुमइसुद्धखाइयसम्मत्तउ ।
मरिवि पढमनरयावणि पत्तउ ।
होएप्पिणु जाएसइ सिवपुरु ।
दूरि विवज्जह मिच्छादसणु ।
हुउ पच्छा पयाहे हियगारउ । १०
सेणियसुय तवगुणाहिँ विराइय ।

घत्ता—सिरिचदुज्जलकित्ति घवलेप्पिणु भुवणु ।

के वि मोक्खहो के वि सग्गहो गय वसि करेवि मणु ॥१४॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे मुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते कहकोसे एत्थ सेणियक्खाणे ।

कालक्कमकहणक्खो पन्नारहमो इमो संघी ॥

संधि १६

१

एक्का वि सा समत्या जिणभत्ती दुग्गदि निवारेदु ।

पुण्णाणि य पूरेदु आसिद्धि परपर सुहाण ॥ [भ. आ ७५०]

आस्ता तावच्छीलन्नतानि एकापि एकाकिन्यपि समर्था अत्यर्थेन शक्ता । कासी ? सा प्रसिद्धा जिन. सर्व्वज्ञस्तत्र भक्तिर्जिनभक्ति पूजेत्यर्थ । किं कर्तुम् ? निवारयितु निश्चयेन वारयितु दुग्गदि कुत्सिता गतिं न केवल कुगतिमपहस्तयितु समर्था पूरेदु वद्धमितुमपि शक्ता । कानि ? ५ पुण्णानि शीलन्नतादीनि कथभूतानि च तानि ? हेतुभूतानि कारणानीत्यर्थ । केषा ? आसिद्धि परंपर सुहाणं आमृक्तिपर्यंतं सुखपरम्पराणामिति ।

धुवय—करकडे समरि पयडे सुर वि सिरीण विभाविय ।

एक्केण जि भत्तिगुणेण जि सोक्खपरपर पाविय ॥

न वियाणमि छट्टु न वायरणु
साहित्तु न कव्वविसेस रसु
किह करमि कव्वु अविआणमणु
तड वि रयमि भत्तिण भत्तिफलु
एत्थत्थि भरहे अगाविसए
त कि वण्णिज्जड गुणहिं गुरु
दुव्वारवडरिमायगहरी
नियरिद्धिविसेसुवहसियहरी
मुहुं करड रज्जु गुणनियरहरु
अहिणवसारगपलोयणिया
मयमत्तमहागयलीलगई

न निघट्टु न तक्कु अलकरणु । १०
न वि यारिसु जाइसु लद्धरसु ।
जदु रजमि केम विउद्धजणु ।
मालेहु महारहु किं पि छलु ।
चपापुर नामे साइसए ।
उवमा तहो जड पर सक्कपुरु । १५
सपयावपरज्जियपोढहरी ।
तहिं धाडीवाहणु रायहरी ।
जो नायधम्मतरुअवुहरु ।
नवजोव्वण जणमणमोहणिया ।
वसुदत्ता तहो महएवि सई । २०

धत्ता—आसन्नउ अत्थि सउन्नउ पुरु कुसुमउरु रवण्णउ ।

न सग्गहो सोहसमग्गहो खडु महिहे अवइण्णउ ॥१॥

२

एक्कदियहिं कोड्डेण पत्थिवो
निग्रवि सामि सपरियणु एतओ
पचवण्णवत्थहिं सुहाविया

आउ तत्थ पयणियपयासिवो ।
किउ जणेण उच्छउ महत्तओ ।
हट्टसोह बहुभेय दाविया ।

परमरूवसोहाहिरामग्रो
 राउ रायपथे पड्डुग्रो
 सहँ सहीहिँ सयवत्तवत्तिया
 तरलनयण नवजोव्वणत्तिया
 किकिरायकणियारगोरिया
 राणएण सव्वगसुदरी

पुरिसवेसु सडँ नाडँ कामग्रो ।
 सो न जेण हग्गिसे न विट्ठुग्रो । ५
 चउपहम्मि चोज्जं नियत्तिया ।
 नाडँ कामएवस्स कत्तिया ।
 नाडँ तरुणसारगगोरिया ।
 विट्ठु कन्न न नायसुदरी ।

घत्ता—पोमावड नामे नावड सयमेवाडय मीणड ।

१०

अहवा सइ सिंधुरवरगड लच्छि रभ उव्वसि रइ ॥२॥

३

चिरकम्मवसेण समावडिया
 चित्तु ताहे सजोयरसु
 गउ दुम्मियमणु घरु सुद्धि हुया
 पहुचिच्चु' वियाणिवि वाहरिउ
 मग्गिउ पुहईसहो नियदुहिया
 वहुपुण्णवसेण एउ घडड
 इय चित्तिवि जणमणमोहणिया
 परिणिय पुहईसे हुउ हरिसु
 वल्लहिय हूय नववहु वरहो

सहसत्ति कुमारि चित्तं चडिया ।
 सजाउ महीवड मयणवमु ।
 जाणिउ जिह मालायारमुया ।
 सुहिसयणहिँ कुसुमदत्तु तुरिउ ।
 दिज्जउ छणयदरुदमुहिया । ५
 ज जोग्गहो जोग्गु समावडइ ।
 सुय तेण समप्पिय सोहणिया ।
 मालियहो विडण्णु गामसहमु ।
 न रुप्पिणि गोवद्धणधरहो ।

घत्ता—तग्गयमणु पहु एककु वि खणु जीवड ताई विणा नउ ।

१०

रइरत्तहो तहिँ अच्छतहो एककु मासु बोलीणउ ॥३॥

४

एककहिँ दिणि राएँ रूवु तहिँ
 संचित्तु एह विमुक्कमला
 जाणिज्जइ आयारेण कुलु
 निच्छउ तेणेह मरालगड
 चित्तम्मि एउ भ्रवघारियउ
 पुच्छिउ कहि सच्चु पसन्नमुह
 तुह पुत्ति एह किं वापरहो

अवलोग्रवि सीलु आणावमहि ।
 सुदरि न होइ सामन्नकुला ।
 मणुयहो पडिवयणे वुद्धिवलु ।
 मालियसुय सुयणु न सभवइ ।
 पुणु कुसुमदत्तु हक्कारियउ । ५
 मा वीहहे अभयपदाणु तुह ।
 भासइ सो सविणउ नरवरहो ।

कहिँ अम्हईँ सामिय एह कहि
 मेल्लेप्पिणु सायरु सिरिसयणु
 आयहे वित्ततु वियक्खणहे

कहिँ पुण्णविवज्जिउ लच्छि कहि ।
 कि तल्ले कयावि होइ रयणु ।
 आयण्णह देव सलक्खणहे । १०

घत्ता—गउ गगह विमलतरगहे एककहिँ दिणि सज्जासमए ।
 मणिभूसिय मईँ मजूसिय दिट्ठ वहती एतियए ॥४॥

५

विभियचित्ते
 ता पइसेप्पिणु
 कच्छिविणीरहो
 रत्ति करेप्पिणु
 जिह न मुणइ जणु
 पियहे मिलेप्पिणु
 जा जोयमि किर
 नाह वियक्खण
 अक्खरललियउ
 मणिकिरणुज्जलु
 आलोएप्पिणु
 चित्तिउ अन्नहो
 नउ एसा सुय
 जयविक्खायहो
 केण वि कज्जे
 एत्थु छुहाविय
 एउ वियप्पिवि
 मईँ वड्ढाविय

सलिलु छिवते ।
 तुरिउ तरेप्पिणु ।
 आणिय तीरहो ।
 सा लहु लेप्पिणु ।
 गपिणु सभवणु । ५
 उग्घाडेप्पिणु ।
 ताम मणोहर
 वाल सलक्खण ।
 रयणगुलियउ ।
 कोमलकवलु । १०
 सिरु विहुणेप्पिणु ।
 मईँ सामन्नह ।
 बहुलक्खणजुय ।
 कासु वि रायहो ।
 पालियरज्जे । १५
 जलि जि वहाविय ।
 पियहे समप्पिवि ।
 जोव्वणु पाविय ।

घत्ता—पुण्णिममुहि पोममहादहि पत्त जेण पहयावइ ।
 कलसद्विय नामे सद्विय तेण एह पोमावइ ॥५॥

२०

६

जइयहुँ पहूइ एसा सुयणु
 ज चित्तमि त त सपडइ
 निसुणेवि एउ मजूस तउ
 ५ १ जलजि पहाविय ।

तइयहुँ पहूइ महु धन्नु धणु ।
 आयहे गुणेण अघडु वि घडइ ।
 आणाविय राएँ कोड कउ ।

उरघाडिवि जोयड कवलउ
 आलोडउ अवरु पत्तु लिहिउ
 कोसवीपुरि वमुमडहे हुया
 ज दिवसहो लग्गेवि गब्भे थिया
 बहुवाहिहिँ वाहिय वियल किया
 ते जायमेत्त निवमन्नियए
 घल्लविय मलिलि सल्लक्खणिया

दिट्टउ अनामु अगुत्थलउ । ५
 उव्भासिउ तेण मव्वु कहिउ ।
 वमुपालनर्गिदहो एह मुया ।
 तट्टिवसावहि नरनाहपिया ।
 न पयट्टड एककु वि कावि किया ।
 वुहिऊण एत्थ निव्वन्नियए । १०
 नउ कुच्छियकुल निल्लक्खणिया ।

घत्ता—लेहत्थे एण पसत्थे निरु नरवड आणदिउ ।

सोहणादिणि पवरुच्छवघणि मइँ तहे चदणु वदिउ ॥६॥

७

महएवि भणेवि परिट्टुविया
 सहुँ सइग्र सक्कु न मुरपुरहो
 विविहुच्छवेहिँ पहु पडसरिउ
 जपति के वि सकियत्थु पहु
 दुक्करु रई वि एरिस हवई
 मणसा वि न चित्तहुँ जा तरई
 क वि भणइ एह धण पुण्णवई
 न मुणहुँ किउ आयग्र कवणु तउ'
 एवविहाइँ वयणइँ जणहो

सा मीसहिँ सव्वेहिँ वि नविया ।
 अन्नहिँ दिणि गउ चपापुरहो ।
 जणु जोयहुँ नववहु नीसरिउ ।
 जे पत्ताणोवम एह वहु ।
 सिट्टारहो का वि अउव्व गई । ५
 सा केम विणिम्मिय हसगई ।
 परिपाविउ एरिसु जाइँ पई ।
 जेणेरिसु निरव्वमु लद्धु वउ ।
 निसुणतु राउ गउ सभवणहो ।

घत्ता—सहुँ कतग्र अहिणवकतग्र एकहिँ पट्टि निविट्टुउ । १०

मुहिसयणहिँ वियसियवयणहिँ मगलसेसहिँ व्दिउ ॥७॥

८

एत्थतरि परमाणदभरे
 पेच्छह जा रच्छारमियसुरे
 सा अग्गमहिसि अतेउरहो
 वइसरिउ चउक्कि ताग्र सहिउ
 आयण्णिवि एउ विचिंतियउ
 वलि किज्जउ माणविवज्जियहो

सजाय वत्त महएविघरे ।
 मालियसुय परिणिय कुसुमपुरे ।
 किय राएँ मणिमयनेउरहो ।
 सव्वेण जणेण एउ महिउ ।
 महएविग्र चित्तु नियत्तियउ । ५
 जीविउ पडिवक्खपरज्जियहो ।

इउ सुम्मइ किल चलचित्तियउ
त अलिउ सव्वु सव्भावचुया
किं एवहिँ अवरे तवचरणु

कुडिलउ नियडिरउ' होति तियउ ।
हा पुरिस अणेयपवचजुया ।
भवभयहरु महुँ जिणिट्टु सरणु ।

घत्ता—इय भासिवि घरु परिसेसिवि माणिणि अहिमाणाहय ।

१०

पिहियासउ कलुसविणासउ जहिँ रिसिसामि तहिँ गय ॥८॥

९

पणवेप्पिणु देविप्र देवनुउ
दय करहि भडारा मज्झुवरि
डज्जउ ससारु असारयरु
त किज्जइ जेण न एत्थ पुणु
एत्थतरि वत्त सुणेवि तहिँ
पणवेवि सपरियणाप्र भणिय
परमेसरि करहि पसन्नु मणु
तुहुँ पुज्जणिज्ज सव्वहो जणहो
पइँ होतिप्र पावियकित्तणहो
घिवमाणे' अणुक्कमखडणउ
किउ राएँ नवर अयाणपणु

विन्नविउ' मुणिट्टु गुणोहजुउ ।
दे देहि दिक्ख दुक्खोहहरि ।
खणभगुरु इट्टुविओयकरु ।
आविज्जइ लिज्जइ कुणिमतणु ।
गय पोमावइ महएवि जहिँ । ५
तुहुँ सामिणि देवि महु तणिय ।
पडिवज्जहि [मा तुहुँ] तवचरणु ।
खम तुहुँ परमहएवित्तणहो ।
को महु अहियारु पहुत्तणहो ।
तुह पेसणु फुडु महु मडणउ । १०
खम करहि महु महएवि पुणु ।

घत्ता—इय वयणइँ तोसियसुयणइँ निसुणेप्पिणु सिरिसेविप्र ।

विणयासिय हसिवि पससिय पोमावइ महएविप्र ॥९॥

१०

हलि सुयणि सयाणि कुलीणपणु
भासाप्र देसु विणएण कुलु
सुयणो न होइ हंकारकरु
अप्पेण वि मज्जइ नीयजणु
जणवच्छलि सच्छसहावि हले
तुहुँ नउ सवत्ति विणएक्करसा
तुह राएँ दिन्नउ मइँ वि पुणु

पइँ मेल्लिवि अन्नहो नत्थि पुणु ।
जाणिज्जइ अवयारेहिँ खलु ।
रयणायरो वि तिह मयरहरु ।
जिह मोत्तिय ससएवि करिणु ।
तुह मोल्लु न तिहुयणे वि सयले । ५
गुणगणणिहाणि महु लहुयससा ।
लइ महएवित्तणु सक्खिजणु ।

८. १ नियरउ ।

९. १ विन्नविय । २ घिवमसाणे ।

मा भणमु कि पि लड लडउ खणु

तवदवेण दहेवउ दुक्कववणु ।

घत्ता—पणवेप्पिणु एउ सुणेप्पिणु गय पोमावड नियघरु ।

वसुदत्तण खचियचित्तण लइयउ तउ दुक्कियहरु ॥१०॥

१०

११

सामीवि सतियहिँ
मउ माणु परिहरिवि
जाएवि मुहजोउ
मुहसाहिमेहेण
दिणि रयणि घडिमालि
एक्कम्मि दियहम्मि
मणिहेममण हम्मि
श्रीयणपहाणाण
देवीण पुहईसु
हरिरयणु सियवन्नु
उत्तुगु सिरिभवणु
दट्ठूण इय सुद्ध
सुपहाण भूवइहे

कमलसिरिखतियहिँ ।
तउ ताण चिरु चरिवि ।
गइयाण मुरलोउ ।
अन्नोन्ननेहेण ।
वोलीणि बहुकालि ।
रयणिहिँ विरामम्मि ।
सयणम्मि निरु रम्मि ।
निदायमाणाण ।
दिट्ठो मयगेमु ।
वरवसहु सोवन्नु ।
कप्पघिवो तवणु ।
सहसत्ति पडिबुद्ध ।
वज्जरिउ वरमइहे ।

५

१०

घत्ता—अहिरामण पच्छिमजामण निसिहिँ नराहिव नरवइ ।

सोवतिण मउलियनित्तिण दिट्ठु नाह मइँ करिवड ॥११॥

१५

१२

तुरगमु गोवइ कचणरासि
पयासहि किं फलु दिट्ठहिँ एहिँ
मयच्छि महीवडदसणे चारु
गएण गरूउ हयारि हएण
सिरीसु मुवन्नु सुवन्नचएण
समासियकप्पमहीरुहु जेण
मुदूसहु भइँ पयावगुणेण
अणोवमलक्खणलक्खियदेहु
अणोयनरिदनिकायपहाणु

मुमंदिरु कप्पतरु तमनासि ।
पयपइ भूवइ बुद्धिगुणेहिँ ।
हवेसड नदणु नावइ मारु ।
धुरधरु धीरु धुरधरएण ।
गुणीगुणमदिरु मदिरएण ।
नियच्छिउ कप्पमहीरुहु तेण ।
अधम्मतमोहरणो तवणेण ।
कुलवरमित्तु महामइगेहु ।
किसोयरि आणण सक्कसमाणु ।

५

घत्ता—चउसायरमेर निसायरफलहे लिहावियनामउ ।

१०

भुजेसइ पुहइ हवेसइ पिप्र तुह सुउ अहिरामउ ॥१२॥

१३

मुविणयफलु एउ सुणेवि सई
कइवयदिणेहिँ वेल्लहलभुया
निदालसु जभणु मदगई
निवडणभएण किउ दुज्जणहि
पुच्छिय नाहेण जमुज्जलिया
कहि कासुप्परि तुह दोहलउ
आयणिवि नाहहो भासियउ
नरवेसु करेप्पिणु पई समउ
वयच्छत्तचिधकयमडवेण
विरइयवेसेण सुहावणेण
पवहत मदसीयलपवणे
जइ करमि पयाहिण पट्टणहो

गय गेहहो तुट्ट गइदगई ।
पुहईसपत्ति गुरुहार हुया ।
अहिनिनु हुय देविहे धम्मि मई ।
वयणारविंदु कालउ थणहि ।
कमलाणणि किं तुहुँ दुब्बलिया । ५
किज्जउ अउव्वु को सोहलउ ।
देविप्र अहिलासु पयासियउ ।
रुहिऊण रेवातिलउ गउ ।
मगलतूरारवतडवेण ।
परिवारिय पियपरियणजणेण । १०
दुद्धिणि ईसीसे सवतघणे ।
तो होइ सुहत्थी महु मणहो ।

घत्ता—तहिँ अवसरि पहुणा पुरवरि परमुच्छउ काराविउ ।

न गिरिवरु मयजलनिब्भरु करिवरु सिगाराविउ ॥१३॥

१४

विज्जाहरु विज्जावेउ तुरिउ
तेण वि आवेप्पिणु वित्थरिउ
सीयलु सुयधु निम्मिउ पवणु
आणदभेरि सरसद्धियउ
एत्थतरि गरुयाणदभरे
कोऊहलमाणस गुणणिलया
गयखधि चडावेवि पुरउ वहु
मुरनियरविराइय लोयपिया
सव्वेहिँ मि जयजयकारु कउ
तडित्तडयडति गज्जतु घणु

नियमित्तु नरिदे सभरिउ ।
दुद्धिणु घणेहिँ रवि अतरिउ ।
वरिसाविउ जलु एक्केक्कु कणु ।
जणु मिलिउ सव्वु आणदियउ ।
जयमगलतूरारवगहिरे । ५
कयपुरिसवेस थीयणतिलया ।
अप्पणु पुणु पच्छारुहिउ पहु ।
न इदपडिद गइदि थिया ।
कमचारे चोइउ चलिउ गउ ।
वरिसतु निएप्पिणु इदधणु । १०

घत्ता—रुद्धु व जमु करि लघियकमु सुमरेप्पिणु जम्मणवणु ।

नीसरियउ चप्पिवि तुरियउ काई करइ किर परियणु ॥१४॥

१५

दतिउरवणहो मणवणजउ
 हा हा पभणतु विसन्नमणु
 पोमावईप्र देवीप्र पहु
 हा हउँ हयास खल किं न मुई
 पई विणु अणाहु भूयलु सयलु
 तुहुँ तेण नाह करि परिहरहि
 महुँ जाड सामि उत्तरहुँ नउ
 किं किज्जड सव्वहँ दुट्ठु विही

सम्मूहउ कलिगहो गयउ गउ ।
 पल्लट्ठु असेसु वि समिउ जणु ।
 गिरिगहणि भणिउ परट्टुव्विसहु ।
 महु लग्गिवि हुय तुह एह गई ।
 नासेसड लेसइ वइरि वलु । ५
 तरुसाहहि लग्गिवि ओयरहि ।
 हा दूरीहूयापाय तउ ।
 पिय सयलु खमिज्जहि गुणहँ निही ।

घत्ता—पणवेप्पिणु एउ भणेप्पिणु मड्डु मड्डु दूमियमइ ।

हत्थिंदहो मरणसमुद्धहो उत्तारिउ [भुवि] भूवइ ॥१५॥

१०

१६

वाहुडिउ नरेसरु गउ भवणु
 अहनिसु धावतु समहो भरिउ
 वचेवि दिट्ठि नावइ जमहो
 गय तुरिय तरेवि तोउ तडहो
 समु मुप्रवि निमज्जिवि सुइरु गउ
 एत्थतरि तत्थ करडकर
 लच्छि व पेच्छेवि सणेहपर
 पोमावइ वहिणि भणेवि घर
 तहिँ मास चउक्कि सुहेण गए

दती वि पत्तु दतिउरवणु ।
 तहिँ पोमसरोवरि पइसरिउ ।
 उत्तरिय देवि तवेरमहो ।
 थिय वणदेवि व्व मूलि वडहो ।
 जलु लेवि सइच्छइँ कहि मि गउ । ५
 भड्डु नामे आइउ मालकरु ।
 सजायउ खुंटियकमलभरु ।
 गउ लेवि पयत्ते दतिपुरु ।
 आसन्नहइ पसवणसमए ।

घत्ता—गप्र गामहो चित्तियकामहो पिययमि आलापालिणियप्र ।

ईसाप्र विदूसणु लाप्रवि नीसारिय मालिणियप्र ॥१६॥

१०

१७

भूयहिँ वेयालहिँ भेक्खसहिँ
 नामेण महाभयम्मि निसिहिँ
 पसविय पोमावइ जाउ सुउ
 पेच्छंती त जुवईण परा
 तामायउ राउ व दडकर

जहिँ जमु वि घलिज्जइ रक्खसहिँ ।
 तहिँ पिउवणे पुरपच्छिमदिसिहिँ ।
 किं भणमि सव्वलक्खणहिँ जुउ ।
 जामच्छइ हरिससमेय परा ।
 मायगवेसि तहिँ एककु नरु । ५

विणएण तेण दूरत्थिएण
परमेसरि पसिय पसन्नमणे
एत्थत्थि भरहे वेयड्ढगिरि
तहो दाहिणसेडिहे रमियसुरु
त विज्जुलेहमहएविवरु
हउँ बालदेउ तहो पुत्तु हुउ

विन्नविय देवि कत्थत्थिएण ।
वित्ततु महारउ मुयणि सुणे ।
रुप्पमउ अणोवम जासु सिरि ।
विज्जप्पहु नामे अत्थि पुरु ।
पालड विज्जुप्पहु खयरवरु ।
भज्जाए हेममालाए जुउ ।

१०

घत्ता—विहरतउ भोयासत्तउ चदणभूरुहपरिमलु ।

गाउ कीलहुँ सोह निहालहुँ एक्कदियहे मलयाचलु ॥१७॥

१८

भमरु व सुमरेप्पिणु कमलसरु
एतहो विमाणु रयणुज्जलिउ
किं थिउ विमाणु इय भणिवि तलु
रिसि धीरु सच्चवउ जोयधरु
इय च्चित्तिवि मडँ उवसग्गु किउ
रे रे णवयम तुह दप्पखउ
त सुणिवि मुणीवड विन्नविउ
खम करि कडयह सावतु पुणु
निदप्पु निएवि दयावणउ
उवसामिउ साहुवडट्ठु तहो

तहिँ सुडरु रमेप्पिणु चलिउ घरु ।
महुरानयरिहे उप्परि खलिउ ।
जा जोयमि ताम विमुक्कमलु ।
महु एहु गमणपडिवधकरु ।
सवणेण वि रूसेप्पिणु सविउ ।
विज्जाविच्छेउ मूढ हवउ ।
सामिय दुक्कम्मे हउँ खविउ ।
होसड महु विज्जाविहव गुणु ।
गयणेयरु कयपडु जाव णउ ।
भाविउ निमित्तु विज्जागमहो ।

५

१०

घत्ता—सविसेसए अगसुदेसए^१ चपापुरे बहुवाहणु ।

परमेसरु अत्थि नरेसरु नामे धाडीवाहणु ॥१८॥

१९

पोमावड देवि तासु तणिया
हरिऊणाणेसइ दत्तिपुरु
तहिँ सुदरि^१ मालायारघरे
ईसावसाए पसवणसमए
नीसारिय पसवइ पेयहरे
सव्वगसरुवु सलक्खणउ

कयदोहल अतरवत्तिणिया ।
करि रेवातिलयनामु असुरु ।
अच्छेसइ हसि व कमलसरे ।
मालिणिए मारिदत्ताए तए ।
नामेण भीमे^२ सजणियडरे ।
सा सुयणु जणेसइ तहिँ तणउ ।

५

तहिँ तुहँ मि चडचडानु हुड
पउमावडदेविहे पासि सुड
सो जडउ लहेसड रज्जपड
रक्खतु मसाणु तेण सपिड

अच्छेज्जमु नियभज्जाणु जुड ।
पालेज्जमु लेवि जुवाणु हुड ।
दतिउग्गि तडउ सावंतु तड ।
हउँ तुज्जागमणु नियतु थिड ।

१०

घत्ता—भयवते तववहुकते ज चिरयालि पडत्तड ।

त जायड जयविक्खायड कि मुणि भणहिँ अजुत्तड ॥१९॥

२०

परमेसरि भति न किं पि करे
भासिड महएविणु होड इण
कि बहुणा णयणाणदणहो
इड करमि भणेवि नवेवि घरु
अप्पिड पियाहे पुन्नवभहिड
पारड्डउ पालहुँ सोक्खकरु
जिणमदिरि दूरुज्जियरयहे
अच्छति पयत्ते विणयजुय ।

ढे मुड वड्डारमि नेवि घरे ।
लइ छिज्जड भाउय सावरिण ।
मुपयत्तु करेज्जहि नदणहो ।
गड सहरिसु सिंसु लएवि खयरु ।
ताए वि वरायरेण गहिड ।
एत्तहे पोमावइ गय नयरु ।
अज्जियहिँ पासि उवसमरयहे ।
कइवयदिणेहिँ आरोग्य हुया ।

५

घत्ता—सहुँ अज्जहिँ भवियणपुज्जहिँ एक्कहिँ दिणे तिहयणमुणिहे ।

गय वदणहत्तिणु निहयदुहत्तिणु नदणवणु समाहिगुत्तमुणिहे ॥२०॥

१०

२२

पणवेप्पिणु पुरउ निसन्नमई
निसुणेप्पिणु सव्वु सयाणियए
जगडमरमणोभवहत्थिहरि
मई कवणु पाउ किउ असुहयरु
ता कहइ महामुणि राणियहे
वणि नायदत्तु वहुवित्थियहे
तहो नायदत्त नामे पमया
पेक्खेप्पिणु वणि निवित्तमई
तड करेवि समाहिणु मुक्कवड

मुणिणा वि पयासिय धम्मगई ।
विन्नविड भडारड राणियए ।
परमेसर परमपसाड करि ।
जे जाउ विगोड अणत्थकरु ।
वल्लहविओयविदाणियहे ।
होतड पुरीहे सावत्थियहे ।
घरविप्पे समड कुकम्मि रया ।
मेल्लेप्पिणु घरु सजाउ जई ।
वभुत्तरु नामे सग्गु गड ।

५

घत्ता—तत्तो चुड चंपापुरि हुड घाडीवाहणु नरपवरु ।

वसुपालहो पुहईपालहो सुड वमुमइहे मणोहरु ॥२२॥

१०

२३

वणिवभणु कविलु वि कालगउ
 पयणियपडिवक्खपक्खपलउ
 वणि धरिउ धाडिवाहणनिवहो
 भवगहणि भमेवि असोक्खयरे
 वणिउत्तहो वसुदत्तहो तणिया
 घणवइ घणसिरि नामालियउ
 घणवइ घणपालहो घणपयरे
 तहो ससग्गेण अकज्जरया
 घणसिरि कोसविहे सुदरहो
 दिढदंसण ससयभावचुया

काणणि दत्तिउरहो जाउ गउ ।
 नामे पसिद्धु रेवातिलउ ।
 हुउ करिवरु सो कयपयसिवहो ।
 अहिदत्त वि तामलित्तनयरे ।
 हुय नागदत्त नामे वणिया । ५
 जणियाउ ताए वे बालियउ ।
 दिन्नी सुय नायलदनयरे ।
 हुय सा अणमन्निय बुद्धमया ।
 दिन्नी वसुमित्तहो वणिवरहो ।
 सा साविय तहो सग्गेण हुया । १०

घत्ता—काले मुए पिए विहवि गए नायदत्त दुक्खिय घर ।
 ससिमुहियहे लहुदुहियहे आगय कोसवीपुर ॥२३॥

२४

घणसिरिए विवेयगुणायरए
 मुणिवरहँ पासि दुहविद्वणु
 अच्छेवि तत्थ जेदुहे सुयहे
 तहिँ ताए निवारयकुगइभउ
 डय इतिएँ जतिएँ ज णियरउ
 पुणरवि परिगहियाणत्थमिया
 तत्थु जि पुरम्मि पुहईवइहे
 जइयहुँ पहूइ सा उयरि हुया
 जरसासखासकडूहिँ हया

सम्माणिवि मायरि सायरए ।
 लेवाविय निसिभोयणहो खणु ।
 गय नायलदपुरु पासु तहे ।
 भग्गउ निसिभोयणविरइ वउ ।
 मूढए वयभगु तिवार कउ । ५
 घणसिरिसामीवए एवि मया ।
 वसुपालहो देविहे वमुमइहे ।
 तइयहुँ पहूइ सोक्खेण चुया ।
 जीवियसदेहहो देवि गया ।

घत्ता—नाणाविहदुहवकावियमुह सा हयदेहवलासय ।

नवमासहिँ कह व किलेसहिँ वाहि व गब्भहो निग्गय ॥२४॥

१०

२५

उयरत्थिया वि जा दुहु जणइ
 किं किज्जइ जइ सुवन्नछुरिया
 किं पुत्तिए दुक्खविदाइणिए

सा वड्ढती कि नउ कुणइ ।
 तो कि हम्मइ तणु सुहयरिया ।
 कि मायए पावइसाइणिए ।

भणिऊण एउ मजूसियए
नामकियअगुलिएण जुया
भीयाए छुहिप्पिणु वसुमईए
मजूस वि विहिवसेण घडिया
सुरसरिसोदेण वहति तर्हि

नीरघए रयणविहूसियए ।
विलिहियपत्तेण समेउ मुया । ५
पवहाविय कार्लिदीनईए ।
गपिणु पयागसगमि पडिया ।
गय ओवहति कुमुमउरु जर्हि ।

घत्ता—तर्हिँ जोइय पुण्णहिँ जोइय मालिएण मजूसिय ।

पडसेप्पिणु सलिलु तरेप्पिणु कडिहवि नियघरु मसिय ॥२५॥

१०

२६

उग्घाडिवि जोइय दिट्टु सुया
सामन्नहो एह न सुदरिया
नियपियहे समप्पिय तेण किया
एक्कहिँ दिणि घाडीवाहणहो
निवडिय दिट्टीवहि नाई रई
सताविउ कामगहेण पूह
परमत्थे परमुन्नडहे निउ
परियाणिवि कुलगुणसीलकिय
अत्तेउरसरसयवत्तिणिया
एक्कहिँ दियहम्मि पिएण तुहुँ

सरसत्ति व सिसुरुवेण हुया ।
भणिऊण एउ लक्खणभरिया ।
पालेवि जुवाण तडलोयपिया ।
नरनाहहो वडरिविराहणहो ।
सजाउ अईवासत्तमई । ५
परिणिय सा वल्लह हूय वहू ।
मालिउ राएण कयत्थु किउ ।
महिवइणा तुहुँ महएवि किय ।
हुय काले अतरवत्तिणिया ।
पुच्छिय किं किस कहे कवणु दुहु । १०

घत्ता—उवडट्टुउ पई वि मणिट्टुउ पुहईसेण वि सहयरु ।

निज्जाइउ तुरिउ पराडउ विज्जुवेयगयणेयरु ॥२६॥

२७

सीयलसुयघमदयरमरु'
वरिसत्तु सत्तु इसीसे जलु
किउ परमुच्छउ पयणियपुलउ
कयपुरिसवेस तग्गयमइणा
वाइय वाइत्तय मिलिउ जणु
देत्तेण पयाहिण पट्टणहो
चउदिमु चलति चल इदधणु

ससुरिंदाउहु खणरुड ससरु ।
तेण वि तर्हिँ निम्मिउ मेहउल्लु ।
सिगारेवि करि रेवातिलउ ।
तर्हिँ तुहुँ वलग्ग सहुँ भूवइणा ।
चोइउ गइदु लीलागमणु । ५
दुद्धिणे निसुणेप्पिणु घणु घणहो ।
करिणा निएवि सभरिउ वणु ।

सव्वहिँ वि घरतहँ पवणजउ
तुहवयणे पच्छातावपरु
गउ निययनिवासहो पुरिसहरि

चप्पेवि वलेण नीसरिउ गउ ।
कहमवि उत्तरिउ धरेवि तरु ।
एत्तहँ एत्थायउ तुरिउ करी ।

१०

घत्ता—समभरियउ पप्र पइसरियउ तुहँ तरेवि निग्गय सरु ।

ण्हाएप्पिणु सलिलु पिएप्पिणु गउ गइदु गहणतरु ॥२७॥

२८

तहिँ विहिवसेण वेल्लहलभुए
दट्ठूण सिणेहभावभरहो
तहिँ कुसुमदत्तघरे जेम थिय
एक्कहिँ दिणम्मि ईसावसए
गप्र गामहो पिप्र मालिणिप्र तुहँ
तहिँ पसविय सुउ संजाउ वरु
कहिँऊण सवइयरु सयलु तउ
जं जायमेत्त छित्ता सि जले
ज मालायारिणीप्र पहया
तं फलु तिवारवयभंजणहो

तुहँ मालिण दिट्ठा सि सुए ।
गउ वहिणि भणेवि लेवि घरहो ।
चत्तारि वि मास सुहेण निय ।
रूसेप्पिणु सजोइयमिसए ।
घाडिय गय पियवणु जणियदुहँ । ५
मायगवेसु आइउ खयरु ।
मग्गेप्पिणु नदणु लेवि गउ ।
ज करिणा णिय हरिऊण हले ।
घल्लिय घराउ पिउवणहो गया ।
निसुणेप्पिणु एउ निरजणहो । १०

घत्ता—पणमेप्पिणु मणु नियमेप्पिणु मुणिपयमूलं महाफलु ।

सगहियउ तउ जयमहियउ ताप्र सिरीचदुज्जलु ॥२८॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणामाले अत्थसदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

इय करकडचरित्ते सिरिचदमुणिदविरइए रम्मे ।

सोलहमो आसासो करकडुप्पत्तिणामोय ॥

॥ सधि १६ ॥

संधि १७

१

एतहिँ सवसयणे खेयरघरे वड्डड वालड ।
निम्मलगयणयले न वीयायदु सुहालड ॥

न माणससरवरि रायहमु	न निरवद्दु गिरिगहणि वसु ।	
न मुक्कपक्खि रिक्खेयमित्तु	न भव्वहो धम्मायरणि चिन्तु ।	
न दिणि दिणि सुदरु सुकडकव्वु	न चिरकयमुक्कियगेहि दव्वु ।	५
न ऊहापोहिरि मइवियप्पु	न नवजोव्वणे मणि मयणदप्पु ।	
नहचारिहे सिरिसावाहयासु	वड्डड व मणोरहु मुहपयामु ।	
पोमावड एक्कहिँ दियहिँ तेत्थु	गय वालएवघरु वालु जेत्यु ।	
कडु करेण कर कडुयतु	नदणु निएवि कीलतु सतु ।	
लालेप्पिणु सुइरु पसन्नवाय	करकडु करेप्पिणु नामु आय ।	१०

घत्ता—एतहिँ ताम तहिँ दिणि दिणि वड्डतु कुमारड ।
किड खयराहिवेण नाणा सत्थत्थविसारड ॥१॥

२

रक्खतु सतु भीसणु मसाणु	जामच्छड नियताएँ समाणु ।	
ता तत्थ विन्नि निद्धूयकाम	रिसि वीरभद्दजयभद्दनाम ।	
सहुँ सघे एवि अमोहवाणि	पासुयपएसि थिय दिव्वनाणि ।	
तहिँ तिन्नि वस पावेवि कालु	उट्ठिय भिदेप्पिणु नरकवालु ।	
एक्को मुहे दो नयणेमु दोसु	नीसरिय निएप्पिणु जायतोसु ।	५
पभणड मुणि नामे वालएड	भो नियह नियह अच्छरिड एड ।	
माणवकरोडि फाडेवि वस	केमुट्ठिय किह वड्डिहयपसस ।	
निमुणेवि वीरभद्देण वुत्तु	सघाडिवेण एय निरुत्तु ।	
जो आयहो महिमडलहो सामि	होसइ सवन्नदप्पोवसामि ।	
तहो अकुसल्लत्तधयाण दड	होसति परिज्जियवइरिदड ।	१०

घत्ता—निमुणेवि मुणिवयणु नामेण सुमड वभणु मणे ।
चित्तए प्रलियगिर न हवति कयावि मुणिजणे ॥२॥

३

अवधारिऊण एय मणम्मि
 वरपव्वसधिवड्ढिय महत्त
 छिद्देप्पिणु लेप्पिणु जाड जाम
 भेसाविउ कड्ढिवि खग्गवेणु
 पेच्चिवि सुहलक्खणलक्खियगु
 उवएसिउ जो मुणिणा मणोज्जु
 एसो सो रंजियजणमणाइँ
 चित्तेवि एउ विणएण वुत्तु

थिउ सुत्तकठु एक्कहिँ दिणम्मि ।
 दट्ठूण वेणु ते थरहरत्त ।
 करकडुकुमारे दिट्ठु ताम ।
 उद्दालेवि तित्ति वि लइय वेणु ।
 दुव्वारवड्ढरिकयमाणभगु । ५
 भूवलए करेसइ सयलु रज्जु ।
 सामन्नहो एइँ न लक्खणाइँ ।
 विप्पे पोमावइदेविपुत्तु ।

घत्ता—भो अम्हारिसहँ उज्जमु अकियत्थु अपुण्णहँ ।
 लइ तुम्हारिसहँ सिरि एह सव्व कयपुण्णहँ ॥३॥

१०

४

निसुणेविणु एउ सलक्खणेण
 को तुहँ कहिँ होतु किमत्थु आउ
 त सुणिवि पयासइ सो वरम्मि
 नामेण मुमइ सपयविहीणु
 त नत्थि ज न किउ अत्थहेउ
 सेविउ समुद्धु दीवतराइँ
 परिसमिउ भमिउ देसतराइँ
 रससिद्धि निहालिउ धाउवाउ
 तडवि हु न किं पि फलपत्ति जाय

पुच्छिउ कुमरेण वियक्खणेण ।
 किं गहिय वस कहि भो सहाउ ।
 हउँ भट्टपुत्तु पाडलिपुरम्मि ।
 पडु पडिउ सव्वकलापवीणु ।
 आराहिउ निट्टए मत्तु देउ । ५
 पडसरिउ सेलगुज्जतराइँ ।
 विहियाइँ विविह्वेसतराइँ ।
 अवर वि अणेयविहु किउ उवाउ ।
 फुडु दुक्कियकम्महो एह छाय ।

घत्ता—हिडेवि सयल महि एत्थाययए बहुसीसे ।
 वंस निएवि किउ सुदर आएसु मुणीसे ॥४॥

१०

५

जो सयलहो भूमडलहो नाहु
 ए छत्तधयंकुसदड तासु ।
 जइ सुसहिँ जलहि चलु गिरिपहाणु
 इय चित्तिवि किर महँ एहि रज्जु
 छिदेवि लेवि हउँ चलिउ वस

होसइ अरिनियरमियकराहु ।
 होसति करेसहिँ वड्ढरिनासु ।
 रिसि भासिउ तो वि न अप्पमाणु ।
 होसइ कज्जेण अणेण अज्जु ।
 पइँ लइय भावि भो रायहस । ५

विणु पुण्णहिँ पत्तु वि जाइ वत्थुं
किं वहुणा जइयहुँ तुज्जु रज्जु
तइयहुँ मत्तित्तणु तरणितेय

पुण्णेहिँ होइ सयलु वि पसत्थु ।
होसइ सुदर सजणियचोज्जु ।
देज्जसु महु अरितरुजायवेय ।

घत्ता—करकडेण तउ अब्भत्थण तासु समत्थिय ।

अहवा सप्पुरिस पाणा वि धरति न पत्थिय ॥५॥

१०

६

पडिवज्जिवि वण्णुत्तमपउत्तु
एत्थतरि दत्तिउरहो नरिदु
पचत्तु पत्तु अब्बपुत्तु सारु
सीहासणु सुत्तु निएवि मति
विणु राएँ को किर करइ सति
नीरकुसु करि व कयावसाणु
तारायणो व्व परिवारलोउ
इय चित्तिवि मयरयमहुयरोहु
करि कलसु देवि सगयकरेण
करि भणिउ भद्दु तुहुँ गुणसमग्गु

निदावसु तरुत्तर्ले गपि सुत्तु ।
बलवाहणु नामे न सुरिदु ।
सो नत्थि जासु रज्जाहियारु ।
चित्ताविउ माणसि निहयभति ।
पलयहो पयाउ परमत्थु जति ।
खलयणु को खलइ वियभमाणु ।
विणु राएँ कहिँ किर जणइ जोउ ।
किउ पट्टहत्थि सिंगारसोहु ।
परियणहो मज्झि मतीसरेण ।
अच्चेसहि कोइ वि रज्जजोग्गु ।

५

१०

घत्ता—एउ वयणु सुणेवि सचलिउ पीलु लीलागमु ।

मयनिव्वभरसहिउ वरवसु गिरिदु व जगमु ॥६॥

७

करकडुपुण्णमरुपेरियगु
जयमगलवाइत्तयसणेण
नहलग्गकुभु उन्नयविसाणु
तहिँ तरुत्तलम्मि निदायमाणु
तहो उवरि करिदे कणयकुभु
सीयलजलफरिसवसेण धीरु
जयकारिउ परिवारे पुरेण
एत्थतरि के वि भणति एउ
तहिँ नत्थि विसिद्धहो देसि वासु

नीसरिउ नयरु मेल्लिवि मयगु ।
परियरिउ पउरपरियणजणेण ।
सपत्तउ त भीसणु मसाणु ।
दिट्टउ कुमारु लक्खणनिहाणु ।
पल्हत्थिउ निदालसनिसुभु ।
उन्निद्धिउ अरिसिहिसमणनीरु ।
नियखधि चडाविउ सिधुरेण ।
मायगहो जहिँ रज्जाहिसेउ ।
लइ नासहुँ जायउ धम्मनासु ।

५

हा दिट्टुड एरिसु मत्तु जेण

मूलम्मि विणासिउ कज्जु तेण । १०

घत्ता—ए आलाव जणु किर करइ जाम अवरित्तउ ।

दियवरु नाम तहिँ ससयविच्छेउ व पत्तउ ॥७॥

८

विप्पे पोमावइदेविपुत्तु

पणवेप्पिणु आसीवाउ वुत्तु ।

जय नद वड्ढ एयायवत्तु

कुरु रज्जु विणासहो जत्तु सत्तु ।

ता मुणिउ जणे जयलच्छिगेहु

निच्छउ मायगु न होइ एहु ।

पड्डु पडिउ सुडवडिडयमरट्टु

किं मगु णमसइ सुमइ भट्टु ।

एत्थतरि जयमगलरवेण

नयरम्मि रइयपरमुच्छवेण । ५

अहिसेउ करेप्पिणु परियणेण

वधेवि पट्टु हरिसियमणेण ।

पणवेप्पिणु भणिउ गयदगामि

तुहुँ अम्हहँ अज्जपहूइ सामि ।

आसकिउ रिउ पसरियपयाउ

हुउ दतिनयरि करकडु राउ ।

घत्ता—तम्मि चेय दियहे सव्वाउ सुरासुरपुज्जउ ।

विज्जुल्लेहसुएण पत्तउ पुव्विल्लउ विज्जउ ॥८॥

१०

९

ता बालएवविज्जाहरेण

गयणगणि मणिमयसेहरेण ।

थाएप्पिणु थिर पहुभत्तिजुत्त

वोल्लाविय सयल वि रायउत्त ।

सकलत्ते रिसिसावहे वसेण'

मायगहो वेसे निब्भएण ।

मइ एत्तिउ कालु मसाणु एउ

सेविउ हउँ खेयरु बालएउ ।

एहु वि कुमारु नउ होउ पाणु

फुडु रायउत्तु लक्खणनिहाणु । ५

चपापुरि धाडीवाहणासु

रायहो नयधम्मपसाहणासु ।

पोमावइ त्ति वल्लहिय जाय

दोहलवस करिणाणिय इहाय ।

सजणिउ ताग्र न इहु कुमारु

नामे करकडु पयावसारु ।

परिपालिउ मडँ मुणिपेसणेण

हुउ तुम्हहँ पहु सुविकियगुणेण ।

हुग्र रज्जलाहि आयहो हुयाउ

महु विज्जउ साववसे चुयाउ । १०

घत्ता—एवविहु सयलु खगु नियवित्तु कहेप्पिणु ।

गउ परिसुद्धमणु सनयरु कुमारु पुच्छेप्पिणु ॥९॥

१०

गग्र खेयरि उज्जुय सज्जण व्व

पुहईसरेण वरिसव सपव्व ।

ते तिन्नि वि वस गयकुसासु

किय दड छत्तपालिद्धयासु ।

६ १ *सावहे एण ।

पालिउ पडिवन्नउ दिवु तामु
सुयरज्जलभरजियमईए
दिट्टउ नदणु नदियजणोहु
कहिएहिँ वालदेवहो तणेहिँ
सव्वेहिँ वि सहुँ राएण अज्ज
जय नद वड्ढ जीवहि अणेण
भुजेज्ज सुमेइणि आसमुद्द
हरिससुयमुहि आसीस देवि

मतित्तणु सुमड्ढे दियवरासु ।
एतूण तत्थ पोमावईए ।
न पुण्णिमाए ससि पुण्णसोहु । ५
परियाणेवि साहिन्नाणएहिँ ।
पणविय परिपुज्जिय पुज्जणिज्ज ।
कुरु धम्मु सया सहुँ परियणेण ।
ता जाम मेरुरविससिसमुद्द ।
गय पोमावइ मुउ सिक्खवेवि । १०

वत्ता—कित्तिकिरणनियरु अन्नायतमोहदिणेसरु ।

रज्जु करतु सुहुँ थिउ तहिँ करकडु नरेसरु ॥१०॥

११

तामेक्कदियहे दूएण एवि
सुणि सयलवसुधरिसामिसालु
पसरतकित्ति अणवरयचाउ
सुदरमड सव्वगुणोहगेहु
सपयावपरज्जियवासरेमु
करि केर महारी देहि कप्पु
इय कहिउ जीवियव्वहो उवाउ
किं लव्वइ भुजहुँ एवमेव

दतिउरनाहु वुत्तउ नवेवि ।
दुव्वारवडरिकुलपलयकालु ।
परमेसरु परमपयाणुराउ ।
दुन्नयदावानलसमणमेहु ।
पइँ आणावइ चपावुरेसु । ५
पडसरहि एवि परिहरहि दप्पु ।
न तो चित्तेज्जहि अप्पठाउ ।
भूयलु किय जाम न सामिसेव ।

वत्ता—दतिपुराहिवइ दइवुज्जमसेन्नसमिद्धउ ।

दूयदुजपियउ आयण्णिवि एउ विरुद्धउ ॥११॥

१०

१२

आहासइ को किर एत्थ सामि
दइवेण समप्पिउ मज्जु रज्जु
किं गोत्तकमे कामु वि पट्टु
सव्व पि पुण्णसामग्गि जामु
मेल्लेप्पिणु मुक्कियकम्मु एत्थु
न वियाणइ अज्ज त्रि तुज्ज राउ
अमिउ व हालाहलु नवर खाहुँ
सो जाहि दूय गपिणु निवारि

भणु दूय केण महु दिन्न भूमि ।
जो सहइ न तहो भुयवधु रज्जु ।
अहवा एहु कि सासणि निउत्तु ।
कुलवलु जसु पोरिसु रज्जु तामु ।
को अवर देहुँ फोडुहुँ समत्थु । ५
तहो लग्गु विरुउ पहुत्तवाउ ।
जो इच्छइ उम्मग्गेण जाहुँ ।
मा हक्कारउ नियसमुह मारि ।

घत्ता—सरिवि पुरउ सहहे पहुनिदावायपलित्तें ।

पारद्धउ भणहुँ दूएण दूयगुणजुत्तें ॥१२॥

१०

१३

न विआणहि अज्ज वि किं पि मूढ
अमुणेप्पिणु अप्पपरस्स सत्ति
किं मागहाइदेवहँ धरित्ति
भणु तेण ताण ते पइसरति
महु हासउ दिज्जइ नवर तेण
जोइगणु किं पसरियकरामु
तुहुँ गोप्पउ व्व सो जलनिहाणु
भणु एवड्डंतरे समउ जेण
अहवा लइ तुज्जु न दोमु कोइ

किं चवहि आलु माणाहिरूढ ।
जो कुवइ तासु निच्छउ भवित्ति ।
चक्कोहिँ दिन्न निव्वाहवित्ति ।
बलु जासु तासु सयल वि डरति ।
ज वग्गइ मसउ सम गएण ।
पुज्जइ तेएण दिवायरासु ।
परमाणुउ तुहुँ सो गिरिपहाणु ।
किं किज्जइ दप्पु समाणु तेण ।
सव्वहो मइनासु विणार्से होइ ।

५

घत्ता—आसन्नम्मि खए विवरीय चिट्ठ मइविव्वभमु ।

पेच्छह कीडियहे किं न हवइ पक्खविणिग्गमु ॥१३॥

१०

१४

को विसहइ दूसह सामिघाय
दूयहो वयणेण विमुक्कसत्ति
आरुट्टु द्दुट्टवयणइँ भणत
हम्मउ न दूउ अन्नाउ एहु
लइ मेल्लि मेल्लि मा धरहि एतु
रुहिरासवु रक्ख पियतु भूय
मा वार वार विप्पियइँ जपि
जइ इच्छहि सेवा थुइ पणामु
पइसरु वणु मेल्लिवि रज्जु भोउ
इयरहुँ पर महुँ कोयडु तासु
दूएण भणिउ जिह नियघरम्मि

सभालहि स मा मरहि राय ।
पक्खुहिय सव्व सामत मति ।
पहुणा विणिवारिय उत्थरत ।
बोल्लउ ज भावइ' त दुमेहु ।
धवु लहउ अज्जु भुक्खिउ कयतु ।
राएण भणिउ जज्जाहि दूय ।
नियसामिहे सघहि एउ गपि ।
ता होहि साहु निमुक्ककामु ।
झायहि जिणु चित्तें धरेवि जोउ ।
पणवइ रणे वाणहिँ जणइ तासु ।
जपइ किं तिह कोइ वि रणम्मि ।

५

१०

घत्ता—पहरइ पवर भड मुहुमुक्कहक्कलल्लक्कए ।

नडियक्कवघसए गयकायरे सरपिहियक्कए ॥१४॥

१५

पहुणा पउत्तु निच्छयपरैणं
 तुहँ महु पमाणु फुडु तहिँ जि काले
 गउ नुरिउ वओहरु कहिय वत्त
 अइविसमु नवर दतिउरनाहु
 पडसरड न तुम्हहँ देड कप्पु
 वयणेण एण अखलियपयाउ
 को सो किं न करइ महु पणामुं
 भणिऊण एउ सन्नाहतूर

रे दूय काई बहुवित्थरेण ।
 पेक्खेसहि सगरे सुहडकाले ।
 कुरु सामिसाल सगामजत्त ।
 मन्नड न किं पि बद्धासगाहु ।
 वोल्लइ ज भावड त मदप्पु । ५
 परिकुइउ पयपड चपराउ ।
 लइ दसमि खलहो कयतधामु ।
 देवाविउ वडरिक्कुडुवजूरु ।

घत्ता—निसुणेवि तूररवु रणरसरोमचपसाहणु ।

सहसा सन्नहेवि चलिउ सहुँ पहुणा साहणु ॥१५॥

१०

१६

एंत्यतरे एप्पिणु चरनरेहिँ
 किं देव अवरवावारसत्तु
 तुज्जुवरि तुरगतरगचारु
 उड्डतवहलधूलीजलोहु
 पसरतकित्तिवेलाविसानु
 पवहतसयडजलजाणवत्तु
 चवलयरवडायानायवदु
 अरिमयरकोवडवाणलिल्लु
 जससखविहूसियउहयकूलु
 वदिणवेयानियरोलराउ
 परिवारपउरजलयररउदुदु

करकडु भणिउ पणमियसिरेहिँ ।
 अच्छहि कुरु सगामहो पयत्तु ।
 सेयायवत्तडिंडीरभारु ।
 दावियगुरुगयघडसेलसोहु ।
 झलकतकोतअसिमीणजालु । ५
 दुल्लघु अकित्तिमलोहचत्तु ।
 गुणमणिआणदियसयणचदु ।
 गूढयरमतगभीरिमिल्लु ।
 अपियविवक्खपायालमूलु ।
 नायण्णसारु अखलियपयाउ । १०
 उच्छल्लिउ दुद्धरु अरिसमुदुदु ।

घत्ता—राए वज्जरिउ आवउ न किं पि पडिवालमि ।

होउ' अमरदि तहो निम्महेवि दुक्खु दक्खालमि ॥१६॥

१७

अनेप्पिणु पहुणा समरभेरि
 रणरसवमेण जियपरंवल्लेण

देवाविय भयथरहरियवेरि ।
 पारदुउ सन्नज्जहुँ वलेण ।

मणपवणवेय पक्खरिय वाइ
 सज्जीकय सदण चारुचित्त
 कोइ वि सखग्गकरु विप्फुरतु
 कोइ वि धरतु धणु गुणसमाणु
 कोइ वि सदप्पु करकलियकोतु
 कोइ वि नरनाहु व गहियदडु
 केण वि करेण सगहिउ कणउ
 केणे वि लइउ हरिसेण परसु
 केण वि करम्मि किउ तिक्खु सेल्लु
 कोइ वि अमरु व्व सनायवासु

गिरिगरुय गुडिय गय दाणराइ ।
 आवेप्पिणु अवसरि मिलिय मित्त ।
 मेहु व सविज्जु ससिसोह देतु । ५
 पडिहाइ सुहडु सज्जणसमाणु ।
 नावइ वरवारणु एकदतु ।
 सुप्पहु व सहलु कोइ वि पयडु ।
 अहवा किं कोइ वि सुयइ कणउ ।
 अहवा पडिहाइ न कामु परसु । १०
 तिक्खु वि अह रुच्चइ कसु न सेल्लु ।
 कोइ वि सरिसामि व ज्ञयपयासु ।

घत्ता—कोइ वि चक्कधरु सरवरु व सलक्खणु दीसइ ।

वज्जमुट्टिसहिउ इदो व्व को वि पडिहासइ ॥१७॥

१८

संगज्जमाणु हारप्पियाए
 भडु भणिउ विवक्खकरिंदकुभ
 महु कज्जु ससीयरनिम्मलाइँ
 अवराइँ वुत्तु अरिदत्तिदत्त
 जिह तुज्ज पसाएँ परमनेह
 क वि भणइ विवक्खण निययकतु
 सामियहो रज्जु तुह कित्ति जेम
 सामत असेस वि परिहरेवि
 छिन्नम्मि रुक्खि पत्तइँ पडति

आलिगेप्पिणु कोइ वि पियाए ।
 दारेप्पिणु असिणा अरिनिसुभ ।
 आणेज्जसु पिय मुत्ताहलाइँ ।
 आणेज्जमु मज्ज निमित्तु कत ।
 परिहमि चूडुल्लउ सामदेह । ५
 पहु तुच्छभिच्चु परवलु महतु ।
 अरिदमण करिज्जसु अवस तेम ।
 मूलिल्लु हणेज्जसु पइसरेवि ।
 सयमेव न पुणरवि सघडति ।

घत्ता—सामिसाले पहए नासइ दिसासु पवलु वि वलु ।

छत्तइँ निवडियए नीसेसु वि न महुरिउल्लु ॥१८॥

१०

१९

काए वि को वि घुसणेण सित्तु
 कासु वि कुलतिलयहो तिलउ भालि
 कासु वि अक्खय निक्खित्त सीसि

नावइ नियरइराएँ विलित्तु ।
 सोहइ छणयदु व नहि विसालि ।
 सोहति नहे उदुतिमिरमीसि ।

१७ १ सुहडसज्जणु समाणु ।

राष्ट्र वि पम्पन नरदुमुममा
 कानु वि मरनु भागतिवाण
 क वि देर महानर धयगम
 दुह ननु यमेन वि मरद्री ननु
 ह्य नद्वानिधान नगदर
 पुम्पिनारु उदयानक्तिपु
 ददणधुमर मयवद नरिदु

रत्नादिष्टि राते गेदर गिमार ।
 इतारिष्टि रागनिष्ट गियाण । ४
 भजारद्री भागद लेदु मर
 चिर्वादिष्टि मरिष्टि मरानु ।
 मोरगिष्टि मुष्टि नरिष्टि मर ।
 मोरद मरिष्टि न मरानु ।
 न मो वि मरिष्टि मुष्टिगिष्टि । १०

पत्ता—गवयि चददनु महदनु जोरिष्टि मूनु ।
 महं गणे कविड मरानु नरिष्टि वि मरु ॥१६॥

२०

वीमद दनु पवलिहे नीमरनु
 महरिमु धोवनर नाद जाम
 अन्नोदु निर्णयिणु मरगनाडे
 रद रहदं तुराग तुग्गमाहें
 पच्चारिवि नरवर नरवरहं
 महरस पदकज्जं भिडति जाम
 मपन नय कयकलयनाहें
 पच्चारिय नयल वि नियनियानु
 कि जुज्जह वृज्जह करह नेह

उदरु उ मरगणना मरु मरु ।
 मरगण उ मरदनु मरनु ताम ।
 ययिष्टि उदरु अरुगिष्टिनाडे ।
 नयंरम नह नयंरमाहें ।
 पदरगनर रितर गिगनाह ।
 पोमावद वत मूमेवि ताम ।
 यिय अरगति दोहें वि दनाहें ।
 जो पहर नामिष्टे अरान तानु ।
 पिउपुत्तहें मगर उवण एह ।

पत्ता—जेमागय जिम जगिउ जिह कट्टिउ जाउ जुवाणउ । १०
 तिह मयलु वि कहिउ वडयक जिह जायउ राउउ ॥२०॥

२१

भो श्राडीवाहणराय एहु
 नामे करकडु कयारितामु
 निमुणेवि एउ अणदिणण
 करकडु वि जामज्ज वि न ताउ
 पणवतु पुत्तु परमेसरेण
 चाणूरकंस जमगोयरेण
 हुउ पुण्णाहिं रायहो पुत्तजोउ

नुह नदणु पयणियजणसणेहु ।
 वम्मादयान गुणगणनित्रामु ।
 परिहरिउ दति पुहर्दिपिएण ।
 उत्तरइ ताम पायत्तु जाउ ।
 आलिगिउ नवनेहहो भरेण । ५
 रुपिणिनुउ व्व दामोयरेण ।
 अणंदे पणच्चिउ वंघुलोउ ।

सव्वेहिँ मि परिओसियमणेहिँ
तुहुँ माय महासड वदणिज्ज

थुय पोमावइ अज्जिय जणेहिँ ।
परमेसरि तुहुँ जयपुज्जणिज्ज ।

घत्ता—पुत्तु कलत्तु घणु गउ पुणु वि मिलइ दुहु खिज्जइ ।
कयपुण्णेण फुडु त नत्थि ज न पाविज्जइ ॥२१॥

१०

२२

तहिँ होतु पुत्तु पुहईधवेण
सोहणदिणम्मि रज्जाहिसेउ
किउ वदिमोक्खु वदिणहुँ दिण्णु
उब्भिय कुलकेउ विचित्त छत्त
गीयाइँ पुरधिहिँ मगलाइँ
नच्चतहिँ खुज्जयवामणेहिँ
सुहत्तिर्यतोयपरिपूरिएहिँ
मुत्ताहलमालालकिएहिँ
अहिँसिचिवि नेच्छतु वि विसालि
किउ पट्टवधु सयल वि विहूड
तुहुँ पुत्त सव्वजणसामिसालु

निउ चपापुर परमुच्छवेण ।
पारभिउ सुहिसयणहिँ समेउ ।
दुत्थियजणाण दालिदु छिण्णु ।
ह्य दुदुहि सरवहिरियदियत ।
दहिदूवक्खयकयमगलाइँ । ५
नरनाहिँ कचणदामणेहिँ ।
निवहत्थाहत्थुदीरियहिँ ।
सिरि वणकलसेहिँ वसकिएहिँ ।
वइसारिउ सीहासणि पहालि ।
तहो तणिय भूमि अज्जु जि पिहूड । १०
इय भणिवि मुएप्पिणु मोहजालु ।

घत्ता—अच्छेवि कइ वि दिण नदणहो धरत धरतहो ।
गउरिसिराउ पइसरिउ सरणु अरहतहो ॥२२॥

२३

आराहेवि धम्मु मुणिदपाय
उप्पाएवि कालेँ केवलक्खु
होएवि जयत्तयपुज्जपाउ
विहरेप्पिणु सुइरु धरायलम्मि
अत्तिमु थिरु धारिवि सिद्धजोउ
सो जायउ बाहासयविमुक्कु
करकडुणा वि एत्तहँ असेस
हुउ सव्वत्थ वि अखलियपयाउ
नयधम्मे रज्जु करंतु लोय
एकहिँ दिणम्मि लीलाकहाए

निम्मूलुम्मूलिवि चउ कसाय ।
नाणुत्तमु लोयालयलक्खु ।
उवएसिवि धम्मु अमिच्छभाउ ।
कइलासहो उवरि सिलायलम्मि । ५
काऊण सेसकम्महो विओउ ।
अजरामरु सासयथाणु दुक्कु ।
नयविक्कमेण साहिय नरेस ।
अहवेहु सव्वु सुक्कियसहाउ ।
पालतु सतु भुजतु भोय ।
जामच्छए पहु सठिउ सहाए । १०

घत्ता—पहुआएसयरु चरु ताम तत्थ सपत्तउ ।

पणवेप्पिणु पयहँ विन्नवइ बुद्धवित्ततउ' ॥२३॥

२४

देव दक्खिणावहि सुहालए
चोडचेडपडीसनामओ
ते सदप्प बोत्तलति वक्कय
नयपरेण ता मइविहूसिओ
गपि तेण ते भणिय निट्ठुर
पणविऊण वसिकयअराइणो
मुएवि देवदेव जिणेसर
नउ नवति तउ कि पउच्चए
सुणिवि सामिसालेण विप्पिय
दसयामि जमरायसासण
करमि वामपाएण चूरण
जे ण मज्झ पणवति माणवा
इय भणेवि मज्जायवज्जिओ
सह बलेण बलतुलियदिग्गओ

अत्थि चोडविसए विसालए ।

रायउत्त अहिमाणधामओ ।

नउ नवति तुह पायपकय ।

ताण दूउ राएण पेसिओ ।

पुणु वि एवि तव्भणित्त नियपुर । ५

कहिउ एव तेणासु राइणो ।

ते नवति सक्कं पि नावर ।

करउ किं पि ज तामु रुच्चए ।

कयत्तमेण सहसत्ति जपिय ।

अवस ताण पिसुणाण सासण । १०

सेहरस्स सतइविसूरण ।

ते जियति देवा न दाणवा ।

सायरो व्व पलयम्मि गज्जिओ ।

वइरिदप्पदलणो विणिग्गओ ।

घत्ता—कइवयवासरहिँ सपत्तु दविडदेसतरु । १५

वे वि समावडिय सजाउ परोप्परु सगरु ॥२४॥

२५

पहरणसंघट्ठुंतजलणि
धाविरकिंकरउरभरियकोत्ति
वज्जततूरवहिरियदियति
कत्तरियछत्तसयधयसमूहि
निवडत्तनिरतरसरवरोहि
भेच्छिक्कमसवसबहलपकि'
गयरइयरत्तसरिसेउबधि
रुहिरासवमत्तपिसायसत्थि
कावालियजोइयपरममुडि

गयदंडाहयतुट्टुत्तचलणि ।

फणिचुभलनिहनिग्गतअत्ति ।

सिवफेक्कररवतोसियकयति ।

विहडावियसुनिविडसुहडजूहि ।

सुन्नासणहिडिरहयवरोहि । ५

हणहणरवकायरजणियसकि ।

सव्वत्थपणच्चियमडकबधि ।

पेक्खयसुररुद्धायासपंथि ।

भेरुडसुडनियरुडखडि ।

घत्ता—पइसेवि आहयणे गरुडेण व णाय निरुद्धा । १०

पोमावइसुएण ते तित्थि वि जिणिवि निवद्धा ॥२५॥

२६

हुकारिवि रोसे वामपाउ
 घल्लइ नरिदु मउलगि ताम
 दट्ठूण भणिउ हा हा ह्यासु
 भयवतहो भववणहुयवहासु
 पडिंविबु जेण पाएण हणहुँ
 इय भणिवि विसन्नमणेण ते वि
 तेहिँ वि नियपुत्तहुँ देवि रज्जु
 कि रज्जे परिहवद्दसियण

उच्चाप्रवि मउलिहँ जाम घाउ ।
 पेच्छइ जिणमुत्ति मणोहिराम ।
 हउँ पावयम्मु परलोयनासु ।
 जिणनाहहो निज्जयमंयणहासु ।
 पारद्धउ कम्मु रउद्दु कुणहुँ ।
 मेल्लिय सपेसिय पिउ ववेवि ।
 जिणदिक्ख लेवि किउ अप्पकज्जु ।
 कि मडएँ रयणविहूसिएण ।

घत्ता—फुडु माणुन्नयहँ दो च्चिय गईउ नरवडसिरि ।

अहवा सव्वहिय सिरिचदजसुज्जल तवसिरि ॥२६॥

विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणुमाले अत्थसदोहसाले ॥

भुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतोसे ॥

इय करकडचरित्ते सिरिचदमुणिदविरइए रम्मे ।

रायत्तयनिज्जिणणो सत्तारहमो इमो सधी ॥

॥ सधि १७ ॥

संधि १८

१

ध्रुवय—साहिवि रायत्तउ निवइ नियत्तउ काणणम्मि गिरिसरिहि तडे ।
आवासिउ साहणु परबलसाहणु तेरनामपट्टणनियडे ॥

उत्तारियपक्खरगुड ह्यगय
मुक्का वसह करह खर चारहो
माणइ धवलु को वि कोमलतणु
मुग्रवि चारु कटयतरु चिन्नउ
विरइउ सरु खरेहिँ असुहयरउ
खद्ध^१ गइदहिँ काणणि सल्लइ
केण वि करिणा वणकरि माणिउ
तावच्छउ सइ जणियाणक्खहो
निहय तुरगमेहिँ किं किज्जइ
छिन्न कुठारहिँ कम्मयरहिँ तरु
खणियउ तिउणिउ थिन्नु^१ हुयासणु
रद्ध रसोइ पउररसवजण
पहुणा भोयणु वइरिवियारें

विरइय वरपडमय मदिरसय ।
लग्गउ जणु नियनियवावारहो ।
रुच्चइ अह न कासु कोमलतणु । ५
करहहिँ अह लवभइ चिरदिन्नउ ।
अह किं खर चवति महुरयरउ ।
सा को मुयइ चित्ति जा सल्लइ ।
जाणवि गधे लडउ न पाणिउ ।
गधु वि दूसहु होइ विवक्खहो । १०
जलु वि सकज्जवसेण लइज्जइ ।
तिक्खसणु अह किं कासु वि वरु ।
दुज्जणो व्व जणतावपयासणु ।
सुकइकहा इव जणमणरजण ।
भुत्तउ रज्जु व सहुँ परिवारे । १५

घत्ता—भुत्तुत्तरकालए नरनियरालए थिउ अत्थाणि नरेसरु ।

तणुपहविप्फुरियउ मुरपरियरियउ न सग्गम्मि सुरेसरु ॥१॥

२

तहिँ अवसरि पहु पेक्खहुँ आयउ
पेसियपडिहारे परमेसरु
ढोइउ पाहुडु चित्तयकत्तिउ
मोत्तिय वसविसेसुवभव सुह
नियवि नरिदे वत्थाहरणहिँ
पुच्छिउ पइँ पसरियपचाणणि
एउ सुणेविणु आहासइ सिवु
देव दिवायरतेय सुहालउ

सिवु नामेण भित्तु विक्खायउ ।
दिट्ठु तेण नविऊण नरेसरु ।
नावइ दुज्जणरइयउ मेत्तिउ ।
घरिय करिदकलह चमरीरुह ।
सम्माणिउ भिल्लाहिउ वयणहिँ । ५
दिट्ठु चोज्जु किं किचि वि काणणि ।
कोऊहलु आयण्णए पत्थिवु ।
सहसथभु नामेण जिणालउ ।

नं चूडामणि एक्कु समुन्नउ
न वियाणिज्जड काई वि कारणु

अत्थि रप्फु तहो उवरि रवन्नउ ।
एक्को सेयवणु वरवारणु । १०

घत्ता—कमलई तोडेप्पिणु सरि पइसेप्पिणु सोंडई लेवि तिकालु जलु ।
अहिसिचिवि अचिवि त परियचिवि जतु नियच्छमि अतुलवलु ॥२॥

३

विभियचित्ते त निसुणेप्पिणु
मज्झु वि दावहि त कोऊहलु
हुउ अगग्रा गउ जत्थ मणोहरु
जोग्रवि राणएण अहिणदिउ
देवि पयाहिण पुज्ज करेप्पिणु
पुव्वकमेण नाउ आवतउ
आलोएप्पिणु रइयवियारणु
देवपहाउ कोइ होएसइ
एम भणेप्पिणु गघहिँ धूवहिँ
सुइसरीरु दवभासणि राणउ

सो पहुणा पउत्तु विहसेप्पिणु ।
दावमि एव भणेप्पिणु नाहलु ।
वणपच्छिमदिसाए त जिणहरु ।
कयजयजयरवेण जिणु वदिउ ।
उप्परि उव्वीहरहो चडेप्पिणु । ५
पुज्जिवि रप्फु नियच्छउ जतउ ।
भणइ सामि सामन्नु न कारणु ।
इयरहँ एउ विहाणु न दीसइ ।
पुज्जिवि रप्फु पुक्कवलिदीवहिँ ।
थिउ थिरु लेवि पइज्ज समाणउ । १०

घत्ता—पाहाणहो रत्तउ किं करि भत्तउ एउ वियाणिउ जाम नउ ।

ताम न जणु रजमि भोयणु भुजमि सासणदेवि ण पियमि पउ ॥३॥

४

तहिँ जिणवइभवणम्मि सुहकर
अच्छइ जाम निसन्नु नरेसरु
ते तहिँ उववासिउ^१ अहिरामए
सुणु नरेद सदेहु विणासमि
वसे दसासहो एत्थ मणोहरु
सयलए^२ मलए निएवि समुन्नउ
जिह कइलासे आसि भरहेसे
तिह तेण वि तहिँ कचणमणिमय
काले जते उत्तरसेढिहे
अमिय-सुवेय वेन्नि विज्जाहर
वदणहत्तिहेउ अणुराइय

मणे ज्ञायतु पच परमक्खर ।
ता तत्थायउ देउ अहीसरु ।
बोत्लाविउ निसि पच्छिमजामए ।
निरवसेसु वित्ततु पयासमि ।
हीतउ सुज्जतेउ विज्जाहरु । ५
पूइ नामु गिरि सुट्ठु रवन्नउ ।
चउवीस वि तित्थयर विसेसे ।
काराविय थप्पिय परमप्पय ।
पुरे नहवल्लहम्मि गयरुढिहे ।
सोयरभाइ भव्व महिमाहर । १०
पव्वदिणम्मि तत्थ सपाइय ।

घत्ता—परियच्चिवि अच्चिवि सुक्कउ सच्चिवि सज्जण धम्मविणोयपिय ।
गुणपावस' रजियमाणस जिणपडिमाउ नियत थिय ॥४॥

५

सुदरयर तोडियपमुपासहो
पडिच्छदेण एण नियपुरवरि
एम भणेवि लेवि परिओसे
एत्थ थवेवि देउ वदेप्पिणु
ता तिनमेत्तु वि वलड न थाणहो
तत्येव य छुहेवि मजूसहे
गउ खेयर तुरतु तेरापुरु
वदिवि पुच्छिउ पडिमहे वइवरु
निच्छउ एत्थ पएमि विसालउ
पइँ सवोहिउ धम्मु लएसड
निच्चल होवि तेण थिय सुदर

तहिँ पडिविवु नियच्छिवि पासहो ।
अवर वि पडिम करावमि जिणहरि ।
आइउ अमियवेउ आयामे ।
जामुच्चाइय पडिम निएप्पिणु ।
जाय महत्त चित नहजाणहो ।
विज्जारइयहे रयणविहूसहे ।
दिट्ठउ सहसकूडि त्रसहरु गुरु ।
अक्खइ अरहिनाणि संयमधरु ।
होसइ खेयर चारु जिणालउ ।
परभवे सा मुवेउ पुज्जेसइ ।
जिणपडिमा पयपणयपुरदर ।

घत्ता—निग्गथ ह्वेप्पिणु एउ मुणेप्पिणु एत्थु जि निव्वेएँ लइय ।
पणवेवि तमोहरु साहु जसोहरु वे वि सहोयर पव्वइय ॥५॥

६

तत्थ सुवेउ परीसहभग्गउ
सेयसरीरु गिरि व गरुयारउ
इयरु वि काले कालु करेप्पिणु
हुउ कप्पुवभवु देउ महाइउ
कयचिररिसिरुवे सभाविउ
मयलु वि चिरवइयरु जाणाविउ
हा पाविट्ठे किं पि न भाविउ
उवसंतेण तेण पडिवन्नउ
पुव्वपडिमपरिणामु वियाणिवि
पुज्जेज्जमु पणवेज्जसु भावे

मुउ मिच्छत्ते इह हूयउ गउ ।
जूहवई मयधु परमारउ ।
आराहण भयवइ भावेप्पिणु ।
मुणिवि भाइ सवोहहुँ आइउ ।
लेप्पिणु पुव्वनामु वोल्लाविउ ।
हुउ जाईसरु पच्छाताविउ ।
मइँ अप्पाणउ सइ सताविउ ।
इसिणा सावयधम्मु विइन्नउ ।
उवएसियवयणहिँ सम्माणिवि ।
जेण सहोयर मुच्चह पावे ।

घत्ता—इह को वि मुणेसइ एह लएसइ जइयहुँ उक्खणेवि पडिम ।

सन्नासु करेज्जमु सव्वुवएज्जमु तइयहुँ तुहुँ गयगुरुगहिम ॥६॥

७

एम भणेवि देउ गउ सग्गहो
 न वि कामु वि सो रूसइ रज्जइ
 पासुयसलिलाहारु पउजइ
 जतु सतु पहि जंतु नियच्छइ
 पुणरवि आहासइ नायामरु
 वेयड्ढहो सोहाहयसुरउरि
 नीलमहानीलक्ख इहाइय
 दाइएहिँ ते समरि परज्जिय
 चिरकयदुक्किकयकम्मे पेल्लिय

करिवरो वि परमहो वेरग्गहो ।
 पुव्वकमेण जिणेसरु पुज्जइ ।
 धम्मज्ञाणि मणु धीरु निउजइ ।
 एण विहाणँ सो एत्थच्छइ ।
 आयण्णाहि अवरु वि निव वइयरु । ५
 दाहिणमेढिहि रहनेउरउरि ।
 होता खग निव वेत्ति वि भाइय ।
 जाया विज्जाविहवविवज्जिय ।
 निययनिवासहो देसहो घल्लिय ।

घत्ता—मुणि नाणदिवायरु नामे सायरु पुच्छिउ तेहिँ पणट्टमलु । १०
 पुणु मयणवियारा अम्ह भडारा होसइ कड्यहुँ विज्जवलु ॥७॥

८

कहइ साहु दक्खिणदेसतरि
 तेराउरि निवसत सहरिसहिँ
 धारासिवपल्लिहे आसन्नउ
 गिरियडि कारावेवि पइट्ठिवि
 अट्ठुववासे मताराहण
 एउ सुणेवि नवेप्पिणु मुणिवरु
 साहेवि सव्व देस देसाहिव
 एहु जिणालउ तेहिँ कराविउ
 एव सव्वु वित्ततु पयासिउ
 पुणु वि भणिउ निव' तुहुँ पुण्णाहिउं

अहिरविसग्र धणधन्ननिरतरि ।
 बोलीणेहिँ दुवालसवरिसहिँ ।
 सहसथभु जिणभवणु रवन्नउ ।
 उच्छउ अट्ठाहियहे अणुट्ठिवि ।
 होसइ तुम्ह समीहियसाहण । ५
 एत्थागय ते तेरापुरवरु ।
 थिय सुहुँ रज्जु करत महानिव ।
 पुणरवि विज्जाहरपउ पाविउ ।
 नाएँ रायहो मणु परिओसिउ ।
 पुव्वजम्मि पइँ जिणु आराहिउ । १०

घत्ता—चित्तिउ पाविज्जइ परवलु भज्जइ तासु सुरा वि हु दिति वरु ।
 निम्मलु जसकित्तणु होइ पहुत्तणु महिउ जेण जिणदेउ वरु ॥८॥

९

निच्छउ तुह पुण्णेहिँ चलेसइ
 इय भणेवि गउ अहि आवासहो
 कुसुमसमूहु व गयणपलासहो

पडिम पमाणु एह जाएसइ ।
 एत्तहिँ उइउ विवु दिवसेसहो ।
 न चिंतातरुफलु पुहईसहो ।

सूरे तमभडु दूरोसारिउ
जयसंगलरवेण तहिँ गपिणु
दिनु घाउ सव्वणहु सरेप्पिणु
नरवडु सव्वु को वि परिओसिउ
पूर पडज्ज नरिदहो केरी
पुज्जिय पहुणा कयनवयारे

उट्टिवि राएँ जिणु जयकारिउ ।
अट्टपयार पुज्ज विरएप्पिणु । ५
कड्ढिय जिणतणु रप्फु खणेप्पिणु ।
देवहिँ साहुकारु नहिँ घोसिउ ।
आणिय लयणहो पडिम भडारी ।
किउ पारणउ समउँ परिवारें ।

घत्ता—मगलु गाडज्जड दुट्टुहि वज्जइ जिणमहिमुच्छउ नवनवउ । १०
किज्जइ वित्तियारे एण पयारे थिउ तेत्थु जि चिरु लद्धजउ ॥१॥

१०

राएँ धम्माणदियचित्तें
मूलपडिमसीहासणरोहण
पुच्छिउ वाहरेवि सिलकुट्टउ
भणिउ तेण सुणि सिरिकुलमंदिर
वज्जिउ तेण देव रुवारे
न सहसत्ति असइहमाणे
नट्टउ लयणु जलोहे पूरिउ
हा हा हउँ पाविट्ठु अउन्नउ

एक्कहिँ दिणि पाडिमाउ नियतें ।
पाहणगंठि निएवि असोहण ।
टुट्टु एहु कि दीसण मोट्टुउ ।
अच्छइ एत्थ पउरपाणियसिर ।
नावणीउ टकियहिँ पहारे । ५
फोडावियउ अणायपमाणे ।
वहु वमुहाणाहेण विमूरिउ ।
नासिउ जिणहरु जेण रवन्नउ ।

घत्ता—नेमित्तियवयणें पाहणचयणे वधाविउ पहुणा वरणु ।

जलु जेम न निग्गड लोयहो लग्गइ वाहिँ दुहिक्ख होइ मरणु ॥१०॥ १०

११

करइ पलउ जो जिणवरभवणहो
एउ भणतु निच्चदूमियमइ
एप्पिणु पुणु नाएण णिरोहिउ
एत्तिउ कालु एउ मइँ रक्खिउ
अग्गण दूसमकालपहावे
घरि घरि तक्कर दुक्किय' दुज्जण
तेण समत्थु वि हउँ मणिघडियहो
अवरु वि एयहो उप्परि एरिसु
एहु जि पायच्छित्तु निरुत्तउ
एम भणेवि सेहु गउ भवणहो

तहो कहिँ मुद्धि धम्मविद्वणहो ।
अच्छइ असइ न केवइँ भूवइ ।
सोउ करतु सामि संवोहिउ ।
संपड कज्जवसेण उवेक्खिउ ।
होएवउ लोएण सपावें । ५
होसहिँ फुडु विरला सुहिँ सज्जण ।
थिउ उपेक्ख करेप्पिणु पडिमहो ।
कारावहिँ जिणहरु विडवहिँ जसु ।
उट्टु राय मच्छहिँ' अवचित्तउ ।
उइउ विवु गयणगणं तवणहो । १०

११. १ दुक्खिय । २ म छत्ति ।

घत्ता—थोप्रहिँ दिवसहिँ पुण्णविसेसहिँ सिद्धु महारायहो लयणु ।

जिणविवविराइउ सुट्ठु विराइउ आणदियजणमणवयणु ॥११॥

१२

निप्पन्न महएविहे वीयउ
गुरुहरिसेण रइयराहासय
देवहो भूमिदाणु बहु दिन्नउ
अच्छिवि सुडरु तत्थु गउ चपहे
जामच्छइ सुहुँ रज्जु करतउ
मुणिआगमणु मुणेवि सयाणउ
पणवेप्पिणु आसानिसिनेसरु
कहि भयवत कोइ हउँ होतउ
भासइ एउ सुणेविणु सुव्वउ

खुड्डयलयणु अवरु तहिँ तइयउ ।
तिहिँ वि पइट्टु एककलग्गे कय ।
रोडजणहो रोडत्तणु छिन्नउ ।
कचणगेहपहाहयचदहे ।
सवणसघु ता तहिँ सपत्तउ ।
गउ लहु वदणहत्तिप्र राणउ ।
पुच्छिउ पकयणाहु मुणीसरु ।
केण गुणेण सुसपय पत्तउ ।
चिरभवकम्मु नराहिव सुव्वउ' ।

५

घत्ता—नामे धणमित्तउ वणिवइ होतउ तहिँ तेरापुरि सोहणए ।

१०

रज्जम्मि सुहालप्र धम्मनयालप्र नीलमहानीलहँ तणए ॥१२॥

१३

तहो धणदत्तु नाम गोवालउ
सो कयाइ वणु लेप्पिणु सुरहिउ
पइसिवि एककु तेण सुव्वुत्तमु
आवइ जाम लेवि किर तीरहो
भणइ छलेण लइउ पइँ सयदलु
सक्कु वि अन्नु न एयइँ पावइ
एयहिँ नायराउ परपुज्जइ
लइ तुह खमिउ जाहि जो सारउ
तहो पय पुज्जेज्जसु जय कारिवि
एम करेमि भणेवि तुरतउ

होतउ पुत्तोवमु विणयालउ ।
गउ सरु दिट्ठु सरोयहिँ सुरहिउ ।
खुडिउ पोमु हरिसेण अणोवमु ।
ता नायामरु निग्गउ नीरहो ।
देवयरक्खउ एउ सपरिमलु ।
अह को सिहिसिहाहिँ तणु तावइ ।
इट्टु देवपय पुण्णु समज्जइ ।
सव्वहँ वदणिज्जु गरुयारउ ।
जइ अन्नहो तो घल्लमि मारिवि ।
गउ घरु त लएवि धणयत्तउ ।

५

१०

घत्ता—गपिणु धणमित्तउ तेण पउत्तउ मिलिउ करेप्पिणु करजुअलु ।

आरा करि पहु पय एउ सुसपय जेण चढावमि वरकमलु ॥१३॥

१४

पुच्छिउ वणिणा केण निमित्ते
निरवसेसु सयवत्तहो वइयरु
१२ १ सुद्धउ ।

भासिउ गोवालेण हसते ।
त निसुणेवि पयपइ वणिवरु ।

पुत्त न होमि सव्वगरुयारउ
 एहि जाहुँ तहो एण मणोज्जे
 तहिँ पच्छावि सो वि जिणवरघरु
 घणयत्तेण सवणिणा गपिणु
 तेण वि भणिउ स [-व्वजणहियरउ]
 एहि जाहुँ तहो पय सव्भावे
 तो तहिँ गपि भडारउ भासिउ
 जो तिहयणवईहिँ पणविज्जड

सव्वहँ नीलराउ वडारउ ।
 पुज्जहि कमकमलाइँ पउज्जे ।
 चलिउ नमसहुँ साहु जसोहर । ५
 वुत्तु राउ पुव्वत्तु नवेप्पिणु ।
 अच्चइ साहु जसोहर हयरउ ।
 पुज्जहि जेण विमुच्चहि पावे ।
 तेण वि अरुहएउ उवएसिउ ।
 तासु अवरु को गरुउ भणिज्जड । १०

घत्ता—मुणिवयणु सुणेप्पिणु कर मउलेप्पिणु पणवेप्पिणु परमेसरहो ।
 गोत्रालेण अमोल्ले एकके फुल्ले पुज्जिय पाय जिणेसरहो ॥१४॥

१५

तेण गुणेण एत्थ विक्खायउ
 आसमुद्द मेडणिपरिपालउ
 जिणपुज्जाफलेण विज्जाहर
 जिणपुज्जाफलेण डदत्तणु
 जिणपुज्जाफलेण जगपियरहो
 अहवा लड कि वहु वणिज्जड

सो तुहुँ चपावइ सजायउ ।
 जयसिरिधित्तसयंवरमानुउ ।
 होति अमर अमेयमहिमाहर ।
 पाविज्जइ जए चक्कवइत्तणु ।
 लव्वभड नामु गोत्तु तित्थयरहो । ५
 जिणपुज्जाफलु कहो उवमिज्जड ।

उक्त च-पूजितव्यो जिनो नित्य त्रैलोक्येऽवरपूजित ।

जिनपूजासम पुण्य न भूत न भविष्यति ॥

पुज्जिउ जिणु न जेण मुणिभोयणु
 मुग्रवि मोहु सव्वावडरोहणु
 दुल्लहु ते मणुयत्तणु हारिउ
 विणु रयणत्तएण कि किज्जइ
 मुहमड एउ सव्वु निसुणेप्पिणु
 पणवेप्पिणु मुणिदु उवसतहिँ

दिन्नउ सव्वसोक्खसजोयणु ।
 कउ वरतवु न जेण जयखोहणु १०
 तहो पुणु दुग्गइदुक्खु निरारिउ ।
 गमणागमणु कयावि न खज्जइ ।
 सिरि सिरिदत्तहो पुत्तहो देप्पिणु ।
 लेप्पिणु तवु समेउ सामंतहिँ ।

घत्ता—जिणवरु आराहिवि चलमणु साहिवि सिरिचदुज्जलकित्तिजुउ । १५

करकडु नरेसरु गउ परमेसरु देवलोउ देविदु हुउ ॥१५॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ।

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णत्तपयदसंजुत्ते ।

करकंडसग्गमणो अट्टारहमो इमो संघी ॥

॥ सधि १८ ॥

संधि १६

१

भुवणकमलदिवसेसरु
भक्तिफल सभूसमि

अहिवदेवि जिणेसरु ।
रोहिणिचरिउ समासमि ॥

धम्माणुरायरजियमणेण
गंपिणु विउलइरि तिलोयसरणि
पणवेप्पिणु भावे निम्मलाड
गोत्तमु मुणि विणयवियाणएण
आणंदह भव्वजणाहि चित्तु
किह भमिय भवतर सहिउ दुक्खु
किह किउ नक्खत्तुववासु ताए
निसुणेवि एउ वरमइविहूइ
भो जिणमुणिपयपकयदुरेह

एक्कहिँ दियहम्मि सपरियणेण ।
सिरिवीरजिणेसरु समवसरणि ।
निसुणिवि धम्माधम्महो फलाइँ । ५
परिपुच्छिउ सेणियराणएण ।
उवएसह पहु रोहिणिचरित्तु ।
सपत्तु पुणो वि हु केम सोक्खु ।
किह मुणिउ न सोउ अणोवमाए ।
वज्जरइ नरिदहो इदभूइ । १०
निसुणहि मगहेसर परममेह ।

घत्ता—नियसोहाह्यसुरपुरि
रिद्धिए जियमघवतउ

एत्थ भरहे चपापुरि ।
अत्थि राउ मघवतउ ॥१॥

२

धयरट्टगईए महासईए
सिरिपालपहूइय गुणहिँ जुत्त
सव्वहुँ लुह्यारी रोहिणि त्ति
सा कत्तियनदीसरदिणम्मि
गधक्खयपुफहिँ पुप्फकेउ
गपिणु अत्थाणि जिणेससेस
कर जोडिवि लेवि असीस भाल'
जोव्वणभरभूसिय चारुरूव
निवसड घरि वड्डु कुमारि जासु

महएविए तासु सिरीमईए ।
जणिया मयणोवम अट्ट पुत्त ।
सुय नाइँ सुहकर कामकित्ति ।
उववासिय तोसियभवियणम्मि ।
पलयानलु पुज्जिवि परमदेउ । ५
अप्पिय तईँ तायहो हयकिलेस ।
वड्डसारिय राएँ अकि वाल ।
चित्ताविउ निवड तिएवि धूव ।
जणजपणु दुज्जसु अवस तासु ।

घत्ता—इय चित्तिप्पिणु पुज्जिय
लेप्पिणु मत्तिचउट्टउ

पुत्ति निवासि विसज्जिय ।
पहु मत्तणए पइट्टउ ॥२॥

१०

३

विउलमइसुमइमुयसायराण
 पहुवयणु मुणेवि मुबुद्धिनामु
 किं बहुणा सामि सयवरेण
 नीसेसहँ मतहँ मत्तु एहु
 मन्निउ सव्वेहिँ वि एउ चारु
 विरइय सामग्गि समग्ग झत्ति
 हक्कारिय नरवड निरवसेस
 थिय कचणमयमचेमु जाम
 जणमणु मोहति मणोहिराम

घत्ता—बहुलक्खण सुहयारी
 अक्खइ धाइ सुगत्ती

वयणावसाणे सुयसायराण ।
 आहासइ मंति मणोहिरामु ।
 सपज्जउ सुहुँ सव्वहुँ वरेण ।
 मा तुट्टउ केण वि सहँ सिणेहु ।
 जोइउ गहचारु मुहुत्तु चारु । ५
 पइसारिय वन्नग्र रायउत्ति ।
 सम्माणिय राएँ विविह्वेस ।
 नीसरिय रइ व्व कुमारि ताम ।
 पइसरिय सयवरे पुरिसकाम ।

मुकह व सालकारी । १०
 भमड णरिद नियती ॥३॥

४

सहसत्ति चित्ति पइसतियाग्र
 को वि कुडल मेहल वलय हार
 आयरिसे कांइ वद्धाणुराउ
 छोहधु को वि सा नियवि जति
 कामु वि गलि लग्गउ कामपामु
 निट्ठुर उरि निवडियमयणवाणु
 कामु वि जरु लग्गउ कामडाहु
 केण वि नियलज्जह दिन्नु तोउ
 हुउ कामगहिल्लउ को वि राउ
 कर मोडइ को वि कयगभगु
 मणि को वि विसूरइ निववरिट्ठु

घत्ता—एवविह बहु चेहूउ
 धीर वि कामे कायर

किय रायहँ विविह वियार ताग्र ।
 उत्तारइ परिहइ वार वार ।
 पुणु पुणु वि पलोयइ वयणराउ ।
 दढ दाढियाउ तोडग्र तडत्ति ।
 विहुणइ सिरु छोडइ केसपासु । ५
 मुच्छेवि पडिउ कोइ वि जुवाणु ।
 नीससइ सुसइ कोइ वि सवाहु ।
 वियलेण हसाविउ सयललोउ ।
 जंपइ जंभावइ मूढभाउ ।
 नच्चाविउ मयणे विविहभगु । १०
 विणु पुण्णहिँ किं लब्भइ मणिट्ठु ।

पावियदूसहनिट्ठु ।
 कय नरवर कयायर ॥४॥

५

नेवालहो नेमि व हिययदार
 पीड व मगालहो मंगलासु

जमणेसहो जमकरवत्तधार ।
 हाणि व वंगालहो तणुवलासु ।

पचालहो' पाणविपत्तिय व्व
 टक्कहो कसमीरहो कालरत्ति
 मारि व मालवियहो नत्थि भति
 हुय लाडहो विरहसमुद्वेल
 कन्नाडहो कत्तिय कालकील
 दविडेसहो दूसहदुहविहूइ

घत्ता—तक्खयदिट्ठि व मारइ
 मुण्णवि सव्व गयसोयहो

जालधररायहो जमपुरि व्व ।
 गुज्जरहो गरुय न गरलसत्ति ।
 चेईसहो चेइय ण वलति । ५
 कोकणयहो दूसह कालवेल ।
 चोडह चडक्क न डहणसील ।
 विसमयर कलिगहो न विसूइ ।

को वि न मणु साहारड ।
 गय सा पासि असोयहो ॥५॥ १०

६

जाणेवि सभाव विसुद्धवेणु
 पेक्खेविणु त विभियमणाप्र
 कहि कवणु एहु कि को वि देउ
 भासइ वियड्ढ निसुणेवि एउ
 करिपुरपरमेसरु वीयसोउ
 देवीप्र जाउ विज्जुप्पहाप्र
 लइ वरहि अणोवमु सव्वसारु
 वयणेण एण धाइहे तणेण

घत्ता—सो नयणुप्पलमालप्र
 पुज्जिउ जउ व विसालप्र

करिपालएण थिर किय करेणु ।
 आउच्छिय बुद्ध वियक्खणाप्र ।
 किं किन्नरु खेयरु मयरकेउ ।
 हलि सुयणु एहु गुणगणनिकेउ ।
 तहो तणउ तणउ नामे असोउ । ५
 नावइ सिरिविजउ सयपहाप्र
 अज्ज वि मणोज्जु अच्छइ कुमारु ।
 सहसत्ति ताप्र तोसियमणेण ।

पच्छा मणिमयमालए ।
 आसि सुलोयणवालप्र ॥६॥ १०

७

ज घित्त माल करि लग्ग वाल
 उदीविय चेईसेण सव्व
 सकेइय सुय मघवतएण
 करिवरपुररायहो वरिउ पुत्तु
 जइ अछप्र आयहो उवरि भाउ
 किउ एउ सव्वु जणरजणत्थु
 किं बहुणा वे वि हणेवि वाल
 निसुणेवि एउ हयसमरभेरि

त खुहिय राय मच्छरविसाल ।
 तुम्हहँ फुडु सव्वगेण भव्व ।
 परिहरिवि असेस वि ताप्र तेण ।
 पेच्छह कि पुरिसहो होइ जुत्तु ।
 तो कि हक्कारिउ वरनिहाउ । ५
 तुम्हारिसाहुँ केवलु अणत्थु ।
 धिप्पइ वलेण मयणत्थसाल ।
 सन्नद्ध मुहड सगहियखेरि ।

विभियमणु सहूँ राएण लोउ
 चारणमुणि आयउ रूपकुभु
 जाणाविय वणपालेण तत्त
 गपिणु पणवेप्पिणु रूपकुभु
 किं महिलहिं सोयवसेण रुनु
 महु सुयहँ सुयाहँ वि पुव्वजम्म-

घत्ता—ता परमावहिनेत्ते
 पारदुउ तमु नासहँ

जामच्छइ ताम तिकालजोउ । ५
 अवरु वि नामेण सुवण्णकुभु ।
 किय राएँ वड्ढणहतिजत्त ।
 पुच्छिउ मुणि कम्मासवनिमुभु ।
 किं रोहिणीय किउ आसि पुत्तु ।
 सवधु पयासह पहयछम्म । १०

वरगिराए भयवन्ते ।
 रायहो वइयरु भासहँ ॥१४॥

१५

भासइ रिसि आयण्णह नरिंदु
 इह होतउ वारह जोयणेहिँ
 मियमारि तामु तहिँ वसइ वाहु
 सव्वोसहिचारणु नाणसोक्खु
 आयावणि सठिउ सहियनिट्ठु
 मुणिमाहप्पेण न जीवघाउ
 चितइ हयासु हा अज्जु मज्ज
 लगइ न घाउ न हवइ पमाउ
 परियाणिउ पुणु निच्छउ अणेण

घत्ता—एत्थतरि दिव्वासउ
 इयरेण वि रुसेप्पिणु

एत्थत्थि नीलु नामे गिरिंदु ।
 उत्तरदिसाहि सोहिउ वणेहिँ ।
 एक्कहिँ दिणि काममियकराहु ।
 मुणि मासोवासिउ जसहरक्खु ।
 पारद्विहिँ आएँ तेण दिट्ठु । ५
 हुउ आउ भमेप्पिणु वणु चिलाउ ।
 कि कारणु गय पारद्वि वज्ज ।
 नासेवि जाइ वणयरनिहाउ ।
 महु पहउ कज्जु दुइसणेण ।

गउ भिक्खहिँ पिहियासउ । १०
 मुक्किय सिल तावेप्पिणु ॥१५॥

१६

एत्तहिँ रिसि चरिय करेवि पत्तु
 ता दीविउ अग्गि पलित्त पाय
 थिरु मुक्कज्जाणे अतयडु जाउ
 कोडेण सडेप्पिणु सत्तमम्मि
 नरयम्मि महामुणिपलयकारि
 तेत्तीसपअोनिहपरमियाउ
 पुणु पुणु वि नरयत्तिरिएसु जाउ
 उपत्तु दडे गोउलियगेहि
 सो नीलगिरिहे गाईउ लेवि

जा थाइ सिन्नाहे पमायचत्तु ।
 थिउ साहु मुएवि ममत्तराय ।
 गउ मोक्खहो होवि तिलोयराउ ।
 दियहम्मि मरेप्पिणु तमतमम्मि ।
 सजायउ नारउ हरिणमारि । ५
 तहिँ दूसहु दुक्खु सहेवि आउ ।
 सपइ एत्थेव पुरम्मि पाउ ।
 सुउ वसहसेणु गवारिदेहि ।
 गउ मारिउ दवदहणे दहेवि ।

घत्ता—वत्त सुणेप्पिणु मायप्र
सुयसोएँ धाहाविउ

वहुनारियणसहायए ।
सयलु वि पुरु रोवाविउ ॥१६॥

१०

१७

पवित्तु पुरम्मि पयासियखेउ
सुणिज्जउ सपइ धम्मपियाहे
पलद्धपससि पयाहियकज्जि
पसिद्धु असखधणो धणमित्तु
सिरि व्व निवासहो सीलपवित्त
चिरतणदुक्कियकम्मनिवध
न कोइ वि जाहि समीवइ ठाइ
तहिं जि पुरे वणि सायरसेणु
खलो स [सया वि] विमुक्कसधम्मु
कयाइ तिणा कय चोरिय लद्धु

नरेसर सोयहो कारणु एउ ।
भणामि भवावलि तुज्ज पिआहे ।
इहेव पुरे वसुपालहो रज्जि ।
वणीवइ होतउ निम्मलचित्तु ।
सलक्खण तासु पिया धणमित्त । ५
हुया तहो पुत्तिय पूइयगघ ।
दुगधभएण पलाइवि जाइ ।
सिरीमइ भज्ज सुओ सिरिसेणु ।
सया वि अणुद्वियकुच्छियकम्मु ।
धरेवि तलारनरेहिँ निवद्धु । १०

घत्ता—सुणिवि पडहु वज्जतउ
जाएप्पिणु धणमित्ते

सो मारहुँ निज्जतउ ।
भणिउ दयावरचित्ते ॥१७॥

१८

जइ तणय मज्झु
तेणुत्तु माम
धणमित्तएण
रक्खिउ कुमारि
सिरिसेणु रत्ति
दुग्गध ताय—
एक्कहिँ दिणम्मि
तवगुणसमिद्ध
कित्तिहरराउ
सोऊण धम्मु
अवसर लहेवि
निंदियजणेण
अमियासवेण
सोरट्टि चारु

परिणहि तो वारमि मरणु तुज्झु ।
परिणमि मेल्लावि मणोहिराम ।
नरनाहहो ढोइयवित्तएण ।
परिणाविउ तणुदुग्गधनारि ।
तहे गधभएण पलाणु ज्जत्ति । ५
भवणम्मि थिया भग्गाणुराय ।
तत्थाया मुणि नदणवणम्मि ।
अमियासव पिहियासव पसिद्ध ।
गउ वदहुँ पुरपरियणसहाउ ।
सजाउ चत्तमिच्छत्तकम्मु । १०
दुग्गधप्र मुणि पुच्छिउ नवेवि ।
हुय एरिस हउँ कम्मेण केण ।
पारद्धउ कहहुँ हयासवेण ।
पुरु अत्थि पुत्ति धणकणयसारु ।

घत्ता—एत्तहँ चपापुरवइ अवरु ससेन्नु सुयापइ ।
अमरिसवस सन्नद्धा नाइँ कयत विरुद्धा ॥७॥

१०

८

सव्वेहिँ मि किज्जइ काइँ एहिँ
लइ इंतु पसाएँ माम तुज्जु
तुहँ नियह चोज्जु रक्खहि कुमारि
पहुणा पउत्तु अच्छउ कुमार
मइँ कलिउ चित्तु तुह कवण तत्ति
इय वारिज्जतु वि वइरिसेन्नि
एत्तहँ परचक्कहो चपनाहु
सजाउ महाहउ पलयकालु
दूसहभडहक्कारवरउद्दु
पवहंतरत्तसरिदुत्तरिल्लु
सरनियरनिवारियरविपयामु

महु हरिहिँ वरायहिँ नं गएहिँ ।
सक्कु वि समरगणे मरइ मज्जु ।
पडिभडहँ भिडमि हउँ करमि मारि ।
गउरविउ अमह तुहँ वइरिमार ।
लइ दावमि खलहँ कयतथत्ति । ५
आलगु गपि जलणु व्व रन्नि
अम्भिडिउ ससिहँ न सवलु राहु ।
नच्चतकवधनिरंतरालु ।
मज्जायविवज्जिउ न समुद्दु ।
मत्थिक्कमसचिक्खिल्लखोल्लु । १०
पहरणसघट्टुट्टियहुयासु ।

घत्ता—तहिँ तेहगु पहरतहो
जो जो सम्मुहु दुक्कउ

रणे करिपुरवइपुत्तहो ।
सो सो को वि न चुक्कउ ॥८॥

९

अणवरउ असोयहो वाणजालु
न मुणिज्जइ किं पि वि पाण लेत
पहरइ विज्जुप्पहमुउ अलक्खु
चेईसपमुह निव हय पहूय
अलहत लक्ख रणु परिहरेवि
अवमाणिय वद्ध निरुद्ध के वि
.....
रच्छहि सिरु उयरु हणतियाउ

छाइयमहिसयलनहतरालु ।
दीसहिँ सव्वत्थ वि सर पडत ।
पडिहासइ एककु वि कोडिलक्खु ।
सरसीरिय के वि हु विरह हूय ।
थिय तत्थ के वि दूरोसरेवि । ५
* ।
*मुउ खेलावतिगु लोयवालु ।
महिलउ निएवि विलवतियाउ ।

घत्ता—पुच्छिय हसिवि वियक्खण
हणहि मागु ससयमलु

नामे धाइ सलक्खण ।
कहि किमेउ कोऊहलु ॥११॥ १०

* यहा नीवें कडवक का शेष भाग, दसवा कडवक पूरा, तथा ग्यारहवें कडवक का पूर्व भाग आदर्श प्रति मे छूट गया है ।

१२

सिग्गडय भाणुउ छत्तु रासु
सिरु उरु हणेवि नचिज्जमाणु
को एहु नवर नाडयविसेसु
घाईप्र भणुउ मुप्र सोउ दुक्खु
कि सोउ दुक्खु वुच्चड हसेवि
निमुणेवि एउ आरुट्टु धाइ
उम्माहु तुज्झु कि हल्ले अहव्वु
अह अव्वरु कि पि नच्चणपयोउ
देवीप्र भणिय कि करहि रोसु

घत्ता—पडँ अणाइसताणइँ
कहियहँ जणमणहरणइँ

डोवुलिय वि नाडउ जयपयासु ।
मोक्कलकएहिँ गाइज्जमाणु
गीयसरु वि को सत्तमु सरेसु ।
भन्नइ इमु परिओसियविवक्खु ।
आउच्छइ पुणु वि असोयदेवि । ५
भासइ अणक्खु किँ सहहुँ जाइ ।
ईसरियरूवसोहग्गव्वु ।
गीयसरु जेण जाणहि न सोउ ।
अमुणुउ पुच्छतहँ कवणु दोसु ।

सयल कला विन्नाणइँ । १०
तह चउसट्ठि वि करणइँ ॥१२॥

१३

न कयाड पयासिउ एहु मज्झु
खम करहि मणेवि' अदिट्ठुपुव्वु
पुणु भणुउ ताप्र सुदरि सखेउ
कि सोउ भणिज्जइ भणइ देवि
हउँ कहमि अत्थु तुह इय भणेवि
सुहलक्खणतणु जीवियसमाणु
जोयतहो दिसउ महापहाउ
पावइ धरित्ति अज्ज वि न जाम
मा पेच्छउ रोहिणि देवि दुक्खु

घत्ता—तहो उप्परि सोमालउ
ण्हाएप्पिणु मणहरणहिँ

न वियाणमि कि किउ माइ तुज्झु ।
पुच्छिउ मइँ एत्थ न कि पि गव्वु ।
रोविज्जइ सोयवसेण एउ ।
आरुट्टुउ पुहईसरु सुणेवि ।
सिसु लोयवालु हत्थहिँ निएवि । ५
दाविउ पासायहो खिप्पमाणु ।
छुडिरुण पडिउ रयणु व कराउ ।
किउ पाडिहेरु देवेहिँ ताम ।
इय चित्तिवि रइउ असोयरुक्खु ।

धरिवि वरासणं बालउ । १०
पुज्जिउ वत्थाहरणहिँ ॥१३॥

१४

तहिँ ताप्र अवत्थप्र अच्छमाणु
आलोइवि नदणु नरवरिदु
सव्वेहिँ मि वत्तिउ मुप्रवि गव्वु
जाणेवि एउ आयरह धम्मु

पुरदेवयाहिँ महुँ कीलमाणु ।
विंभिउ पुरु परियणु सयणविदु ।
प्रहु रोहिणिपुण्णपहाउ सव्वु ।
न नियच्छह जेणाणिदुजम्मु ।

गिरिनयरनामु
तहिँ करइ रज्जु
कीलाहि हेउ
परियणजणेण
भिक्षानिमित्तु
पुरि पइसमाणु
सिधुमइ नाम

भूवाळु राउ नयणाहिरामु । १५
तहो गगदन्तु वणिवइ मणोज्जु ।
मयणुच्छवणि पट्टणा समेउ ।
उज्जाणवण जतेण तेण ।
मुणि मासोवासि समाहिगुत्तु ।
पेक्खेविणु तणकचणसमाणु । २०
मयमत्त भणिय गेहिणि सकाम ।

घत्ता—सयलु वि कीलासत्तउ
कवणु पयत्तु करेसइ

हलि जणु वणि सपत्तउ ।
कट्ठु मुणिदहो होसइ ॥१८॥

१९

पुणरवि अलाहि मासोववामु
पडिलाहहि मुणि वाहुडहि भज्जे
कहिँ आउ एउ इय चित्तिऊण
धाइहे वारतिहे वडरिणीए
घोडयनिमित्तु सभारसेत्तु
तहो सत्तिग्र धुम्मावियसरीरु
आराहण आराहेवि सग्गु
भव्वयणहिँ वदेप्पिणु विमाणु

काहीसइ गुरु निट्टानिवासु ।
आवेज्जमु पच्छा भुत्तभोज्जे ।
गुरुणा रोसेण नियत्तिऊण ।
भुक्खासमसतहो सइरिणीए ।
विससरिमु कडुवतुवउ विइत्तु । ५
कह कह व पत्तु रिसि वसइ धीरु ।
गउ हुउ सुरवरु सपयसमग्गु ।
परमुच्छवेण वहि नीयमाणु ।

घत्ता—जणमणनयणाणदे
नरनाहेण नियच्छिउ

कीलेप्पिणु आणदे ।
पुरु पइसते पुच्छिउ ॥१९॥ १०

२०

हा जीविण को एहु चत्तु
निमुणेप्पिणु कारणु कुट्टएण
सिधुमइ खरारोहणु करेवि
निज्जणवणि कोट्टे गलियगत्त
हुय तमपहे नारउ द्रुहनिहाणु
परिवाडिए सत्त वि भमिय नरय
सूयरि सियालि उट्टुरि जलूय
तुहुँ एत्थु पुव्वकयपाववध

ता केण वि कहिउ समाहिगुत्तु ।
जूरेप्पिणु पाविणिकुट्टएण ।
नीसारिय नयरहो रेर देवि ।
जीवेप्पिणु सा दियहाइँ सत्त ।
वावीसजलहिजीवियपमाणु । ५
हुय सुणही वे वाराउ सरय ।
मायगी गदहि गाइ हूय ।
सपइ सजाया पूइगव ।

न वियाणप्र किं पि मएण मत्तु
जगि जीउ एम अणुहवइ दुक्खु

अप्पाणहो अप्पणु होइ सत्तु ।
पावहो फलेण कहिँ लहइ सोक्खु । १०

घत्ता—एउ सुणेवि विउद्धप्र
मइँ मुणिंद निक्किट्टए

ताप्र पउत्तउ मुद्धप्र ।
हा किं किउ पाविट्टप्र ॥२०॥

२१

जो साहुहुँ करइ किलेसु नासु
अणुहुत्तउ इय एत्तिउ असोक्खु
मुणि भणइ पुत्ति जइ पुव्वकम्म-
ता रोहिणिउववासे सरीरु
पुच्छिउ तप्र तहो केरिसु विहाणु
पुव्वल्लदियहो भोयणु करेवि
पुणु कीरप्र रोहिणिचदजोप्र
रडराउ भोउ आरभकज्जु
फुडु सत्तसट्ठि आएँ कमेण

कहिँ अत्थि दुक्खनित्थारु तासु ।
कहि तासु केम एवहिँ विमोक्खु ।
खउ ईहहि होहि अईवरम्म ।
आयासहि दुक्खहो देहि नीरु ।
आहासइ सजउ गुणनिहाणु । ५
मुणिमग्गे पच्चक्खाणु लेवि ।
उववासु अवरदिणि पुन्नजोप्र ।
दूरुज्जिऊण अवरु वि अवज्जु ।
उववास होति दरिसियसमेण ।

घत्ता—आयमेण नवदिवसहिँ
एउ विहाणु समप्पइ

भासिउ पचहिँ वरिसहिँ । १०
पुत्तिप्र पुणु विट्ठप्पइ ॥२१॥

२२

सम्मत्ति तम्मि जाणिवि ससत्तु
रोहिणिअसोयसहियउ विचित्तु
पडि चारु लिहाविवि रयणरइय
काराविऊण परमुच्छवेण
जायरणविणोउ तहाहिसेउ
विविहोसहभोयणसत्थदाणु
घटउ वुव्वुइयउ धय विचित्त
जहजोग्गु साहु पुज्जाप्र सहिय
दिज्जति सचरुयइँ भायणाइँ
उज्जवणु सारु सव्वहो वयासु
न वि अत्थि जासु उज्जमणसत्ति

उज्जमणकज्जि किज्जइ पयत्तु ।
सिरिवासुपुज्जदेवहो चरित्तु ।
अह पडिम हेमपाहाणमइय ।
किज्जइ पइट्टु जय जय रवेण ।
वर पुज्ज रइज्जइ पुण्णहेउ । ५
सघहो दाऊण जहाविहाणु ।
देवहो चदोवय चारुचित्त ।
अज्जियहिँ वत्थ सत्थेसु कहिय ।
तह सत्तावीस जि वायणाइँ ।
निप्फ्लु विणु उज्जमणे पयासु । १०
सो विउणउ करइ विहाणु पुत्ति ।

घत्ता—तहो फलेण वयपुज्जिउ रोयसोयभयवज्जिउ ।
 परभवि सिरिचदुज्जलि होइ जीउ उत्तमकुलि ॥२२॥

विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणामाले अत्यसदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिन्नतोसे ॥
 मुणिसिरिचदविरहए कहकोसे एत्थ रोहिणीचरिए ।
 उज्जमणविहिपयासो एगूणो एस वीसमो सघी ॥

॥ सधि १९ ॥

संधि २०

१

निमुणेप्पिणु विहि लेवि तए पोसहु पुच्छिउ पावनिवारा ।
किं केण वि मइँ जेम रिसि अवरेण वि किउ एउ भडारा ॥

गाहा—सोऊणमिण दुग्गंधदेहनवनदणस्स वित्तत ।
रोहिणिवयमाहप्प पारद्ध साहुणा कहिउ ॥

आयणिण पुत्ति भरहे पयडु	एत्थत्थि विसउ नामे सयडु ।	५
जयसेणु राउ तहिँ सीहउरे	सुहुँ करइ रज्जु धणकणपउरे ।	
कणयप्पहदेविहे तासु हुउ	दुग्गधु नामु दुग्गधसुउ ।	
एक्कहिँ दिणि पहयभवावलिहे	विमलप्पहनामहो केवलिहे ।	
तेलोककचक्कसखोहणए	उप्पन्नि नाणि सवोहणए ।	
नहु जाणविमाणहिँ छाइयउ	सुरयणु हरिसेण पराइयउ ।	१०
कीलतु सतु मणियरविमले	पासायहो उवरिमभूमियले ।	
सो असुरकुमारु निएवि नहे	चिरभउ सुमरेप्पिणु धरणिवहे ।	
मुच्छेविणु निवडिउ हुउ वियलु	धाविउ जणु हाहारवमुहलु ।	

घत्ता—सिंचिवि सलिले सीयलेण आसासिउ चमरीरुहवाएँ ।
उट्टिउ नीससतु विमणु किं मुच्छिउ सुय पुच्छिउ ताएँ ॥१॥ १५

२

गाहा—अकहत नियपुत्त घेतूण मलाणवयणकदोट्ट ।
केवलनाणिसयास तओ गओ पुच्छिउ राया ॥

दूरुज्झयजम्मणमरणरिणु	पणवेवि सपरिवारेण जिणु ।	
आयणिणवि धम्मु भवत्तिहरु	विन्नविउ नरिदे परमपरु ।	
कम्मेण केण दुग्गधु हुउ	किं सपइ मुच्छिउ मज्झ सुउ ।	५
ता भासइ ससयतिमिरहरु	तिहुयणरवि केवलनाणकरु ।	
रिसिवहु करेवि चिरु भवि भमेवि	नाणाविहाइँ दुक्खइँ सहेवि ।	
सजाउ एत्थ दुग्गधवउ	नहे असुर निएप्पिणु नरयभउ ।	
सुमरेवि एहु निव मुच्छियउ	पुणरवि पुहईसे पुच्छियउ ।	
कहि केम भडारा एण किउ	मुणिवहु अप्पाणउँ नरउ निउ ।	१०

घत्ता—ता तिहयणगुरु दिव्वझुणि मुणिवहकारणु रायहो भाराड ।
अत्थि कलिगविसप्र विसम विज्जमहासोयत्त वणासड ॥२॥

३

गाहा—तत्थेक्कु तवकत्ती अवरो नामेण सेट्ठकत्ति त्ति ।
होता जूधादिवदी गिरिगरुया गयवरा चंडा ॥

पाणियपिवणत्थु गलतमया	अवरोप्परु जुज्जिवि वे वि मया ।	
उदुरमज्जार वद्धवइरा	अहिनउल हूय पुणु वयसफरा ।	
सूयर पारावय पावरया	[अणुहुजिवि नाणा दुक्ख सया ।	५
जो कणयउरेस-पुरोहियउ	नामेण सोमभूई हुयउ ।	
सोमिल्ला भज्जा रुवजुया]	ते वे वि एवि तहे उयरि ह्या ।	
तहिँ सोमसम्मु पढमिल्लु सुउ	पभणुउ तह सोमदत्तु अणुउ ।	
पढमहो सुकत नामेण पिया	वीयहो लच्छीमड पाणपिया ।	
कालेण ताउ परलोउ गउ	राएण पुरोहिउ लहुउ कउ ।	१०

घत्ता—कि किज्जइ वडुत्तणेण जगि गुरउणेहिँ पाविज्जइ ।
वज्जिवि जलहि तडासियहिँ लोयहिँ कूववाविपउ पिज्जइ ॥३॥

४

गाहा—अच्छतो तो सपए सुयनिलओ सोमदत्तु दियवसहो ।
जाओ रायपहाणो अह होइ गुणेहिँ भणु कि न ॥

एक्कहिँ दिणि रजियनरवरहो	उवइट्ठु सुकतए देवरहो ।	
भो सोमयत्त सयवत्तमुह	पाविट्ठु एउ तुह भाइ वुह ।	
परिहासविवज्जिउ लच्छिमई	कामइ कामधु अयाणमई ।	५
निसुणेवि साहु सो चितवइ	हा एउ कयावि न सभवइ ।	
त नत्थि ज न दुक्कियरयउ	महिलउ चवति कोवगयउ ।	
पत्तियइ सयाणउ ताम नउ	सई दिट्ठु असभवु जा न कउ ।	
एक्कहिँ दियहम्मि महामइणा	होएप्पिणु पच्छन्नेण तिणा ।	
सहुँ नियकताए कुकम्मरउ	सयमेव पलोइउ भायरउ ^१ ।	१०
कयपरमविराएँ मुएवि घरु	पडिगाहिउ मुणिचारित्तभरु ।	

घत्ता—आयण्णवि तववत्त तहो राएँ परमविसाउ करेप्पिणु ।
किउ अहियारि पुरोहियहो सोमसम्मु[सो] हक्कारेप्पिणु ॥४॥

५

गाहा—द्वयवयणेण वसुहानाहेण कयाइ मागधाधीसो ।
तेलोककसुदरक्खो वसुपालो मग्गिदो हत्थी ॥

तेण वि न दिन्नु हुय चित्तखई	रुसेवि सयडविसयाहिवइ ।	
तहो उवरि सयलपरियणमिलिउ	नेमित्तिदिन्नदियहिं चलिउ ।	
थिउ गोघुलुक्कि पुरवाहिरए	रिसि सोमयत्तु एत्थतरए ।	५
विहरतु जतु जत्तुत्थमिउ	एतूण तत्थ पडिमाए थिउ ।	
तं निग्रवि सोमसम्मणे पहू	विन्नविउ हयासे नायपहू ।	
तुह एहु नरेसर अरिदमणे	अवसउणु विजयजत्तागमणे ।	
कि बहुणा मारेप्पिणु पिमुणु	माणिज्जइ सामिसाल सउणु ।	
एयहो रत्तेण दिसानु वली	दिज्जइ पसमिज्जइ सव्वकली ।	१०
तं निसुणिवि करझपियसवणु	थिउ होवि अहोमुहु नयभवणु ।	

घत्ता—विस्सदेवविप्पेण तउ कयहाहाकरेण पउत्तउ ।
सोमसम्मु भो रायवर भासइ अविद्याणतु अजुत्तउ ॥५॥

६

गाहा—सारयर सव्वाण सउणाण सउणदसण नूण ।
सव्वाण कज्जाण निप्पत्ती कुणदि भणिद च ॥

भारते मुरारिणा—त्वमारोह रथ पार्थ गाडीव चापि धारय ।
निर्जिता मेदिनी मन्ये निर्ग्रथो मुनिरग्रत. ॥

गकुनगास्त्रे च—श्रवणस्तुरगो राजा मयूर. कुजरो वृष ।
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे सिद्धिकरा स्मृता ॥ ५

ज्योतिपागे च—पद्मिनी राजहसाञ्च... तपोधना ।
यद्देगमुपसर्पन्ति तद्देगे शुभमादिशेत् ॥

धर्मगास्त्रे च—यागी च याजी च तपोधनञ्च सूरुोऽथ राजाथ सहस्रदञ्च ।
ध्यानी च योगी च तथा शतायु सदर्शनादेव हरन्ति पापम् ॥ १०

एवविहु सत्थुवडुगुणो	सव्वह तेणेहु महासउणो ।
कि बहुणा हयसदेहगई	फुडु पच्चउ एहु नराहिवई ।
आयहो माहप्प भीयमई	एसइ पहाए मगहाहिवई ।

सहै पाहुडेण तवेरमउ
 आणदिउ सामि मुणेवि इण
 तत्यायउ मागहु मतिजुउ
 संजाउ अईवकयत्यु पहु
 एत्तहे चिरवडरवनेण निसि
 आयणिणवि पहुणा पावियउ
 वभणु भणेवि नउ मारियउ

अप्पेसइ तुज्ज मणोरमउ ।
 तो नेवि विट्ठाणणु न करिण । १।
 ढोएप्पिणु कप्पु अदप्पु हुउ ।
 समाणिउ वभणु विट्ठवह ।
 गतूण निसुभिउ तेण गमि ।
 कयकोवे सो पिट्ठावियउ ।
 वित्थारिऊण नीसारियउ । २०

घत्ता—कोढे सच्चगु वि गलिउ पावै पाविउ मुणिवह्यारिउ ।
 उक्किट्ठाउमु सत्तमणु हुउ नरयम्मि मरेप्पिणु नाउ ॥६॥

७

गाहा—महदा दुक्खेण तदो चुदो' समुद्धम्मि अंतिमे जादो ।
 जोयणमहसपमाणो नामेण तिम्मिगिलो मच्छो ॥

तहिँ पुव्वकोडि जीवेवि मुउ
 पचाणणु पुणु पचमनरउ
 पुणु चोत्थणु पुल्लि पुणो तदिए
 पुणु पक्खि हूउ नामेण चउ
 पुणु एत्य एहु दुग्गवजुउ
 निसुणेवि एम नियपुव्वभउ
 किह सपड सामिय दुरियहिणु
 रोहिणिउववासैँ दुरियखउ
 आयणिणवि करणविहाणु तिणा
 उववामु लडउ वदेवि गुरु

पुणु छट्टनरणु नारडउ हुउ ।
 ह्यउ पुणु विट्ठीविमु उरउ ।
 भेरुडु चडु पुणु पुणु विट्ठिए । ५
 पुणु पढमनरउ पावेण गउ ।
 हुउ पावे पत्थिव तुज्जु मुउ ।
 विट्ठविउ कुमारे पहयरउ ।
 फिट्ठइ ता तहो उवइसइ जिणु ।
 सपज्जइ मुहँ मुय चारु वउ । १०
 सहँ सावयधम्मैँ मुहमडणा ।
 दूरज्जिवि मिच्छा देउ गुरु ।

घत्ता—वयमाहप्पे थोवयहिँ दिवसहिँ दुग्गंधु वि वरपरिमलु ।
 सुंदरु रायकुमारु हुउ पेच्छह पच्चक्खु वि धम्महो फलु ॥७॥

८

गाहा—रज्ज पिउणा दत्त काऊण चिर पुणो सपुत्तस्स ।
 दाऊण माससेसे नियाउसे लच्छि वि जयस्स ॥

सन्नासविहीणु मरेवि वरो सजायउ पाणयसग्गि सुरो ।

नाणेण वियाणियपुव्वभवो
माणेप्पिणु सव्वसुहाइँ चुउ
देविददिसाए विदेहवरे
भव्वो विमलाइयकित्ति पहु
कामो व्व दिवायरकित्तिसुउ
सामीवे समग्गुणायरहो
कालेण महामइ मुक्कमलो

वीसवुहि आउसु निच्चनवो ।
जव्वुडुमलछणि दीवि हुउ ।
पुडाइरिगिणीनामपुरे ।
नामेण सिरीमइ तासु वहु ।
मेहाइयसेणवयसजुउ ।
नामेण अत्थि सुदिवायरहो ।
सजायउ सव्वकलाकुसलो ।

५

१०

[मोडणउ नाम छदो]

घत्ता—एत्तहे उत्तरमहुरपुरे सेट्टी सायरदत्तु पसिद्धउ ।

जयमइयहे तहो पियहे हुउ पुत्तु सुमदिरु गुणहिँ समिद्धउ ॥८॥

९

गाहा—दाहिणमहुराए वणीसरस्स नामेण नदिमित्तस्स ।

धणदत्ताए पियाए जायाओ वेत्ति धूयाओ ॥

पढमा नामेण सुसीलधरा
दिन्नाउ इमाउ सुमदरिहो
ता तहिँ विवाहसमयम्मि गउ
आलोएवि सुट्ठु मणोहरउ
महसेणे ताउ सुयाहियउ
मन्नाविवि ते विच्छोइयउ
गतूण पुडरिगिणिपुरिहे
तेण वि सुणेवि अन्नायपरा
अवमाणिय वीयसोयनयरे

वीया सुमई माहवियसरा ।
वणिउत्तहो तहो गुणमदिरहो ।
रविकित्ति समित्तु सकज्जरउ ।
सकेइउ तेण स सहयरउ ।
अवहरियउ अद्धविवाहियउ ।
आणिउ पउरयणे जाइयउ ।
जाणाविउ अरिक्करिकेसरिहे ।
नीसारिय नवतारुणभरा ।
गय वेवि भमत विचित्तधरे ।

५

१०

घत्ता—तत्थ विमलवाहणनिवहो विमलमईमहएविए जायउ ।

न भल्लिउ मयरद्धयहो अट्टु तणुब्भवाउ विक्खायउ ॥९॥

१०

गाहा—मयणस्स जयवडाया जयमइ कणयप्पहा सुवन्ना य ।

सुप्पह सुमदी मुव्वद नदा विमलप्पहा तह य ॥'

पुच्छिउ निवेण आएसकरु

जयमइयहे होसइ कवणु वरु' ।

तेण वि उवएसिउ पह्यपर
जो सो निच्छउ दुहियाहे पिउ
हक्कारिय राय रडउ विममु
निक्वम्मड थभु तामु उवरि
तहो उवरि धरिज्जइ कयहरिमु
लक्खहुँ ण जाइ लोयणपमरु
तहो गपिणु सत्तपयाइँ जुय
अवराइँ वि तिन्नि तिन्नि पयइ

लाएसइ चद्वयवेहि मरु ।
ता ताएँ त जि विहाणु किउ । ५
ससिवेहु परममिन्नाणगमु ।
वेएण भमतु महतु अरि ।
पविरइयविसाहठाणु पुरिमु ।
परिभमियचावमन्निहियसरु ।
थभुवरि थविज्जइ छिद्दजुय । १०
गतूण धरिज्जइ छज्जुयइ ।

घत्ता—पुणु सत्तमहो जुयहो पुरउ तिन्नि पयाइँ कमेवि अवड्डिय ।
थभे थवेज्जइ दप्पणहो तलि वालेण निवद्ध कवड्डिय ॥१०॥

११

गाहा—भममाणमतराले चक्क च ठविज्जदे पुणो तीए ।
जुगचक्काण विवरेण सो विघदे पुरिसो ॥

कत्तरिप्र कवड्डिय कुंतलए ससिवेहु एहु सो भूवलए ।

उक्त च—छित्वा भ्राम्यदनुक्रमे युगमत सप्त क्रमैरादिम
त्रीणि त्रीणि पदान्यतीत्य पुरतोऽप्येकैकमेव हि पट् । ५
तच्छिद्रे भ्रमदर्यनंतरसिरोजातर्गतौ दर्पणे
मज्जेच्चेदिपुरेष विध्यति नर. स्याच्चन्द्रकाख्यो वुध. ॥

त विघहुँ सक्कड को वि नउ हुउ सयलु विलक्खउ रायचउ ।
तहिँ अवसरि देसियवेसधरु सव्वाण वि मज्झि निएवि वरु ।
पहुणा सइँ अक्ककित्ति भणिउ जइ अत्थि वप्प पइँ धणुगुणिउ । १०
तो करि कोऊहलु रजि जणु दुल्लहयरु लहि' कन्नारयणु ।
निसुणेवि एउ त विद्धु तिणा परिओसिउ राउ महामइणा ।
परिणेप्पिणु जयमइ आइयउ थिउ तेत्थु सुहेण विराइयउ ।
उववासिउ समिउ किलेसहरे विमलडरिहे सिहरे जिणिदहरे ।
सोवतु सतु एक्कहिँ दियहे निउ चित्तलेहनहयरिप्र नहे । १५

घत्ता—वेयड्हहो गिरिवरहो सिरि सिद्धकूडि जिणभवणि थवेप्पिणु ।
विज्जाहरि नियनिलउ गय वियडदतखेयरहो कहेप्पिणु ॥११॥

१० २ परिभमचाव ।

११ १ लद्ध ।

१२

गाहा—उन्निद्वियउ कुमारो दट्ठूण जिणिंदमदिर हिट्ठो ।

उट्ठेवि कयपणामो पइट्ठओ तत्थ थुइवयणो ॥

तहु दसणेण पविमयइँ वरे
 नाणाथुईहिँ जिणु वदियउ
 एतूण वियडदतेण निणा
 आयण्णहि निज्जयदेवपुरे
 नामेण पसिद्धउ पवणजउ
 तहो रायहसगइ कामिणिहे
 वर वीयसोय' नामेण सुया
 वरु ताए ताहँ तमोहहरु
 आएण जेण दुक्कियहरहो
 विहडेसइँ सो दुहियाहँ पइ
 वहुकाले सपड त पि दुहा

वियडियइँ कवाडइँ गव्भहरे ।
 उवविट्ठु सुहुउ आणदियउ ।
 विन्नविउ नवेवि नहोगइणा । ५
 एत्थत्थि खगेसरु अब्भपुरे ।
 परमेसरु दरियाराइखउ ।
 नहवल्लहनामहँ भामिणिहे ।
 हुय कहु उवमिज्जड चारुभुया ।
 पुच्छिउ मुणि नामे नाणधरु । १०
 सयमेव कवाडइँ जिणहरहो ।
 होसइ गउ एम भणेवि जइ ।
 सजायउ दसणेण सुमुहा ।

घत्ता—मन्नावेवि कहेवि इउ गउ गयणयरु गयणि त लेप्पिणु ।

गपि निवेइउ सामियहो पुरवाहिरि उज्जाणि थवेप्पिणु ॥१२॥

१५

१३

गाहा—सोऊण आगमण आएसनरस्स रजिओ राया ।

पुज्जेवि वियडदाढ सहसत्ति सय गओ तत्थ ॥

परमुच्छवेण पुरि पेसियउ
 कन्नाउ एक्कतीसावरउ
 होऊण सव्वविज्जाहिवइ
 वसिऊण तत्थ सभरिवि घरु
 दुत्थियविइन्नकचणपयरे
 नामेण पहजणु भूमिवइ
 पइपयभत्ताए अणोवमए
 अइसयगुणरुवविराइयउ
 सो तहिँ पऊरपरिवारसहु
 मयनिव्भरु नामे नीलगिरि
 कालु व कोवेण करतु खउ

परिणाविउ सुय सभूसियउ ।
 दिन्नाउ देवकन्नावरउ ।
 वरिसाइँ पच्च अणुवद्धरइ । ५
 सविहूइए वल्लिउ पुरिसवरु ।
 एत्थतरि अजणगिरिनयरे ।
 नीलजण देवि मरालगइ ।
 जायाउ अट्ट धूयाउ तए ।
 मयणा कणया विउलाइयउ । १०
 उज्जाण गपि नियत्तु पहु ।
 आलाणखभु भजेवि करि ।
 धाविउ जणनियरहो पवणजउ ।

घत्ता—हुउ कोलाहलु अइगरुउ धीरु वि को वि नाहिं साहारइ ।

अच्छोडड तोडड सिरु धुणइ ज ज पावड त त मारड ॥१३॥

१५

१४

गाहा—त दट्ठण कुमारो अतुलवलो मुरहराउ ओयरिओ ।

सीहु व धीरेवि जणं हक्केप्पिणु हत्थिणो भिडिओ ॥

वत्तीस करणाइं काळण करि जित्तु
सतुट्ठु सब्बो जणो सत्ति सजाय
मयणु व्व रूवेण जणमणु विमोहतु
पेसेवि पुरु परम काळण पडिवत्ति
अच्छेवि तहिं कड वि दियहाइं रयचित्तु
विज्जापहावेण पच्छन्नगत्तेण
गहियाइं गेहणइं निम्मविवि व्लु पउरु
सजाउ सगामु वहु पडिय सामत
मणिमयरहारुड पहरत सरवरहिं
चिरु जुज्जिळण कुमारेण सपणामु

देवेहिं गयणाउ कुमुमोहु सिरि वित्तु ।
सभरिवि राएण नेमित्तिवरवाय ।
करिकवराह्हु इंदो व्व सोहंतु । ५
परिणाविओ ताउ कन्नाउ रविकित्ति ।
गउ पुडरिक्किणिपुर लेवि नियमित्तु ।
काळण विविहाइं चोज्जाइं तहिं तेण ।
निमुणेवि कुडि लग्गु नरनाहु जणपउरु ।
आलग्ग सयमेव पिउपुत्त वलवत । १०
थुय वेवि वरवीर हरिसेण सुरवरहिं ।
सपेसिओ वाणु निहिळण नियनामु ।

घत्ता—त दट्ठण पहिट्ठु पहु पेल्लिवि रणु रहाउ उत्तिन्नउ ।

इयरु वि समुहं पराइयउ अवरुप्परु आलिगणु दिन्नउ ॥१४॥

१५

गाहा—सजाओ सजोओ सम सपुत्तेण पुन्नवतेण ।

परमुच्छवकयसोहो पइट्ठुओ पट्टण राया ॥

एक्कहिं दिणि गयणहो उक्क चुया
घणु जोव्वणु जीविउ वुद्धि वलु
किं बहुणा सासय जेण गड
इय चित्तिवि अक्ककित्ति सपए
सिरिधरगुरुपासि तवेवि तउ
एत्तहे हुउ अक्ककित्ति वि जइ
इयरामरमाणवथुयवलणु
आलोप्रवि गयणि विलीणु घणु
जयमडमहएविहे गत्थि हुयहो

आलोप्रवि निवहो विरत्ति हुया ।
उक्का इव गासेसड सयलु ।
पाविज्जड किज्जड तम्मि मइ । ५
थविळण महामड जडणमए ।
गउ विमलकित्ति निव्वाणपउ
नवनिहिचउदहरयणाहिवड ।
चिरु करिवि रज्जु खलमयमलणु ।
भावेवि अणिच्चु विरत्तमणु । १०
नामेण विमलकिन्तीहे सुयहो ।

अर्हिसिचिवि होइवि रायसिरि
सजायउ सजउ नीरयइं
कालेणाराहिवि पचगुरु

सहुँ बहुनिवेहिँ गउ गहणगिरि ।
पणविप्पिणु सीलगुत्तपयइ ।
गउ अच्चुयसग्गहो जाउ सुरु ।

घत्ता—सा दुग्गधिणि वणितणय कालु करेवि किलेसविणासहो । १५
हुय महएवि पहाण तुह अइसएण रोहिणिउववासहो ॥१५॥

१६

गाहा—विज्जुप्पहाए जाओ देवीए वीदसोगरायस्स ।
पुत्तो असोयनामो सग्गाउ चुदो तुम एत्थ ॥

पचूणसट्ठिपल्लाउखए
चपापुरम्मि परमेसरहो
सिरिमइमहएविए सजणिया
महएवि तुहारी हसगइ
महुरापुरि वइरिसिरीहरहो
वहुगुणु अग्गासणभोयणिउ
कताए सत्त तहो अग्गिलए
सिहिसिरिमरुभूइपहूइ वरा
ते पुण्णहीण दोग्गच्चहया

कता वि तुज्ज अगाविसए ।
नामे मघवतनरेसरहो ।
सा रोहिणि नाम एह भणिया । ५
सुणु पुत्तहड जम्मइं निवइ ।
रायहो नामेण सिरीहरहो ।
सोत्तिउ सिहिसम्मु नाम भणिउ ।
सजाया नदण निम्मलए ।
चउदहविहविज्जाथाणधरा । १०
अत्थत्थिय पाडलिपुरहो गया ।

घत्ता—सुपइट्ठहो पुहईसरहो महएवीए सुरूवउ जायउ ।
नदणु नामे सीहरहु सीहु व विक्कमेण विक्खायउ ॥१६॥

१७

गाहा—तत्थेव रायउत्तेण पुत्तिया विगदसोग नामेण ।
सिहरहस्स विइन्ना कमला कमल व्व पच्चक्खा ॥

सविहूइए रजियजणमणउ
आलोएवि सपयसोक्खचुया
हा पुव्वभवे भो सव्वहिउ
पुण्णेण कलत्तु पुत्तु विहिउ
जणनिदणिज्जु दुक्खइं सहइ
इय चित्तिवि निव्वेएण गुणी
चिरु तउ चरेवि निद्धूयरया

परिणयणनिहाणु ताहे तणउ ।
गय परमविसायहो विप्पसुया ।
अम्हेहिँ न सुक्किउ कम्मु किउ । ५
पाविज्जइ अवरु वि ज सुहउ ।
भिक्खा वि न पुण्णहीणु लहइ ।
हुय सत्त वि जण निग्गथ मुणी ।
कालेण सग्गु सोहम्मु गया ।

तत्येक्कु पओनिहि दिव्वु सुहु
एत्थागय विगयसोयपमुहा

माणेप्पिणु दूरविमुक्कडुहु । १०
हुय एविणु तुञ्जु मुया सुमुहा ।

घत्ता—आसिकालि आयासचरु भत्लावउ नामेण पसिद्धउ ।
पिहियासवहो समीवे हुउ वभयारि वयसीलसमिद्धउ ॥१७॥

१८

गाहा—अणवरयं नरखेत्ते विज्जापाणेण वदणार्हत्ति ।
काऊण कालगदो उववन्नो पढमकप्पम्मि ॥

पचासपचपलिदोवमइ
हुउ एहु अणोवमरुवजुउ
सुणु पुत्ति चउक्कहो पुव्वभउ
पुव्वम्मि विदेहि अत्थि विसउ
तहो दाहिणसेढिहं सुदरिहे
कमलामहएविहं कमलसिरी
अवर वि कमलाइयगधिणिया
एवाउ चयारि वि उववणहो

माणेप्पिणु सुहइँ अणोवमइं ।
तुह लोयवालु नामेण सुउ' ।
जव्वदीवम्मि पससपउ । ५
तत्थ वि वियड्ढवेयड्ढनउ ।
पहु गरुडवेउ अलयाउरिहे ।
तहे हुय सुय सोहणरुवसिरी ।
विमलस्सिरि विमलसुगधिणिया ।
कीलहुँ गयाउ मिलियउ जणहो । १०

घत्ता—आलोडउ आयासचरु तत्थ ताहिँ तवतरुणिपियारउ ।
पणवेप्पिणु आउच्छियउ नामे सुव्वयसूरि भडारउ ॥१८॥

१९

गाहा—भयवं किं उववासो भण्णदि किहू कीरदे पयासेहू ।
केरिसय तस्स फल ता मुणिणा कहिउमाढत्त ॥

दुविहो परमत्थो ववहारो
अप्पसहावसयासे वासो
चउभेयाहारहो परिहारो
थीससग्ग भोयविलास
लोहं कोह माण डभं
मुणिमग्गेणुत्तमउववासे

उववासो भणिओ अवियारो ।
पुत्तिअ परमत्थो उववासो ।
भणिओ आयमम्मि ववहारो । ५
वक्कर च खेड्ड च सहास ।
कीरइ सो चइऊणारभ ।
पउ वि ण पिज्जइ पावविणासे ।

भणित्त च परसमये—अण्टी तानि व्रतघ्नानि आपो मूल पयः फलम् ।

हविर्नाह्मिण कामश्च गुरोर्वचनमौषधम् ॥ १०

जलपाणेण सहिउ सामन्नो
ज जीवेण आसि अन्नाण
त उववासतवेण पवित्ते

सारभो उण होइ जहन्नो ।
किउ दुक्कम्मज्झियदयदाण ।
डज्झइ काणण व मरुमित्ते ।

भणित्त च—यदजानेन जीवेन कृत पाप सुदारुणम् ।
उपवासो हि तत्सर्वं दहत्यग्निरिवेन्धनम्^१ ॥

१५

तथा चोक्तम्—रजोमलावलिप्तागो यथा तोयेन निर्मल ।
तथोपवासतोयेन भवत्यात्मातिनिर्मलः ॥

जेम हुयासणम्मि धम्मत्त
तेमुववाससिहीसतत्तो

लोह मुयइ मल निव्वभत्त ।
अप्पा निम्मल्लु होइ पवित्तो ।

उक्त च—धाम्यमान यथा लोह मल त्यजति सर्वत ।
व्रतोपवासतापेन तथा पापमल त्यजेत् ॥

२०

घत्ता—रुद्धं सलिलं पवेसि सरु जिह खरकिरणकरोहे सूसइ ।
तिह उववासे सजयहो पुव्वक्किउ पावोहु पणासइ ॥१९॥

२०

उक्त च—उदकागमे यथा रुद्धे सरः शोषति भास्कर ।
तथोपवासयोगेन प्राणी पाप विशोधयेत्^१ ॥

गाहा—सुव्वदि उववासादो तवो न अन्नोत्थि सव्वसत्थेसु ।
इय नाळुण पयत्त कायव्व तत्थ सत्तीए ॥

तथा चोक्तम्—श्रूयते सर्वशास्त्रेषु तपो नानशनात्परम् ।
पापाना क्षयहेतुत्वात्सर्वसौख्यप्रदायकम् ॥

५

सुरासुर खेयर किन्नर जक्ख
उवासवएण वसा विह होति

पिसाय महोरय भूय सरक्ख ।
समीहिउ वत्थु समत्थु वि देति ।

उक्त च—देवा गधर्वयक्षा वा पिशाचोरगराक्षसा ।
व्रतोपवासयोगेन वश गच्छन्ति तत्क्षणात् ॥

१०

महोसहि मत्त वसाइय जोय

फलति खलति जराइय रोय ।

तथा चोक्तम्—विद्यामन्त्रास्तथौषध्यो योगाश्च वशकारकाः ।
सिध्यन्ति ह्युपवासेन क्षीयन्ते च जरादयः ॥

सुणेवि महप्पुववासहो ताहिं
मुणीसर पचमियाहि विहाणु
दुभेय समाहिसिरीपयपुव्वु
समाहिहे कारणु किण्हइ पक्खे
दसायण दोह मि पच जि मास
महाअहिसेउ जिणाहिवपुज्ज
पहावण जायरणेण समाण
मुणिदहं पोत्थय पोत्थय वत्थ

पुणो वि पउत्तुवसतमणाहिं ।
कहेह पयासइ सवपहाणु । १५
ह्वेइ वियाणह पंचमि पव्वु ।
विदीय लडज्जइ सुक्किलपक्खे ।
जिहुत्तविहीण करेवि उवास ।
जिणालण घटउ सोह मणोज्ज ।
ससत्तिण सवहो ढाणु समाण । २०
तहज्जहुं ढिज्जहिं वत्थ पसत्थ ।

घत्ता—एम करेप्पिणु उज्जमणु फलु पाविज्जइ ताहे पहावे ।
लद्धसमाहि जीउ कमेण वच्चइ सासयपुरहो सहावे ॥२०॥

२१

भणिदहं च आगमे—एक्कम्मि भवग्गहणे समाहिमरणेण जो मदो जीवो ।
नहु सो हिंडदि बहुसो सत्तट्ठभवे पमोत्तूण ॥

गाहा—होदूण चक्कवट्टी कल्लाणपरपर च लद्धूण ।
सिरिपचमिफलमेय अप्पा अजरामरो होइ ॥

निमुणेप्पिणु एउ किसोयरिउ
पंचमिउववासु लेवि गयउ
सोहम्मसग्गे सोहाजुयउ
जीवेवि पंच पलिदोवमइ
तत्तो चडऊण चत्तदुहउ
रोहिणिउवरम्मि महाइयउ
आयण्णवि एउ विमुक्करउ
एत्थंतरि नविवि वसुधरिया
कहि केरिसु सामिय मोणफलु

पणवेप्पिणु साहु रहोयरिउ । ५
तहिं दियहे चेव वज्जे हयउ ।
सुरसुदरियउ चारि वि हुयउ ।
माणेप्पिणु सुहइ अणोवमइ ।
तुह जायउ एयउ तणुरुहउ ।
पुहईस वसुधरिआइयउ । १०
हुउ सयलु लोउ जिणधम्मरउ ।
पुच्छइ गुणसासवसुधरिया ।
आयण्णहि भणइ विमुक्कमलु ।

घत्ता—कयमोणव्वउ सग्गि सुरु होइवि चक्कवट्टि उप्पज्जइ ।
जीवहो मोणफलेण पुणु सिद्धिवह्वरत्तु संपज्जइ ॥२१॥

१५

२२

गाहा—तिहुयणपच्चयकरण अमय व अईवमिट्ठय वयण ।
सव्वपमाणीभूद अणोवम होइ मोणेण ॥

अणिवारियआणापसरु जए
 रिद्धीय समाणु पुरदरहो
 माणुन्नईए मदरसरिसु
 तहो वयणु वि अमिओसहहँ पए
 फुल्लियनवनलिणगधवहलु
 वलु पोरिसु कुलु जसु कित्ति जउ
 सव्वत्थ वि थोत्तसएहिँ सया
 दुहसज्जउ विज्जाजोइणिउ
 देवहँ वि पुज्ज वदणकरणु
 मोणेण महत्तणु सभवइ
 ज्ञाणु वि कम्मक्खयकरणखमु

आरार्हहिँ गरुय वि तासु पए ।
 रूवे सोहग्गेण वि सरहो ।
 उवमाण न कोइ तासु पुरिसु । ५
 सभवइ विसमावसवाहिखए ।
 महुरक्खरजपिरु मुहकमलु ।
 तहो होइ जेण किउ मोणवउ ।
 थुव्वति नरा कयमोणवया ।
 मोणेण होति फलदाइणिउ । १०
 किज्जइ मोणेण जि मलहरणु ।
 कयमोणहो कलहु वि उवसमइ ।
 किज्जइ मोणेण जि मोक्खगमु ।

घत्ता—अहवा कि बहुजपिण्ण अत्थि समाहिनियमु ज कि पि वि ।

त सयलु वि मोणव्वण्ण सिज्जइ सहलु होइ इयर पि वि ॥२२॥ १५

२३

गाहा—काळण उज्जमण सावहि मोण धरिज्जदे पुज्जा ।

जिणवड्ढमाणपडिमा पइट्टइत्ता पयत्तेण ॥

निरवहिहे अणतसोक्खकरणु
 परदोसावाउ जसुज्जलउ
 कि मोण परदोसग्गहणु
 इय जाणिवि परदोसग्गहणु
 आयणिणिवि एउ वसुधरिए
 निसुणेवि एउ हरिसहो भरिउ
 पहु पुत्तकलत्तहिँ परियरिउ
 एककहिँ दिणि दप्पिणि पलिउ सिरे
 तक्खणि वेरग्गहो राउ गओ
 न वियाणइ विसयासत्तमणु
 न मुणइ न को वि कासु वि सरणु

उज्जमण सन्नासे सरणु ।
 सो सव्वहँ मोणहँ अग्गलउ ।
 परिभमइ चउग्गइ भवगहणु । ५
 वज्जिज्जइ किज्जइ अमलमणु ।
 दिहु लइउ मोणु गुणगोयरिए ।
 सुरहियवयनियमालकरिउ ।
 पणवेवि साहु पुरि पइसरिउ ।
 आलोएवि मणिमयमउडधरे । १०
 हा सयलु वि तिट्टए लोउ हओ ।
 मन्नइ महु पुत्तु कलत्तु धणु ।
 न निहालइ आसन्नउ मरणु ।

घत्ता—वणवाले एत्तूण पहु एत्थतरि नवेवि विन्नवियउ ।

देव अज्जु उज्जाणवणे' आउ देउ जो सक्के ण्हवियउ ॥२३॥ १५

२४

गाहा—नामेण वामुपुज्जो जयपुज्जो जणियजणमणाणदो ।
सिरिसमवसरणसहिओ विहरंतो तुम्ह पुण्णेहि ॥

निसुणेवि नराहिउ।आसणहो	उत्तिट्ठु नाइँ परसासणहो ।	
गतूण सत्त पय तद्धिसहे	पणवेप्पिणु परममहारिसिहे ।	
वणवालहो देवि पसाउ वहु	सुउ लोउवालु काऊण पहु ।	५
आणदत्तूरसरभरियदिसु	धम्माणुरायवड्ढियहरिसु ।	
सहुँ सेत्ते सक्कु व नीसरिउ	गपिणु जहिँ जिणु तहिँ पइसरिउ ।	
सोऊण धम्मु उवसतमइ	सजाउ असोयनरिदु जइ ।	
अमियप्पहे नामे सहु सुर्याहि	हुउ गणहरु मुद्ध बुद्ध जुयहिँ ।	
उप्पाग्रवि केवलु सिद्धि गउ	गेहिणि महएवि करेवि तउ ।	१०

घत्ता—सिरिचदुज्जलु गुणनिलउ रयणतेयसुद्धीग्र मणोहर ।

पन्नारहमग्र सग्गे हुउ सुरवरिदु नामे मणिसेहरु ॥२४॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।

जिणभत्तिफलपयासो नाम इमो वीसमो सधी ॥

॥ सधि २० ॥

संधि २१

१

विज्जा वि भक्तिमतस्स सिद्धिमुत्रयादि होदि सफला य ।

कह पुणु निव्वुदिविज्जा सिज्झिहिदि अभत्तिवतस्स ॥ [भ आ ७५२]

एवं भण्णियो विज्जा वि विद्याशास्त्रमर्पि शास्त्रोपदेशो वा सिज्झिहि समाप्ति समायाति सफला च फलदायिनी भवति । किं पुनर्निवृत्तिविद्या निर्वाणविद्या समाप्ति गमिष्यति अभक्तिमंतस्य भक्तिहीनस्येत्यर्थ । अत्राख्यानम् ।

५

धुवय—अवरु वि भक्तिफलु भावेण सुणिज्जउ ।

अवरिणय दुक्कियहं सलिलजलि दिज्जउ ॥

आसि एत्थ पावियगुणगउरव
जामच्छति सव्व अविहत्तिण
ताम दोणु नामेण पहाणउ
एक्कहिं वासरि तहिं सपत्तउ
दाविउ नेप्पिणु सतणुतणयहो
तेण वि तासु समप्पिय नंदण
हुउ विक्खायउ पत्तमहत्तणु
पच्छिमनयरासन्नण रन्नण

पडवरज्जि परिट्ठिय कउरव ।

करिवरपुरि' अवरुप्परु मेत्तिण ।

बभणु धणुविन्नाणवियाणउ । १०

किवेण वियाणिऊण गुणवतउ ।

कयदिढवभचेरवयपणयहो ।

सो वि गुणावइ नयणानदण ।

अह को गुणहिं न पावइ कित्तणु ।

अत्थि भिल्लु नाणातरुछन्नण । १५

घत्ता—भीमु पयडबलु गवलजणविबउ ।

अत्थि चिलायवइ तहिं खीरकलबउ ॥१॥

२

लेप्पिण्डमउ दोणु करेप्पिणु
पुच्छइ कहि गुरु केम रइज्जइ
सयमेवक्खइ एण विहाणे
काले भत्तिभरे सजुत्तउ
सद्देहु दुल्लक्खु वि जाणिउ

पुज्जइ सो तिकाल पणवेप्पिणु ।

ठाणु वाणसघाणु वि किज्जइ ।

मुच्चइ वाणु रइयसघाणे ।

घणुविन्नाणहो पारु पहुत्तउ ।

राहाचदवेहु परियाणिउ । ५

अज्जुणपमुह कुमार सलीलप्र
 खीरकलवएण पारद्धिहे
 निसुणिवि सुणहँ सद्दु सरु मुक्कड
 विद्धु साणु किंकतु पघाइड

एक्कहिँ वासरि गय वणकीलप्र ।
 नीसरिएण मयामिससिद्धिहे ।
 सो वि तामु मुहक्कहरहो दुक्कड ।
 जहिँ कुमार तहिँ ताड पराइड ।

घत्ता—तं पेक्खिवि नरु विभिड को एहड ।
 सद्देहकुसलु जेणेहु समाहड ॥२॥

१०

३

ता पथेण तेण सयल वि गय
 योवतरि धणुवाण [.] ।
 सद्दु सुणेवि' साणु मइँ विद्धुड
 को तुहुँ सद्देहु कहिँ सिक्खिड
 हउँ पहु आयहे [रणहे] राणड
 गुरु महु दोणायरिड भडारड
 कहि केरिसु पत्येणाडच्छिड
 ता ससिवेहपहूइ पयासिड
 अवराइँ वि रहंगगयखग्गइँ

सोणियच्चिणु नियता निग्गय ।
] ।
 पुच्छइ पुणु विहसेवि कइद्धड ।
 कहइ कुमारहो भिल्लु मुसिक्खिड ।
 नामे खीरकयवु पहाणड । ५
 किड ते धणुविन्नाणविसारड ।
 दोणे तुज्झुवएसु पयच्छिड ।
 धणुमुणु तेणज्जुणु वि विसेसिड ।
 दावियाइँ छुरियाइँ समग्गइँ ।

घत्ता—चित्तिड अज्जुणेण ए मज्झु वि अहिड ।
 धणुविन्नाणगुणु सविसेसु पयासिड ॥३॥

१०

४

पेच्छह हा हउँ गुरुणा वचिड
 मेल्लिवि महुँ गुरु अन्नू न अहियड
 दिन्नड वरु गरुयाहँ वि जहिँ वरु
 एम भणेवि नपि गुरु गरहिड
 खीरकयवड नामे वणयरु
 भणड दोणु पइँ मेल्लिवि वल्लहु
 कहिँ अम्हइँ कहिँ पुत्त चिलायड
 निच्छड एड असेसु असच्चड
 एड सुणेवि लेवि गुरु अज्जुणु

मेच्छहो नियगुणु अहिड पवचिड ।
 होसइ तुह विन्नाणे सहियड ।
 अलिय होइ तहिँ किं कीरइ किर ।
 पइँ धणुगुणु भिल्लाण वि न रहिड ।
 जाणइ मज्झु वि पासिड धणु वरु । ५
 न वि महुँ आसाथाणु वि दुल्लहु ।
 कहिँ धणुवेड तेण विन्नायड ।
 जइ तो पहु दक्खालमि पच्चड ।
 गड तहिँ जहिँ सो भिल्लु अणज्जणु ।

घत्ता—काणणि कालनिहु दोणेण निरिक्खिउ ।

१०

पुच्छिउ चाउ पईं कही पासिउ सिक्खिउ ॥४॥

५

भणिउ तेण गुरु दोणु महारउ
तासु पासि मईं मुणिउ सरासणु
पभणइ दोणु दोणु उवलक्खहि
भासइ भिल्लु कि न परियाणमि
गुरुवयणेण तेण दक्खालिय
एण मज्झु उवएसिउ धणुगुणु
पत्थे भणिउ केम पईं आयहो
कहइ किराउ तिवाहिण देप्पिणु
भणमि महापहु मईं आसासहि

वेएँ धणुवेएण विसारउ ।

छुरिउ खग्गु गय अरि अरितासणु ।

किं एमेव असच्चउ अक्खहि ।

निच्छउ जइ दावहि तो जाणमि ।

लेप्पपडिम नवमालोमालिय ।

५

एहु महारउ सामिउ बहुगुणु ।

सिक्खिउ पासि महीमयकायहो ।

आयहो परमपुज्ज विरएप्पिणु ।

दिट्ठिमुट्ठिसघाणु पयासहि ।

घत्ता—एण कमेण महुँ सयमेव जि आयउ ।

१०

धणु आहीणगुणु कुसलत्तणु जायउ ॥५॥

६

आयन्नेवि एउ किविकते
पेक्खु पुत्त देवा वि हु भत्तहो
त न अत्थि जगि जण्णउ भत्तिप्र
एव भणेवि समुन्नयघोणे
ह सो दोणु तिलोयपसिद्धउ
एउ सुणेवि भत्तिभरनडियउ
हउँ सकियत्थु अज्जु उक्किट्ठउ
इय भणेवि अग्गप्र थिउ भत्तउ
दिज्जउ गुरुदक्खिण तेणुत्तउ
मग्गिउ दाहिणहत्थगुट्ठउ
विणयवसेण जेम तहो सिद्धी

भणिउ धणजउ ईसिहसते ।

होत्ति पसन्न देति वरु सत्तहो ।

पाविज्जइ पयत्थु पहयत्तिप्र ।

जाणाविउ अप्पाणउ दोणे ।

कुरुपडवगुरु गुणहिँ समिद्धउ ।

५

खीर कयवउ पायहिँ पडियउ ।

ज पच्चक्खु देव तुहुँ दिट्ठउ ।

हेउ सरेप्पिणु गुरुणा वुत्तउ ।

ज मग्गहि त देमि निरुत्तउ ।

तेण वि दिन्नु धणजउ तुट्ठउ ।

१०

चावविज्ज बहुभेयसमिद्धी ।

घत्ता—अन्नाणत्तु तिह पलयहो जाएसइ ।

मोक्खविज्ज मुणिहे निच्छउ सिज्जेसइ ॥६॥

७

अवरु वि अक्खमि भत्तिकहतरु
 भारहवरिसि विजयविसए पुरु
 अत्थि तम्मि पयवालु नरेसरु
 सुदरोए तहो कतए नदण
 सव्वहँ घन्नतरि लहुयारउ
 तहो सगेण सव्ववसणायरु
 चोरियाए बहुवारउ पाविउ
 पत्ता पुणु वि कुडुवे चत्ता

आयन्नह मणु देवि निरतरु ।
 नामे पुहडतिलउ नं मुरउरु ।
 मूरदत्तु सेट्टी गव्वेसरु ।
 जणिय सत्त जणनयणानदण ।
 तहो सुहि वभणु पाणपियारउ । ५
 हुउ घन्नतरि घम्मि अणायरु ।
 जणणगुणे निवेण मेल्लाविउ ।
 नीसारिय करिउरु सपत्ता ।

घत्ता—तत्थारक्खियहो जमदडहो केरए ।

सठिय वे वि जण पडिक्खनिवारए ॥७॥ १०

८

न विथाणति अन्नु कम्मतरु
 साहुपसाएँ ससयचत्तउ
 जाणिवि वयविसेमु अणुराएँ
 जीववहे खणम्मि खचिय मणु
 एक्कहिँ वासरि विन्नि वि रत्तिहे
 हुए अवसउणि निवारिय गमणए
 गरुयपरत्तिए नियनियगेहहो
 सुविहाणत्थु जणेरिविसेसे
 सुत्त नियच्छिवि मन्निवि परनरु
 कडिडवि खग्गु जाम किर मारड

चोरियाए जीवति निरतरु ।
 विविहावग्गहफ्लु संपत्तउ ।
 पुणरवि सूरदत्तवणिजाएँ ।
 लइयउ पचपओसरणहो खणु ।
 गय चोरियहे अत्थसंपत्तिहे । ५
 थिय नाडउ नियंत सुरभवणए ।
 आगय सुहि आवासु सिणेहहो ।
 समउ बहुल्लियाए नरवेसे ।
 कुविउ वीरु घन्नतरि दुद्धरु ।
 विन्नि वि वइवसपुरि पइसारइ । १०

घत्ता—सुमरिवि गुरुवयणु सहसा ओसरिउ ।

सिक्कउ ताम तहिँ असिणा कत्तरियउ ॥८॥

९

भंडुत्तरणि पडेप्पिणु लग्गी
 उट्ठिय सुदरि ताम तुरती
 तं निसुणेप्पिणु चत्तकसाएँ
 जाउ मसाणहो माणुमु निव्वउ

गुरुसद्देण निद्द तहे भग्गी ।
 घन्नतरि चिरु जियउ भणंती ।
 भणिय माय कयपरमविसाएँ ।
 आयउ अज्जु हींतु तुम्हहँ खउ ।

रक्खिउ नवर वएण मणोहरि
 एम भणेवि विहाणि समित्तहो
 वलि किज्जउ दुक्कियसयगारउ
 किं बहुणा तवचरणु लएवउ
 सुणिवि परमसव्भावनिउत्ते
 भो धन्नतरि मित्त [महा-]मड

हा महु सव्वु खमेज्जहि सुदरि । ५
 जाणाविउ समसुहुहुहचित्तहो ।
 निग्घिणु निंदु कम्मु अम्हारउ ।
 मइँ कियदुक्कियकम्मु हणेवउ ।
 वुच्चइ सोमसम्मदियपुत्ते ।
 निच्छउ जा तुह सा मज्झु वि गइ । १०

घत्ता—सुहिणा भणिउ सुहि तो काई चिरावहि ।
 भज्ज जणेरि महु घरि घल्लिवि आवहि ॥९॥

१०

ताउ पुरोहियपुत्तु लएप्पिणु
 लगा जाम तासु तहिँ वासर
 धम्मसूरि पणवेप्पिणु लइयउ
 आयाराइ सत्थसयपारउ
 भूभूसणगिरिवरि गिरिधीरउ
 एत्तहे ताउ पराणिवि आयउ
 गउ गिरि सुद्धि लहेवि तुरतउ
 थिउ आयावणे नियमियचित्तउ
 मुणि मोणेणच्छइ किम बोल्लइ
 पडिउत्तरु अलहतु नियत्तउ

गउ नियनयरहोएउ सुणेप्पिणु ।
 तामन्नाणतमोहदिणेसर ।
 तउ सुदरिसुएण अइसइयउ ।
 हुउ कडवयदिवसहिँ मइसारउ ।
 अच्छइ तवसखीणसरीरउ । ५
 तहिँ विस्साणुलोमु अणुरायउ ।
 दिट्ठउ मुणि तवु तिव्वु तवतउ ।
 वंदिउ सुमराविउ पुव्वुत्तउ ।
 इयरु वि वार वार दुव्वोल्लइ ।
 गिरितलि तवसितवोवणु पत्तउ । १०

घत्ता—सयजडितावसहो सहसजडिहे केरउ ।
 हुउ सो सीसु तहिँ मदमइ असेरउ ॥१०॥

११

तावेत्तहे तहे जोउ समद्धउ
 भणिउ मित्त करि वयणु महारउ
 अच्छिउ हउँ नियमत्थु म रुसहि
 जाम न केम वि बोल्लइ माणिउ
 किउ पइँ केम वि न वि महु वृत्तउ
 एम भणेवि साहु गउ ठाणहो

सुहिसबोहणत्थु तहिँ पत्तउ ।
 सुयहे एउ भवि भवि दुहगारउ ।
 एहप्पउ सुतवेण विहूसहि ।
 सजएण ता पुणरवि भाणिउ ।
 जाणावउ फलु कालि निरुत्तउ । ५
 काले अच्चुयसग्गविमाणहो ।

हुउ मरेवि' सुरवरहिँ नविज्जइ
इयरु वि पढमकप्पसपसाहणु
नदीसरजत्ताप्र नियच्छिउ

भणु जिणधम्मु कासु उवमिज्जइ ।
करि विज्जुप्पहदेवहो वाहणु ।
अच्चुयवडणा चिरकयकुच्छिउ ।

घत्ता—वोल्लावियउ गउ कयसोक्खविरामहो ।

१०

पत्तउ मित्त फलु मिच्छापारिणामहो ॥११॥

१२

ता विस्साणुलोमचरु भासइ
मइँ आयम'-जुत्तीप्र सुहकरु
हुउ तेणेरिमु भो अच्चुयवड
जइ जमयग्गिपहूइ पसिद्धा
ते तुम्हहँ वि पासि अहिययरा
भणइ सुरेदु ते वि ससयमइ
इयरेणुत्तु अप्पसंभूसणु
इदे भणिउ सरुवु भणिज्जइ
जइ पत्तियहि न तो दक्खालमि

मिच्छादिट्ठि ससमउ पससइ ।
किउ न महाएवहो तउ दुद्धरु ।
महु समए वि हु अत्थि महाजइ ।
दुसह महातवजोयसमिद्धा ।
होसहिँ सव्वहँ सोक्खजणेरा । ५
तेण तवेण लहेसहि दुग्गइ ।
परनिदणु सप्पुरिसहो दूसणु ।
अम्हारइँ न को वि निदिज्जइ ।
एहि अणिच्छयमलु पक्खालमि ।

घत्ता—एव भणेवि सुर विसहियपचग्गिहे ।

१०

गय सामीवे तहो वेत्ति वि जमयग्गिहे ॥१२॥

१३

विहिँ मि परोप्परु सो खव्भालिउ
पेच्छह एउ न याणइ मूढउ
जइ सुय सुहगइ देहँ समत्था
जइ पुत्तेहिँ सुगइ पाविज्जइ
उप्पहम्मि जाणतु वि लगगउ
कन्नाउज्जि कामिरायहो सुय
उप्पन्नउ तहे पुत्तु पियारउ
तामेत्तहे निम्नलसम्मत्ते
भूयदिवसि भुक्खिरसिवसाणप्र
पडिमाजोएँ निच्चलचित्तउ

पक्खपवंचु करेप्पिणु चालिउ ।
को नदणहिँ सग्गि आरुढउ ।
तो मकुणकिडिसुणहँ समत्था ।
तो तउ दाणु सीलु कि किज्जइ ।
ताण वयणु निमुणेप्पिणु भग्गउ । ५
पत्थिवि तेण विवाहिय रेणुय ।
परसुरामु खत्तियखयगारउ
रायगेहिनयरोवरि जत्ते ।
निसि जिणयासु वणीसु मसाणप्र ।
आलोएप्पिणु मित्तु पउत्तउ । १०

घत्ता—अम्हहँ एहु सुहि साहम्मिउ पेक्खहि ।

दूरप्र ताम मुणि अच्छतु परिक्खहि ॥१३॥

१४

रुसा तैण ताढत्तु घोरोवसग्गो
घण पाणिय भीसणो मेह्वाओ
सककालवेयालमालाकरालो
पधावतफारक्कहक्कारउद्दो
पदीसतसद्दूलसीहच्छहल्लो
विसप्पतसप्पोहफुक्कारफारो
पियापुत्तमित्ताइसीसस्स छेओ
परं तस्स चित्त ह्यं नेव वक

जलतग्गिपाहाणधूलीविसग्गो ।
समुच्चयउव्वीहरो चडवाओ ।
पणच्चतरुडोहरुद्धतरालो ।
सिवारक्खसीफेरवामुक्कसद्दो ।
पडतारिनारायवावल्लभल्लो । ५
पुरागारदाहोयडव्वावहारो ।
कओ दूसहो एवमाई अणेओ ।
अकप सुरद्दी व ह्रीऊण थक्क ।

घत्ता—इय निट्ठाउलहो पेक्खेवि सो विभिउ ।

इदजालु सरिसु उवसग्गु निसुभिउ ॥१४॥

१०

१५

अच्चुयवइणा तो जिणदासहो
करिवि पसस सुरासुरसामिणि
पुज्जिवि वणिवइ जाम पयट्टहिँ
ताम पोमरहराउ ससेन्नउ
वासुपुज्जजिणवदणहत्तिप्र
मिहिलानयरु निहेप्पिणुं धुत्ते
अज्ज वि कल्लि एहु उवसतउ
करिवि पइज्ज पुज्ज गजोल्लिउ
जइ सक्कहि तो जतु निवारहि

तुट्टएण दुक्कम्मविणासहो ।
दिन्न विज्ज गयणगणगामिणि ।
अचमाण नहु कमकदोट्टहिँ ।
सुदरभत्तिभारसपुन्नउ ।
गच्छमाणु सासयसपत्तिप्र । ५
वुत्तउ मित्तु जिणेसरभत्ते ।
मुणिवयणेण ह्यउ वयवतउ ।
वदहँ वासुपुज्जजिणु चल्लिउ ।
वित्थारिवि पवचु पत्तारहि ।

घत्ता—तेणुवसग्गु तहो दक्खविउ विचित्तउ ।

नयरदाहपमुहु तो वि हु न नियत्तउ ॥१५॥

१०

१६

ता विस्साणुलोमचरु तुट्टउ
साहुक्कारिवि अविचलचित्तहो

गउ सदेहु [मिच्छ-] मइपुट्टउ ।
जोयणघोस भेरि दिन्नी तहो ।

१५. १ महिलानयरु निहेप्पिणु

अमियपहेण वि सव्वरुयाहरु
 गपिणु चपापुरपरमेसरु
 संवेएण लेवि सजमभरु
 दुद्धरु तउ करेवि गउ मोकखहो
 विस्साणलसुरो वि तित्थयरहो
 धम्मु सुणेवि गहियसम्मत्तउ

हारु समप्पिउ तामु मणोहरु ।
 पणवेप्पिणु वारहमु जिणेसरु ।
 [निव-] पोमरहु महामुणि गणहरु । ५
 मुक्कउ चउगडभवभमदुक्खहो ।
 पायमूलं भुवणत्तयपियरहो ।
 गउ सग्गहो हरिसेणसमित्तउ ।

घत्ता—अविचल भत्ति जसु अवरहो वि हवेसइ ।

सो सिरिचदजसु सासयसुहि होसइ ॥१६॥

१०

विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले
 भुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिण्णतोसे ।

ुणिसिरिचंदपउत्ते मुविचित्ते णत्तपयदसजुत्ते ।

सुहिसदोहणनामो एयाहियमवीसमो सधी ॥

॥सधि २१॥

संधि २२

१

अन्नाणी वि य गोवो आराधित्ता मदो नमोक्कार ।

चपाए सेठिकुले जादो पत्तो य सामन्न ॥ [भ० आ० ७६२]

अन्नाणी वि य अज्ञानोऽपि च मूर्खोऽपि गोवो गोपाल आराधित्ता आराधयित्वा स्मृत्वा मृत सन् । किमाराधयित्वा^१ नमोक्कारं नमो अरहताणमिति नमस्कारम् । चपाए चम्पानाम्नि पुरे । जात उत्पन्न । क्व ? श्रेष्ठिकुले । पत्तो य प्राप्तश्च सामन्नं यथाख्यात चारित्रमिति । ५

धुवय—तेलौयपईवहो विद्धसियदुद्दसणहो ।

पणवेवि जिणिंदहो अक्खमि चरिउ सुदसणहो ॥

दुवई—अगाजणवयम्मि चपापुरि पवलविवक्खसाहणो ।

अत्थिमहामहीसु सक्को इव नामे धाडिवाहणो ॥

अभयमइ त्ति कत तहो सुदरि

उसहदासु वणिवइ तहो गेहिणि

गोवालउ गुणवतु पसिद्धउ

एक्कहिँ वासरि रुक्खनिरतरु

माहमासि घणतुहिणकणालए

केसरि कामकरिंदवियारणु

विमिउ एत्थु केम निसि नेसइ

एक्के चित्तेप्पिणु गउ नियनिलयहो

विभयरसवसु तग्गयचित्तउ

न अवइन्न का वि सुरसुदरि । १०

अरुहदासि न चदहो रोहिणि ।

नामे सूहवु विणयसमिद्धउ ।

गउ सो गाइउ लेवि वणतरु ।

पडिमाजोएँ सभायालए ।

दिट्ठउ एक्कु महामुणि चारणु । १५

एहउ दूसहु सीउ सहेसइ ।

रयणिहिँ निद् तासु गय विलयहो ।

अच्छिउ सो तमेव सुमरतउ ।

घत्ता—गय कह व विहावरि हुए पहाए तेत्तहे तुरिउ ।

गउ अच्छइ जइवर जेतहि तुहिणपडावरिउ ॥१॥ २०

२

दुवई—जोउ मुएवि साहु गमणत्थिउ उइए तमोहभक्खणे ।

भणिवि नमोरहत गयणगणे गउ उप्पएवि तक्खणे ॥

विभिउ मुणि पेक्खवि गयणि जतु

आयासगमणकारणु निरुत्तु

नमो अरहताण एहु मतु ।

इय चित्तिरुण एयग्गचित्तु ।

सो सव्ववार घोसतु मत्तु
करयलि धरेवि महुरक्खरेण
सव्वत्थ वि सुय दुक्कियकयतु
सिवसोक्खहेउ दुग्गडनिसेहु
नउ अमुडसरीरे अमुड देसि
उवहासु करतहँ होड दोमु
जो होइ होउ सो सामि दोमु
सक्कमि न मुहुत्तु वि मुयहुँ ताय

अच्छड नियनहगइ चितवत्तु । ५
एक्कहिँ दिणि वारिउ वणिदरेण ।
नउ उच्चारिज्जड परममत्तु ।
देवाहिदेउ णवयारु एहु ।
वुच्चड मुडदेहे मुडपदेसि ।
आहासड आयन्नय विसेसु । १०
महु एउ मुयतहो गरुयसोमु ।
ता वणियहो मुहि नीसरिय वाय ।

घत्ता—जड सक्कहि मुयहुँ न तो मा मेल्लमु खणु वि सुय ।
तुह एह निरुत्तउ देसड लच्छि विणासच्चुय ॥२॥

३

दुवई—आयहो सुहु अणत्तु कल्लाणु महुच्छउ तुज्जु होमए ।
माहप्पेण पुव्वकयदुक्कियकम्मविणासु होसए ॥

अहनिसु गोवालउ सभरइ
एक्कहिँ दिणि महिसिहिँ गणि नई
लहु ताहँ निसेहहुँ धावियउ
मुउ अरुहु सरत्तु नियाणवसु
पच्चमए मासि हुउ दोहलउ
सुहदमणु जिणयासिए जणिउ
सियपक्खससी व पहापसरु
अक्खरलिविआडउ निम्मलउ
आलिगणाइ हयजुवडमणा

त एक्कु मुहुत्तु न वीसरइ ।
किय उत्तरेवि परखेत्ति रई ।
सियसूले पाणिए पावियउ । ५
हुउ सेट्टिहे मुउ उवलद्धजसु ।
किउ जिणमहिमुच्छवसोहलउ ।
नामेण सुदसणु सो भणिउ ।
वड्ढिउ रूवेण व पचसरु ।
अव्वभसिउ वहत्तरी वि कलउ । १०
सिक्खिउ चउसट्टि वि कामगुणा ।

घत्ता—सजाउ जुवाणउ सयलकलालकारधरु ।
न महिमवडन्नउ केण वि कज्जे अमरवरु ॥३॥

४

दुवई—तेत्थु जि पुरि पहाणु वणिलोयहो सायरदत्तनामओ ।
सायरदत्तकत्तु जणवल्लहु अत्थि मणोहिरामओ ॥

पुत्ति रइ व्व अईव मणोरम
दिन्न सुदसणासु परिओसे

जणिय तेण नामेण मणोरम ।
परिणिय मगलतूरनिघोसे ।

जाउ सुकंतु पुत्तु तहिँ केहउ
 पुच्छिवि पहु निव्वेएँ लडयउ
 दुद्धरु तउ करेवि गउ सग्गहो
 पुन्नवतु सव्वत्थ पसिद्धउ
 तहो सुहि कविलु विप्पु सुहयारउ
 तासु रुवजोव्वणमयगव्विय
 आयन्नेवि सुदसणकेरउ
 हूय परोक्खरायरजियमण
 निव्वभरपेम्मवसाए वयसिय

रुप्पिणीहे मयरद्धउ जेहउ । ५
 वणिवइ उसहदासु पव्वडयउ ।
 हुयउ सुदसणु सामि सवग्गहो ।
 जाउ निवच्चिउ रिद्धिसमिद्धिउ ।
 रायपुरोहिउ पाणपियारउ^१ ।
 कचणवन्न कविल नामे पिय । १०
 सा गुणकित्तणु जणियच्छेरउ ।
 इदियसुह [इच्छइ] सुहदंसण ।
 एक्कहि वासरि गय सपेसिय ।

घत्ता—विणएण पउत्तउ ताएँ सुदसणु कविलु तुह ।

सुहि सुट्ठु न सक्कइ आवहि लहु छणयदसुह ॥४॥ १५

५

दुवई—एउ सुणेवि साहु सुहिवच्छलु अविआणियपवचओ ।

उत्ताउलउ तीए सहुँ सुदरु कविलहो मंदिर गओ ॥

आउच्छिय वभणि एक्कचित्तु
 कविलाए एह विणएण वुत्तु
 आयन्निवि अब्भतरि पइट्ठु
 कविलाए ताम करि धरिउ सेट्ठि
 जीवावहि मई पिय एक्कवार
 सुदर परोक्खरायाणुरत्त
 जइ नेच्छहि तो निच्छउ जि मरणु
 इय भासिवि कामुयकामणाई
 सा वणिवरेण गुरु मणु हरति^२

अक्खहि कहि अच्छइ मज्झ मित्तु ।
 सुहि तुम्हहँ अच्छइ मज्झ सुत्तु ।
 तहिँ जाम निहालइ परमइट्ठु । ५
 एक्कसि आलिगहि देहि दिट्ठि ।
 सर मयणहो दूसह दुन्निवार ।
 थिय हउँ चिरु पई जोयति मित्त ।
 पई मेल्लिवि अन्नु न भज्जु सरणु ।
 आलिगणचुवणमम्मणाई^३ । १०
 विणिवारिय बहुक्कम्मई^४ कुणति ।

घत्ता—सुणु भद्दे म खिज्जहि थिर होएप्पिणु महु वयणु ।

हउँ सहु निरुत्तउ पर न विआणइ को वि जणु ॥५॥

६

दुवई—आयन्नेवि एउ सहसत्ति विरत्तए ताई मुक्कओ ।

गउ मदिरु वणिदु हरिणो इव सीहिणिकमहो चुक्कओ ॥

थिय कविल विलवखी होवि तउ
 सतेउरपुरपरिवारसहु
 सिवियत्य पुत्तपरिवारजुया
 जोएवि मणोरम मणहरिया
 अभयामहएवि वियक्खणिया
 परमेसरि किं भो सुरजुवई
 छणयंदपहा इव गयणयले
 गच्छइ परमुच्छवेण वणहो

पत्तउ वसंतु कयकामजउ ।
 वणकीलण लीलण चलिउ पहु ।
 वणिणाहहो गेहिणि चारुभुया । ५
 पच्चक्खसिरी रिव अवयरिया ।
 कविलण पुरोहभज्जण भणिया ।
 सइँ सक्कहो कामहो नाइँ रई ।
 उज्जोउ करति सति सयले ।
 विंभउ जणति सव्वहो जणहो । १०

घत्ता—देवीण पत्तउ सहि याणदियजणमणहो ।

पाणाण वि वल्लह गेहिणि एह सुदंसणहो ॥६॥

७

दुवई—एउ सुणेवि भट्टपिय भासइ पइ' कुलविद्धिकारिओ ।

उप्पायति पुत्तहडाणि सकुसलत्तेण नारिओ ॥

भणइ देवि हलि एउ म माणहि
 एह महासइ णियभत्तारहो
 अणुगुणवयसिक्खावयघारी
 भणइ कविल सो मइँ विघ्नासिउ
 पुरिसु न होमि निरुत्तु नउसउ
 भासइ रायपत्ति गुणमडउ
 धुत्ते मिसु लाएप्पिणु खचिय
 मुद्धि वराइ न किं पि वियक्कहि
 लज्जिय एउ सुणेप्पिणु वभणि
 तहो लग्गिदि हउँ मयणे मारिय

अज्ज वि आयहि सीलु न याणहि ।
 भत्त न वज्ज वि पाडइ जारहो ।
 जिणमुणिदपयपेसणगारी । ५
 तेण वि मज्झ सवइयर भासिउ ।
 तेण मज्झ सुयसभवि संसउ ।
 सो परनारिरमणि परसडउ ।
 तेणुज्जय भणेवि तुहुँ वचिय ।
 परपुरिसहुँ मणु लेवि न सक्कहि । १०
 चित्तइ परनरचित्तनिसुभणि ।
 किय धुत्तेण तेण पत्तारिय ।

घत्ता—इय चित्तेवि अमारिसवसण ताए निववहु भणिय ।

हउँ मुद्ध वराई किर वभणि अवियक्खणिय ॥७॥

८

दुवई—सक्कउ रमहुँ नेव मइँ सुदर सुहसुविसुद्धमाणसो ।

किं पइँ कामसत्यनिम्मायरम्मपराणियाण सो ॥

भासइ महएवि सुणेवि एउ
 हलि अवरहो केरउ गहणु कासु
 तो जावज्जीविउ वभचेर
 इय लेवि पइज्ज वणाउ एवि
 हक्कारिवि पडिय धाइ ताए
 तुहँ घरणि व वेल्लिहँ माय मज्झु
 महु एहावत्य सुदसणेण
 जिम जाणहि तेमाणहि भडत्ति
 धाईए भणिय कलयठसहि
 अन्नू वि सो सावउ मुद्धवित्तु

हउँ कविलि रमावमि कामएउ ।
 जइ रममि न भजमि सीलु तासु ।
 निच्छउ सहु कामे करमि वेरु । ५
 हुय कामगहे विवरीय देवि ।
 वुत्तिय मयणाहयमाणसाए ।
 मणु पइ समेउ किर कवणु गुज्झु ।
 विणु वट्टइ दुल्लहफसणेण ।
 महु पाण जमालउ जा न जति । १०
 किं भणिउ अजुत्तउ एउ भट्टि ।
 परयारि न करइ कयावि चित्तु ।

घत्ता—वन्न वि परयारहो जो न सुणइ परमत्थरउ ।
 कहि किह कामिज्जइ सो सुदरि निद्धूयरउ ॥८॥

६

दुवई—वुच्चइ राणियाए मई पुरउ पुरोहपियाहे वुत्तय ।
 माणमि जइ ण सुहउ सो हुयवहि पइसमि तो निरुत्तय ॥

ता धाईए धीरिय दुम्मणिय
 तहो आणेवए मयणत्तिहर
 सो पिउवणे अट्टमिचउदसिहे
 तहिँ होतुच्चाइवि भाणवसु
 पूरमि पइज्ज परमत्थु तउ
 आसासिवि निववहु पडियए
 महएवि करेसए पुरिसवउ
 तेण वि लहु पुरिसपमाणियउ
 पच्छाएवि वत्थे खधि किय
 पुच्छिय पडिहारे पढमयरे

सपइज्ज भज्ज रायहो तणिय ।
 हलि अत्थि उवाउ एक्कु पवरु ।
 अच्छइ पडिमाजोएँ निसिहे । ५
 एत्थाणमि सुयणुवलद्धजसु ।
 आयहो पर नत्थि उवाउ तउ ।
 गतूण पयावए भणिउ तए ।
 करि पडिमउ सत्त अणोवमउ ।
 पडिमउ निउणेण समाणियउ । १०
 पडिवयदिणि रत्तिए एक्क निय ।
 पइसति नरिददुवारि वरे ।

घत्ता—कि लेवि पईसहि कहसु ताए ता वयणु कउ ।
 ज महु पडिहासइ किं आयए चित्ताए तउ ॥९॥

१०

दुवई—पभणइ वारवालु ज भावइ त कि लेहु अब्भए ।
 जइ जाणइ अजुत्तु पुहईवइ तो अम्हई निसुभए ॥

१४

दुवई—लग्गिवि पचवन्न गलकंदलि हूय पसूणमालिया ।
वरपरिमलमिलतमहुयरउलगुमुगुमुखवमालिया ॥

किउ नहयलि देवहिँ साहुकार
विरइउ पुज्जेविणु पाडिहेरु
त पेक्खवि अइविभियमणेण
पर तो वि न अच्चिउ पावमुक्कु
तहो पय पणवेवि महाणुभाउ
एत्तहिँ देवीए सुणेवि वत्त
हुय रक्खसि पाडलिउरमसाणि
मग्गणगणदिन्नसुवन्ननियरु
तहिँ देवयत्तनामालियाहे

कोणाहयदुदुहिसद्भारु ।
दिन्नउ मणिककणु हारु दोरु ।
मन्नाविउ राएँ परियणेण । ५
विमलासयमुणिसामीवि दुक्कु ।
जइ जाउ करेप्पिणु सव्वचाउ ।
भीयए गलिपासए पाण चत्त ।
घाई वि ताहे पाणावसाणि ।
नासेवि समागय कुसुमनयरु । १०
थिय गणियहे गेहि गुणालियाहे ।

घत्ता—नीसेसु पयासिउ नियवित्ततु विलासिणिहि ।
जाणिवि गुण गउरउ किउ ताए वि सुहासिणिहि ॥१४॥

१५

दुवई—वसइ सुहेण जाम गुणमंडिय पडिय ताम पत्तओ ।
वहुदियहेहिँ साहु विहरतउ सो तवखीणगत्तओ ॥

गोउरि पइसतु निहालियउ
सो एहु सुदंसणु मुयणथुउ
तं निसुणिवि देवयत्त भणइ
परचित्तु लएवउ गरुयगई
मणु खोहमि आयहो मुणिवरहो
इय भणेवि खडाएवि आणियउ
मुणि तित्ति दियह खव्भालियउ
थिउ होवि धीरु नं कहुमउ
होएवि विलक्खए मेल्लियउ

पडियए सीसु सचालियउ ।
जसु लग्गिवि महु आगमणु हुउ ।
न कविल महएवि किं पि मुणइ । ५
लइ पेक्खहि पडिए चारुमई ।
आणाकरु करमि पचसरहो ।
घरवारु.देवि सदाणिउ ।
पर तो वि मणा वि न चालियउ ।
पाहणमउ नावइ लेप्पमउ । १०
निसि ताए मसाणए घल्लियउ ।

घत्ता—तहिँ साहु समजसु सव्वाहारचाउ करिवि ।
थिउ पडिमाजोएँ मेरु व मुक्कभाणु धरिवि ॥१५॥

१६

दुवई—तत्य वि वितरीग्र पुव्विल्लग्र घोखसग्गु साहुणा ।
वइरवसेण रइउ मुणिवासर सहिउ पलववाहुणा ॥

किउ विसमघाइकम्मावसाणु	उप्पाइउ केव्लु विमलनाणु ।	
तइल्लोयल्लोयसखोहु जाउ	सहसागउ सामरु देवराउ ।	
भवणामरपरिमिउ उरयराउ	जय देव भणतउ णरनिहाउ ।	५
थुउ तेहिँ भरेण तिल्लोयराउ	तुहुँ देवदेउ पहु वीयराउ ।	
मणिमउ पोमासणु एक्कछत्तु	सजाउ चउरचउराणणत्तु ।	
सामन्न दुवालसगण सहाग्र	उवविट्ठु सव्व नियनियग्र ठाण ।	
परमेसरेण नीसेसु वत्थु	अक्खिउ वरवाणिग्र तिहुवणत्थु ।	
आयन्निवि धम्मु मणोहरीग्र	गणियाग्र सविउसिग्र वितरीए ।	१०
सम्मत्तु लड [-उ वरसुहनिहाणु	मुणिणा पुणु पाविउ] परमठाणु ।	

वत्ता—सिरिचदजसुज्जलु अवरु वि जिणनवयारपरु ।
होसइ भुवणत्तयगुरु परमेसरु सिद्धिवरु ॥१६॥

तथा चोक्तम्—साव्येनापि नमस्कार यः करोति जिनेश्वरे ।
स निस्तरति ससार कि पुनः परमार्थत ॥ १५

विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।
नाम सुदसणचरिय सग्गो वावीसमो एसो ॥

॥सधि २२॥

तो वि न कहइ कोवसिहि वडिडउ
 ता रुढाए ताए अछ्छोडिय
 वोल्लिउ सीसु तुज्भु लेवावमि
 पुरिसव्वउ महएवि वउत्थी
 आयहे पडिमहे पुज्ज करेप्पिणु
 पभणइ वारवालु भयभीयउ
 भुल्लउ मा जाणावहि रायहो
 १क बहुणा जइवि हुं णरु सच्चउ

लेवि तेण पगुरणु नियडिडउ ।
 घल्लिवि पडिम महीयलि फोडिय ।
 रे हयास तिलु तिलु कप्पावमि । ५
 अछ्छइ पहु णियति अविस्त्थी ।
 [भोयणु भुजइ पुणु जग्गेप्पिणु]
 हउं तुह किंकरु माइ विणीयउ ।
 एक्क वार खम करहि अणायहो ।
 आणहि तो वि न वारमि सच्चउ । १०

घत्ता—ता ईसि हसेप्पिणु धुत्तियए भणिउ म करहि भउ ।
 वज्जरमि न रायहो चिरु जीवहि सुहु सभवउ ॥१०॥

११

दुवई—एण कमेण सत्तवारेसु वि सत्त वि दारवालया ।
 करिवि पवचु ताए साहिय किय नियआणाणुपालया ॥

सव्वत्थ वि सव्व करेवि सुद्धि
 पिउवणि वर्णिदु समसत्तुमित्तु
 धीरिमए सुंरिदायलसमाणु
 उच्चाइवि आणिउ समसहाउ
 न रोसुत्थाणु नराहिवासु
 पल्लकि चडाविउ मुद्धियाए
 पर तो वि न तहो मणि खोहु जाउ
 किं अछ्छहि इच्छहि सुहय अज्ज
 जइ हउं पिय तुहुं पइ एहु भोउ
 दय करहि होहि महु साणुराउ
 दारइ दूसह मयणासिघार

अट्टमदियहम्मि विसुद्धवुद्धि ।
 उववासिउ भाणनिलीणचित्तु ।
 निसि पडिमाजोए अछ्छमाणु । ५
 नावइ अप्पाणहो देसचाउ ।
 अप्पिउ महएविहे न विणामु ।
 किउ सयलु नयणवावारु ताए ।
 थिउ निच्चलु नावइ कट्टकाउ ।
 लइ होहि सामि अणुहुजि रज्जु । १०
 भणु तो कि किज्जइ देवलोउ ।
 मारमि पच्छन्नु विसेण राउ ।
 पए लग्गए अणुणइ वार वार ।

घत्ता—चुविउ बहुभेयहिं आलिगिउ दरमलिउ ।
 थिउ मेरु व धीरहो तो वि मणा वि न मणु चलिउ ॥११॥ १५

१२

दुवई—पुणु पारद्दु ददु जइ नेच्छहि तो सकुडुंनु कल्लए ।
 घल्लावमि हयास पइं सुलए जणियजणोहसल्लए ॥

वहु एवमाइ खब्भालियउ
 आयहो उवसग्गहो उव्वरमि
 इय लेवि पइज्ज मणेण थिउ
 तहे खब्भालतिहे अप्पवसी
 अरुणुग्गमि नउ साहारियउ
 थिय मोक्कलकेस विसठुलिया
 निसुणिवि गहियाउहु धाइयउ
 पुच्छिउ परमेसरि काइँ इउ
 निमुणेवि एउ दुम्मियमणहो
 नेच्छति ह्यासे विद्विया

वणि तो वि न भाणहो टालियउ ।
 जइ तो परमत्थे तउ करमि ।
 लेप्पेण नाइँ केणावि किउ । ५
 आसाग्र समेउ गया सुनिसी ।
 अप्पउँ नहेहिँ पवियारियउ ।
 धावह पोक्कारइ भिदुलिया ।
 सहसा परिवारु पराइयउ ।
 हा हा केणेरिसु कम्मु किउ । १०
 सा कहइ रयती परियणहो ।
 हउँ एहावत्थहो एण निया ।

घत्ता—आयन्नवि राएँ रोसवसेण भयकरहँ ।

आएसु समप्पिउ मारहु एहु सकिंकरहँ ॥१२॥

१३

दुवई—नेवि मसाणि साणसिवसकुलि छिदह सीसु आयहो ।

गय किंकर तुरतु त लेप्पिणु आएसेण रायहो ॥

एत्तहे वत्त सुणेप्पिणु वोल्लग्र
 हा हा एउ काइँ सजायउ
 कि मज्जायग्र वज्जिउ सायरु
 किं सचल्लु सुरायलु ठाणहो
 किं गयणगणु गउ पायालहो ।
 किं ससारिउ हूउ विमुक्कउ
 खीणकसाउ कसायहो दुक्कउ
 किं सजायउ मरणु कयतहो
 अह कहमवि एउ वि सपज्जइ
 एम जाम जणु सयलु विसूरइ
 तावइ सारिउ तेहिँ जि सूलउ

थामि थामि जणु धाहउ मेल्लग्र ।
 आयहो दूसणु केम समायउ ।
 किं पच्छिमि उग्गमिउ दिवारु । ५
 [. . .]
 किं जणु भग्गु कामसरजालहो
 किं ससारिउ कालहो चुक्कउ ।
 दतउ कप्परुक्खु किं थक्कउ ।
 हा हा कि गउ अमिउ विसत्तहो । १०
 एयहो एउ न सभावज्जइ ।
 सधइ विहि अगुलियउ तूरइ ।
 हरिविट्ठरु ता जाउ अमूलउ ।

घत्ता—तामेत्तहे पिउवणु नेवि तेहिँ निट्ठुरकरहिँ ।

असिलिट्ठि पमेम्लिय तहो गीवहो निवकिंकरहिँ ॥१३॥

१५

सधि २३

१

जइ दा खडसिलोगेहिं यमो मरणादु फेडिदो राया ' ।

पत्तो य सुसामन्न किं पुण जिणवुत्तसुत्तेण ॥ [भ० आ० ७७५]

जइ दा यदि तावत्खडसिलोगेहिं शास्त्राप्रतिबद्धश्लोकैर्लक्षणविरहितैर्वा यमो नाम्ना मुनिर्मरणात् फेडिदो अवनीत उद्धरितः । राया राजर्षिः । प्राप्तञ्च सुसामन्नं शोभनचारित्र किं पुन नं मुच्यते मुच्यत एव । किं पृच्छाया शङ्कायां च वर्तते । जिणवुत्तसुत्तेण सर्वज्ञोक्तसूत्रेणागमेन । ५ इदानीं यममुनेराख्यान कथ्यते ।

धुवय—नाणुवओगहो कहमि फलु पणवेवि जिणिदहो ।

जिह अन्नाणु विणामु गड यमरायमुणिदहो ॥

अत्थि उडुविसए विसालए

यमु नरिदु महएवि धणवई

चारुव सोहग्खोणिया

भूयभव्वभववत्थुजाणिणा

जो इमाहं वरइत्तु होसए

सा भएण निहुय सुहाविया

एक्कदियहं कम्मरिमारओ

महि भमतु भव्वयणसंयुओ

तं नमसिउ सव्वजणवओ

इट्ठकज्जमन्नाणुराइणा

जंतु जणु विहूइए नियच्छिओ

कहइ मति सुहभावनिग्गया

नवहं एहु पय ताहं भत्तओ

धम्म नाम नयरे सुहालए ।

पुत्तु ताहं खर नामु दुम्मई ।

सुय सलक्खणा नाम कोणिया ।

विहिउ ताहं आएसु णाणिणा ।

सो समग्ग महि एह लेसए ।

भूमिगेहि पहुणा थवाविया ।

तहिं सुधम्मु नामे भडारओ ।

आउ साहु संघेण संजुओ ।

सुणिवि भत्तिवसु उववण गओ ।

सठिएण धवलहरि राइणा ।

मति दीहु नामेण पुच्छिओ ।

सामि नग्गसवणा समागया ।

जाइ लोउ वणु कयपयत्तओ ।

१०

१५

२०

घत्ता—सुणिवि एउ मिच्छासमयमयमत्तउ पत्थिउ ।

निदमाणु गुणिसवणगुणु गड तहिं वायत्थिउ ॥१॥

२

मुणिमाहप्पेण विणट्ठु नाणु

यिउ मूउ नाइं वयणु वि न एइ

हुउ मुक्खु निरक्खरु नरपहाणु ।

वोल्लतहं उत्तरु काइं देइ ।

१. १ यदि दा खडसिलोगेहिं यमो मरणदुष्पडिदो राया ।

२ शास्त्राप्रतिबद्धं ।

निसुणिवि मुणिवयणुवसंतभाउ
 पचहिँ सएहिँ नियनदणेहिँ
 उत्तमखमदमतवखीणगत्त
 अक्खरु पउ सयलु वि सघु देइ
 निंदइ अप्पाणउ विगयगव्वु
 अवियाणिय आयमसत्थभेउ
 कि सघमज्झि अच्छमि निरुत्तु
 इय चितिवि पुच्छिवि गुरु सुधम्मु

गद्धहो देवि सिरि सुयहो राउ ।
 पव्वइउ समउ साहियमणेहिँ ।
 सयल वि सयलागमपारु पत्त । ५
 पर यमनिवरिसिहिँ न कि पि एइ ।
 वलि किज्जउ मुखहो जीवियव्वु ।
 कि किज्जइ सजउ निव्विवेउ ।
 वरि वच्चमि पेच्छमि जइणतित्थु ।
 गउ पुव्वएसि जिणतित्थरम्मु । १०

घत्ता—खरसजमियण रहे चडिउ जवखेत्तमियारण ।
 जतु नियच्छिउ एक्कु जणु पहेँ दूसचारण ॥२॥

३

पेच्छिवि जव खाहुँ समीहमाण
 खर कुट्टिज्जत निएवि तेण

रहु एत्तहिँ उत्तहिँ कड्ढमाण ।
 किउ खडसिलोउ तवोहणेण ।

आयड्ढघ परियड्ढघ पुणो वि समयड्ढघ ।
 लक्खिदो दे मया भावो जव पत्थेह गद्धा ॥

एण जि सो सज्झायाइयाउ
 पुणु पुरपवेसि लिंकरुय दिट्ठु
 त नियइ साहु ते नउ नियंति
 ता मुणिणा वरु विरइउ सिलोउ

किरियाउ करइ सुहदाइयाउ । ५
 खेलतहँ अड्डिय ताहँ नट्टु ।
 धावति जाम अन्ने सयति ।
 हुउ नाणावरणहो कि वि लोउ ।

आधावध परिधावध पुणो वि समधावध ।
 तुम्हेत्थ मदवुद्धी छिंदे पस्सह कोणिय ॥

१०

पुणरवि वियालवेलाण भेउ
 कयजत्थत्थमियत्तिकालएण

नीसरिउ निहालिवि चरणहेउ ।
 किउ अवरु सिलोउ दयालएण ।

उप्पलणालसीदलगो मा हिडसु वियाले ।
 अम्हादो नत्थि भय दीहादो दिस्सदे भय ॥

अन्नत्थगएण निएवि कूवि
 कोड्ढे पणिहारिउ पुच्छियाउ
 जुवईहिँ कहिउ भयव इमाउ
 निसुणेवि एउ विभियमणेण

गड्डाउ सिलहेँ गामहो समीवि । १५
 केणेमउ गड्डुलियउ कियाउ ।
 कलसेहिँ थविज्जतहिँ कयाउ ।
 किय गाह खणद्धे मुणिवरेण ।

अच्छंतस्स य गच्छताएण अदिकक्कडस्स मउएण ।
भिन्नो सो पाहाणो निच्च जुत्तेण घडएण ॥

२०

घत्ता—कि परमत्थे मज्झु मणु पत्थरह वि निट्ठुरु ।
जेणेक्कल्लउ परिभममि मेल्लेप्पिणु नियगुरु ॥३॥

४

इय चित्तिवि गुरुसामीवु जतु
थिउ नदणवणि हुय लोयजत्त
एयति नरिंदहो कहिउ कज्जु
जइ जाउ दियवरु करिवि चाउ
पुणरवि खलेण पावप्पिएण
जामज्ज वि सामि न करइ भेउ
इय भणिवि वे वि करवालहत्य
तावहि सज्झाउ लयतएण
आयड्ढुघाइ सयलु वि सिलोउ

दियहेहिं साहु नियनयरु पत्तु ।
आसकिउ मति सुणेवि वत्त ।
तउ ताउ पुणागउ करहुं रज्जु ।
निप्पिहु तो किं कारणु इहाउ ।
दीहेण भणिउ कि जपिएण ।
मारिज्जइ ता किज्जइ न खेउ ।
गय रयणिहिं थिय पच्छन्न तत्थ ।
उच्चारिउ पावकयतएण ।
निसुणेवि भणइ कयसत्तुसोउ ।

५

घत्ता—दीह वियाणिय मुणिवरेण अम्हइ एत्थाया ।
किह मारेवउ इय भणेवि सकिय सजाया ॥४॥

१०

५

वइरि वि पुत्तेहिं विमोहु जाइ
सहुं दीहे चविउ सुणेवि राउ
कोणिय महु वहिणि जगेक्कमित्तु
उप्पलणालाइ भयावसाणु
चित्तइ जाणेमि सया वि एहु
एहग्र वि अवत्यग्र पुत्तनेहु
पेच्छह भयवतु तिलोयवदु
परु सुग्गहिओ वि न होइ अप्पु

पुणु अवरु पढिउ आधावघाइ ।
पइं भणिउ ताउ रज्जत्थु आउ ।
तामायउ जाणावणनिमित्तु ।
मुणिभणिउ सुणेप्पिणु नरपहाणु ।
पाविट्ठु मति अवयारगेहु ।
भावेप्पिणु दुरुज्झयसिणेहु ।
सिक्खवहुं समागउ मइं मुणिदु ।
वरि निग्गुणी वि सुहि मायवप्पु ।

५

उक्तं च—उपकारगतेनापि गृह्यते न परः क्वचित् ।

सुगृहीतः सुमान्यो वा यः परः पर एव सः ॥

१०

अफलस्यापि वृक्षस्य छाया भवति शीतला ।

निर्गुणोऽपि वरं वधुर्यः पर पर एव सः ॥

इय भणिवि खमाविउ पहयमारु
सावयवउ लेवि नवेवि साहु

आयन्निवि [धम्मु] अहिंससारु ।
गउ घरहो अराइमियकराहु ।

घत्ता—दुट्ठु भणेष्पिणु रायण्ण वित्थारेवि दीहउ । १५
नीसारिउ पावइ दुहइँ अवरो वि दुरीहउ ॥५॥

६

ता मुणि तहिँ होतउ गउ ससघु
सुदरमइ दुद्धरु तउ करतु
कोट्टाइ चउव्विह सिद्ध बुद्धि
अणिमाइय अट्टुपयार रिद्धि
जल जघ ततु फल पुप्फ वीय
चारणरिद्धीउ इमाउ तासु
खेलोसहिआइउ ओसहीउ
अमयासवाइ रसलद्धियाउ
मणवयणकायवलु तिविहु जाउ
इय रिद्धिविराइउ केवलक्खु
फणिनरसुरिद्वचदत्थएहिँ

गुरु दिट्ठु नमसिउ गुणमहग्घु ।
कालेण हूउ वहरिद्धिवतु ।
उग्गतवाइ पचविह सिद्धि ।
तह चेव विउव्वण कयपसिद्धि ।
आयाससेहि अवरट्टु वीय । ५
सिद्धाउ समासियसंजमासु ।
पच वि हुयाउ नावइ सहीउ ।
चत्तारि वि जइणा लद्धियाउ ।
आहारवसइ अक्खीणदाउ ।
उप्पाण्वि नाणु तिलोयलक्खु । १०
पचहिँ सएहिँ संजुउ सुएहिँ ।

घत्ता—मोक्खु कुमारगिरिदे गउ जमराउ महामुणि ।
अजारामरु वाहारहिउ हुउ अट्टमहागुणि ॥६॥

७

दढमुप्पो सूलहदो पचनमोक्कारमेत्तमुदनाणो ।
उवउत्तो कालगदो देवो जादो महड्ढीओ ॥ [भ० आ० ७७६]

तथा—उज्जयिन्या दृढसूर्पनामा चौर शूलेन भिन्नाङ्गोऽपि पचनमस्कारमाश्रुतज्ञाने
उपयुक्त मृत. सन् महान् देवो जात. इति तात्पर्यं ।

होंतउ उज्जेणिहे जणमणोज्जि
विज्जंजणत्तिद्धु पयडधामु
सा एककहिँ दिणि रयणिहिँ मणिट्टु
पुच्छिय किं कारणु दुम्मणासि
सा भणइ रमण गयवरगइहे

दढमुप्पु चोर घणवालरज्जि । ५
गणियावमतसेणाहिरामु ।
चित्ताविय दुम्मण तेण दिट्टु ।
कहिं कंति कति मोहग्गरासि ।
जइ लहमि हारु वर धणवइहे ।

तो होइ सुहत्थी जीवियव्वु
थिरु थाहि भदि मा करहि खेउ
इय भणिवि गपि निसि तहिँ पडट्ठु
तेएण तासु दिट्ठउ विरुट्ठु

[न तो महु मरणु विजाणियव्वु ।] १०
एमहिँ जि ण माणमि नत्थि खेउ ।
महएविहे हारु लएवि नट्ठु ।
उद्धाइउ तलवरवलु निरुद्धु ।

घत्ता--वद्धु घरेप्पिणु चउदिसउ भामेवि विहाणणु ।

घित्तु जियतिहेँ सूलियहेँ पुहईवइआणए ॥७॥ १५

८

एत्थतरि वदिवि जिणवरिदु
वोल्लाविउ जयविकखायनाम
तुहुँ सुयणु सव्वजीवोवयारि
हउँ सुट्ठु तिसाइउ पाणिएण
आलोएवि कठालग्गपाणु
भो वारहवरिसहिँ गुरु पसन्नु
सो दुल्लहु पाणियहेउ भाइ
जइ धरहिँ एककतो तुहुँ मुहुत्तु
चोरेण भणिउ दे होउ एउ
ता वणिवरेण तहो भवभयत

तेणितु निहालिउ वणिवरिदु ।
अहो अहो धणयत्त मणोहिराम ।
जिणवयणविसारउ सोलघारि ।
आसासहिँ तुरिउ पराणिएण ।
भासइ हियत्थु वणि जणपहाणु । ५
तेणज्जु एककु महु मतु दिन्नु ।
जतहो महु लहु वीसरिवि जाइ ।
तो आणमि पायमि पउ निरुत्तु ।
जा जाहिँ मित्त कि करहिँ खेउ ।
उवइट्ठु पचनवयारमत । १०

घत्ता—गउ धणयत्तु निहेलणहो इयरु वि सुरलोयहो ।

सुमरिवि पच पयक्खरइँ मुक्कउ दुहसोयहो ॥८॥

९

सोहम्मि महिड्डिउ देउ जाउ
ता सलिलु लेवि धणयत्तु पत्तु
गउ जिणभवणहो एत्तहेँ चरेहिँ
लूसहुँ वणिमदिरु पहिय भिच्च
ता आसणकपे मुणिवि हेउ
थंभिय थिय धरि पडसंत पत्ति
वियल वलु पाण लएवि नट्ठु
तहिँ रक्खु रक्खु भासंतु सरणु
उवसमिउ रोसु दरिसिउ सरूवु
त पेच्छिवि पुहईवइ ससेट्ठि
सो भयभीयहिँ विंभियमणेहिँ

पेच्छह जिणिदधम्महो पहाउ ।
कुसुमालु निएप्पिणु पाणचत्तु ।
रोसिउ पहु सूइयवइयरेहिँ ।
धाविय निववयणे न दइच्च ।
सपत्तु तुरिउ दढसुप्पदेउ । ५
किउ घोखवसग्गु नरिदु भक्ति ।
गंपिणु जिणिदमदिरु पइट्ठु ।
पइसरिउ वणीसहो पुहइघरणु ।
पुज्जिउ वणि देवे हयविरूवु ।
हुउ सजउ अवरु वि जणु सुदिट्ठि । १०
सूलत्थु जेण पुज्जिउ जणेहिँ ।

घत्ता—तेण देउ तप्पहुइ हुउ सूलेसरनामउ ।
अज्ज वि तेत्थच्छइ पयडु जणविहियपणामउ ॥१॥

१०

अवरेरिससूलहयस्स कहा
महुराउरि उत्तरि अत्थि वरो
उदिदोयदेविए तासु सुउ
निवमत्ति पसिघ्दु सुवुद्धि जए
पढमिल्ल पिया तहो मित्तिसिरी
तरलच्छि तडज्जिय विण्हूसिरी
पउमाइलया तह हेमलया
पवरोसहमतविहाणपरो
निवसतहँ सव्वहँ ताहँ तहिँ

निसुणेज्जउ लोयवियारसहा ।
उदिदोदयनामु धरित्तिघरो ।
सुदिदोदउ जाउ पलबभुउ ।
अरुहाई दासु वणीसु पए ।
अदुइज्ज दुइज्जिय खडसिरी । ५
सइ चारु चउत्थिय नायसिरी ।
खणरोइलया वर कुदलया ।
कयसाहसु चोरु सुवन्नखुरो ।
पभणति व णासहि पाव कहि । [त्रोटक]

घत्ता—आगय कोमुइजत्त जिणमहिमुच्छवसारी । १०
कत्तियसुक्कट्टिमिहि दिणि भव्वयणपियारी ॥१०॥

११

गय सत्त दियह घम्मुच्छवेण
देवाविय घोसण पुरवरम्मि
उज्जाणवणहो जुवईउ जतु
जाएसइ जो महिलाण मज्झु
पुहईसरेण ज भणिउ जेम
नारीउ निवाणए रक्खियाउ
नियनिययविणोयहिँ कीलमाण
सूरेण वि किउ निववयणु रत्ति
पेसिय समुद्दवेलावणासु

पुन्निमदिणम्मि धरणीघवेण ।
नियसोहाणदियसुरवरम्मि ।
नयरब्भतरि नर सव्व ठतु ।
सो दोहउ निच्छउ मरइ सज्झु ।
सव्वेहिँ मि त किउ सव्वु तेम । ५
उज्जाणि गपि कीलए थियाउ ।
थिय नर नयरतरि सावहाण ।
आसन्न निएप्पिणु निययवित्ति ।
अत्थहरि कियउ अप्पणु निवासु ।

घत्ता—निप्पहु हउँ पइँ परिहविउ बहुवारउ दिणयर । १०
एवहिँ कहिँ महु जाहि खल थिरु थाहि तमोहर ॥११॥

१२

विष्फारियपहु नहयलि ण माड
रवि अगगड पच्छइ चद्दु लग्गु
चदेण वि जिप्पइ सूरु जित्थु
सामन्नु वि पाविवि कालसत्ति
वलवतु न जीवइ परिहवेण
हुण्ण मित्तहो मरणि समाउलेण
जाणेवि समिद्धउ परियणेण
विहडिउ' पुणु पुन्नहिँ मिलइ सव्वु
पसरिय सव्वत्थ वि चददित्ति

उग्गउ ससि एम भणंतु नाइ ।
सहसयरहो वि करपसरु भग्गु ।
वलवतउ अन्नु न कम्मु तेत्थु ।
पवियभइ एत्थु न कावि भति ।
अत्यमिउ नाइँ दिवसयरु तेण । ५
त्तन्नु व सदुक्खु नहयरकुलेण ।
परियरिउ राउ तारायणेण ।
गयपुन्नहो करगउ गलइ दव्वु ।
निरु निम्मल न सप्पुरिसकित्ति ।

घत्ता--ता पहुणा सुमरिवि पिय निसि मति पउत्तउ । १०

एहि जाहुँ वणु जुवइजणु पेच्छहुँ कीलतउ ॥१२॥

१३

सुणेवि पयपइ वुद्धिसमिध्दु
करेहि जई समियारहि भग्गु
निवारिउ तो वि न थक्कइ' राउ
वियाणिवि सामिहे जाय कुवुद्धि
न किज्जइ एउ कयावि मुणेहि
कए पहु आसि अमगलु जाउ
अराइगिरिदसुराउहघाउ
गअो परएसहो सगरि सत्तु
पराइउ मदिरु पुन्ननिअोउ

पइ जि वियक्खण एउ निसिद्धु ।
हवेइ न तो फुडु किं चि वि चग्गु ।
पियाणणदसणवड्डियराउ ।
हियत्थु पुणो वि भणेइ सुवुद्धि ।
अहाणउ एककु कुलीण मुणेहि । ५
करिदपुरम्मि सुजोहणु राउ ।
कयाइ चउव्विहमेन्नसहाउ ।
जिणेप्पिणु लेप्पिणु कण्णु नियत्तु ।
समागउ पेक्खहुँ पट्टणलोउ ।

घत्ता--पय पणवतु असेसु सुहदिट्ठीण नियच्छिउ । १०

राए ढोइयवत्थु सउँ सम्माणेवि पुच्छिउ ॥१३॥

१४

निरुवद्दव थिय तुम्हई मुहेण
पहु पायपसाएँ तलवरासु

भासिउ जणेण पहसियमुहेण ।
सुहु सव्वहँ सव्वावइहरासु ।

निसुणेप्पिणु एउ अजाणमाणु
मईं होतेण वि खेमहो उवाउ
निच्छउ जणु अप्पायत्तु तेण
किं भिच्चे अतरदाइएण
मडेवि मिसतरु को वि तासु
इय चित्तिवि थिउ निहुयउ नरिंदु
अच्छेवि कड वि दियहईं निवेण
सहुं सुमइपुरोहे करिवि मतु

आरुट्ठु चित्ति वसुमइपहाणु ।
आरक्खियपायपसाउ जाउ ।
किउ सरहसु जपइ एउ तेण । ५
सुहि सामि न होइ अ घाइएण ।
लहु करमि हयासहो पाणनासु ।
गउ घरहो विसज्जिउ पउरविंदु ।
हक्कारिवि मत्ति सुमित्तु तेण ।
निसि नियभडारए खणिउ खत्तु । १०

घत्ता—कड्ढेवि दव्वु तीहिं वि जणेहिं अन्नत्त थवाविउ ।
जमपासहो पेसेवि भड तक्खणि जाणाविउ ॥१४॥

१५

तेण वि भीएणावेवि तेत्थु
दिट्ठईं तहो न भावियदुहाईं
गउ घरहो लेवि हुउ सत्थचित्तु
अत्थाणि निविट्ठउ पुहइपालु
तुहुं सव्वजणहो दव्वईं घराईं
रे खल पहुकज्जालस्सभाव
जइ जाणिवि अक्खहि छिन्नु दव्वु
नं तो तुह तक्करनिग्गहेण
तेणुत्तु पहयपिसुणावलेव

आलोइउ घरु खउ खत्तु जेत्यु ।
मणिपाउय जन्नोविय नहाईं ।
सजाउ विहाणुग्गमिउ मित्तु ।
सेवागउ वृत्तउ कोट्टवालु ।
रक्खहि महु कि न मणोहराईं । ५
लइ सत्तदिणावहि दिन्न पाव ।
तो अत्थि निरुत्तउ जीवियव्वु ।
अवहरमि पाण हयविग्गहेण ।
खम करहि निहालमि चोरु देव ।

घत्ता—एम भणेप्पिणु राउलहो नीसरिउ सभवणहो । १०
गउ भडु त नरवइवयणु अक्खिउ पउरयणहो ॥१५॥

१६

मईं कुसुमालु मुणेवि कहेवउ
भणिउ तेहिं मा वीहहि बहुगुण
लहिवि भरोसउ अवरहिं वासरि
सहहि सामि नविऊण नियच्छिउ
जमपासेण भणिउ न वि दिट्ठउ
पढिवि सुहासिउ एककु मणोहरु

तुम्हहिं महु साहेज्जु करेवउ ।
अम्हईं सव्व सहेज्जा सज्जण ।
गयउ वीरु ओलग्गहुं अवसरि ।
तेण वि दिट्ठु चोरु इदि पुच्छिउ ।
मईं सव्वत्थ वि देव गविट्ठउ । ५
दिट्ठउ पुरिसु कहतु कहतरु ।

तहिँ एवडु वार हउँ अच्चिउ
एत्यतरि आयन्नड भूवड

कहि केरिसु निवेण पुणु पुच्चिउ ।
हसकहाणउ कहड महामड ।

तद्यथा—दीहकाल वय वुत्था पादवे निरुवद्वे ।

मूलादो उट्टिदा वल्ली जादं सरणदो भय ॥

१०

घत्ता—सप्पुरिसु व सउणासियउ सरतडि वित्थिन्नउ ।

एक्कु गहणि उत्तुगतरु अत्थि रवन्नउ ॥१६॥

१७

तहिँ निवसति मराल सुहालग्र
नियवि लयकुरु भासिउ वुड्ढे
अहो उवएमु महारउ किज्जउ
न तो एण हवेसइ आवड
वुड्ढु सहावे मरणहो वीहइ
एउ सडिभहँ वयणु सुणेप्पिणु
मुक्खु हिओवएसु ण वि वुज्झड
वड्ढिय वेत्थि ताहँ नं दुक्खहो
ताग्र चडेवि पसारियवाहे
सयल वि वद्धा थेरोवाए

कालकमेण विणिग्गउ मूलग्र ।

पुत्तपउत्ताहिँ अत्थविड्ढे ।

एहु चचुनहरेहिँ खणिज्जउ ।

ताम तेहिँ उवहसिउ महामइ ।

सयलकाल जीवहुँ जि समीहइ ।

रायहंसु थिउ मोणु करेप्पिणु ।

पच्चेत्थिउ तानुवरि विरुज्झड ।

काले उवरि चडती रक्खहो ।

उड्ढिय पास निरतर वाहे ।

मेत्थिय न वि मेत्थिय जमराए । १०

उक्तं च—वृद्धवाक्य सदा कृत्य ये च वृद्धा बहुश्रुता ।

पश्य हंसा वने वद्धा वृद्धवाक्येन मोचिता ॥

घत्ता—एउ कहेवि णराहिवहो गउ भवणहो तलवरु ।

वीयग्र दियहे पुणाडयउ परियाणेवि अवसरु ॥१७॥

१८

पुच्चिउ राएँ चोरखयकर
दिट्ठु न कहिउ तेण महिपालहो

रे जमपास पलो-[इउ] तक्करु ।

अच्चिउ वयणु सुणतु कुलालहो ।

तद् यथा—जेण भिक्खं वलिं देमि जेण पोसेमि अप्पयं ।

तेण मे पट्ठिया भग्गा जाद सरणदो भय ॥

पडिउ सिलोउ एहु ता केण वि
जीवमि हउँ सुहि मट्ठियपिडे

पुच्चिउ कहिउ सदुक्खे तेण वि ।

तेण जि महु हय पट्ठि पयंडे ।

५

कहवि एउ कुभारकहाणउ
तइयउ वासरु अरु कहतरु
पहु वरधम्मु अत्थि वरसत्तिहे
सो क्याइ सामतसहायउ
पइसतहो परमुच्छवसोहणे

गउ भडु घरहो तलारपहाणउ ।
कहइ सुवुद्धि सुणइ पुहईसरु ।
नयरिहे निरुवमसुहसपत्तिहे ।
साहेवि सत्तु महात्रलु आयउ । १०
पट्टणे देवाण वि भणमोहणे ।

घत्ता—पडिय पओलि नियत्तु प्रहु अवसउणु भणेप्पिणु ।

चितावन्नु ससेन्नु वहि थिउ आवासेप्पिणु ॥१८॥

१९

उट्टाविज्जप्र गोउरु वासरे
पुच्छिउ ताम महतउ राएं
त सुणेवि जयदेवे वुच्चइ
जइ सई हत्थे माणुसु मारहि
तो उट्टए पउलि परमेसर
भणइ राउ मई एउ न किज्जइ
तुम्हई तुण्हक्का पहु अच्छह
एम भणेप्पिणु धणु मेलाविउ
देइ अम्ह जो माणुसु मारहुँ

निवडप्र पुणु अत्थमियदिणेसरु ।
कहि केमुट्टइ पवलि उवाए ।
भणमि नाह जइ तुम्हहँ रुच्चइ ।
जइ तहो रत्ते वलि वित्थारहि ।
जाणमि कउलनएण नरेसर । ५
ता पट्टणजणेण वोल्लिज्जइ ।
अम्हे करेसहुँ चोज्जु नियच्छह ।
विउलो पुरे पडहउ देवाविउ ।
दिज्जइ लक्खु तासु दीणारहु ।

घत्ता—निदुउ तेत्थु जे पुरे गरुयलोहाहयचित्तउ ।

वभणु ढक्कु एक्कु वसइ नामे वरदत्तउ ॥१९॥

१०

२०

तहो वरदत्ता भाविणिया
सिवदत्ताइ य चत्तरया
सा घोसण तिट्ठाधरहो
देप्पिणु नदणु एक्कु पहु
त निसुणेप्पिणु पावपिउ
जीवताण अम्ह वरो
जाहि जाहि मा करहि खणु
ता गतूण सव्वलहुओ
ताप्र हयाप्र गुणव्भहिओ

ढक्किणि सा वि हु पाविणिया ।
नदण सत्त पसूय तथा ।
कहिउ सुणेवि एवि वरहो ।
लेहु दिणारलक्खु दुलहू ।
जपइ समउ पियाइ पिउ । ५
होसइ सुयणु सुओ अवरो ।
आवहि त गहिऊण धणु ।
इददत्तु नामेण सुओ ।
देवि दिणारलक्खु गहिओ ।

निच्छउ पई देवउ गरलू
करिवि विवत्थ दिन्नधर्णाहि

भजंउ ताएण गलू ।
सो सगहिउ पउरजणाहि ।

१०

घत्ता—लोयसहासहिं वेडियउ मारहुं नियतउ ।

पवलहे अहिमुहु भयरहिउ सिमु जाइ हसनउ ॥२०॥

२१

केण वि करुणाए नियच्छियउ
मारहुं निज्जतउ पुत्त तुहुं
तेणुत्तु वालु वप्पहो डरिउ
दोहं वि भएण नरवइ सरणु
सुणु सुयण काइं तहिं करइ सिमु
भजइ जणेरु कोमलु गलउ
तहिं कासु कहिज्जइ को सरणु

पुरिसेण वडुउ सो पुच्छियउ ।
कि कारणु करहि पसन्नु मुहु ।
मुहि होइ जणेरिहे अणुसरिउ ।
तामु वि भउ रक्खइ पउरयणु ।
जहिं देइ माय सयमेव विमु ।
पुरलोउ वि हणइ सराउलउ ।
तो वरि धीरत्तणेण मरणु ।

५

उक्त च—जस्स य पिदा गलय वलेदि मादा विस देदि ।

राया जत्थ विलुपदि कं सरण तेण गत्तव्व ॥

निसुणेवि एउ करुणामइणा

मेल्लाविउ वालउ भूवइणा ।

१०

घत्ता—देवहिं साहुक्कारु किउ सिरिचदजसुज्जलु ।

पुज्जिउ सामि समिद्धिउ गोउरु हुउ निच्चलु ॥२१॥

विविहरसविसाले णेयकोउहलाले । तलियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे मुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ कोमुइक्खाए ।

तलवरकहाहियारे एसो तेवीसमो सधी ॥

॥ संधि २३ ॥

संधि २४

१

पुणु वि सहाभवणि भडु सुमइ तलारपहाणउ ।
अक्खइ सामियहो चोत्थए दिणि अवरु अहाणउ ॥

तद् यथा—सव्व विस जहि सलिल सव्वारन्न च कूडसछन्नं ।
राया य सय वाहो तत्थ मयाण कुदो वासो ॥

पच्चमि वासरि अवरु कहाणउ	कहइ वीरु आयन्नइ राणउ ।	५
पाडलउरि वसुपालणरेसरु	तहो चित्तकइ णामु मतीसरु ।	
नाणासत्थपुराणवियाणउ	सिग्घकइ त्ति भणेवि पहाणउ ।	
तेण कयाइ कइत्तहो मच्छरु	दाविउ कुविउ पुहइपरमेसरु ।	
वधिवि गगादहे घल्लाविउ	सलिलि वहतु सतु बोल्लाविउ ।	
भणि एवहिँ भो किंचि सुहासिउ	वुडु तेण वि तेणाहासिउ ।	१०

तद् यथा—जेण वीया परोहति जेण सिप्पति पादवा ।
तस्स मज्झि मरिस्सामि जाद सरणदो भय ॥

सुणिवि एउ णरवइ परिओसिउ	कड्डिउ जलहो मति सतोसिउ ।	
छट्ठए दिणि पुणु कहइ सयाणउ	पहु सुभद्धु कुमृमउरि पहाणउ ।	
एक्कहिँ वासरि अवसरि नवियउ	अहियारियनरेण विन्नवियउ ।	१५
आरामहो मरुहो अयसघहो	रक्खण के किज्जहि पहु सघहो ।	
वयणु सुणेवि एउ तहो केरउ	भणिउ नराहिवेण विवरेउ ।	
तद् यथा—आरामरक्खया मक्कडा सुरारक्खया	सोडा अयरक्खया वया ।	
मूलविणट्ठु एउ तेणुत्तउ	कज्जु वियाणहि देव निरुत्तउ ।	

घत्ता—सत्तमदियहे पुणु सामतमत्तिसघायहो ।
मज्झि नवेवि पय जमपासु पयासइ रायहो ॥१॥

२०

२

उज्जेणीपुरम्मि जसभद्दउ	नामे सत्थवाहु जसभद्दउ ।
नियमायरिहि समप्पिवि भज्जउ	चलिउ वणिज्जउ सत्थसहेज्जउ ।

आवासिउ सुहदिणं व्हियत्तिहे
पइसते पगुरणउ जणेरिहे
तं दक्खालिवि सुदरवत्तहँ

पुणु कज्जेणागउ घरु रत्तिहे ।
आलोएवि मूलि वायारिहे ।
पाणपियहँ तेणग्गए कतह ।

५

मूलविणट्टा वल्ली ज जाणह तं करेह सुण्हाउ ।
अंवाए पगुरण दिट्ठ एरडमूलम्मि ॥

एउ सुणतु नाह हउं अच्चिउ
आयत्तेवि राउ आस्टुउ
छ्छ दिण एवमेव पइँ पाविय
अज्जावहि दिणु दावहि तक्करु

चाहिउ चोरु न कहिँमि नियच्चिउ ।
भणइ हयासु सहावे दुट्टुउ ।
अलियकहाणएहि वोलाविय । १०
नं तो करमि दास सयसक्करु ।

घत्ता—तेण सुणेवि इउ जाणिवि पहु ढुक्कु नियाणहो ।
घित्तइँ ताइँ लहु आणेवि मज्झि अत्याणहो ॥२॥

३

दिट्ठु चोरु सयलहँ वि पयासिउ

जमपासेण पुणो इउ भासिउ ।

जत्थ राया सय चोरो समच्चो सपुरोहिदो ।
वणं तच्चाहु सव्वे वि जाद सरणदो भय ॥

मणिमयपाउयाउ पुहईसहो
जन्नोवडुउ पुरोहह केरउ
सुयणु सुल्लेक्खणु सुइ उवयोरउ
केल्लइ अम्हहँ सतावेसइँ
एम भणेप्पिणु विविहवियारे
सपुरोहिउ समति नीसारिउ
मतिपुत्तु मत्तित्तिणि थवियउ
कियउ पुरोहु पुरोहियजायउ

नहरुत्तिउ निएवि मतीसहो ।
लोयहो चित्तु जाउ विवरेरउ । ५
अज्जु अकज्जु एहु खलियारउ ।
निव्विवेउ महिवइ मारेसइ ।
पेल्लिउ पुहईवइ परिवारँ ।
पुणु जुवराउ रज्जिं वइसारिउ ।
अवरु वि रज्जकज्जु परिठवियउ । १०
सयलु वि लोउ निराउलु जायिउ ।

घत्ता—एउ मुंणेवि पहु मंज्जायाभंगु न किज्जइ ।
भंगइँ ताइँ फुडु तौरिस अवंत्थ पाविज्जइ ॥३॥

४

आयत्तेवि एउ अणुराएँ
भासिउ जइ वणगमणु न जुज्जइ

मति पससिउ माँहुराएँ ।
तो लइ नयरमज्झु जाँइज्जइ ।

चोज्जु अउव्वु निएहुँ विसेसे
 चलियालक्ख होवि ससभावइ
 नयरब्भंतरि चोज्जु नियतहिँ
 अजणविज्जाविहवसमिद्धउ
 तहो अणुमग्ग लग्ग गय तेत्तहे
 तहो पायारसमीवि रवन्नउ
 चोरु चडेवि तत्थ थिउ राणउ

तं पडिवन्न तास मतीसे ।
 विन्नि वि सुक्कविहप्फइ नावइ ।
 अग्ग चोरु नियच्छिउ जतहिँ । ५
 कचणखुरनामेण पसिद्धउ ।
 अरुहयासवणिमदिरु जेतहे ।
 वडतरु एक्कु अत्थि वित्थिन्नउ ।
 मूलि परिट्टिउ मत्तिसमाणउ ।

घत्ता—ताहिँ पत्थावे वणिनाहेण समुज्जलगत्तउ । १०
 अट्ठोवासिएण अट्ठु वि कताउ पउत्तउ ॥४॥

५

अज्जु वि वणहो मुएवि निहेलणु
 पुरिस वि विविहविणोयहिँ पट्टणि
 पुव्वकमेणम्हइँ तुम्हइँ परि
 किं अवरारु सरायु कीलु
 उववासिय कयदुरियविओएँ
 भासिउ ताहिँ एत्थ कि वुच्चइ
 एह भणेप्पिणु पावविरत्तउ
 मंगलघवलगेयजयसहे
 अच्छि वि पयडियनिम्मलभावहिँ
 पुच्छियाउ वणिनाहे जायउ

रायाएसे गउ जुवईयणु ।
 कीलमाण थिय वइरिपलोट्टणि ।
 णवपइसवि थियाइँ सुमणोहरि ।
 सहसकूडि एत्थेव जिणालु ।
 अच्छहुँ जिणजायरणविणोएँ । ५
 एउ विसेसे अम्हहँ रुच्चइ ।
 गयउ ताउ जिणभवणु सकतउ ।
 पुज्जमहिम करिरुणाणदे ।
 अवरोप्परु चिरु धम्मालावहिँ ।
 विह तुम्हइँ दिट्ठु दसणु जायउ । १०

घत्ता—ताहिँ पउत्तु पिय तावक्खह तुम्हइँ अम्हहँ ।
 पुणु परिवाडियए अम्हइँ वि कहेसहुँ तुम्हहँ ॥५॥

६

एम होउ निसुणह एयग्गउ
 एत्थु जि आसिकालि परमेसरु
 जसमईणु महएविणु जायउ
 सो सपइ पयाउ आसासइ
 सभिन्नाइवुद्धिनामाणउ
 सुप्पह पिय सुवुद्धि सुउ केहउ

वणि [-वरु] नियकह कहणहुँ लग्गउ ।
 होतउ पमुदियउदउ णरेसरु ।
 तहो सुउ उदिदोदउ विक्खायउ ।
 दूरहो अरिबलु जासु पणासइ ।
 मत्ति मतसवभाववियाणउ । ५
 तासु विहप्फइ वुद्धिणु जेहउ ।

जो एवहिँ कयभुवणाणंदहो
मोहणाड विज्जजणसिद्धउ
रुप्पखुराइ पुरधिग्र जणियउ
सो सपइ इह वट्टइ तक्कर

वट्टइ मंतिपहाणु नरिदहो ।
चोरु वि रुप्पखुरु ति पसिद्धउ ।
नंदणु तहो सुवन्नखुरु भणियउ ।
साहसपउ सुहउहँ वि भयंकर । १०

घत्ता—सेट्टि वि नरवइहे सव्वणहु साहुपयभत्तउ ।

वल्लहु जिणमइहे जिणयत्तु गुणोवहि होतउ ॥६॥

७

अरुहयासु हउँ सुउ तहो केरउ
एउ असेसु वि विभियचित्ता
कहड सेट्टि आयन्नहिँ भामउ
एक्कहिँ वासरि जूउ रमेप्पिणु
विहिँ पहरहिँ चोरियपरचदिरु
ताम सगघाणियभसलालिहे
रायरसोयसमीवि समायउ
नयणइँ अजणेण अजेप्पिणु
लद्धसाउ अणुदिणु तहिँ भुजइ

तुम्हहँ नयणाणंदजणेरउ ।
थिउ ते तित्ति त्रि तेत्थु सुणत्ता ।
अप्पडिमल्लु रुप्पखुरनामउ ।
जित्तउ दीणाणाहहँ देप्पिणु ।
भुविखउ जाम जाइ किर मदिरु । ५
कूरहो परिमलु उत्तमसालिहे ।
अग्घाइवि आसन्नउ जायउ ।
हुउ सुहि सहुँ राएँ भुजेप्पिणु ।
राउ वि पुत्तिमराउ व भिज्जइ ।

घत्ता—तो मतीसरेंण एक्कहिँ दिणि वइरिवियारणु ।

१०

पुच्छिउ पुरिसहरि कहे दुव्वलत्ति किं कारणु ॥७॥

८

पुन्नवंतु तुहँ सुरहँ वि वल्लहु
भणिउ निवेण कवणु महु चित्तणु
एत्तिउ पर महँ भक्खउ दिज्जइ
भुंजमि चउणुणु नियआहारहो
जाणमि अवरु को वि किं जीँवइ
वयणु एउ निसुणेवि सयाणउ
अजणसिद्धु कोइ होसइ खलु
एम भणेवि वियाणियसच्चे
भोयणवेल्हे भोयणसालहे

कवण चित्त तुह किं पि न दुल्लहु ।
जसु सहाउ तुहँ कयसुहमतणु ।
जेमतहँ वि नू अग्घाइज्जइ ।
तो वि न तित्ति हवेइ सरीरहो ।
तेणुयरग्गि मज्झु नउ नीवइ । ५
चित्तइ मति मतिविहिजाणउ ।
जेणेरिमु महीसु किउ दुव्वलु ।
किय किय तहो धरणत्थु अमच्चे ।
रविकुसुमच्चणु रइउ विसालहे ।

घत्ता—धूमहो भरिय घड ढकिवि थविय चउकोणहिँ ।
सजयपवर भड पच्छन्न सफरहिँ किवानहिँ ॥८॥

१०

९

तामायउ कयलोयाणिठुउ
अक्ककलियफुट्टणसद्दे खलु
मुक्कु धूमु नयणेसु पइठुउ
ता तहिँ भडहिँ निएवि निवद्धउ
जेण समेउ एहु जंपेसइ
एम भणेवि चउहिँसु रक्खण
एत्थतरि जिणयत्तु वणीसरु
साहुसमीवि धम्मु निसुणेप्पिणु

भोयणमदिरमज्झु पइठुउ ।
जाणिउ किउ दुवारगढे अगगलु ।
आगय असुय अजणु नटुउ ।
रायाएसे सूलिहे छुडुउ ।
तासु पासि जणदब्बु हवेसइ ।
दिन्न निवेण अलवख विवक्खण ।
सुप्पहाए पुज्जेवि जिणेसरु ।
रुप्पखुरेणावतु निएप्पिणु ।

५

घत्ता—वोत्लाविउ अहो वणिवइ महु एत्तिउ किज्जउ ।

सव्वुवयारि तुहुँ तिसियहो जलु आणिवि दिज्जउ ॥९॥

१०

१०

जिणयत्तेण जि एउ सुणेप्पिणु
वुत्तुवयारहेउ सविसेसहिँ
अज्ज मज्झु गुरुदेउ पसन्नउ
सुदरु चित्तियमुहसयदायउ
जलनिमित्तु जतहो वेइ घरु
लइ त तुहुँ सुमरतउ अच्छहि
तो हउँ जामि देमि आणमि जलु
दे दे मित्त मत्तु म चिरावहि
ता वणि तासु थिरत्तु करेप्पिणु

चोरु गलागयपाणु निएप्पिणु ।
भो रुप्पखुर वारहवरिसहिँ ।
तेण मत्तु पावारि विइन्नउ ।
त घोसत्तु एत्थु हउँ आयउ ।
सो वीसरिवि जाइ महु मणहरु ।
जइ पडिआयहो दुलहु पयच्छहि ।
पभणइ थेणु पिपासइँ आउलु ।
नउ वीसरमि जाहि लहु आवहि ।
गउ घरु पच पयाइँ कहेप्पिणु ।

५

घत्ता—चोरु वि ताम तहिँ मुरमेल्लियसुमणमविट्ठिहुँ ।
नवयारक्खरइँ मुउ सभरत्तु परमेट्ठिहुँ ॥१०॥

१०

११

सोहम्मसग्गि
वणि ताम पत्तु

हुउ सुरवइ सुहसपयसमग्गि ।
सीयलजलभरिउ लएवि पत्तु ।

अविधारवत्तु
 सिरनिहियहत्यु
 पुवाज्जिएण
 भासति जोइ
 सवेयजुत्तु
 अच्छइ रिसीसु
 वित्ततु कहिउ
 एत्तहे चरेहिँ
 आरुट्ठु राउ
 तहिँ समग्र देउ
 अवहरहुँ विग्घु
 सुरहुँ वि पयडु

कुसुमालु णिएप्पिणु पाणचत्तु ।
 भवदुक्खलक्खनासणसमत्थु ।
 फुडु लद्धु समाहिण्ण मरणु तेण । ५
 अन्नहो अवत्थ एरिस न होइ ।
 इय चित्तिवि जत्थ समाहिणुत्तु ।
 गउ तत्थ सेट्ठि पणमियससीसु ।
 उववासु समाहिनिमित्तु गहिउ ।
 उवइद्धु सव्वु सगयकरेहिँ १०
 पेसिउ घरु ल्हसहुँ नरनिहाउ ।
 आसणकपेण सुणेवि भेउ ।
 नरवेसु करेप्पिणु पत्तु सिग्घु ।
 थिउ घरदुवारि करकलियदडु ।

घत्ता—किंकर णरवइहे पइसंत तेण अणिवारिय । १५

नाइँ मुणीसरेण मणदुप्परिणाम निवारिय ॥११॥

१२

सावलेवु त तणु व गणेविणु
 ताम लट्ठि भामेवि भयकर
 केण वि रायहो वत्त पणारिय
 कोइ महाभडु घरि वणिकेरण
 जमदूएण व भामियदडे
 आयन्नेवि नरिंदु पलित्तउ
 जे भडंयणु कयतपुरु पाविउ
 एम भणेप्पिणु परबलसाहणु
 जे जे पइसहिँ ते ते वारइ
 ताम जाम बलु सयलु वि निट्ठिउ

किर पइसंति जाम चप्पेविणु ।
 मायइँ मारिय नरवडिंकिंकर ।
 पहु पाइक्क तुहारा मारिय ।
 अच्छइ विग्घु व सिद्धिदुवारण ।
 तेणाहय पाइक्क पयडे । ५
 चित्तभाणु तुप्पेण व सित्तउ ।
 कहिँ महुँ जाइ अज्जु सो पाविउ ।
 सइँ सन्नज्झिवि आउ ससाहणु ।
 दडपहारे सुरु सघारइ ।
 नरवइ पर एक्कगु परिट्ठिउ । १०

घत्ता—वेसु निसायरहो भीयरु करेवि रोसाविय ।

नासतहो तुरिउ तहो पुट्ठिहे अमरु पघाविउ ॥१२॥

१३

रे रे दुडु राय कहिँ नासहि
 चित्तइ जो वणिवइहि विरुवउ

निच्छउ अज्जु जमाणणि पइसहि ।
 तासु हयासहो हउँ जमदूवउ ।

एउ सुणेवि विसेसे तट्टुउ
 तहिँ मुणिमज्झि वणिण्डु अकुच्छिउ
 परितायहि परितायहि आयहो
 एम भणेवि विणीउ ह्वेप्पिणु
 डयरु वि तामाइउ आरुट्टुउ
 मा रक्खहि मा रक्खहि मारहुँ
 निग्रवि वणीसरेण मयगारउ
 अन्नहो एहु पहाउ न दीसइ
 इय चित्तेवि पउत्तु अजुत्तउ
 खमहि भाय रायहो भयधत्थहो

नासिवि निवइ गुहाहे पइट्टुउ ।
 घम्मकहाउ सुणतु नियच्छिउ ।
 भो जिणयत्त मित्त ससहायहो । ५
 थिउ सेट्ठिहे समीवि वइसेप्पिणु ।
 भासइ एहु महीवइ दुट्टुउ ।
 देहि देहि जिणयत्त वियारहुँ ।
 जाणिउ देउ विउव्वणसारउ ।
 अन्नहो माहुरराउ न नासइ १०
 हम्मइ ज निर्लिप नासतउ ।
 निच्छउ मडणु खति समत्थहो ।

घत्ता—एउ सुणेवि सुरु परिहरिवि वेसु वेयालउ ।
 चित्तियमित्तु हुउ अणुवमतणु सोहग्गालउ ॥१३॥

१४

देवि पयाहिण पढमु वणीसरु
 वुत्तु निवेण देव देवालप्र
 मेल्लिवि मुणि महिमाप्र मट्टल्लउ
 जाणमि विणउ सुट्ठु भासइ सुरु
 पुणु साहम्मियाहँ सुहलेसहँ
 कित्तु एहु महु गुरु पहिलारउ
 पुच्छिउ पुहईसे किह हुउ गुरु
 पुज्जिउ परमविहूइप्र वणिवइ
 कहिँ हउँ कहिँ देवत्तणु सारउ
 तुहँ निक्कारणु परउवयारिउ
 एवविहवयणेहिँ थुणेप्पिणु

वदिवि वदिउ तेण मुणीसरु ।
 विणयजुत्ति कि नत्थि सुहालप्र ।
 वदिउ जेण गिहत्थु पहिल्लउ ।
 निवइ नवेवि देवु महरिसि गुरु ।
 किज्जइ इच्छायारु असेसह । ५
 पणमिउ पढमु तेण सुहयारउ ।
 कहिउ सुरेण असेसु वि वइयरु ।
 वारिय पावहो पइँ महु दुग्गइ ।
 सामिय एउ पसाउ तुहारउ ।
 पइँ हउँ दुक्खसमुद्दहो तारिउ । १०
 थिउ अग्गइँ कर मउलि करेप्पिणु ।

घत्ता—पेच्छेवि अच्छरिउ अवसरेहिँ वि विभियचित्तहिँ ।
 लइउ निवेण तउ सहँ सेट्ठिमत्तिसामत्तहिँ ॥१४॥

१५

सहुँ सम्मत्तेँ दूसियदुन्नउ
 देवु वि दिढसम्मत्तु लएप्पिणु

केहिँ वि सावयवउ पडिवन्नउ ।
 गउ सग्गहो मुणिगणु पणवेप्पिणु ।

वत्तउ वणिवरेण नियकंतउ
 एउ सुणेवि सव्वु संतुट्टुहिँ
 पिययम अम्हेहिँ मि आयन्निउ
 सद्दहाणु पत्तियमु निरुत्तउ
 तुम्हहिँ सुयउ न दिट्ठउ कहियउ
 सद्दहामि पत्तियमि न रोचमि

तइयहुँ हउँ हुउ दिढसम्मत्तउ ।
 तार्हिँ पउत्तउ दसणपुट्टुहिँ ।
 दिट्ठउ सुट्ठु एउ अणुमन्निउ । ५
 ता कुदाइलयाए पउत्तउ ।
 भासिउ सुट्ठु नेव सद्दहियउ ।
 जं किउ तुम्हहिँ तं नउ फासमि ।

घत्ता—एहु सुणेवि पहु चितइ समति रोसंगउ ।

पेच्छिवि तं सपउ देप्पिणु महु ताउ तवगउ ॥१५॥

१०

१६

पुरु परिवारु देसु विभयकरु
 किं न एह पडिवज्जइ पाविणि
 मइँ पहाए एयहे ह्यविग्गहु
 चित्तिय चोरेण वि महु ताएँ
 मग्गिउ वणि जिणयत्तउ पाणिउ
 मडिवि मिसु उवयारहो कारणु
 तासु पहावे मुरु सजायउ
 मायइँ वलु विणिवाइउ राणउ
 म भीसिउ वणिणा मुरु सामिउ
 देवेण वि वणिनाहु नामसिउ
 आयन्नेवि सवेएँ लइयउ
 मइँ वि एहु पच्चक्खु णियच्छिउ

जाणइ सव्वु कोइ त वइयरु ।
 दुट्ठसील वणिनाहो भाविणि ।
 सइँ हत्येण करेवउ णिग्गहु ।
 तिसियएण सूलाह्यकाएँ ।
 तेण वि तहो गउआउ वियाणिउ । ५
 दिन्नु मत्तु दुग्गइविणिवारणु ।
 वणिउवसग्गु मुणेवि इहायउ ।
 भेसावियउ भएण पलाणउ ।
 हूयउ सुहि महु रापुरसामिउ ।
 नियवित्ततु असेसु पयासिउ । १०
 नरवइ पुरु परियणु पव्वइयउ ।
 एयहे पर पडिहासइ कुच्छिउ ।

घत्ता—सिरिचदुज्जालिय कह एह ण कसु पडिहासइ ।

एसा द्दुट्टमइ ण मुणहुँ किं कारणु दूसइ ॥१६॥

विविहरसविसाले णेयकोउहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ।
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते कहकोसे एत्य कोमुइक्हाए ।

एप्पवुरसग्गलाहो एसो चउवीसमो सग्गो ॥

संधि २५

१

ध्रुवय—एउ कहेवि वणिदे नं पच्चक्ख सिरि ।
पढम कत परिपुच्छय नामे मित्तसिरि ॥

जभेट्टिया—अक्खहि पिययमि भुवणपवित्तहो ।
कारणु अणुवमि नियसम्मत्तहो ॥

सा कहइ कंत पुरि रायगेहि
पुहईवइ परवलनियरजूर
तहो कणयमाल कमणीय देवि
तत्थेव वसइ वणि उसहदासु
सोहग्गसील विणयहिँ अहीण
एक्कहिँ दिणि नियपइ निरुवमाए
तिहुयणहो धम्मु रयणिहिँ मियकु
संतइ विणु तेण विणासु जाइ
परिणिज्जउ जेण हवेइ पुत्तु

सुदरधरसिहरासन्नमेहि । ५
नामेण अत्थि सगामसूर ।
न थिय रइ तियमयवेसु लेवि ।
नामे जिणयत्त कलत्त तासु ।
सा वक्क लया इव फलविहीण ।
अवसरि कर जोडेवि वुत्तु ताए । १०
कुलमडणु नदणु निक्कलकु ।
पिय भणामि तुम्ह जइ चित्ति ठाइ ।
आयन्निवि वणिवइणा पउत्तु ।

घत्ता—पचासए वीलीणए मुएवि परत्तहिउ ।

अवरु करतु हसिज्जइ नरु जिह गहगहिउ ॥१॥

१५

२

जभेट्टिया—भासइ पिययमा रायवसागय ।

किज्जइ कम्मु तं ज [न] उवहासय ॥

पडु जाविउ एम भणेवि कतु
तेत्थु जे णियतायहो तणिय धूय
सावत्तिय वहिणि मणोहिराम
परिणाविउ मग्गिदि समिसालु
एक्कहिँ दियहम्मि वहति नेहु
आलिगिदि विरइयविणयजुत्ति

नियचित्ते समउ करेवि मनु ।
जिणदासहो वधुसिरीहे हूय ।
कणयाहदेह कणयसिरि नाम । ५
गउ सुहु माणतहो थोउ कालु ।
वधुसिरि समागय दुहियगेहु ।
पुच्छिय वइसारिदि ताए पुत्ति ।

कहि वत्थे अत्थि सामुरप्र सोक्खु
किं सुवड वसड पइ पइँ समाणु
त निसुणिवि वाहोहल्लिवत्त

किं कुणड न किं पि सवत्ति दुक्खु ।
किं करइ सुयणु सम्माणु दाणु । १०
गगिरगिर वच्चइ रत्तनेत्त ।

घत्ता—देप्पिणु उवरि सवत्तिहे पुच्छहि काइँ पुणु ।
मुडिवि सिरु नवखत्ताउंछणे कवणु गुणु ॥२॥

३

जभेट्टिया—ताप्र ह्यासप्र पइ पडिगाहिउ ।
अच्छइ मायडि खलप्र विमोहिउ ॥

जिणभवणि ताइँ दोन्नि वि जणाइँ
अच्छति जहिच्छप्र भोयणत्थु
दिवसावसाणि कम्मारिय व्व
एक्कल्लिय सोवमि रीणगत्त
तामच्छउ रइसुहु सुहयरेण
लइ लइयउ लावइँ ताप्र कतु
निसुणेवि एउ मायरि पलत्त
भासइ काऊण पवचजुत्ति
आगय घर वरणहँ जइयहु जि

अहनिसु रडरसरजियमणाइँ ।
मज्झन्नसमप्र पर एत्ति एत्थु ।
घरखोरु करेवि असेसु अक्व । ५
न वियाणमि कंतहो तणिय वत्त ।
वयणु वि न अत्थि महुँ सह वरेण ।
अच्छइ वामोहिउ मुहु नियतु ।
नावइ सिहि चुरुलिघएण सित्त ।
वेयारिय हा पावाप्र पुत्ति । १०
सा सुप्र पउत्त मइँ तइयहु जि ।

घत्ता—तुहँ मणहर भत्तारहो वडु'रियपणय ।
ते तुज्झुवरि न जुज्जइ महु देणहँ तणय ॥३॥

४

जभेट्टिया—निसुणेप्पिणु इण सुरउ मुएप्पिणु ।
पइ परिणाविउ सवह करेप्पिणु ॥

सपय पुणु कयदेउलनिवास
कि बहुणा करमि उवाउ कोइ
इय भासिवि सुय संठविय ताप्र
मा उच्छुय होहि भणेवि एउ
तहिँ तहे विणासविहि चित्तवंति
त्तामेक्कहिँ दिणि खट्टगघारि

थिय पिउ पडिगाहेप्पिणु ह्यास ।
दुट्टहे तहे जेण विणासु होइ ।
पडिवालहि कइवि दिणाइँ माप्र । ५
गय गेहु जणेरि वहति खेउ ।
जामच्छइ कोवे पज्जलत्ति ।
कालु व फावाल्लिउ चंडमारि ।

तत्थायउ वारि पइट्ठु ताप्र
कावालिय मइँ वि अणेय दिट्ठु
निच्छउ एयाउ समीहियत्थु
इय चित्तिवि भत्तिप्र तामु भिक्ख

आलोइउ सिवभत्तासयाप्र ।
पर एयहो का वि अउव्व चेट्ठु । १०
पाविज्जइ वारिज्जइ अणत्थु ।
सा अणुदिणु देइ अणेयभक्ख ।

घत्ता—अइभत्तिभरेण त्रियाणवि परिणइ तहो तणिय ।
घुत्ते तेणेक्कहिँ दिणि वधुसिरी भणिय ॥४॥

५

जभेट्टिया—अम्हई माइप्र विज्जासिंद्वय ।
मंत भ्माणजोएहिँ समिद्वय ॥

भुवणम्मि नत्थि किंचि वि असंज्भु
तो जाणावेज्जंसु सुणिवि वुड्ढु
मेहु तुज्भु पसाएँ परममेह
पर एत्तिउ कज्जु महतु पुत्त
कणयसिरि नाम कमणीयकाय
वच्चिय हउँ परिणाविउ संणाहु
अहनिसु जिनमदिरि केयनिवासः
नामे जिणयत्ता दुट्ठेभाव
तुह ससह होइ तो गेहवांसु

संभवइ कज्जु जइ किं पि तुज्भु ।
उल्लवइ रयती दुव्वियड्ढु ।
सपडइ सव्वु पडिवन्ननेह । ५
तुह वहिणि अणोवमगुणहिँ जुत्त ।
सा एककप्र घुत्तिप्र करिवि माय ।
एवहिँ पुणु थिय वधेवि गाहु ।
मेल्लइ न मुहुत्तु वि पिउ हयास ।
सा मारिज्जइ जइ कह व पाव । १०
ता निग्गय गिर कावालियासु ।

घत्ता—उच्छय होहि म मायरि चित्तिउ करमि तउ ।
परु मारेवइ अम्हहँ संकं मेणा वि नउ ॥५॥

६

जभेट्टिया—निसि भूयहँ दिणं हेमसिरीहिय ।
मारमि सो कुंडं करमि तवेहिय ॥

तेलोककवसकरि पउर विज्ज
जमपुरहो पाव जइ सो न नेमि
निसुणेवि एउं वधवसिरीप्र
भयवंत समुद्धु सहाउं जासु
तुहँ जासु पसन्नु महाणुभाँव

साहेवि अरव वेयालविज्ज ।
सत्तच्चिहं तो नियदेहु देमि ।
सो भणिउं हसेवि पससिरीप्र । ५
किं जति पियासप्र पाण तासु ।
निच्छउ कहिँ तासु किलेस ताव ।

गय एम भणेवि नत्रेवि हम्मु
तामागउ द्वियहु चउद्दसीहे
आणेवि सलक्खणु सवु समग्गु
परियाणियमतविहाणसत्थु

जामच्छइ तहिँ ववति कम्मु ।
गउ चडमारि पिउवणु निसीहे ।
पुज्जेवि देवि तहो हत्थि खग्गु । १०
जा जवइ मतु पोमासणत्थु ।

घत्ता—ताम कयंतु व भीसणु मडउ समुट्ठियउ ।
मुहे जालाउ मुयतउ पुरउ परिट्ठियउ ॥६॥

७

जभेट्ठिया—लग्गु चवेवण दे पहु पेसण ।
को पेसिज्जउ वडवससासण ॥

ता मडयमिसे पच्चवक्ख हूय
तेणुत्तु कणयसिरियहे सवत्ति
कावलियवयण सुणेवि तेत्थु
पइसरहुँ न सक्कइ सावलेव
नामग्गहणेण वि जासु जति
तहो भवणे पईसइ केम पाव
अलहति पवेसु ह्यप्पयाव
निवडिय तहो पुरउ पुणो वि तेण
अकरति कज्जु परदुन्निवार
सयवहभीएण भणेवि एउ

वेयालिणि विज्ज रउद्दहूय ।
मारेवि एहि जिणहरि सुयति ।
गय जिणभवणहो जिणयत्त जेत्यु । ५
थिय देवपहावे दूरि एव ।
गहरक्खसभूय हवेइ सति ।
सा असुइ हयास रउद्दभाव ।
गय तहिँ जि वलेवि विमुक्कराव ।
साहिय सपेसिय तवखणेण । १०
गय आगय तेत्थहो त्तिन्नि वार ।
पुणराव सपेसिय ण किउ खेउ ।

घत्ता—दोहँ मि ताहँ सवत्तिहुँ मज्जे सटावचुय ।
सा मारेप्पिणु आवहि जा दुब्भावजुय ॥७॥

८

जभेट्ठिया—तं णिसुणेवि सा तत्थ दुरत्तिया ।
गय कचणसिरि हणिवि नियत्तिया ॥

नियच्छिवि रत्तविलित्तु किवाणु
गग्गो सुहि होइवि सो नियठाणु
हयास तिणा ह्य होसइ धुत्ति
विहाणण वधुसिरी गय तेत्थु

विसज्जिवि मंतु मुएवि मसाणु ।
विणट्ट विहावरि उग्गउ भाणु ।
वियप्पिवि एउ पडिग्गहुँ पुत्ति । ५
मुयावरइत्तहो मदिरु जेत्यु ।

निएप्पिणु नदणि जीवियत्त
 वसुंधरिपालहो पासु रयति
 अहो जिणयत्तप्र चारु विणीय
 सुणेवि इण पहुणा कुविण
 सवल्लह वधिवि सा खल खुट्ट

कित्राणपहारवियारियगत्त ।
 गया जिणयत्तहे दूसणु देति ।
 निसुभिय सामि महारिय धीय ।
 विसज्जिय किकर ताहे कएण । १०
 इहाणह मदिरि देप्पिणु मुट्ट ।

घत्ता—गय पाइक्क निवाणप्र पुरदेवीप्र तउ ।

घरे पइसतहँ सतहँ थभणु ताहँ कउ ॥८॥

९

जभेट्टिया—जिणयत्तावित्त सुणेवि सुहाहिए ।

दुविहाणसणए थक्क समाहिए ॥

एत्थतरम्मि
 पेरिज्जमाणु
 हउँ निरवराहु
 अखलियपयाव
 साहाविओ मि
 आराहिऊण
 खलहिययदार
 पेसिय पुणो वि
 पेच्छिवि पहाप्र
 एय सुणेउ
 एत्तहे वि थेरि
 लोयहो कहति
 सुविसुद्धिलेस
 दावियकिलेसु
 विप्पिउ परासु

कावालिउ पुरदेविप्र पुरम्मि ।
 पभणतु भमइ लद्धावमाणु ।
 मारहुँ जिणयत्त करेवि गाहु । ५
 वेयालिणि विज्ज रउट्टभाव ।
 वधुसिरिप्र संसप्र ढोइओ मि ।
 संपेसिय सा मइँ साहिऊण ।
 अकरति कज्जु आगय तिवार ।
 आगय वधुमिरिहे सुय हणेवि । १०
 लाइउ जिणयत्तहँ दोसु ताप्र ।
 जायउ जणु सव्वु वि विगयखेउ ।
 भेसानिय भूयहि चत्तखेरि ।
 आहिडइ पट्टणि पुक्करति ।
 जिणयत्त महासइ विगयदोस । १५
 महु तणउ एउ विलसिउ असेसु ।
 चित्तिज्जइ त आवइ घरासु ।

घत्ता—एत्थतरि तहिँ देविहिँ जयजयकार कउ ।

हय दुदुहि जिणयत्तहो धम्मं जाउ जउ ॥९॥

१०

जभेट्टिया—परमविहूडप्र पुरदेवीप्र सा ।

पुच्छिय संथुया निम्मलमाणसा ॥

तं पेक्खवि निच्चलच्चित्तु होवि
परिहरिवि रज्जु सवेयजुत्तु
सामतमतिमुहिसयसहाउ
दुम्मोउ मुएप्पिणु गेहवासु
जिणयत्त वि अज्जहि जिणमईहे
कहिळण मित्तसिरियाग्र एउ
रिसि गुरु घम्मो वि दयासमग्गु
अवरु वि जं किं पि जिणेसरेण
तइयहुँ प्हूड सपयसणाह

लग्गउ जिणधम्महो सव्वु को वि ।
पणवेप्पिणु साहु समाहिमुत्तु ।
संजायउ रिसि रणसूरराउ । ५
पव्वइउ वणीसरु उमहदासु ।
पव्वइय पासि सुंदरमईहे ।
वुत्तउ मुएवि अरहतु देउ ।
निग्गथसरुवे मोवखमग्गु ।
उवइट्ठु सत्थि परमेसरेण । १०
सुविणे वि न याणमि अन्नु नाह ।

घत्ता—ता सव्वेहि मि ससिय पइँ चंगउ कयउ ।

कुंदलयाग्र परेक्कग्र तहि भासिउ हयउ ॥१०॥

११

जभेट्टिया—त निसुणेवि णिवो
थिउ तुहिवकउ

पुणु वि पलित्तओ ।
खचियचित्तउ ॥

पुणु पुच्छिय वणिणा खंडसिरी
निसुणेवि वयणु कतहो तणउ
कुरुजगलि हत्थिणायणयरे
दिउ सोमयत्तु नामेण वरु
गुणमंदिरु रजियजणमणउ
सोमिल्ला नामे तासु पिया
तह सोयवसेण विमूढमई
वणे मुणिवरेण सवोहियउ
खणभंगुरु पुत्तकलत्तधणु
आयन्निवि संजयधम्मभुणा
हुउ सावउ संसयभावजुओ
सावउ भणेवि गुणिनत्थिधणु

किह हुय तुह दिढेसम्मत्तसिरी ।
सा कहइ कहतरु अप्पणउ । ५
भूभूयहो रंजण सोवखयरे ।
होतउ चउवेयसडंगघरु ।
एत्तउ दोसु जं निद्धणउ ।
सा एक्कहिँ दिणि कालेण णिया ।
घरि वाहिरि कहिँ मि न करइ रई ।
पियसोउ करंतु निरोहियउ । १०
जलवुच्चुय फेणु व इदधणु ।
गउ सोउ भक्ति उवसमिउ गुणी ।
सोमाग्र निययदुहियाग्र जुओ ।
निउ उसहदासवणिणा भवणु ।

घत्ता—सव्वपयारें चितइ वणि तहो निव्वहणु ।

सुहु अच्छतहो काले पत्तउ मरणखणु ॥११॥

१५

१२

जभेट्टिया—मुणेवि निरुत्तय
वणियपहू तिणा

मरणनिमित्तयं ।
भणिउ सुमइणा ॥

भो परममित्त दुन्नयविलय
निव्वाहिउ एत्तिउ कालु पइ
एवहिँ महु संपत्तउ सरणु
सुहि एउ करेज्जसु एह सुया
जाणेप्पिणु कासु वि वभणहो
इय भणिवि समप्पिय पुत्ति तिणा
मरिऊण समाहिण धीरमणु
सोमा वि तओ वणिनाहघरे
तहो नेहु निएप्पिणु घणवणउ
न वियाणइ ज मुउ महु जणणु

साहम्मियवच्छल गुणनिलय ।
न वियाणित्त कि पि वि दुक्खु,मइ ।
परमेट्ठिपायपकयसरणु । ५
सोमा महु तणिय गुणोहजुया ।
देज्जसु मिच्छत्तनिसुभणहो ।
किउ सव्वचाउ सुदरमइणा ।
गउ सगगहो मेल्लेवि कुणिसत्तणु ।
अच्छइ सुहेण हसी व सरे । १०
वीसरिउ सोउ तायहो तणउ ।
एहु जि सो निच्छउ महु जणणु ।

घत्ता—धुत्तहँ धुत्तु जुवाणउ विविहवसणवसइ ।
तेत्थु जि वभणु नामे रुदयत्तु वसइ ॥१२॥

१३

जभेट्ठिया—एक्कहिँ वासरि रुवरवन्निया ।
न जगविधणा कामहो कन्निया ॥

पायालकन्न नं लद्धजसा
जोडवि जूयारसहाहिवेण
कहो तणिय एह कलहसगई
भासिउ जूयारहिँ रुवनिही
एसा कुमारि वेत्तलहलभुया
जणणेण मरते वणिवरहो
तहो गेहि एह जणमणहो पिया
निसुणेप्पिणु रुदत्तु चवई

मग्गेण जत्ति सा कज्जवसा ।
वोल्लिउ विडेण विभियमणेण ।
कि नायकन्न पच्चक्खरई । ५
जणमणसधुक्किय कामसिही ।
सुहि सोमयत्तदियवरहो सुया ।
नियसुहहि समप्पिय सुहयरहो ।
नावइ रयणायरे वसइ सिया ।
हउँ परिणमि एह गयदगई । १०

घत्ता—तेहिँ भणित्त कुव्वडयहो अत्थि सई गरुय ।
परउत्ताणहो सुयउँ न जाड हवेइ रुय ॥१३॥

१४

जभेट्ठिया—काइँ अजुत्तय भणहि सयाणउ ।
आयहिँ वयणहि होहि अयाणउ ॥

एत्थत्थि अणेय वि वेयजुया
 तेहिँ मि न लद्ध रइरभसमा
 तुहुँ पुणु बहुवसणासत्तमई
 किह लहसि मूढ मिच्छत्तरउ
 मई तेम करेवउ जेम एह
 जड एउ न करमि महु तणउ
 पूरमि पइज्ज जइ कह व नउ
 इय भणिवि सव्वकिरियाकुसलु
 होएप्पिणु वभयारि गुणिहे
 आयउ आवेप्पिणु दुरियहरे

वभण वभोवम दोसचुया ।
 मिच्छादिट्ठियहिँ भणेवि डमा ।
 दूरुज्झिय विप्पायारगई ।
 भासइ विडु अहिमाणेण तउ ।
 परिणेवी कुवलयसामदेह ।
 किं किज्जइ तो धुत्तत्तणउ ।
 साहमि सिहि तो तुम्हहँ पुरउ ।
 गउ अवरु देसु बहुवुद्धिवलु ।
 सामिवि तत्थ कामु वि मुणिहे ।
 थिउ उसहदाससव्वण्हुघरे ।

घत्ता—तहो आगमणु सुणेप्पिणु गउ जिणहर वणिउ ।
 इच्छायारु करेप्पिणु वभयारि भणिउ ॥१४॥

१५

जभेट्ठिया—केत्तहि होतया तुम्ह समागया ।
 कहइ पवच्चिउ पुव्वदिसागया ।

भो वणिवर जिणवरजम्मणइ
 नाणइँ निव्वाणइँ सव्वइ वि
 वदेप्पिणु सति कुथु अरह
 एत्थाउ सुणेवि सच्छमइणा
 भासइ सो एत्थु जि नयरि वरु
 दिउ सोमसम्मु नामे पयडु
 तहो रुद्धत्तु हउँ पुत्तु हुउ
 मरणेण ताण सोयहो भरिउ
 मिच्छत्तभावभूएँ दामिउ

निक्खवणइँ तिहुयणकम्मणइ ।
 अइसयत्तित्थाइँ वि अवरइ वि ।
 पेक्खहुँ पयाइँ भवभयहरह ।
 पुच्छिउ पुव्वासमु वणिवइणा ।
 वभणिहि सोमसम्माहे वरु ।
 होतउ सुइसत्थपुराणपडु ।
 जणणीजणेरपयभत्तिजुउ ।
 तित्थाइँ निहालउँ नीसरिउ ।
 वाराणसि आइयाइँ भंमिउ ।

घत्ता—पुन्नवसेण महामुणि एक्कु पलोइयउ ।
 तेणुवसामिवि सासणे जइणि निअोइयउ ॥१५॥

१६

जभेट्ठिया—तासु समीवए दूरुज्झिवि अह ।
 सावउ जायउ वभवई अह ।

किं गोत्तं सासयसुहकरणु
 निसुणेवि एउ पोमाइयउ
 किं निरवहि लोयत्तयमहिउ
 सावहि तेणुत्तउ वणिपवरा
 दुल्लहु सो किज्जइ जाम वउ
 फलु आयहो जं धम्मोवचउ
 वणि कहइ अत्थि वभणदुहिया
 अन्नहो सा कासु वि दिन्न नउ
 लड परिणहि सुदर हसगई

धम्मु जि महु मायवप्पु सरणु ।
 पुणु वणिणा पुच्छिउ माइयउ ।
 किं सावहि वभचेरु गहिउ । ५
 अह एण काइँ किज्जइ जि परा ।
 पालिउ किर दीसइ काइँ नउ ।
 को जाणइ कइयहँ [देइ वउ ।
 सुदरि] छणयदरुदमुहिया ।
 सावयहो भणेप्पिणु देमि तउ । १०
 वणिवयणु सुणेवि धुत्तु चवई ।

घत्ता—नीसरेवि घरवासहो कह व करेवि खणु ।

पुणु ससारे पइसइ जाणमाणु कवणु ॥१६॥

१७

जभेट्टिया—नेच्छतो वि वला तेणेच्छाविउ ।

सो सोहणदिणे सुय परिणाविउ ॥

परिणेवि पहाणं पवचपरु
 जाएप्पिणु जूयारिय भणिया
 आयन्निवि तेहिँ पसस किया
 नामेण पसिद्धा कामलया
 सहियउ तणु पुच्चकमेण भणु
 एत्तहे सोमा वि पसन्नमई
 निसुणेवि विलक्खी होवि थिया
 ज वणिणा दिन्नु विवाहि धणु
 पडिमहँ पइट्ट किउ उज्जमणु
 सिवदत्तु वि लोउ असेसु जिह
 आमतिउ ताणु सलक्खणए
 तहिँ निरुवमु रूवु निहालियउ

गउ टेटहे ककणबद्धकरु ।
 पूरिय पइज्ज मइँ अप्पणिया ।
 तेत्थु जि पुव्विल्लिय तासु पिया । ५
 वसुमित्तहे कुट्टणीहे तणया ।
 अच्छइ बहुविसयासत्तमणु ।
 पाविट्टहो तारिस तासु गई ।
 किं किज्जइ दइवायत्त किया ।
 काराविउ ताणु देवभवणु । १०
 सम्माणिउ सधु सपउरजणु ।
 वेसइ कुट्टणिणु समेउ तिह ।
 नीलुप्पलदलसरिसेक्खणए ।
 वसुमित्तणु सिरु सचालियउ ।

घत्ता—केव वि कज्जे परिहरिय एणेह सुहकरि ।

कह व पमाइँ जड वलइ तो कहिँ अम्हहँ सिरि ॥१७॥

१५

१८

जभेट्टिया—फेडमि मूलहो वाहि महतिया ।
जेणगगण अह होमि न अत्तिया ॥

इय चित्तिवि भीसणु कालनिहु
कुसुमाणव्भतरि रइयछल
हक्कारिय भुजहुँ पावरया
गतूण समप्पिउ पुप्फघडु
घेतूण तम्मि कुसुमाइँ तए
पुत्तेण पुणु वि कड्ढतियहे
विभिय कुट्टणि किं धित्तु नउ
वरकव्वु व उप्पाइयहरिसु
तवोलविलेवणभूसणाहि
घरु जतहुँ ताणाणदभरे

दोजीहु विसमगरलगिसिहु ।
कलसम्मि छुहेवि लएवि खल ।
सहुँ दुहियए दुहिपवरेण गया ।
आमोयवसीकयनामउडु ।
पुज्जियउ देउ कयसागयए ।
हुउ सप्पु वि मणहर माल तहे ।
किं नीसरेवि अहि कहिमि गउ ।
भुजेप्पिणु भोयणु विविहरसु ।
पावियसम्माणहुँ निवसणाहि ।
सोमाण लएवि सवत्तिकरे ।

घत्ता—अडमणोज्ज मत्तेप्पिणु जा दइवे रइय ।
दिन्ना सेस भणेप्पिणु सा मालोरइय ॥१८॥

१९

जभेट्टिया—छडु दिन्ना तओ होएवि दट्टिया ।
सा फणिणा खला हुय निच्चेट्टिया ॥

फणिदट्टु निएप्पिणु पुत्तडिया
कलसम्मि छुहेवि लेवि उरउ
हा धावह लोयहो मज्झ सुया
रोवति एउ पभणति तहि
पहु पेक्खु पेक्खु तुह किकरिहे
आयन्निवि कारणु कुविउ पहु
पुच्छिय किं जणमणनयणपिया
सोमाण पउत्तु न महु तणउ
सुम्मउ आमतिय एह घरु
लड पुज्जहि देउ भणेवि महु

निच्चेयण पुहईयलि पडिया ।
कूवारउ वसुमित्ताण कउ ।
मारिय सोमाण गुणोहजुया
गय तणय लएप्पिणु राउ जहि ।
हुय केहावत्थ सुहकरिहे ।
कोक्काविय लहु सिवदत्तवहु ।
पडं पावे णिसुंभिय एह तिया ।
इउ कम्मु नराहिव निग्घणउ ।
ससुयाण महारउ देवहरु ।
अप्पियउ कलसु कुसुमेहिँ सहु ।

घत्ता—तहिँ फुल्लाईँ लएप्पिणु मईँ परमेसरहो ।
रइय पुज्ज पुहईसर देवजिणेसरहो ॥१९॥

२०

जभेट्टिया—भुत्ताणंतरिए कामालिया ।
जतिहे नियघर चलभसलालिया ॥

इहु कामलयाहँ सुहावणिया
दिनाग्र ताग्र एयाग्र किउ
हा महु सुय सोमा कामलया
जाणइ फुहईस एह अवर
सावयकुलि एरिसु कम्मु नउ
वसुमित्तग्र ता कलसम्मि कर
दक्खालिउ सामिय एण मुया
सोमाग्र सो जिज हत्थि गहिउ
वसुमित्तग्र लइउ हुउ विसमु
सोमाइ लइउ हुउ माल पुणु

आसीस दिनु देवहो तणिया ।
कूवारउ कोवहो लोउ निउ ।
खावेविणु सप्पहो पासु हया । ५
जिणधम्मु सुणेवि अहिंसवरु ।
कज्जग्र अम्हारग्र पावजुउ ।
घल्लिवि लहु कड्डिउ पवणचरु ।
खद्धा विसमेण विसेण मुया ।
हुउ पुप्फदामु परिमलसहिउ । १०
विसहरु कयतकलिकालसमु ।
त पेच्छिवि विभिउ सयलु जणु ।

घत्ता—एहु जि टिव्वु निरुत्तउ मई न कयावि किउ ।
जइ अजुत्तु ता आयहो आवउ गयउ जिउ ॥२०॥

२१

जभेट्टिया—भणिरुण इण
परसिय तिग्र सा

णविरुण जिण ।
जाया निविसा ॥

उट्टिय भडत्ति
ता त निएवि
किउ पइँ किमेउ
दुहियहे सवत्ति
आणिउ सदप्पु
तेण वि न खद्ध
पावियधरित्ति
ज विहिउ पाउ
एत्थतरम्मि
सोमहे पसस
दुदुहिनिनाउ

वहु सुत्तिय हउँ एहउ भणति ।
पुच्छिय निवेण सा सवह देवि ।
भासिउ वसुमित्तग्र सुणउ देउ । ५
मणिरुण निसभहुँ चारुगत्ति ।
मई घडहिँ छुहेप्पिणु कालसप्पु ।
उव्वरिय एह पुन्नेण मुद्ध ।
पच्चेल्लिलउ मज्झु जि डसिय पुत्ति ।
त एत्थु जि पहु पच्चक्खु जाउ । १०
महियलि नरेहि देवहि नहम्मि ।
किय तुहुँ निदोस विसुद्धवस ।
हुउ वूहउ सीयलु सुरहि वाउ ।

सजणियतुट्टि
 भाभासुरेहिँ
 त नियवि चोज्जु
 वहुयहिँ जणेहिँ
 वुज्झिवि विसेसु
 सोमाग्र भक्ति
 किय लइय दिक्ख
 हुउ रुद्धत्तु
 कुट्टणि सधीय

निवडिय नहाउ सुरपुप्फवुट्टि
 पुज्जिय सविहूइग्र सा सुरेहिँ । ११
 पुहईसरेण परिहरिवि रज्जु ।
 तउ लडउ समउ साहियमणेहिँ ।
 लगउ जिणधम्महो जणु असेसु ।
 त पेच्छिवि घरवासहो निवित्ति ।
 अठभसिय निरंतर जइण सिक्ख । २०
 सावउ तयाग्र मिच्छत्तचत्तु ।
 हुय वइणी जिणसासणि विणीय ।

घत्ता—खडसिरीग्र पउत्तउ तप्पहूड अचलु ।

सिरिचदुज्जलु दंसणु हुउ महु विगयमलु ॥२१॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते कहकोसे पचवीसमो सधी ।
 देयालपुप्फमाला कहापवंधो इमो नेओ ॥

॥ सधि २५ ॥

संधि २६

१

ध्रुवय—अवर वि कहमि कह एत्थत्थि भरहि सुपसिद्धउ ।
वच्छदेसे पुरु कोसवीनामु समिद्धउ ॥

अच्छइ विण्हुसिरी तहिँ राणउ
अत्थि तासु बुद्धीए महंतउ
सयलकलाविन्नाणवियाणउ
एक्कहिँ वासरि नयणाणदिरु
कयमासोववासु वहुनिट्टउ
पेक्खवि पत्तु अउव्वु वियड्ढे
पडिगाहउ मुणि विहियविहाणे
सममणेण मुणिनाहे भुत्तउ
रिसिदाणहो फलेण सुरसथुय

अजियगउ नामेण पहाणउ ।
सोमसिरी नामेण महंतउ ।
कयपासडघम्मसम्माणउ । ५
साहु समाहिगुत्तु तहो मदिरु ।
चरियहिँ चरियासमए वड्ढउ ।
उट्ठेप्पिणु सड्ढाइ गुणड्ढे ।
दिन्नउ भोयणु कयसम्माणे ।
भुजिवि अक्खयदाणु पउत्तउ । १०
पचच्छरिय निहेलणि तहो ह्य ।

घत्ता—रयणपुप्फवरिसु सभमरु वरगघाहिट्ठिउ ।

दुदुहिसद्दु नहिँ सुरसाहुक्कारु समुट्ठिउ ॥१॥

२

ए अइसय निएवि मतीसे
सोत्तिय सिहिहोत्तिय आवसथिय
वेयपुराणसडगवियक्खण
सम्माणिय अणेय भुजाविय
वद्धारिय असेस संताणइँ
तो वि न कियि वि चोज्जु नियच्छिउ
मइँ मुणिद दिन्नइँ अपमाणइँ
पर न किं पि कोऊहलु घम्महो
भासइँ पह इदियमणइच्छउ
कारणु अट्टरउद्दहो एयइँ

चित्तिउ नियमणि मुणिउ विसेसे ।
जन्नविहाणसोमपाणत्थिय ।
वभण मइँ वंभ व्व सलवखण ।
तावस भगव भिक्ख सभाविय ।
दिन्नइँ विविहइँ इच्छादाणइँ । ५
इय चित्तेवि समजसु पुच्छिउ ।
दह तेयाइँ महतइँ दाणइँ ।
दिट्टउ एउ अउव्वउ जम्महो ।
एयइँ न मह दाणइँ निच्छउ ।
तेण भणेवि होत्ति नउ एयइँ । १०

ज पावेवि पत्तु अप्पउ पर
कहिँ पत्तत्तु अजुत्तउ लेतहो

तारड त दिज्जड दुक्कियहर ।
दाइहे दायारत्तणु देतहो ।

घत्ता—अभयदाणु जए ओसहु समेउ सुहसत्थे ।
आहारेण सहँ दिज्जति पत्ते परमत्थे ॥२॥

३

पुच्छड पुणु पणवेवि महत्तउ
फ्लु दूरीकयदुग्गइदाणहँ
कहड साहु निसुणइ मतीसंरु
सोमप्पहु सोमप्पह राणी
ते दिज्जड बहुत्तु विडुत्तउ
आइ मज्झि अवसाणि निरतरु
ताहि जि महंसालहिँ आसन्नउ
निरु निट्ठावरु निप्पिहवित्तउ
तेणेक्कहिँ वासरि खले गपिणु
कय सत्तुय सलिलेण निवद्धउ
हुयवहि एक्कु हुणेवि सड तउ
जामच्छड सो ताम पराइउ

किं केण वि अवरेण वि पत्तउ ।
मइँ जिह आहासेह पदाणहँ ।
वेन्नायडनयरम्मि नरेसरु ।
अत्थि नाइँ इदहो इदाणी ।

पउरसुवन्नु जन्नु आढत्तउ । ५
दिज्जइ जत्थ सुवन्नु सुहकरु ।
विस्सभूइ दिउ वसइ पसन्नउ ।
वहुगुणभवणु दयादमवत्तउ ।
जव कवोयवित्तिए आणेप्पिणु ।
पिंडउत्तउ सुट्ठु सुयधउ । १०
अतिहिहि केरउ मग्गु नियत्तउ ।
मुणि पिहियासमु गुणहि विराइउ ।

घत्ता—सतु भमंतु पुरे घरपत्तिए पालियनिट्ठउ ।

भिक्खहे तासु घरु कयमासोवासु पइट्ठउ ॥३॥

४

मुणि पेक्खेप्पिणु पयं पणवेप्पिणु
निउ घरि विहि करेवि समुत्तउ
भुत्तए तम्मि न कि पि वियप्पिउ
पुणु नियभामहे वयणु पलोइउ
पचच्छरियइँ पुत्तेणायइँ
साहुक्कारिउ सुरेहिँ नहगणि
वरिसिउ कुमुमनियरु आयासहो
एम भणंतु व दुट्ठुहि वज्जिउ

भत्तिए भयव ठाहु भणेप्पिणु ।
करयलि अतिहे पिंडु तहो दिन्नउ ।
पिंडउ तेणप्पणउ समप्पिउ ।
ताए वि तइउ तुरति पढोइउ ।
अव्वहियम्मि' जईसरि जायइँ । ५
पडियइ नाणारयणइँ पगणि ।
पेक्खउ जणु फ्लु पत्तविसेसहो ।
आयउ सुरहि पवणु जणु रजिउ ।

घत्ता—बहुसुवन्नमहहो फलु अम्हहँ एउ भणंता ।

सहँ राएण दिय परिओसे तहिँ सपत्ता ॥४॥

१०

५

लेंति जाम किर परमुज्जालइँ
ता नउलेण दिएण पउत्तउ
ज जसु तणंउ तौसुं त आवइ
एउ न बहुसुवन्नजेंनहो फलु
तेणेयइँ उज्जोइयगयणइँ
विस्सभूइ त निसुणिवि राएँ
पभणित्त अन्नदानुं गरुयारउ
फलु भिक्खद्धहो सोक्खजेंणेउ
ता त तेण मणा विं न भन्निउं
विणु अन्ने अन्नेहिँ न किज्जइ

ताम ताइँ जायइँ इगालइँ ।
परिवज्जहं किज्जइ नाजुत्तउ ।
इयरहो पर दरिसावइ आवइ ।
आयहो भिक्खादाणहो निम्मलु ।
सजायइँ विवरीयइँ रयणइँ ।
पत्तदाणफलु हुयअणुराएँ ।
बहुदोगच्चदुक्खखयंगारउ ।
दे महुँ लइ जन्नद्धहो केरउ ।
तेणाहारदानु पर वन्निउ ।
जीवहो जीवियत्थु छुह छिज्जइ ।

५

१०

घत्ता—अतरु मुरगिरिहे सिद्धत्थहो भासित्त जेतित्त ।

अन्नहो अन्नहँ वि कणयाइयदानहँ तेत्तित्त ॥५॥

६

जेण वाहि वाहिल्लहो छिज्जइ
वाहिक्खइ सुहँ दुक्खु नियत्तइ
भाणज्झयणेहिँ पत्तु निरतरु
कम्मक्खउ करेवि निव्वाणहो
ओसहदाणु तेण गरुयारउ
वारमइहे वसुएवहो पुत्ते
मणि परिवड्डियधम्माणदे
ओसहदाणु मुणिदहो दिन्नउ

त फुडु ओसहदाणु भणिज्जइ ।
नियधम्माणुट्ठाणे पवत्तइ ।
खवइ कम्मु रइयासवसरु ।
वच्चइ सासयसोक्खनिहाणहो ।
देवउ दायारे सुहयारउ ।
असमविसमविककमसजुत्ते
कुसलत्तणु करेवि गोविदे ।
दूसहवाहिवियभणु छिन्नउ ।

५

घत्ता—पुज्जित्त सुरवरहिँ सुविहूइए सो सवभावे ।

होसइ तित्थयंरु तिहुयणगुरु सो सवभावे ॥६॥

१०

७

जीवदयासमु हुयउ न होसइ
जइ तिहुयणु सयरारु दिज्जइ

दानु चउग्गइदुक्खु विणासइ ।
तो वि न अभयपदानहो पुज्जइ ।

जो एककु वि सरीरु आसासइ

तासु वि पुन्नहो मोल्लु न दीसइ ।

उक्तं च—यो दद्यात्काञ्चन मेरु कृत्स्नां चापि वसुधराम् ।

एकस्य जीवितं दद्यात् फलेन न सम भवेत् ॥

५

हिरण्यदानं गोदानं भूमिदानं तथैव च ।

एकस्य जीवितं दद्यात् फलेन न सम भवेत् ॥

जो पुणु सव्वजीव म भीसइ

तासु महापुरिसहो कि सीसइ ।

एककदियहकएण एक्केण वि

जीवदयादाणे पाणेण वि ।

वाणारसिहे आसि दिढचित्ते

सुसुमारदहि वधि वि चित्ते ।

१०

सुरपूयाहिसेउ सपत्तउ

नरवइ पुरु परिवारु वि सत्तउ ।

चिरु उज्जेणिहे विगयविवेए

धीवरेण नामे भवदेए ।

किउ मुणिदभासिउ गरुयारउ

मेल्लिउ एककु मीणु चउवारउ ।

तेण तेण चउआवइचत्तउ

मरि वि रायसेट्टित्तणु पत्तउ ।

सव्वहँ अभउ जेण पडिवन्नउ

तेण भुवणि भणु काइँ न दिन्नउ । १५

घत्ता—जीवदयाइँ विणु दाणु वि दिज्जतु अजुत्तउ ।

निप्फलु सव्वु तहो तवु कायकिलेसु निरुत्तउ ॥७॥

८

घम्माहम्मु देउ गुरु सत्थे

दसणु नाणु चरिउ परमत्थे ।

जीवु अजीवु वि आसवसवरु

निज्जर वधु मोक्खु भवभयहरु ।

लोयालोउ वि सयलु मुणिज्जइ

अवरु वि त न जं न जाणिज्जइ ।

सत्थे समउ समत्थिउ अच्छइ

लइउ कुवाइहिँ खयहो न गच्छइ ।

एउ वियाणिवि जेण निरुत्तउ

दिन्नउ सत्थदाणु जिणवुत्तउ ।

५

तेण चउग्गइगमणकयतहो

तित्थु पत्रत्ताविउ अरहतहो ।

विज्जादाणु देइ जो माणउ

सो भवि भवि हवेइ बहुजाणउ ।

तिहुयणगुरु सव्वण्हु भडारउ

सो हवेइ सासयसुहसारउ ।

किँ वहुएण भुयगमराएँ

खडसिलोयहो फलु अमहाएँ ।

पत्तउ पडुरिएण न मारिउ

गरुडे गुरु भणेवि जयकारिउ ।

१०

एककक्खरहो वि जइ जउ दिज्जइ

तो वि न गुरुहे भत्तिँ मुविज्जइ ।

घत्ता—एककक्खरु वि गुरु अविद्याणमणु जो निदइ ।

सयवारउ हवइ सो साणु पाणु कहिँ निदइ ॥८॥

९

एवमाइ मुणिवयणु सुणेप्पिणु
 अज्ज पहूइ तुज्झ पयपकय
 भो भयवत्त विवज्जियकम्मं
 त निसुणेवि मुणिदे दिन्नउ
 एत्तहे केण वि जंतं काले
 सामिय सोमसिरी ओलग्गइ
 निप्पहरणु पहुकज्जु न सारइ
 तेण देव सो होइ न भत्तउ
 अन्नहिं वासरि नयणाणदे
 नियनिर्त्तिसु लएवि पलोइउ
 सयलसहाग्र पससिउ सारउ

भणिउ अमच्चे पय पणवेप्पिणु ।
 सरणु मज्झु दूरुज्झियभवभय ।
 करि पसाउ महु जिणवरधम्मे ।
 सावयधम्मु तेण पडिवन्नउ ।
 रायहो कहिउ कट्टकरवाले । ५
 मूढउ सावयधम्मे वग्गइ ।
 सकडि केम विवक्खु वियारइ ।
 थिउ पहु अवधारिवि अवचित्तउ ।
 चालिवि लोहकहाउ नरिदे ।
 नं सहमडवु विज्जुज्जोइउ । १०
 अवरु ण एवविहगुणधारउ ।

घत्ता—परिवाडीग्र पुणु सव्वाण वि' लेवि क्वाणइँ ।

पुहईसेण सइँ दिट्ठइँ जमजीहसमाणइँ ॥९॥

१०

पच्छा मग्गिउ मंति विसारउ
 तेण वि जाणिउ जाणिवि अप्पउ
 कणयमुट्ठि कट्टमउ सकोसउ
 कड्डुइ जा सरोमु पुहईसरु
 तहो तेएण दिट्ठि ह्य लोयहो
 पिसुणहँ वयणु पलोइवि राएँ
 तुम्हइँ कहिउ मज्झ हियभावे
 ओलग्गग्र असिणा कट्टमएँ

जोयहुँ केरिसु खग्गु तुहारउ ।
 धीरे सुमरेविणु परमप्पउ ।
 अप्पिउ मडलग्गु ह्यहिंसउ ।
 ता हुउ सूरहासु भाभासुरु ।
 समुहुँ नियइ कुसूरुज्जोयहो । ५
 भासिउ किं न निएहु कसाएँ ।
 सोमसिरी तुम्हइँ असभावे ।
 ता पहु भणिउ मुणियजिणसमएँ ।

घत्ता—एयहिं सच्चु तुह उवइट्ठु खमहु पुहईसर ।

लोहसत्थघरणे खणु अत्थि मज्झ परमेसर ॥१०॥

१०

११

पुन्नपहावे सदरिसियजसु
 सुणिवि एउ सव्वेहिं पससिउ

कट्टमओ वि हूउ असि एरिसु ।
 देवहि साहुकार नहि घोसिउ ।

निवडिय पुष्फविट्टि आयासहो
 पुज्जिउ पुरदेवीण विसेसे
 फलु पच्चक्खु णिएविणु धम्महो
 पुत्तु थवेवि रज्जि अणुराएँ
 अवरेहिँ मि केहिँ मि तउ लइयउ
 मज्झु वि विण्हूसिरीण पउत्तउ

गउ जणु णिरवसेमु परिओसहो ।
 जयमगलरवदुदुहिघोसे ।
 चत्त णिवेण तत्ति निवकम्महो । ५
 लइय जिण्णिददिवख ससहाएँ ।
 केहिँ मि सावयवउ सगहियउ ।
 तप्पहूड सम्मत्तु निरुत्तउ ।

घत्ता—आयन्नेवि इउ धम्माणुरायसजुत्ते ।

पुच्छिय णायसिरि नामेण कत वणिउत्ते ॥११॥

१०

१२

आहासइ सइ कासीदेसे^१ ।
 निवहो जियारिहिँ कचणचित्तहे
 अज्जण उसहसिरिण सवोहिय
 वयमाहप्पे रोयविवज्जिय
 णवजोव्वण णरवइहिँ असेसहिँ
 जणणु विसेसप्पिउ भखावइ
 ओडुविसयराये भवदत्ते
 एप्पिणु वहुवलेण वेडिउ पुर
 कन्नारयणु सकप्पु अदेतेँ
 चालिय दिल्लिदिलिय न चत्तइ

वाराणसिपुरि लद्धविसेसे ।
 मुडिय नाम पुत्ति हुय कतहे ।
 सा मट्टिय खायति निरोहिय ।
 हुय रइ व्व रूवेँ अपरज्जिय ।
 मग्गिय असहियविरहकिलेसहिँ । ५
 ताहँ मज्झि एक्को वि न भावइ ।
 छोहानलजालोलिपलित्ते ।
 वलिउ वइरि जियारि हुउ कायर ।
 निसिहिँ सपरियणेण नासते ।
 मेत्तैवि जाइ केम मणु सल्लइ । १०

घत्ता—असमत्येण रणे पुच्छिउ पुरोहु पुहईसे ।

किं कीरइ कहिउ तेण वि तहो णाणविसेसे ॥१२॥

१३

एयहि पाडिहेरु होएसइ
 मुणिवि एउ सा तहिँ जि मुएप्पिणु
 एत्तहे परवलु पवलु पड्डुउ
 रायउत्ति भवदत्तहो तट्ठी
 वयमाहप्पेँ वहु वि रवन्नउ
 तत्थ मुहेण परिट्टिय सुदरि

अच्छतहो तुह सत्ति न दीसइ ।
 गउ रयणिहेँ नरिदु नासेप्पिणु ।
 ल्हसिओ पट्टणु लोउ पणट्टुउ ।
 गंगादहि गतूण पइट्टी ।
 रयणुज्जोडउ घर सपन्नेउ । ५
 तहिँ पइसतु सतु नृवकेसरि ।

थभिउ पुरदेविप्र थिउ केहउ
हुप्र पहाप्र अतेउरलोएँ
तहे वयणे पुरदेविप्र मुक्कउ
नरनाहेण सयलपरिवारे
सुरवरेहिँ सुविहूइप्र पुज्जय
त निप्रवि केहिँ वि पव्वइयउ
मुडिया वि उसहसिरीदिक्खय

तडि कट्टमउ सिलामउ जेहउ ।
मन्नाविय कुमारि कयसोएँ ।
लज्जवि थिउ दप्पेण विमुक्कउ ।
थुणिउ खमाविय कयणवयारे । १०
आणदिउ जणु दुदुहि वज्जिय ।
केहिँ वि पुणु सावयवउ लइयउ ।
हुय तवंसिणि सयलागमसिक्खिय ।

घत्ता--नायसिहिप्र भणिउ पिय तप्पहूइ महु सुहयरु ।

हुउ समत्तु दिदु सिरिचदजसुज्जलु मलहरु ॥१३॥ १५

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।
सोमसिरि-मुंडियाण कहाए छवीसमो सधी ॥

॥ सधि २६ ॥

संधि २७

१

ध्रुवय—पउमलया पिय पचमिय पुच्छिय वणिनाहेण महासइ ।
नियसम्मत्तवित्तणहो कारणु कहसंवंधु पयासइ ॥

अगाजणवण चपापुरवरि	धाडीवाहणरज्जसुहकरि ।	
उसहदासु णामेण वणीवड	होतउ तासु पिया पोमावइ ।	
पोमसिरी सुय तहे उप्पन्नी	नावड नायकन्न अवइन्नी ।	५
बुद्धदासु नामेण पसिद्धउ	अवरु वि वसइ तत्य वणि रिद्धउ ।	
बुद्धदासि पिय लवरवन्नउ	बुद्धसधु तहे पुत्तुप्पन्नउ ।	
सो समित्तु एक्कहिँ दिणि तेत्तहे	गउ वणिदजिणमदिरु जेत्तहे ।	
देवच्चणु करति तरलच्छिय	पोमसिरी तहिँ तेण नियच्छिय ।	
मोहिउ मयणे तहे आसत्तउ	दुक्खु दुक्खु गउ गेहु पहुत्तउ ।	१०
थिउ सेज्जहे पडेवि चित्ताविउ	गपिणु मायरीण वोल्लाविउ ।	

घत्ता—का अमुहत्यी कह सुसुय जेण न तुह किं चि वि पडिहासइ ।
आयन्निवि मायहे वयणु लज्ज मुएप्पिणु सो आसासइ ॥१॥

२

जइ जणेरि निरुवमरुवसिरी	उसहदासतणया पोमसिरी ।	
परिणमि तो हउँ निच्छउ जीवमि	इयरहँ पेयाहिवपुरि पावमि ।	
एउ मुणेवि ताण आदन्नण	कहिउ गपि नियकतहो कन्नण ।	
तेण वि एवि मयणसिहितवियउ	गुणवयणेहिँ पुत्तु सिक्खवियउ ।	
दुल्लहलभि चित्तु जं किज्जइ	त केवलु अप्पउ विनडिज्जइ ।	५
अम्हइँ मसासिय सो सावउ	सच्चसउच्चायारसहावउ ।	
अम्हइँ चडालाँ व भावड	पुत्तय तासु पुत्ति को पावइ ।	
मा विरहग्गिण अप्पउ जालहि	अहवच्छहँ उवाउ पडिवालहि ।	

घत्ता—एम भणेवि लेवि तणउ गपि जसोहरु मुणि पणवेप्पिणु ।
सावउ करिवि पवचु हुउ बुद्धदासु जिणघम्मु सुणेप्पिणु ॥२॥ १०

३

छड्डिवि बुद्धधम्मु निच्छम्महो
 उसहदासु साहम्मियभत्तउ
 एक्कहिँ दिणि जिणमदिरि हिट्ठिण
 बुद्धदासु पोमावइताहे
 किउ समग्गु गउरउ गरुयारउ
 अरुइए लइउ व दिसउ पलोयइ
 ताम उसहदासेण भणिज्जइ
 भणइ धुत्तु जइ पुत्तु महारउ
 कवलगहणु तो करमि तुहारण

लगा वे' वि निघवि जिणधम्महो ।
 करइ नेहु अवियाणियचित्तउ ।
 अच्छवि अन्नोन्नु जि सुहगोट्ठिण ।
 निउ घर भोयणत्थु कयगाहे ।
 वड्डिउ भोयणु पाणपियारउ । ५
 जाम न केम वि कवलुच्चायइ ।
 मित्त न कि कारणु जेमिज्जइ ।
 परिणावहि नियसुय सुहयारउ ।
 मदिरि णयणाणदज्जणेरण ।

घत्ता—एत्थु अजुत्तउ काइँ पइँ भणिउ उसहदासेण पवुत्तउ । १०
 धीयउ सुहि अम्हारियउ सावयाहँ देयाउ णिरुत्तउ ॥३॥

४

ज दिज्जइ तुह त पर धन्नउ
 साहम्मिउ मणेवि अणुराएँ
 दिन्नी सुय करेवि परमुच्छउ
 हुउ सुहि बुद्धसघु सहँ ताएँ
 परिणेप्पिणु पुणरवि हुय तारिस
 वदयधम्मसवणु अणुवासरु
 हलि पोमसिरि परमकारणियउ
 कमकमलाइँ तासु पुज्जतहँ
 त न ताहे पडिहासइ चित्तहो

भुजहि करि पसाउ पडिवन्नउ ।
 सोहणदिणि सुहिसयणसहाएँ ।
 किउ विवाहु रिद्धीण अतुच्छउ ।
 अहवा नदड-को ण उवाएँ ।
 वेन्नि वि सुर पियति गसियामिस । ५
 करहिँ ताहे दूसति जिणेसरु ।
 बुद्धो ते पसु जेहिँ न सुणियउ ।
 सिज्भइ मग्गु मोक्खु भायतहँ ।
 गउ काले जणेरु पचत्तहो ।

घत्ता—अवसरु परियाणेवि पुणु कइवयदियहहे तेहिँ पउत्तउ । १०
 पोमलच्छि अम्हहँ तणउ णाणु मुणइ नीसेसु जयत्तउ ॥४॥

५

तेण मुणिउ जिणधम्मे जायउ
 सुणिवि ताण अन्भंतरकोवए
 निच्छउ अवरु एउ को बुज्भइ

तुह जणेरु वर्णे हरिणु वरायउ ।
 भणिया खणियवाइ सविदेयण ।
 तह वि हु जडु अम्हारिसु मुज्भइ ।

मेल्लिवि बुद्धधम्मु किं किज्जड
 एम भणेवि ताहँ मणु तोसिउ
 हक्कारिय पडिवत्ति समारिय
 वाहिरि ताणेक्केक्की लेप्पिणु
 दिन्नउ सरसु भोज्जु आणदिय

अन्नू वि जत्येरिसु जाणिज्जड ।
 अन्नहिँ दियहिँ निमतउ पेसिउ । ५
 भवणवभतरम्मि वइसारिय ।
 पाणहिया तिममणु रंधेप्पिणु ।
 सव्वहिँ पोमसिरी अहिणदिय ।

घत्ता—पुच्छिय जतहिँ नियनिलउ अम्महँ एक्केक्की एत्थ थिया ।

देहि पलोप्रवि पोमसिरि पाणहि न मुणिज्जड केण निया ॥५॥ १०

६

सुणिवि पडुत्तरु दिन्नउ धुत्तिप्र
 तुम्हइँ दिव्वनाणि विन्नायउ
 सपइ तिह तेणेव नियच्छह
 एह सुणेप्पिणु दिन्नाकोसहिँ
 भो तुह सुयवहूप्र निक्किट्टप्र
 गुरु परिहउ सुणेवि धक्कारिय
 वे वि ताइँ परदेसहो चलियइँ
 सत्थ वि अवरोप्परु लोह गय ।

वदयाहँ पोमावडपुत्तिप्र ।
 जिह मुउ महु जणेरु सजायउ ।
 खाइवि तिममणु पुणु मइँ पुच्छह ।
 गपिणु वणियहो कहिउ सरोसहिँ ।
 खाविय पाणहियउ निक्किट्टप्र । ५
 सा सपिय वि ससुरे नीसारिय ।
 पुरवाहिरि दो सत्थहँ मिलियइँ ।
 भुजिवि सविसु भोज्जु रयणिहिँ मय ।

घत्ता—वारिज्जंतु वि पिययमप्र रयणीभोयणखणु भजेप्पिणु ।

हुयउ बुद्धसघो वि तहिँ निच्चेयणु विसन्नू भुजेप्पिणु ॥६॥ १०

७

पोमसिरिहे पियसोउ करतिहे
 हुप्र पहाप्र सुहिसयणसहायउ
 नदणु मुयउ निएप्पिणु रुन्नउ
 डाइणीप्र पइँ पुत्तु महारउ
 बहुवयणेण काइँ जीवावहि
 पायमूल तहो एम भणेप्पिणु
 मज्झ लहेवि निमित्तु पराइउ
 इय चित्तेवि कयजलिहत्थप्र
 जइ ण विरुवी हउँ कासु वि जणि
 जइ दिढु निसिभोयणखणु पालिउ
 तो विसवेयणाप्र निच्चेट्टउ

दुक्खु दुक्खु गय रयणि क्यतिहे ।
 वणिवइ बुद्धदासु तत्थायउ ।
 वहुयहे अठ्ठक्खाणु विइन्नउ ।
 खद्धु ससत्थलोउ सुहयारउ ।
 न तो ज न पत्त त पावहि । ५
 नदणु थविउ तेण आणेप्पिणु ।
 एउ निरुत्तउ कम्मु पुराइउ ।
 ताप्र पउत्तउ पुत्तपसत्थप्र ।
 जइ निच्चलु महु मणु जिणसासणि ।
 जइ मइँ अन्नू पुरिसु न निहालिउ । १०
 सासणदेवि नाहु महु उट्टउ ।

घत्ता—मुयउ वि जीविउ तहिँ समग्र बुद्धसधु तहे पुन्नपहावे ।
अवरु वि सत्यलोउ सयलु मुक्कउ विसवेयणसतावे ॥७॥

८

पेक्खह दूरीकयसतावे
एम भणेवि पससिय सव्वहिँ
हुउ आणदु महतु महीयलि
हय दुंदुहि कुसुमोहनमित्तउ
त निएवि उज्झिउ मिच्छत्तउ
केहिँ मि लइय दिक्ख तउ तत्तउ
अणुगुणसिक्खावयसजुत्तउ
बुद्धदासु सकलत्तु सपुत्तउ

मयउ वि' जीवइ पुन्नपहावे ।
पुज्जिय पणमिय सा गयगव्वहि ।
विहियपससहि देवहिँ नहयलि ।
पडिउ सुअधु सलिलु जणु सित्तउ ।
लोउ सयलु जिणधम्मि पसत्तउ । ५
पुत्तु कलत्तु वित्तु परिचत्तउ ।
केहिँ मि सावयवउ सपत्तउ ।
हुउ सावउ भावियरयणत्तउ ।

घत्ता—पोमलयाग्र कहेवि कह भणिउ नाह हउँ एह निएप्पिणु ।

निच्चलमण जिणधम्मो हुय ससयभाव सव्व मेत्तेप्पिणु ॥८॥ १०

कुदलयाभणिद सेस वत्तव्व ।

९

पुणु वणिनाहे ववगयकुच्छिय
कहइ अत्रतिदेसि उज्जेणिहे
अत्थि तासु रामाग्र सरूयउ
नामे उमउ भणिज्जइ कहउ
पुत्ति वि जिणयत्ता जिणयत्तहो
उमउ वि तहिँ परदव्वु हरतउ
सेट्ठिहे दक्खिणेण विमुक्कउ
हक्कारिवि नरवालनरिदे
पुत्तु समुद्दत्त तुह केरउ
चोरियाग्र बहुवारउ गहियउ
सपइ जइ सक्कहि तो वारहि

कणयलया नामे पिय पुच्छिय ।
वणिउ समुद्दत्तु सुहजोणिहे ।
सायरदत्तग्र पुत्तु पसूयउ ।
बहुवसणिउ धन्नतरि जहउ ।
दिन्नी कोसविहे वणिउत्तहो । ५
बहुवाराउ तलारहिँ पत्तउ ।
पुणरवि खलु अवराराहहो दुक्कउ ।
भणिउ वणीसरु णयणाणदे ।
पावयम्मु दुम्मइ विवरेरउ ।
तुह दक्खित्ते नउ निग्गहियउ । १०
मरणसमुद्दहो प्रहु उत्तारहि ।

घत्ता—पहुआएसु पडिच्छियउ गपि गेहु दुव्वयणहिँ ताडिउ ।

जणणे जणणिग्र वधवहिँ कुलछारणु नयरहो निद्धाडिउ ॥९॥

१०

तावहिँ सत्यवाहसुयसहियउ
तत्थ वि वहिणिग्र पेच्छिवि भायरु

गउ कोसविहे वज्जियसहियउ ।
वत्त सुणेप्पिणु किउ मदायरु ।

तेण वि तेण विराएँ गपिणु
सुणिवि धम्मु दुग्गडकयवसणहँ
सावयधम्मसमउ सम्मत्ते
अवरु अयाणियफलहो अवग्गहु
त सुणेवि मन्नाविवि आणु
एत्तहिँ लद्धलाहगजोल्लिय
सत्थवाह ते तेहिँ समाणउ
उमउ जि चल्लिउ पयणियहरिसहिँ

भत्तिग्र रिसि रिसिगुत्तु नवेप्पिणु ।
किउ परिहारु भत्ति दुव्वसणहँ ।
लडउ समुद्दत्तवणिउत्ते । ५
अगीकयउ भाविमुहसगहु ।
वहिणिग्र दिन्नु ढव्वु सम्माणु ।
करिवि वणिज्जु सदेमहो चल्लिय ।
पुच्छिवि वहिणि पत्तसम्माणु ।
आय समीवहो कइवयदिवसहिँ । १०

घत्ता—उक्कठिय मणमदिरहो सत्थु मुएवि जाहिँ जामत्तरि ।
भुल्लिवि विहिवसेण पहहो निवडिय भीसणे गुहिलवणत्तरि ॥१०॥

११

पहपवभट्टहिँ तम्मि भमतहिँ
दिट्ठु तेहिँ किपाउ रवन्नउ
विसयसुहाइँ व पढमु सुसायइँ
सव्वहिँ चारु भणेवि मुयधइँ
पुच्छिउ कवणु एहु उमएँ तरु
वुत्तु सहाएँ ससयसामे
कडुयउ नीरसु त वज्जिज्जइ
भणइ वणिदपुत्तु अमुणियफलु
तेण रसेण सव्व घुम्माविय

पहसमभुक्खतिसासमसतहिँ ।
मरणु व तरुरुवेणवइन्नउ ।
परिणामम्मि महादुहदायइँ ।
तासु फलाइँ खाहुँ पारद्वइँ ।
सोहइ सउरिसो व्व वरफलघरु । ५
तोडिज्जहिँ कि सहयर नामे ।
ज मिट्टउ सुयधु त खज्जइ ।
असमि न भजमि नियवउ निम्मलु ।
हुय निच्चेट्टु महीयलि पाविय ।

घत्ता—करहुँ परिक्ख वियक्खणग्र जणमणहरु नियरुवु करेप्पिणु । १०
दूमियचित्तु मित्तमरणे भणुउ उमउ वणदेविग्र एप्पिणु ॥११॥

१२

किं न पहिय देवाहँ वि भोज्जइँ
एहु रुक्खु अविआणियनामउ
आयहो फलइँ खाड जो माणउ
मरिवि कयावि न दुक्खु निरिक्खइ
एत्थु आसि सामरि वाहिल्ली
आयहो फलरसेण सुच्छायउ
एउ म जाणहि ज एए मय

एयइँ खाहि फलाइँ मणोज्जइँ ।
पुन्नहिँ पाविज्जइ अहिरामउ ।
वाहिविहीणु होइ सो अहिणउ ।
नाणे सयरारु वि परिक्खइ ।
होती हउँ जरजिन्न गहिल्ली । ५
सुदरु महु सरीरु सजायउ ।
उट्टहिँ लग्गा होग्रवि अक्खय ।

एम भणेवि ते वि उट्टाविय
ता वणिवइपुत्तेण पउत्तउ
तो वि माए वड लइउ न भजमि

करिवि मणोज्ज तीए तहो दाविय ।
जं भावइ तं होउ निरुत्तउ ।
अवियाणियतरुहलइँ न भुजमि । १०

घत्ता—पेक्खेविण् निट्ठाहु तहो तुट्ठए देवयाए बोलिज्जइ ।
हउँ वणदेवि पसन्न तुह मग्गहि दिट्ठपइज्ज किं दिज्जइ ॥१२॥

१३

तेण भणिज्जइ जइ महँ देवय
ता एवहिँ वयस जीवावहि
ता ते तीए सव्व उट्टाविय
छुहत्तिससमु अवहरवि सरीरहो
देविए वुत्तु पुत्त पत्तहो पुरु
सव्वविहरहरि एम भणेप्पिणु
एत्तहिँ वणि कुसलेण पहुत्ता
अन्नहिँ वासरि जणहो नियतहो
रयणकुसुमगधोवयवरिसणु
नरनाहेण वि परमविहोएँ
त निएवि राएँ थिरचित्तहिँ
लइयउ तउ केहि मि सावयवउ

हुय पसन्न सच्चउ निहयावय ।
अन्न वि नयरपथु दरिसावहि ।
नियमाहप्पे मुय जीवाविय ।
सुहिसवधु करेप्पिणु धीरहो ।
तुज्झु करेसमि गुणिगउरउ गुरु । ५
गय नियनिलयहो कुहिणि कहेप्पिणु ।
मिलिय कुडुवहो हूय सइत्ता ।
किउ पूयाहिसेउ देविए तहो ।
दुदुहिनीसणु कियउ पससणु ।
पुज्जिउ सो सयलेण वि लोएँ । १०
उमइँ सहु मणुएहिँ बहुत्तहिँ ।
केहि मि दिट्ठु दसणु हयभवभउ ।

घत्ता—कणयलयाए पउत्तु पिउ मज्झु वि त निएवि कोऊहलु ।
सजायउ सिरिचदजससद्दहाणु जिणसासणे निम्मलु ॥१३॥

कुदलयाभणिद सेस वत्तव्व ।

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते सत्तवीसन्नो सधी ।
एत्थेसो पोममिरीउमयकहाकहणनामो हु ।

संधि २८

१

ध्रुवय—सत्तमघरिणि वणीसे धम्ममणीसे पुच्छिय विज्जुलया पुणु ।
कहहि केम हयकलिमलु तुज्झुज्झयमलु हुउ सम्मत्तु महागुणु ॥

सा कहइ णाह मयणाहिरामि
नामेण सुज्जकोसवि अत्थि
तहिँ मणिमयकुडलघिट्ठगंडु
महएवि तामु विजयाहिहाण
तत्येव वसइ सुरदेवनामु
वाणिज्जहो जाप्रवि भगलिदेसु
ढोइउ मुगडनरवइहे तेण
एक्कहिँ दिणि कयमासोववासु
चरियहे पइट्ठु तेणेवि दिट्ठु
दिन्नउ तहो भोयणु नवपयारु

तरपूजणवप्र जणदिन्नकामि ।
पट्टणु जहिँ एक्कु वि दोसु नत्थि ।
सुहुँ करइ रज्जु नरवइ सुगडु । ५
मुणिवरहो खमाइ व गुणनिहाण ।
वणिनंदणु कयजिणमुणिपणामु ।
आणेवि तुरउ पावियविसेसु ।
तेण वि कयत्थु किउ बहुघणेण ।
मदिरि रिसिसेणु मुणिंदु तामु । १०
उट्टेप्पिणु पडिगाहिउ वरिट्ठु ।
सचिउ सुहु पचाइसयसारु ।

घत्ता—तेत्थु जि पुरि वणिउत्तहो सायरदत्तहो विहवविलासहिँ चत्तउ ।
सिरिदत्तप्र' जणियउ नामे भणियउ पुत्तु पत्रोनिहिदत्तउ ॥१॥

२

चित्तिउ मणि तेण ससाहुकार
आणमि हरि हउँ मि मणोहिराम
इय भणिवि भगलिदेसहो सहेउ
तहिँ तेहिँ मिलेवि पलासगामि
तिहिँ वरिसहिँ उप्पन्नप्र उवाप्र
गय एम भणेवि समुददत्तु
नामेण कुडुविउ तहिँ असोउ
रक्खावइ सो हय मुणिवि तामु
तेण वि पडिगाहिउ गुणनिवासु
[· · · · ·] वइ सामिसेव

दाणहो फलु निप्रवि सुवन्नधार ।
पावमि जेणेरिस अत्थकाम ।
गउ नियवयसवणियरिहिँ समेउ ।
अन्नोन्न भणिउ घणक्कणपगामि ।
सव्वहिँ वि मिलेवउ एत्थ ठाए । ५
थिउ तेत्थु जि पहसमसमियगत्तु ।
निवसइ सलगघसपयसमेउ ।
गउ सायरदत्तहो पुत्तु पासु ।
[· · · · ·]
रक्खइ हयसाहणु निच्चमेव । १०

घत्ता—वीयसोय सुहलक्खण सुट्ठु वियक्खण गेहिणि तासु असोयहो ।

कमलसिरि त्ति तणुभव जणियमणुभव रुवे रइ व तिलोयहो ॥२॥

३

सो अडडहे आणेऊण ताहे
नाणा कदइँ मूलइँ फलाइँ
हुउ काले कमलसिरिहे सिणेहु
जइ होड कह व महु दइव कतु
चित्ति एउ अहनिमु मयच्छि
एक्कहिँ दिणि गमणाउलमणेण
कमलाणणि हलि कमलसिरि एत्थु
सहि तुज्ज पसाएँ गुणनिहाणि
हुउ सेवावहि कलयठिसदि
त सुणित्रि ताप्र गगिरगिराप्र
भो वल्लह हउँ मि न एत्थ थामि

अणुदिणु नेहेण अणोवमाहे ।
कुमुमाइँ देड वरपरिमलाइँ ।
भावइ सो मोरिहिँ नाइँ मेहु ।
ता होज्जउ एहु समुद्दत्तु ।
नवनेहभरच्छाँहँ कमललच्छि । ५
पियसहि पउत्त एयति तेण ।
न वियाणिउ मइँ किचि वि अणत्थु ।
महु सरिउ सव्वु जिह निययठाणि ।
लइ सज्ज खमेज्जहि जामि भदि ।
वोल्लिउ सणेहरसनिवभराप्र । १०
निच्छइण सुयणु पइँ समउ जामि ।

घत्ता—मणि मन्नियउवयारे विणयागारे वणिउत्तेण पउत्तउ ।

परउवयारिणि पहियहँ सहुँ धणरहियहँ पियसहि जाहुँ न जुत्तउ ॥३॥

४

तुहुँ असहियदुहि सोमालमुत्ति
अम्हइँ देसिय सपयत्रिहीण
पच्चेल्लियउवयारहो किलेसु
अच्छहि सुहुँ लइ महु तणिय सिक्ख
भासइ असोयसुय पइँ समाणु
पइँ विणु कुडुवु सुहि सयणु सव्वु
जइ नेहि न तो मारेवि जाहि
पडिबन्नु तेण ता ताहे गमणु
ताए वि तामु उवइट्ठु भेउ

सुहि वच्छलि गव्भेसरहो पुत्ति ।
परपेसणजीविय दुहविलीण ।
काहीसमि तुह नेप्पिणु विदेसु ।
घरि रिद्धि मुद्धि मा भमहि भिक्ख ।
वल्लह महुँ दुक्खु वि सुहनिहाणु । ५
पडिहासइ कहिँ महुँ जीवियव्वु ।
लइ मूलहो फेडहि विरहवाहि ।
अह नारिरयणु परिहरइ कवणु ।
अहवा अणुरत्तहो चिण्हु एउ ।

घत्ता—अच्छति अणोवम वेन्नि तुरगम जलगयणंगणगामिय । १०

सोणासयवन्नुज्जल सालस दुव्वल मुणेवि लइज्जसु सामिय ॥४॥

५

जलगामिउ जसु तणु रत्तवन्नु
आयासचारि जो हसभासु

सो चालइ किचि मुयतु कन्नु ।
सो किं पि न चालइ गुणनिवासु ।

ता तेण गपि उवएमु लेवि
परिओसिउ सायरदत्तपुत्तु
एत्तहे खमयावहि सभरेवि
विन्नविउ नवेप्पिणु तेण सामि
पडिवन्नु असोएँ चित्ति ठाड
तेण वि निव्वेडिवि एककु ताहँ
भासिय ए नेमि सुणेवि एउ

परियाणिय वाइ निएवि वे वि ।
थिउ पीडण तत्थ हवेवि धुत्तु ।
आगय वणि वाणिज्जइँ करेवि । ५
दिज्जउ ज वुत्तउ घरहो जामि ।
जो सो लइ सुदरु एककु वाइ ।
ते वे वि तुरगुत्तम हयाहँ ।
चित्ताविउ पहु किं कहिउ भेउ ।

घत्ता—ए आलसिय अलक्खण सुट्ठु सुलक्खण अवर लेहि जे भावहिँ । १०
देसतरि मणरुय सोहण नववय जे नीयवि वहु पावहि ॥५॥

६

विरुय वि ए होतु न अन्न लेमि
इय भणिवि निवासहो गउ असोउ
को एत्थु समीहड मज्झु छेउ
सव्वेहिँ मि मयमायगगामि
केण वि जाणेप्पिणु कहिउ मम्मु
किं रुसहि परियणजणहो नाह
निच्छउ सा तहो आसत्तवुद्धि
जड देमि कह व देसियहो पुत्ति
अह देमि न तो आयहे न अन्न
जा रत्त जासु सा तामु नारि
इय लोयवयणु अपमाणु केण

तावच्छउ अज्जु पहाण देमि ।
पुच्छउ हक्कारिवि निययलोउ ।
किं पहियहो कहिउ तुरगभेउ ।
पडु जाविउ सवह करेवि सामि ।
तुह पुत्तिहे केरउ एउ कम्मु । ५
घरभेएँ कासु न नट्ट राह ।
इयरहँ कह कहइ तुरगसुद्धि ।
तो भणहिँ सयण विरइय आजुत्ति ।
भावेसइ होसड वरु विसन्नु ।
इयरहो पुणु फुडु पच्चक्ख मारि । १०
किज्जइ इय चित्तेविणु मणेण ।

घत्ता—ताएँ रुवरवन्नी तासु जि दिन्नी सुय सुहँ पुव्वुत्तामहि ।
रुप्पिणि व्व गोविदे परमाणदे परिणिय तेण वि ता सहि ॥६॥

७

कइवयदिणेहिँ गमणत्थिएहिँ
वोलाविवि नावडयहो कहेवि
थोवतरु जलनिहिमज्झि जाम
भा कमलसिरीपिय कहमि तुज्झु
उत्तारमि तो तडँ नेमि पर

चल्लिउ घरु सो सहँ सत्थिएहिँ ।
पल्लट्टु ताउ मुय सिक्खवेवि ।
वच्चति वुत्तु नाविण्ण ताम ।
जड एककु तुरगमु देहि मज्झु ।
न तो न पराणमि कहिउ सारु । ५

ता वोल्लिउ कमलसिरीपिएण
जइ सच्चइ तो परतीरु नेहि
अगलउ अवरु कि चि वि न देमि
जइ नेहि न भणइ समुद्दत्तु
ता त तडम्मि उत्तारिऊण
एत्तहे असोयतणयहे तणेण

केवट्टु काईं बहु जपिएण ।
ज वुत्तु तरावणु त लएहि ।
इयरेण भणिउ तो हउँ न नेमि ।
ता आणहि तीरहो जाणवत्तु ।
गउ तरिउ परोहणु पेरिऊण । १०
उवएसे सो तोसियमणेण ।

घत्ता—आरुहिऊण तुरगमे गयणगणगमे सायरसोह नियतउ ।

इयरु धरेवि जलोवरि [] आगउ घरहो सकतउ ॥७॥

८

अन्नहिँ दिणि कमलसिरिहे करम्मि
गयणगणगामिउ तुरउ लेवि
राएण वि दुल्लहु हउ निएवि
नियनदणि नाईं अणगसेण
पावेप्पिणु पहुसम्माणु वित्तु
सो उसहसेणवणिवरहो वाइ
पालइ पहुवयणे करइ तत्ति
अट्टमि चउदसिहे सय वणिदु
जाणिय सदिट्ठि विसुद्धदिट्ठि
पुणु चालवि चालइ लालिऊण
जतु वि आवतु वि एम तासु

वारिचरु धरेप्पिणु नियघरम्मि ।
गउ दिट्टुँ नियनरवइ नवेवि ।
पडिगाहिउ रज्जहो अद्धु देवि ।
दिन्नी नामेण अणगसेण ।
हुउ सिरिदत्तहे सुउ सुहियचित्तु । ५
राएण समप्पिउ सुद्धजाइ ।
वेयड्डुगिरिदहो उरुयभत्ति ।
तहिँ चडिदि जाइ वदहुँ जिणिदु ।
विस्सामइ अतरि तुरउ सेट्ठि । १०
हत्थेण तिवारप्फालिउण ।
सो करइ विहाणु तुरगमासु ।

घत्ता—पहुपच्चतणिवासिउ सुहडसयासिउ जिग्रसत्तू जि पसिद्धउ ।

अत्थि चरडु छलइत्तउ साहसवतउ परधणहरणपइट्टुउ ॥८॥

९

अत्थाणि तेण नियपरियणासु
तरपूजणवप्र बहुधणकणम्मि
भूवइहे सुगडहो तुरयरयणु
त आणिवि जो महुँ देइ तासु
पहुवयणु सुणेप्पिणु समरसोडु
हउँ आणमि देव भणेवि एउ
जिणभवणि तत्थ अच्छतएण

जपिउ मुहु जोइवि साहिलामु ।
भो रविकोसवीपट्टणम्मि ।
अच्छइ धरि वणियहो कमियगयणु ।
अहिलसिउ देमि साहसघणासु ।
सहसभडु एक्कु नामेण कोडु । ५
गउ वभयारि होइवि सवेउ ।
रजिउ जणु उग्गतवेण तेण ।

दुक्खति चक्खु मिसु करिवि धुत्तु
केण वि ओलक्खिवि कहिय वत्त
महुँ एहु ण भावइ वभयारि
एयहो नउ दिज्जइ भवणि वानु
साहम्मिउ मन्निवि तो वि तामु

थिउ एक्कहिँ दिणि धरि तहिँ जि सुत्तु ।
धुत्ताहँ वि अत्थि महत्त धुत्त ।
वणिवर निद्धम्मिउ डभयारि । १०
दुज्जणससग्गे होइ नासु ।
वीससइ वणीसरु देइ वासु ।

घत्ता—दाविउ हउ पुच्छतहो उवएसु वि तहो कि चि वि तामेक्कहिँ दिणे ।
रत्तिहे सेट्ठि पमुत्तउ सो छलइत्तउ गउ हरि हरिवि नहगणे ॥१॥

१०

अवियाणियसम्मवएसएण
जतेण परावत्तिउ तुरगु
मुउ चोर तुरगमु गयउ तेत्थु
तिपयाहिण देप्पिणु पुरउ थक्कु
चित्तागइ मणगइ नाम वेवि
हयवइयरु ता तहो कहिउ सव्वु
हणु एहु करेण तिवार वाइ
उवसग्गु नियत्तइ होइ हिट्ठि
तो तेणाहउ हउ गउ तुरुत्तु

गिरिकक्करविसमपएसि तेण ।
तेण वि पाडिउ किउ देहभगु ।
सिरिसिद्धकूडजिणभवणु जेत्थु ।
तहिँ अवसरि चारणजुयलु दुक्कु ।
पुच्छिय खगेण केण वि नवेवि । ५
पुणु चित्तागइणा भणिउ भव्वु ।
नियनिलउ जेम गयणेण जाइ ।
जेणुसहसेणु जसु लहइ सेट्ठि ।
पट्टणु पयगकोसवि पत्तु ।

घत्ता—एत्तहे वणिजणपुगमु हरिउ तुरगमु जाणिवि रायहो भीयउ । १०
दुविहाणसणु लएप्पिणु भाणु रएप्पिणु थिउ जिणभवणि विणीयउ ॥१०॥

हयहरणु नुणेप्पिणु पहु पनित्तु
पेसिउ वणि मारहुँ किंकरोहु
उग्गामिय घाय हणति जाम
एत्थतरि एप्पिणु गयणि तुरउ
आमेत्तिलिय देवहिँ पुप्फविट्ठि
पेत्तह जिणिदधम्महो महप्पु
किउ पाडिहेरु पुज्जिउ वणिदु
राएण वि पुरपरियणजणेण
न निग्रवि नरिदे अप्पकज्जु
अवर वि जिणयत्तागरियपासि

मेधासणु' न तुप्पेण सित्तु ।
तेण वि जाएप्पिणु किउ निरोहु ।
थभिय पुरदेविग्र सव्व ताम ।
थिउ देवहो भामरि देवि पुरउ ।
हय दुदुहि सथुउ रायसेट्ठि । ५
देवहँ मि सइदहँ जणिउ कपु ।
सुरवरहिँ विहूइग्र न जिणिदु ।
परिपुज्जिउ आणदियमणेण ।
किउ सहँ वणिणा जि मुएवि रज्जु ।
हय सजय तुट्टग्र मोहपासि । १०

घत्ता—एम कहेवि कहतर सवणसुहकर विज्जुलयाए पउत्तउ ।

तप्पहइ दुक्कियहर महुँ सिवसुहयर हुउ सम्मत्तु निरुत्तउ ॥११॥

१२

निसुणेवि एउ वणिवइ सभज्जु
अह चारु पलोइउ कहिउ भद्दे
आयन्नवि कुदलयाए वुत्तु
इच्छामि पडिच्छामि नेव एउ
निग्गहु पहाए वड्डियमलाहे
इयरहुँ सव्वहँ सम्माणदाणु
एत्तहे वि समुग्गउ गयणि भाणु
आगउ वणिभवणि वि गुणनिहाणु
राएण विनिम्मलजसपयासु
द्वरीकयदुक्कियकम्मवधु
सुहि कवण हि मणि मिच्छाहिमाणु

पभणइ पइँ पिययमि किउ मणोज्जु ।
सदहिउ सुट्ठु कलयठिसद्दे ।
किउ तुम्हहिँ एत्थु न कि पि जुत्तु ।
चित्तए सुणेवि नरवइ सखेउ ।
एयाहे करेवउ मइँ खलाहे । ५
इय चित्तिवि गउ घरु नरपहाणु ।
पुहईवइ परिमियजणसमाणु ।
तेण वि किउ अग्गयविहाणु ।
पुच्छिउ पुहईसे अरुहयासु ।
आयन्नवि निसिहे कहापवधु । १०
भामिणि का करइ न सदहाणु ।

घत्ता—त निसुणेवि मणोज्जए सेट्ठिहे भज्जए कुदलयाए पउत्तउ ।

हउँ सदहमि न एयहँ विगयविवेयहँ सामिय वयणु अजुत्तउ ॥१२॥

१३

किं कारणु पुच्छइ पुहइपालु
अम्हेहिँ वि दिट्ठउ पयडु एत्थु
भासइ सा पहु एहु वि मणोज्जु
एयहिँ जिणसासणे परिणएहिँ
बुज्झियसुयदिट्ठहो फलु विवेउ
हउँ मदवुद्धि परसमयभत्त
मइँ पुणु न कयाइ जिणिदधम्मु
एयहँ जि अज्जु उवइट्ठु रत्ति
किं वहुणा अज्जु जि जइण दिक्ख

विभियमणु मति वि मइविसालु ।
मूलाहियकहवइयर पसत्थु ।
पच्चक्खु वि पेक्खवि धम्मकज्जु ।
किं कियउ न तउ जाणियनएहिँ ।
कज्जेण तेण नृव भणिउ एउ । ५
दुद्धिदुसुयदुक्कियरत्त ।
माहप्पु पलोइउ हयविहम्मु ।
आयन्नवि हुय महु गरुय भत्ति ।
गेणहमि सिक्खमि निरवज्ज सिक्ख ।

घत्ता—एउ सुणेप्पिणु राएँ सव्वसहाएँ तुट्ठएण अणुमन्निय । १०

तुहुँ सकियत्थ सउन्नी गुणसपुन्नी एम भणेप्पिणु वन्निय ॥१३॥

१४

तुहुँ पर परियाणहि धम्मभेउ
इय भणिवि निवेण सपरियणेण

सजाउ जाहिँ एरिसु विवेउ ।
धम्माणुरायरजियमणेण ।

परिहरिवि रज्जु गुणघणु मुणिदु
 मतीसरो वि नामे सुवुद्धि
 चोरु वि मुवन्नखुरु मुद्धभाउ
 अवर वि अणेय जिणदिक्ख लेवि
 उदिदोव्याडनिवनारिसत्थु
 मित्तसिरिपहूडउ सेट्टिणीउ
 अवरेहिँ पयत्ते लइउ रम्मु
 कालेण चरेवि चरित्तभारु

तउ लइउ नवेवि तिन्नोयवदु ।
 हुउ सजउ अट्टपयारसुद्धि ।
 पव्वइउ करेप्पिणु सव्वचाउ । ५
 थिय माणव मउ मच्छरु मुएवि ।
 दिक्खकिउ जायउ एककवत्थु ।
 हुउ अज्जिउ सम्मादिट्टिणीउ ।
 सहँ सम्मत्तेण गिहत्थधम्मु ।
 उदिदोदउ भूवइ सवणसारु । १०

घत्ता—महिमडलि विहरेप्पिणु धम्मु कहेप्पिणु सिरिचदुज्जलकित्तिघउ ।
 सन्नासेण मरेप्पिणु जिणु सुमरेप्पिणु सहँ सव्वहिँ सुरलोउ गउ ॥१४॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सव्वदोमोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ कोमुइकहाए ।
 एसो तुरयकहक्खा अट्टाहियवीसमो सवी ॥

॥ सधि २८ ॥

संधि २६

१

जीववधो अप्पवधो जीवदया होदि अप्पणो हु दया ।

विसकटओ व्व हिंसा परिहरिदव्वा तदो होदि ॥ [भ आ ७९६]

जीववधो जीवहिंसा अप्पवधो आत्मघातो भणितो भवतीत्यर्थं । सुगममपरम् ॥ जीववधे अप्पवधो एत्यक्खाण ॥

धुवय—दूरोसारियजीववहु पयडियजीवदयागमनिम्मलु । ५
पणवेप्पिणु जिणु पायडमि जीववधादियाहँ सुम्मउ फलु ॥

नासिक्कनयरपच्छिमदिसए	सुपसिद्धि अत्थि कोकणविसए ।	
गामउडु पलासगामि पयडु	नामे सुदामु समयत्तजडु ।	
तहो भज्जइँ फलिहपईहभुओ	वसुदामु सुदामए जणिउ सुओ	
नियगामसमीवि असोसजलु	काराविउ ते तलाउ विउलु ।	१०
तहो पालिहे किउ उज्जाणवणु	तहो मज्झि दुग्गदेविहे भवणु ।	
सहँ विसयजणेण पावनिरउ	वरिसहो वेवारउ तहे पुरउ ।	
महिमुच्छउ जीवहँ करइ वहु	गामम्मि भमाडए देविरहु ।	
कालेण पवड्ढियपावभरु	सजाउ तासु खयवाहिजरु ।	
कायरु सुदामु हुउ मरणखणे	उट्टिउ हाहारउ बधुजणे ।	१५
हक्कारिवि पुत्तु परिट्ठोवेउ	उवइट्ठु किं चि कचणु ठविउ ।	

घत्ता—सुणु वसुदाम परोक्खे महुँ जो मग्गए तहो भोयणु देज्जसु ।

जिह छम्मासिय देवयहे होइ जत्त तिह पुत्त करेज्जसु ॥१॥

२

मुउ एम भणेप्पिणु गामवइ	तत्थेव पत्तु तिरियचगइ ।
हुउ छेलउ पावे भारियउ	तहे देविहे अग्गए मारियउ ।
कपतु कणतउ गीढमउ	वाराउ सत्त एव निहउ ।
अट्टमियहि वारहि तक्कडउ	पुणरवि सजायउ वोक्कडउ ।

संधि २६ के आदि मे लिखा है 'ज्ञानोपयोग' ।

महिमुच्छवि वसुदामेण पुणु
आलोप्रवि मुणि निज्जरियरउ^१
वे वे त्ति भणतउ गहियभउ
नाणेण तओ मुणिणा मुणिउ
तुहुँ मूढ आसि असुघायपिउ
एवहिँ किं कदहि को धरइ
परिपुच्छिउ वसुदामेण मुणी

मारहुँ निज्जंतु देविभवणु । ५
जाइस्सरु^२ खणि सजाउ अउ ।
तरुतलि मुणिणाहहो पासु गउ ।
पेक्खंतहो तहो वोक्कडु भणिउ
एवहिँ अणुहुजसु पुव्वकिउ ।
अम्हारिसु लोयहो किं करइ । १०
कहि कि किमेउ ता कहइ मुणी ।

घत्ता—एहु छेलु वसुदाम तुह तणउ ताउ पावेण मरेप्पिणु ।
सत्त वार हुउ वोक्कडउ दिन्नु सहत्थे देविहि नेप्पिणु ॥२॥

३

पइँ भक्खिउ आयहो तणउ वउ
मइँ एहु समासइ विन्नवइ
पभणिउ मइँ रिद्धिनिमित्तु किउ
हुँ रक्खेवइँ असमत्थु जणे
आयन्निवि दव्वदामु चवइ
उज्जाणि जेण एरिसु विउलु
अणवरउ उवाइउ जीववहु
जइ तेण न पाविउ मोक्खपउ
निमुणेवि एउ भासइ सवणु
तो धीवर पारद्धिय पवरा

सपइ सुमरेप्पिणु पुव्वभउ ।
परितायहि परितायहि चवइ ।
ज पइँ तं एप्पिणु पुरउ थिउ ।
ज रुच्चइ त चित्तवहि मणे ।
मुणि एउ कयावि न सभवइ । ५
काराविउ देविहे देवउलु ।
किय पुज्जिय अचिय देववहु ।
तो निच्छउ सग्गु सदेहु गउ ।
जइ जीववहाइ सग्गमणु ।
सुरलोइ मणोहर होत्ति सुरा । १०

घत्ता—जीववहाए न धम्मु सुय ताइँ नवर नरयहो जाइज्जइ ।
सुहगइ जीवदयाइँ पर सासयसोक्खलच्छि पाविज्जइ ॥३॥

४

वसुदामु पयपउ किं वहुणा
घणु थविउ मज्झ किंचि वि कहिउ
जाणमि जाईसरु जइ कहइ
मुहु जोईवि मुणिणा भणिउ पमु
ज जीवहि न तो धुवु मरणु

भयवत्त मरत्तएण पिउणा ।
किंचि वि पुणु कायरेण रहिउ ।
तो ताउ महारउ मुहु लहइ ।
जा जाहि वप्प दक्खवहि वसु ।
तुह नत्थि एत्थ कोइ वि सरणु । ५

मुणिवयणु सुणेप्पिणु गयउ तहि
 चरणेण खणेप्पिणु दावियउ
 धी धी संसारु असारयरु
 नंदणहो समप्पिवि निययपउ
 अवरु वि जणु त पेक्खेवि हुउ
 केहिँ वि जिणदेवदिव्व लइया

नियखेत्तमियारए दव्वु जहि ।
 वसुदामउ पच्छा तावियउ ।
 भणिऊण एउ वेरग्गपरु ।
 संजाउ दियवरु लेवि तउ ।
 सहँ देविए जीवदयाए जुउ ।
 केइँ वि सजाय अणुव्वइया ।

१०

घत्ता—पालेवि पचाणुव्वयइँ गुरुआणइ सम्मत्तु धरेप्पिणु ।
 छेलओ वि सुहलोउ गउ मरणयालि जिणु मणि सुमरेप्पिणु ॥४॥

५

जीवदया होदि अप्पणो हु दया । एत्थक्खाण ।

सिप्पानइसमीवि सविसेसए
 धीवरु जलसचारपवीणउ
 जमघटारउद् तहो केही
 कहिमि कालि नामेण जसोहरु
 नदणवणि सघे सहँ सठिउ
 मियसेणु वि पारद्विहे चल्लिउ
 आइउ कोड्डे तत्थ तुरतउ
 गए जणवए वउ लज्ज मुएप्पिणु
 भासइ रिसि वउ तुज्जु न जुज्जइ

सिसवगामि अवतीदेसए ।
 अत्थि पयडु नामे मियसेणउ ।
 गेहिणि जमरायहो विहि जेही ।
 आउ महारिसि तत्थ जसोहरु ।
 गउ जणु त वदहुँ उक्कठिउ ।
 पेच्छिवि लोयजत्त गजोल्लिउ ।
 आयन्निवि मुणि धम्मु कहतउ ।
 मग्गिउ तेण साहु पणवेप्पिणु ।
 पढमउ जीवरक्ख तहिँ किज्जइ ।

५

घत्ता—ताए विहूणउ कियउ वउ णिप्फलु जाइ सव्वु अकियत्थउ ।
 वउ वि सुदिट्ठिविवज्जियउ वयणु व छिन्ननासु अपसत्थउ ॥५॥

१०

६

ता मियसेणे भणिउ भडारा
 ज पहिलारउ जालि पडेसइ
 एम भणेवि लेवि खणु तेत्तहे
 तत्थ तेण जालेण निवद्धउ
 मेल्लिउ मच्छकुलक्खयकाले
 करिवि चिण्हु परियाणिवि चत्तउ
 गउ दिवसयरु ताम अत्थवणहो

कि बहुएण पावविणिवारा ।
 त महु अवसमेव न मरेसइ ।
 गउ सिप्पासरीहे दहु जेत्तहे ।
 एक्कु पोढु पाढीणउ लद्धउ ।
 पुणरवि सो ज्जे निवद्धउ जाले ।
 ताम जाम सरवारउ पत्तउ ।
 अवरु वि निव्विन्नउ नियभवणहो ।

५

रित्त निएप्पिणु कावडि कंतण
किं कारणु रित्तड अज्जायड
किं तुहुँ किं हउँ भुक्खण सस्यडँ

पुच्छिउ नाहु छुहासमसतण ।
किं मडलि मीणक्खड जायड' ।
कहि खाहेति काइँ डिभ स्यइँ । १०

घत्ता—ताम कहिज्जड तेण तहे अज्जु भज्जे मइँ साहुसमीवइ ।
वम्म सुणेप्पिणु लडड खणु पढमजालि पडियहो मारेवइ ॥६॥

७

लेवि निवित्ति गपि सिप्पा णइ
पडिउ एक्कु पाढीणु गुरुक्कड
गड विणु हउँ निव्विन्नु नियत्तड
गड तुहुँ खल खवणयससग्गिण
जो गड रित्तहत्यु घर आवड
नीसरु जाहि जाहि जमथत्तिहे
गड उत्तर अदितु नियपत्तिहे
तत्थ सुयतु भुयगे डसियड
हुण पहाण मुड अहिणा दट्टड
तहो दुक्खेण मरेप्पिणु सरयहो

घल्लिउ जालु रुद्ध जलयरगइ ।
सो जे सरवारड' [मइँ] मुक्कड ।
ता रुट्टाण ताण अहिखित्तड ।
मारियाइँ सव्वइँ भुक्खग्गिण ।
सो किम घरिणिहे वयणु विहावड । ५
पडड वज्जु चडु वियहि वलत्तिहे ।
थिउ मुन्नहरि पडिप्पिणु रत्तिहे ।
निउ जीविउ जमघाडिण मुसियड ।
जोयतिण जमघटण दिट्टड ।
गय पाविट्ठिणि पचमनरयहो । १०

घत्ता—उज्जेणिहे उज्जमपरहो पुत्तु सत्थवाहहो बहुवित्तहो ।
हुड मो उयरि सिरीमइहे गट्ठि वणकित्ति गुणवालहो (?) ॥७॥

८

[.]
गुणवालपुत्ति राएणडभत्थिय (?)
गुणवालहु मणु तत्थ ण मणिणड
पुत्ति लेवि गड णियधणु मित्तहो
नियथी गट्ठिभणि तत्थ मुएप्पिणु
[.]
पेच्छिन्नि मो चरियाहे पइहुँ
[] पज्जय वरु गुणनामे
हा किहु जियड किलेनेँ दारड

[.]
मतिपुत्तपरिणयणि समत्थिय ।
तम्हा परदीवतरि चल्लिउ ।
थविवि तत्थ पुरि घरि सिरियत्तहो ।
गड गुणवालु निसल्लु हवेप्पिणु । ५
[.]
भणिउ जसोहरु माहु कणिट्टे ।
पेच्छह एहु कम्मपरिणामे ।
आयन्नहि ता भणइ भउारड ।

घत्ता—एहु वि एवहो तणण घरं पुन्नवसे गोसांमिउ होसड । १०
रायपसाणं पमारियड सोक्खपरंपराउ पावेसड ॥८॥

९

आयन्नेवि दियंवरजपिउ
 मुणिवरवयणु कयावि न चुक्कइ
 धीरे तो वि उवाउ करेवउ
 इय चित्तवि पाणिउ कोक्काविउ
 वालु भणेप्पिणु तेण वि रक्खिउ
 वहिणिवरेण पुत्तु करि पालिउ
 पाणकरे मारहुँ णेवाविउ
 तहिँ रुवंतु पालियगोविदे
 तेण सपुत्तु भणेवि अपुत्तहे
 ताग्र वि पुत्तसिणेहे वालउ

सिरियत्तहो भएण मणु कंप्पिउ ।
 नीसदेहु पमाणहो हुक्कइ ।
 जाणिवि दुन्निमित्तु वचेवउ ।
 मारहुँ सो रत्तहो नेवाविउ ।
 मारिउ भणिवि एवि तहो अक्खिउ । ५
 एक्कहिँ दिणि सिरिदत्ते आणिउ ।
 तेण वि णउ मारिउ सथाविउ ।
 दिट्ठउ गोउलियग्र गोविदे ।
 पालहुँ दिन्नु नेवि नियकतहे ।
 पालिउ जाउ जुवाणु गुणालउ । १०

घत्ता—एक्कहिँ वासरं गोउलहो कज्जत्थिउ वाणिज्जकलालउ ।
 परिपालियपडिवन्नयहो गउ गोविदहो घरु सिरियत्तउ ॥९॥

१०

पेच्छिवि पुच्छिउ गोउलवालउ
 गोविदेण भणिउ सुहयारउ
 वार वार पुच्छतहो अक्खिउ
 वणि वइयरु सुणेवि चिताविउ
 अज्ज वि करमि उवाउ वियप्पिउ
 पेसिउ नयरहो महुरु भणेप्पिणु
 उण्हालग्र खरतावाकतउ
 गणिय वसतसेण तत्थाइय
 छोडिवि कठि निवद्धउ वालग्र

नदणु कासु एहु गोवालउ ।
 किं न वियाणहि पुत्तु महारउ ।
 मित्ते मित्तहो गुज्जु न रक्खिउ ।
 एहु सो निच्छउ काणणि पाविउ ।
 लेहु लिहेप्पिणु तासु समप्पिउ । ५
 गउ सो पियराएसु लहेप्पिणु ।
 पुरपदेसि नंदणवणि सुत्तउ ।
 जीवियास न तासु पराइय ।
 लेहु विचारिउ बुद्धिविसालग्र ।

घत्ता—अवघारेवि लेहत्थु तग्र चित्तिउ आयहो रक्ख करेवी । १०
 नहसुत्तिए णयणजणेण जहिँ विसु तहिँ किय विस्सा देवी ॥१०॥

११

तेण कमेण पुणो गलगंठिउ
 गउ घरु पुच्छेप्पिणु पिउमित्तहो
 तेण वि किउ लेहत्थु रवन्नी
 पुज्जिउ जणि सव्वहिँ जामाइउ ।

गय सा सो वि सुएप्पिणु उट्ठिउ ।
 पुरउ निहित्तु लेहु तप्पुत्तहो ।
 निय सस तासु विवाहहुँ दिन्नी ।
 परमविहूइग्र पुत्तविराइउ

अन्नहिँ दियहे सेट्टि तत्थायड
 किड पडँ काडँ एड मुड भासिड
 आयन्नेवि एड उद्देए
 कि दुक्खडँ पियाण पुच्छिड वरु
 मभासमण देवि पुप्फक्खय
 मारणत्थु जहिँ पुरिमु पवेसिड

नियवि विवाहु विलक्खड जायड । ५
 तेण वि तहो लेहत्थु पयासिड ।
 थिड पडेवि चित्ताजरवेएँ ।
 तेण वि कहिड असेसु वि वइयरु ।
 गंध धूव नाणा चरु दीवय ।
 नायदेवदेउलु तहिँ पेसिड । १०

घत्ता—कहिँ चल्लिड जामाय तुहुँ पुच्छिड सिरियत्तहो^१ दायारँ ।
 तेण वि नायदेउ कहिड पुज्जहुँ सपेसिड तुह ताएँ ॥११॥

१२

भणड महावलु ताड गहिल्लड
 तुहुँ न वियाणहि मग्गु नवल्लड
 अप्पहि पुज्ज जामि नायालड
 तेण वि वलि मगतहो ढोडड
 तहिँ पडसतु समीहियदाणे
 मारिड सेट्टिहे पुत्तु पियारड
 मुड मुड जीवमाणु जामाडड
 उम्मुच्छिड कह कहव सदुक्खड

जो पडँ पट्टावइ एककल्लड ।
 नयरु महतु मिलइ कहिँ भुल्लड ।
 तुहुँ अच्छहि आवाणि^१ निहालड ।
 गयड महावलु काले चोइड ।
 मारिड सो सकेइयपाणे । ५
 जाणिड जणि जायड हा हा रड ।
 पेच्छेवि वणिवइ मुच्छ पराइड ।
 थिड तुण्हक्कड होवि विलक्खड ।

घत्ता—वोलीणहिँ कइवयदिणहिँ वणिणा गुणसिरि कत पउत्ती ।

जड जोयहि महु सोक्खु तुहुँ तो पाडहि आयहो समसुत्ती ॥१२॥ १०

१३

पियवयणेण ताण ना मोयय
 अप्पिय धीयहे एड करेज्जमु
 एम भणेप्पिणु अप्पणु वाहिरे
 पुत्ति निएवि भणिय भुक्खाडड
 अचट्ट ज सिद्धड त भोयणु
 ता ते प्रवियाणनिण दिन्ना
 मुच्छिड विमरमेण मुड वणिवड
 तहिँ पच्छावि पिया वि पडव्वय

किय विसगट्ठिभण परमामोयय ।
 ए पर नियभत्तारहो देज्जसु ।
 गय सपाडय वर्णे एत्थतरें ।
 छड्डेवि रज्जकज्जु हडँ आडड ।
 दे मखेवि म लायहि [तुहुँ] खणु । ५
 लड्डुय ताण विसमविमभिन्ना ।
 अबरु वि दुट्ठु लहड परि सगड ।
 विमु खाएप्पिणु पियपथे गय ।

घत्ता—मुड वणिनाहु नराहिवेण को वि नत्थिय मताणे मुणेप्पिणु ।

किड जामाट्ट सेट्टिपइ समुरहो तणड सच्चु घणु देप्पिणु ॥१३॥ १०

१४

जाणिवि जोग्गु सरूवु सलक्खणु
 निय सुय अद्धु रज्जु आणदे
 रायपसाएँ रज्जसमिद्धउ
 अच्छइ जाम भोय भुजतउ
 चरियहे^१ चारु चरतु^२ पइदुउ
 पडिगाहिउ भत्तिप्र भुजाविउ
 पुच्छिउ मुणिवइ पुव्वभवतरु
 पालिउ पइँ मुणिवयणु न खडिउ
 तहो फलेण सर आवइ पत्तउ

पडिवयणेण मुणेवि वियक्खणु ।
 दिन्न तासु वसुदत्तनरिदे ।
 जायउ सोमयत्तु सुपसिद्धउ ।
 रिसि जयकेउ नाम सपत्तउ ।
 सेट्ठिसुयावरेण घरि दिदुउ । ५
 पच्चपयारु दाणफलु पाविउ ।
 तेण वि कहिउ आसि तुहुँ धीवरु ।
 एक्कु मच्छु सरवारउ छडिउ ।
 मरिवि एह सपय सपत्तउ ।

घत्ता—मुणिवि विरत्तउ पुव्वभउ सोमयत्तु तवचरणु चरेप्पिणु । १०
 सिरिचदुज्जलु जसनिलउ गउ सव्वत्थविमाणु मरेप्पिणु ॥१४॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ।
 भुवणविदिदनामे सव्वदोमोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ जणमणाणदे ।
 एसो एउणतीसो नामेण दयाफलो सवी ॥

॥सधि २९॥

संधि ३०

१

मारेदि एगमवि जो जीवं सो बहुसु जम्मकोडीमु ।
अवसो मारिज्जतो मरदि विघाणेहिँ^१ बहुएहिँ ॥ [भ आ. ८०२]

जो मारेदि यो घातयति एकमपि जीव प्राणिनं स प्राणी बहुषु जन्मकोटिषु अवसो परवगो मारिज्जंतो मार्यमाणो म्रियते नानाविधानै म्रियत इत्यर्थ । अत्रार्थे यशोधराख्यान कथ्यते । सुप्रसिद्धत्वान्न लिखितम् । ५

पाणो वि पाडिहेर^२ पत्तो वि सुसुमारदहे ।
एगेण एगदिवसक्कदेणहिँसावदगुणेण^३ ॥ [भ० आ० ८२१]

चाण्डालोऽपि प्रतिहार्यं देवतापूजन प्राप्त विक्षिप्तो सुंमुमारनामनि गगाह्, दे । एकेन एकदिनकृतेन अहिँसाप्रतमाहात्म्येन । अत्राख्यान कथ्यते ।

धुवयं—अवरु वि जीवदयाहे फलु आहासमि सुदरु । १०
कासीदेसि अत्थि पयडु वाराणसि पुरवरु ॥

नियविहवोहामियसुरवरिंदु	एत्थत्थि पायसासणु नरिंदु ।	
तक्करकुडुवमीणउलजालु	जयदडनामु तहो कोट्टुवालु ।	
नियगोत्तकमायउ अत्थि पाणु	जमपासनामु ह्यचोरपाणु ।	
आढत्तुवसग्गु समच्छरेण	चिरवइरे केण वि वेतरेण ।	१५
जरसासखासवहुवाहिँघत्थु	जणु मरइ नयरि वड्डिउ अणत्थु ।	
निसिसमग्गु निरतर भूयपेय	भीसावहिँ जणु भीसण अणेय ।	
तं नियवि नरिंदे सत्तियम्मु	पारद्धु निवारिउ हिँसकम्मु ।	
दिवसट्टु करइ जो जीवघाउ	अविचारु तासु अवहरमि आउ ।	

घत्ता—एरिस पुहईसहो सुणिवि घोसण पुरलोएँ । २०
घरि घरि सत्तियत्थु रइउ नियनिययविहोएँ ॥१॥

१ १ मरदि वि वंवणेहिँ । २ पाडिहेर । ३ एगदिवसक्कदेण अहिँसावदफलगुणेण ।
४. पारदि ।

२

दाणइँ ष्हवणच्चणपुज्जणाइँ
 विहियाइँ विसेसे नायरेहिँ
 तत्थेक्कु अत्थि वणि धम्मु नामु
 वणि वज्जहो चुक्कउ कह व लद्धु
 जाणिवि गड्डुरिँ क्हिय सुद्धि
 वधाविवि कारागारि छुद्धु
 वोलति अट्टु दियहाइँ जाम
 पच्छा मारेवउ पावयम्मु

हिंसालियचोरियवज्जणाइँ ।
 किउ धम्मच्छउ परमायरेहिँ ।
 पाविट्ठु सुट्ठु पलकवलकामु ।
 मारेप्पिणु तेण उरब्भु खद्धु ।
 आयन्निवि राएँ सो कुवुद्धि । ५
 अवरु वि इय सिक्खइँ विसमलुद्धु ।
 खलु अच्छउ गोत्तिहेँ एउ ताम ।
 थिउ एम भणेवि ह्यारि सम्मु ।

घत्ता—ता तहिँ सव्वोसहिन्निलउ दूरुज्झिउ कामे ।

मुणि विहरतु पराइयउ अमिआसउ नामे ॥२॥

१०

३

थिउ एप्पिणु अइमुत्तए मसाणि
 फंसणमत्तेण वि गलिउ रोउ
 मुणिमाहप्पेण मुएवि ठाणु
 जमपासेण वि तत्थागएण
 निदिवि नियकम्मु सुणेवि धम्मु
 आवेप्पिणु पुरु पालियखणेण
 अक्खेज्जसु आरक्खियहो वत्त
 थिउ एम भणेप्पिणु ससि व मेहि
 ता मायगिय तत्थागएण

तहो पायमूलि दुक्खावसाणि ।
 सुहि अमरु सव्वु सजाउ लोउ ।
 गउ कत्थइँ वित्तरु मुक्कमाणु ।
 महरिसिवाएण वि गयगएण ।
 चउदसिहिँ विवज्जिउ हिंसकम्मु । ५
 सिक्खविय कत एयति तेण ।
 गउ गामहो करहुँ विवाहजत्त ।
 ल्हक्केवि पाणु पडसेवि गेहि ।
 पुच्छिय भडेण चोरक्खएण ।

घत्ता—वट्टए तुह वरइत्तु कहिँ ता तए जमदडहो ।

अक्खिउ वहिणिहेँ पाहुणउ गउ पोमिणिसडहो ॥३॥

१०

४

जो विणिवाएवउ अज्जु चोरु
 तं अवरु लएसइँ धणु वहुत्तु
 नत्थि त्ति वयणमत्तेण रहिउ
 ता भणिउ तलारे रे ह्यास
 तेण वि भयभीएँ नीसरेवि

तहो अत्थि विहूसणु हारु दोरु ।
 आयन्निवि ताए तलारु वुत्तु ।
 करसन्नए लोहवसाए क्हिउ ।
 नीसरहि तुरतु कयतपास ।
 भासिउ सो सगय कर करेवि । ५

मइँ साहुसमीवि सुणेवि धम्म
त खमहि पडिक्खहि अज्जु एककु
हउँ रायाएसे आउ एत्थु
सहुँ तलवरेण ता तत्थ पाणु

चउदसिहिँ विवज्जिउ हिंसकम्मु ।
निसुणेवि भणइ नासियनिरिक्कु ।
पइँ मुयवि न जामि समुच्चयत्थु ।
गउ जत्थच्छइ रिउत्तिमिरभाणु ।

घत्ता—तेण नवेप्पिणु विन्नविउ दरियारिकुलक्खउ ।

१०

साहुसमीवि पइज्ज मइँ पहु लइउ दयावउ ॥४॥

५

त तुज्भु पसाएँ गुणगणाल
मायगहो कवणु वयाहियारु
जइ केसवसिवकमलासणाहँ
ता मेल्लिउ होतउ निच्छएण
पेच्छह उव्वरइ न को वि ताहँ
किउ अज्जु अहिंसावउ पहाए
सुसुमार-
ता मेढयचोरे भणिउ पाणु
अवरेण वि केण वि हउँ निरुत्तु

निव्वाहमि मेल्लहि सामिसाल ।

वउ लइउ होतु दुहनासणाहँ ।

विनडिउ तुहुँ खलखवणयवएण ।

चडालु वि लाइउ नियवयाहँ ।

दहि धिवहि निसुभहि अनयकार ।

मइँ मारिवि रक्खहि निययपाणु ।

मारेवउ ता पाणेण वुत्तु ।

घत्ता—ज भावइ त होउ महु पइँ तो वि न मारमि ।

१०

गुरुवयणे अगीकरिय सपइज्ज न हारमि ॥५॥

६

त सुणिवि तलारे चोरमारि
अवरु वि जो खवणयवयइँ लेइ
पुरि भामिवि एम भणतएण
तहि धित्तु चोरु मयरेहिँ खद्धु
तहो तेत्थ सहेज्जउ जाउ धम्म
तहिँ सीहासणि ठविऊण पाणु
किउ दुदुहिसद्धु पससमीसु
निसुणहो भो जणहो मुणीहि दिन्नु
सो इहपरलोयविवेयहीणु
पुरि पिट्टिज्जंतु जियतएहिँ

वधेवि स परदव्वावहारि ।

सो एवविह आवइ लहेइ ।

निय सुसुमारदहु दो वि तेण ।

पुणु जणहो नियतहो पाणु छुद्धु ।

किउ तेण वलाहिउ पुलिणु रम्मु ।

पुज्जिउ सुरेहिँ पत्तो सुमाणु ।

तहिँ अवसरि भूयहिँ भूवईसु ।

जो छडावइ वउ मदपुत्तु ।

पावइ अवत्थ एरिस निहीणु ।

भामेप्पिणु एम भणतएहिँ ।

१०

घत्ता—नीयउ सुसुमारदहहो बंधेवि घिप्पतउ ।
रक्खि रक्खि जमपास मइँ जपिउ कपतउ ॥६॥

७

आयन्निवि भूयपिसायएहिँ
लइ आयहो ताणय न करहि तत्ति
पाणेण भणिउ कुलसामि एहु
खम किज्जउ मेल्लिज्जउ निरुत्तु
जइ जीविण तुह अत्थि कज्जु
जसमइ नियसुय न काचि देवि
तो नरवइणा घरि आणिरुण
पुरदेसहो कोसहो किंकराहँ
अद्धद्धु समप्पिवि जयपहाणु
कहिँ सो कहिँ एवविह विहूइ

जमपासु भणिउ सकसायएहिँ ।
दे दावहुँ खलहो कयतपत्ति ।
अम्हारउ पेक्खइ जणियणेहु ।
ता तेहिँ पायसासणु पउत्तु ।
तो एहु करेप्पिणु पाणभोज्जु । ५
परिणावहि अद्धउ रज्जु देवि ।
सकियायवत्ततले ण्हाणिऊण ।
सदणहँ तुरगहँ कुजराहँ ।
किउ राणउ अप्पसमाणु पाणु ।
अह धम्मफलेण न काइँ होइ । १०

घत्ता—त पेच्छेविणु अच्छरिउ दूरुज्जिभयच्छम्महो ।
लगउ जणु सव्वायरेण जिणभासियधम्महो ॥७॥

८

सच्च भणति रिसओ रिसीहिँ विहियाउ सव्वविज्जाउ ।
मेच्छस्स वि सिज्जति य विज्जाओ सच्चवाइस्स ॥ [भ० आ० ८३६]

सच्च सद्ब्रत वदन्ति । के ते ? ऋषयो मुनय । ऋषिभिश्च विहिता सर्वविद्या म्लेच्छस्यापि
सिध्यन्ति विज्जाउ विद्या । कथभूतस्य ? सत्यवादिन । अत्राख्यानम् ।

इह भरहि दक्खिणावहि विसालि
देवाण वि दुग्गु मणोहिरामु
वारह गाउयइँ न कसु वि तसइ
तत्थत्थि विवत्थि विवाहकालि
पुव्व चिय साधिवि वभचेर
नारी नरु वे वि कुमारयाइँ
एयत्थ तत्थ निवसत्तयाहँ
दुग्गगगु चितियसयलकज्ज
चुगु वभे सच्चवगु जणियरिद्धि

गिरिमलयखडि विसयहँ विचालि । ५
सुपसिद्धु अत्थि मायगनामु ।
तहो उप्परि सवरहँ देसु वसइ ।
सवच्छरद्धु गहणतरालि ।
सच्चिण विज्जा ढोयति थेर ।
त साहहिँ साहियमारयाइँ । १०
पालियदिढसच्चवयाहँ ताहँ ।
सिज्जइ साहतहँ सवरविज्ज ।
न कयावि हवइ तहो तणिय सिद्धि ।

सच्चेण सिहि वि सीयलु हवेइ
सच्चेण नरहो देव वि नमति
तउ सजमु सीलगुणा वि सव्व

सच्चेण अथाहु वि थाह देइ ।
वसि होति भूय रक्खस तसति । १५
सच्चम्मि परिट्टिय गलियगव्व ।

घत्ता—अह वा किं बहु जपिण्ण सयलु वि संपज्जइ ।
एक्के सच्चे होतण्ण मोक्खु वि पाविज्जइ ॥८॥

९

पावस्सासवदार असच्चवयण भणति हु जिणिंदा ।
हियएण अपावो वि हु मोसेण वसू गदो निरयं ॥ [भ० आ० ८४८]

पापस्यान्वद्वार ब्रुवन्ति । के ते ? जिणिंदा सर्वज्ञा । किं तद् ? व्यलीकवचनम् ? हृदयेनापापो
पि हु स्फुट मोसेण असत्यवचनेन गतो नरकम् । कोऽसौ ? वसुनामा वसुधाधिप ।

आयन्नह वसुरायकहाणउ
नयर अउज्झा नाम रवन्नउ
तहिँ विस्सावसु नाम नरेसर
सुरकन्न व सुरकन्ना राणी
नदणु जणिउ ताणुँ नामे वसु
रायहो वभणु खीरकलवउ
तहो कतणु सत्थमइणु जणियउ
सत्थइँ पढहुँ पुत्तु पाणप्पिउ
वंभणु विज्जत्थियउ विक्खायउ
ते त्तिन्नि वि वसुनारयपव्वय

अत्थि विणीदादेसि पहाणउ । ५
न सुरिदपट्टणु अवडन्नउ ।
करइ रज्जु ण सग्गि सुरेसर ।
अत्थि तासु जुवइजणपहाणी ।
किउ अरिवग्गु जेण सयलु वि वसु ।
विप्पायारहो न पडिंविउ । १०
णदणु पव्वउ नामे भणियउ ।
वसु उवभायहो तासु समप्पिउ ।
अवरु हि नारउ नामे आयउ ।
पढहिँ सीस आराहियगुरुपय ।

घत्ता—चउदसविज्जायाणघरु अणवरउ पढावइ । १५
वसुहे पढतहो नारयहो सखेवेणावइ ॥९॥

१०

पव्वउ बहुसथहिँ वि न वुज्झइ
तुहुँ विउसन्भावेण पढावहि
तुहुँ वे वडु उव परउवयारिउ
जइ तुहुँ सन्भावेण पढावहि
तो ते सिक्खिय केम न नदणु
पभणइ भट्टु न किं पि वि वुज्झहि
६ १ सए ।

भट्टिणि भट्टहो उवरि विरुज्झइ ।
नदणु एवमेव भखावहि ।
पइँ सुउ सव्वकालु अवहेरिउ ।
वेयसडगमग्गु दरिसावहि ।
निच्छउ तुहुँ नियसतइमदणु । ५
मुद्धि अकारणु काइँ विरुज्झहि ।

तुह सुउ मदबुद्धि किं कीरइ
घोसतहो बहुदिणहिं निरतर
एरिसु वार वार अक्खइ पइ

नियमइ अन्नहो देहूँ न तीरइ ।
एयहो एइ कि पि पउ अक्खरु ।
तो वि न थक्कइ गरहती सइ ।

घत्ता—हक्कारिवि एककहे दियहे चितवियउवाए ।

१०

घरिणिहे पच्चयत्थु' भणिय ते तिन्नि वि ताए ॥१०॥

११

गपिणु हट्टु कवड्डा देप्पिणु
त निसुणेविणु चितइ पव्वउ
खाएवि चणय कवड्डा आणहुँ
इय चितेवि वराडय देप्पिणु
एत्तहिं सुदरबुद्धि विसारय
वणियहो तत्थ कवड्डा देप्पिणु
लेहूँ न ए विरुव पभणेप्पिणु
आणिवि ढोइय गुरुहे नवेप्पिणु
सत्थिमईहे वयणु जोएप्पिणु
पेच्छहि नियपुत्तहो मुखत्तणु

भक्खिवि चणयावह ते लेप्पिणु ।
ताउ गहिल्लउ न वियाणइ नउ ।
उक्कुरु' देति पसारिय जाणहुँ ।
आगउ सो चणया खाएप्पिणु ।
गय हट्टहो विन्नि वि वसुनारय । ५
गेण्हिवि चणय थोव खाएप्पिणु ।
तहो जि समप्पिवि सुव्वा लेप्पिणु ।
ते निय निय वइयरु पुच्छेप्पिणु ।
भासिउ भट्टे ईसि हसेप्पिणु ।
एयहूँ तणउ कते धुत्तत्तणु । १०

घत्ता—अन्नहिं वासरि ताहूँ पुणु एककेक्कु समप्पिउ ।

समउ कवड्डुएहिं घडउ उवभाएँ जपिउ ॥११॥

१२

पुत्तहो हट्टि एउ धणु देप्पिणु
सहुँ मोल्लेण लेवि एत्थावह
त निसुणेप्पिणु पुव्वकमे पुणु
आणवि तुप्पहो कुभ समप्पिय
तो वि न थक्कइ सा गरहती
तुह सुउ सिंगहीणु पसु सच्चउ
एम भणेप्पिणु ताणेक्केक्कउ
भासिउ न निहालइ काइ वि जहिं
त निसुणेप्पिणु पव्वउ रन्नहो
तत्थ उरब्भहो कन्न लुणेप्पिणु

ए तिन्नि वि घड घियहो भरेप्पिणु
नियमइविहवु मज्झु दरिसावह ।
तेहिं पयासिउ निय निय मइगुणु ।
पुणु पुव्वुत्तु वुत्त विप्पे पिय ।
अन्नहिं दियहिं दिएण पउत्ती । ५
लइ अवरु वि दक्खालमि पच्चउ ।
सहुँ सत्थेण समप्पिवि वोक्कउ ।
कन्न लुणेवि एह एयहूँ तहिं ।
गउ नाणाविहतरुसच्छन्नहो ।
आगउ तायहो कहिउ णवेप्पिणु । १०

१० १ एच्चयत्थु ।

११ १ दुक्कुरु ।

घत्ता—वसुनारय वि निएवि तहिँ भमिऊण पराडय ।
पुच्छिय खीरकलवएण विणएण विराडय ॥१२॥

१३

किमक्खयकन्न उरव्व लएवि
पउत्तु विणेयहिँ दिट्ठविणोउ
दिवायरचदगहा गयणमि
गिरिदगुहाहिँ गुणायरभूव
रसातले पन्नय सग्गि सुरोहु
पउत्तउ तुम्हहिँ को वि न जत्थ
तिलोए असेस पएस असुन्न
सुणेप्पिणु एउ पहिट्ठमणेण
समेउ सकतए वोल्लिउ विप्पु
न लज्जइ तद्विसावहि सा वि
परिक्खिय सीसहँ वुद्धिविसेसि

समागय विन्नि वि तुम्ह भमेवि ।
पलोयइ पट्टणि पट्टणलोउ ।
तिरिक्ख तरु वणदेव वणम्मि ।
नियच्छहिँ अम्हहँ पच वि भूय ।
निहालए पुत्तविहत्तजसोहु । ५
निरिक्खए कन्न लुणेज्जहे तत्थ ।
ते केव लुणिज्जहिँ एयहँ कन्न ।
हसेप्पिणु सीस पससिय तेण ।
पलोइउ पुत्तहो वुद्धिवियप्पु ।
पयपइ किं पि अणिट्ठु कयावि । १०
कयाइ वणम्मि विमुद्धपएसि ।

घत्ता—ताणेयते पढताहँ तहिँ वड्डारन्नउ ।
आइउ चारणमुणिजुयलु बहुगुणसपन्नउ ॥१३॥

१४

ते निएवि नवनीरयसद्दे
पेच्छह जिह आयमु अम्हारए
खेत्तसुद्धि कारुण पढिज्जइ
ए अन्नाण विवेयविवज्जिय
आयमो वि मिच्छायमु आयहँ
इय विणएण जि एउ पढंतहँ
मरिवि महानरयहो जाएसहिँ
एम भणेप्पिणु आयासहो मुणि
ताहँ समीवि समासियमग्गा

पभणिउ वीरभद्दु सिवभद्दे ।
विणएण जि तिह एयह केरण ।
गणिणा त निमुणेवि भणिज्जइ ।
कुगुरुकुदेवधम्मगुणरजिय ।
दुग्गइकारणु जीवनिकायहँ । ५
एयहँ मज्झि दोन्नि दियपुत्तहँ ।
दूसहदुक्खसयाइँ सहेसहिँ ।
ओयरेवि तरुमूलि महामुणि ।
होएवि सुयपरिवाडिहँ लग्गा ।

घत्ता—आयन्नेप्पिणु विप्पवरु मणि चितइ सच्चउ ।

एउ कयाइ न मुणिवयणु सभवइ असच्चउ ॥१४॥

१०

१५

ए अज्ज वि अपाव जणपुज्जिय
 एयहुँ मज्झि पढमु जाएवउ
 जामज्ज वि ण जामि णरयावणि
 ते तित्थि वि तेणेउ वियप्पिवि
 अप्पणु पुणु निव्वेएँ लइयउ
 एत्तहि वेलाडक्कमि जायग्र
 पुत्तहो ताउ काइँ तुम्हारउ
 अम्हइँ पेसेवि अक्खइ पव्वउ
 नदणु सत्थिमईए तउ तहिँ

वभयारि विसएहिँ विवज्जिय ।
 मइँ पावेण नरग्र पइसेवउ ।
 सरणु पईसमि ताम महामुणि ।
 पेसिय घरु समिहाउ समप्पिवि ।
 साहुसमीवि विप्पु पव्वइयउ । ५
 पुच्छिय नदण दियवरजायग्र ।
 अज्ज वि नावड लोयपियारउ ।
 एउ न जाणहुँ ताउ कहिँ गउ ।
 पेसिउ चत्तु जणेरु वणे जहिँ ।

घत्ता—ससहाएण तेण वियणे जोयते दिट्ठउ ।

१०

हुउ त्तिग्गथु महासवणु तरुमूलि निविट्ठउ ॥१५॥

१६

पव्वएण त तेम निएप्पिणु
 हा हा कि किउ एम भणेप्पिणु
 परिहणु पाणहियाउ लएप्पिणु
 अप्पिवि कहिउ जणेरिहे वडयरु
 त सुणेवि हा नाह भणती
 उट्ठिउ दुक्खु दुक्खविदाणी
 ता पव्वउ पिउपइ आरूढउ
 नियमइविहवे ज जिह जाणइ
 एत्थतरि विस्सावसु राणउ
 खीरकयवायरिउ पससिवि

अम्हइँ ताय अणाह मुएप्पिणु ।
 सुइरु रुएप्पिणु पय पणवेप्पिणु ।
 जन्नोवडउ पवित्तिउ नेप्पिणु ।
 जिह सजायउ ताउ दियवरु ।
 पडिय धरायलवीढि रुयती । ५
 थिय निदेवि विप्पु विप्पाणी ।
 हुउ आयरिउ सव्वजणरूढउ ।
 त तिह विप्पसयहो वक्खाणइ ।
 आयन्नेविणु वत्त सयाणउ ।
 पुत्तकलत्तमोहु परिसेसिवि । १०

घत्ता—अप्पिवि वसु वसुमइ सुयहो निग्गथु हवेप्पिणु ।

हुउ जइ जिणवयणासियउ गुरुपय पणवेप्पिणु ॥१६॥

१७

रज्जि वड्ढे हक्कारेप्पिणु
 भणिय माय मग्गहि गुरुदक्खिण
 जइयहुँ मग्गेसमि गुरुवच्छल

वसुणा उज्झाइणि पणवेप्पिणु ।
 मणि परिभाविवि भणइ वियक्खण ।
 तइयहुँ त देज्जसु जसनिम्मल ।

एम होउ भणिऊण विसज्जिय
तामेक्कहिँ दिणि पहयकरिदे
पारद्धिहे गएण हरिणहो सरु
चुक्ककुरगु वाणु पडिखलियउ
विभिणएण करफसे जाणिउ
गपिणु जाणाविउ वसुरायहो
जिह न मुणइ जणु तिह आणाविउ
तामु उवरि सिघासणि राणउ

गय गुरुपत्ति निहेलणु पुज्जिय ।
काणणम्मि एक्केण पुलिदे । ५
आमेल्लिउ नित्तुणउ खयकरु ।
लग्गिवि फलिहयभि उच्छलियउ ।
उप्पाडिवि नियभदणहो आणिउ ।
तेण वि दिनु पसाउ किरायहो ।
निय सहमडवम्मि रोप्पाविउ । १०
सहइ निसनु मुरिदसमाणउ ।

घत्ता—अतरिक्खि सच्चेण वसु सिहासणि अच्छइ ।

हुय पसिद्धि कोडुण जणु विभियमणु पेच्छइ ॥१७॥

१८

फलिहयभि तह निम्मलि सठिउ
उवरिचरो त्ति पयासियनायहो
तामेक्कहिँ दिणि वुद्धिविसारउ
दिट्टउ पव्वउ किउ सभासणु
विहिय पव्वएण कायव्व
पुच्छिउ नारएण भो पव्वय
अय छेलय पव्वएण पउत्तउ
पव्वय सुमिरिह कि न गुरुत्तउ
जे जायति न ते अय ताएं
तेहिँ हुणेवउ घम्मासत्ते

मन्निवि लोएँ गयणि परिट्टिउ ।
वीयउ कियउ तामु वसुरायहो ।
आगउ गुरुमुयनेहे नारउ ।
अवरंप्परु चिरनेहपयासणु ।
आयन्नेवि अएहिँ जट्ठवं । ५
अक्खहि वधव कि मन्नहि अय ।
भासिउ इयरे एउ अजुत्तउ ।
अय तिवरिस जववीहि निरुत्तउ ।
वक्खाणिय बहुवुद्धिसहाए ।
पसु पिट्टमउ करेप्पिणु मते । १०

घत्ता—एवमाइ मुणिवयणु अपमाणु न किज्जइ ।

त अपमाणु करताहँ नरयम्मि पडिज्जइ ॥१८॥

१९

इय अन्नोन्नविवाए कड्डिउ
अमुणियत्थु जडु रोसहो आयउ
जइ अन्नारिमु तो महु केरी
एम होउ सुंदरु मइधामे
वसु पमाणु कल्लए वोल्लेवउ

दोहँ वि सीसहँ कलहु पवड्डिउ ।
पव्वउ कयपइज्जु सजायउ ।
जीह लुणिज्जइ अह व तुहारी ।
त पडिबन्नउ नारयनामे ।
नियवयणु सहाए दिट्ठेवउ । ५

गउ घरु विमणु निएप्पिणु मायए
 आवहि निच्चमेव सुच्छायउ
 दीसइ सयवत्तु व पप्फुल्लिउ
 तेण वि वइयरु कहिउ सुणेप्पिणु

पुच्छिउ पव्वउ वच्छलवायए ।
 अज्जु सुपुत्त काइँ विच्छायउ ।
 अज्जु काइँ तुह मुहु ओहुल्लिउ ।
 पभणइ मायरि सिरु विहुणेप्पिणु ।

घत्ता—हा सुय विरुय पइज्ज किय तुह ताउ सइत्तउ । १०
 अय तिवरिस जववीहिकण सुउ वक्खाणत्तउ ॥१९॥

२०

हुँ मिच्छाहिमाणदप्पे हउ
 जाणतेण वि दुक्कियगारी
 कहसु केम एवहिँ कि किज्जइ
 अत्थि उवाउ एक्कु ओलग्गमि
 आसि दिन्न गुरुदक्खिण सारी
 एम भणेवि माय वसुरायहो
 तेण वि कणयासणि वइसारिय
 पुच्छिउ कहसु माए कि किज्जउ
 त निमुणेप्पिणु वसुणा वुत्तउ

.... ।
 किय पइज्ज मइँ जीवियहारी ।
 एउ सुणेवि ताए वोल्लिज्जइ ।
 गपिणु वसु पुहईहरु मग्गमि ।
 पुज्जइ जेण पइज्ज तुहारी । ५
 गय सामीवु भुवणविक्खायहो ।
 पणवेप्पिणु पडिवत्ति समारिय ।
 भणिउ ताए गुरुदक्खिण दिज्जउ ।
 ज भावइ त मग्गि निरुत्तउ ।

घत्ता—भासिउ ताए पहाइ इह सगहियकसाएँ । १०
 नारय पव्वय वे वि जण आवेसहिँ वाएँ ॥२०॥

२१

तुहुँ पमाणु किउ पइँ न हणेवउ
 पत्तिउ मग्गिओ सि अणुराए
 दिन्नासीसवयण परिपुज्जिय
 ता ते पसरि वे वि तत्थाइय
 नारएण वसु सच्चे साविउ
 जाणंतेण वि एउ अजुत्तउ
 अह उवरोहे काइँ न किज्जइ
 सहँ सीहासणेण खडहडियउ
 पभणइ नारउ अज्ज वि सच्चउ
 पुणरवि तेण त जि आहासिउ

पव्वयवयणु पमाणु करेवउ ।
 ता पडिवन्नु वयणु वसुराएँ ।
 पणवेप्पिणु गुरुभज्ज विसज्जिय ।
 सम्माणिय निवेण गुरुदाइय ।
 तेण वि ताहँ वयणु परिभाविउ । ५
 पव्वयवयणु पमाणु पउत्तउ ।
 किं अग्नि नियसीसु वि दिज्जइ ।
 वसु अलिणयायासहो पडियउ ।
 चवहि नरिंद नियच्छहि पव्वउ ।
 चलइ मणा वि न पव्वयभासिउ । १०

एम भणतउ लोएँ दिट्टउ

महिविवरतरि अद्धु पड्डुउ ।

तइयण वारण दुक्ख करालहो

गउ मरेवि सत्तमपायालहो' ।

घत्ता—पेच्छह मुणिसिरिचदजसु पुहईमु वि होतउ ।

एक्केण जि अलिण वसु नरयावणि पत्तउ ॥२१॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाने अत्यमदोहमाले ।

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोमे मुदरे दिन्नतोमे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते नुविचित्ते एत्थ जणमणाणदे ।

वसुनिवनरयपवेमो नाम इमो तीममो सवी ॥

॥ सधि ३० ॥

संधि ३१

१

ध्रुवय—दूरुज्झिभयतावे सच्चपहावे नारउ परिपुज्जिउ सुरहिं ।
वित्थारिवि दुज्जणु सच्चविवज्जणु पव्वउ नीसारिउ नरहि ॥

पत्तावमाणु विच्छायतणु
एत्तहे कुरुजंगलजणपउरे
महएवि तासु नामे अतिही
हुय तहे सुय सुलसा हसगई
एत्तहे पोयणपुरि पुहहवई
तहो देविण अमरमणोहरिए
नामे महुपिगलु मयणसमु
तहो सुलस निवेण सुजोहणेण
पडिवन्न आसि सहसगहणु

गउ पव्वउ कहिं वि पइट्ठु वणु ।
नरनाहु सुजोहणु नायपुरे ।
सइ सोहणगुण लायन्ननिही । ५
नियरूवोहामियरभरई ।
नामेण सुपिणु विसुद्धमई ।
सजायउ पुत्तु मणोहरिए ।
दरियारिदप्पनिद्वलणखमु ।
निय वहिणीउत्तहो सोहणेण । १०
अज्ज वि न होइ पाणिग्गहणु ।

घत्ता—उज्झहे सिरिसारउ वइरिवियारउ अत्थि सयरु नामे निवइ ।
वसुरायहो नदणु नयणाणदणु नावइ सग्गि सुराहिवइ ॥१॥

२

निसुणेवि अणोवमरूवसिरी
अणुराइउ पुहईसरु सयरु
गतूण तेण करिनायपुरु
तेण वि पउत्तु जसनिम्मलहो
इय कहिउ अमच्चे एवि तहो
किं किज्जइ जेण मरालगई
विणु ताण्ण निरुत्तउ महु मरणु
पहु एम भणतु निवारियउ
जिह पावइ सा तुह तिह करमि
इय भणिवि सुहासुहफलदरिसु

सा सुलसा न पच्चक्ख सिरी ।
सपेसिउ मग्गहुं मतिवरु ।
पत्थियउ सविणएँ कन्न कुरु ।
मई दिन्न धीय महुपिगलहो ।
सजाय चित वसुहाहिवहो । ५
पाविज्जइ सा पच्चक्खरई ।
अत्थक्कइ दुक्कउ जमकरणु ।
मतीसरेण साहारियउ ।
अह नं तो हुयवहि पइसरमि ।
सामुदुउ चिरपोत्थयसरिसु । १०

रडऊण तेण परिवाड्यहे
सा विण्हुदत्त नामेण तर्हि

अप्पिउ सव्वत्यसमाइयहे ।
गय त लएवि सा मुत्तस जर्हि ।

घत्ता—वम्महसरभत्थहँ पासयसत्थहँ हरिमु जणतिए ऊणहियए ।
नवकचणवन्नहँ अग्गए कन्नहँ त वायहुँ आढत्तु ताए ॥२॥

३

विउलईं नियव मुहकमलु उरु
तणु मज्झु कवोलु गुप्फसहिउ
पय नक्क कियाडी भालयलु
रत्ताईं सत्त जीहाहरइ
सुण्हाईं रोम तय रय' नहइ
मडहाईं लिंगजघाजुयइ
आणदियजणमणइक्खणइ
हलमुसलकलसपासायउसा
अवरईं वि कमलकुलिसकुसइ
दीसत्ति जासु सो पुहइवर

गभीरईं नाही सत्तु मुरु ।
मुहभायणु अवरु उयरु कहिउ ।
जपणु वि समुन्नउ वच्छयलु ।
कर कम मणि नयण नहईं वरइ ।
अगुलिपव्वाड पच सुहइं । ५
सहुँ गीवईं पट्टि पच थुयइ ।
एयईं सुपसत्थईं लक्खणइ ।
करि चक्कमयरजुवमालरसा ।
छत्तद्वयतोरणपट्टिसइ ।
अणुहुजइ रज्जु जेम सयर । १०

घत्ता—एयाईं पसत्थईं जणियसुहत्थईं उत्तमपुरिसहँ लक्खणइं ।
पयडियसंतावे पावपहावे सेसईं होति अलक्खणइ ॥३॥

४

पंचास दोस फुडु अधलए
खुज्जइ दोसय वहु दुहजणणा
वरु अधु न काणउ कायरउ
वरि एउ न दिट्ठु अमगलउ
महुर्पिगु विवाहइ जा जुवईं
अह किं बहुणा कयतडवइ
पइसार देइ जो पिंगलहो
सो सईं हत्थे दुहवत्तणउ

काणम्मि सट्ठि सउ पगुलए ।
महुर्पिगलि दोस अणंतगुणा ।
वरि काणउ होउ म केयरउ ।
सव्वहँ विरुद्धु महुर्पिगुलउ ।
सा होई रउ न लहइ रई । ५
समयम्मि विवाहहो मडवइ ।
पाविट्ठहो सुद्धु अमगलहो ।
नियसुयहे देइ विहवत्तणउ ।

घत्ता—आयन्निवि वाली चलभउहाली महुर्पिगुवरि विरत्तमण ।
जाणेप्पिणु धुत्तिए कुवलयनेत्तिए पव्वइयए जणमणदमण ॥४॥ १०

५

मई सयल पलोइय पुहइवई
 दूरज्जिभय दुक्कियलछणइ
 जसु पोरिसु साहसु सीलु कुलु
 रक्खियछलु वइरिविणासकर
 नियरुवोहामियउछधणू
 चिरु घोर वीरु तउ जाग्र किउ
 आयन्नवि गुण अणुराइयए
 कहि केम भडारिग्र मज्झु वरु
 निसुणेप्पिणु त तवसिणि चवइ
 परिहरिवि असेस नराहिवई

पर सयरहो का वि अउव्व गई ।
 अन्नहो तारिसई न लक्खणइ ।
 अन्नहो कहो सपय बुद्धि वलु ।
 को वरु मग्गणजणकप्पतरु ।
 अह किं वन्निज्जइ सव्वगुणू । ५
 सा जइ पर पावइ सयर पिउ ।
 सा भणिय सुजोहणजाइयए ।
 सो सूहउ होइ अणगसरु ।
 जइ होइ सयवरु तो हवइ ।
 तहो धिप्पइ माल मरालगइ । १०

घत्ता—आयन्नवि कन्नग्र एउ पसन्नग्र भणिय जणणि जाएवि घरु ।

मेलावियवहुवरु मज्झु सयवरु कारावहि अवरोहकरु ॥५॥

६

महएविग्र भणिउ नराहिवई
 सव्वेहिँ मि मन्निउ एउ वरु
 सुमुहुत्ते सव्व समग्गि किया
 निग्गय कुमारि कोड्डावणिया
 पेच्छेवि जंति वचेवि सई
 कासु वि उरि खुत्तउ कामसरु
 कासु वि गरुयारउ विरहजरु
 नीससइ सुसइ को विमणु मणु
 केण वि नियरज्जहो लइउ खणु
 इय वियल कुणति नरेदसया

तेण वि आलोइउ मतिमई ।
 हक्कारिउ आइउ वरनियरु ।
 कचणमयमचहिँ राय थिया ।
 न हत्थभल्लि कामहो तणिया ।
 कासु वि हुय दुत्तर दुक्खनई । ५
 मुच्छाविउ पाविउ को वि नरु ।
 उप्पन्नु असइलु डाहजरु ।
 कासु वि सपाइउ जमकरणु ।
 जइ एह न तो तववहु सरणु ।
 जहिँ सयरु महीवइ तेत्थु गया । १०

घत्ता—महुपिगलु चत्तउ दइवायत्तउ कज्जु पयत्ते परिणवइ ।

सयरुवरि रवन्नग्र^१ पेच्छह कन्नग्र घित्त माल मणिपुप्फवइ ॥६॥

७

सजाउ विवाहु विसन्नमणा
 चारणमुणिपासि विहूयरउ

गय नियनियनिलयहो सव्व जणा ।
 महुपिगलेण सगहिउ तउ ।

कह एह मल्लितित्यकरहो
 बहुदिवसहिं महि विहरतु गुणी
 चरियहे पडट्ठु चरियावसरे
 तहिं सुदर लक्खणलक्खधर
 मग्गिय वइसाणर वणिहे पिया
 तेणुत्तु डहेवउ एहु मड
 जारिसइँ अगि आयहो तणए
 तारिसइँ रज्जु भुजइ पुहई

उप्पन्नि तित्थि भवभयहरहो ।
 आउउ अउउअ मर्हापणु मुणी ।
 थिय मायरदत्तहो तणए घरे । ५
 विप्पेण निएप्पिणु मुणिपवरु ।
 किं कारणु ताए वि पुच्छ किंया ।
 सामुद्धियसत्थु असच्चु मडं ।
 लक्खणडं अणेयडं भोहणए ।
 किं होइ एहु निग्गथु जई । १०

घत्ता—ता ताए पउत्तउ विप्प निरुत्तउ मक्कु व सुहसपयपयरे ।
 पुहईवइ होतउ रज्जु करतउ एहु आसि पोयणनयरे ॥७॥

८

सुलसाहि निमित्तु जणच्चियउ
 नियमति वुत्तु रजियमणउ
 त मुणिवि विरत्तए परिहरिउ
 अहिमाणे तेण विरत्तमणु
 आयन्निवि नासियधम्मजसु
 हुउ असुर देउ भावणभवणे
 कमलासणरुउ^१ करेवि तहिं
 बोल्लाविउ पव्वय परमपरु
 सुदर सयभु गायति वर

सयरेण एहु मुणि वच्चियउ ।
 किउ तेण वि लक्खणु अप्पणउ ।
 सुलसाए एहु वसुमुउ वरिउ ।
 हुउ रज्जु मुएवि एहु सवणु ।
 गउ मुउ कोहेण नियाणवमु । ५
 पुव्वित्तु वइरु सभरिवि मणे ।
 आगउ वणि पव्वउ वसइ जहिं ।
 हउँ भवणपियामहु तिजगगुरु ।
 उक्किट्ठु जेट्ठु जगसिद्धिकरु ।

घत्ता—चउवेयपयासणु पावपणासणु कमलजोणि गुणि चउवयणु । १०
 लोयहिं अवमाणिउ तुहुँ मई जाणिउ तेण एत्थ किउ आगमणु ॥८॥

९

तुह कारुन्नि आसाइयउ
 जड्ढव्वु अएहिँ एउ वयणु
 तुह ताएण वि न वियाणियउ
 तित्तराण वीहि न हवति अया
 उट्टेहि एहि लड जाहुँ जणु

हउँ वभु वभलोयाइयउ ।
 हउँ वुज्झमि एक्कु नाणनयणु ।
 विवरीउ लोए वक्खाणियउ ।
 अय छाग हुणेवहो तेहिँ सया ।
 पडु जावमि दावमि जन्नगुणु । ५

वयणेण एण परिओसियउ
पव्वउ तहो भत्तिभारनडिउ
पडं दिट्ठे हिरन्नगम्भसवइ
सिद्धति तविक तुहँ वायरणे
तुहँ नाणि भाणि तवमतपए

रोमचु निरतरु दरिसियउ ।
जय जय भणेवि पायहिँ वडिउ ।
दुक्कियमलु सुक्कियउ सभवइ ।
तुहँ वेयपुराणि पावहरणे ।
सव्वत्थ परिट्ठियउ तुहँ जि जए । १०

घत्ता—इय थुणिवि रवन्नउ सिरिसपन्नउ तेण समउ गउ सो नयरु ।

आयन्निवि आयउ जयविक्खायउ वभु सइ तोसियउ सयरु ॥६॥

१०

तहिँ जन्नविहाणु समाढविउ
सिहिहुणियहँ नियवि सुरत्तणउ
सग्गाउ विमाणाखुडु पुणु
हो असुरपवचु न भावियउ
सयरम्मि विणासिण्ण सयरपिया
चारणमुणिणा अडमुत्तएण
मेल्लाविय मारिज्जति वणे
मारेप्पिणु सयरु सपरियणउ
गउ असुरकुमारु पहिट्ठु मणे

वहुवाहिहिँ सव्वु लोउ खविउ ।
सव्वेहिँ हुणाविउ अप्पणउ ।
आवतु निएप्पिणु हुणियउ जणु ।
सयरेण वि देहु हुणावियउ ।
अमुरेण दूरि अवहरिवि निया । ५
नियवधवेण गुणजुत्तएण ।
सठिय वेरग्गे तवयरणे ।
साहेवि वइरु घरु अप्पणउ ।
तइयहँ हुउ जन्नविहाणु जणे ।

घत्ता—सिरिचदु व सारउ लोयपियारउ नारउ सच्चे सग्गु गउ । १०

वसुपव्वय पावे अलियपहावे नरउ पइट्ठा सत्तमउ ॥१०॥

उक्त च—नभग्गर सर्वजनप्रधानो वसुर्महात्मा वसुधातलेऽस्मिन् ।

एकेन मिथ्यावचनेन राजा रसातल सप्तममाससाद ॥१॥

साकेतपुर्या सुलसानिमित्त कृत निदान मधुपिगलेन ।

परोपराभ्यागमन च तस्या. को नाशृणोत् भारतजातमर्त्य ॥२॥ १५

विविहरमविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे मुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।

एणो जन्नुप्पत्ती एयाहियतीसमो सधी ॥

संधि ३२

१

ध्रुवय—धणु वाहिर पाण तेण हिए हिउ मिग्गमन्नु ।
जणधणसोएण मग्ग म्यउ हा न्वमुहन्नु ॥

निसुणिज्जउ जणवण पारयत्ति
गोदासु अत्थि नरवइपहाणु
धणकणममिद्धु पत्तावराह
ज अत्थि कि पि त लउउ सव्वु
पुक्कारइ पुरि विलवइ वराउ
किउ सयणहिं तहो विविहोवयात्
केण वि पउत्तु जइ नियउ दव्वु
ता लोयहिं आणिवि अत्थु तामु
त एक्कु मुहुत्तु वि नाहि मुयइ
खणि गणइ निहालइ सवरेवि
कडवयदिणेहिं सजाउ मत्थु

पुरि चित्तकूडि मपयविचित्ति ।
वणिवइ समुहट्ठाहिहाणु ।
सो राए ढडिउ करिवि गाहु । ५
सजाउ अक्किचणु गनियगव्वु ।
निक्किट्ठु न्वयहो न्वरदइ जाउ ।
पर तो वि न गउ उवममु वियारु ।
ता एहु निरत्तउ होउ भव्वु ।
दाविउ निएवि सजाउ तोमु । १०
आनिगइ हियइ धरेवि स्यइ ।
खणि छोउइ खणि ववइ धरेवि ।
निउ लोयहिं अप्पणउ अत्थु ।

धत्ता—जाणेप्पिणु एउ दूग्गभह परधणहरणु ।

हा तम्मि कयम्मि किउ निरुत्तु मण्यहो मरणु ॥१॥ १५

२

परदव्वहरणवुद्धी सिरिभूदी नयरमज्झयारम्मि ।

होदूण हदो पहदो पत्तो दीह च ससार ॥ [भ० आ० ८७३]

परदव्याहरणमति श्रीभूतिर्नामा राजपुरोहित प्राप्त । क ? दीर्घसमारम् । कि कृत्वा ?
होदूण भूत्वा । कथंभूतो ? हदो पहदो । क्व ? नगरमध्ये हतञ्चर्मयष्टिभिराहत प्रहतो मुष्टि-
भिराहत । अथ श्रीभूतेराख्यानम् । ५

इह जवुदीवि तिहुयणपसिद्धि
विसयम्मि गधमालिणि मणोज्जि
पुहडवइ नामे वइजयतु

पच्छिमविदेहि सपयसमिद्धि ।
पुरि वीयसोए सरवियसियज्जि ।
सच्चवइकतु अरिकुलकियतु ।

सजाउ पुत्तु तहो सजयतु
एक्कहि दिणि सिवु सकरु सयभु
तत्थायउ महि विहरतु सतु
सहुँ पुत्तहिँ दूरुज्झियवियारु
आयन्निवि धम्महो फलु विचित्तु
हुउ काले केवनि वीयरउ

वीयउ जयतु रूवेण कतु ।
तित्थयरदेउ नामे सयभु । १०
तहो वदणाए गउ वइजयतु ।
नियमुयहो समप्पिवि रज्जभारु ।
सजाउ दियवरु चारुचित्तु ।
तहो वदणत्थु धरणिणु आउ ।

घत्ता—तहो रूउ निएवि करिवि निघाणु अयाणमणु ।

१५

हुउ मरिवि जयतु चारुसरीरधारि धरणु ॥२॥

३

एत्तहिँ वि मणोहरपुरमसाणु
चिरवइरवसेण विमुक्कसकु
रुट्टेण दुट्ठकम्ममारिनासु
इह खयरगिरिहे दाहिणदिसाए
हरिकरिसुवन्नवडनामधेय
आयहु पच्चहु' मथरगईहुँ
म चिरावह आवह हणह पाउ
इय भणिवि तेण जणवउ समग्गु
वाणहिँ दुव्वयणहिँ णिट्ठुरेहिँ
उवसग्गु सहेप्पिणु मुणिपहाणु

थिउ सजयतु मुणि सुक्कभाणु ।
तडिदाढे दिट्ठउ मुणिमियकु ।
विज्जाहरेण गुणगणनिवासु ।
काणणि पयडरक्खसपिसाए ।
पुप्फवई अवर वि चडवेय । ५
आणेवि धित्तु सगमि नईहुँ ।
एहु रक्खसु तुम्हई खाहुँ आउ ।
मेलाविउ किउ घोरोवसग्गु ।
अत्ताडिउ दडहिँ पत्थरेहिँ ।
अतयडु होवि गउ मोक्खठाणु । १०

घत्ता—तहिँ अवसरि तत्थ पुज्जहुँ परममुणिदत्तणु ।

चउदेवनिकाउ आयउ मगलथुडवयणु ॥३॥

४

अवहीए वियाणिवि तक्खणेण
रूसेवि फणिंदे विज्जुदाढु
अप्फालइ किल सिलसिहरि जाम
भो मेल्लि मेल्लि दुन्नयसहाउ
मुइ नायराय वइराणुवधु
पहु हणइ एहु तवयरणि ठाइ

महु भाइहे किउ उवसग्गु एण ।
फणिपासहि बद्धु करेवि गाढु ।
वारिउ सूरप्पहसुरेण ताम ।
खज्जेसइ सई पावेण पाउ ।
चिरवइरु एहु आयहो मयधु । ५
आयन्नहि कारणु कहमि भाइ ।

नयवतु अत्थि जियवडरिसेणु
तहो पाणपियारी रामयत्त
सिरिभूड पुरोहिउ सच्चवाड
विस्सामथाणु मव्वहो जणामु

मीहउत्ति नरेमरु मीहमेणु ।
महार्णव महान्द कमलनेत्त ।
सुपसिद्धउ पन्धणहण्णत्ताड ।
मिरिदत्ता नामे कन नामु ।

१०

घत्ता—एत्तहे वणिउत्तु भट्टमित्तु पोमिणियुरहो ।

निद्धण् धणहेउ गउ दीवहो रयणायरहो ॥४॥

५

तहिँ पत्त पयत्ते पाविऊण
सिरिभूडपासि थविऊण तेत्थु
नियसयणहँ मिलिवि सहाय लेवि
सिरिभूड भणइ भुत्तो सि वण्ण
मुविणे वि ण अम्हारुँ परामु
त निसुणिवि लोयहँ कहिय वत्त
पच्चेलिउ कलहि वि लडउ केम
जा जाहि ह्याम पिसायघत्थु
जइ कहमवि मदरु मुयइ ठाणु
इउ तो वि न करइ महाणुभाउ

रयणाइँ अणग्घइँ आणिऊण ।
गउ मग्गभएण निवानु जेत्यु ।
आवेवि विण्णु मग्गिउ नवेवि ।
अन्नत्त गवेमहिँ निव्वियण्ण ।
धिण्णइ इहरत्तपरत्तनामु ।
तेहिँ मि तहो कि पि न किय परित्त ।
वहु रडुहि एवकु वि निदधु जेम ।
तुहुँ तेण पयपहि अण्णसत्थु ।
जइ पच्छिमदिमि उग्गमइ भाणु ।
सिरिभूड महामइ मुक्कपाउ ।

५

१०

घत्ता—राएण वि तामु न किय समक्ख समाउलउ ।

हुउ अत्थगहेण भट्टमित्तु वणि वाउलउ ॥५॥

६

पुक्कारइ पुरि ववगयविहूइ
न वियाणइ कि पि न कहिँ मि रमइ
निसि पच्छिमट्ठि वडु तदुक्खु
पुक्कारइ उक्खयवइरिक्कद
रयणाइँ पंच सिरिभूइ लेवि
गय एम भणतहो तहो छ मास
महएवि पयपइ रामयत्त
तुह रज्जि समुत्तइ तक्कराहँ

थिउ रयणइँ लेप्पिणु लच्छिभूइ ।
वेडिउ जणडिभसएहिँ भमइ ।
निवभवणासन्नु चडेवि रुक्खु ।
परितायहिँ परितायहिँ णरिद ।
थिउ नवर नराहिव निण्हवेवि ।
एक्कहिँ दिणि दूरुज्जिभयदुरास ।
एहु दुत्थहो कि पि न किय परित्त ।
खउ मुयणहँ सव्वमुहकराहँ ।

५

घत्ता—पियवयणु सुणेवि भणइ महीवइ कुलतिलउ ।

ज भावइ एहु वोत्तइ वल्लहँ वाउलउ ॥६॥

१०

७

ता भणिउ देवीग्र जइ एहु वाउलउ
पर देव तुम्हारए अत्थि न वियारु
एत्तहि वि मज्झण्हि सिरिभूइ सपत्तु
हार त्ति पडि ता महारायवयणेण
दाऊण त हत्थि एयत्ति सिक्खविय
गतूण तहिँ ताई रयणाई धुत्तीग्र
एमेव पट्टविय तुहुँ नत्थि रयणाई
पुणु कहिवि सिरिभूइ भोयणहो चिण्हाई
हारियउ दियचिण्हु मणिमउ पुणो तेण
मग्गियई रयणाई दियपत्ति तुह कतु
जन्नोवईयउ तन्नो' ताग्र पेक्खेवि

तो कि न अन्न पयंपेइ वाउलउ ।
त सुणिवि मोणेण थिउ वइरिविड्डारु ।
सहुँ तेण तहिँ जूउ राणीग्र आढत्तु ।
मणिमुट्टिया' सारिय गहणय तेण ।
सिरिभूइघरु धाइ देवीग्र पट्टविय । ५
मग्गियई कहिऊण सविणाणु त तीग्र ।
गय धाइ निसुणेवि बभणिहे वयणाई ।
पट्टविय पर तो वि पत्ताइ नउ ताई ।
गय लेवि सुमई महादेविवयणेण ।
दे देहि सहसत्ति अच्छेइ रूसतु । १०
पट्टविय रूसेवि सा ताई अप्पेवि ।

घत्ता—लेप्पिणु रयणाई देविग्र भणिउ नराहिवड ।

छड्डिज्जउ जूउ वट्टइ मज्झि दिणाहिवड ॥७॥

=

ता अक्खकील राएण मुक्क
अवरण्हकालि भुत्तुत्तरम्मि
जाणाविउ माणिककइँ नवेवि
मेलिवि बहुरयणहँ मज्झि ताई
तेण वि निव्वाडिवि अप्पणाई
हक्कारिवि राएँ सच्चघोसु
पई एण मिसेण ह्यास सव्वु
वभणु ते करमि न खडु खडु

गय सयल वि नियनियनिलउ ढुक्क ।
महएविग्र रायहो नियघरम्मि ।
सथुय तुट्टेण निवेण देवि
हक्कारिवि वणिसुउ दावियाई ।
लइयई को न मुणइ नियघणाई । ५
सो सेण भणिउ सजणियदोमु ।
वीसासिवि जणु अवहरिउ दव्वु ।
लइ पावयम्म तुह एहु दडु ।

घत्ता—मुट्टिक्कहँ पचसयहँ सहहि मल्लहो हणणु ।

खल गोमयथालु खाहि देहि अह सव्वधणु ॥८॥

१०

९

आहूय मल्ल जीवियहरेहिँ
असहते भासिउ खामि छाणु
गोमउ वि न सक्किउ खाहुँ तेण

हउ मुट्टिपहारहिँ निट्ठुरेहिँ ।
लइ खाहि पयपिउ णरपहाणु ।
लहूसाविउ घरु पालियपएण ।

मरिज्जण अट्टभाणेण णड
नामेण अगधणु विसमविमु
ता नूमिवि राएँ चार्त्तन्तु
धम्मिलु नामेण मणोहिरामु
एक्कहिँ दिणि असणवणम्मि तेण

हुड प्रहु भटान्प्र गण्ड नाड ।
कनिकानु कियनु व नार्णमिमु । ५
किड रायनेट्टि वणि भट्टमिन् ।
किड विण्णु पुरोहिड धम्मधामु ।
कटारयगिन्टिन्टि वणिवणेण ।

घत्ता—वरधम्मु मुणिट्टु वरधम्मो च्च नियन्टिण्ड ।

सायारिड धम्मु तहो वयणेण पडिच्छियड ॥१॥ १०

१०

गड मुणि तहिँ अच्छड वणिउ जाम
भक्खिउ चक्खियप्र नियणजुत्तु
छणयदु व नामे मीहचदु
विहिँ पुत्तहिँ सोहड गड केम
एक्कहिँ दिणे दव्वालोयराड
चिन्वडरे अनियत्तियगरेण
मुच्छेवि पडिउ विसवियलकाड
हक्कारिड नामे गरुडदडु
काडयरमत्ते तेण नाय
तहो वयणे जलणि पडिसरेवि

नियमायप्र वग्घिप्र विट्ठु ताम ।
हुड रामदत्तदेवीह पुत्तु ।
वीयड उपन्नड पुत्तयदु ।
दडडज्जमेहिँ मण्णुरिमु जेम ।
नियभट्टायारि पडिट्ठु राड । ५
ते डमिउ ह्यामे उरयरंण ।
परियणजणि हा हा मद्दु जाड ।
गारुडिउ गरलगिरिवज्जदडु ।
आहूयासेस वि भात्त ग्राय ।
गय सयल वि सुट्टा नीसरेवि । १०

घत्ता—गय नियनियनिलड फणि सो परेक्कु तहिँ थक्कड ।

तेण पडत्तु खल खयकालु अज्ज तुह डुक्कड ॥१०॥

११

आयरिसहिँ विमु दुन्नयसहाव
निमुणेवि एउ चित्तड फणिट्टु
महु तणउ अगधणु कुलु पवित्तु
चिरवइरहो किड पडिवडरु अज्जु
डय चित्तिवि जाईसरु सरेवि
कालवणि चमरु तिरियचु जाड
एत्तहिँ अट्टेण मरेवि राड
धम्मिलु वि पुरोहिड रत्तवयणु
वडसणइ वडट्टुड सीहचदु

अहवा लड पडसहिँ जलणि पाव ।
लधिज्जड किह कुलकमु अणिट्टु ।
मड निघइ गिलतह विमु निहित्तु ।
फुडु एवहिँ मरणु जि महु मणोज्जु ।
गड जलणि जलतप्र पडिसरेवि । ५
अवरहो वि सपावहो एहु नाड ।
हुड सीहसेणु वणि गरुड नाड ।
हुड मक्कडु पिगलु लोलनयणु ।
जुवराड परिट्टिउ पुत्तचदु ।

घत्ता—एत्तहे अत्थि वरे पोयणपुरे न मयरद्धउ ।

१०

पुन्नपवित्तमड पहु पुन्नयदु मुपसिद्धउ ॥११॥

१२

निसुणेवि सुधम्महो गुणविसेमु
भज्जा वि हिरन्नवइ त्ति तासु
सहुँ दत्तवईए सुखतियाए
गय सा जहिँ नियकुलकुमुयचदु
कर मडलि करेप्पिणु पणयगत्त
निसुणेवि एउ परमोहिनाणु
जामाउ तुहारउ सीहसेणु
पचत्तु पत्तु सयवत्तवत्त

हुउ भद्वाहुमुणिवरहो सीसु ।
हुय सजइ किउ दुक्कियविणासु ।
एक्कहिँ दिणि वदणहत्तियाए ।
वणि वसइ महामुणि पुन्नचदु ।
पुच्छइ केमच्छइ रामयत्त ।
नवधणञ्जुणि अक्खइ मुणिपहाणु ।
फणिणासिउ द्दुत्थियकामधेणु ।
हुय रड महासइ रामयत्त ।

५

घत्ता—आयन्निवि एउ गपिणु तत्थ स खतियए ।

सवोहिय ताए रामयत्त उवसतियए ॥१२॥

१०

१३

निसुणेवि धम्मु पुच्छेवि पुत्त
तहिँ अवसरि आइउ भद्वाहु
तहो पायमूलि उवसतएण
रज्जम्मि थवेप्पिणु पुन्नचदु
कालतरेण गुणरयणखाणि
हुउ मिच्छादिट्ठिउ पुण्णचदु
काणणि कयाइ मुणि सीहचदु
पणवेवि पउत्तउ गुणगुरुक्क

हुय अज्जिय राणी रामयत्त ।
नामेण महातवत्तु साहु ।
पढमेण मीहसेणहो सुएण ।
तवु लइउ समुक्खयमोहकदु ।
सजायउ चारणु दिव्वनाणि ।
वउ धरइ ण पणवइ जिणवरिदु ।
जगणीए नियच्छिउ भुवणवदु ।
मुय कुक्खि सलक्खण महु परेक्क ।

५

घत्ता—सजायउ जाए तुहुँ भवभमणविणासयर ।

कहि मज्झ भवाइँ मोहतमोहर दिवसयर ॥१३॥

१०

१४

त सुणिवि महामुणि मायरीहे
कोसलविसयम्मि मणोहिरामि
नामेण मिगायणु भट्टपुत्तु
सो मरिवि अउज्झहे सिरिमईहे

आहासइ सीलामयसरीहे ।
गामम्मि आसि वड्डुइयनामि ।
होतउ कुलजाइमएण मत्तु ।
महएविहे अइवलनरवईहे ।

उप्पन्न हिरन्नवड त्ति कन्न
तहो वारुणि महुरा चारुगत्त
वारुणि वि मिगायणपुत्ति पुत्तु
हउं भद्दमित्तु रयणाइँ जासु
काऊण नियाणु पसन्नवाए
भन्तारु तुहारउ सीहसेणु

पोयणपुग्गि पुन्नसमीहं विन्न । ५
हुय ताहि गद्धिनु तुहं रामयत्त ।
हुउ पुन्नचट्टु तुह गुणहिं जत्तु ।
देवावियाइँ पडे जणिउ तोगु ।
हुउ सीहचट्टु तउ नणउ माए ।
हुउ अट्टे मत्तनडवणे करेणु । १०

घत्ता—सो मडँ तहिँ दिट्ठु कुद्धचित्तु मत्रोहियउ ।

चिरजम्मु कहेवि देवि वयडँ सावउ कियउ ॥१४॥

१५

सिरिभूड नाउ डसिऊण ताउ
सो करिवरु पालियपरमनिट्ठु
ते कुक्कुडसप्पे पउ पियतु
सहसारसग्गि सिरिपहविमाणि
धम्मिल्लु पुरोहिउ तहिँ मरेवि
ते मारिउ कुक्कुडसप्पु पाउ
एत्तहि सियालभिल्लेण तामु
ढोडय वणिमित्तहो वणिवरासु

कालयवणि चमरु तिरिकवु जाउ ।
केसरिसरितीरे कयाड दिट्ठु ।
मारिउ खाएप्पिणु पकि खत्तु ।
हुउ सिरिहरु देउ गत्रोवमाणि ।
हुउ वानरु चिरवडर मरेवि । ५
वानुयपहाए णारउउ जाउ ।
लेप्पिणु विसाणमोत्तिय गयासु ।
तेण वि छणयदनरेसरामु ।

घत्ता—तुह पुत्ते तेण मचउ दत्तसलहिँ किउ ।

मोत्तियहिँ वि हारु कठि विहूसणु अल्लविउ ॥१५॥

१०

१६

आयन्नवि एउ विसन्नचित्त
सवोहिउ वडयरु कहिवि पुत्तु
उवसतएण सावयवयाइँ
कालेण करेप्पिणु कालु सग्गि
वेरुलियविमाणि मणोहिरामु
सुज्जप्पहु नामे तहिँ जि देउ
किं भणमि पहकरघरणिवासि
उवरिमगेवज्जहे सीहचट्टु

गय पचाणणपुरु रामयत्त ।
सजाउ अईवविसायजुत्तु ।
अंगीकयाइँ ह्यभवभयाइँ ।
सहसारि हुउ सोहासमग्गि ।
हुउ सुरवरु सुदरदत्तनामु । ५
हुउ रामयत्त नवतरणितेउ ।
रूवेण रूवसोहग्गरासि ।
सुदरसरीरु ह्यउ हम्मिदु ।

घत्ता—इह जवूदीवि भरहखेत्ति वेयडुगिरे ।

दाहिणसेढीहे अत्थि घरणि तिलयानयरे ॥१६॥

१०

१७

अइवलु नामे विज्जाहरिदु
तहो देविण उवरि सुलक्खणाहे
सग्गाउ एवि न नायकन्न
सा अलयाउरपरमेसरामु
सुरु सुदरयत्तु चवेवि ताहे
वेयड्डहो उत्तरसेडिवासि
दिवसयरावत्तहो खेयरासु
सो सुरवरु सिरिधरणाग्गवेउ

तत्थत्थि पसिद्धउ न सुरिदु ।
सुज्जप्पहु अमरु सलक्खणाहे ।
हुय सिरिधरतणय सुवन्नवन्न ।
दिन्नी खेयरहो सुदसणासु ।
हुय पुत्ति जसोहर निरुवमाहे । ५
सा दिन्न विवाहहुँ पुरि पहासि ।
तहं तणण गग्भि गुणगणनिवासु ।
हुउ नदणु नामे रस्सिवेउ ।

घत्ता—अग्गिपवि नहो रज्जु सुज्जावत्तखगाहिवड ।

मुहमइ सजाउ मुणि मुणिचदु नवेवि जइ ॥१७॥

१०

१८

गण कर्ते तवोवणु सिरिहराण
एक्कहिँ दिणि वदणहत्तिहेउ
गउ सिद्धकूडु तहिँ दिट्ठु साहु
तहो पायमूलि उवसतएण
एत्तहे कयाइ अज्जाउ ताउ
जो गउ तइया वणि कुक्कुडाहि
हुउ तत्थ तेण भाणासियाइँ
काविट्ठसग्गि साहियमणाइँ

तउ लइउ तहेव जसोहराण ।
विज्जाहरराणउ रस्सिवेउ ।
हरिचदु सीलसलिलवुवाहु ।
पव्वज्ज लइय राएण तेण ।
त वदहुँ कचणगुह गयाउ । ५
सो अजयरु जीवहुँ मरणवाहि ।
तिन्नि वि पावेण विणासियाइँ ।
हुय देव ताइँ तिन्नि वि जणाइँ ।

घत्ता—अजयरु वि मरेवि हुउ पक्कप्पहे नारइउ ।

अहमिदु वि सीहचदु साहु मग्गहो अइउ ॥१८॥

१०

१९

चक्कउरि निवहो अवराइयासु
चक्काउहु नामे हुउ कुमारु
तहो पाणपियारी गुणगणाल
जो सीहसेणु करि कयविवेउ
रविपहु पुणु अट्टमसग्गवासि
वज्जाउहु वज्जु व वइरिवग्गि

सुदरिमहएविविराइयासु ।
सुहलक्खणलक्खिउ न कुमारु ।
महएवि महासइ चित्तमाल ।
सुरु सिरिहरु पुणु खगु रस्सिवेउ ।
सो हुउ सुउ तहिँ गुणरयणरासि । ५
जसु नत्थि मल्लु कड्डियण खग्गि ।

पुरि पुहइतिलए अइवेय राय
जा मिरिहर पुणु काविट्टि हूय

पिय अत्थि पियकर चारुछाय ।
सा रयणमाल हूय ताहे धूय ।

घत्ता—दिन्नी जणणेण वज्जाउहहो सलक्खणहो ।

न दोणघणेण पुत्ति विसल्ला लक्खणहो ॥१९॥

१०

२०

सग्गहो आवेवि जसोहरा वि
चक्काउहु सिरि वज्जाउहामु
वज्जाउहो वि रयणाउहामु
एत्तहे रयणाउहरायगओ
थिउ निच्चलु असइ न पियइ तोउ
गउ पुच्छहुँ जहिँ रिसि वज्जदतु
एत्थत्थि भरहि जणजणियभद्दु
पीडकरु मुउ सुदरिहे तामु

हुउ तहे मुउ रयणाउहु पयावि ।
गउ देवि होवि मुणि मोकखवामु ।
हुउ रज्जु देवि निम्मुकवामु ।
जाईसरु मुणि पेक्खेवि गओ ।
चित्ताविउ वज्जाउहहे पोउ ।
मुणु राय कहइ ससयकयतु ।
पहु चित्तयारपुरि पीडभद्दु ।
महएविहे हुउ विसमारितासु ।

५

घत्ता—मुणिवयणु सुणेवि सो दूसियससारगइ ।

सहुँ मतिसुएण चित्तमइए सजाउ जइ ॥२०॥

१०

२१

साकेयहो गय विहरत वे वि
चित्तमइ भग्गु भाणसिउ जाउ
तुट्टेण विडन्नु पमाउ तासु
कालेण मरेवि करेवि पाउ
ससारि भमेप्पिणु एत्थ हत्थि
हुउ जाईसरु अम्हई निएवि
निमुणेप्पिणु विच्चासिउ असुद्धु
उवसतु रयणपहरणु नरेदु

तहिँ वुद्धिमेण गणिया निएवि ।
ते रजिउ मसरसेण राउ ।
वेसाइँ सहिउ कचणसहासु ।
गउ तमतमनरए रउद्भाउ ।
सजाउ तुज्झ परवलपमत्थि ।
थिउ सपइ पावहो खणु करेवि ।
देवाविउ पिडु न तेण खद्धु ।
हुउ सावउ नियकुलकुमुयचदु ।

५

घत्ता—जो अजयरु आसि गउ पकप्पहमहिहे खलु ।

अइदारुणनामु हुउ सो सवरु पयंडवलु ॥२१॥

१०

२२

वणि पडिमाजोएँ परमनिट्ठु
आहउ सरेण कयभावसुद्धि

वज्जाउहु वाहे तेण दिट्ठु ।
गउ मुणि मरेवि सब्वत्थसिद्धि ।

अडदारुणो वि दारुणदुहम्मि
 रयणाउहु सावयवयहलेण
 मुर अच्चुयकप्पविमाणि जाय
 दीवम्मि दुडज्जड अत्थि पुव्वे
 गधिलविसयम्मि मणोहरीहे
 मुव्वयजिणदत्तउ विन्नि तामु

उप्पन्नउ नारउ तमतम्मि ।
 मणिमाल वि दूरुज्जिभयमलेण ।
 आउक्खण्ण पुणरवि एत्थ आय । ५
 मदरगिरि अवरविदेहि भव्वे ।
 पहु अरुहदासु उज्जाउरीहे ।
 महएविउ परिपालियवयासु ।

वत्ता—वीयभउ पसिद्धु अवरु विहीसणु लोयथुय ।

ते ताहँ तणूय वलनारायण वे वि हुय ॥२२॥

१०

२३

त्रिरु रज्जु करेप्पिणु सावलेउ
 तउ वीयभएण मुत्तिव्वु तत्तु
 सो तेण विहीसणु णरए भाइ
 आउक्खण्ण एप्पिणु जवुदीवि
 देसम्मि गधमालिणि समिद्धि
 सिरिपुरि सिरिहरहिँ खगाहिवासु
 सिरिदामनामु सो हूउ पुत्तु
 मदरि अवलोडउ भायरेण
 सवोहिउ लाडउ जडणमग्गि

गउ रयणप्पहमहि वासुएउ ।
 लतवि इदत्तणु तेण पत्तु ।
 सो वोहिवि किउ सम्मत्तभाइ ।
 पच्छिमविदेहि रविससिपईवि । ५
 वेयड्डुमहीहरि सिरिसमिद्धि ।
 सिरिदत्तादेविहिँ गुणानिवासु ।
 विज्जउ साहतउ एककचित्तु ।
 वलएवमुरेण कयायरेण ।
 हुउ सुरु तवेण पचमए सग्गि ।

वत्ता—एत्तहे नीसरंवि तमतमयहे सहियकिलेसउ ।

हुउ सो सप्पु पुणु गउ पढमावणिहे दुरासउ ॥२३॥

१०

२४

पुणु पुणु तिरिक्खु पुणु नारडओ
 भरहम्मि एत्थ भूयाडइहे
 तावसहो खडमालिहे तणुओ
 नामे मियसणु अन्नाणभाउ
 चदाहु निएप्पिणु गयणजाणु
 मरिऊण भरहि खयरालयम्मि
 विज्जुप्पहवल्लहु वज्जदाहु
 कीलाए तेण सकलत्तएण

भवि एव भमेप्पिणु दुम्मइओ ।
 तडि निम्मयाहे एरावइहे ।
 उयरम्मि कणयकेसीहे हुओ ।
 अच्छइ सहतु पचग्गिताउ ।
 विभियमणेण किउ ते नियाणु । ५
 नयरम्मि पयडि नहवल्लहम्मि ।
 हुउ तहो मुउ नामे विज्जुदाहु ।
 सविमाणे नहयलि जत्तएण ।

वत्ता—पविपहरणु आसि जो मुणि सव्वट्टहो गयउ ।

तीयाहियतीस सायरत्ते काले ह्यउ ॥२४॥

१०

२५

हुउ वीयसोग्र सो सजयतु
 पेक्खेवि कुएवि णाणेवि एत्थु
 त सहिवि समुप्पाएवि नाणु
 प्रहु सजयतु सीहउरराउ
 चिरवडरे तेण विमुक्कदेहु
 डय जाणिवि मुच्चड वडरभाउ
 सिरिदामु इहाउ जयतु जाउ
 होतो सि आसि मुहि पुत्तयदु

मुणि पडिमाजोएँ तउ तवंतु ।
 निक्खित्तु एहु किउ बहु अणत्थु ।
 गउ मुणि परमेसरु मोकखठाणु ।
 सिरिभूड एहु दुत्तयसहाउ ।
 खब्भालिउ मारिउ एण एहु । ५
 जम्मेवि न दीसइ जेण ताउ ।
 पुणु तुहुँ सनियाणु भुयगराउ ।
 सा रामयत्त हउँ लत्तवेदु ।

घत्ता—आयन्नेवि एउ धरणिदे खमभाउ किउ ।

हक्कारेवि सव्वखेयरचक्कु परिट्टविउ ॥२५॥

१०

२६

हिरिमतघराधरि भत्तिनिरउ
 साहेसइ विज्जउ तामु सिद्धि
 नर सयल वि आयहो कुलि अविज्ज
 डय भणिवि मुग्रवि दुत्तयसहाउ
 एत्तहिँ आउक्खग्र लत्तवेदु
 महुरहे अणतवीरियनिवामु
 कुलनदणु नदणु जाउ मेरु
 अनियप्पहाहे मरु कुमारु
 ते विन्नि वि भायर विमलनाह
 केवलि होएप्पिणु कम्मचत्त
 सिरिभूड व परधणहरणाचित्तु

जो सजयतपडिमाहे पुरउ ।
 किय निच्छएण अन्नहो न सिद्धि ।
 थीसतइ होसइ सिद्धविज्ज ।
 गउ निययनिवासहो नायराउ ।
 एत्थायउ नावड पुत्तिमिदु । ५
 घणमालहे देविहे गुणनिवासु ।
 थिरु कल्लाण गउ नाइ मेरु ।
 धरणेदु होवि हुउ नाइँ मारु ।
 गणहर पउ पावि वि मडसणाह ।
 परमेसर सासयसोक्खु पत्त । १०
 अणुहवइ दुक्खु अवरु वि विचित्तु ।

घत्ता—जाणेप्पिणु एउ सिरिचदुज्जलकित्तिहरु ।

वज्जह परदव्वु जे फिट्टइ ससारडरु ॥२६॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहनाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोमे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते मुविचित्ते णतपयदमजुत्ते ।
 परधणहरणानिसेहो एमो वत्तीसमो सवी ॥

॥ सधि ३२ ॥

संधि ३३

१

निच्च पि कुणदि कम्म कुलउत्तदुगुच्छिद विगदमाणो ।

वारत्तओ वि कम्म अकासि जह लखियाहेदु ॥ [भ० आ० ९०८]

नीचमपि करोति कर्म । को मौ ? विगदमाणो व्यपगताहकार । तत्कथभूत कर्म ? कुलउत्तदुगुच्छिद कुलीनैर्निन्दितम् । वारत्तओ वि वारत्रयनामा यथा द्विजमुनि अकासी अकापीत् । किं निमित्त ? लंखियाहेदु लखिका नटी तस्या कारणेन । ५

धुवय—विसयपरव्वसचित्तु कामेणुप्पहे लगगउ ।

अक्खमि लखियहेउ जिह वारत्तउ भग्गउ ॥

दुवई—पुरि अहिच्छत्ति छत्तसयसेविउ सुइसत्थत्थपारओ ।

अत्थि पसिद्धु विप्पु सिवभूइ वियक्खणु जणपियारओ ॥

वसुसम्मा नामे तासु पिया
नयविणय नाई लोएण थुया
अपढंतु निएप्पिणु कोउ कओ
तहो दिवसहो लग्गिवि तासु भउ
काले सुइसोत्तिउ मुक्कमलु
वारत्तयनामे जणु भणइ
नियनामुच्चारदुहेण हउ
तहिँ दमवरु णामे दिट्ठु मुणी
निव्विन्नउ हउ निग्गथु जई
जलि निप्रवि नियंतु सरीरछाय

सइवित्ति व थीरूवेण थिया । १०
सुय सोमसम्मसिवसम्म हुया ।
ताएण वरत्तप्र लहुउ हओ ।
वारत्तयनामु पसिद्धि गउ ।
हुउ वेयपुराणकलाकुसलु ।
त सल्लु व तासु चित्तु वणइ । १५
सावित्तिहे एक्कहिँ दियहिँ गउ ।
तहो वयणु सुणेप्पिणु धम्मभुणी ।
अहनिमु जइणागमु अब्भसई ।
गुरुवयणहो ता नीसरिय वाय ।

घत्ता—पई महिलहि लग्गेवि नासेवउ निसुणेप्पिणु ।

२०

जत्थ न थीयणु अत्थि तहिँ तउ करमि भणेप्पिणु ॥१॥

२

दुवई—गुरुपयपकयाई पणवेप्पिणु सिवसम्मो विणिग्गओ ।

गपिणु कयपइज्जु निज्जणि वणि नियमव्भासि लग्गओ ॥

तत्थच्छइ दुद्धरु तउ तवड
 तहो निट्टु निएप्पिणु मुहग्गिमउ
 सव्वत्थ वि विणयपयासिरिउ
 पर त न पडिच्छइ पहयमलु
 अरुहत्थियइत्थीरायकहु
 ता तम्मि पएसि पराइयउ
 आवासिउ सत्थु मसत्थवर्ड
 नाणाविन्नाणगुणव्वभइउ
 कतार्ह गगदत्ताहि हुया
 सुहलक्खण जणमणनयणपिया

कतारे भिक्ख मृणि परिभमड ।
 वणदेविउ होप्रवि अयग्गिउ ।
 आहारु देति पियभासिग्गिउ । १
 निट्टावरु आयमन्थकुमलु ।
 एमच्छइ जामुववाससहु ।
 बहुवक्खरुवत्थुविग्गइयउ ।
 सहू तेण वियाणियनट्टुगई ।
 नडु नामे गगदेउ अइउ । १०
 तहो मयणवेय तरलच्छि मुया ।
 न का वि वरच्छर मयणपिया ।

घत्ता—सा नच्चति निएवि मुणि मयणेण कयत्थिउ ।

नियविन्नाणु कहेवि गगदेउ अरुहत्थिउ ॥२॥

३

दुवर्ड—तेण वि गुणविसेमु परियाणिवि निय सुय तामु दिन्निया ।
 अरु कि अलिय होइ मुणिवरगिर निच्छयसयरवन्निया ॥

नडवेसे माणइ विसयसुहु
 सहू पेडएण फणिछत्तपुर
 चिरु सीसहिँ भासिउ ताय तुह
 परिहरह एह पच्छित्तु करि
 पभणइ वारत्तउ दियजणहो
 दुहयरु ससि चक्कहो सीयलु वि
 महु एउ जि सुदरु अन्नु नउ
 बहुवरिसहिँ नाणाभाववरु

अच्छइ तह तणउ नियतु मुहु ।
 सपत्तु कयाइ निएवि गुरु ।
 हा एउ अजोग्गउ कम्मु वुह । ५
 पुणरवि गुरु पुव्वावत्थ धरि ।
 त सुदरु ज भावइ मणहो ।
 मुहु जणइ निरारिउ खरु वि रवि ।
 इय भणेवि सपेडउ कहिमि गउ ।
 सपत्तउ रायगेहणयरु । १०

घत्ता—सिरिसेणियरायस्स अग्गए हरिसवसगउ ।

वहरसभावविसेस दरिसिवि वसे वलग्गउ ॥३॥

४

दुवर्ड—जाम सभज्जु तेत्थु असिपजरि नच्चइ करणजुत्तय ।
 ताम नियइ मणोज्जविज्जाहरजुयल गयणे जतय ॥

त पेच्छिवि सुमरिउ पुव्वभउ
 दाहिणसेढीए सुहकरए

नडनाहु विसायहो नवर गउ ।
 नयरम्मि पसिद्धि पियकरए ।

देवीहि पहावईहे वरहो
 होतउ हउँ पावियविज्जवलु
 एकहिँ दिणि कामविहाररउ
 तहिँ एह आसि विज्जाहरिया
 दट्ठण पइट्टु फुल्लकमले
 वामोहिउ लग्गउ कामसरु
 तहु मुहे चडेवि नीसरिउ तडु
 त नियवि कयजलि चारुमई

खयरिदहो पुत्तु पियकरहो । ५
 पीयकरनामे अतुलवलु ।
 कालवुय नामे वावि गउ ।
 लखिय नामेण मणोहरिया ।
 साहति पयत्ते विज्ज जले ।
 थिउ पकयम्मि होण्वि भमरु । १०
 किउ मणहरु अप्पाणउ पयडु ।
 विज्जाहरसुदरि विन्नवई ।

घत्ता—लइ पडिवालहि ताम जाम मित्त सुरसामिणि ।
 साहमि विज्ज मणोज्ज पुणु होसमि तुह भामिणि ॥४॥

५

दुवई—एम भणेवि विज्ज साहेप्पिणु फणिपुत्ति वरवन्निया ।
 सा सजाय मज्झ मणवल्लह नियताएण दिन्निया ॥

माणेविणु ब्रहुदिणि ताहे रउ
 सोहम्मि समाहिण देउ हुउ
 वउ लेवि हयासे भजियउ
 विज्जाहरि जा महु सग्गि पिया
 जो खगसुरसोक्खहिँ तित्थु वउ
 इय चित्तिवि वसहो ओयरिउ
 एत्थतरि हरिसविराइयउ
 पच्चक्खउ विज्जउ नियवि पहु
 कहि काइँ एउ भो अच्छरिउ
 त निसुणेवि जणु जिणधम्मरउ
 आलोण्वि निदिवि लेवि तउ
 वडरायरासु पच्छिमदिसए -

घणनामु निएप्पिणु लइउ तउ ।
 पुणु एत्थ विप्पु सिवभूइमुउ ।
 नडवेसे जणमणु^१ रजियउ । ५
 सा एत्थु एह नडि पाणपिया ।
 सो सपइ गच्छमि तित्ति कउ ।
 ताए वि पुव्वभउ सभरिउ ।
 चिरविज्जानियरु पराइयउ ।
 परिपुच्छइ विभियसयलसहु । १०
 ता तेण सवइयरु वित्थरिउ
 हुउ सयलु वि सो गुरुपासु गउ ।
 विहरेवि करेप्पिणु कम्मखउ ।
 वेन्नायडपुरि वराडविसए ।

घत्ता—सुरनरिदनाइदवदिउ सिद्धसरुवउ । १५
 सासयपुरु सपत्तु अमणु अणिदिउ हूयउ ॥५॥

६

दुवई—मयणरया वि तासु मणभामिणि माणमएण चत्तिया ।
 सावयवयहलेण दिठदंसण अच्चयुक्कप्पु पत्तिया ॥

वारसवगिसाणि वि सवसित्तु कामादुरो न नासीय ।

पादगुट्टमसत गणियाए गोरसदीवो ॥ [भ आ ९१४]

द्वादशवर्षाणि वि भवमित्तु सममुपित्वा कामादुरो मदनव्याधिना व्याकुलीकृत मन् न ५
नामीय न ज्ञातवान् । को मौ ? गौरसदीवो मुनि । किं न ज्ञातवान् ? पादागुष्ठम् अमन अविद्यमानम् ।
कस्या गणिकाया । एत्थक्खाण ।

एत्थात्थि भरहि सपयपउरे	जणवए कुमालि सावित्थि पुरे ।	
दीवायणु नामे पुहडवई	नावड सगमि सुराहिवई ।	
एक्कहिँ दिणि वालवसतभरे	कलकोडलमयमत्तालिसरे ।	१०
मयणुच्छवि मयणसमाणतणु	गड कीलहुँ पहु उज्जाणवणु ।	
जतेण नियच्छिउ चूयतरु	कुमुमच्चिउ भमिरभमरनियरु ।	
तहो मजरीए जणनयणपिउ	कन्नावयमु राएण किउ ।	
लेतेण तओ परियणजणेण	मूलाड वि खणियई तक्खणेण ।	
कीलेप्पिणु एते दिट्ठु नउ	पुच्छिउ निवेण कहिँ अबु गड ।	१५

घत्ता—होतउ एत्थ पएसे जो मउरियउ मणोहरु ।

ता केण वि पुरिसेण कहिउ नरिदहो वइयरु ॥६॥

७

दुवई—पई किए कन्नपूरि परमेसर परिवारे विहसिओ ।

आमूल तु खडखडाई करेप्पिणु सीसि लकिओ ॥

आयन्निवि पहु चित्तवइ मणे	खणभगुरु दीसड सव्वु जणे ।	
जिह अवउ तिह मुडसयणजणु	जाएसड जीविउ धन्नु धणु ।	
इय चित्तवि परवलसाहणहो	पुत्तयहो दिन्नवलवाहणहो ।	५
अप्पेवि रज्जु निव्वेयपरु	पणवेप्पिणु उत्तरु मुणिपवरु ।	
सामंतसड सहुँ जाउ जई	परिपालइ संजमु सुद्धमई ।	
विहरेवि पढेवि सत्थनियरु	गड सगुत्सघु उज्जेणिपुरु ।	
दीवायणु मुणि मुणिगिरिसिहरे	एक्कगु वसड तहिँ लयणघरे ।	
एक्कहिँ दिणि नायनिमित्तगई	सिक्खवइ सघु सघाहिवई ।	१०

घत्ता—जो उज्जेणिहं अज्जु चरियामगु चरेसड ।

पंचमहव्वयभगु तासु असंसउ होसड ॥७॥

८

दुवई—एउ मुणेवि के वि उववासिय केइ वि भतिवज्जिया ।

अन्नेत्तहे पइट्ट परमेसर भिक्खहे भुवणपुज्जिया ॥

दीवायणु अगणियगुरुवयणु
तत्थत्थि जियारि जियारिवलु
वाराणसिपुरि सिरिवम्मसुया
परिणिय सिरिकता तेण सई
आगय तणसुंदरि दिन्नदिही
पडिगाहिय हुय वल्लहिय पिया
असहत्तिग्र परिहउ भेइयउ
तेण वि चप्पिवि नह्छेउ कउ

गउ चरियहे पुरु वहुभव्वयणु ।
पहु जसमडवल्लहु जसधवलु ।
सिरमडमहएविहं गवभहुया । ५
सहुँ ताई विलासिणि हसगई ।
पडिहासिय रायहो रूवनिही ।
सिरिकंत वि दुम्मण होवि थिया ।
चंडिलउ ताग्र सकेइयउ ।
पक्कउ अगुट्ठु विसप्पु गउ । १०

घत्ता—पडिय नाडि दुग्गधु त पेक्खेवि विरत्तउ ।
सा परिहरेवि नरिदु सिरिकतहे आसत्तउ ॥८॥

९

दुवई—थिय तणसुदरी वि नीसारिय गपिणु दारिवाडए ।
करिवि सुवन्नखोल अंगुट्ठु विढवत्ती वराडए ॥

एत्तहि उदिन्नवलवाहणहो
हक्कारिवि सयलु वि देसजणु
पारभिय खाइय खणहुँ जहिं
नरवइनरेहिं संचियचरिउ
भासिउ भो मुणि पडसारु कउ
लउ जामि खणेसमि एतु खणी
गउ भिक्खनिमित्तु भमंतु पुरु
तहे रूवालयणि मोहियउ
तेण वि रुट्ठेण देहु भणिवि
जलवाहिणिविज्जइँ धरणियलु

रायहो भएण वहुवाहणहो ।
जियसत्तुनरिदे देवि धणु ।
दीवायणु मुणि सपन्नु तहिं । ५
चरियहि पइसतु सतु धरिउ ।
रायाणग्र खणियउ जाम नउ ।
इय वयणहिं मेल्लिउ तेहिं मुणी ।
संप्राइउ तणसुदरिहे घर ।
निग्गतु तेहिं पुणु रोहियउ । १०
कुदालपहारे आहिणिवि ।
दारेप्पिणु करिवि अथाहु जलु ।

घत्ता—गउ मुणि निययनिवासु मयणे मोहियचित्तउ ।
लिहिवि सिलायलि रूवु थिउ तहे तणउ नियतउ ॥९॥

१०

दुवई—एत्तहे पाणिएण पुरु पूरिउ वत्त सुणेवि राणओ ।
गउ तहिं जहिं मुणिदु तणसुदरिरुव भायमाणओ ॥

मन्नाविउ विणएँ दय करहि
पयपवहे पट्टणु पूरियउ

परमेसर जलु उवसधरहि ।
जणवउ तीसेसु वि जूरियउ ।

सव्वहँ^१ वि वयणु अरवगन्नियउ तणुसुदरिवयणे मन्नियउ । ५
परियाणिवि मणु उल्लिगियहिं तहो तणउ नरेदे डगियहि ।
सा तहो जि समप्पिय धन्नु धणु दिन्नउ सम्माणिवि वरभवणु ।

गाहा—सवणवरगधहत्थी गिहवंधणनेहनियलउम्मुक्को ।
महिलागणियारिरओ पेच्छह किह वधण पत्तो ॥

पव्वयपुहइपओनिहिसमसारो सव्वरयणसारेसु । १०
पेच्छह तिणतुसतुल्लो जाओ सो जुवइसणेण ॥

तहिँ ताग्र समाणु निवद्धरइ जामच्छइ विसयासत्तमइ ।
आवेप्पिणु नयणाणदकर तहो तणए ताम निरुद्धु पुर ।
जाणाविवि वइयर अप्पणउ तेण वि किउ तासु नियत्तणउ ।

घत्ता—परिओसियच्चित्तेण जाणिवि वइरायवल्लहो । १५
नदिज्जइ जयम्मि ज होते सो न वि कासु वल्लहो ॥१०॥

११

ज भणइ असेसु वि त करइ जीवु वि जियसत्तु न तहो धरइ ।
तणुसुदरि भणिय निवेण तुहु एयस्स करेज्जसु परमसुहु ।
जइ जाइ एहु ता निट्ठवमी पइँ निच्छउ जमपुर पट्ठवमी ।
पहुवयणु पडिच्छवि^१ गेहु गया गणिया तहो करइ पयत्तु सया ।
अच्छतहो सोक्खुप्पायणइ बोलीणइ वारह हायणइ । ५
एक्कहिँ दिणि रयणविणिम्मियउ पाणहियउ देवाण वि पियउ ।
पुहईसहो पाहुडु आइयउ दीवायणमतिहे ढोइयउ ।
रहसेण सो वि घरु लेवि गउ कइडेप्पिणु कतहे वामपउ ।
किर परिहइ जाम ताम कुहिउ अंगुट्टउ नियइ खैलसहिउ ।

घत्ता—पेक्खिवि हुउ निव्वेउ हा किह हउँ कुणिमगे । १०
संताविउ पावेण सुदरियवयवभगे ॥११॥

१२

द्रुवई—खणभगुरहो पूइवीभच्छहो रसवसकिमिनिवासहो ।
खयकायहो कएण मइँ पावे किं किउ हा हयासहो ॥

इय चित्तिवि पच्छातावहओ
आलोर्णव निदिवि पहयरउ
करिणा इव सल्लइ पाणपिया
पडिकमइ न वदइ देउ जिणु
अमुट्टयदोसे दुल्लहिया
मणपज्जवनाणे मणु मुणित्त
जो महिलहि उप्परि करइ रइ
ससारहो कारणु खलु जुवई
सो भवि भवि दुक्खहँ भायणउ
इय अक्खइ तासु महासवणु

मुणि विमलचंदु जहिँ तत्थ गओ ।
तहो पय पणवेप्पिणु लइउ तउ ।
पुणरवि संभरिया तेण पिया । ५
आयइ तणुसुदरि एक्कमणु ।
परिहरिय काइँ मईँ वल्लहिया ।
दीवायणु मुणि गुरुणा भणित्त ।
तहो दूरि परिट्ठिय परमगइ ।
सो जो न विवज्जइ जणियरई । १०
उप्पज्जइ दीणु दयावणउ ।
पर तो वि न ठायहो एइ मणु ।

घत्ता—एत्तहँ तम्मि गयम्मि रायभएणाकतए ।

कठे करेप्पिणु पासि पाण विसज्जिय कतए ॥१२॥

१३

दुवई—वत्त सुणेवि पाणु पुहईसे कोक्कप्पिणु भयाणए ।

सा कड्ढाविऊण घल्लाविय रोसवसे मसाणए ॥

अगुट्टउ नट्टउ एक्कु जई
उवमिज्जहिँ कासु वि मुक्कमला
जघउ गोपुच्छायारियउ
मसिणउ मडियउ सुसधियउ
निरु सुदर ऊरुय सोक्खयरे
रमणहो सनियवहो सोहणहो
वन्निज्जइ काइँ गुरुत्तणउ
तिवलित्त तहो सुट्ठु विराइयउ
वररोमराइ जणमणु हरइ
नाही वि अणोवमरूवडिया

तो कि विरूव हुय हसगई ।
रत्तुप्पलकोमल कमकमला ।
लडहउ जुवाणमणहारियउ । ५
न वरकइक्खहो सधियउ ।
तोरणखभाइँ व कामघरे ।
तइलोककचक्कमणमोहणहो ।
ज किउ गरुयहँ वि लहुत्तणउ ।
नावइ कामउरहो खाइयउ । १०
तणु तणुससिरेहहे अणुहरइ ।
न सोहग्गामयकूवडिया ।

घत्ता—थोव्वड थोर घट्ट थणमडल सगय पीण पीवरा ।

नाइँ अणगरुक्खफल रइरसपूरिय जणमणोहरा ॥१३॥

१४

कोमलसरलगुलिसोहधरा
मालइमालोवम कहो न पिया

कामधिवपल्लव नाइँ करा ।
भुय कामएवपास व्व थिया ।

१३ १ मणिमोहणहो ।

कंठहो उवमाणउ नत्थि जणें
ज वियसइ दिणि सकुइ निसिहे
अहरहो पुणु नोखी भगि कवी
बोल्लंतिहे ताहे सुणेवि सरु
नासवसेण परज्जियउ
निरु महुइ मयणुककोयणइ
भउंहेउं सोहति तिभगियउ
संगयपलवसोहण सवणा

उवमिज्जइ कमलु केम वयणे ।
लछणु जडत्तु पुत्तिमससिहे ।
जिय दतहिं मुत्ताहलहं छवी । ५
पडिहासइ वीणासद्दु खरु ।
त गउ वणु मुयगणु लज्जियउ ।
कामहो कडा इव लोयणइ ।
न तासु जे घणुहिउवगियउ ।
रइहिंदोलाइ व मणदवणा । १०

घत्ता—न अट्टमिहरिणकु भालु पहायरु सोहइ ।
अलिकज्जलनिहु केसपासु न कमु मणु मोहइ ॥१४॥

१५

दुवई—रुवनिही पसिद्ध एवविह दुल्लह मई मणोहरी ।
एक्कागुट्टदोसमेत्तेण जे कि मुक्का किसोयरी ॥

नवजोव्वणु लोयहो दुल्लहउ
लइ गच्छमि पेच्छमि पियवयणु
चित्तंतु एउ सो तत्थ थिउ
दुग्गघदेह पियराल हुया
तहिं वाउसे त थविज्जण मुणी
आणावसु सो वि तत्थ थियउ
जइ एकक वार एत्थायरिउ
ता तक्खणे सूरि पराइयउ

कहिं लवभइ माणुसु वल्लहउ ।
पच्छइ जे करेसमि तवयरणु ।
गुरुणा मुणेवि वहिभूमि निउ । ५
अच्छइ सा जत्थ पएसि मुया ।
भउ अप्पणु भमणिहे दूरे मुणी ।
चितइ दुग्गंधकयत्थियउ ।
आगच्छइ तो नासमि तुरिउ ।
भासइ घाणिग्र वइराइयउ । १०

घत्ता—न मुणिज्जइ भयवंत काइ एउ एत्थच्छइ ।
मुयउ जासु घाणीग्र जीवु जणहो निग्गच्छइ ॥१५॥

१६

दुवई—त निसुणेवि वयणु मुणिनाहे करि धरिऊण तेत्तहे ।
निउ सो विगयपाण तणुसुदरि अच्छइ कुहिय जेत्तहे ॥

दक्खालिय सा तुह एह पिया
जा भायहि सिद्धि व रत्तिदिणु
तं निग्रवि विराउ महंतु हुउ
आलोइवि निदेवि अप्पणउ

जहे कारणे वज्जिय साहुक्रिया ।
लइ एह णियच्छहे सा सुयणु ।
गुरुगुणगुरुभत्तिभरेण तुउ । ५
दूरुज्जेवि अवर वियप्पणउ ।

निच्चलमणु मुणिचारित्तं थिउ
समसत्तुमित्तु हुउ अण्णवसी
दीवायणु गुणनामेण गुणी
होएप्पिणु केवलि तिजगगुरु

काले दुक्कियमलु खयहो णिउ ।
तवतेएँ नावड' पुन्नससी ।
ते भणिउ गोरसदीवु मुणी ।
तणुचत्तउ पत्तउ मोकखपुरु ।

१०

घत्ता—महिलासगे दोसु एउ वियाणेवि छडह ।

सिरिचदुज्जलकित्ति नियवउसीलु म खडह ॥१६॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते एत्य जणमणाणदे ।

वारत्तय - दीवायणकहाए तेत्तीसमो सधी ॥

॥ सधि ३३ ॥

संधि ३४

१

इह लोए वि महल्ल दोसं कामस्स वसगओ पत्तो ।

कालगदो वि य पच्छा कडारपिगो गदो निरय ॥ [भ० आ ९३४]

इह लोकेऽपि महान्त दोषमपराध कामवश गत. सप्राप्त. कडारपिगो मन्निपुत्र पञ्चान्नरक गत ।

अवरु वि कहमि कडारपिगु मतिहे देहुव्वभउ ।

सहेवि किलेसु वहुत्तु कामवसो नरय गउ ॥

५

इह कपिल्लनयरि^१ नरसीहहो
होतउ सुमइनामु विक्खायउ
सो रायहो पिउ लीलइँ अच्छइ
सा सा चप्पिवि भुजइ दुज्जणु
काले जतएण वणिउत्तहो
एक्कहिँ वासरि रूवरवन्नी
नवजोव्वण निएवि अणुराएँ
भणिय भणाविय तो वि न इच्छिउ

रायहो मति वइरि करिसीहहो ।
तासु कडारपिगु सुउ जायउ ।
जा जा का वि नारि पुरि पेच्छइ ।
कि पि न पहुभएण जपइ जणु ।
भज्ज पियगुसिरी धणदत्तहो । १०
न सुरकन्न का वि अरइन्नी ।
तेण महासइ सा पियवाएँ ।
दिढमणाए दुव्वयणाहि दोच्छिउ ।

घत्ता—सेट्ठिहे भज्ज भणेवि खलु चित्तम्मि व^३ वकइ ।

गेण्हुँ रायभएण तं सहस त्ति न सक्कइ ॥१॥

१५

२

अलहतेण मयणगहगहिँएँ
पेक्खहि एहावत्थ सरीरहो
जइ त नारीरयणु न पावमि
तेण वि धीरिवि पुत्तु पयत्ते
सेट्ठि मुवन्नदीवु पेसिज्जइ
तो पहु वाहिमरणदुम्भिक्खइँ
वइरिविणासु तासु माहप्पे
आयन्नेवि एउ अणुराएँ
जाहि सुवन्नदीवु तुहुँ जाणहि

तायहो कहिउ तेण हयसुहिँएँ ।
दूसह सरधोरणि असरीरहो ।
तो निच्छउ जमपट्टणु पावमि ।
भणिउ महीवइ मंतियमत्ते ।
जइ किजप्पु पक्खि आणिज्जइ । ५
लोयहो होति न दावियदुक्खइँ ।
रज्जहो विट्ठि होइ अवियप्पे ।
हक्कारेवि भणिउ वणि राएँ ।
लहु किजप्पु पक्खि एत्थाणहि ।

घत्ता—जेण विलिज्जइ वाहि होइ सति पुरदेसहो । १०
 एम करेमि नवेवि गउ धणदत्तु निवासहो ॥२॥

३

मुहकमलोहामियसयवत्तहो	गपिणु कहिय वत्त नियकतहो ।	
वल्लहं रायाएसु करेवउ	मई सुवन्नदीवहो जाएवउ ।	
लोयहो रोयवियारु हणेवउ	इह किंजप्पु पक्खि आणेवउ ।	
पच्छइ पिणु सुविहाणु करेज्जसु	घरु परियणु कुडुबु चित्तेज्जसु ।	
ता धुत्तीण तीण उवलक्खिउ	कारणु नियभत्तारहो अक्खिउ ।	५
मज्झ सइत्तणिभजणचित्तहो	एउ पवचु महत्तयपुत्तहो ।	
जाणइ जइ भत्तारु पयट्टइ	तो महु एक्कल्लिय कहिं छुट्टइ ।	
आयन्नेप्पिणु एउ वणीसरु	सोहणदिणि पणवेवि णरेसरु ।	
सहुं सत्थे थोवतरु गपिणु	एप्पिणु थिउ पच्छन्नु हवेप्पिणु ।	

घत्ता—एत्तहं सक मुएवि सहुं सुहीहिं अणुराइयउ । १०
 णिसिसमयम्मि कडारपिणु तत्थ सप्राइयउ ॥३॥

४

वीसासेवि समित्तु वँधाविउ	ताए गृहकूवम्मि छुहाविउ ।	
अच्छिउ तर्हिं नरयम्मि व नारउ	कूरसरावे किउ साहारउ ।	
ता सवच्छरति सप्राइय	लेवि परोहणु सेट्टिसहाइय ।	
नाणा पक्खिपक्खि आणेप्पिणु	पावयम्मु कूवहो कड्ढेप्पिणु ।	
चंचु पक्खि पय पुच्छु करेप्पिणु	दाविउ रायहं राउलु नेप्पिणु ।	५
भासिउ पुहर्डसेणुव्वेल्लहि	लइ किचि वि किजप्पय बोल्लहि ।	
तेण वि सण्हसरेणालत्त	किं जपमि कि जपमि वुत्त ।	
सद्दु सुणेवि महीवइ घोसइ	एहु कडारपिणु फुडु होसइ ।	
फेडिवि पक्खावरणु निरिक्खिउ	पुच्छिउ वइयरु वणिणा अक्खिउ ।	
ता रुट्टेण नरिदे ताडिउ	विच्छारिवि नयरहो णिद्धाडिउ ।	१०

घत्ता—पायालहो पावेण गउ मरेवि हुउ नारउ ।

अवरु वि पावइ एम दुहइ परदारारउ ॥४॥

५

असणि व भाणगिरिदवियारी	नारि अणत्थमूलु विरुयारी ।
भारहरामायणइं अणंतइं	जुज्झइं जुवइनिमित्ते वुत्तइं ।

असुइ सहावे चचलचित्ती
 भामिणि विणु असणेण विसूई
 सामा सिहिसिहि व्व संतावइ
 विसमसील रक्खसि व भयकरि
 सिहिघूमोलि व मइलियगेही
 दुट्टुभुयगि व वाहि व विसमी
 वग्घि व घुरुहरति न वि थक्कइ

थी सुणहीव हीणकयमेत्ती ।
 दुम्मइ निव्वरदुक्किकयकूई ।
 पुरिसहो दुग्गइदुक्खइँ दावइ । ५
 साइणि व्व नरपाणखयकरि ।
 खलमेत्ति व खणदिट्टुसणेही ।
 वक्कवलण नइ व्व नीयगमि ।
 मयरि व गाहु न मेल्लहुँ सक्कइ ।

घत्ता—जो वीसासहो जाइ महिलहो सो नरु नट्टु । १०
 पडियउ वणि चोरिणिहे वच्चइ कवणु अमुट्टु ॥५॥

६

घरु अलीयअविणयआयासहो
 अयसनिहेलणु ससयसयखणि
 दुक्खुपत्ति सोक्खसतासणि
 कत किवाणहो धार व छिइइ
 मडर व मोहइ पासि व वंघइ
 कियउवयार सया वि वियट्टुइ
 तियमइ तिक्खकुटारु व फाडइ
 तामच्छउ ससग्गु व चित्तइँ
 भामइ ससारइँ ते भामा
 वहइ वहू ते भणिय विसट्टुहिँ

कारणु वइरहो कलिहे विणासहो ।
 दोसकसायसोयसस्सावणि ।
 धम्महो विग्घु सुगइनिन्नासणि ।
 पुरिसहो हियउ निमूलु व भिइइ ।
 जतु व निसुभइ भल्लि व विभइ । ५
 कुवलयच्छि करवत्तु व कट्टुइ ।
 मणुसु मयधु मुसडि व ताडइ ।
 रामानामाईँ वि अपवित्तइँ ।
 दुक्किग्र रमइ निच्च ते रामा ।
 वणिया वयणहिँ वणइ अणिट्टुहिँ । १०

घत्ता—नारि अवरु ते नारि रमणी रजइ राइं ।
 पमया वुच्चइ तेण वट्टुइ जेण पमाइँ ॥६॥

७

दइया दमइ जेण कयदोसा
 दारइ मणु ते वुच्चइ दारी
 अवला अवलावुट्टिहे लहुडी
 कामिणि थोडउ कामु न रुच्चइ
 भज्जा जेण वियारहिँ भज्जइ
 वाला वलियाहँ वि मणु वालइ

पुरिसहो जोसिज्जइ ते जोसा ।
 कुच्छिय मरणइँ करइ कुमारी ।
 मोक्खहो जत वहोडइ वहुडी ।
 चित्तु विलावइ विलया वुच्चइ ।
 कमइँ कुलइँ त कत भणिज्जइ । ५
 संयमु भ्माणज्भयणइँ चालइ ।

करइ वउक्खउ वल्लह ते तिय
आलु पउजइ पियहो पियाली

पच्छायइ दोसहिँ तेणेत्थिय ।
माणु महइ ते भणिय महेली ।

घत्ता—मायवप्पु पिउ पुत्तु विसयधा अवगन्नइ ।

कुणइ अकज्जसयाइँ कुलपरिहास न मन्नइ ॥७॥

१०

८

मारइ मारावइ सइँ मरइ
आयन्नह रत्तइँ रत्तमई
एत्थत्थि विणीदादेसि वरु
तहिँ करइ रज्जु पहु देवरई
सा चेय भणिज्जइ मित्तमई
दूरुज्जिभयरज्जकज्जकरणु
सजायउ परचक्कागमणु
सव्वहिँ मिलेवि नीसारियउ
सहुँ मित्तमईग्र पइट्ठु वणु

त नत्थि ज न तियमइ करइ ।
जउणदुहि घल्लिउ देवरई ।
सुरपुरु व अउज्झा नाम पुरु ।
तहो रत्ता देवि गइदगई ।
अच्छइ सहुँ ताइँ नराहिवई ।
न विहावरि जाणइ नेव दिणु ।
थिउ अवहत्थिवि मत्तियवयणु ।
तहो वणउ रज्जि वइसारियउ ।
तहिँ ताहि पियासग्र तवियतणु ।

५

घत्ता—अलहते जलु तेण कड्ढेप्पिणु नियसोणिउ ।

उसहिवलेण करेवि पाइय पिययम पाणिउ ॥८॥

१०

९

हुय सत्थुप्पाइय मित्तमई
तहिँ मुणिवि जणेण महापुरिसु
किन्नररइ नामें गुणनिलउ
तहो गेयासन्नइ ताग्र पई
सहुँ तेण करेप्पिणु मत्तणउ
दुट्ठाग्र रुएवि पवंचु किउ
मालाग्र नहारुपगुत्थियए
मगलु गायतिग्र पेल्लियउ

सपत्तउ सिरिपुरु देवरई ।
दिन्नउ घणु भवणु जणियहरिसु ।
वावीधरि निवसइ पगुलउ ।
वच्चिउ पावाए अण्णमई ।
तुज्जकज्ज वरिसवद्धावणउ ।
ण्हाणहुँ पिउ जउणायडहो निउ ।
वेढेवि निरतरु इत्थियए ।
सहसत्ति महादहि घल्लियउ ।

५

घत्ता—अप्पणु पगुलएण सहुँ सुहेण थिय गपिणु ।

एत्तहे ताम नरिदु गउ सोदेण वहेप्पिणु ॥९॥

१०

१०

तोडिउ मच्छेहिँ नहारुगुणु
चिंतापवणु छायावहले

पत्तउ मगलउरु भीणतणु ।
बीसमइ जाम तहिँ तरुहँ तले ।

तहो णयरहो राणउ लोयथुउ
 सुउ नत्थि मंतु' मतीहिँ कउ
 तेण वि आवेप्पिणु देवरई
 सव्वेहि मि जय जय कारियउ
 अनियतु संतु तहिँ जुवइयणु
 तामेत्तहे पहिँ वज्जरिउ

५

सिरिवद्धणु ताम परोक्खु हुउ ।
 अहिवासिवि मेल्लिउ रायगउ ।
 अहिसित्तु नारिनिव्विन्नमई । ५
 निउ नयरु रज्जि वडसारियउ ।
 जो करइ रज्जु पालियसुयणु ।
 मित्तमइहे केण वि तहो चरिउ ।

घत्ता—मगलउरि मलचत्तु देवि पइव्वए राणउ ।

अत्थि नाम जयसेणु पीणियदुत्थियदीणउ ॥१०॥

१०

११

सुदरो उयारसत्तु
 अधमूयपगुलाण
 तेण तेत्थ जाहि देवि
 भेदुली पहिद्ववत्त
 खघे पगुल वहति
 पुच्छए हले जणोहु
 सा पयासए पसन्नु
 एहु मज्झ पाणइट्ठु
 तेण निस्स पायभत्ति
 भूयले भमामि एव
 त सुणेवि थामे थामे
 वंदए महासड त्ति

सो पइव्वयाण भत्तु ।
 देइ दाणु दुव्वलाण ।
 एहि कचण लएवि ।
 चत्तिया सुणेवि वत्त ।
 पेच्छऊण' पथि जति । ५
 तुज्झ काउ होइ एहु ।
 देववभणेहिँ दिन्नु ।
 पगुलो गुणी गरिट्ठु ।
 सव्वहा करति भत्ति ।
 पेच्छमाण तित्थ देव । १०
 सव्वु कोइ गामे गामे ।
 पत्त तत्थ जंति जति ।

घत्ता—मणेवि पइव्वय लोउ पय पणवेवि नियच्छइ ।

घरे घरे भत्तिभरेण घन्नु सुवन्नु पयच्छइ ॥११॥

१२

पहे रत्थहे घरि घरि रइयसहा
 जणु जंपइ आयइँ किन्नरइं
 गायतइँ सदरिसियरसड
 अवरेरिस तिहुवणि णत्थि सई
 आयहे नामेण जि गलड मलु

सव्वत्थ वि पट्टणि ताहँ कहा ।
 गधव्वइँ किं विज्जाहरड ।
 अन्नइँ न होति फुडु एरिसडं ।
 पइ पंगलु तो वि नाहि मुयई ।
 संपज्जइ चित्तिउ सुहु सयलु । ५

आयहे नामेण महासइहे
इय घरि घरि वन्निज्जति सया
पेसिय पडिहारे सा सपई
निसुणइ अदिट्ठवणियावयणु

वरिसइ जलु वविउ एइ सइहे ।
एक्कहिँ दिणे रायदुवारु गया ।
थिउ ता कवडतरि भूमिवई ।
उच्चरिउ ताग्र आसीवयणु ।

गाहा—दरियारिदप्पभजण परमेसर जणियजणमणाणंद ।

१०

दुत्थियकप्पमहीरुह जसघवल चिर तुम जीय ।

परियाणेवि पहुणा तहे भुणिउ

फेडेप्पिणु अंतरवडु भणिउ ।

वाहूदो सोणिय पीदं ऊरुदो' खादिढ पल ।

कालिदीए अह छूढो साधु देवि पदिन्वदे' ॥

इय भणिवि देवि धणु ताहे बहू

परिहरिवि रज्जु पव्वइउ पहू ।

१५

घत्ता—सीहवलु वि सइरिणियग्र समउ सवत्तिग्र मारिउ ।

गोवईग्र रुढाग्र वइवसपुरु पइसारिउ ॥१२॥

१३

अत्थि एत्थ पुहईपुरि राणउ
तहो पाइक्कु परज्जियपरबलु
गोवइ नाम नाई जमदूई
गामि पलासकूडि पट्टइलहो
दिन्न विहाहहूँ सा सविहोएँ
कुलईसरियरूवगन्वियमइ
खलसहाव छदेन पयट्टइ
एक्कहिँ दिणि उद्वेइउ गामहो
तत्थ सुहदा नाम विसेणहो

गोविंदु व गोविदपहाणउ ।

दससयभडु नामेण महाबलु ।

तासु पुत्ति सिरिकतहे हूई ।

पहुवयणेण तेण सीहबलहो ।

किउ परमुच्छउ वधवलोएँ ।

५

रुच्चइ तासु ण केम वि गोवइ ।

दोहूँ वि कलहु कयावि न फिट्टइ ।

गउ सीहवलु समीहियकामहो ।

परिणिय धीय तेण हरिसेणहो ।

घत्ता—आयन्नेप्पिणु वत्त जोग्रवि रोसे रत्तिहे ।

१०

आगय गोवइ लेवि सीसु छलेण सवत्तिहे ॥१३॥

१४

अंतरि विग्घभएण चडेप्पिणु
तत्थ वि चोरविंदु भेसाविउ
निसिनिग्गमि मदिरि आवेप्पिणु
अवरहिँ वासरम्मि विच्छोइउ

थिय वडपायवि निहुय हवेप्पिणु ।

होग्रवि रक्खसीग्र धणु पाविउ ।

थवियउ मत्थउ तेल्लि तलेप्पिणु ।

आइउ गहवइ काले चोइउ ।

१२ जरुदो ।

२ पदिन्वदो ।

कयपडिवत्तिप्र भोयणकालप्र
माणुससिर निएवि मुहु वकिउ
लइ वल्लहिय खाहि कहिँ नासहि
एम भणिवि भल्लेण वियारिउ

आणिवि त तहो वल्लिउ थालप्र । ५
उट्टिउ आसणाउ आसकिउ ।
अज्जु हयास जमाणणि पडसहि ।
पाविणीप्र नियपइ सघारिउ ।

घत्ता—लाप्रवि आलु खलाप्र वणिसुउ नामे दत्तउ ।

नियवरु वीरवईप्र मारावहुँ आढत्तउ ॥१४॥

१०

१५

रायगेहि वणियहो धणमित्तहो
नंदणु मायवप्पपयभत्तउ
नयरासन्नगामि भूमीहरि
तेण वि मित्तमइहे उप्पन्नी
पडइ न सहूँ पिएण सा सुरयहो
तत्थगारयचोरहो रत्ती
एक्कहिँ दिणि पत्तउ चोरतउ
एत्तहिँ समुरयघरु अणुराइउ
दुम्मियमाणस वत्त सुणेप्पिणु
जाणिवि सुत्तु कंतु एककल्लिय

हुउ धणवइहे गव्भे धणइत्तहो ।
नामे सुयणु भणिज्जइ दत्तउ ।
निवसइ वणि आणदु मणोहरि ।
वीरवई मुय दत्तहो दिन्नी ।
जाइ समत्थ वि ण वि सासुरयहो । ५
अच्छइ अहनिमु मयणुम्मत्ती ।
अगारउ सूलियहे निहित्तउ ।
वीरमइहे भत्तारु पराइउ ।
थोव वेल सहूँ तेण सुएप्पिणु ।
सा तक्करहो पासु सचल्लिय । १०

घत्ता—दत्तहो मित्तु सुसेणु तहो अणुमग्गे गपिणु ।

चोरसमीवि मसार्णे थिउ पच्छन्नू हवेप्पिणु ॥१५॥

१६

वीरमइप्र आसन्नप्र होइवि
चोरु गरुयपीडाप्र करालिउ
पुच्छिउ किं किज्जउ सो भासइ
सीयल हियप्र पओहर लायहि
ता तप्र उवलुत्तुरुडि करेप्पिणु
मुहु मुहेण तवोलु समप्पिउ
विहडिय पाहण पडिय खसेप्पिणु
आवेप्पिणु घरु किउ कवारउ
विणु कज्जेण जि एण हयासेँ

सभासेवि सदुक्खउ रोइवि ।
समलहेवि कुसुमहिँ ओमालिउ ।
तिह करि जिह पिप्र डाहु पणासइ ।
मणहरु अहरपाणु परिपायहि ।
आलिगिउ दिहु उवरि चडेप्पिणु । ५
तेण वि उट्ठु मरंते चप्पिउ ।
थिउ तहि मुहि जि उट्ठु तुट्टेप्पिणु ।
पेक्खह खडिउ अहरु महारउ ।
ता वेढिउ घरु लोयसहासे ।

बंधेप्पिणु रायहो जाणाविउ
मारहि एहु भणिउ आरक्खिउ
वत्त कहेवि लोउ पडु जाविउ

तेण वि मणि न किं पि परिभाविउ । १०
तहिँ पत्थावि सुसेणे रक्खिउ ।
खडिउ अहरु चोरमुहि दाविउ ।

घत्ता—मारिज्जतु जणेहिँ मित्ते मित्तु मुयाविउ ।

सिरिचट्टुज्जलु लोए सव्वत्थ वि जसु पाविउ ॥१६॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।
महिलादोसपयासो एसो चउतीसमो सधी ॥

॥ सधि ३४ ॥

संधि ३५

१

ओघेण न बूढाओ जलतघोरग्गिणा न दड्ढाओ ।

सप्पेहिँ सावएहिँ य परिहरिदाओ वि काओ वि ॥ [भा आ ९९८]

ओघेण जलप्रवाहेण न बूढाओ न नीता । जलतघोरग्गिणा जाज्वल्यमानेन रौद्राग्निना न दग्धा । सप्पेहिँ वि सप्पेरपि सावएहिँ य सिहव्याघ्रादिभिरपि परिहरिदाओ विवर्जिता अपि काश्चित् स्त्रिय । अत्राख्यानम् । ५

धुवय—इय कहियाउ विरूवउ सपइ चगियउ ।

आहासमि महिलाउ पससहो जोग्गियउ ॥

सूरसेणजणवग्ग सउरीउरि
तहो महएवि महासइ रोहिणि
पुत्तु पवित्तु ताग्ग संजायउ
सो अहनिसु पासट्ठिउ मायहे
अइआसग्गु निएप्पिणु नदणु
हा पेच्छइ परलोयविरोहिणि^१
तेणायमि अइमेलु निवारिउ
लेप्पिणु गोरसु गोवयपत्तिग्ग

पहु वसुएउ सक्कु न सुरउरि ।
न कामहो रइ चदहो रोहिणि ।
नामे रोहिणेउ विक्खायउ । १०
भत्ति पयासइ पहयपमायहे ।
घरि घरि खलसहाउ जपइ जणु ।
अच्छइ सहँ बलहदे रोहिणि ।
आए दुज्जसु होइ अवारिउ ।
एक्कहिँ वासरि राउलु एत्तिग्ग । १५

घत्ता—पुरपवेसि पणिहारिउ सुणिउ भणतियउ ।

हले अम्हारग्ग पट्टणि पाउ पवत्तियउ ॥१॥

२

पेच्छइ अमुणियजुत्ताउत्ती
सुणिवि एउ दुहमउलियवत्ती
कि रोवहि हलि पुच्छिय देविग्ग
रोवमि देवि दुक्खु बड्डारउ
अच्छहि तुहँ पुत्ते सहँ जपइ

अच्छइ रोहिणि पुत्तहो रत्ती ।
गय राउलु गोउलिणि रुयती ।
गग्गिरगिरइँ कहिज्जइ गोविग्ग ।
फुट्टइँ लग्गउ हियउ महारउ ।
लोउ हयासु न किं पि वियप्पइ । ५

ता देवीप्र करेप्पिणु निच्छउ
 देहि सुद्धि दुज्जसमलु खालमि
 भासिउ वमुएवेण किमन्ने
 एयहे उहयतडइँ रेल्लतिहे
 मज्झि परिट्ठिय पडिमाजोएँ
 नत्थि भति ता होहि महासइ

भणिउ नाहु जणचोज्जु नियच्छउ ।
 सयणकुडुववयणु उज्जालमि ।
 दीवे देवि लोयसामन्ने ।
 नइहिँ महापूरेणावतिहे ।
 जइ न वहाविज्जहि तुहुँ तोएँ । १०
 आयन्नेवि एउ निम्मलमइ ।

घत्ता—जइ वसुएउ मुएप्पिणु अन्नु कयाइ मणे ।
 तो वोलेज्जसु निज्जसु निच्छउ मइँ जउणे ॥२॥

३

जणहो नियतहो एम भणेविणु
 ता तहिँ ताहे पहावे थभिउ
 उम्मग्गिउ जलु वोलिज्जते
 रक्खहिँ अम्मह मरणु महावइ
 जो तुह देइ आलु अवियक्खणु
 ता भासिउ देवीप्र सइत्तणु
 ता कार्लिदि म वोलहि पट्टणु
 तद्विवसावहि किय उत्तरगइ

थिय तणुचाएँ मोणु करेविणु ।
 एतु जलप्पवाहु जणु विभिउ ।
 पुक्कारिउ लोएण मरते ।
 तुहुँ परमेसरि सुद्ध महासइ ।
 सो निदिउ पाविट्ठु अलक्खणु । ५
 जइ महु अत्थि लद्धु गुणकित्तणु ।
 करि दक्खिणहि दिसाहि नियत्तणु ।
 अज्ज वि वहइ तत्थ जउणा नइ ।

घत्ता—अइसउ अइसउ पेक्खि विभिंय सव्व जण ।
 पुज्जिय रोहिणि देवहिँ सइ सुविसुद्धमण ॥३॥

१०

४

काओ वि हु दीसति गुणडुउ
 सीयाएविहि एत्थ कहाणउ
 सप्पेहिँ वि खद्धाउ न पेच्छह
 सावएहिँ काओ वि न खद्धउ
 अत्थि वणिउ जिणदासिप्र पत्तिप्र
 सो कयाइ कज्जेण सभज्जउ
 अतरालि वणि कासु वि वयणे
 किं आयइँ कम्मइँ कुलउत्तिहे

न जलतेण वि सिहिणा दडुउ ।
 अक्खेवउ सव्वत्थ पहाणउ ।
 सोमहे एत्थ कहहि मालाकह ।
 चपाउरि जिणदासु पसिद्धउ ।
 सोहिउ ससि व समुज्जलदित्तिए । ५
 गउ सावित्थिहि सत्थसहेज्जउ ।
 भणिय तेण पिययम दुव्वयणे ।
 सा सइरिणि जा हिँडइ रत्तिहे ।

पियवयणेण सइत्तणु थप्पहुँ
थिय पडिमाजोएँ परियचिवि

गय सा सीहहो देहु समप्पहुँ ।
गउ हरि भणिवि महासइ वचिवि । १०

घत्ता—त कोऊहलु पेक्खेवि हुउ निच्छउ पइहे ।
पुज्जेविणु अवरेहिँ वि किय पसस सइहे ॥४॥

५

साहु पडिलाहेदु गदस्स सुरदस्स अग्गमहिसीए ।
नट्टु सदीए अंग कोढेण मुहुत्तमेत्तेण ॥ [भ० आ० १०६१]

सावु मुनि प्रतिग्रहीतु गतस्य । कस्य ? सुरतनाम्नो नृपस्य । अग्रदेव्या नष्टम् । किम् ? तदग
शरीरम् । किमाख्याया देव्या ? सत्याख्याया । केन नष्टम् ? कुण्ठेन । कियता कालेन ?
मुहूर्तमात्रेण । अत्राख्यानम् ।

नामे सुरउ सुरिदुसमाणउ
न सइ सयलतेउरसारी
वज्जियरज्जकज्जु परमेसर
एक्कहिँ दिणि सुउ धम्मु महीसे
मुणिआगमणु होइ सुहयारउ
ता पर विन्नवेहि अच्छतहो
एम भणेप्पिणु पहु अतेउरि
साहुजुयलु चरियाइँ पइट्टउ
राउ वि पियसिगारासत्तउ-

अत्थि अउज्झापट्टणि राणउ ।
कत तासु सइ पाणपियारी ।
अच्छइ ताए समेउ निरंतरु ।
भणिउ तेण पडिहारु विसेसे ।
अहवा रज्जकज्जु गरुयारउ । १०
अतेउरि महुँ कील करतहो ।
गउ पइसरिउ ताम तहिँ अवसरि ।
आवेप्पिणु पडिहारे सिट्टउ ।
सुणइ न वार वार विन्नत्तउ ।

घत्ता—वार वार बोल्लतहो किं पि वि कुविउ पइ ।

१५

पुच्छइ रे पडिहारु किमाया एत्थ जइ ॥५॥

६

कहइ दुवारपालु पहु आया
रिसि सूयारे भव्वाराहिय
धोविय पय वडिवत्ति समारिय
एउ पसाउ करेप्पिणु गम्मइ
पिय पडु जावेप्पिणु गउ तेत्तहे
पुज्जिवि साहु विहूसियरिद्विए
पाविय पचाइसय नरिदे

दमवरधम्मरुई विक्खाया ।
चरियहे पइसरत पडिगाहिय ।
अच्छहिँ भाणसम्मि वइसारिय ।
त निसुणिवि सहसुट्टिउ भूवइ ।
मुणि अच्छति खडाइय जेत्तहे । ५
दिन्नउ भोयणु तियरणसुद्धिए ।
साहुक्कारिउ सुरवरवंदे ।

राउ विसज्जेवि रिसि जामावइ
मुणिनिंदावाएण विसिट्ठउ

हुय महएविहे ताम महावइ ।
तवखणे कोढे अगु विणट्ठउ ।

घत्ता—त दट्ठूण विरत्तउ तवहो नरिदु गउ ।

१०

रिसिनिंदापावे सइ भमिय अणतु भउ ॥६॥

७

महुविदु व इदियसुहसगमु
कहिमि जतु वणि वग्घे खेइउ
आउसु व्व पुत्तहिँ सभावित
दिदु धरेवि थिउ कपियकायउ
ताम फारफुक्कारभयकर
पेच्छइ उदुरेहिँ खज्जतउ
वग्घु वि ताम तत्थ सप्राइउ
भमइ चउदिसु हत्थु पसारइ
अलहतेण पसारियसाहउ

एक्कु पुरिसु नामेण तिविक्कमु ।
निवडिउ जुत्तावडि भयभेइउ ।
तहिँ सरठो दु पडते पाविउ ।
जाम निहालइ दिसउ वरायउ ।
कोणहिँ फणिचउक्कु तलि अजयरु । ५
विहिँ सियअसियहिँ सरु विद्धतउ ।
कूवब्भतरि नरु निज्झाइउ ।
पावइ नाहि केम किर मारइ ।
तडतरु तेण तलप्पण आहउ ।

घत्ता—ता साहहि वियलियमहु उड्डिउ मक्खियउ ।

१०

तहिँ महुविदु पडतउ तेण निरिक्खियउ ॥७॥

८

निवडिउ मुहि पडिहासिउ मिट्ठउ
महुलवलेहणु सुहु बहु मन्नइ
संसाराडईहिँ हिडतउ
पडिउ सरीरकूवि अधारण
वाहिहिँ महुयरीहिँ खज्जतउ
लगगउ आउसथोडे पससिण
गरुयपावभारेण खसेसइ
तिलु तिलु नारइएहिँ करेवउ

पेच्छह एम सव्वु जगु नट्ठउ ।
मेरुपमाणु दुक्खु अवगन्नइ ।
मरणमहावग्घेणाढत्तउ ।
चउकसायसप्पासुहगारण ।
विसयसोक्खु महुविदु लिहतउ । ५
उहयपक्खमूसयहिँ विणासिण ।
नरयाजयरहो मुहि निवडेसइ ।
एव दुक्खु जीवेण सहेवउ ।

घत्ता—ससारण महुविदु व सुहु दुहु मेरुसमु ।

एउ वियाणिवि सासयसोक्खहो करहो गमु ॥८॥

१०

९

जादो ह् चारुदत्तो गोटीदोसेण तह विणीदो वि ।

गणियासत्तो मज्जे सत्तो कुलयनासओ य तहा ॥ [भ आ. १०८२]

चारुदत्तो नाम्ना वरिण्कपुत्रो जादो अभूत् हु स्फुटम् । किं जात. ? गरिणकासक्तो वेश्याया
लग्न. मद्येनासक्तो भवेत् कुलनासओ गोत्रविनागकश्च । तथा तेनैव क्रमेण । केन ? गोष्ठीदोषेण
दुष्टससर्गदोषेण । अत्र चारुदत्ताख्यानम् । ५

चपापुरि वणिकुलगयणभाणु
करिरायगमण कलयठिसद्
ज चितइ त घरि सव्वु अत्थि
त नत्थि ज न पीणत्थणीप्र
पर तो वि नाहिँ सजाउ पुत्तु
आयासगामि मुणि एक्कु दिट्ठु
किं अत्थि नत्थि तउ मज्झ साहु
सुणु साविप्र पाविवि परमपुत्तु
मुणिवयणाणदियमाणसाहे
नवमासहिँ गयहिँ सदोहलेहिँ

नामेण पसिद्धउ अत्थि भाणु ।
सुहयारिणि गेहिणि तहो सुहद् ।
पर एत्तिउ ज तहो पुत्तु नत्थि ।
किउ तत्थ ताप्र पुत्तत्थिणीप्र ।
एक्कहिँ दिणि जिणहरि माणजुत्तु । १०
पणवेप्पिणु पुच्छिउ परमनिट्ठु ।
आहासइ मयणमयकराहु ।
वुद्धत्तणि लेसहि तउ निरुत्तु ।
हुउ कइवयदिवसहिँ गव्भु ताहे ।
उप्पन्नु पुत्तु सहँ सोहलेहिँ । १५

घत्ता—चारु भणेप्पिणु चारणमुणिणा एसियउ ।

चारुदत्तु सद्दिउ सुउ सुयणपससियउ ॥१॥

१०

हुउ काले सयलकलापवीणु
हरिकेउ हलाउहु चारुचित्तु
एक्कहिँ दिणि मणिमालिणिसरीहे
तहिँ उववणि केलीहरि कणतु
विज्जाहरु दिट्ठु वियक्खणेण
तेण वि अब्भत्थिउ एहि मित्त
तिन्नि वि एयाउ महोसहीउ
त वयणु तेण करुणाधरेण

सुदरमइ रुवे न रईणु ।
मरुभूइ चउत्थउ तस्स मित्तु ।
गउ कीलहुँ ससुहि मणोहरीहे ।
सहुँ रुक्खे खीलियसयलगत्तु ।
वोल्लाविउ हा किउ एउ केण । ५
फेडहि अयखीलय करि परित्त ।
वणे वट्ठिवि लायहि कयदिहीउ ।
किउ हुउ सुहि खेयरु तक्खणेण ।

घत्ता—करि करवालु करेप्पिणु गयणि पधाइयउ ।

मेलावेप्पिणु निय पिय तुरिउ पराइयउ ॥१०॥

१०

११

विज्जाहरु वोल्लइ चारुचित्तु
दाहिणसेठीहे मणोहरम्मि
तहो तणउ भणउ हुँ अमियवेउ

आयन्नहि वइयरु कहमि मित्त ।
प्रहु खेयरु कयसिउ सिवपुरम्मि ।
धूमसिहगोरमुडहिँ समेउ ।

मित्तहिँ हिमवंतहो गउ कयाइ
तवसिहिँ हिरन्नरोमहो' तणूय
विरहम्मि भुलुविकयदेहरक्खु
जाणाविउ मतिहे सहयरेण
ताएण वि गरुड करेवि गाहु
सा एह धूमसिहु अहिलसंतु

मुकुमालिय नामे रंभ नाइ ।
पेक्खेप्पिणु मयणावत्थ हूय । ५
संजाउ मज्झु अइगरुड दुक्खु ।
तेण वि तायहो रइयायरेण ।
पावेवि कन्न किउ महु विवाहु ।
अच्छइ खलु छिद्दु सय नियतु ।

घत्ता—अज्जुज्जाणि लयाहरे एत्थ सुयंतु मइ । १०

गउ खीलेप्पिणु लेप्पिणु पिय रक्खियउ पडं ॥११॥

१२

तुहुँ मायवप्पु महु परममित्तु
उवमिज्जइ जए को अवर तुज्झु
त मुणिवि पयपइ चारुदत्तु
इय भणिवि विसज्जिउ गयणगमणु
तेत्थु जि सव्वत्थवर्णिदधीय
परिणाविउ जणणं चारुदत्तु
सो' सज्जणु सुट्ठु सलज्जभाउ
अच्छउ रइ वयणु वि भामिणीए
एक्कहिँ दिणं चेइय सिक्खवेवि

जीवाविउ पडं दिन्नउ कलत्तु ।
किं किज्जउ दे आएसु मज्झु ।
दंसणु जि तुज्झु पेसणु निरुत्तु ।
वणिउत्तु वि आइउ निययभवणु ।
नामेण मुमित्तमई विणीय । ५
न कामएउ रइ चारुगत्तु ।
अमुणियजुवईयणसगसाउ ।
न पयपइ समउ सुहाविणीए ।
पट्टविय मुहदए त लएवि ।

घत्ता—तेहिँ वि वेसावाडउ निउ लाएवि मिमु । १०

किउ वसंतसेणाए पयत्तं मयणवमु ॥१२॥

१३

वासोहिउ वेसए कियउ तेम
पाइउ नुरा वि मणभामिणीए
आयत्तिवि वत्त विरत्तयाइ
तेण वि वारहवरिमेहिँ मव्वु
जा नत्थि कि वि ता भूसणाइ
पुट्टणिए निएप्पिणु ताइ वुत्तु

मेल्लए न मुहुत्तु वि एक्कु जेम ।
किउ घम्मनानु तहो पाविणीए ।
तउ लेवि घरहो पियरइ नयाउ ।
छत्तीम वि कोटिउ न्दधु दव्वु ।
भज्जइ पट्टवियउ अण्णणाइ । ५
हुउ निदणु निच्छउ चारुदत्तु ।

घल्लिज्जउ पुत्तिग्र किं अणेण
केम वि मेल्लइ न वसतसेण

आणेज्जइ सो सजुउ धणेण ।
ता पुत्तिहे कहइ कल्लिगसेण ।

तद् यथा—न वेत्सि गणिकाशास्त्र वाला त्वमसि पुत्रिके ।

तावद् भवेत्प्रियोऽस्माकं यावद् दत्ते तु काचनम्' ॥ १०

उच्छ्वरसु आलत्तउ वरगु
एयइ दिट्ठइ देय माय

मुच्चइ धणु लेप्पिणु तिह भुयगु ।
पर धीय न मुयइ कयाणुराय ।

घत्त—एक्कहिं दिणे किउ चच्चरु सो मच्चावियउ ।

कुट्टणीग्र उक्कुरुडग्र सो घत्तावियउ ॥१३॥

१४

सभालिवि लज्जिउ हुग्र पहाग्र
सम्माणिउ ण्हाणिउ कहिय वत्त
आयन्निवि पच्छातावत्तु
जं अत्थि किं पि धणु त लएवि
सहुं माउलेण धणकणयपयर
कप्पासु लेवि तहिं तामलित्ति
तामतरि गहणि दवग्गि लग्गु
उद्देइउ ता मेल्लेवि मामु
तहिं तायहो मित्ते सुदरेण
पडिवत्तिग्र परिओसियमणाइं

गउ घरु विवत्थ पेक्खिवि पियाग्र ।
किउ पियरहिं तउ घरतत्ति चत्त ।
अन्नहिं दिणि निद्धणु चारुदत्तु ।
गउ वाणिज्जहे पिय सठेवि ।
सपत्तउ उसिरावत्तनयर । ५
जा जाइ वियाणियवणियवित्ति ।
हुउ भूइ जलेप्पिणु सो समग्गु ।
गउ पत्तउ पुरु पियनयर नामु ।
सम्माणिउ वणिणा सुदरेण ।
अच्छेवि तत्थ कइवयदिणाइं । १०

घत्ता—वोहित्यम्मि चडेप्पिणु धणलोहे ह्यउ ।

तेण निसेहिज्जंतु' वि जवणदीवु गयउ ॥१४॥

१५

नयराउ दीवु दीवाउ णयर
वोहित्यु सत्त वाराउ फुट्टु
अट्टमवाराग्र पुणो वि भग्गु
कह कह व सिंघुसायर तरेवि
गउ रायउरहो अत्थहो कएण

वड्ढेप्पिणु एतहो दव्वनियरु ।
अप्पणु पुणु पुन्नवसेण छुट्टु ।
जलि जाणवत्तु फलिहम्मि लग्गु ।
सिंघवदेसतर पइसरेवि ।
तत्थेक्के गोविदे कएण । ५

भगवेण दिट्ठु निउ नियनिवासु
एक्कहिँ दिणि तेण पउत्तु पुत्त
लइ एहु जाहुँ तुह लेवि देमि
तेण वि अहिणदिउ पय नवेवि

सम्माणिउ थिउ तहिँ साहिलासु ।
एत्थच्छइ वणि रसु भत्तिजुत्त ।
जम्महो दालिद्धु वि णासु नेमि ।
गउ भगउ गहणगिरितलु लएवि ।

घत्ता—तहिँ डोगरहो कराडिहे सिद्धरसहो भरिउ । १०

दाविउ विलु तहो वयणे वणिसुउ पइसरिउ ॥१५॥

१६

दुग्गधि दुसचरि दुप्पवेसि
वयणेण तासु भउ परिहरेवि
तडि सिक्कयत्थु दोधेण जाम
मा गेण्ह गेण्ह त सुणिवि तेण
को तुहुँ विणिवारहि कि निमित्तु
हउँ चारुदत्तु नामेण वणिउ
पुरिसेण भणिउ हा वच्चिओ सि
पाविट्ठु एहु सुहि भगउ घुत्तु

अधारे नरए न कियकिलेसि ।
जमवयणि व कूवे पईसरेवि ।
रसु लेइ समुट्ठिउ सद्धु ताम ।
पुच्छिज्जइ दूरुज्जिभयभएण ।
हउँ माणुसु तुहुँ को तेण वुत्तु । ५
रसु लेहुँ एत्थ भगवेण पणिउ ।
मारहुँ तुहुँ एत्थ पवेसिओ सि ।
सुणु हउँ उज्जेणिहे वाणिउत्तु ।

घत्ता—भरेवि भडु वाणिज्जहे कचणदीवु गउ ।

एतहो घरु विढवेप्पिणु हुउ वोहित्थखउ ॥१६॥ १०

१७

अत्थक्खए दुम्मणु मलिणवेसु
एत्थाउ मित्त भगवेण दिट्ठु
बंधेवि रज्जु इह सिक्कएण
छुडु दिन्नउ रसु तुवउ भरेवि
तलि पडिउ रसेण सहडुडु चम्मु
जिह हउँ तिह अवरइँ नरसयाइँ
हडुडेण निरतरु जाहुँ एहु
हो एवहिँ तुह परिवाडि आय
वणितणउ भणड आडउ अणत्थु
जइ देमि न रसु तो उवरि थक्कु

आहिडिवि सुहि देसेण देसु ।
सम्माणिवि दव्वोवाउ सिट्ठु ।
पइसारिउ सिद्धरसहो कएण ।
ता गउ खलु सिक्कउ कत्तरेवि । ५
खद्धउ को वारए पुव्वकम्मु ।
इह घल्लियाइँ पलयहो गयाइँ ।
रसपूरिउ अच्छइ कोडिहेहु ।
लइ नासहि केम वि कहिमि भाय ।
कहिँ नासमि किह नीसरमि एत्थु ।
न वियाणहुँ काइँ वि करइ वक्कु । १०

घत्ता—देहि भरेप्पिणु तुवउ जइ सज्जण रसहो ।

जाइ एहु तो एत्थहो वधवु वइवसहो ॥१७॥

१८

ता दोधउ दिन्नु भरेवि तेण
पावेप्पिणु रसु पाविट्ठु तुट्ठु
एत्तहे तहिँ भाणुहे पुत्तएण
सव्वणहुपायपकय नवेवि
सो भणिउ पुरिसु जिह पडँ सुमित्त
तिह हउँ वि करमि तुह पहयताउ
भुणु सुयण जणे असरणि असारि
धम्मेण विवज्जिउ सोयरेण

तेण वि वरत्त चालिय करेण ।
छिंदेवि रज्जु केत्तहेँ वि नट्ठु ।
अवडाहडीहेँ अच्छंतएण ।
धीरेण दुविहु सन्नामु लेवि ।
किय मज्झ कूवि पडियहो परित्त । ५
भवकूवहो निग्गमणहो उवाउ ।
ससारि भमतु अलद्धपारि ।
पेल्लिउ पावेण महाभरेण ।

घत्ता—असुइगधि चिलिसावणि नारयकुलविलए ।

निवडिउ किमिकुलसकुले नरए दुहनिलए ॥१८॥

१०

१९

मुसुमूरणचूरणजूरणाई
अच्छोडणतोडणपाडणाई
ओहावणभावणनामणाई
आवीलणपीलणपउलणाई
आवट्टणवट्टणकुट्टणाई
पच्चारणदारणमारणाई
अन्नोन्नदुक्खदक्खावणाई
गिरिगरुयसिलायलवप्पणाई
किमिअद्धपूयपरिपायणाई
कदतु कणतु स्यतु संतु

उक्कत्तणदेहुल्लूरणाई ।
सिरछेयणभेयणताडणाई ।
नवनिसियसूलसंकामणाई ।
कोतासिसेल्लभससूलणाई ।
सघट्टणलोट्टणपिट्टणाई । ५
दुव्वयणई धम्मवियारणाई ।
सतत्तलोहभक्खावणाई ।
तिलु तिलु करेवि तणुकप्पणाई ।
अवरईँ वि दुक्खउप्पायणाई ।
विलवतु सुइर थिउ हा भणतु । १०

घत्ता—कह व किलेसे नरयहो नीसरेवि तिरिउ ।

हुयउ अणेयउ वारउ जीउ सुहतरिउ ॥१९॥

२०

किमु कीडु पयगु भुयगु भिगु
रुह हरिणु नउलु जाहउ तरच्छु
विगु वग्घु सिग्घु वाणरु विरालु
खरु करहु मेसु महिसउ वलद्धु

ससु सूयरु सवरु करि तुरगु ।
सेढा सरडुदुरु मयरु मच्छु ।
चित्तउ सिव साणु तहा सियालु ।
वगु वायसु गिद्धु महारउद्धु ।

होएप्पिणु वइरहो कारणाई
 सरविघणपासनिवधणाई
 लउडोवलढेक्कलताडणाई
 भामेवि महिहिँ अफ्फालणाई
 वणवडणई दहणई खोंचणाई
 अवर्राई वि छिदणभिदणाई

पत्तउ अन्नोन्नवियारणाई ।
 सकोडणतोडणमोडणाई ।
 उक्कत्तणकत्तणपउलणाई ।
 आलुचणवचणखचणाई ।
 तणपाणनिरोहाकदणाई ।
 . . . ।

५

१०

घत्ता—दुक्खसयाईँ सहेप्पिणु मुण्णवि तिरिक्खगइ ।

कह व किलेसे पाणी पत्तउ मणुयगइ ॥२०॥

२१

तत्थ वि महत्तदालिदुक्खु
 घणहरणईँ इट्टविओउ सोउ
 हा हा भुय इह परलोयभुक्कु
 घणसपयत्थु मलमलिणवेसु
 मुउ दुक्खे गिरिगहणतराईँ
 देवत्तणे वि रक्खसु पिसाउ
 वाहणु वेयालिउ छत्तधार
 आउत्थिउ मडु वित्तडवाड
 इंदाइयदेवहँ निण्णवि सोक्खु
 वरवुद्धि वियाणियसव्वसत्थु

सपत्तु कयावि न किं पि सोक्खु ।
 बधणसेवणईँ अणिट्टजोउ ।
 मग्गतु भिक्ख सुहिसयणमुक्कु ।
 परिसमिउ भमिउ देसेण देसु ।
 पइसेवि जलहि दीवतराईँ ।
 हुउ भूउ पेउ दुन्नयसहाउ ।
 तहो गायणु नच्चणु कयवियारु ।
 अवरु वि एवविहु नीयजाइ ।
 ज पत्तु जीउ माणसिउ दुक्खु ।
 सुरवइ वि न वन्नहँ तं समत्थु ।

५

१०

घत्ता—एउ सुणेवि मणोहर [सुहि] जिणधम्मु लई ।

पावहि सिरिचदुज्जल सासय जेण गई ॥२१॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहमाले ।
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णत्तपयदसजुत्ते ।

चउगइदुक्खपयासो एसो पणतीसमो सवी ॥

॥सधि ३५॥

संधि ३६

१

आयन्नेवि तेण भवससरणावत्थदुहँ ।
पुरिसेण पउत्तु महु पुन्नेहिँ आप्रो सि तुहँ ॥

जो अत्थि को वि उवएसु सारु
ता तासु चारुदत्तेण कहिउ
स दु सन्नासेण सुहकराई
पुच्छिउ नरु महु अबडहो इमाउ
सो भणइ अत्थि विवरेण तेण
तहे लग्गि वि पुच्छि महाणुभाव
निमुणेवि एउ ससयविणासु
अन्नहिँ दिणि लग्गि वि पुच्छि ताहि
थोवतरि अग्गप्र गमणु भग्गु

सो देहि सामि ह्यदुक्खभारु ।
सायारधम्मु सम्मत्तसहिउ ।
दाऊण पच परमक्खराई । ५
कि अत्थि कोइ निग्गमउवाउ ।
गोहावइ रसपिवणहो कएण ।
निग्गेज्जसु एत्थहो पहयपाव ।
थिउ धम्मस्सवणु करतु तासु ।
नीसरिउ तुरिउ सई कूवियाहि । १०
सकडि विडविहे मूलम्मि लग्गु ।

घत्ता—ता तहिँ अयजूहु तहो पुन्नेहिँ परावरिउ ।
विले पाउ पइट्ठु अयहे चरतियाहे धरिउ ॥१॥

२

जाणेवि गहिय किर अजयरेण
ता भणिउ तेण हउँ मणुय मित्त
ता खडि वि मूलई खणि वि तेण
तहो वत्त कहेप्पिण जाड जाम
सेरिहभएण उम्मग्गि लग्गु
सिगेहिँ उवलु ढालतु वलिउ
ते अवरोप्परु जुज्झति जाम
कह कह व किलेसे दुग्गईहे

अयवा लु खणइ जामायरेण ।
एत्थच्छमि कडुहि करि परित्त ।
नीसारिउ विभिउ माणसेण ।
वणमहिसु पधाइउ हणहुँ ताम । ५
नासेवि उच्चपाहणि वलग्गु ।
पच्छाविऊण अजयरेण गिलिउ ।
उत्तरि वि तुरिउ सो नट्ठु ताम ।
नीसरिउ नाई भीमाडईहे ।

घत्ता—माउलमित्तेण दिट्ठु रुदत्तेण तहिँ ।

निउ अत्थनिमित्तु नामे टकणविसउ जहिँ ॥२॥

१०

३

उत्तरिवि महानइ तेयवेय
 लघेप्पिणु टंकणगिरि महंतु
 तहिँ विन्नि पोढ मेढय लएवि
 हरदत्ते वुच्चइ चारुदत्तु
 पाविट्टे वारतहो वि तासु
 दिन्नउ वणिउत्ते कन्नजाउ
 विन्नि वि जण खल्लहँ पइसरेवि
 भेरुड वियप्पिवि मसपिंड
 मणिदीवहो अहिमुहि जति जाम

पइसेप्पिणु वेत्ताडइ अमेय ।
 गउ टकणविसयहो चारुदत्तु ।
 अजमग्गे अचलोवरि चडेवि ।
 हणु मिठउ हणइ न करुणचित्तु ।
 किउ तेण उरव्वहे पाणनासु । ५
 पसु मरिवि अमरु सोहम्मि जाउ ।
 थिय निहुय होवि तणु सवरेवि ।
 गय गयणगणि लेप्पिणु पयड ।
 अतरि अवरेक्के एवि ताम ।

घत्ता—पक्खे पक्खि हउ जुज्झतहँ नहे निच्छुडियउ । १०

रुद्धत्तु गिलिउ पावेण भवन्नवि पडियउ ॥३॥

४

गउ णरयावासहो सत्तमासु
 एत्तहि उत्तारिवि' गिरिवरम्मि
 ता फाडेवि खल्ल विणिग्गएण
 वहि आयावणे थिउ गुणगरिट्ठु
 सामीवि गपि हरिसियमणेण
 तेणावि कुसलु आसीस देवि
 नियनासु सुणेप्पिणु विभिएण
 परमेसर पालियपरमनिट्ठु
 किय धम्माहम्मविचारणेण

पाविट्टहो अह उड्डुगइ कासु ।
 किर खाइ पक्खि दीवतरम्मि ।
 भेसाविउ खगु नट्टउ भएण ।
 मुणि एक्कु चारुदत्तेण दिट्ठु । ५
 रिसि नमिउ सुहदानदणेण ।
 पुच्छिउ वच्छल्ले नामु लेवि ।
 मुणि भणिउ सुमित्तमईपिएण ।
 तुम्हई मई कत्थइ आसि दिट्ठु ।
 दिट्ठा बोलिज्जइ चारणेण ।

घत्ता—अरिणा रुक्खम्मि खीलिउ खयर निरिक्खिउ । १०

चपाउरि मित्त सो हउँ ता पई रक्खिउ ॥४॥

५

मेल्लाविउ पई हउँ तक्खणेण
 ता एतु निएप्पिणु हीणसत्तु
 हउँ सत्थायउ लेविणु कलत्तु

कुठि लग्गउ पियहि णहगणेण ।
 भयभीउ पणट्टउ कहि मि सत्तु ।
 पई पुच्छिवि गउ नियनयर पत्तु ।

४. १ उत्तरिवि ।

कालतरेण पिउणा मणोज्जु
तवचरणु हिरण्णमुवन्नकुभ
महएविउ मज्झ मणोहराउ
जयसेणहो हुय गवव्वसेण
वीणाविन्नाणे सावलेव
सीहजसु मणोहराए जणिउ

अहिंसिचिवि अप्पिवि मज्झ रज्जु ।
मुणि लइउ नवेप्पिणु भवनिसुभ । ५
नामे जयसेणमणोहराउ ।
नदणि रइ व्व रामामिसेण ।
किन्नर वि परज्जिय ताए देव ।
सुउ अवरु वराहगीवु भणिउ ।

घत्ता—पलिउ निएवि सिरि चित्तेप्पिणु सव्वु असासउ । १०
रज्जु सीहजसहो देप्पिणु मइँ पडिगाहिउ तउ ॥५॥

६

चारित्तपहावे चारुचित्त
सव्वत्य समुद्दावरियदेहु
मेरु व थिउ मज्झ मणोहिरामु
सुर विज्जाहर चारण मुएवि
तुहुँ भद् एत्य आओ सि केम
एत्यतरि विज्जाहरवरेत्तु
मुणिपय पणवेप्पिणु तेण वुत्तु
महु जणणहो जीविउ दिन्नु जेण
निमुणेवि समुट्ठिय साणुराय

संपत्तउ रिद्धिउ सत्त मित्त ।
दीवंतरु कड्यनामु एहु ।
गिरिगरुउ एहु कक्कड्यनामु ।
मणसा वि न सक्कइ अवरु एवि ।
ता तेण पयासिउ आउ जेम । ५
मयवइजसु सप्राइउ ससेत्तु ।
तुहुँ भाय निरुत्तय चारुदत्तु ।
अत्थि त्ति पउत्तउ सजएण ।
अवरोप्परु खेमाखेमि जाय ।

घत्ता—छुडु वे वि वइट्ट दिव्वविहूइविराइयउ । १०
ता सुरवरु एककु सक्कु व सयमेवाइयउ ॥६॥

७

आवेप्पिणु दिन्नपयाहिणेण
मुणिनाहु नमसिउ सहरिसेण
सदेहविवज्जिउ पयकम्ममु
कहिँ तुम्ह अणुक्कमु एहु आउ
भो देव रायदोनेहिँ घत्थु
देवेण भणिउ जाणमि खगिद
पुणु उच्छायारि भव्वयाहँ
पर एहु मज्झ आराहणिज्जु
एहु एयहो तणउ पनाउ सव्वु

वणिउत्तहो करेवि पणामु तेण ।
तं नियवि पयपिउ हरिजसेण ।
देवेमु पवत्तइ विणयकम्मु ।
परिहरेवि महारिसि वीयराउ ।
जं पढममेव पणमिउ गिहत्थु । ५
सव्वण्हु देउ वंदेवि मुणिद ।
किज्जइ सभावण सावयाहँ ।
गुरु पढमु तेण नुउ पुज्जणिज्जु ।
ज लद्धु मुवम्मु मुरत्तु भव्वु ।

घत्ता—आयन्नेवि एउ विभिण्ण खयरेण सुरु ।

१०

पुच्छिउ कहि केम एहु तुज्झु सजाउ गुरु ॥७॥

८

नियवइयरु आयन्नेवि एउ
सुणु वाराणसिपुरु सोमसम्मुं
वभहो गाइत्ति व गुणनिहाण
भद्दासुलसानामालियाउ
दिवसेहिं सुबुद्धिउ वे वि ताउ
चउरासी विन्नाणइँ कलाउ
न सरसइ विहिं रुवेहिं एवि
वाएण पयड विवाइ सव्व
मइगव्वे वकालोयणाए

विज्जाहरासु वज्जरइ देउ ।
होतउ वभणु पालियच्छकम्मु ।
तहो वभणि सोमिल्लाहिहाण ।
जणियाउ ताए वे बालियाउ ।
चउवेय सडगइँ सिक्खियाउ । ५
सव्वउ बुज्झति समोक्कलाउ ।
थिय^१ माणुसकन्नावेसु लेवि ।
किय^२ ताहिं निरुत्तर विगयगव्व ।
किय एह पइज्ज सुलोयणाए ।

घत्ता—जो मइँ वाएण को वि जिणेसइ विप्पवरु ।

१०

सो विउसपहाणु होसइ वल्लहो मज्झ वरु ॥८॥

९

एक्का हि जन्नवक्केण जित्त
रिसिआसमि तहे उप्पन्नु पुत्तु
निसुणेवि सिणेहे भद् तेत्थु
सुदरसव्वगविरायमाणु
सिसु पिप्पलादु नामे भणेवि
सयलागमवेयसडगजाणु
सव्वत्थ वि सुयणाणदहेउ
विणएण नमसिवि सुट्ठु भद्
महु तणउ जणेरि जणेरु कवणु

हुय कत तासु आसत्तचित्त ।
निहयए^१ पिप्पलतलि निहित्तु ।
गय अच्छइ वालु निहित्तु जेत्थु ।
पेक्खेवि पिप्पलफलु खायमाणु ।
गय सा वाराणसिपुरहो लेवि । ५
वड्ढाविवि काले किउ जुवाणु ।
हुउ पुज्जणिज्जु जणि जेम देउ ।
एक्कहिं दिणि पुच्छिय तेण भद् ।
आयन्निवि एरिसु ताए वयणु ।

घत्ता—उवएसिउ ताउ जन्नवक्कु पव्वइउ तुह ।

१०

सुलसा वि जणेरि स वि पव्वइय पसन्नमुह ॥९॥

१०

तीए पुत्त तुहुँ जायमेत्तओ
मइँ सिणेहभावेण लालिओ

पिप्पलस्स मूले निहित्तओ ।
वहिणिउत्तु भणिऊण पालिओ ।

८. १ थिउ ।

२ किउ ।

६ १ नेहए नि ।

तं मुणेवि रुटो दियंगओ
जन्नवक्कु वाएण निज्जिओ
एवि सधि भट्टाए कारिया
तो वि दुट्टभाव न मेल्लए
विरइऊण नियवयणवित्थर
तेण वहुदिवसेहिं घाइया

जहिं जणेरु वायत्थि तहिं गओ ।
पिप्पलादु विप्पेहिं पुज्जिओ ।
जुज्जमाण विन्नि वि निवारिया । ५
पुव्ववइरु हिययम्मिं सल्लए ।
करिवि पियरमेहो मिसतर ।
मायवप्पु जमपहेण लाइया ।

घत्ता—मारैवि पियराइं पिप्पलादु सोक्खेण थिउ ।

नियवइरनिमित्तु पियरमेहु महु तेण किउ ॥१०॥ १०

११

वद्धि नामेण रिसिदसीसु
सव्वत्थ पसिद्धउ लोयपुज्जु
मइं आयन्नेप्पिणु तासु वयणु

हउं होतउ तहो पयपणयसीसु ।
अवगाहियवेयसडंगविज्जु ।
पसुवहेण समीहियसग्गमणु ।

तद्यथा—अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इति ।

इय वेयवयणु निम्मलु विमुद्धु
अविरामु अणेयकईकयाहं
मेल्लेवि एउ जए अन्नो नत्थि
हालाहलु मन्नंवि अमिउ पत्थु
पुणु अग्निहोत्तु अमरत्तहेउ
नाणाविहजीवहं वहु चरेवि
तत्थि वि द्दुसहदुक्खइं सहेवि

अवितत्थु अरइउ अणाइसिद्धु । ५
चूडामणी व सव्वायमाहं ।
किं मसएँ अच्छइ जत्थि हत्थि ।
किउ खयरराय मइं आवसत्थु ।
पुणु जन्नविहाणु अणेयभेउ ।
उप्पन्नु घोरनरए मरेवि । १०
हुउ छेलउ पाववसेण एवि ।

घत्ता—सजाउ जुवाणु पोढकाउ कालेण किउ ।

मारहुं जन्नम्मि सोमसम्मविप्पेण निउ ॥११॥

१२

सगिराए समाउलचित्तएण

मइं भणिउ जवे वज्जंतएण ।

नाहं स्वर्गफलोपभोगतृपितो नाभ्यर्थितस्त्व मया ।

मनुष्टस्तृणभक्षणेन च गुरुस्त्व मे न चाह सुत ॥

स्वर्गं नेतुमभीप्ससे यदि भवेद् वेदे च तथ्या श्रुति ।

यज्ञं किं न करोपि मातृपितृभिः पुत्रैस्तथा वाधवैः ॥ ५

यूथादीना तमेकं सरसकिसलयग्रासमात्रोपभोज्यं ।
 मुग्धं यूपे निवद्धं भयतरलदृशे कपमान वराकम् ॥
 वे वे ति व्याहरन्त पद्भूमिति विवश निघ्नता याज्ञिकानां ।
 मन्ये वज्रातिरेक न दलति हृदय तत्क्षणादेव सद्यः ॥

हर्षे एम भणतु वि निद्वएण पढिऊण इमाउ रियाउ तेण । १०

अनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु भ्राता सगर्भ्योऽनु सखा सयूथ्य' । [यजुर्वेद
 ६,९] इति पशो स्वर्ग गमिष्यसीति ।

मनस्तऽप्यायतां वाक्तऽप्यायतां प्राणस्तऽप्यायता चक्षुस्तऽप्यायता
 श्रोत्र तऽप्यायताम् । यत्ते क्रूर यदास्थित तत्तऽप्यायता निष्ट्यायता तत्ते शुध्यतु
 शमहोभ्य इति' । [यजु. ६,१५] १५

इय मारिउ छव्वारउ दिएण	पुणरवि हुउ छेलउ दुक्किएण ।
वणि रुदडेण कत्तिहि कएण	महुँ मारिज्जतहो निद्वएण ।
निरु निम्मलु निरुवमु गुणनिहाणु	अमिओवमु जीवदयापहाणु ।
भुवणत्तयपुज्जु अणाइनिहणु	सम्मत्तु पुव्वकयकुगइनिहणु ।
जिणधम्मु चारुदत्तेण दिन्नु	दुक्कियमलु सयलु वि तेण छिन्नु । २०
दिन्नेहिँ पंचपरमक्खरेहिँ	देवत्तणु पत्तु सुहकरेहिँ ।

घत्ता—महु एण कमेण' धम्मायरिउ एहु हुयउ ।

पढमं चिय तेण साहु मुएप्पिणु संथुयउ ॥१२॥

१३

आयन्निवि एउ खगेसरेण	सुरवरु पउत्तु सगयकरेण ।
मज्झु वि कुलजीविउ दिन्नु एण	जीवाविउ ताउ महागुणेण ।
देवेण भणिउ पहु पहयताउ	तुह तणउ एहु सयलु वि पसाउ ।
ज भणहि असेसु वि तं करेमि	लइ रयणु सुवन्नउ घरहो नेमि ।
तामच्छउ वणिणा भणिउ एउ	आयन्निवि गउ पणवेवि देउ । ५
एत्थंतरि घरहो पियायरेण	निउ चारुदत्तु विज्जाहरेण ।

१२. १ अप्यन्या मन्यते मातानु पितानु भ्राता सगव । सगर्भो नु शाखा सयूथः ।

२ मनस्त्वाप्यायता । वाक्त्वाप्यायता । चक्षुस्त्वाप्यायता । श्रोत्रं त्वाप्यायता । यत्ते क्रौड
 यदास्थित तत्त्वयाप्यायता न्वन्ते शुद्धानु सनहोभ्य इति । ३ कामेण ।

थिउ तहिँ सुहेण रजियजणम्मि
एक्कहिँ दिणि आणेप्पिणु खगेण
सव्वोवयारकरणेक्कचित्तु
भो ताय तुहारए मदिरम्मि

वहु वासर खेयरपुरवरम्मि ।
गधव्वसेण नियवहिणि तेण ।
विन्नविउ नवेप्पिणु चारुदत्तु ।
हसी व वसति सरोवरम्मि ।

१०

घत्ता—जो गधव्वेण माणु मलेसइ निउणमइ ।

परिणेवी तेण एह निरुत्तउ हसगइ ॥१३॥

१४

एयहे वरु हरिकुलवसजाउ
एरिसु मुणिदभासिउ कहेवि
ससु चारुदत्तु पावियसमाणु
आयासहो पडिउ महाणुभाउ
जिय गधव्वे गधव्वसेण
दोण्ह वि अन्नोत्तु सिणेहु जाउ
कुलसीलु सुणेप्पिणु ताहे तणउ

होसइ तिखडभूवालनाउ ।
मणिमयहिँ विमाणहिँ गयणे एवि ।
.. . . . ।
कालतरेण वसुएउ आउ ।
परिणिय घुत्ते रजियजणेण ।
थिउ सोक्खे अधयविट्ठिजाउ ।
आणदिउ हरिवलएवजणउ ।

५

घत्ता—ससग्गवसेण चारुदत्तु सिरिचदजसु ।

पेच्छह वणि नट्ठु पत्तु अणत्थु अणप्पवसु ॥१४॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।
गोट्ठीदोसनिसेहो एसो छत्तीसमो सघी ॥

॥ सधि ३६ ॥

संधि ३७

१

ध्रुवय—जङ्गीससग्गेण सयडु चरित्तहो भट्टउ ।

कुच्चवारु मुणि तेम वेसहि लग्गोवि नट्टउ ॥

सुम्मउ सयडनामु विहरतउ
थेरु णवइवरिसिउ गयदतउ
पहसमसमियउ पालियनिट्टउ
वुड्डइ मुक्खतिसाए करालिउ
उट्टेवि कयकरुणाए खडाविउ
रिसि भुत्ततरे लद्धसुहच्छिउ
भयवं किं निमित्तु वइरायहो
एउ सुणेवि पयपइ सुव्वउ

मुणि कोसवीपुरु सपत्तउ ।

घरे घरे आहारत्थु भमतउ ।

जङ्गिहे केरइ भवणे पइट्टउ ।

ताए असीवरिसियइ निहालिउ ।

रोडिए ज घरे त भुजाविउ ।

गोट्टि करतिए थेरिए पुच्छिउ ।

घोरवीरतवचरणहो आयहो ।

साविए महु तवकारणु सुव्वउ । १०

घत्ता—इत्थेव य नयरम्मि सोमसम्मु नामे दिउ ।

होतउ सोत्तिउ सुट्ठु गुणे वीणावभणिपिउ ॥१॥

२

नदणु सयडु नामु तहो जायउ
वभणकन्ना नामे रोहिणि
सा^१ सइ महुं पडिहासइ चित्तहो
तहे^२ सोएण सुट्ठु निव्विन्नउ
वहुकाले महियले विहरेप्पिणु
तुहुं का को उवाउ निव्वाहहो
एत्थु जे पुरि पालियच्छक्कम्मउ
तहो सोमिल्ला पाणपियारी
जङ्गी नामे रूवरवन्नी
दिन्न विवाहहुं सकरनामहो

हउं सो सव्वसत्थनिम्मायउ ।

परिणिय मइं चदेण व रोहिणि ।

एक्कहिं वासरे गय पंचत्तहो ।

दइगवरिय दिक्ख पडिवन्नउ ।

आइउ जम्मभूमि सुमरेप्पिणु ।

पुच्छिय कहइ थेरि तवराहहो ।

होतउ भट्टपुत्तु सिवसम्मउ ।

भज्ज मणोज्ज सइत्तणसारी ।

हउं तहे तणुय^३ उयरे उप्पन्नी ।

वप्पे विप्पसुयहो अहिरामहो । १०

२. १ सो ।

२ तहो ।

३ तणुए ।

घत्ता—गउ मरेवि भत्तारु काले पूरियपणएँ ।
सयणविहूणिय एत्थु जीवमि मुणि कत्तणएँ ॥२॥

३

एउ सुणेप्पिणु मुणिणा वुत्ती
जणमणयणाणदजणेरी
सुमरहि वालभार्वे कीलतइँ
सुमरहि विन्नि वि सुदरवेहइँ
जइणिण भणिउ अत्थि सुमरमि मुणि
इय वयणेहिँ वे वि अणुरत्तइँ
जुन्नाइँ वि तरुणत्तणु पत्तइँ
तहिँ होताइँ गंपि कुसुमउरग
निच्चाणियखडलक्कडभाडिम

हले सा तुहँ सिवसम्महो पुत्ती ।
तुहँ सवंधिणि अम्हहँ केरी ।
उज्झायहो घरे वे वि पढतइँ ।
अम्हइँ पुव्वपयासियनेहइँ ।
पुव्वनेहसवधु महामुणि ।
सलग्गइँ लोहाइँ व तत्तइँ ।
थियइँ परोप्परु सुरयासत्तइँ ।
थक्कइँ चाउवन्नजणपउरग ।
वेन्नि वि निव्वहति कव्वाडिम ।

५

घत्ता—एउ सुणेवि कयावि थीससग्गु न किज्जइ ।

१०

तेण कएण निरुत्तु तवखंडणु पाविज्जइ ॥३॥

४

निसुणह कुच्चवारकह सुंदरि
होतउ मोरियवसविहूसणु
तासु असोयसिरिग महएविहे
सुदरु सूरु वीरु विक्कतउ
तासु भएण समत्थ वि सकहिँ
एमच्छतहो पावियकित्तिणि
एक्कहिँ दिणि वरघम्मु मुणीसरु
घम्माहम्महो फलु निमुणेप्पिणु
कुच्चवारु मेल्लेप्पिणु मंदिरु

राउ असोयनामु पाडलिउरि ।
सोहणमइ कयदुन्नयदूसणु ।
कुच्चवारु हुउ सुउ सियसेविहे ।
जगनिग्गयपयाउ वलवंतउ ।
नासहिँ वइरि न सम्मुहु दुक्कहिँ ।
तहो नियलीलग जुवरायत्तणि ।
तत्थायउ ससधु परमेसरु ।
निव्विन्नउ तहो पय पणवेप्पिणु ।
हुउ मुणि जणमणनयणाणदिरु ।

५

घत्ता—निगवि सरीरहो छाया सलिले कयाइ नियत्तउ ।

१०

भजेवउ महिलाग तुह तउ गुरुणा वुत्तउ ॥४॥

५

जइ एरिसु तो जत्थ न दीसइ
तहिँ तउ करमि एम पभर्णेप्पिणु

महिला महु चारित्तु न नासइ ।
गउ गिरिसिहरहो गुरु पणवेप्पिणु ।

४. १ सृयसेविहे ।

एतहे तहो तवचरणु सुणेप्पिणु
निरवसेसु मडलु खाएप्पिणु
जणु आदन्नउ पहु चिंताविउ
होइ एत्थ जइ पुत्तु महारउ
तो किं एहावत्थ परावड
धीरिउ वेसए धीरमइए पहु

आगय अरि चिरखेरि सरेप्पिणु ।
थिय वलेण पट्टणु वेढेप्पिणु ।
महणावत्थ समुद्धु व पाविउ । ५
कुच्चवारु अरिनियरनिवारउ ।
एउ भणतु सुणेवि धरावइ ।
आणमि तुह सुउ वइरिगलग्गहु ।

घत्ता—एउ सुणेवि निवेण सा परिओसे पुज्जिय ।

आणहि केम वि पुत्तु एम भणेवि विसज्जिय ॥५॥ १०

६

वहुवेसाहि सहिय निवपुज्जिय
पव्वयतलि सकेउ करेप्पिणु
सेसहिं सहियए उवरि चडेप्पिणु
भयव एक्क थेरि अणुराइय
चडहुँ असक्कती तलि अच्छइ
एह पसाउ करेवि पडिच्छह
एउ सुणेवि अयाणियमायउ
ताए वि रइयपवचहिं तिह किउ
आणिउ घरहो नरेसरु रजिउ
नट्टासत्तु सव्वु जणु तुट्टुउ

गय वियड्डु होएप्पिणु अज्जिय ।
पोढ विलासिणि एक्क थवेप्पिणु ।
भणिउ ताए मुणिपय पणवेप्पिणु ।
वदणहोत्तए एत्थु पराइय ।
पेच्छहुँ तुह पयपकय वच्छइ । ५
वदण तहे आसीस पयच्छह ।
मुणि तलु ताहे समीवि समायउ ।
जिह रइसगे वयभगहो निउ ।
वीरे वइरिमडप्फरु भजिउ ।
कुच्चवारु मुणि एम विणट्टुउ । १०

घत्ता—तिह पारासरु रुद्धु सच्चइ सच्चहो चलियउ ।

महिलहे लग्गेवि को न कामपिसाएँ छलियउ ॥६॥

७

पयडमि पारासरहो कहाणउ
तेण जयतीपुरि विससेणहो
विस्सरुवमहएविहे हूई
तवई नामे सुम्मइ सत्थए
रिउवईहे पई एम करेवउ
तुरिउ गएण वि पडिआवेवउ
एम होउ भणिऊण विवाहिय
रिउसमयतरु पडिवालतउ

गयउरे सवरु नामे राणउ ।
रायहो वइरिविहगमसेणहो ।
धीय सलक्खण सुट्ठु सुरूई ।
परिणिय एयारिसए अवत्थए ।
कज्जे विणु न कहि मि जाएवउ । ५
निच्छउ एयहे वासउ देवउ ।
रामे जणयसुय व्व गुणाहिय ।
जामच्छइ पहु भोयासत्तउ ।

घत्ता—तामेत्तहे कज्जेण सक्कसहाए समग्ग वि ।

मिलिया देव मुरारि वभमहेसर ससि रवि ॥७॥

१०

८

तेत्तीस कोडीउ जा ताम नुर सव्व
गह रक्खसा भूय विज्जाहरिदा वि
सवरु वि नरनाहु पुच्छेवि नियपत्ति
एत्तहिँ वि पुप्फवड सजाय महएवि
विण्णविय गनूण तेणेह लहु राय
पहुणा वि सो भणिउ जाएवि विन्नवसु
डदो अहल्लाहे परयारदोसेण
सो तेण सावेण सहसभउ सजाउ
कहिँ सो गवेसणनिमित्तेण दूराउ

आहुट्ट कोडीउ गण जक्ख गधव्व ।
मिलिया दिया खत्तिया वइस सुद्धा वि ।
गउ देवकज्जेण सहस त्ति सुरथत्ति ।
सपेसिओ पुरिसु तहिँ मग्गु जोएवि ।
तुह पहु पलोएइ महएवि रिउण्हाय । ५
मा कुप्प पिए एत्थ पत्थावि महु खमसु ।
गोत्तमेण दट्ठूण सविओ सरोसेण ।
लज्जिविगओ कहिँ मि मेल्लेवि नियठाउ ।
मिलिओ सुराण नराण च सघाउ ।

घत्ता—तेण न आवहुँ जाइ एउ असेसु वि गंपिणु ।

१०

अक्खिउ नृवरामाहे पुरिसे तेण नवेप्पिणु ॥८॥

९

आयन्नेप्पिणु पत्थिववणियए
वधिवि मुउ भणेवि पट्टवियउ
जड तुम्हहुँ न जाइ आवहुँ पहु
पइवयाहे पुत्तासालइयहे
एम होउ पहुणा पडिवन्नउ
नेवि एतु गयणगणि गयउरु
पडिय पुडिय छुडेवि गगादहे
गिलियए वम्मि गव्वु सजायउ
तस्य तेण सा घल्लिय जाले

पत्तपुडिय गलि पुत्तत्थिणियए ।
तेण वि गपि सामि विण्णवियउ ।
तो वीरिउ अप्पणउ समप्पहु ।
अप्पमि जेम नेवि तुह दइयहे ।
पुडियहे निययसुक्कु तहो दिन्नउ । ५
ओलावण्ण भडप्पिउ नहयरु ।
निवडिउ नवर मुक्कु मच्छिहे मुहे ।
एक्कहिँ दिणि मच्छधिउ आयउ ।
वद्ध मीणि भीणक्खयकाले ।

घत्ता—घरु आणेप्पिणु जाम उयरु वियारड मच्छिहे ।

१०

ताम नियच्छइ वाल कड्डिय वाहिर कुच्छिहे ॥९॥

१०

विभियमाणसेण वट्ठेप्पिणु
जाय जुवाण जुवाणहुँ मच्छइ

वट्ठाविय कतहे अप्पेविणु ।
मच्छगघ नामेण पउच्चइ ।

पुत्ति पयत्ते एउ करेज्जसु
 कज्जवसिउ कयाउ इय जपेवि
 छत्तियकुडियभिसियजडाधरु
 तेण भणिय सा मइँ उत्तारहि
 ता नावाए चडाविउ वालए
 तहि मुहु नयण जहण थणमडलु
 खुहिउ तवस्सि थेरु विवरेरउ
 पभणइ मइँ मरतु जीवावहि

जो आवइ सो उत्तरि देज्जसु ।
 गउ जणेरु तहे नाव समप्पेवि ।
 ता तहिँ आइउ रिसि पारासरु । ५
 पुत्ति पइल्लउ पारु पणारहि ।
 निउ नइमज्झउ थोरथणालए ।
 पेक्खेवि हत्थहो पडिउ कमडलु ।
 किउ कुसुमसरसरेहिँ अधीरउ ।
 एक्कसि भदि सुरयसुहु दावहि । १०

घत्ता—एम भणतउ तीए विणएँ तवसि निसिद्धउ ।

तुम्हहँ अम्हहँ सगु मुणि नियमेण विरुद्धउ ॥१०॥

११

तुम्हइँ वंभरिसी जयपुज्जिय
 अम्हइँ मच्छधिय दुग्गधिय
 तेण साहु ससग्गु न जुज्जइ
 हउँ तुह दसणेण ह्यथामे
 खणु वि न अच्छमि सक्कहुँ धीरहि
 ताए भणिउ हउँ मइल कुचेली
 तुम्हगहो अगउ लायतिहे
 एउ सुणेप्पिणु चित्तियमेत्ते
 दिव्वरूव दिव्ववरधारी
 चउकोसावहि कुवलयगधी

तवसामत्थिय विसयविवज्जिय ।
 जणनिदिय णिविकट्टु दुबुद्धिय ।
 पुणरवि पारासरेण भणिज्जइ ।
 पीडिउ सुट्ठु किसोयरि कामे ।
 दे आलिगणु मा मइँ मारहि । ५
 दूहवदुग्गधिणि कुमहेली ।
 सकइ महु मणु सूग वहतिहे ।
 तेण तवेण समीहियकते ।
 दिव्वाहरण तिलोयपियारी ।
 सा किय न कयअमरपुरधी । १०

घत्ता—पेक्खेवि तवसामत्थु सावाणुग्गहकारउ ।

इच्छिउ ताए भएण जइ वि न मणहो पियारउ ॥११॥

१२

धूमरीए पच्छाइयगयणे
 मेल्लेप्पिणु तउ मयणुम्मत्ते
 तक्खणि जोयणगधहे जायउ
 पंचकुचु परिहियकोवीणउ
 दीहजडाजूडकियमत्थउ

किउ नइमज्झ पुलिणु तहे वयणे ।
 माणिय इच्छए सा अणुरत्त ।
 नामे वासु पुत्तु विक्खायउ ।
 दिव्ववाणि चउवेयपदीणउ ।
 छत्तियभिसियविहूसियहत्थउ । ५

कुडियजन्नोवइयविराइउ
जणणिजणेरहँ कियअहिवायणु
सा पारासरेण सविसेसे
चलिउ वप्पु पुत्तु वि तहो पच्छग्र

वभु व वभंडाउ पराइउ ।
थिउ नदणु समीवि गुणभायणु ।
अक्खयजोणि जणियपरिम्रोसे ।
रविहे पयाउ व लग्गु कडच्छग्र ।

घत्ता—निग्रवि तणुव्भउ जत्तु जोयणगधग्र वोत्तिउ ।
मइँ मुएवि तुह ताउ तुहँ वि पुत्त सचल्लिउ ॥१२॥

१०

१३

वासे भणिउ ताम सुहयारिग्र
जइयहँ सुमरेसहि साहियमणु
एम भणेविणु नेहवसगउ
एत्तहि तहे व्वहो ढोडयमणु
परिणाविउ पुत्तेण विवत्थग्र
चित्त-विचित्तविरिय-चित्तगय
हणवि गएण दिसिहिँ पच्चालिय
तिन्नि वि एयउ ताण मणोज्जउ
जोयणगधग्र पुत्तनिमित्ते
ताणेक्केक्कउ पुत्तु जणेप्पिणु
घयरट्टहो कउरव दुज्जसजुय

जामि जणेरे समउ भडारिग्र ।
तइयहँ एसमि मुग्रवि तवोवणु ।
सहँ नियताएँ रिसिआसमु गउ ।
पहु कामेण कयत्थिउ सतणु ।
जणिय पुत्त तग्र तिन्नि' पसत्थग्र । ५
एक्कहिँ दिणि वणु पारद्विहे गय ।
अवा अवाइय अवालिय ।
विहवत्तणु सपत्तउ भज्जउ ।
सुमरिउ वासु महारिसि चित्ते ।
वासु वि तक्खणि गउ आवेप्पिणु । १०
पडुहे पडव हुय जियसजुय ।

घत्ता—सिरिचदुज्जलकित्ति विविउरु लहु बहुजाणउ ।
लोकपसिद्धउ एम पारासरहो कहाणउ ॥१३॥

विविहरसविसाले णेयकोज्जलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे मुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसरिचंदपउत्ते मुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।
वासुप्पत्ती एमो सत्ताहियतीसमो संधी ॥

॥ सवि ३७ ॥

संधि ३८

१

ध्रुवय—सिद्धिवह्वरइत्तु सव्वण्हु नवेप्पिणु ।
सच्चइरुद्दकह कहमि आयमु जोएप्पिणु ॥

दोहउ—इय वेयड्डहो दाहिणहे सेढिहे सुट्ठु समिद्धु ।
अत्थि नयरु सुरनयरसमु किन्नरगीउ पसिद्धु ॥

सपयावपरज्जियअसुमालि
सुउ रुद्दमालि सुमणोहरीए
तेणेक्कहिँ दिणे वलवतएण
साहंती विज्ज विवक्खमारि
तहे रूवे मोहिउ होवि भमरु
पुणु थणजहणाए पएसि लीणु
पच्छा पयडीकियनियसरीरु
पडिवालहि विग्घु म करहि ताम
सिद्धाए ताए तउ तणिय जाय
तो पुच्छिय तेण मणोज्जरूय

तहिँ अत्थि खगाहिउ रयणमालि । ५
तहो देविए जणिउ मणोहरीए ।
सच्छदे तहिँ विहरतएण ।
आलोइय विज्जाहरकुमारि ।
थिउ वयणकमलि छम्मास खयरु ।
थिउ सुहुमु होवि विज्जापवीणु । १०
सो भणिउ ताए परिअलियधीरु ।
सिज्भइ सिहि दुल्लह विज्ज जाम ।
होसामि सुहय वद्धाणुराय ।
हलि भदे कहसु तुहुँ कासु धूय ।

घत्ता—ताए कहिउ गधव्वपुरे एत्थेव महावलु । १५
उत्तरसेढिहे अत्थि पहु महु ताउ महावलु ॥१॥

२

दोहा—माय पहायरि नाम महु रूवसइत्तण धाम ।
हउँ वि पसिद्धी भुवणयले अच्चामालिणि नाम ॥

वहुदिवसहिँ साहियविज्ज वाल
परियाणवि मणु दोहेँ वि विवाहु
वहुकाले रइसरजियाहँ
नंदणवणि जिणपूयाहिसेउ ।
अच्छंतहँ मणजयचित्तवेय
महजालिणिविज्जवलेण वे वि
निज्जिणिवि समरि ते सो वि आउ

गय गेहहो अट्टमियदभाल ।
किउ मिलिवि कुडुवे रइयराहु ।
साहेवि पन्नतीविज्ज ताहँ । ५
थुइनमण करेप्पिणु सतिहेउ ।
तहे मेहुणयागय पवलतेय ।
गय रुद्दमालि वधेवि लेवि ।
गउ घरहो समहिलउ साणुराउ ।

घत्ता—वइरायहो^१ कारणु हुयउ तहो त पि सभज्जउ । १०
 चारणमुणिणा दिक्खियउ दूरुज्झियरज्जउ ॥२॥

३

दोहा—अवरोप्परु सनियाणु तउ नेहवसाइँ करेवि ।
 वेन्नि वि सोहम्महो गयइँ सन्नासेण मरेवि ॥

परिपालियमाहेसरपुरासु	रायहो गधारनरेसरासु ।	
सो सुरु सग्गायउ गुणहिँ जुत्तु	सच्चमइहे सच्चइ जाउ पुत्तु ।	
एत्तहे अच्चामालिणि वि देवि	आउक्खयम्मि सग्गाउ एवि ।	५
पविसिद्धाजणवण्ण जणियचोज्जे	विक्खाण्ण विसालीपुरि मणोज्जे ।	
चेडयनरनाहो सुप्पहाहे	महएविहे हुय सुय सुप्पहाहे ।	
नामेण भणिय जेट्ठा सउन्न	सा पुव्वमेव सच्चइहिँ दिन्न ।	
पर अज्ज वि नवि किज्जइ विवाहु	एत्थतरि होण्णवि सत्थवाहु ।	
कन्नत्थे सेणियरायपुत्तु	तत्थायउ अभयकुमारु धुत्तु ।	१०
भोलेवि लेवि नरवइसुयाउ	नीसरिउ सुरगइँ कियउवाउ ।	

घत्ता—वच्चिय जेट्ठा चेल्लणण्ण पट्टविय निवासहो ।
 अप्पणु आइय तेण सहुँ मदिरु मगहेसहो ॥३॥

४

दोहा—जामावइ जेट्ठा घरहो पडिम जिणिदहो लेवि ।
 ताम न पेच्छइ ताइँ तहिँ वे वि गयाइ छलेवि ॥

लज्जेवि जिणालउ गपि कन्न	पव्वइय समुज्जलहेमवन्न ।	
मामहो पत्तीहे महामईहे	अज्जियहे पासि थिय जसमईहे ।	
एत्तहि सच्चइणा मुणिवि वत्त	वेरगो रज्जविहूइ चत्त ।	५
पव्वइउ नवेवि समाहिगुत्तु	तउ तवइ तिकालु तिगुत्तिगुत्तु ।	
उत्तरगोकन्न मुएवि अद्दि	विहरंतु कयाइ अणगमद्दि ।	
आवेप्पिणु रायगिहहँ समीवि	थिउ गिरिवरि नामेणुच्चगीवि ।	
एक्कहिँ दिणि गुणअणुराइयाउ	त वदहुँ अज्जिउ आइयाउ ।	
वदेप्पिणु गिरि ओयरहिँ जाम	आइउ मेहागमि सलिलु ताम ।	१०

२ १ जइरायहो ।

घत्ता—तिम्मतिउ विहडंप्फडउ इदमुदउ पणट्टउ ।

जेट्ट पइट्ट गुहाहि तहिँ जहिँ साहु पइट्टउ ॥४॥

५

दोहा—निप्पीलतिहे वत्थु तहे अन्नोन्नालोएण ।

सुहुँ सच्चइणा सगु हुउ पुव्वक्कियजोएण ॥

आलोएणवि निंदिवि खवियकम्मि
जाणिवि सगन्ध सा सतियाए
अच्छतिए^१ तत्थ पसूउ पुत्तु
सिविणतरु लहिवि सयाणियाए
दसणहो करिवि उड्डाहसामु
गतूण पुण वि पव्वइय जेट्ट
वड्डतु सिसुहु सजणियताउ
रुट्टाए सयभू रुद्धु वुत्तु
खलु लज्जविवज्जिउ जारजाउ
भिउडियवयणए दुव्वयणु दिन्नु

थिउ पुणरवि सच्चइ सवणधम्मि ।
चेल्लणहिँ समप्पिय खतियाए ।
अभएण सयभुगुहाहे वित्तु । ५
आणाविउ चेल्लणराणियाए ।
दिन्नउ नदणहो सयभु नाम ।
परिपालियसजमनियमनिट्टु ।
पेक्खिवि देवीए रउद्भाउ ।
कालेण निएवि अवरु वि अजुत्तु । १०
कि मेल्लइ केम वि नियसहाउ ।
निसुणेवि तिसूले नाइँ भिन्नु ।

घत्ता—पडु जाएप्पिणु काइँ पुच्छतहो अक्खिउ ।

वइयरु जिह तिह चेल्लणए तहो किं पि न रक्खिउ ॥५॥

६

दोहा—आयन्नेवि उप्पत्ति निय गपि नवेप्पिणु ताउ ।

उत्तरगोकन्नम्मि नए रुद्धु दियवरु जाउ ॥

गुरु सिक्खए रक्खियअतरगु
विज्जउ सयपच्च महाइयाउ
अवरउ सय सत्त लहूइयाउ
विज्जासामत्थिउ सीहु होवि
त निसुणिवि गुरुणा कहिउ तासु
त निसुणिवि जत्थ न जुवइवग्गु
तामेत्तहे विज्जाहरनिवासि
दाहिणसेढीहे पसिद्धनामि

सिक्खिउ सुउ सो एयारसगु ।
सिद्धउ तहो रोहिणिआइयाउ ।
अगुट्टपसेणपहूइयाउ । ५
भेसावइ जणु जो एइ को वि ।
तुह जुवइहे लग्गेविणु विणासु ।
तउ करहुँ गपि कइलासि लग्गु ।
वेयड्डमहीहरि जयपयासि ।
पुरि मेहनिवद्धि मणोहिरामि । १०

घत्ता—अत्थि खगाहिवु कणयरहु महएवि मणोरम ।
देवदारु विज्जारसणु सुय जाय मणोरम ॥६॥

७

दोहा—राणउ देवदारु करेवि विज्जजिठ्भु जुवराउ ।
पणवेप्पिणु गुणधरमुणिहे राउ दियवरु जाउ ॥

पन्नत्तिपहावे दुन्निवारु	किउ विज्जाजिठ्भे देवदारु ।	
नीसारिवि घल्लिउ लइउ रज्जु	किं किज्जइ दइवायत्तु कज्जु ।	
कइलासि सो वि ससहाउ एवि	थिउ निठ्भउ विज्जापुरु रएवि ।	५
चत्तारि सुराहिवगयगईउ	महएविउ तामु महासईउ ।	
जोयणगधा कणयातरग	वेयातरग भामिणि सुहग ।	
जोयणगधहे गधेल्ल धीय	हुय अवर गधमालिणि विणीय ।	
कणयाहे कणयचित्ता गुणाल	उप्पन्नी कन्ना कणयमाल ।	
तणया तरगवेयहे तरग—	सेणा तरगमइ सुट्ठु चग ।	१०
सुप्पहतरगभामिणिहे धूय	पहवत्त पहावइ अवर हूय ।	
अट्टु वि एयाउ कुमारियाउ	कच्चुइजणोहि परिवारियाउ ।	

घत्ता—दिव्वाहरणविराइयउ दिव्ववरधारिउ ।
जलकीलाई समागयउ न अमरकुमारिउ ॥७॥

८

दोहा—पीणुन्नय थोरत्थणिउ ण्हत्तिउ ताउ निएवि ।
खुहिउ रुद्धु वामोहियउ मयणे वाणु मुएवि ॥

कामेण निरारिउ जणिउ ताउ	आसन्नएण चित्तिउ उवाउ ।	
वत्थाहरणाई हरेवि ताहँ	विज्जण आणियई अणोवमाहँ ।	
ण्हाएवि ताउ जोयति जाम	वत्थाहरणाई न तत्थ ताम ।	५
अनियतियाहिँ आउलमणाहिँ	मुणि भणिउ गपि पणवेवि ताहि ।	
न वियाणहुँ देवाण वि पियाई	वसणाहरणइँ केण वि नियाई ।	
भयवत वियाणहि तुहुँ निरुत्तु	उवएसहि ता रुद्धेण वुत्तु ।	
जाणमि फुडु तुम्हहँ दिहि जणेमि	जइ इच्छहो मई तो दक्खवेमि ।	
निसुणेवि एउ विभियमणाउ	जपति ताउ नवजोव्वणाउ ।	१०

विज्जाहररायकुमारियाउ
जाणइ अम्हारउ मायबप्पु

न वि अम्हई अप्पण वारियाउ ।
सच्छदहँ कहिँ विज्जामहप्पु ।

घत्ता—अप्पेवि वत्थविहूसणइँ पुणु तेण पउत्तउ ।
पुच्छेवि पियरइँ अप्पणइँ महु कहहु निरुत्तउ ॥८॥

९

दोहा—ताहि तउ गत्तूण घरु तायहो कहिउ नवेवि ।
तेण वि कचुइ एक्कु तहिँ पेसिउ सदेसेवि ॥

तेण वि गपिणु मुणि भणिउ एव
जइ मेहनिवद्धए मेहनिचए
निद्धाडिवि दाइउ जणियहरिसि
तो तुम्ह सम्पमि सोहणाउ
पडिवन्नउ रुद्दे करमि एउ
कचुइणा एरिसु कहिउ एवि
गपिणु तहिँ सुहिसयणहिँ समेउ
सम्माणिवि ससुरि कहिउ कज्जु

पइँ अम्ह सामि विन्नवइ देव ।
तह मेहनाए धणधन्ननिचए ।
पइसारहि तितरि तिलोयह रिसि । ५
नियधीयउ जणमणमोहणाउ ।
छुडु परिणहुँ नियदुहियाउ एउ ।
परिओसिउ खयराहिउ सुणेवि ।
आणिवि घरि रुद्दु रउद्देउ ।
जिह दाइएण अवहरिउ रज्जु । १०

घत्ता—भणिउ सयभुण ज भणहि त सयलु वि सारमि ।
कि एक्के तितराहिवेण तिजगु वि सघारमि ॥९॥

१०

दोहा—लहेवि भरोसउ भयरहिउ विविहच्छत्तधयच्छन्नु ।
देवदारु त लेवि गउ मेलावेप्पिणु सेन्नु ॥

वेढिउ पुरु किउ कलयलु रउद्दु
..... सुयाउ
सुरदारुवयसहिँ पुणु वि तासु
सय पच समुज्जलकतियाउ
सोमालउ विसमरण ताउ
तहुँ मरणे तितराहिवनिसुभु
आयन्नह अवरु महाणुराउ

नीसरिउ वइरि तहो भिडिउ रुद्दु ।
असहतिउ रइ अट्ट वि मुयाउ ।
अट्टहिँ चदेहिँ हयाहियासु । ५
दिन्नाउ पयत्ते पुत्तियाउ ।
दिणि दिणि मरेवि सव्वउ गयाउ ।
चित्ताविउ थिउ दुम्मणु सयभु ।
सहुँ गोरिए जिह निव्वाहु जाउ ।

घत्ता—एक्का अज्जिय पुव्वभवे देसतरु जती ।
उत्तारिय धीवरेण नइ पहसमसतती ॥१०॥

१०

११

दोहा—तासु सरीरहो सीयलहो अप्पाइयफसेण ।

विसयासाग्र नियाणु तग्र किउ दुक्कम्मवसेण ॥

अन्नहँ भवि पयडियपरमनेहु

इय करिवि नियाणु विमुक्ककाय

केवट्टु वि मिच्छातउ तवेवि

एत्तहि सावित्थिहे वासवेण

विज्जुमई नामे जणिय कन्न

सा देवि एवि तहे गव्भवासि

निव्विन्नग्र पीडावसग्र ताग्र

ता तहिँ चत्तारि दियगयाउ

भत्तारु महारउ होउ एहु ।

सोहम्मसुरिदहो देवि जाय ।

हुउ जेदुहे नदणु भवि भमेवि । ५

महएविहे मित्तमईहे निवेण ।

तडिदाढहो विज्जाहरहो दिन्न ।

हुय कहव विणिग्गय नवममासि ।

घल्लाविय सावित्थिहे गुहाग्र ।

पुत्तेहिँ ताहिँ कीलहुँ गयाउ । १०

घत्ता—ताहि उमा उमि त्ति निग्रवि रोवती वाली ।

भणेवि उमा करुणाग्र निय मदिरु सोमाली ॥११॥

१२

दोहा—गंपिणु राउलु राणियहे दाविय मित्तमईहे ।

ताग्र वि पालहुँ पडियहे अप्पिय नियघाईहे ॥

मज्झम्मि अद्धचदह पहाणु

तहि गयणगणे चोइयविमाणु

सम्माणेवि तहो कुलउत्तियाहे

सा मित्तमईग्र सनामियाहे

ताए वि पयत्ते पालिऊण

सुदरि सुरकूडपुराहिवासु

मयमत्त मुट्टु सुरयाणुराय

एक्कहिँ दिणि मग्गी देवदारु

खगनाहु इदुसेणाहिहाणु^१ ।

एक्कहिँ दिणे आयउ विहरमाणु ।

नियवहिणिहे भणेवि अपुत्तियाहे । ५

अप्पिय गिरिकन्नियनामियाहे ।

किय जोग जुवाण निहालिऊण ।

तडिरयहो दिन्न विज्जाहरासु ।

मुग्र तम्मि उमा सच्छंद जाय ।

तेण वि मुणेवि तहे तणउ चारु । १०

घत्ता—दिन्नी रुद्धो रइगुणेण ताइ वि पडु जाविउ ।

विज्जाविहवहो अच्चुतह अद्धासणु पाविउ ॥१२॥

१३

दोहा—रुद्धु वि रुद्धुयसरिसु तहे मुहकमलु नियतु ।

अच्छइ अहनिषु सरिसरहिँ गिरिकंदरहिँ रमतु ॥

जडमउडविहूसिउ विसमगामि
 हउँ कत्ता हत्ता सिवु सयभु
 ईसरु हरु सकरु सिद्धु बुद्धु
 सव्वणहु उमावइ भवपमत्थि
 मायाविउ रजेवि जणमणाई
 विरएप्पिणु सई भरहम्मि एत्थु
 दिक्खिय वहु सइवायरिय हूय
 परियरिउ तेहिँ अखलियपयाउ
 वारहवरिसावहि विसयसोक्खु
 विज्जाहर सयल वि दसदिसासु
 एक्कहिँ दिणि ससुरहो अद्धु रज्जु
 ता जवुएण चित्तिउ मणम्मि

भूइए सुरु कुडिउ तिजगसामि ।
 चित्तिउ फलदाइउ दुहनिसुभु ।
 तिउरारि तिलोयणु पयइसुद्धु । ५
 इय भासेवि दूसेवि अवरु नत्थि
 वेयड्ढे वसेप्पिणु वहुदिणाई ।
 आवेप्पिणु पयडिउ सडवसत्थु ।
 दावियगुण मिलिया गण पहूय ।
 अणवरउ उमापेम्माणुराउ । १०
 भुजतु भमिउ महि हयविवक्खु ।
 आसकिय नियवि पयाउ तासु ।
 मग्गिउ रुहेण जि देमि अज्जु ।
 मारमि उवाए एय खणम्मि ।

घत्ता—एहु महाविज्जावलिउ अम्हईं मारेसइ । १५
 निच्छउ उत्तरदाहिणउ सेढीउ लएसइ ॥१३॥

१४

दोहा—केण उवाए एहु खलु हम्मइ हणइ न जाम ।
 इय चिताउलु नियवि जणु बहिणिय पुच्छिय ताम ॥

सुइ कइयहुँ सुह जामाइयासु
 ता कहिउ ताए मईं सहुँ सुहालि
 लहिरुणवएसु दुरडनयरि
 सिरु सुरयारूढहो तेहिँ तासु
 हए तम्मि सव्वु विज्जाहि देसु
 उवसग्गु निएप्पिणु जणहो घोरु
 रिसि नदिसेणु ईहियसिवेण
 भयव उवसग्गहो कि निमित्तु
 विज्जउ अवसाउ महाइयासु ।
 विज्जाउ फुरति न सुरयकालि ।
 गधारदेसि धणधन्नपयरि । ५
 कप्परिउ सुकतहो किउ विणासु ।
 उव्वासिउ उप्पाइउ किलेसु ।
 घरि घरि मूसतु कियतु चोरु ।
 पुच्छिउ विससेणनराहिवेण ।
 ता भासइ परियाणियनिमित्तु । १०

घत्ता—रुद्धु नाम विज्जाहिवइ अखमावियविज्जउ ।
 मारिउ तेणुवसग्गु इह वट्टइ अमणोज्जउ ॥१४॥

१५

दोहा—थवेवि उमाहि उवत्थे जइ छिदेप्पिणु तहो लिगु ।
 पुज्जह विज्जउ उवसमहिँ तो नासइ उवसग्गु ॥

रिसिवयणु सुणेप्पिणु एउ तेण
 जणवयजणु सयलु वि वाहरेवि
 छिदेप्पिणु सुरयसुहेक्कखाणि
 तहे मज्झि उड्डसिहु सिवहो लिगु
 घोडवि पक्खालिवि चदणेण
 पुज्जिवि सव्वेहिं मि इदियासु
 पडिवज्जिउ विज्जहिं खंतिभाउ
 तहो दिवसहो लग्गिवि पहयलज्जु

जाएप्पिणु तत्थ नराहिवेण ।
 इट्टाहिं उच्च मचिय करेवि ।
 तहु उवरि थवेवि उमाहे जोणि । ५
 थविरुण पयत्ते दीहरंगु ।
 समलहिवि सुरहिपरिमलघणेण ।
 रायाणण्ण किउ नवयारु तासु ।
 लोयहो उवसग्गविणासु जाउ ।
 संजायउ लोयहो लिगु पुज्जु । १०

घत्ता—सिरिचदप्पहु परिहरिवि जिणु जयवंदियपउ ।

सो जि^१ देवु अन्नाणियहिं मन्निउ परमप्पउ ॥१५॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणुमाले अत्थसदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।
 रुद्धुप्पत्ती एसो अट्टाहियतीसमो संघी ॥

॥ सधि ३८ ॥

संधि ३६

१

ध्रुवय—निवरिसिहि कहतरु कहमि निरतरु देसु विदेहु भरहि वसइ ।
मिहिलापुरि धीरउ नामे मेरउ अत्थि राउ तहिँ गुणवसइ ॥

घणसेणानामहे गुणहिँ जुया
पोमरहु महावलु लोयथुओ
एकहिँ दिणि पहु निव्वेइयउ
पोमरहहु अप्पिवि रायसिरी
दमियारि नवेप्पिणु परमरिसी
एकहिँ दिणि नियतणुछाय वणे
गुरुणा णाणेणाएसु कउ
आयन्निवि एउ इत्थिरहिए
इय च्चित्तिवि साहणत्थु मणहो
तहिँ अहनिसु भाणज्भयणरओ

तहो देविहे नदण विन्नि हुया ।
नमि वीयउ चारु पलवभुओ ।
सच्चउ हुयलद्धिपचोइयउ । ५
नमिणा समेउ गउ गहणगिरी ।
हुउ सजउ दरिसियधम्मदिसी ।
नमि नियवि नियतु मुणेवि मणे ।
होसइ तियाइँ तव भगु तउ ।
तउ तवमि पएसए अप्पहिए । १०
एककल्लउ गउ निज्जणवणहो ।
जामच्छए दूरुद्धूयरओ ।

घत्ता—तामायउ सत्थे सहँ परमत्थे नडु नामे गोविदु तहिँ ।
नियपेडयसारउ सत्थविसारउ आवासिउ मुणि वसइ जहि ॥१॥

२

सव्वंगसलक्खण गुणभरिया
आलोप्रवि सो मयणे नडिउ
आपत्तु निएप्पिणु तेण मुणी
उवसामियदूसहविरहसिही
सहँ ताए अवरवावारचुओ
एकहिँ दिणि उज्जमवज्जियउ
अहिमाणे पुव्वसमुदतडु
नाणाविणोयरजियजणउ
तहिँ वडुकुमारी रायसुया
वहुदव्वु लएप्पिणु दुल्ललिया
पच्छा जाएसहँ भणिउ विडु

तहो कचणमाला दिक्करिया ।
चारित्तगिरिहिसिहरहो वडिउ ।
पडिगाहिउ परियाणेवि गुणी ।
नियदुहिय समप्पिय दिन्नदिही ।
जामच्छइ ता तहि गव्भु हुओ । ५
गरहिउ पियाए नमि लज्जियउ ।
गउ पुरु मुडीरसामि पयडु ।
पारभिउ तहिँ निसि पेक्खणउ ।
मयणेण नवर विवरीय हुया ।
परपुरिसे सहँ रयणिहिँ चलिया । १०
लइ पेच्छहँ ताम नडतु नडु ।

घत्ता—ता बहुविन्नाणहिँ लद्धसमाणहिँ नच्चतेण अणयरमु ।
रजियजिणचित्ते मुणियनिमित्ते पढिउ तेण पत्थाववसु ॥२॥

३

तच्चथा—दीर्घ चिन्तयितव्यमल्पसुखमात्मनो न कर्तव्यम् ।
उत्पथेन न गन्तव्य न श्रोतव्य क्षुद्रजनवाच्यम् ॥

एयस्स पढमपायहो तणउ	अवधारिवि अत्थु सुहावणउ ।	
पडिबुद्धए गमणु विवज्जिउ	अत्थेण ताए नडु पुज्जियउ ।	
तत्थेव वभचरियाहडया	नवजोव्वण एक्का पव्वडया ।	५
अवरेक्के सहँ रहसहो भरिया	मढदव्वु लएप्पिणु नीसरिया ।	
कोऊहलेण जणु मिलिउ जहिँ	नडु निएवि निहालहँ लग्ग तहिँ ।	
न करेवउ अप्पहो अप्पसुहु	आयन्निवि वकिउ ताए महु ।	
सजायविवेयए छड्डियउ	जाएवउ सीलु न खड्डियउ ।	
ज लेप्पिणु विसयासए चलिया	सा नडहो समप्पिय पोट्टलिया ।	१०

घत्ता—भम्महँ णिवपुत्तहिँ दुम्मइजुत्तहिँ उवरिम वेन्नि पाय सुणिवि ।
उम्मग्गविवज्जणु खलवयणुज्झणु किउ दोहि मि हियत्थु मुणिवि ॥३॥

४

पुज्जिउ नडु दिन्नउ पवरधणु	तेण वि ते रजिउ पियहे मणु ।	
भासिउ हलि होसइ तुज्झ सुउ	बहुलक्खणु सुदरु सुयणथुउ ।	
त मुरजव्वभतरि छुहिवि तहिँ	घल्लेज्जसु एत्थ मसाणु जहिँ ।	
छड्डेप्पिणु एम भणेवि गुणी	गउ गुरुसमीवि हुउ परममुणी ।	
एत्तहिँ तए जावमेत्तु तणउ	पक्खेवि मुयगि सुहावणउ ।	५
घल्लिउ मसाणि ता तहो पुरहो	सामिउ विससेणु मणोहरहो ।	
तेत्थु जे पत्थावि परोक्खु हुउ	भाइउ भत्तिज्जउ नत्थि सुउ ।	
अहिवासिउ मंतिहिँ रायगउ	सव्वत्थ भमेवि मसाणि गउ ।	

घत्ता—तहिँ नयणाणदे तेण करिदे जणहो नियतहो सोहणए ।
उच्चाएवि वालउ सो सोमालउ खधि चडाविउ अप्पणए ॥४॥ १०

५

पुरपरियणेण जय कारियउ	अहिसित्तु रज्जि वडसारियउ ।
परिवड्डिउ दुम्महु नामु किउ	अच्छइ सुहेण तहिँ कियमुकिउ ।

एतहि विहरतउ सव्वहिउ
 तहिँ गगदत्त नामे वसइ
 तहो गेहिणीहे विमलाहे हुया
 एक्कहिँ दिणि ताई कज्जवसइ
 भडाई थवेप्पिणु आमयइ
 तो तहिँ अयालजलवुट्टि हुया
 पेक्खवि सुरूव पीणत्थणिया

नमि पत्तउ पट्टणु कालपिउ ।
 कुभारु कुलालपयाहिवइ ।
 सुय विस्सदेवि रूवेण जुया । ५
 भवणगणि सुक्खहुँ सहरिसइ ।
 वेत्ति वि जणाई कत्थ वि गयइ ।
 आउल किय ताए कुलालसुया ।
 भिक्खागएण मुणिणा भणिया ।

घत्ता—कि दिसउ नियच्छहि जइ मई इच्छहि तो भडाई सुयणु पणमि । १०
 सा भासइ मेरउ देइ जणेरउ जइ तो तुह रइसुहु जणमि ॥५॥

६

तओ अहिमतिवि दडउ तेण
 छिवेहि इमाई असेसई भक्ति
 सुणेप्पिणु ताए कओ उवएसु
 तओ सहसत्ति मुएप्पिणु कज्जु
 सुणेवि विहाणु पहुट्टमणेण
 नमी वि सुहेण समेउ पियाए
 दुवालसमासहिँ सा गुरुहार
 निरुज्जम लज्ज मणा वि न तुज्जु
 सुणेप्पिणु भामिणिभासिउ तेण
 लहेवउ ज पई कि पि इहज्जु

समप्पिउ ताए मयच्छि इमेण ।
 चलति गिहतरु जेण विसति ।
 पइट्ठु सय घरि भडु असेसु ।
 पराइउ तेत्थु कुलालु सभज्जु ।
 विडल्ल विवाहहुँ णदणि तेण । ५
 थिओ तहिँ पेम्मपरव्वसु ताए ।
 हुयालस जेभण मथरचार ।
 विढत्तउ तायहो भुजहि मज्जु ।
 कवालिय एक्क किया निउणेण ।
 असेसु वि देवउ त महु अज्जु । १०

घत्ता—एरिसु भासेविणु अहिमतेविणु मयणविवक्खनिसुभणहो ।
 मग्गतहो अप्पिय जणनयणप्पिय सा गोविदहो वभणहो ॥६॥

७

गोविट्टु वि त मन्नेवि वयणु
 पइसतु सतु आलोइयउ
 देविए अदिट्ठु सिरिवउ विहिउ
 अब्भतरि पडसिवि मणहरिया
 उप्परि पूरेप्पिणु पायसेण
 आवेवि कुलालहो दिन्न करे

भिक्खहे पइट्ठु पुरु तुट्टमणु ।
 निववहुपेसियपुरिसे नियउ ।
 तहो देविण् भोयणु रससहिउ ।
 कावालिय बहुरयणहि भरिया ।
 पणवेवि समप्पिय सहरिसेण । ५
 तेण वि पियाहे पइसरिवि घरे ।

उवइट्ठु कज्जु हलि तुज्जु सुओ
 गत्तण उवेज्जसु पेयहरे
 इय भासिवि गउ गुरुपासि नमी
 एत्तहे वि पसूयउ ताप्र तहि

होसइ सुहलक्खणलक्खजुओ ।
 पावेसप्र एत्थु जि रज्जु पुरे ।
 आलोप्रवि पुणरवि जाउ जमी ।
 लहु नेवि निहित्तु मसाणु जहि । १०

घत्ता—तहो नयरहो राणउ सक्कसमाणउ तहिँ अवसारि महसेणु मुउ ।
 सताणुद्वारउ वइरिवियारउ वधउ एककु वि नत्थि सुउ ॥७॥

८

मतियणे मतिउ मतु तउ
 तेण वि परिहरिवि असेसु जणु
 अहिंसिचिवि खधि चडावियउ
 करकडु नाम किउ वइरिवहू
 किं एककु जि सो जगि जायजसु
 एत्तहि नमि सजउ सुयणगुरु
 संपइ ज मूलथाणु भणिवि
 तहिँ सीहसेणनरवइहे सुया
 नामे वसतसेणा भणिया
 भामरिहे पइहे दिट्ठु सई

सिगारिवि मेल्लिउ रायगउ ।
 जाएप्पिणु भीसणु पेयवणु ।
 पुरि परियणलयहो भावियउ ।
 हुउ तप्पहूड तो तत्थ पहू ।
 अवरु वि सिरि लहइ सकम्मवसु । ५
 मरुविसप्र पराइउ पुरिसपुरु ।
 जणु मणइ पडइ जहिँ सलिलु नवि ।
 देविहे वसतमालाहे हुया ।
 किं वन्नमि रजियजणमणिया ।
 नमिणा कुमारि सा हसगई । १०

घत्ता—अन्नोन्नालोयणि सुहसजोयणि विहि मि चित्तु चित्तहो मिलिउ ।
 जिह को वि न जाणइ तिह त माणइ निसिहे गपि विज्जावलिउ ॥८॥

९

वहुदिवसहिँ सा गुरुहार हुया
 हा पुत्ति काइँ मज्जायचुया
 ता ताप्र कहिउ जामिणिहिँ जई
 तेणेहु माप्र मह गव्भु किउ
 इय धाइवयणु निमुणेवि पुणु
 ता धाइप्र देवाणं पि पिया
 जंतहो वसेवि पुट्ठिहे वरहो
 निवनंदणीप्र उवएसु कउ
 दिणि किकरेहि उवलक्खियउ

धाइप्र आउच्छिय चारुभुया ।
 केमक्खहि उयरहो विद्धि हुया ।
 एत्थावइ एककु अलक्खगई ।
 परियाणहि सो दिणि मुद्धि पिउ ।
 नो लक्खमि भासइ सा सुयणु । ५
 नरनाहतणुभव सिक्खविया ।
 लाएज्जसु कुकुमहतथ तहो ।
 कुकुमकरेण सो जंतु हउ ।
 आवेप्पिणु रायहो अक्खियउ ।

घत्ता—तेण वि जाएप्पिणु गुणि जाणेप्पिणु विणउ करेप्पिणु आणियउ । १०
जणमणनयणपिय पुत्ति समप्पिय देवि दव्वु सम्माणियउ ॥९॥

१०

जणु निरवसेसु विभयहो निउ
जामच्छइ भोयासत्तमणु
नामे नग्गइउ सलक्खणउ
सूराहु भणेविणु सूरसुओ
मेल्लेवि वसतसेण सवणु
मुडीरनयरि पढमुग्गमणु
पुणु मूलत्थाणप्र अत्थवणु
पुच्छेवि नियमायउ मुप्रवि सिरी
दुम्मुहकरकडूनग्गइया
कालेण चयारि वि पहयरया
पासुउ कुभारावाउ जहि
भाणत्थियाण ताणुवरि तिणा
उवसग्गु सहेवि तिलोयथुया

रविरुवे विज्जप्र तत्थ थिउ ।
गुरुहार ताम हुय सा सुयणु ।
सजायउ पुत्तु वियक्खणउ ।
नग्गइउ जणम्मि पसिद्धु हुउ ।
जायउ नमि पुणरवि सुद्धमणु । ५
कालप्पियम्मि मज्झन्नखणु ।
अज्ज वि आइच्चहो भणइ जणु ।
तिन्नि वि जण गपिणु गहणगिरी ।
नमि मुणि पणवेप्पिणु पव्वइया ।
विहरत पयावइगामु गया । १०
रत्तिहे थिय हत्थत्थमिय तहिं ।
लाइउ अवाउ खलदुम्मइणा ।
गय मोक्खहो अक्खयसोक्ख हुया ।

घत्ता—वज्जेण समाहउ सत्तम महि गउ कुभयारु मुणिवहकरणु ।
अज्ज वि तहिं दीसइ जइ निसि निवसइ तो कुलालु पावइ मरणु ॥१०॥ १५

११

आहासमि लोयपसिद्ध जेम
वभेण वसते वंभलोप्र
जणु हरिहरइदसहाइ सव्वु
महु पास न कोइ वि एत्थुपेइ
इय भणेवि विवज्जेवि वभलोउ
हरिहरसूराइसुराणुभत्तु
गउ वभसाल वभण पढत
नियपडिमहि किंचि वि नत्थि भोउ
दट्ठूण विसेसे जाउ कोउ
वयणेण विप्प अलियव्भुएण
ऊरुहिं वइस पाएण सुद्द

निसुणह कह वभहो तणिय तेम ।
चित्तिउ कयाइ कयदुहविओप्र ।
आवइ पडु जावइ विगयगव्वु ।
एक्कल्लहो मणु उद्देउ देइ ।
इत्थायउ पेच्छहुं मच्चलोउ । ५
जणु जोप्रवि कमलासणु पलित्तु ।
आलोइय हरि हरि हरि भणत ।
नउ धुउलजत्तसगीयजोउ ।
पेच्छह मई जायउ सयलु लोउ ।
उप्पाइय खत्तिय भुयजुएण । १०
तलवायहिं अवर वि जे रउद्द ।

हउँ देउ सयभु हिरन्नगवभु
कत्तारु पयावड परमजोइ

तेल्लोक्कपियामहु मुक्कडभु ।
सव्वहिँ परिहविउ न भत्तु कोड ।

घत्ता—वभण वि नरा अवरु अणुरत्ता विण्हु महारउ नामु जहु' ।

तिह करमि पयत्ते एक्के चित्ते जिह तेलोक्कु वि नवड महु ॥११॥ १५

१२

इय चित्तिऊण निच्छयमणेण
आहुट्ट दिव्ववरिसहँ सहास
इह वेयवाड कालप्पमाणु
नरमाणु पियररिसिदेवमाणु
चउपहरहिँ वासरु चउहिँ रत्ति
नरमाणु तेहिँ वारहहिँ वरिमु
तिहिँ मासहिँ दिणु तिहिँ निसि गणति
छम्मास रयणि छम्मासु दिवसु
निसि वरिसु वरिमु वासरु निरुत्तु

पारभिउ वउ वणे करहुँ नेण ।
गय तहो तवेण दुक्कियविणास ।
पचविहु कहति पवहुमाणु ।
पचमउ महतु विरिचमाणु ।
तिहिँ दसहिँ मामु दिवसहिँ न भति । ५
पक्खेण रत्ति तहिँ पियरदिवसु ।
रिसिमाणु एव जाणय भणति ।
मुणि दिव्वमाणु सजणियहरिसु ।
वभहो पमाणु कालहो पउत्तु ।

घत्ता—पावियसम्माणे दिव्वे नाणे सद्ध तिन्नि वरिसहँ सहस' । १०

तवचरणु चरतहो बोलीणे तहो एत्तहि मिलिय सयल तियस ॥१२॥

१३

सुरिदसहाग्र हरेण मुरारि
अहो हरि देव दिवायर चदु
गहा गह भूय पिसाय रउद्द
किमत्थु परेक्कु न दीसइ वभु
तओ गिरिसेण गवेसहुँ तासु
पलोइउ तेहिँ न कत्थड दिट्ठु
पुणो वि मुरारिगिराग्र सुरेहिँ
तओ तवसोसणखीणसरीरु
गणेत्तियकुडियमडियहत्थु
वणम्मि थिओ थिरु एक्ककमेण

पउत्तु निर्लिपविवक्खवियारि ।
रिसी वसु किन्नर जक्ख फणिण्डु ।
इहागय वभण खत्तिय सुद्द ।
न जाणहुँ किं न चिहावइ' सभु ।
विसज्जिय किंकर सव्वदिसासु । ५
नवेप्पिणु एप्पिणु सामिहि सिट्ठु ।
विसज्जिउ वाउ पयत्तपरेहिँ ।
विवज्जियभोयणु भुत्तसमीरु ।
समोणु जडाधरु वक्कलवत्थु ।
सयभु निहालिउ सव्वगमेण । १०

घत्ता—उव्वासिउ' इदहो नयणाणदहो एप्पिणु देवसहाभवणे ।

अच्छइ भाणासिउ विहिपवणासिउ दुद्धरु तउ तवतु वियणे ॥१३॥

१४

तवेण हवेवि जयत्तयपुज्जु
 वियंभइ जाम न किचि वि विग्घु
 मणेवि हरेण इणं हरि वुत्तु
 तिणा वि तिणेत्तहो अक्खिउ भेउ
 वियाणिउ सो मइँ गोरिविवाहँ
 सुणेवि समुहसुयापियवाणि
 तिलोत्तिमनामिय बभतवारि
 वसतु सगायणवायणु देवि

न जाणहुँ कासु हरेसइ रज्जु ।
 हणिज्जइ ताम तवो तहो सिग्घु ।
 पवासहि को वि उवाउ निरुत्तु ।
 हवेइ तियाए तहो तवछेउ ।
 हुओ जहिँ काले पुरोहु सराहँ । ५
 पउत्तु उमावइणा' पविपाणि ।
 अणोवम तेण विणिम्मिय नारि ।
 विसज्जिय ढालहि बभु भणेवि ।

घत्ता—तहिँ गवि वसते कयपहुमते चउदिसु नववसतु विहिउ ।

कलकलकठीसरु पप्फुल्लियतरु उप्पहे जणु मयणे निहिउ ॥१४॥ १०

१५

आउज्जिएहिँ आउज्जसद्दु
 तहो पुरउ पयासियविब्भमाए
 गीयसरु सुणेप्पिणु जणियभाउ
 वामोहियमणु मयणेण भग्गु
 मणु वालिवि पालियसजमासु
 सा गंपि गयणे पेडयसमाण
 चित्तइ विहि चित्ते अपेच्छमाणु
 जइ वलिवि पलोयमि तो णियति
 अह न नियमि तो विरहग्गि खाइ
 इय चित्तेवि चित्तिउ पुणु वि तेण
 मुहु होउ नियच्छमि नारिरयणु
 एण जे कमेण पुणु मुहइँ तासु

गधव्वहिँ किउ गधव्वु भद्दु ।
 नवरसहिँ नट्टु पारद्धु ताए ।
 कमलासणु भक्ति सराउ जाउ ।
 सवियारदिट्ठि भोयणहँ लग्गु ।
 तहिँ निविडसणेहु जणेवि तासु । ५
 थिय दाहिणदिसिहे पणच्चमाण ।
 हो गउ अग्गाउ वि सुहनिहाणु ।
 आयासे परिट्ठिय सुर हसति ।
 अवरु वि लोयणफ्लु विहलु जाइ ।
 महु दिव्ववरिससहसहो तवेण । १०
 ता तक्खणेण सजाउ वयणु ।
 सजायए अवरुत्तरदिसासु ।

घत्ता—इसहनिट्ठासय पच्च वरिससय कयतवमाहप्पेण पुणु ।

उप्पन्नु पसत्थए खरसिरु मत्थए एउ वियाणइ सयलजणु ॥१५॥

१६

तवनासे विलक्खीहूयएण
 मइँ मेल्लेवि जाव न जाइ एह

आयासे पसारिय बाहु तेण ।
 लइ ताम निरुभमि चारुदेह ।

१४ १ वइणे ।

इय चित्तेवि धरइ न धरइ जाम
 गइयाए ताए पत्तावमाणु
 मुच्छेवि धरहि निवडिउ टस त्ति
 कमलासणामु तवचरणे भग्गे
 सजाया सयल वि सुहियचित्त
 किं करइ न मुणहुँ विलक्खिहूउ
 साहारहे जाइवि वभु भदे
 सा त न समिच्छइ लोयमहिय
 सहुँ ताए रमतहो तामु पुत्तु

गय नासेवि सा सहमत्ति ताम ।
 हा देवि तिलोत्तिमि जंपमाणु ।
 गय ताम तिलोत्तिम नियय थत्ति । ५
 किउ वद्धावणउ सुरेहिँ सम्गे ।
 इदेण तिलोत्तिम पुणु पउत्त ।
 किं जियइ मरइ विरहाहिहूउ ।
 तहो होहि कन्न कलयठिसहे ।
 ता मुरवरेहिँ उव्वसिय पहिय । १०
 उप्पन्नु वसिट्ठु गुणेहिँ जुत्तु ।

उक्त च—उर्वंगी ब्रह्मणो भार्या वेद्या विख्यातमुन्दरी ।
 तस्या पुत्रो वसिष्ठाख्यो वेदे विप्रगणेडित् ॥

इय जाणिऊण निहणह अणगु

परिहरह असुंदरु नारिसंगु ।

घत्ता—वभु वि जहिँ भज्जइ लज्जहि वज्जइ सिरिचदुज्जलु गुणनिलउ । १५
 तहिँ मयणवसगहो कयतियसगहो अन्नहो किं न होइ पलउ ॥१६॥

विविहरसविसाले पेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिमिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।
 एउणचालीसमओ वभकहाए इमो मवी ॥

संधि ४०

१

ध्रुवय—अत्थु अणत्थहँ मूलु तेण विवज्जिउ सतहिँ ।
भाइहिँ रयणनिमित्तु लइय दिक्ख उवसतहिँ ॥

एरत्थि एहु वित्तु वित्तु
चोरा वि परोप्परु करिवि खेउ
कोसविहिँ धणमित्ताड धणिय
रायगिहपुरहो अंतरि ससत्थु
चोर वि अन्नोन्नु जि धणनिमित्तु
अवरु वि आयन्नह सावएण
मणिवयपुरि मणिवयनामदेसि
मणिवइ महएवि मणोहिरामु
एक्कहिँ दिणि पलियकुरु निएवि
सजाउ दियंवरु दमवरासु

पुव्व चिय एत्थु जि मई पउत्तु ।
मुय विसु खाएप्पिणु अत्थहेउ ।
वाणिज्जहो गय वत्तीस वणिय । ५
किय चोरहिँ काणणि ल्हसिय अत्थु ।
मुय भक्खेवि विसु महुमसि धित्तु ।
खब्भालिउ मुणि अत्थहो कएण ।
मणिवइ नरिंदु सुदरपएसि ।
नंदणु पसिद्धु मणिचट्टु नामु । १०
मणिवइ मणिचट्टहो रज्जु देवि ।
पणवेप्पिणु पय सजयधरासु ।

घत्ता—सो विहरतु कयाइ भव्वयणहिँ जयकारिउ ।
मुणि उज्जेणिहे आउ होएवि एयविहारिउ ॥१॥

२

जत्थत्थमीउ अत्थमिग्र सूरि
तहिँ निसिहे मडयसेज्जाए जाम
रक्खसु व रउद्धु किवाणहत्थु
मुणि मडउ वियप्पिवि मडयजुयलु
तहु मत्थए चुरलए जलणजालि
डज्जते सीसे चलिउ काउ
केणावि पहाए मुणिदु दिट्ठु
तेण वि तहिँ एवि तुरतएण
पडियारनिमित्तु नरिंदपुज्जु

सठिउ मसाणि नयरहो अदूरि ।
अच्छइ कावालिउ एक्कु ताम ।
सपत्तउ विज्जासाहणत्थु ।
तेणाणिउ अवरु निएवि सयलु ।
पारद्ध खीर रधहुँ कवालि । ५
कावालिउ नट्ठु भएण पाउ ।
जाएवि जिणयत्तहो वणिहे सिट्ठु ।
निउ महरिसि भवणहो भत्तएण
पुच्छिउ वणिणा सिरिदत्तु वेज्जु ।

घत्ता—तेण वि दिन्नुवएमु रोयाउरचित्ताहरं ।

१०

सव्वरुयाहरु तेल्लु अत्थि सोमसम्महो घरं ॥२॥

३

त मग्गिअणि आणहि पहयवाहु
गतूण तत्थ वयणेण एण
सा भणइ सेट्ठि घरि पइसरेवि
ता लेतहो हत्थहो निच्छुडेवि
भीएण पयासिउ मुणिअणि ताए
अवरु वि गेण्हतहो पढमु जेम
लड लेहि चउत्थउ पुणु वि ताए
विभियमणु पुच्छइ काइँ एउ

पन्नप्पड जेण तुरतु साहु ।
मग्गिय चुकारिय तेल्लु तेण ।
लड मक्खणु नियभडए करेवि ।
कुभिणिहे कुभु ह्हुट्टउ पडेवि ।
लड अवरु पयपिउ कयखमाए । ५
गउ भज्जिअणि वीयउ तउउ तेम ।
वणि भणिउ हसेप्पिणु कयखमाए ।
कहि केम वि नावड तुज्जु खेउ ।

घत्ता—भासड सा रोसेण मइँ महंतु दुहु पत्तउ ।

जावज्जीविउ तेण रुसेवउ परिचत्तउ ॥३॥

१०

४

सुणु मेट्ठि कहमि विसयम्मि मोट्ठि
वभु व चउवेयसडगजाणु
कमला कमला इव तासु भज्ज
सुय अट्टु ताए णवमी कुमारि
हउँ पाणपियारी पिउहे सुट्ठु
केण वि कयाइ आलिउ करति
साहारिअणि सुहि जपिय पिएण
रायहो कहिऊण मणोहरम्मि
चुकारड' जो सिवसम्मपुत्ति
तहो दिवसहो लग्गिअणि हयमएण

आणंदणयरि धणकणयपोट्ठि ।
सिवसम्मु अत्थि वभणु पहाणु ।
सिवभूइयाइ जाया मणोज्ज ।
भहा नामेण जुवाणमारि ।
मइँ समउ को वि जपइ न दुट्ठु । ५
विरुएण भणिय आगय ह्यति ।
ताएण वुत्तु सो विप्पिएण ।
देवाविउ ढढोरउ पुरम्मि ।
पुहईसु तासु चित्तइ अजुत्ति ।
चुकारड को वि न निवभएण । १०

घत्ता—अच्चुकारिय एउ नामु मज्जु विक्खायउ ।

तइयहुँ किउ लोएण अत्थवसेण समायउ ॥४॥

५

न कयावि भणेवी विप्पिएण
एत्थाणिय ससिसम्मणेण सेट्ठि

पडिवज्जिअणि परिणेप्पिणु पिएण ।
अच्छमि सुहेण कयसुयणहिट्ठि ।

४ १ तुकारड ।

एककहिँ दिणि मई पुच्छेवि रत्ति
 हुय वड्डी वार दुवारु देवि
 जामच्छमि कोवे ताम कतु
 पुणु पुणु वि पयपिउ विणयसारु
 सिक्खवमि ताम जिह पुणु न जाइ
 चितंतु एउ पकुवियमणेण
 हलि चुपि दि मोडि दि ह्य पचार

नडु पेक्खहुँ गउ वरु नाउ भक्ति ।
 थिय उल्लरेवि दिहु मोणु लेवि ।
 आगउ उग्घाडहि पिग्र भणतु । ५
 उग्घाडिउ तो वि न मई दुवारु ।
 मई मेल्लेप्पिणु रयणिहिँ कयाइ ।
 ह्य हउँ दुक्खयणहिँ वभणेण ।
 उग्घाडहि पाविणि किं न वारु ।

घत्ता—पुव्व चिय कोवग्गि उहीविउ दुहदायउ । १०

पुणु वयणेण अणेण अप्पमाणु सजायउ ॥५॥

६

हा हउँ किं चुकारणहुँ जुत्त
 लइ कज्जु न किं पि वि विप्पिएण
 वलि किज्जउ परिहउ मरणु चारु
 सुउ' सेज्जहे वभणु पइसरेवि
 भीसावणि जमवयणोवमाणि
 भूसणइँ सपगुरुणाइँ लेवि
 परिओसे पहयजुव्वाणगव्व
 नेच्छति हयासे करिवि वप्प
 वारिउ वणदेविग्र सीलनासु
 भीयेण मुयाविय नियनिवासु
 तेण वि पारसउलि वणिपहाण
 दससय कचणहो कुडुविएण
 निक्करुणचित्तु चितवियवित्तु

अवरु वि चुपि दि मोडि दि पउत्त ।
 भवणेण एण अन्नु वि पिएण ।
 इय चित्तिवि उग्घाडिउ दुवारु ।
 गय हउँ पुरवाहिरि नीसरेवि ।
 चोरेहिँ नियच्छिय तहिँ मसाणि । ५
 अप्पिय नियपल्लीवडहे नेवि ।
 तेण वि सगहिय भणेवि भव्व ।
 पारभिय गजहुँ निसिहे वप्प ।
 सकुइउ भिल्लु सजणियतासु ।
 विक्किणिय दिन्न सत्थाहिवासु । १०
 नेविणु विक्किणिय अणिच्छमाण ।
 देप्पिणु हउँ लइय कुडुविएण ।
 किमिरायरइयकवलु निरुत्तु ।

घत्ता—सो महुँ सव्वसरीरु छम्मासहिँ पच्छावइ ।

दुक्खकिलेसहिँ एम जाम कालु तहिँ गच्छइ ॥६॥ १५

७

घणदेउ ताम दूयत्तणेण
 महु भाइउ आयउ मइमणोज्जु

उज्जेणिनराहिवपेसणेण ।
 ते निवइ नियवि किउ रज्जकज्जु ।

६ १ हुउ ।

हुँ नयरि भमते तेण दिट्टु
 आयन्निवि वइयरु मणि विराउ
 रुहिरक्खण्ण वियणइ वियलु अगु
 पुच्छिउ वरइत्ते वेज्जराउ
 मक्खणु किउ तेण मणोज्जकाउ
 मुणिधम्मनामु तहो पासि गहिउ
 अवरु वि रुसेवण्ण किय निवित्ति

ओलक्खिय वोलाविय विसिट्टु ।
 मेल्लाविवि इह मइँ लेवि आउ ।
 महु तणउ निएप्पिणु हवभगु । ५
 तेण वि उवएसिउ लक्खपाउ ।
 एकहिँ दिणि आगउ वीयराउ ।
 मइँ सावयवउ सम्मत्तसहिउ ।
 तइयहुँ पहूइ महु परम खति ।

घत्ता—आयन्नेप्पिणु एउ चगउ किउ मन्नेप्पिणु । १०
 गउ वणि तेत्तु लएवि ताहे पसस करेप्पिणु ॥७॥

८

मुणि वज्जभत्तरचत्तसगु
 तेत्थु जि थिउ वयणे वणिवरासु
 सूरप्पयावपसमणसमत्थु
 दूसहसरधारासर मुयतु
 विज्जुलियविहूसणसोहमाणु
 पयणतु पयहिमुच्छायभाउ
 सतावियभवणु भएण तट्ठु
 आणदिउ जणु कत्थइ न माइ
 सव्वो वि समीहइ जणियहरिसु
 सव्वत्थ वि महि अकुरिय भाइ
 गमु भगु निरतरु पडइ वारि

हुउ तेणव्वभिगउ निम्मलगु ।
 ता रुहिवि खवि घणगयवरासु ।
 इदाउहवरकोयइहत्थु ।
 गलगज्जितूरवहिरियदियतु ।
 वप्पीहवदिवन्निज्जमाणु । ५
 सपत्तउ वासारत्तराउ ।
 त पेक्खिवि चरडु निडाहु नट्ठु ।
 सताविरु किं कासु वि सुहाइ ।
 सतावहारि पहु अमियवरिसु ।
 रोमचिय पियसणेण नाइ । १०
 पवसियपियाहँ हुय विरहमारि ।

घत्ता—तेत्थु जि जिणदत्तेण नियजिणभवणे ॥ भडारउ ।
 ता लेवाविउ जोउ मयणवाणविणिवारउ ॥८॥

९

तेणेक्कहिँ वासरि सावएण
 आणेवि घडु रयणसुवन्नभरिउ
 तेण वि वहि पच्छन्ने निएवि
 मुणिणा मुणेवि जिणयत्तपुत्तु
 जोयम्मि खमाविण्ण मुणिवरिदु
 अम्मणु अच्चेविणु आउ सो वि

ससुयहो कुवेरदत्तहो भएण ।
 निक्खणिवि साहुसामीवि घरिउ ।
 अन्नत्थ कहि मि निक्खणिउ नेवि ।
 घणु नेतु वि किं चि वि सो न वुत्तु ।
 चल्लिउ पुच्छेप्पिणु वणिवरिदु । ५
 त जोयण जा एयति होवि ।

ता णत्थि तत्थ चित्तइ मणेण
तइयउ न वियाणइ अवरु भेउ
थोवतरि रिसि सज्झाउ लेतु
उवविट्ठु पुरउ वदणु करेवि

हा वच्चिउ हउँ सवणेण तेण ।
इय भासिवि अणुधाविउ सवेउ ।
अवलोइउ तरुतलि वीसमतु ।
मुणिणा वि भणिउ आसीस देवि । १०

घत्ता— कि दूर आओ सि सावय ता सो भासइ ।

पइँ विणु महु मुणिनाह चित्तु न कत्थइ विलसइ ॥१॥

१०

जणसकुलु नयरु वि रत्तु नाइ
तेणेह ममोवरि करि पसाउ
सुहगोट्टिण ह्यभवभयरिणाइँ
सावयहो वि निणवि अईवगाहु
थिउ जिणहरि जियजलजायवे उ
पडिगाहिवि भुजाविवि सवणु
अत्थमियसूरि वदेवि देउ
संजमधरो वि दूसियदुकम्मु
वणिणा पउत्तु परमत्थभावि
मुणि भणइ वणीसर बहुसुयड्ढु

पइँ विणु न मज्झ किंचि वि सुहाइ ।
जहिँ तुम्हइँ तहिँ जि अउव्वु ठाउ ।
अच्छह पुणो वि कइवयदिणाइँ ।
वाहुडिउ पुणागउ तहिँ जि साहु ।
जिणयत्तु सेट्ठि गउ नियनिकेउ । ५
अवरणिह समागउ जइणभवणु ।
उवविट्ठु पुरउ पुत्ते समेउ ।
निव्वत्तिवि थिउ नियनियमकम्मु ।
भयवत कहाणी कहसु का वि ।
तुहुँ दिट्ठपरपरु गुणवियड्ढु । १०

घत्ता—तेण पहिल्लउँ ताम तुहुँ जे मुयण जिह जाणहि ।

अच्छउँ सुहगोट्टीण सक मुएप्पिणु भाणहि ॥१०॥

११

तो लद्धाणुगहु कहइ सेट्ठि
पुरि पोमनामि पावियविसेसि
कोसलवईहि मित्तत्तणेण
गच्छतु सतु गहणतरालि
मुच्छेवि पडिउ निच्चेट्ठु जाउ
करुणाण तेण त तह निएवि
तहो उवरि महीरुहु आरुहेवि
उट्ठिउ आसासिउ सो सरेण
सजायउ सुहि पाणिउ पिएवि

एत्थत्थि करावियवइरिविट्ठि ।
वसुपालु नरिदु वराडदेसि ।
एक्कहिँ दिणि पेसिउ दूउ तेण ।
तण्हाण खविउ सो उण्हयालि ।
ता तहिँ भमतु कइ एक्कु आउ । ५
जाइवि जलि वोलिवि देहु एवि ।
भाडिउ सरीरु चेषण लहेवि ।
सन्निवि निउ जहिँ जलु वानरेण ।
मारेवि पवगमु खल्ल लेवि ।

वारिहे भरेवि गउ निव्विवेउ
जीवाविउ जेण मरतु सतु

कि जुत्तु तासु भयवत एउ । १०
धि द्वी किह किज्जइ तामु अतु ।

घत्ता—आयन्नेप्पिणु एउ अणयारेण पउत्तउ ।

सावय तेण खलेण किउ दूएण अजुत्तउ ॥११॥

१२

ता मृणिणा मणु जाणेवि निरुत्तु
कोसवीनयरि मणोहिरामु
तेणेक्कहिँ दियहिँ अपुत्तएण
सिमु नउलहो तणउ निएवि लेवि
ताए वि कविलनामालियाए
हुउ गरुयउ गरुडु व गिलियनाउ
एक्कहिँ दिणि तहो रक्खणु धरेवि
नायारि वि रक्खइ जाम वालु
ते डसिउ डिंभु पचत्तु पत्तु
मारेविणु दारेविणु ह्यासु

पुणु कहमि हउँ वि कह वणि पउत्तु ।
होतउ वभणु सिवसम्मु नामु ।
उज्जाणवणम्मि भमतएण ।
गेहिणिहे समप्पिउ गेहु नेवि ।
पालिउ पुत्तो इव वालियाए । ५
कालेण जणेरिहे पुत्तु जाउ ।
पाणियहो कविल गय घडउ लेवि ।
नीसरिउ ताम अहि नाइँ कालु ।
नउलेण वि सो नासतु पत्तु ।
घल्लिउ तले दारयमचयासु । १०

घत्ता—ता पाणियहो भरेवि जा माया घर आवइ ।

पेयाहिवपुरु पत्तु नदणु ताम विहावइ ॥१२॥

१३

निच्छउ वि विवाइउ एण पुत्तु
इय भासेवि रोसवसगयाए
पुणु जाणिउ मचयतले पयडु
हा एण ह्यासे असिउ लीवु
निदोसु वियाणिवि विसहरारि
अवरु वि अपरिक्खियसीलु मुक्खु
अहिणा कयम्मि दोसम्मि नउलु
जइ खाइ छावु वणिवर वराहु

ते दीसइ मुहु रहिरावलित्तु ।
अपरिक्खिउ मारिउ नउलु ताए ।
विसहरु निएवि किउ खडु खडु ।
एहु वि अणेण किउ विगयजीवु ।
गय परमविसायहो विप्पनारि । ५
परिपावइ पच्छातावदुक्खु ।
मारिज्जइ किं वि णएण विउलु ।
ता किं हुउ हम्मइ निरवराहु ।

घत्ता—कियउ अजुत्तउ ताए वणिणा भणिउ मुणीसरु ।

अवरु वि जणियविवेउ निसुणह कहमि कहतरु ॥१३॥

१०

१४

वाराणसीहे सजणियचोज्जु
 सामियसम्माणिउ जगपसिद्धु
 घणदत्ता नाम्ण चारुगत्त
 घणमित्तु पढमु घणभद्दु बीउ
 काले घणयत्तु महाणुभाउ
 अपहत्थिय ते निग्गुण भणेवि
 उद्दालिण जीवणि दुक्खिएहिँ
 वेज्जयविहाणु परिहरिवि गव्वु
 घरु एतहिँ घणतरुवेल्लिजालि
 पहि पडिउ अधु पव्वभट्टवेट्ठु

जियसत्तुनरिदहो तणउ वेज्जु ।
 होतउ घणयत्तउ घणसमिद्धु ।
 तहो भज्जण जाया वेन्नि पुत्त ।
 विहिँ एक्कु वि नउ विज्जाविणीउ ।
 गउ सम्गहो जणजणियाणुराउ । ५
 किउ अवरु वेज्जु पट्टुणा मुणेवि ।
 जाएप्पिणु चदापुरिहि तेहिँ ।
 सिक्खिउ सिवभूइसमीवि सव्वु
 अवलोइउ वग्घु वणतरालि ।
 पेक्खेवि कणिट्ठे भणिउ जेट्ठु । १०

घत्ता—वेज्जयभासिउ सव्वु किं असच्चु विच्चासमि ।

ओसहिभरणे भाय^१ आयहो पडलु पणासमि ॥१४॥

१५

घणमित्ते वुत्तुवयारु सत्ति
 पन्नत्तु एहु अम्हइँ मयधु
 घणभद्दु भणइ मा भणहि एउ
 तेणायहो निच्छउ करमि तेम
 जइ एउ करेवउ आसमास
 इय भासिवि भाइ भएण दुग्गि
 इयरेण वि तक्खणि जणिउ तासु
 तेण वि विणिवाइउ वेज्जपुत्तु
 वणे जेण मरतहो दिन्न चक्खु
 मुणि भणइ न सावय होइ एउ

कीरइ न कयाइ वि कूरचित्ति ।
 खाएसइ खलु दट्ठूण वधु ।
 तिरिय वि सरति उवयारहेउ ।
 सजायइ निम्मल दिट्ठि जेम ।
 पडिवालहि तो दुन्नयनिवास । ५
 थिउ आरुहिऊण महीरुहग्गि ।
 ओसहिरसेण लोयणपयासु ।
 किं एरिसु सजय होइ जुत्तु ।
 सो किं अलियल्लिहे होइ भक्खु ।
 मारिज्जइ ज उवयारहेउ । १०

घत्ता—लइ आयन्नहि हउँ वि कहमि कहंतरु सारउ ।

चपापुरि सिवसम्मु अत्थि विप्पु सुइपारउ ॥१५॥

१६

तहो पिय सोमिल्ला सोमसम्म
 तहो उवरि सोमसम्मा सवत्ति

सोमिल्ला पावियपुत्तजम्म ।
 अच्छइ सया वि मच्छरु वहति ।

पुरि पयडु भद्दु नामेण सडु
 एक्कहिँ दिणि दियमदिरि पइट्ठु
 मारिवि छलेण चडुयम्मजुत्तु
 सो सिगासिउ सिसु पेच्छिऊण
 तहो दिवसहो लग्गिवि खीणगत्तु
 ता तहिँ कासु वि सुद्धिहे निमित्तु
 त पेक्खिवि वसहहो हूय बुद्धि
 इय चित्तिऊण सिहिसरिसु लोहु
 पावियपससु निदोसु होवि
 निदोसहो दोसु विइन्नु तासु
 जिणयत्ते वुत्तउ किउ असाहु

घरि घरि मग्गंतउ तारपिडु ।
 पावाए सोमसम्माए दिट्ठु ।
 पोइउ तहो सिगि सवत्तिपुत्तु । ५
 परिहरिउ जणेण दुगुच्छिऊण ।
 पावइ न किं पि कत्थइँ भमतु ।
 लोएण मिलेप्पिणु दिव्वु तत्तु ।
 लइ हउँ मि करमि दुज्जसहो मुद्धि ।
 वयणेण लइउ रजिउ जणोहु । १०
 थिउ पुव्वविहाणे पुरि पुणो वि ।
 किं जुज्जइ एरिसु पुरयणासु ।
 आयन्नहि अक्खमि हउँ वि साहु ।

घत्ता—गगानइहे समीवे सुइसत्थत्थवियाणउ ।

विस्सभूइ नामेण होतउ तवसिपहाणउ ॥१६॥

१५

१७

एक्कहिँ दिणि गडुहिँ पडिउ तेण
 आणिवि वणाउ जूहेण चत्तु
 सुहलक्खणु काले भद्दजाइ
 नउ अत्थि अवरु तारिसु घराए
 मग्गाविउ सेणियराणएण
 वधणु असहतु विमुक्कराउ
 पुणरवि पट्टाविउ कुविउ नाउ
 जायउ मयधु सच्छदवासु
 जीवाविउ जेण मरतु सतु

करिकलहु दिट्ठु हिंडतएण ।
 पारिपालिउ आसमि जेम पुत्तु ।
 हुउ गधहत्थि सुरहत्थि नाइ ।
 आयन्निवि कन्नपरपराए ।
 पेसिउ तवसेण सयाणएण । ५
 तोडेवि तिन्नि वाराउ आउ ।
 विणिवाइउ तवसि महाणुभाउ ।
 किं जुज्जइ सजय एउ तासु ।
 किह किज्जइ सुयणहो तासु अतु ।

घत्ता—आयन्नेप्पिणु एउ विहसिवि भणिउ मुणिदे ।

सावय तेण खलेण कियउ अजुत्तु करिदे ॥१७॥

१०

१८

सुणु वणिवर गयउरि विस्ससेणु
 कोऊहलेण पुरपच्छिमेण
 कालेण फलिउ तामेक्कु तम्मि
 फणिवयणहो वियलिउ गरलविदु

पहु अत्थि अराइविहगसेणु ।
 काराविउ चूयारामु तेण ।
 अहि लेवि चिल्ह थिय अवयम्मि ।
 निवडिउ फलम्मि एक्कम्मि विदु ।

गरुयग्र गरलुम्हृग्र तं पि पक्कु
तं लेवि आउ उज्जाणवालु
तेण वि अविद्याणते विसालु
मुय सा रुट्टेण नराहिवेण
एक्कवयदोसे वणविणासु

सहसत्ति गलिउ धरणियलि थक्कु । ५
अप्पिउ परिओसिउ सामिसालु ।
दिन्नउ महएविहे नाई कालु ।
कट्टाविय सयल वि अब तेण ।
किं जुज्जइ एरिसु करहुँ तासु ।

घत्ता—वणिवरेण पउत्तु मुणि न एउ तहो जुज्जइ ।

१०

कि एक्कहो दोसेण निरवराहु वणु छिज्जइ ॥१८॥

१९

आयन्नहि विप्पु सकज्जकामु
गउ काणणु माहेसरपुगउ
गरुयारं भयभावेण नडिउ
गउ सीहु कहि मि पहु परिहरेवि
थोवतरु निज्जणि जाउ जाम
सपेसिय पहुणा नं कियंत
हक्कारिवि निय सो ताहँ तेण
जं रक्खिउ सीहहो हरिउ तासु

एक्कहिँ दिणम्मि वसुसम्भु नामु ।
आलोडवि सीहु विमुक्कराउ ।
सीवन्नरुक्खि नासेवि चडिउ ।
पुरिसु वि तरुसिहरहो उत्तरेवि ।
पेक्खइ पुहईसकहार ताम । ५
पट्टह निमित्तु ते तरु नियत ।
दाविउ छिदाविउ निग्घणेण ।
हा केम तासु किज्जइ विणासु ।

घत्ता—भणिउ मुणीसे सेट्टि सो पाविट्ठु अयाणउ ।

मुणु उज्जहँ ससिभद्दु अत्थि नरेदु पहाणउ ॥१९॥

१०

२०

पचसयहँ मज्झि मणोहिराम
तहे जलकीलाकज्जेण तेण
सोवन्नघडियसोवाणरम्म
विच्छिन्नदिसामुच्छलियकित्ति
जहिँ निच्चु जि वियसियपकयाई
तहिँ तेहिँ समउ रायाणियाउ
कालेण ताहँ जीवियविओउ
त पेक्खिवि थेरि कहिउ भेउ
लइ धाडह सयल मिलेवि भक्ति
तं सुणिवि सजोव्वण गहियगव्व

महएवि तासु चंदमइ नाम ।
उज्जाणहो मज्झि नराहिवेण ।
निम्मलजलकीलियचक्कजुम्म ।
काराविय वावि विचित्तभित्ति ।
जहिँ सुहुँ वसति दुदुहसयाई । ५
कीलति सया वि सयाणियाउ ।
आवेवि पइट्टु सप्पपोउ ।
ग्रहु अम्हहँ दुट्ठु विणासहेउ ।
न तो दरिसेसइ कालरत्ति ।
अवगणिवि थिय जलसप्प सव्व । १०

घत्ता—निसुणेप्पिणु उवहासु थिउ मोणेण सयाणउ ।
हियउवएसु वि दिनु विरुयउ मुणइ अयाणउ ॥२०॥

२१

तहिँ एक्कहिँ वासरि जणमणिट्ठु
महएविण्णु डिड्डुहु भणिवि सप्पु
खाडवि खणेण कत्थइँ पणट्ठु
कड्ढाविवि जाले डिडिहोहु
अपरिविखउ कज्जु नराहिवासु
अवरु वि मेदज्जजईसरेण
माणिककहो लग्गिवि दुक्खु सहिउ
अम्हाण वि तेम परस्सु गहहुँ

समहिलु पहु जलकीलईँ पडट्ठु ।
कीलईँ करेण लइयउ सदप्पु ।
मुय देवि निएप्पिणु राउ रुट्ठु ।
माराविउ' सयलु वि अकयदोहु ।
कि जुज्जइ एरिसु करहुँ तासु । ५
कोसवीपुरि समसुहिपरेण ।
पर तो वि न वीरे कोचु कहिउ ।
अन्नेण वि लइउ न जुत्तु कहहुँ ।

घत्ता—सतावियइ न को वि एहु जि धम्मु अणुत्तरु ।

आयन्निवि वणि एउ थिउ होएवि निरुत्तरु ॥२१॥

१०

२२

एत्थतरि वणिवडपुत्तएण
हा मज्झु जणेरे निरवराहु
जामज्ज वि अवरु न किं पि घोरु
लइ अप्पमि ताम न करमि खेउ
आणिवि वसु तायहो पुरउ थविउ
त पेच्छिवि पच्छाताउ जाउ
बलि किज्जउ अत्थु अणत्थहेउ
तासु जि जिणयत्तु अणोवमासु

चित्तिउ मणम्मि हियवित्तएण ।
खब्भालिउ अत्थनिमित्तु साहु ।
उवसग्गु करइ मन्नेवि चोरु ।
गंतूण गेहु मन्नेवि एउ ।
किं लग्गु मुणिहे मईँ लइउ लविउ । ५
पडु जाविउ वणिणा वीयरउ ।
निदिवि अप्पणु पुत्ते समेउ ।
पव्वइउ पासि मुणिपुगवासु ।

घत्ता—तिन्नि वि तियरणसुद्ध ते वरविहवसमग्गहो ।

सिरिचदुज्जलकित्ति तउ करेवि गय सग्गहो ॥२२॥

१०

विविहरसविसाले णेयकोरुहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।

चुकारियाकहाए चालीसमन्त्रो इमो सधी ॥

॥ सधि ४० ॥

संधि ४१

१

धुत्रय—वित्तनिमित्तु मरेवि दुहु पात्रेवि लल्लक्कहो ।
वणि पिन्नागगधु गयउ नरयहो लल्लक्कहो ॥

पचालविस्रु कपल्लिपुरे
महएवि तासु वर विज्जुपहा
जिणयत्तु जिणिदवम्मं निरउ
अवरु वि तहिँ वसइ धणाहिवइ
रक्खइ वणु न नियच्छइ नियउ
तहो विण्हुदत्तु नामेण सुउ
आसन्नु जि कोळुहलमडणा
सयसहससंखकुहालकरा
मडियउ लोहेण कुसीण सउ
विक्कणिय एक्क वट्टिय खडया
जा जोयइ ता सा कंचणहो

रयणापहु पहु वणरमियसुरे ।
जणमणहर नावड मुकडकहा ।
निवसेट्टि पसिद्धु विहूयरउ । ५
पिन्नागगधु वणि दीणमइ ।
सो पिन्नयविक्कएण जियइ ।
मदिरिनामाहे पियाहे हुउ ।
पारद्धु तलाउ महीवडणा ।
कम्मति निरतरु तत्थ णरा । १०
पाविउ एक्केण सुवन्नमउ ।
अमुणते जिणदत्ते लडया ।
काराविय पडिम चारु जिणहो ।

घत्ता—वट्टउ उड्डु लेवि अवरु कचणु अमुणतउ ।

अन्नहिँ दियहे पुणाइयउ लइ सेट्टि भणतउ ॥१॥

१५

२

जाणिवि अभव्वु धणु वणिवडणा
पिन्नागगधु जहिँ तहिँ खणउ
पुणु भणिउ उड्डु रे जेतियउ
देज्जसु देमि त्ति भणेवि घरु
अणुवासरु सो कयवंचणहो
एक्केक्कय दो दो देइ तहो
नवनवड दिन्न एक्कए रहिया
एत्थतरि विणयविहूसियउ
तुह भच्चियार्ह परिणयणविही
सो पई विणु केम भाय हवई

परिहरिउ न लइउ चारुमडणा ।
गउ लइय तेण वुज्झिवि कणउ ।
अच्छति कुसिउ महु तेत्तियउ ।
गउ लेवि मोल्लु कोहालकरु ।
आणेप्पिणु कुसि वरकंचणहो । ५
अह वा धणलुद्धहो तित्ति कहो ।
एक्कच्छइ तासु तेण कहिया ।
वहिणिण हक्कारउ पेसियउ ।
इह होइ लग्गु सजणियदिही ।
इय जाणिवि आवहि सिग्घगई । १०

निमुणेवि एउ चिंतावियउ
जइ जामि जाइ तो कुसिकणउ

हउँ ततलीप्र सतावियउ ।
अह जामि न तो जणजपणउ ।

घत्ता--इय चितेवि उवरोहवमु सामग्गि करेप्पिणु ।
गउ गामहो आमतियउ तणुरुहहो कहेप्पिणु ॥२॥

३

ता पहाप्र आणिय कुसि खणएँ
कुहियउ काइँ करेवउ लेप्पिणु
जा जोयइ हत्येण लएप्पिणु
ता सनामु सोवन्नु नियच्छइ
नेवि तेण सहसत्ति नरिदहो
अक्खर नियवि निवेण पउत्तउ
ता उड्डेण नवेप्पिणु रायहो
अक्खिउ अवर एक्क जिणयत्तहो
तेण वि सा जिणपडिम लएप्पिणु

लइय न सा केमवि वणितणएँ ।
थिउ सो जाणइ जणु भणेप्पिणु ।
रायदव्वु कि कत्थइँ गच्छइ ।
वरिसिय वियसियमुहअरविदहो । ५
अवरउ कहिँ अच्छंति निहित्तउ ।
अट्टाणवइ दिन्न पिन्नायहो ।
ता पहुणा पेसिउ कोक्कउ तहो ।
गपि निवइ विन्नविउ नवेप्पिणु ।

घत्ता—मइँ अमुणते एक्क पहु कुसि लोहु मणेप्पिणु ।
लइया कणउ मुणेवि अवर न लइय सकेप्पिणु ॥३॥

१०

४

पडिमेह सामि भवभयहरहो
जं जाणहि त महु करहि पहु
पिन्नागगधवणियहो भवणु
अवरु वि कुसीहिँ सहुँ अवहरिउ
एत्तहि गामहो होतेण तिणा
तेणक्खिउ कुसिदोसेण तुह
तं निमुणेवि चूरिवि वे वि पया
लल्लक्क नामे दुक्खुक्कुडए
नरयालप्र सो नारइउ खलु

काराविय ताइँ जिणेसरहो ।
ता खमिउ तासु कियवइरिवहू ।
वत्तीसकोडिपरिमाणधणु ।
सकुडुवु वि सुउ नियलहिँ भरिउ ।
पुच्छिउ घरवत्त को वि वणिणा । ५
धणु हित्तु कुडुवु वद्धु अबुह ।
मुउ एमइँ लेप्पिणु गामु गया ।
हुउ तमपहे तइयप्र पत्थडए ।
अवरु वि इय पावइ पावफलु ।

घत्ता—अत्थु अणत्थहँ मूलदलु इय वुज्जेवि वज्जह ।
मा तहो खणभंगुरहो कप्र दुग्गइगमु सज्जह ॥४॥

१०

५

तह य फडहत्यओ
 दव्वमुच्छ्राहओ
 हेममणिभासुरे
 अभयनामा णओ
 तस्स नयणपिया
 वणिउ धणलुद्धओ
 मदगडगामिया
 तस्स भज्जा हुया
 गरुडदत्तो महा
 सयलजीवहँ तिणा
 रयणकचणमयं
 एक्कवसहहो कए
 दुद्धिणधारए

वणिउ बहुअत्थओ ।
 मरिवि नरय गओ ।
 आसि चपापुरे ।
 होतओ राणओ ।
 पुडरीया पिया । ५
 अत्थि तहिँ मुद्धओ ।
 नागवसुनामिया ।
 ताहि वे वर सुया ।
 नागदत्तो तथा ।
 जुय जुय सेट्ठिणा । १०
 निययहम्मै कय ।
 सुरसरीए पए ।
 आगए तूरए ।

घत्ता—घवलहरोवरि सठियग्र देविग्र पयरतउ ।

दिट्ठउ सो निक्किट्ठवणि कट्ठइँ कड्ढतउ ॥५॥

१५

६

दक्खालिउ रायहो कवणु एहु
 जो एरिसम्मि पाणिग्र पडंति
 निद्धक्कु तरेवि तरेवि देव
 सामिय सुहियम्मि कयम्मि अम्मि
 ता सो सजणियपयासिवेण
 वुत्तउ मुग्र एउ असिट्ठकम्मु
 जइ नत्थि वप्प तो देमि दविणु
 परमेसर एक्कु वड्लु अत्थि
 जइ पावमि कहमवि तहो समाणु
 ता पहुणा गोउलु पहिउ वणिउ

अम्हारग्र पुरि दारिद्दगेहु ।
 गस्यग्र गगानइपूरि इति ।
 पेक्खह कड्डइ कट्ठाइँ केव ।
 दयधम्मु होइ कित्तणु जणम्मि ।
 कोक्काविउ परियाणिउ निवेण । ५
 तुहँ सुम्महि वणिउ विसिट्ठकम्मु ।
 लइ मग्गहि निसुर्णवि भणइ किविणु ।
 वीयउ महु तारिसु अवरु णत्थि ।
 तो लेमि वसहु कुलकमलभाणु ।
 जो रुच्चइ सो लइ गपि भणिउ । १०

घत्ता—जाग्रवि जोग्रवि एवि पुणु पणवेवि तिणा पइ ।

भणिउ नत्थि तहिँ महु विसहसमु एक्कु वि गोवइ ॥६॥

दुक्कउ करेवि	काले मरेवि ।	
निवडिउ तहि जि	वहुदुक्खपुजि ।	
दससागराउ	नेरइउ जाउ ।	५
अहिदत्तु वीउ	तहो मुउ विणीउ ।	
पालियदएण	सावयवएण ।	
गउ मुहसमग्गु	पचमउ सग्गु ।	
पियमरणसोय	परिहरियभोय ।	
नायवसु जाय	अज्जिय विराय ।	१०
चिर तउ करेवि	जिणु सभरेवि ।	
चपावणम्मि	मुय पावणम्मि ।	
महसुक्कि देउ	हूई मुतेउ ।	
दस सायराइँ	दुक्खइँ खराइँ ।	
सहिउण पाउ	नरयाउ आउ ।	१५
फडहत्यनाउ	गिरिगहणि नाउ ।	
उत्तुगकाउ	जूहवइ जाउ ।	

घत्ता—वइणतेयदत्तु वि तहिँ जि पव्वए नरयायउ ।

ककजघु नामेण वणि वणयरु सजायउ ॥९॥

१०

सो तेण दत्तमुसलत्थु नाउ	विणिवाइउ कीयउ पक्खि जाउ ।	
पुणु तेण जि दवि लाइए पलित्तु	मिसु मुएवि णगउ पचत्तु पत्तु ।	
पुणु सिंघलदीवसमीवयम्मि	वेन्नानइसायरसगमम्मि ।	
सुपसिद्धि दविडदेसतरम्मि	कुरुचिल्लु हूउ मुत्तायरम्मि ^१ ।	
सवरु वि सो तहिँ जि कुलारगामि	हुउ धीवरु मच्छधियपगामि ।	५
मोत्तियइँ लेतु चिरवइरिएण	मारिउ कुरुचिल्लु निएवि तेण ।	
पुणु भगलि देसि कुलसकुलम्मि	उप्पन्नउ गामि कसवलम्मि ।	
नामेण करहु किसलियपियासु	नदणु उप्पलहो कुडुवियासु ।	
मच्छधओ वि जीविउ मुएवि	हुउ तुरयकिसोरउ तहिँ जि एवि ।	
करहुउ चिरवइरे त निएवि	आरूसइ पिट्टइ लट्ठि लेवि ।	१०
अस्सो वि विरुज्झइ छलु लहेवि	त पायपहारहिँ हणइ एवि ।	

घत्ता—जलयावत्तिँ कयाइ तहिँ धरणीधरधीरा ।

आगय चारण चारुमइ चत्तारि भडारा ॥१०॥

१० १ मुत्तारयम्मि ।

११

ताहँ अणतविजउ पहिलारउ
 धम्मु सुणेवि तेण सायारइँ
 एक्कहिँ वासरि हरि रक्खतउ
 खलतुरएण तेण तहिँ एप्पिणु
 देउ पचपल्लाउ सुहम्मग्र
 तत्तो चुउ चपहँ वणिउत्तहो
 तेत्थु जि नदघोसनामाणहो
 नागदत्तु जिणदत्तहो भज्जग्र
 सयलकलाविन्नाणसमिद्धउ
 दोहँ वि ताहँ पुव्वनेहायउ

तासु पासि सासयसुहयारउ ।
 लइयइँ वयइँ कुगइविणिवारइँ ।
 दुट्ठिणम्मि सो तरुतलि सुत्तउ ।
 मारिउ दतहिँ गलग्र गहेप्पिणु ।
 सभूयउ सग्गे सोहम्मग्र । ५
 हुउ भवदेउ पुत्तु भवदत्तहो ।
 आयउ पचमसग्गविमाणहो ।
 जायउ पोमग्र सुउ निरवज्जग्र ।
 नामे सो जिणदेउ पसिद्धउ ।
 वणिउत्तहँ मित्तत्तणु जायउ । १०

घत्ता—काले जे मेरुप्पहु मुणिनाहु नमसिवि ।
 जिणदिक्खग्र जिणदेउ थिउ अप्पाणउ तूसिवि ॥११॥

१२

सव्वसत्थनिम्माणउ जायउ सघवइ ।
 भवदेउ वि भवनोह हुउ तहु पासँ जइ ॥
 सजमभेउ वियाणिवि दूरुज्झियविसउ ।
 पुच्छँवि गुरु विहरतउ गउ कलिंगविसउ ॥
 नदिगामसामीवग्र काणणि धीरमइ । ५
 अइरावइनइतीरग्र निच्च^१ निवद्धरइ ॥
 घडयहो^२ उवरि परिट्ठिउ आदावणु करइ ।
 चिरभवभाविउ^३ लोहकसाउ न वीसरइ ॥
 एक्कहिँ वासरि पूरे निवडिउ^४ नइहि तडु ।
 दिट्ठु मुवन्नहो रयणहिँ भरियउ तेण घडु ॥ १०
 आदावणथडयहो तलि आणेवि निक्खिणिउ ।
 अच्छइ निच्च नियच्छइ जिह कोइ वि धणिउ ॥
 तासु परिट्ठिउ उप्परि सिलहि निरिक्खियउ ।
 थेरीरूवु करेप्पिणु सो जिणदिक्खियउ ॥

१२ १ निच्च पि ।

२ घडयहो तहो ।

३ चिरणियभवभाविउ ।

४ निवडिउ ता ।

वणदेवीप्र पउत्तउ किउ चिरु उगतउ । १५

एवहि आवहि गामहो माणहुँ दुइ वि रउ ॥

एउ सुणेप्पिणु रिसिणा रूसिवि सा भणिया ।

कहिँ गय लज्जविवज्जिप्र लज्ज तुज्ज तणिया ॥

एहावत्थप्र अज्ज वि अट्ट महु भणहि ।

उट्टहि जाहि गहिल्लिप्र किं चि वि न वि मुणहि ॥ २०

घत्ता—भयव तुहुँ निल्लज्जु निरु तो देविप्र वुत्तउ ।

एहावत्थप्र गथु पुणु सगहहुँ ण जुत्तउ ॥१२॥

१३

लज्जिउ सुमराविउ पुव्वभउ
निदिवि अप्पाणउ पुणु वि पुणु
आलोप्रवि सुज्झिवि सोमगुरु
तहिँ राउ मुकेसु तामु वणिउ
सिरिभद्दप्र तहो भज्जप्र जणिउ
तहो पुज्ज निएप्पिणु सोहणहो
पूयत्थु नियानु करेवि मुउ
जंठूणयभवणि अईववरु
मरिऊण समाहिप्र समियरउ
सिरिसेणावल्लहु कुलधवलु
वणिवइ सुवधु धण धणसिरिया
भवदेउ देउ सगहो ल्हसिउ

वइरायभाउ तहो ताप्र कउ ।

गउ अच्छइ जहिँ गुरु गरुयगुणु ।

सपत्तउ काले अचलउरु ।

सुपसिद्धु सुभद्धु महाधणिउ ।

सुउ भद्वाहु नामे भणिउ । ५

अणुराउ महतु मज्झि जणहो ।

सुरु सणकुमारु भवदेउ हुउ ।

सत्तवुहिआउपमाणधरु ।

जिणदेउ वि अच्चुयसग्गु गउ ।

उज्जेणिहे राणउ सीहवलु । १०

पच्चक्खसिरी विव अवयरिया ।

एप्पिणु तहे तणप्र गन्धि वसिउ ।

घत्ता—अत्थु न जाणहुँ केत्थु गउ वधुयणु वि णट्टउ ।

तम्मि गन्धि थिप्र ताउ मुउ खलयणु सत्तुट्टउ ॥१३॥

१४

एकहिँ वासरि धणसिरि सरियहे
तीरे रयति ताह एककल्लिय
विहिवसेण सच्चियसावज्जहुँ
पव्वयनामे निसुणिवि वइयरु
उज्झियकक्कसवयणाणिट्टहो

गय सिप्पानामहे सरभरियहे ।

सयणविहूण सोयसरसल्लिय ।

दिट्ट महत्तरेण मेदज्जहुँ ।

पड्विज्जेवि वहिणि निय नियघरु ।

कासु वि मदिरे धरिय विसिट्टहो । ५

तहिँ जे दियहे पसूय सुउ जायउ
हुउ मेदज्जुहँ पल्लिहे जेण जि
वड्डिउ सुदरु दिणि दिणि वालउ
नायवसू जा फडहत्थयपिय
तेत्थु जि पुरि जिणधम्मविहीणहो
नारिण नायसिरिण तिलयाइय

सोहणलक्खणलक्खियकायउ ।
किउ मेदज्जु नामु तहो तेण जि ।
हुउ सपुन्नउ नाइँ कलालउ ।
सा सग्गाइय जणनयणप्पिय ।
धणसिरिभायहो भवसिरिसेणहो । १०
सुदरि निरु सुदरि मुय जाइय ।

घत्ता—ता पल्लिहे सा पट्टणहो आणेवि सुवायए ।

पढहँ समप्पिय पाढयहो मन्नावेवि मायण ॥१४॥

१५

एककत्थहिँ ता तासु पढतहो लोयथुओ
पुव्विल्लह भवकयसवधेण वसतभरे
धणसिरीहे सुउ तिलयाइयसुदरीण सहिउ
रूसेवि सइ वणिणा ता विप्पिएण भणिवि
कि छिवहि सुया तुहँ मेच्छहिँ इहु विट्टालियउ
एमेवमाइयहिँ गपिणु तेण कहिय वयणा
अच्छतु मणे ता तिलयासुदरि सभरइ
पुणु एककहिँदिणि सोएवि सेट्ठिओ लग्गियउ
तेण वि भणिओ पुणु पुत्तिपमाणिय कच्चणिया
निसुणेवि एउ जाएवि जणणिहे वज्जरिउ

मामहो सुयए ताण समेउ सणेहु हुओ ।
एककहिँ दियहिँ भवसिरिसेणहो तणए जि घरे
कामुव रइएण जि डोल्लहरम्मि समारुहिउ ।
मेदज्जु तओ उतारिउ पाएणाहणिवि ।
नीसरु घरहो पुणु देवि दोसु निवकालियउ ।
निसुणेवि हुया सा ते दुक्खे ससुयनयणा ।
मेदज्जु तहिँ एककहिँ वि पदेसि न रइ करइ ।
नियपुत्ति महु पुणु देहि विवाहहुँ मग्गियउ ।
जइ पडिम महु तुहँ देहि देमि तो नदणिया ।
रोवतियए ताइ वि कहिउ तासु चरिउ । १०

घत्ता—छड्डि एह तत्ति तणय सो खलु मायारउ ।

कि कन्नण मारावियउ ते ताउ तुहारउ ॥१५॥

१६

कियउ अखत्तु हयासे घरु ल्हूसावियउ
पइँ थिणउवरि पलाणवि पल्लिहे पइसरिया
पव्वएण निव्वाहिय नामे एण तुह
ता मेदज्जु पइज्ज करेप्पिणु नीसरिउ
तेत्थ चडेवि कराडिहे जामप्पइँ धिवइ
तेणाउच्छिउ रिसिणा होइवि कवणु दुहु
भासड सो मुय मामहो लहिमि न कि करमि

रायपसाएँ एहु पहुत्तणु पावियउ ।
एत्थु जि जायउ वड्डिउ तुहँ हउँ नित्थरिया ।
कहिँ पावमि चामीयरपडिम पसन्नमुह ।
एकल्लउ मरणु मणेवि महावणु पइसरिउ ।
तामायउ तियसेसरु अच्चुयकप्पवइ । ५
जेण जुवाणु जि पुत्तय मग्गहि मरणु तुहु ।
तेणहिमाणे मुणिवर जीविउ परिहरमि ।

भणइ साहु किं कारणु लद्ध न कन्न पइ
नत्थि कत्थ पाविज्जइ सा हउँ निद्धणउ
देमि हेमपडिमा हउँ परिणहि मलहरणु

कहिउ तेण सो मग्गइ कंचणपडिम मइ ।
ता देवरिसि पयपइ चिरभवि तहो तणउ ।
वारह वरिसहिँ गेण्हहि जइ तुहुँ तवयरणु १०

घत्ता—मेदज्जेण भणिउ करमि पाइक्कु तुहारउ ।

एक्क वार परिपूरवहि अहिमाणु महारउ ॥१६॥

१७

ता भणिउ मुणिदे जाहि घरु
तहो उवरि वत्थि वित्थरिण्ण सिए
आवेसइ पडिम नहगणहो
निसुणेवि एउ सो तुट्टमणु
पुव्वुत्त पयत्ते किरिय किया
घरु नेविणु तेण तासु कहिया
देमि त्ति भणेप्पिणु लेवि थिउ
भवणम्मि महारइ खीरुवहि
सोऊण इण दूमियमइणा

सम्मज्जिवि देवि चउक्कु वरु ।
जिणदेवहो जयजयकारि किए ।
आणट्टु जणेसइ तुह मणहो ।
मुणि वंदिवि सप्राइउ भवणु ।
एतूण पडिम वत्थुवरि थिया । ५
लइ एह देहि महु नियदुहिया ।
अवरुत्तरु पिसुणे तेण किउ ।
जइ आणहि तो तणया लहहि ।
गतूण कहिउ धणसिरिहे तिणा ।

घत्ता—

किं चि वि न नियच्छइ ।

१०

निच्छउ सो सुय सत्तु तुह कि कन्न पयच्छइ ॥१७॥

१८

भासइ सो न कज्जु महु अन्नप्र
जीवमि लइ सा लहमि किसोयरि
एम भणेप्पिणु पिउवणु गपिणु
घल्लइ भूप जाम ता सुरवइ
विणिवारिउ दुग्गइहे म पइसहि
मेदज्जेण भणिउ मुणि जा पइँ
तो वि न दुज्जणु दुहिय समप्पइ
सो कहिँ लब्भइ तेण निरुत्तउ
जइ परिणेवि कन्न पावज्जहि
तो चित्तामणि चित्तियदायउ

विज्जाहरिण्ण रइण्ण सुरकन्नण्ण ।
न तो जामि जमालउ मायरि ।
मरणत्थिउ तरु गरुउ चडेप्पिणु ।
पुणरवि आयउ सो होइवि जइ ।
किं अप्पउँ अन्नाण विणासहि । ५
दिन्न पडिम ढोइय सा तहो मइँ ।
आणहि खीरसमुद्धु पयपइ ।
मरमि भडारा ता तेणुत्तउ ।
विसयकसाय महाभड भजहि ।
दुल्लहु देमि तुज्जक विक्खायउ । १०

घत्ता—ता सो भासइ देहि पहु परिणेवि मुएसमि ।

ककणहत्थु जि पास तुह पव्वज्ज लएसमि ॥१८॥

१९

तओ तहो तेण पहाइ पउत्तु
 लएप्पिणु त घरु गपिणु मामु
 किमच्छहि चोज्जु नियच्छहि देहि
 पयपइ सेट्ठि पयासहि ताम
 महतु महाघणघोसरउद्दु
 तओ गिरित्तुगु तरगु चलतु
 निएप्पिणु एतु पओहिपवाहु
 नवेप्पिणु एप्पिणु भीयमणेण
 अहो नरकेसरि दिट्ठु पहाउ

महामणि चितियदायउ दित्तु ।
 पउत्तु नवेप्पिणु टुप्परिणामु ।
 तणुवभव आणमि खीरपओहि ।
 पयच्छमि जेम सुया अहिराम ।
 ससकसमप्पहु खीरसमुद्दु । ५
 तिणाणिउ तक्खणि चितियमेत्तु ।
 भयकरु वोलणसीलु अगाहु ।
 पससिवि वोल्लिउ सव्वजणेण ।
 निवारहि अम्हहुँ वंधु विहाउ ।

घत्ता—सामत्थे चित्तामणिहे तक्खणि हुकारिउ ।

१०

असुहु सुहेण व तेण तहो आगमणु निवारिउ ॥१९॥

२०

विंभिएण त निप्रवि राडणा
 कित्तिसेण नामेण सुदरी
 दोन्नि तीस अन्नाउ कन्नओ
 करेवि सेट्ठि सो दुहविवज्जिओ
 दिव्वभोय भुजतु तत्थ सो
 ताम तेण इत्तूण साहुणा
 सरहि किं न भो पुव्वजपिय
 कुणसु साहुचरिय अणिदिय
 भणइ सेट्ठि कयसोक्खसगह

तूसिऊण आणददाइणा ।
 निययपुत्ति तह तिलयसुदरी ।
 लेइऊण करयलि रवन्नओ ।
 सयललयसुहिएण पुज्जिओ ।
 वसइ जाम सतुट्टमाणसो । ५
 भणिउ सेट्ठि अच्चतसाहुणा ।
 मुयसु मोहजाल सुविप्पिय ।
 जिणसु चित्तपिसय सइदिय ।
 करह मज्झ भयव अणुग्गह ।

घत्ता—वारह वरिसइँ विसयसुहु अणुहुजिवि इच्छइँ ।

१०

मेल्लिवि तिलयासुदरिय तउ लेसमि पच्छइँ ॥२०॥

२१

एम होउ पडिवज्जिवि सुरमुणि
 पुणरवि वारहवरिसहिँ आयउ
 तेण वि भासिउ पयणियहरिसइँ
 देहि भडारा पुणु पव्वज्जहिँ

गउ नियठाणहो त पुच्छिवि गुणि ।
 लइ तउ वुत्तउ धणसिरिजायउ ।
 अवराइँ वि महुँ वारह वरिसइँ ।
 लगमि निच्छएण निरवज्जहिँ ।

मन्निवि गउ नियवासहो सजउ
खणु वि न तिलयासुदरि मेल्लइ
पुणु आयउ पुणु त जि पउत्तउ
लइ तउ पुणु वि भणतउ एत्तउ
पभणइ को तुहुँ कि एत्थावहि
छडिवि सिरिविलासु आवगउ
भिकख भममि तो तुह पडिहासइ

माणइ विसयसोवखु मेदज्जउ । ५
अह को कम्मु पुराइउ पेल्लइ ।
गउ सुरु सुहिसवोहणचित्तउ ।
सुणिवि सेट्ठि कोवेण पलित्तउ ।
वार वार मई तउ लेवावहि ।
घरि घरि पई जिह होइवि नग्गउ । १०
को जाणतु वि अप्पउँ नासइ ।

घत्ता—ता चितइ मणि देवमुणि पेच्छह कि बोल्लइ ।

बुज्झिउ एहु नियाणवसु ते भोउ न मेल्लइ ॥२१॥

२२

दुल्लघ नवर जइ कम्मसत्ति
इय चित्तिवि गयउ विसन्नचित्तु
पावेप्पिणु अवसरु मइविसालु
मेदज्जरूउ सुरवरु करेवि
तहिँ अवसरि सुहिसेवयसहाउ
वारिउ पडिहारे पइसरतु
मेदज्जु सेट्ठि तुहुँ धुत्तु कोइ
निसुणेवि एउ उद्देइएण
अन्नाउ नराहिउ नायदिट्ठि
मायाविउ सपय सीकरेवि
ता राएँ जो जो कोइ तासु
सो सो पेक्खइ तेण जि समाणु

गरुय वि मोहिज्जहिँ नत्थि भत्ति ।
अन्नहिँ दिणि अवधारिवि निमित्तु ।
दारम्मि धरेप्पिणु दारवालु ।
थिउ गेह्भतरि पइसरेवि ।
मेदज्जु वि आयउ राउलाउ । ५
अच्छइ अब्भतरि रइ करतु ।
जा जाहि जाम विरुयउ न होइ ।
गतूण नरिदहो कहिउ तेण ।
परितायहि कोइ वि होवि सेट्ठि ।
थिउ भवणि महारु पइसरेवि । १०
पट्टविउ पलोयहुँ पुरिसु पासु ।
आवेवि कहइ पाविय अमाणु ।

घत्ता—विभिउ पुहईवइ सुणेवि पेसिउ हक्कारउ ।

आयउ अहिणवसेट्ठि तहि लहु सालकारउ ॥२२॥

२३

पुणु पुणु दोहँ वि समुहुँ निरिक्खइ
मणु परियाणिवि जणियाणदे
तुम्हहँ अम्हहँ सतय बुज्झइ
सो सच्चमउ सेट्ठि सुहयारउ

कवणु सेट्ठि पहु तो वि न लक्खइ ।
भणिउ महीवइ देववणिदे ।
आइ मज्झि अवसाणि न मुज्झइ
जो न वियाणइ सो मायारउ ।

भल्लउ भाणउ भणइ पयावइ
पुच्छउ ण वियाणइ मेदज्जउ
इयरु भणइ णरणाह सुणिज्जउ
वीरजउ जयतु पुणु उज्जउ
दुद्धरु दुम्मरिसणु सत्तुजउ
पुणु धणवाहणु ताउ तुहारउ

मज्झु वि चित्तहिँ एहु जि भावइ । ५
ठिउ हेट्टामुहु होवि सलज्जउ ।
तुहु कुलि पढमउ राउ अरिजउ ।
चक्काउहु चक्केसरु दुज्जउ ।
देवपालु जगपालु पुरजउ ।
पुणु हरिवाहणु तुहुँ मुहयारउ । १०

घत्ता—ए तुहु कुलरुह नरवसह जिणदिवख लएप्पिणु ।
के वि सग्गहो के वि सिवपयहो गय रज्जु मुएप्पिणु ॥२३॥

२४

मज्झु वि कुलि माणवु पढमु
धणवइ धणउ धणेसरउ
सायरगुरुजिणवरुणधणा
जणणु सुवधु महु तणउ
एत्थु जि एत्तिय दोसचुया
आराहेवि जिणिदपया
एयइँ अवराइँ वि सुणेवि
तूसिवि पहुणा पुज्जियउ
वधह एहु पवंचपरु
नेवि मसाणइँ निट्ठवह
लद्धाएसहिँ किकरहिँ
पुरलोएण वि निदियउ

पुणु महिट्ठु अक्खोहसमु ।
सुरवइदत्तु विमुक्करउ ।
दत्तता दीणुद्धरणा ।
पुणु हउँ पत्थिव तहो तणउ ।
तुहु सताणग्रे सेट्ठि हुया । ५
सिद्धा के वि हु सग्गु गया ।
वयणइँ सो सच्चउ मुणेवि ।
ता दोच्छिउ इयरु वि लज्जियउ ।
भणिउ सुयणसंतावकरु ।
पेयाहिवपुरु पट्ठवह । १०
वधिवि तुरिउ भयकरहिँ ।
मारहुँ सवसयणहो नियउ ।

घत्ता—पुणरवि सो सुरु होवि मुणि वेउन्वियकायउ ।
जामज्जवि नवि सूलियहे धिप्पइ तामायउ ॥२४॥

२५

अवराइँ वि वारह हायणाइँ
भासिउ सुहि तिलयासुदरिए
ता भणिउ तेण परिरक्खकरे
भो एहिँ न कि चि वि कज्जु महु
नउ एवहिँ कालखेउ करमि
ता सजएण साहारियउ

मेदज्जय सोक्खुप्पायणाइँ ।
लइ अच्छहिँ समहँ सुहकरिए ।
परमेसर मारिज्जतु धरे ।
मेल्लावहिँ सपइ सरणु तुहुँ ।
दे देहि दिक्ख दुक्किय हरमि । ५
थिरु थाहि तलारु निवारियउ ।

पुच्छिवि जामावमि जिणं सरणु
इय भणिवि गपि सुदरमइणा
सो सेट्ठि तुज्ज तणयाहे पित्त
मइँ देवे एहु पवचु किउ
नरवरजणमणहु भति जणिया

रक्खेज्जसु तामायहो मरणु ।
कयपणइ भणित्त भूवइ जइणा ।
मा माराविज्जउ प्राणपित्त ।
वणिवेसु घरेप्पिणु भवणि थित्त । १०
वक्खाणिय सतइ तुह तणिया ।

घत्ता—एहुउ विभियमाणसेण निसुणेवि विसेसे ।

कहि केहुउ सवधु हुउ पुच्छिउ पुहईसे ॥२५॥

२६

भासइ सुरमुणि सो धरणीवइ
कहमि जेम निहिलु वि नियवइयरु
गपिणु तेण मसाणहो आणित्त
एत्थतरि पयडिवि अप्पाणउ
फडहत्थाइउ मेदज्जतउ
निसुणिवि सव्वु लोउ उवसतउ
सेट्ठि सुट्ठु विसएसु विरत्तउ
पुज्जित्त परमविहूइए पुत्तहो
पुच्छेप्पिणु पहु परियणसयणइँ
सजायउ जइ समए जिणिदहो
गुरुउवएसे चत्तपमायउ
पालइ सजउ तेरहु किरियउ
वत्तीस वि मेदज्जयदइयउ

[आणाविज्जउ मेदज्जु वि लइ]
ता राएण विसज्जित्त किंकरु ।
मेल्लाविउ पहुणा सम्माणित्त ।
कहिउ असेसु सुरेण कहाणउ ।
नियभवसवधेण निउत्तउ । ५
हुउ सहुँ राएँ विभियचित्तउ ।
देवे कचणकलसहिँ सित्तउ ।
अप्पिवि नियअहियारु सुदत्तहो ।
खमिवि खमाविवि बोल्लिवि वयणइँ ।
पणवेप्पिणु सिरिधम्मु अणिदहो । १०
भावइ पचमहव्वयकायउ ।
कित्तिसेणतिलियासुदरियउ ।
सुहमइयउ जायउ सजइयउ ।

घत्ता—पुहईसेण वि तं सुणेवि ढोइवि सिरि पुत्तहो ।

सहु सामतहिँ लइउ तउ सामीवि सुगुत्तहो ॥२६॥

१५

२७

गउ सग्गहो सुरु सजायतुट्ठि
सुहमइ परियाणियसयलसत्थु
एकल्लविहारित्त चरमदेहु
विहरतु सतु सममित्तसत्तु
तहिँ राणउ वइरिविहगसेणु
णाणाविहनेउन्नयनिकेउ

एत्तहि वि सवणु मेदज्जसेट्ठि ।
दूसहतवसजमभरसमत्थु ।
ससरीरि वि हुउ निम्मवुकनेहु ।
कोसवीनयरु कयाइ पत्तु ।
नामेण अत्थि गधव्वसेणु । ५
सूनारु तासु अगारवेउ ।

सो चरियहे तहो मदिह पडट्ठु
उट्टिवि ठाहु त्ति भणेवि भत्ति
वडसारिवि वाहिरि मुणिवरिदु
ता मसखंडु चित्तेण कलिउ

निवमउडु गाढु ते तेण दिट्ठु ।
पडिगाहिउ करिवि महत्त भत्ति ।
अप्पणु अरुभंतारि जा पडट्ठु ।
कोचेण मउडमाणिक्कु गिलिउ । १०

घत्ता—पेच्छह कम्मवियभियउ कहिँ मुणि आवेसड ।

मन्नेवि मसखंडु रयणु कहिँ कोचु गिलेसड ॥२७॥

२८

सरइ ण महु लग्गहो मउडे
ता तुहुँ पारिज्जु' जईसरहो
सच्चु करेज्जमु चारुभुया
ता सुन्नारु पराइयउ
जोइउ दिट्ठु न तेण मणी
के निउ रयणु इहच्छियउ
जाणतेण वि न वि कहिउ
थिउ मोणेण दयानिरउ
पुणु वि भणिउ मुणिनामु जइ
सकुडुवहो महु निच्छउ हवड
लइउ जेण त वज्जरहि
तो वि न किं पि साहु चवइ
ता रुट्टेण तेण हणिउ
वधणु रुधणु डहणु किउ
तो वि महामुणि मुक्कमलु
घाय धिवतहो एक्क तहो
कट्टहाडि गलि उच्छलिउ
तं जोएप्पिणु दुम्मइणा

मणिजडियतडे ।
निज्जियसरहो ।
सिक्खिवि वि प्रिया ।
रुइराइयउ ।
न नवदुमणी । ५
मुणि पुच्छियउ ।
रिसिणा रहिउ ।
हिंसाविरउ ।
महु मरणु तइ ।
दय करहि कइ । १०
सज्जसु हरहि ।
कियमोणमइ ।
विप्पिउ भणिउ ।
समभावि थिउ ।
मेरु व अचलु । १५
लगी वयहो ।
मणि उग्गिलिउ ।
मुणि मुक्कु तिणा ।

घत्ता—गउ उवसग्गु सहेवि गिरि कयकम्मविओए ।

थिउ सन्नासु लएवि तहिँ थिरु पडिमाजोए ॥२८॥

२०

२९

दुसहपरीसहजयनिव्वूढउ
पढमि पुधत्तवियक्कविचारए
२८ १ ता तु परिज्जु ।

खवउ खवयसेडिहे आरूढउ ।
लग्गउ सुक्कभाणि मुहयारए ।

सुहृमसंपराइयगुणथाणप्र
 होप्रवि खीणकसाउ पहाणे
 दसणणाणावरणडँ नासिवि
 हुउ सजोड जिणु केवलणाणिउ
 तहो पुज्जाणिमित्तु अणुराइउ
 नरविज्जाहरेहिँ अहिणदिउ
 सहुँ पुहईसे कोसबीजणु
 जो हरिवाहणु उज्जेणीवइ
 समउँ तेण गुणसीलामयसरि
 जे सवोहिउ अच्चुयसुरवइ

तुट्टुप्र मोहकम्मसताणप्र ।
 एक्कवियक्कविचारे भाणे ।
 अतराउ दूरहो परिसेसिवि । ५
 लोयालोउ असेसु वि जाणिउ ।
 इट्टु चट्टु धरणिट्टु वि आइउ ।
 चउविहदेवनिकायहिँ वदिउ ।
 पत्तउ भत्तिभारभारियमणु ।
 मेल्लिवि रज्जभोउ जायउ जइ । १०
 आगय अज्जिय तिलयासुदरि ।
 सो वि पराइउ गुणरजियमइ ।

घत्ता—सुहमु थूलु ज किंचि जप्र चरु अचरु विलक्खिउ ।
 त पुच्छतहो तिहुवणु वि केवलिणा अक्खिउ ॥२९॥

३०

एत्थतरि वज्जियजम्मरिणु
 उवसग्गहो कारणु वज्जरइ
 फडहत्थउ नामे पउरधणी
 तहो पणडणि नायवमू सुभुया
 सो सायरि लोहवसेण मुउ
 तणएण गरुडदत्तेण हउ
 हउ जेण सो वि तेत्थु जि पडिउ
 फणिनारउ उसहावत्तगिरि
 इयरु वि नरयायउ पहयपरु
 दसणत्थु सरेहिँ वियारियउ

पुच्छिउ कोसबीसेण जिणु ।
 लोयहो सदेहतिमिरु हरइ ।
 होतउ चपापुरि आसि वणी ।
 गरुडाहिदत्त वे पुत्त हुया ।
 नियदविणायारप्र नाउ हुउ । ५
 पंकयपहु नामे नरउ गउ ।
 पावेण भुवणि को णउ णडिउ ।
 वणि एप्पिणु जायउ मत्त करि ।
 हुउ ककजघु नामे सवरु ।
 सो हत्थि तेण तहिँ मारियउ । १०

घत्ता—पुणु तिकूडपव्वयहो तले खगु नामे कीयउ ।
 हुउ तेण जि लाएवि दउ जमनयरहो नीयउ ॥३०॥

३१

दुत्तायरि सायरि सिरिपवेसि
 वाहु वि हुउ धीवरु तहिँ जि एवि
 चिरवडरें दूरज्झियदवेण
 पुणु उत्तरदेसि कुडुवियासु

कुरुचिल्लु जाउ पुणु दविडदेसि ।
 मुत्ताहलाडँ ते तउ निएवि ।
 विणिवाइउ सो कक्कडउ तेण ।
 जायउ मुउ करहउ रक्खियामु ।

चारणमुणिव्रयणे वयइँ लेवि
धीवरु वि तत्थ ह्यजूह्वाड
सो गहणि सुयतउ तेण लद्धु
मुउ सभूयउ सोहम्मि देउ
होएवि दियवरु सोक्खसारि
उज्जेणिहिँ भोयविलासदिट्ठि

हुउ सावउ मिच्छामउ मुएवि । ५
सजायउ जणु दत्तेहि खाड ।
गलकदलम्मि दुट्ठेण खद्धु ।
पुणु चपहे वणिउ भवाडदेउ ।
उप्पन्नउ ग्रमरु सणक्कुमारि ।
तत्तो चुउ हुउ मेदज्जसेट्ठि । १०

घत्ता—छड्डेवि सपय घरिणि घरु पव्वइउ महायउ ।

घाइचउक्कु खयम्मि कए केवलि सजायउ ॥३१॥

३२

फडहत्थउ जो सो हउँ निरुत्तु
ससारि भमेप्पिणु सो इहाउ
पुव्विल्लवइरसवधएण
जो णायदत्तु लहु सुउ अणिट्टु
चिरजम्मसिणेहे णायरेण
जा णागवसू फडहत्थपत्ति
मेदज्जहो गेहिणि सयणपुज्ज
णीसल्लु होवि णिसुणेवि एउ
गउ मज्झिमगेवज्जहे तवेण
कोसवीसु वि निसुणेवि एउ
मेदज्जु वि केवलविहरणेण
खगवसि सेलि सियलेसि जाउ

जो गरुडदत्तु महु जेट्टुपुत्तु ।
अगारदेउ सुन्नारु जाउ ।
उवसग्गु मज्झु किउ राय एण ।
सो जिणतवेण हुउ अच्चुवेट्टु ।
सवोहिउ हउँ एणायरेण । ५
उज्जेणिहे पुणु हुय सेट्ठिपुत्तु ।
सा एवहिँ हई एह अज्ज ।
अणगारु जि हुउ अगारदेउ ।
एत्थायउ मुच्चेसइ भवेण ।
हुउ रिसि बहुसामतहिँ समेउ । १०
विहरेप्पिणु सवोहियजणेण ।
सपत्तउ अक्खयसोक्खठाउ ।

घत्ता—हुउ जम्मणजरमरणचुउ पयपणयसुरेसरु ।

सिरिचदुज्जलकित्ति महु पसियउ परमेसरु ॥३२॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदमजुत्ते ।

एक्कोत्तरु सम्मतो चालीसमओ इमो सधी ॥

संधि ४२

१

ध्रुवय—सासयपुरहो कवाडु दिहु कारणु मुयह नियाणु अणिट्टहो ।
आयन्नह तप्फलु कहमि जिह वुत्तउ वित्ततु वसिट्टहो ॥

सूरसेणजणवण ह्यविहुरहे
अत्थि तासु महएवि मणोहर
सेट्ठि विसिट्ठु सुट्ठु जिणयत्तउ
तासु पियगुसिरी कम्मारिय
तेत्थु जि कालिदीतडि तावसु
मोडिउ सो मिच्छामयवाए
निच्चमेव दूसहससग्गिउ
असहतउ तत्तावे हल्लइ
जडजालेण तासु पडिखलियउ
जलयर सुहम जीव को लेक्खइ

उग्गसेणु पुहईसरु महुरहे ।
रेवइ नामे पीणपओहर ।
जिणमडवल्लहु जिणपयभत्तउ । ५
बहुगुण पचाणुव्वयधारिय ।
वसइ वसिट्ठु नाम निट्ठावसु ।
उद्धवाहु थिउ एक्के पाए ।
विसहइ गिभयालि पचग्गिउ ।
वार वार जलि अप्पउँ घल्लइ । १०
नीसरियउ मरति मच्छलियउ ।
अवियाणियसजमु उप्पेक्खइ ।

घत्ता—एमच्छनहो तत्थ तहो भत्तिहरिसवस एति थुणति ।
देवि पयाहिण पयजुयलु पउर लोय अणुदियहु नमति ॥१॥

२

एक्कहि वासरि पाणियहारिहिँ
सव्वु कोइ आयहो अप्पवसिहि
तुहुँ न परेक्क एहु रिसि वदहि
भासइ सा तुम्हईँ अप्पवसउ
हउँ पुणु पाविणि पावे पेरिय
जड पाणिउ लहु लेवि न वच्चमि
वियक्खणु
सो पाएसु पडइ मुणिपवरहो
निच्चु जि सा इउ उत्तर देप्पिणु
पुणरवि एक्कहिँ वासरि महिलहिँ
नवर पियगुसिरी अनवतिय

भणिय पियगुसिरी मणहारिहिँ ।
भत्तिण पाय नमसइ तवसिहि ।
मूढिण कि अप्पाणउ छदहि ।
पुव्वक्कियभुक्कियकम्मवसउ ।
हुय परवस पयहरि कम्मारिय । ५
तो साःमिणियणु .. ।
जाणइ धम्माहम्मसलक्खणु ।
हउँ अविवेय सरिस गोरहरहो ।
जाइ घरहो घडु जलहो भरेप्पिणु ।
एवि तासु पय पणविय सयलहिँ । १०
थिय दूरतरि चोज्जु नियतिय ।

घत्ता—सा अनवति निएवि तहिँ सव्वहिँ लेवि हसतह सतिहिँ ।

पेल्लेवि तहो सामीवि निय पडु पडु पडु पाएसु भणतिहिँ ॥२॥

३

तो वि न केम वि सा तहो पणवइ
अज्ज अवस पइँ मुणिहे नवेवउ
भासइ सा जइ एहु नमसमि
सुणिवि वसिट्ठु सुट्ठु आरुट्ठु
हउँ धीवरु जिणयत्ते वुत्तउ
पहुणा भणिउ वणिउ तुहुँ मुणिवरु
एउ सुणेवि वणिणा वुत्तउ
मुणि महराय भणमि जइ मच्छिउ
भणइ वसिट्ठु न एण पउत्तउ
जिणयत्तेण भणिउ सवसित्तणु

सुणु हलि पुणु जुवईयणु पलवइ ।
इयरह कहसु केम जाएवउ ।
तो मच्छघउ किं न पससमि ।
जाइवि रायहो वइयरु सिट्ठु ।
ता कोक्काविउ सो वि पहुत्तउ । ५
भणहि एहु किं कारणु धीवरु ।
एहु जि मज्झु पमाणु निरुत्तउ ।
ता पुहईसे सच्चउ पुच्छिउ ।
एयहो लजियाग्र अहिखित्तउ । १०
दिट्ठु देवमुणिहे सच्चत्तणु ।

घत्ता—सजायउ निदोसु वणि ता घरणीसे सा कोक्काविय ।

पुच्छिय वइयरु वज्जरइ निच्छियमण जिणसासणभाविय ॥३॥

४

हउँ पुहईस पयउ जिणयत्तहो
जहिँ तउ तवइ एहु तहिँ नीरहो
एयहो सयलु वि पुरजुवईयणु
हउँ न परेक्क पडमि तुरियावमि
तुम्हई पुव्वजम्मकयपुत्तउ
पणवह रिसि वीसत्थउ भावे
एहउ महिलायणहो निरतरु
एक्कहिँ दियहे पुणु वि नेच्छतिय
भणिय अज्ज पइँ जाव न जइवरु
केम वि मुयहिँ न चप्पिय कठग्र
जा णवयारु करावह एयहो

पेसणयर थिर जिणमयचित्तहो ।
जामि निच्च जमुणानइतीरहो ।
पायहँ पडइ भत्तिभावियमणु ।
नउ सामिणिभएण खणु लावमि । ५
अप्पवसाउ कयत्थउ घन्नउ ।
हउँ परवस उप्पन्नी पावे ।
देमि भणतहो देव पडुत्तरु ।
सव्वहिँ मिलेवि गलत्थेविणु निय ।
वदिउ ताम जाहि कहिँ किर घरु ।
ता मइँ ताउ पउत्तउ रुट्ठु । १०
तो धीवरहो किं न अविवेयहो ।

घत्ता—एउ सुणेवि एहु कुविउ पच्छइ अक्कोसतु पघाइउ ।

मइँ समेउ भयभीयमणु थियणु भवणि पलाग्रवि [आइउ] ॥४॥

५

जयहो जेट्ठु जगसिट्ठिपवत्तणु
तासु वसिट्ठु पुत्तु हउँ जेट्ठु
वंभयारि अन्नसमाणउ
ता धुत्तीग्र तीग्र आउच्छिउ
सुणु चेडिग्र वसिट्ठु तहे सुच्चइ
जइ एव तो ताग्र पउत्तउ

कत्थइ वभु जगत्तयमत्तिउ ।
लोयपियामहु पावनियत्तणु ।
पडु पडिउ पसिद्धु तवनिट्ठु ।
भणहि काइँ मच्छधिसमाणउ ।
केरिसु होइ पयासहि मच्छिउ । ५
जो मारइ मच्छय सो वुच्चइ ।
तुहुँ वि निसुभसि मीण निरुत्तउ ।

घत्ता—कहहि केम ता तग्र कहिउ तुहुँ पचग्गिग्र कयवेयल्लउ ।

जडजाले जलि मच्छुलिउ मारहि विरइयमच्छुच्छल्लउ ॥५॥

६

जइ पत्तियहि न तो लइ छोडहि
एउ सुणेवि तेण सा दूसिवि
काउ वि रायसहाग्र विसुक्खउ
काउ वि खडियाउ दरमलियउ
पेक्खिवि पहुणा साहुक्कारिय
वार वार जिणधम्मु पससिवि
त निएवि सनिवइ विभियमणु
ता वसिट्ठु लज्जइ अवचित्तउ
थिउ जाएवि तित्थि गधावइ

नियजडजूडभारु पक्खेडहि ।
भाडिउ जडमंडलु आरूसिवि ।
काउ वि अल्लियाउ दरसुक्खउ ।
निवडियाउ इयरउ मच्छलियउ ।
पुज्जिय तुट्टएण कम्मारिय । ५
अन्नाणिउ तावसमउ दूसिवि ।
लगाउ अरुहधम्मि सयलु वि जणु ।
वाणारसिसमीवि तहिँ होतउ ।
गगासगम्मि कुच्छियमइ

घत्ता—दिव्वनाणि एकहिँ दियहे वीरभद्दु नामे विक्खायउ । १०

पंचहिँ सीससयहिँ सहिउ मुणि विहरतु सतु तत्थायउ ॥६॥

७

विंभिएण दूसहतवभवणे
सघवईग्र पउत्तु अयाणहो
एउ सुणेवि वसिट्ठि भासिउ
को मइँ कहसु निसुभिउ पाणिउ
जइ तुहुँ नाणिउ मुणिणा वुत्तउ
कहिँ तुह गुरु मरेवि उप्पन्नउ

वन्निउ सो केण वि नवसवणे ।
विहलु सव्वु एयहो दयहीणहो ।
भो मुणि कि अम्हहँ तउ दूसिउ ।
केमम्हारउ तउ अन्नाणिउ ।
तो महु कहहि वसिट्ठु निरुत्तउ । ५
भासइ तावमु तवसपन्नउ ।

महु गुरु वंभलोउ सपत्तउ
 मुणिणा भणिउ अहित्तणु पत्तउ
 अच्छइ अतरि कि महु जोयहि
 ता कोवेण तेण पजलते
 फाडिउ दिट्ठु भुयगु जलतउ

अच्छइ दिव्वभोय भुजतउ ।
 तुह गुरु एत्थ कट्ठि डज्झतउ ।
 जइ ससउ तो किं न पलोयहि । १०
 लेवि कुठारिय कट्ठु तुरते ।
 गउ वडरायहो विभियचित्तउ ।

घत्ता—घन्नउ जिणवरधम्मु पर जत्येवविहु अत्थि विणिच्छउ ।
 अन्नाणिउ तावसहँ तउ डज्झउ संजमसारे तुच्छउ ॥७॥

८

एम भणेप्पिणु
 धम्मु सुणेप्पिणु
 पालियनिट्ठउ
 दुक्कियसवरु
 नियतणु तावइ
 वारियसम्मे
 सहियालाहउ
 पढउँ निरंतरु
 सिरिसिवगुत्तहो
 सो गुणगुरुणा
 तेण वि पोसेवि
 छम्मासहिँ पुणु
 तहो जि समप्पिउ
 पुन्नविहीणउ
 तेण वि तरिसहो
 कहमवि पालिउ

मुणि पणवेप्पिणु ।
 कुमउ मुएप्पिणु ।
 तवसि वसिट्ठउ ।
 हूउ दियवरु ।
 भिक्ख न पावइ । ५
 चिरकयकम्मे ।
 खंतिसणाहउ ।
 करिवि मिसतरु ।
 मुणिहि तिगुत्तहो ।
 अप्पिउ गुरुणा । १०
 समउ पयासिवि ।
 परियाणियगुणु ।
 गुरुहि समप्पिउ ।
 भुक्खण्ण खीणउ ।
 अद्धुसहरिसहो । १५
 पुणु निक्कालिउ ।

घत्ता—मायवप्पु मुट्ठि वधुयणु गुरु देव वि अवर वि दुहरीणहो ।
 होति परंमुह भति ण वि गुणवंतहो वि पुन्नपरिहीणहो ॥८॥

९

तओ स हवेप्पिणु एयविहारि
 पयांसियआसिमहामहुराहे
 मुरारिभुयगगलचालियसेले

मही विहरतउ दुक्कियहारि ।
 समागउ एक्कदिणे महुराहे ।
 थिओ तहिँ देववहकयकीले ।

विणिज्जियदुज्जयपीइधवेण
नवेप्पिणु एप्पिणु जपहु देहँ
पउत्तउ तेण वि अच्छहु ताव
विसज्जिउ देविउ एव भणेवि
दयावरु उग्गतवेण समिद्धु
मुएप्पिणु तावसधम्मु अयाणु
पससिवि एम महाविहवेण

पकपिउ देविउ तासु तवेण ।
भणति महामुणि काइँ करेहँ । ५
पओयणु किं चि वि जायइ जाव ।
गयाउ निवासहो साहु नवेवि ।
हुओ मुणि सव्वजणम्मि पसिद्धु ।
हुओ जइ एहु जिणागमजाणु ।
समच्चिउ भत्तिभरेण निवेण । १०

घत्ता—मासि मासि भोयणु करइ सो तहिँ परिवड्ढियअणुराएँ ।
भुजाविसमि साहु हउँ सयलु वि जणु वाराविउ राएँ ॥१॥

१०

एत्तहि मासोवासु करेप्पिणु
घरि घरि भमइ न को वि खडावइ
हिंडिवि नयरु सव्वु गउ राउलु
हुउ अलाहु तह एम तिवारउ
नयरहो नीसरतु पेक्खेप्पिणु
हा हा राएँ रिसि सताविउ
त निसुणिवि कोवे कपतउ
आयउ देविउ चितियमेत्तउ
ताहिँ भणिउ सो विणउ करेप्पिणु
चित्तेण वि न एउ चित्तिज्जइ

पुरि पइट्ठु मुणि जिणु पणवेप्पिणु ।
निवड्ढनिवारिउ जणमणु तावड ।
तत्थ वि दिट्ठु न पहु थिउ वाउलु ।
भुक्खतिसासमसमियसरीरउ ।
केण वि भासिउ करुणु करेप्पिणु । ५
भिक्ष न देइ लोउ वाराविउ ।
गउ गिरि गोवद्धणु सपत्तउ ।
निहणह उग्गसेणु तेणुत्तउ ।
भुवणपुज्जु जिणलिगु धरेप्पिणु ।
कि पुणु किज्जइ काराविज्जइ । १०

घत्ता—तेण भणिउ तो महु विहुरे अन्नहँ भवि साहेज्जु करेज्जह ।
एत्तिउ मइँ अब्भत्थियउ अवसरु जाणेप्पिणु आवेज्जह ॥१०॥

११

ताउ गयाउ एउ मन्नेप्पिणु
मुउ हुउ उग्गसेणनिवकतहे
सा किस पेच्छेवि दूमियमइणा
कहि दोहलउ कवणु गयवरगइ
पुणु वि भणिय कि सकहि कहि पिप्र
सामिय णयणाणदजणेरउ
जाणमि रुहिरवारि जइ पिज्जइ

मुणिवि अयाणु नियाणु करेप्पिणु ।
पोमावइहे गग्भि गुणवतहे ।
एक्काहिँ वासरि पुच्छिय पइणा ।
कहहँ न जाइ देव भासइ सइ ।
ता उवड्ढु ताप्र लज्जतिप्र । ५
हियउ वियारिवि छुरियप्र तेरउ ।
तो सतोसु मज्झु उप्पज्जइ ।

चित्तउ मणि गठ्भहो विवरेरउ
करिवि पवचु निवेण मणोज्जहे
नवमासहिँ नवणु उप्पन्नउ

ग्रहु परिणामु न एयहे केरउ ।
परिपूरिउ दोहलउ सभज्जहे ।
चारु पुरिसु लक्खणसपुन्नउ । १०

घत्ता—भिउडिभगभीसणवयणु रोसुग्गामियमुट्टिपहारउ ।
ताएँ पुत्तु पलोड्यउ रासिहि थिउ नावड अगारउ ॥११॥

१२

जायमेत्तु जो एम वियभग्र
एम भणेवि कसमजूसहे
नियनामकियअगुत्थलियग्र
भीएँ कार्लिदिहे पवहाविउ
जेण कसमजूसहे लद्धउ
वड्डारिउ जाणिवि कलियारउ
गउ सउरीपुरु न जमद्वयउ
सिक्खिउ सव्वु विणयसपन्नउ
एत्तहे समरभरोड्डियखधे
सयल वि सेव कराविय भूवड

सो अगइ मइँ अवस निसुभग्र ।
घल्लिवि वारियवारिपवेसहे ।
सहुँ लेहेण रयणकवलियग्र ।
कोसविहे कल्लालिग्र पाविउ ।
कंसु तेण किउ नामु पसिद्धउ । ५
नीसारिउ मायग्र दुह्यारउ ।
तत्थ सीसु वसुएवहो हूयउ ।
तूसिवि गुरुणा वरु पडिवन्नउ ।
साहिय महि तिखड जरसधे ।
एक्कु न पर पइसइ पोयणवइ । १०

घत्ता—चक्कहरेण पयंड भड जे जे केड वि तासु विसज्जिय ।
अपवाएणुच्छग्गु जिह ते ते सयल वि तेण परज्जिय ॥१२॥

१३

सो परेक्कु महु सल्लु व सल्लड
जो तं घरड रणगणे जूरड
इच्छियदेसे समउ महाजस
देवाविय घोसण पुरि देवें
नियपुराउ सवलेण सकसे
खघात्रारु दूरि परिसेसिवि
आणिवि मुत्तु पुरीसु मइदहँ
सीहरहेण समेउ महाहवु
अतरि पइसरेवि गुरुसीसे
सामिएण जइ सइँ जुज्झिज्जइ

थिउ अत्थाणि महीवइ वोल्लइ ।
महु माणसहो मणोरहु पूरइ ।
नियसुय देमि तासु जीवजस ।
आयन्नेवि वत्त वसुएवे ।
गपि समुद्विजयआएसे । ५
सत्यवाह्वेसे तहिँ पइसिवि ।
सयल सहाविवि तुरयगयदहँ ।
किउ दावियविविहाउहलाहवु ।
मग्गिउ पेसणु पणमियसीसे ।
तो भणु किंकरेहिँ किं किज्जइ । १०

घत्ता—ता वसुएवे कमु रणे मोक्कल्लिउ तेण वि उट्टुद्धउ ।
जुज्झिवि चिरु निप्फट्टु किउ भूप देवि पडिवक्खु निबद्धउ ॥१३॥

१४

आणिवि रायगेहु सखेवे
तेण वि भणित्त जायसतोसे
भणइ अणगु देव तिहुयणथुय
ता पुहईसरेण सो पुच्छिउ
कहइ कसु कल्लालि किसोयरि
अच्छण ताण कसु हउँ जायउ
ता राएण पुरिस सपेसिय
पुच्छिउ कहिउ ताण जीवाविउ
विप्पियगारएण सताविय
नीसारिउ निव्विन्नण गेहहो

अप्पिउ चक्कवइहे वसुएवे ।
लइ सुय समउ समीहियदेसे ।
जिउ रिउ एणायहो ढोयहि सुय ।
को तुहुँ कहो सुउ कहि कहिँअच्छिउ ।
कोसविहिँ नामे मजोयरि । ५
सिरि वसुएवसीसु विक्खायउ ।
आगय सा लएवि मजूसिय ।
एहु एत्थ मइँ सामिय पाविउ ।
बहुवाराउ एण दडाविय ।
अह को करइ तत्ति दुम्मेहहो । १०

घत्ता—ता मजूस महीसरेण जोइय दिट्ठु पत्तु लिहियक्खरु ।
नामकिउ अगुत्थलउ अवरु वि कबलु रयणंचिउ वरु ॥१४॥

१५

जाणिवि उग्गसेणसुउ दिन्नउ
विहिउ त्रिवाहु विसेसविराइउ
मग्गिय महर तेण नियवसे
उग्गसेणु सगामि धरेप्पिणु
पवलिहे कारागारि निरुत्तउ
तायनिवधणि दूमियचित्तउ
पव्वइयउ जिणसमण पहाणउ
ता सुहेण तहिँ रज्जु करते

राएँ कन्नारयणु रवन्नउ ।
मग्गहि देसु भणित्त जामाइउ ।
वेढिय महर चउदिसु कसे ।
सहुँ पोमावईण वधेप्पिणु ।
अप्पणु पुणु थिउ रज्जि सइत्तउ । ५
कसहु लहुउ भाइ अइमुत्तउ ।
हुउ अट्ठगनिमित्तवियाणउ ।
कसे किउ उवयारु सरते ।

घत्ता—आणाविउ वसुएवगुरु पणवेप्पिणु सम्माणु करेप्पिणु ।
अवभत्थिउ पडिवन्न सस देवय नामे परिणावेप्पिणु ॥१५॥ १०

१६

रज्जु विलासभोयसुहसारउ
पइँ विणु सग्गेण वि किं किज्जइ

सामिय एहु पसाउ तुहारउ ।
मज्झ मणहो उव्वेउ जि दिज्जइ ।

तेण पसाउ करेवि म गच्छह
 ता तत्येव तामु उवरोहे
 देवइ नवमालडमालाभुय
 उच्छउ कसे जणमणरोहउ
 मिलियउ महिलायणु गाइज्जइ
 एत्यंतरि चरियहे पइसतउ
 सहू वणियायणेण कीलावस
 आवहि देवर रजियजणवउ
 एव भणतिप्र वहु खब्भानिउ

किंकरकारुणेण इहच्छह ।
 थिउ वसुएउ पयासियमोहे ।
 एक्कहिँ वासरि पुप्फवई हुय । ५
 विरइउ नामे पुप्फविरोहउ ।
 वज्जइ वद्धावणउ नडिज्जइ ।
 साहु निहालेविणु अइमुत्तउ ।
 पथु निरुभिवि थिय जीवजस ।
 पेच्छहि नियससाहे पुप्फुच्छउ । १०
 रिसि रोसाणलेण पज्जालिउ ।

घत्ता—जो एयर्हे रयसलर्हे सुउ होसइ जणमणनयणपियारउ ।

किं नच्चहि हलि तेण रणे मारेवउ भत्तारु तुहारउ ॥१६॥

१७

मुणिवयणेण एण मणु सल्लिउ
 रूसिवि वयणु पयपिउ दारुणु
 पुणु रिसिणुत्तउ रज्जु लएवउ
 आयन्नेप्पणु एउ नियत्तिय
 कसहो कहिउ सो वि चिंतावरु
 मुणिणा दिट्ठु णवर देवइयहे
 सो महु वइरि तेण मारेवउ
 ता वसुएवे पुव्वविडन्नउ
 गउ नियभवणु कमु परिओसिउ

पुहइहे पडलु ताणु न घल्लिउ ।
 पायहिँ मलिउ वत्थु कुसुमारुणु ।
 तुज्जु जणेरु वि तेण हणेवउ ।
 गय जीवजस गेहु रयतिय ।
 गउ वसुएवपासि मग्गिउ वरु । ५
 जो होसइ सुउ सुरगयगइयहे ।
 एत्थु न तुम्हईँ खेउ करेवउ ।
 वरु उवरोहवसे पडिवन्नउ ।
 देवईप्र वल्लहु अक्कोसिउ ।

घत्ता—कवणु दुक्खु जह जइ न हुउ महु एक्कहे नदणु गुणवतउ । १०

वहुयउ नरखेयरसुयउ वहुयउ अत्थि जासु वहुपुत्तउ ॥१७॥

१८

मई पुणु गव्भभरेण किलतिप्र
 मेल्लि देव तवयरणहो गच्छमि
 जा तुह गइ सा मज्जु वि मुदरि
 एम भर्णाप्पणु पिय साहारिय
 सहू देवइप्र देवि अन्न जि दिणि

दुक्खु सहेवउ नवर वियतिप्र ।
 जेण न पुत्तहँ दुहु सपेच्छमि ।
 कि पि म करहि विसाउ किसोयरि ।
 वसुएवेण रयति निवारिय ।
 पुच्छिउ तेण साहु तवदिणमणि । ५

प्ररमेसर महुरेसहो मई वरु
सो देवइजायाई हणेसइ
ता तहिँ देवईप्र फलसारहो
तुट्टिवि विहिवसेण ससिसयणहो
एक्कु अबु घरणीयलु, पाविउ
भणिउ तिन्नि जुयलई देवइयहे
जायमेत्त ते जणियाणत्थहो
इदाएसे नइगमु नेसइ

दिन्नु केम किज्जइ अलियक्खरु ।
किह तुम्हारउ वयणु हवेसइ ।
साह घरेवि मुक्क साहारहो ।
अवयलुवि एकक गय गयणहो ।
सो जि निमित्तु मुणिदे भाविउ । १०
होसहिँ तणयहँ सुदरमइयहे ।
करिवि पवचु हरेसइ^१ हत्थहो ।
भदिलपुरि जिणवइ पालेसइ ।

घत्ता—वरिसई अट्ट वसेवि घरे चरमदेहु तवयरणु लएसइ ।

उप्पाएवि केवलु विमलु जगगुरु जगसिहरहो जाएसइ ॥१८॥ १५

१९

जो सत्तमु सुउ उप्पज्जेसइ
पच्छन्नउ गोउलि वड्ढेसइ
रयणनिहाणु रज्जु पावेसइ
आणदियमणु एउ सुणेप्पिणु
काले जते हुय देवइयहे
मायामयई समप्पिवि कसहो
भदिलपुरवरम्मि सुहदिट्ठिहे
भज्जहे जिणमइनामहे विमलहे
नेवि समप्पिय ताए निहालिय
पुणु सत्तमउ सत्तमासहिँ सुउ

नवमउ वासुएउ सो होसइ ।
महुराहिवु जरसिधु वहेसइ ।
तुह तणयहँ एक्कु वि न मरेसइ ।
गउ वसुएउ साहु पणवेप्पिणु ।
पुत्तहँ जुयल तिन्नि सुहमइयहे । ५
रक्खिय नइगमेण विद्धसहो ।
सेट्ठिहे निज्झाइयपरमेट्ठिहे ।
तिन्नि वार हुयमुयसुयजुयलहे ।
निय सिसु मन्निवि नेहे पालिय ।
हुउ वसुएवहो बहुलक्खणजुउ । १०

घत्ता—वासुएउ बहुगुणनिलउ अतुलपरक्कमु असुरपरायणु ।

भुवणत्तयविक्खायजसु लच्छिनाहु नामे नारायणु ॥१९॥

२०

भद्वयहो किण्हड्डुमिरत्तिहे
भत्ति जणेरु लेवि नीसरियउ
विहड्डिय पवलि वालपयफसे
अग्गए घवलवसहु होएप्पिणु

अणवरयबुद्धन्नदिब्भत्तिहे^१ ।
वलएवेण छत्तु तहो धरियउ ।
देउ को वि हरिपुन्नविसेसे ।
गउ जमुणाजलि मग्गु करेप्पिणु ।

१८ १ हवेसइ ।

२० १^१ दिज्झिभत्तिहे ।

ते तेण जि पहेण जाएप्पिणु
 ता तहिँ धीय लएवि महाडउ
 गरहिय देवि तेण मग्गिय मइँ
 तुहुँ जि एह लड एम भणेप्पिणु
 ता वसुएवे भणिउ म गच्छहि
 तेण वियाणिउ देवि पयपड
 किं रुटो सि वीर सुहयारउ
 एउ सुणेप्पिणु देवि नवेप्पिणु

थिय दुग्गायलम्मि पडसेप्पिणु । ५
 नदु नाम गोउलिउ पराइउ ।
 नदणु कन्न काइँ दिन्नी पइँ ।
 जाइ जाम किर वालं घिवेप्पिणु ।
 नदणु नंद लेहि आगच्छहि ।
 पल्लट्टेवि आउ विभियमइ । १०
 लइ मइँ एहु दिन्नु तुह दारउ ।
 गयउ नंदु घर नदणु लेप्पिणु ।

घत्ता—एत्तहिँ लेवि जसोयमुय गय वसुएवहलाउह भवणहो ।

विगयविहावरि किंकरहिँ कहिय वत्त जीवजसरमणहो ॥२०॥

२१

देवदेव वसुएवहो दइयहे
 ता तहिँ एप्पिणु पुरसरहसे
 चूरिउ नासावमु हयासे
 घल्लिय भूमीहरि रक्खाविय
 उवसामिय अज्जग्र गुणवइयग्र
 सहँ सघेण खवती कलिमलु
 तहिँ दुग्गा विज्झा भिल्ला इव
 थिय भएण तणुचाउ करेप्पिणु
 थिय पडिमाजोएण विराइय
 जइ परमेसरि लाहु लहेसहुँ
 एम्ब भणेप्पिणु गय पणवेप्पिणु

हुय सुय तुह वइरिणि देवइयहे ।
 महिल भणेवि न मारिय कसे ।
 चप्पिवि किय कुव्वडिय विसेसे ।
 काले जते जोव्वणु पाविय ।
 हुय तवसिणि सजुय सुहमइयग्र । ५
 गय विहरंती सा विज्झायलु ।
 घाडग्र एत निएप्पिणु निक्किव ।
 संघु वि गउ अग्गग्र वोलेप्पिणु ।
 देवि भणेवि तेहिँ पोमाइय ।
 तो अम्हइँ तुह पुज्ज करेसहुँ । १०
 जामावति सत्थु ल्हूसेप्पिणु ।

घत्ता—ता खट्ठी वग्घेण वणे गय सग्गहो करकमलगुलियउ ।

उव्वरियउ तहे तेहिँ तहिँ दिट्टुउ रहिरवारिविच्छुलियउ ॥२१॥

२२

भत्तिभरेण पयाहिण देप्पिणु
 गलिवि गयाउ जाम ता कट्टे
 दुग्गविक्कभिल्लेहि पवत्तिय
 तप्पहूइ अज्जवि जणु जाणइ

नवियउ ताउ तेहिँ पुज्जेप्पिणु ।
 विरइवि पुज्जियाउ विणु सट्टे ।
 दुग्ग विक्कवासिणि ते वुत्तिय ।
 देवि भणेवि मूढ सम्माणइ ।

एत्तहे कण्हु पवड्डुण गोउलि
सकिएण नेमित्तिउ पुच्छिउ
कहिउ तुहारउ वइरि वियक्खणु
तेणुप्पाय हवति निरंतर

दुन्निमित्त हुय कंसहो राउलि । ५
तेण वि तहो भवियव्वु नियच्छिउ ।
वट्टइ नदगोट्टि सुहलक्खणु ।
जं जाणहि त करहि नरेसर ।

घत्ता—तो चिरभव देवीउ तहिँ चितियमेत्तियाउ संपत्तउ ।

वुत्तउ मारहु वइरि महु अच्छइ नदगोट्टि वड्डंतउ ॥२२॥ १०

२३

महुसूयणु अमुणंत महाइय
सा बाले सोसिवि सताविय
घाविउ सुसुयतु नहि रिट्टउ
अन्नहिँ वासरि पवलवलाले
पायपहारें चूरिउ सदणु
वसहु जुवाणे होंतउ घोडउ
कालु व नत्थिवि कालिउ रम्मइँ
निप्रवि वारिविट्ठिण पीडिउ जणु
करमुट्ठिण चाणूरु वियारिउ
उग्गसेणु तहिँ रज्जि थवेप्पिणु
रयणनिहाणवतु परमेसरु

कंसाएसे पूयण धाइय ।
नट्ट भएण महावइ पाविय ।
तोडिउ पेहुणु कहव पणट्टउ ।
पुणु जमलज्जुण मोडिय वालें ।
सथुउ जणेहिँ जसोयहे नदणु । ५
निन्नासिउ करेवि गलमोडउ ।
खुडियइँ कार्लिदीदहपोमइँ ।
उच्चाइउ भुएहिँ गोवद्धणु ।
पुणु कंसासुरु सगरि मारिउ ।
पुणु दिणेहिँ जरसिंधु वहेप्पिणु । १०
हुउ हरि भरहि अद्धक्केसरु ।

घत्ता—सिरिचंद्रुज्जलु तवु वि जणे करिवि नियाणु वसिट्ठु विणट्टउ ।

उग्गसेणसुउ कसु हुउ हउ हरिणा गउ नरए पइट्टउ ॥२३॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।
कोहनियाणकहाए वायालीसो इमो सधी ॥

॥ सधि ४२ ॥

संधि ४३

१

मेल्लह माणु अणत्थु दूसहदुक्खनिसेणिउ ।
लच्छीमइ माणेण पत्ताणेयकुजोणिउ ॥

मगहाविसयम्मि मणोहिरामि
दिउ सोमदेउ नामे पसिद्धु
सिगाररूव विहवे मरट्ट
एक्काहिँ दियहम्मि तिगुत्तिगुत्तु
पक्खोववासि गोउरि पडट्ठु
उट्टेवि खडाविउ करिवि भत्ति
गउ कत्थइ कज्जवसेण नाहु
अप्पउ मडती अगणाउ
कहिँ आयउ एम भणेवि पाव
गउ मुणि तक्खणि तहि तणउ देहु
नीसारिय को वि न करइ तत्ति

वहुलच्छिसमिद्धु लच्छिगामि ।
निवसइ वियड्ढु सपयसमिद्धु ।
तहो गेहिणि लच्छीमइ तरट्ट । ५
मज्झत्थु महत्थु समाहिगुत्तु ।
रिसि सोमदेवविप्पेण दिट्ठु ।
मुणि भुजावेज्जसु भणिवि पत्ति ।
लच्छीमई वि पेच्छेवि साहु ।
उट्टिय न मणा वि नियासणाउ । १०
थिय महरिसि अक्कोसिवि सगाव ।
कोट्टेण सडिउ जणजणियनेहु ।
गय पइसिवि जलणि कयतथत्ति ।

घत्ता—सत्थावत्थहो सव्वु करइ लोउ परमायरु ।

आवडकालि न कोइ सुहि भत्तारु न भायरु ॥१॥ १५

२

परियट्टहो घरि तत्थेव गामि
विणु धन्ने विसहियभुक्खदुक्ख
पुणु सुणही वे वाराउ जाय
पुणु लाडविसु सा ललियभासि
अवलयगामि मच्छधियासु
दुग्गधिणि दुव्वन्निणि दुरूव
नइयडि गधहो निव्विन्नएहिँ
तत्थच्छइ मुक्क कुडुवएण
एक्काहिँ दिणे साहु समाहिगुत्तु

हुय खरि पियगेहासन्नधामि ।
मुय हूई सूयरि असुइभवक्ख ।
गय जमउरु वणदवदडुकाय ।
रेवातडि भरुयच्छहो सयासि ।
तिव्वमयहो मडूकीपियासु । ५
काणिय नामेणुप्पन्न धूव ।
कय कुट्टिय नेप्पिणु थविय तेहिँ ।
उत्तारइ जणु कोट्टे वएण ।
विहरतु पराइउ नाणनेत्तु ।

सिसिरहो भरि निसि समयम्मि तीप्र
आणेप्पिणु तणु उण्हविय' दिन्नु

अच्छतहो तहो करुणामईप्र । १०
मुणिविज्जावच्चे पाउ भिन्नु ।

घत्ता—निमुणेवि घम्मु पहाप्र पणवेप्पिणु परमेसरु ।
आसि कहिँ मि मई तुम्ह दिट्ठा भणिउ मुणीसरु ॥२॥

३

ता लच्छिगामाइ विततु नीसेसु
मुमरेवि चिरकम्मु निदेवि अप्पाणु
हुय खुट्टिया खडचारित्तपरिणाम
विहरति सोपारपुरु समउँ अज्जाहि
तहिँ ताहिँ नाइल्लसावयसयासम्मि
एयतरो नाम उववासविहि चारु
सनियाण परमेट्टि चरणाई सरिऊण
भुजेवि सोक्खाई सपयमहल्लाई
एत्थाय कुंडिणपुरे भुवणविक्खाय
मारेवि सिमुपालु रणे सावलेद्रेण
उप्पन्नु पज्जुन्नु तेल्लोक्कपडिमल्लु

कहिओ मुणिदेण निमुणेवि सविसेसु ।
पणवेवि अन्नाणतमनासु मुणिभाणु ।
सिक्खति सत्थाई गुणयाई गुणधाम ।
सपत्त चित्तवियनिरवज्जवेज्जाहि ।
मुक्का जिणिदालए दुरियमासम्मि । ५
काऊण दोदह समा कजियाहारु ।
हुय अच्चुदिदस्स महएवि मरिऊण ।
निवसेवि तहिँ पचपचास पल्लाई ।
रुप्परहरायस्स सुय र्पिणी जाय ।
परिणिय विहूईप्र गोविददेवेण । १०
काऊण तवचरणु निहणेवि मणसल्लु ।

घत्ता—मुय सन्नासु करेवि गय निम्मलमइ सग्गहो ।
आवेवि होइवि राउ जाएसइ अपवग्गहो ॥३॥

४

सभूदो वि निदाणेण देवसोक्खाई चक्किसोक्खाइ ।
पत्तो तत्तो य चुदो उववन्नो नरयवासग्गि ॥ [भ० आ० १२८२]

सभूदो वि न केवल वनिष्ठादय सभूतनामापि कुटुंबिकपुत्र पत्तो प्राप्त. । कानि ?
देवसौल्यानि चक्रवर्तिमौल्यानि च । केन ? निदानेन । तत्तो य चुदो तस्मादवतीर्णं सन् उववन्नो
उत्पन्न । क्व ? नरयवासम्मि नरकस्थाने । ५

वाणारसिहि कुडुवियासु नामेण सुसेणहो
चित्तु पढमु सभूउ वीउ विन्नाणकन्वारइ
जाएप्पिणु परदेसि देसभासासु वियक्खण
जणु रंजति लहति निच्चु धणु धन्नु सुवन्नउ
तहिँ सभूउ नडतु इत्थिवेसे गायतउ
२. १ उल्लविए ।

गधारिहि सजाय पुत्त कतहो धणहीणहो ।
रुववत नीसेससत्थनिम्मायमहामइ ।
ते वभणवेसेण वे वि होएप्पिणु नच्चण ।
एक्कहिँ दिणि गय रायगेहु पुरु सिरिसंपुन्नउ ।
मणि वसुसम्मु पुरोहु नारि मन्निवि आसत्तउ ।

पुणु जाणेप्पिणु पुरिसु एहु नउ नारि रवन्नी तेण जि नेहे वहिणि तेण सिरिमइ तहो दिन्नी ।
 विप्प न होत्ति परपराग्र पच्छा परियाणिय लज्जवि^१ लोयहो कुसुमनयरु गय ते अवमाणिय
 सुणिवि धम्मु गुरुदत्तपाय पणवेवि दियंवर हुय वइरायवसेण वे वि वधव कयसंवर ।
 काले सयलागमपवीण होएवि महाइय महि विहरंता रायगेहु पुरु पुणु सप्राइय ।
 भिक्खहं कयमासोववासु सभूउ पड्डुउ पेक्खेप्पिणु वसुसम्मु नयरमज्झम्मि पणट्टउ ।
 नासतहो तहो वभणहो अणुमग्गे लग्गउ पेच्छवि रोसे रिसिहि तणुहे तेयग्गि विणिग्गउ
 पट्टणु दुव्वारेण तेण चउदिसहिं पलित्तउ परियाणिवि वित्तु चित्तु तहिं झत्ति पहुत्तउ ।

घत्ता—तेणुवसामिउ भाइ जलणु जलतुल्हाविउ ।

मुणिमाहप्पु निएवि नट्ठु विप्पु भयभाविउ ॥४॥

५

गयकालि का वि काणणि थियाहं
 सुविहूइपरयणिग्र निच्चमेव
 त पेक्खेवि कयकोऊहलेण
 वद्धउ नियाणु सपन्नभोउ
 इय भासेवि सन्नासे मरेवि
 तत्तो चुउ इह भरहतराले
 कपिल्लनयरं सपयहु राउ
 नामेण पसिद्धउ वभदत्तु
 गुणनिहि वारहमउ चक्कवट्टि
 वसुसम्मु वि संसारग्र भमेवि
 सो भोयणसवधेण तेण
 हुउ वेतरु दीवतरे रउद्दु
 चक्कवइ करेवि पवचु तेत्थु

वणदेवि ताहं तववहुपियाहं ।
 चक्केसरवेसे करइ सेव ।
 सभूइग्र पत्थियतवफलेण ।
 आगामं जम्मं महु एउ होउ ।
 हुउ पढमसग्गे सुरु जिणु सरेवि । ५
 पचालविसग्र संपयविसाले ।
 महएविहे तहो सो सूणु जाउ ।
 वहुलक्खणलक्खिउ चारुगत्तु ।
 परमेसरु दुज्जणमइयवट्टि ।
 सूयारु हूउ तहो तणउ एवि । १०
 माराविउ रोसे निट्टएण ।
 परिभमिउ चउदिसु जहिं समुद्दु ।
 निउ निहउ तेण मुमरेवि अणत्थु ।

घत्ता—एउ मुणेवि नियाणु तिविहु वि दूरे विवज्जह ।

दुप्परिणामवसेण मा दुग्गइ आवज्जह ॥५॥ १५

६

मायासल्लं ह्यवोहिलाह
 नामेण कुमुमदसणज्जियासि
 आयन्नह अज्जियवत्तनामि
 पुरि पुप्फयतचूलाहिहाणु
 ४. १ रज्जवि ।

दुग्गधवयण दुज्जणसणाह ।
 हुय सायरदत्तहो तणिय दासि ।
 इह भारहवसि मणोहिरामि ।
 निवसइ नरिंदु गुणमणिनिहाणु ।

मुहकमलपहाह्यपुष्पयत
एक्कहिँ दिणि तहिँ देवगुरुनामु
तहो पासि धम्मु निसुणेवि राउ
सजइय पुष्पयता वि देवि
कालेण पुष्पयताइचूलु
कुलजाईसरियमएण मूढ
सा पुष्पयत मलवज्जियाहँ
अहवा जइ तो मायाइ नवइ

महएवि तासु सइ पुष्पयत । ५
आयउ ससघु रिसि रिद्धिधामु ।
पव्वइउ महामइ मुण्णवि राउ ।
सहु धाइपहुय पावज्ज लेवि ।
गउ मोक्खहो मुणि हयमोहमूलु ।
पयइए पवचभावाहिरूढ । १०
न करइ पणामु अवरज्जियाहँ ।
तउ एव कुणती कालु खवइ ।

घत्ता—आमायइँ अवरउ अप्पाणउ जे पससइ ।

वयणु सरीरपएस दव्वविसेसहिँ वासइ ॥६॥

७

सिक्खवइ महत्तरि पुत्ति रम्मि
जुज्जइ न देहसक्कारकम्मु^१
सा^२ कहइ सहावे मज्झ देहु
इय मायाभावे तउ करेवि
तत्तो चुय चपापुरवरम्मि
दासिहे धणयत्तहे तणिय धूय
वरु पुत्तिहे एक्कहिँ दियहे तेण
उवइट्टउ तेणावणे थियम्मि
दुग्गवमुहीहे सुयधु वत्तु
ता तहिँ भमतु वनुएउ आउ
असुरहिमुही वि ह्य सुरहिमुहिय

तवसिणियहँ थियहँ जिणिदधम्मि ।
हले रायवासणासवइ कम्मु ।
भयवइ रूवड्हु सुयधु एहु ।
हुय पढमकप्पे अच्छर मरेवि ।
वणिसायरदत्तहो मदिरम्मि । ५
दुग्गधवयण हूई सरूय ।
पुच्छिउ नेमित्तिउ वणिवरेण ।
विढवेसहे दम्महँ^३ लक्खु जम्मि ।
होसइ सो धणमित्ताहे कतु ।
वणियहो पुव्वुत्तउ लाहु जाउ । १०
सम्माणेवि वणिणा दिन्न दुहिय ।

घत्ता—एउ वियार्णेवि निच्च मा अप्पाणु विडवह ।

मेल्लेवि मायाभाउ अज्जवत्तु अवलवह ॥७॥

८

मुणिवच्छलो वि निम्मक्ककामु
मिच्छत्तमल्लदोसेण दमिउ
पचसयधणुन्नयदेहिदेहे
पुक्खलवइ देसि महावणम्मि

भरहेसरपुत्तु मरीइनामु ।
पियधम्मु वि चिरु ससारि भमिउ ।
दीवम्मि पढमे पुव्वे विदेहे ।
सन्नए पसिद्धि महुरावणम्मि ।

११

तिह कुणह जेम जीवड कुमार
ता सोममगमनागेण तेदपु
परमेसर गारुडसत्ये भणिउ
लगड खगिदु सयमेव जड वि
त सुणोवे पाणिपहृणियपिरेण
मडै जाणिउ तुम्हडै महु नुयानु
समिमम्मु भणड आउक्कयम्मि
नड तो वि करमि सामिय उवाउ

फेडह तहु गरुयउ दुक्खभार ।
पुहईनु भणिउ नुयसोयधत्थु ।
तिहि वारु वेल्लु मडै सयलु मुणिउ ।
जीवड न कुमार नरिद तड वि ।
राएण भणिउ गग्गिरगिरेण । ५
आवडए हवेसह गुणजुयासु ।
किउ किं पि न लगड डह जयम्मि ।
दक्खालमि तुह मतहो पहाउ ।

घत्ता—एम भणेप्पिणु तेण नायाडडि पयासिय ।

आणिय तक्खणे तत्थ सयल सप्प पुरवासिय ॥११॥

१०

१२

किउ जेण कुमरजीवियहो अतु
निमृणेवि एउ आणाए तासु
नवरेवकु तत्थ थिउ सप्पपोउ
गारुडिउ भणड विससकुलाइँ
गघणकुलु उवसहरइ गरलु
मरणेण कुलक्कमु मुयइ णेव
तेणेहु अगधणगोत्ति जाउ
नायरिसड खेडु न मतु गणइ

सो अच्छउ दुज्जणु डयर जतु ।
गय निरवसेस नियनियनिवानु ।
त पेच्छिवि विभिउ सव्वु लोउ ।
निव वेत्ति होति उरयहँ कुलाइँ ।
न कयाइ अगधणु माणवहलु । ५
त जाइवतु वट्टिमउ देव ।
मुच्चउ नरिद खलु जाउ जाउ ।
अहिमाणि न कुलमज्जाय हणइ ।

घत्ता—किं बहुणा भणिएण रुसेवि राएँ भासिउ ।

ताम जाए कहिँ एहु जाम न विमु आगरिसिउ ॥१२॥

१०

१३

ता गारुडिएण धरेवि भाणु
आगरिमहि विमु अहवा महते
अम्हाण एहु निदियपराए
उगिलिउ न केण वि गिलिउ गरलु
वर मरणु न दुज्जसकरणु जुत्तु
इय चित्तेवि हुयवहे पडसरेवि

फणि भणिउ तेण गरुयाहिमाणु ।
पडसरहि जलणे धगधगधगते ।
कमु आयउ गोत्तपरपराए ।
मइलिज्जइ हा कुलु केम विमलु ।
किं मुच्चए मच्चए हीणसत्तु । ५
गउ नायराउ जमपुर मरेवि ।

निह निनिगण वि मज्जाय तेण
 निह माहया दि उन्नमकुलेण
 गुण देउ करेयिणु नविण चत्त
 प्ररहनुवाग्निग मा पइज्ज

न मणे वि हु भग्गिय उरयरेण ।
 अहिमाणधणेण जनुज्जलेण ।
 इंदिय कसाय सतवियसत्त ।
 मरणे वि मणोज्ज न भंजणिज्ज । १०

पत्ता—करणकसायनिवित्ति जो सपइज्ज न भजइ ।

अवनमेव सो साहु सिद्धिवहूमणु रजइ ॥१३॥

१४

गन्धु अउज्जहं गधमित्तु
 अन्नाउवि विननुमुमाउं पत्तु
 मन्नादि परज्जियसत्तुणेणु
 क्को विनि दवदग्गणनिउत्त
 जयमित्तु दुउज्जउ गधमित्तु
 बधेपिण नेट्टहो गयपट्टु
 पणवेपिणु गानरमेणु दिवा
 कावनेरेण डा तिउ प्रनउज्जु
 नीसारेरि विणु जयाउमित्तु

घाणिदियकयवसवत्तिवित्तु ।
 पचत्तु नरए गउ धम्मचत्तु ।
 कोसलपुरे राणउ विजयसेणु ।
 विजयामहएविए जाय पुत्त ।
 एकहिं दिणे राउ विरत्तचित्तु । ५
 लहुयहो सुयामु जुवरायपट्टु ।
 नेपिणु अठभनिय परत्तसिक्ख ।
 जुवराए चप्पेवि लडउ रज्जु ।
 सइ रज्जि परिट्टिउ गधमित्तु ।

पत्ता—णियपन्नियारनमेउ दुम्मणु नयरासन्नए ।

निउ आएवि जयमित्तु दुष्पाणमि निरिरन्नए ॥१४॥

१०

१५

गणि यउ उ निन्नु निग्गभाउ
 गण विउा विग्गो एवपउत्त
 एणे गणि गउउ गधमित्तु
 प सो विग्गो एवपउत्त
 गण ॥ विग्गो एवपउत्त गधनु
 गउ विग्गो एवपउत्त गधनु
 गउ विग्गो एवपउत्त गधनु
 गउ विग्गो एवपउत्त गधनु
 गउ विग्गो एवपउत्त गधनु
 गउ विग्गो एवपउत्त गधनु
 गउ विग्गो एवपउत्त गधनु

वि करमि हगमि किह दुहुभाउ ।
 मणेउर नर कि करउ सत्तु ।
 दिनाणु मुट्टु आगन्नचिन् ।
 दिणु न्याणि रमउ ण कामएउ ।
 जउतीउहं गउ गधुगरनु । ५
 उअरेण सद्धेपिणु मुट्टि नाम ।
 यउरेण विग्गामणउउ अग्गिहं ।
 विग्गउ मुट्टुअग्गिहं विग्गामि ।
 पउरेण गउउ मग्गिहं भग्गिहं ।
 विग्गउ गउउ विग्गामिहं । १०

घत्ता—गधमित्तु पायालु गउ घाणहो आसत्तउ ।

सो सुहि इह परलोए जेण विसउ परिचत्तउ ॥१५॥

१६

पुरि पाडलिउत्तए चारुगत्त
पचालगीयसरसत्तचित्त
पाडलिपुरि साहियसव्वसत्तु
तहो वेस वियक्खण चारुगत्त
सा सुदरि सयलकलापवीण
गधव्वे जो मइँ जिणइ कोड
कज्जेण एण अच्छइ कुमारि
तहिँ सुणिवि पसिद्धि समुल्लसत्ति
पर को वि न गयगामिणिहे ताहे
निज्जिय गधव्वगुणेण मव्व

वेसा पसिद्ध गधव्वदत्त ।
पासायहो चुय पचत्तु पत्त ।
नरनाहु अत्थि गधव्वदत्तु ।
गुणिवणियगुण गधव्वदत्त ।
सद्देण नाइँ भसकेउवीण । ५
सो णाहु कयावि न अन्नु होड ।
पयणियजुवाणजणविरहमारि ।
नाणापयार वर एति जति ।
पुज्जइ वाएण अणोवमाहे ।
सजाय णिरुत्तर विगयगव्व । १०

घत्ता—एत्तहे गधव्वाइविज्जाविहवसमिद्धउ ।

पोयणपुरि पचालु अत्थि सूरि सुपसिद्धउ ॥१६॥

१७

तहो सीसहिँ जाएवि कहिय वत्त
आवेप्पिणु रजियजणमणम्मि
जइ नियहे कोइ उप्परिउ एतु
सिक्खविवि एककु तहिँ सीसु पुत्तु
सो कज्जे केण वि वियलु जाउ
एत्थतरि आयन्नेवि वत्त
तवोलविलेवणनिवसणाइँ
तहो कज्जे पुज्जजणियाणुराय
उदतुरु लालालव मुयंतु
सहसत्ति दिट्ठु सुललियभुयाए
पहु सो पचालु पससणिज्जु

तेण वि तहिँ तक्खणि विहिय जत्त ।
थिउ पुरवाहिरि नदणवणम्मि ।
तो जाणावेज्जसु महु तुरुतु ।
पहसमिउ असोयहो मूलै सुत्तु ।
गय अवर पलोयहुँ पुरपहाउ । ५
सहुँ नियसहीहिँ गधव्वदत्त ।
कुसुमाइँ विचित्तइँ भूसणाइँ ।
गय गेण्हवि कतिफुरतकाय ।
घोरतु पसारियमुहु सुयतु ।
तामायउ पुच्छिउ चट्ठु ताए । १०
गधव्वसूरि जणजणियचोज्जु ।

घत्ता—अत्थि पयासिउ तेण आयन्निवि दूमियमण ।

गय वइरायहो वाल आलीइयभीमाणण ॥१७॥

१८

विण्णियदंमणि मणि जाउ दुक्खु
 हुंहुमकप्परहिं समलहेवि
 तंबोनु मूने तहो तहिं थवेवि
 एयम्मि नाम वियगानवगणि
 तुह तांम मि न मुहि हे अमोय
 एरयतरि उट्टिवि सीनु तेण
 केणेह विअंणजणियमोउ
 ता कट्ट उट्टु थो एकक ताय
 कट्टे किचि वि अन्नामत्तु जाउ
 हा देवि सरामउ भीमणम्मि
 ता एत्तु कि न भणिऊण एहु

परिहाविवि जमलि असोयरुक्खु ।
 मणहरहिं कुमुमदामहिं महेवि ।
 काऊण पयाहिण पय नवेवि ।
 थिय सरसइ देवि असोमनयणि ।
 गय एम भणेप्पिणु सा ससोय । ५
 परिपुच्छिउ विभियमाणसेण ।
 पुज्जिउ परिहाविउ सुय असोउ ।
 सुरकत्त व सग्गहो एत्थु आय ।
 पडं निण्वि नुयतउ वियलकाउ ।
 थिय जा एयम्मि दियाणणम्मि । १०
 पुज्जेप्पिणु ससहिय गय सगेहु ।

थत्ता—ता वट्टुउ गुरु तानु पडं पाविट्टु न जोडय ।

निच्छउ सा गधव्वदत्त अम्मिह विग्गोइय ॥१८॥

१९

उव भासोवि अट्टिमाणाहण
 गृणयता नमउ महायणेण
 परिपत्तविट्टुमयवेनणेण
 मग्गिउ वेयाविउ पन्थिवेण
 जग्गिउ वेयाविउ करयन्नि करेवि
 मग्गिउ विह टाणु करेवि किपि
 हा- रर पात्तायलो पट्टिण महिं
 मत्ता अट्टिण पात्तायलो

जाएप्पिणु राउनु तक्खणेण ।
 रजेप्पिणु राणउ नियगुणेण ।
 तहिं भवणि निसत्तु निवामु तेण ।
 तेण वि तहिं थाण्वि निक्किवेण ।
 मज्जेवि तत्ति अयगुण हरेवि । ५
 रयभिमन्न जिह न चनिय पय' पि ।
 सा वयणि पट्टु हयंतअहिहे ।
 नित्तिज्जउ विमउ मया वि हेउ ।

पत्ता—माणममंमयउट्टु, भीमु राउ कपिणाण ।

कारिउ वग्गुणेण नियज्जउ नरए महत्ताण ॥१९॥

१०

२०

उव भासोवि अट्टिमाणाहण
 गृणयता नमउ महायणेण
 परिपत्तविट्टुमयवेनणेण
 मग्गिउ वेयाविउ पन्थिवेण
 जग्गिउ वेयाविउ करयन्नि करेवि
 मग्गिउ विह टाणु करेवि किपि
 हा- रर पात्तायलो पट्टिण महिं
 मत्ता अट्टिण पात्तायलो

कपिणवदयन मंदिनिदिनिनि ।
 नरनाह अन्नि तापेण भीमु ।
 जग्गिउ जग्गु जीवनाउ ।
 नग्गिउ ता नि जण तहिं पुरम्मि ।

इय धम्मपवत्तणु जगपयामु
 नंदीसरं पयणियपाववंध
 मूयारे त अलहतएण
 जोयते माणुममासु लद्धु
 तं वट्टिउ भायणं लहेवि साउ
 पुच्छिउ सो इउ कहि कवणु ममु

सताणकमेण वि आउ तामु । ५
 हुय निवहो कयाड अभक्खसद्ध ।
 गंपिणु मसाणं भयभंतएण ।
 आणंवि सभाररसेण रद्धु ।
 परिओसिउ वगरक्खनु वगाउ ।
 जनु एरिसु रमु पावियपससु । १०

धत्ता—केम वि कहइ न जाम ता सो सक मुयाविउ ।

देप्पिणु अभयपदाणु भोयणकारु कहाविउ ॥२०॥

२१

जामन्नु न पाविउ भुयणसेव
 ता पहुणा जीहिदियवसेण
 अहो [अहुणा] लग्गेवि मुएवि एउ
 पडिवज्जिवि इउ पाविवि पसाउ
 अप्पाणहु नामु धरेवि ताउ
 मेलावइ लड्डुय देड खाहुं
 पडसारड राउलु छलु करेवि
 तहो पिसिएं पीणड पुहडपालु
 जाणिवि सब्बेहिं मिलेवि पाउ
 सूयारु असेप्पिणु गहणि तित्थु

माणवपलु आणिउ एउ देव ।
 भाणसिउ भणिउ चक्खियग्गेण ।
 मा चरु रधिज्जसु मसभेउ ।
 सूयारे ता विरइउ उवाउ ।
 वीसासिउ पुरडिभयनिहाउ । ५
 हक्कारु वेत्तहुं एहुं जाहुं ।
 एक्केक्कु निसुभए तहिं धरेवि ।
 वियलइ जामेण [कमेण] कालु ।
 नीसारिउ किउ जुवराउ राउ ।
 पुणु भग्गउ पुरपयडियअणत्थु । १०

धत्ता—साहारवि जणु भीउ वसुएवेण भिडतउ ।

मारिउ पावें पाउ सत्तम महि मपत्तउ ॥२१॥

२२

फुडु एउ वियाणिवि जिणह जीह
 अवर वि आयन्नह पावहिट्ठि
 तक्करु सुदेउ सरविद्वनेत्तु
 भट्टिलपुरि धणवइ अत्थि नेट्ठि
 तहि भट्टमित्तु संजाउ पुत्तु
 कि वन्नमि हवे चारुनेत्त
 तहो सहयग् वणिउ वसतनेणु

जइ अत्थि निरामयसुहसमीह ।
 णिणु रमणीरुवामत्तदिट्ठि ।
 वियणम्मि मुयउ गउ णरयनेत्तु ।
 तहो धणगिरि धरिणी चउरदिट्ठि ।
 विन्नाणकलागुणगणनिउत्तु । ५
 पिय तेण विवाहिय देवदत्त ।
 गुणमुदरु परमणहरणथेणु ।

वहो नेह्रिणि पवर दमंतमान
एकहिं दिणि नियभज्जाहिं जुत

सुहलवखण अट्टमियदभाल ।
गय उववणु कीलहुं वाणिउत्त ।

घना—तत्य लयाहरे पुप्फसेज्जहो ते नुहुं मुहयर । १०
कीनिवि समउं पियाहि वे वि निसन्ना सहयर ॥२२॥

२३

ता तहिं यमतमानाग्र चूय-
भन्ताग् वुत्तु पावियपमसु
पाउेवि म्हु जणजणियचोज्ज
मेणुत्त तति ति एवमेव
भा भगउ निमत्तु जि करहि तेम
ता नेवि नाउ किउ कण्णमोक्कु
याउिय मजरि पिउउणेण तेण
त मिणवि भट्टमिनो वि ताग्र
वा न विद्याग् अयापमाणु
मालि उत्तर गिचि वि देवि ताहे

मजरि निएवि नवचारुहय ।
हउं करमि कत कन्नावयमु ।
महुं देहि अयमंजरि मणोज्ज ।
कि उट्टिवि पाउमि भमरमेव ।
महु हत्थहो आवड एह जेम । ५
पाडेवि फलाइं लग्गतपुक्कु ।
परिओसिय पणउणि बहुगुणेण ।
मग्गिउ सहारमजरि पियाग्र ।
लज्जिउ मणम्मि कुलकमलभाणु ।
यिउ वार वार मग्गतियाहे । १०

घना—अट्टिवि वाहु कलाग्र वत्युवहाणउ देप्पिणु ।
गउ मिक्कहुं धणुवेउ सा रोवति मुएप्पिणु ॥२३॥

२४

मेणुत्त पशउउ मेहमेणु
माएवि मेवदेणे तय
मोउणु गुणेण वि सा उउउय
अउउउउउउ उउउउउउउ
मणे मणि उ उउउउउ उउ
अउउउउ उउउउउ उउउउउ
उउउ वि उ उउउ वि उउउ उउउ
उउउ उउ उउउ वि उउउ उउउ

तहिं नरउउ मग्गणयामधेणु ।
ततो मेहमाल नामेय धूय ।
मवेण समानय मटे उउ उउ ।
अउउउउ तहिं निवमउ पशुण ।
मटिउ मण मिग्गउ विणयववु । ५
पारावउ म्हु देवउउउउउ ।
न मयउ जि उउउ मग्गणभाउ ।
मिउउउउउ उउउ न अउउउउउ ।

घना—अउउउउउउ अउउउउउउ मग्गमिउ ।
अउउउउ उउउउउ मग्ग मग्गमिउ वि उउउउउ ॥२४॥ १०

२५

तर्हिं ताहि तेण पत्थिववरेण
 पारद्घु समोद्धुच चदवेहु
 जे मिलिय असेस वि साणुराय
 त विसमु न विघहुँ तरइ को वि
 एत्थतरि गुरुणा भद्मिन्तु
 ता तेण करेप्पिणु त गुणाल
 भुजंतु भोय थिउ ताग्र सहिउ
 पर ससुरु तासु आवहुँ न देइ

दुहियाहि विवाहु सयवरेण ।
 सो परिणइ सुय जो हणइ एहु ।
 संजाया ते भग्गाणुराय ।
 थिय लज्जावस निव निहुय होवि ।
 वुत्तउ लइ दावहि चाववित्तु । ५
 परिणिय नरवइसुय मेहमाल ।
 बहुदिवसहिँ सयणहिँ लेहु पहिउ ।
 मन्नावइ परमायरु करेइ ।

घत्ता—सजोएँ सुहु देइ विहडतउ सतावइ ।

अइवल्लहु गुणवंतु जणु जतउ कहो भावइ ॥२५॥

१०

२६

एक्कहिँ दिणि एक्करहेण वीरु
 तहो पथु निरुभिवि वणि सुवेउ
 कपाविय ताविय भीरुकाय
 ते पउर पाव सो सुहडु एक्कु
 जुज्झतहो तहो सयलाउहाइँ
 पुणु लइउ करेण सवाणु चाउ
 वयणेण घणावलि वल्लहासु
 आसत्तु ताहे एयग्गदिट्ठि
 ता छिद्दु लहेवि सरेहिँ तेण
 मुउ पावयम्मु निरु रउरवम्मि

निग्गउ अकहतु सकतु धीरु ।
 थिउ भिल्लाहिवइ कलत्तहेउ ।
 अवरोप्परु हक्काहक्कि जाय ।
 वावरइ तो वि निम्मुक्कसकु ।
 निट्ठियइँ पयासियवणरुहाइँ । ५
 तहो सदे सत्तुहु कपु जाउ ।
 उयरेवि रहहो गय समुहु तासु ।
 जा जोयइ मुहु सजायतुट्ठि ।
 अच्छीसु वियारिउ तक्खणेण ।
 सजायउ नारउ रउरवम्मि । १०

घत्ता—इयरु वि समउँ पियाग्र घर कुसलेण पहुत्तउ ।

सिरिचदुज्जलकित्ति थिउ सुहाइँ भुजतउ ॥२६॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसरिचदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ जणमणाणदे ।
 तेयालीनमु सवी विसयनिसेहो इमो भणिओ ॥

संधि ४४

१

कुमडप्र फामिदियवमप्र लमिगवि गोवालहो ।
 निग्रतवण गहवडणियप्र मुहि छुद्धउ कालहो ॥

गाथा—डाहियदेसम्मि वरे नयरे नामेककतामघेयम्मि ।
 गह्वर नायरवत्तो हीतां इह आसिकालम्मि ॥

निय नायवन्न नहि उयरि ह्यो	तहो मिरिकुमान् नामेण नुओ ।	५
सुद्धि मयणावदयणिययणवा	सिरिसेणा दानरड तणया ।	
गगु सुद्धिगत नामे भगिउ	गोवालउ पालड नदिणउ ।	
गगुवणि कुचनारिणि वुद्धुमउ	अच्छड सहु तेण निवद्धरड ।	
पुंमण दुग्गणि यवन मिउ	एककहिं दिणि सो णियहम्मि थिउ ।	
अग्गिणववण यमज्जणउ	गोसामिउ गात्रिउ नेवि गड ।	१०
भावेणि नाउ लोउवु वणे	गोवेणावेधिणु तम्मि यणे ।	
वर्णणं भणोण विगणियउ	अच्छने होइवि गानियउ ।	
विणवणुण विणु मधभावनया	गह्वडणि निग्गुम नवन ह्या ।	
गह्वरु वि मयण वि मयण	गुउ जूरु अणुदिणु घुग्गुरउ ।	

गाथा—अग्गि दिणि उहेरगुण नो ताप्र पडनाउ । १५
 मयणी गहु वि वुद्धुमउ अग्गुउ जूरुवउ ॥१॥

२

गाथा—विमुग्गियण गोओ मरिवि मिनवर टिओ मेरि ।
 उग्गु वि गणो यम नाग्गु वेरि मयणो ॥

गह्वरु वि मयण वि मयण	भायक मियवर्णियउ नगोवणिम ।	
गह्वरु वि मयण वि मयण	अग्गुवणुणु अग्गुवणु वणु वणे ।	
गह्वरु वि मयण वि मयण	मयण वउ वीणउ वउ वणुण ।	५
गह्वरु वि मयण वि मयण	गुग्गुवणुणु अग्गुवणुणु मयण ।	
गह्वरु वि मयण वि मयण	उग्गुवणुणु मयण मयणवणु ।	

अप्पणु वहिणिहे उवएसु किउ
एत्थतरि तहिँ गोवालु गउ
ता पच्छावेवि करेवि छलु
घरु आइउ पुच्छिउ मायरिए
मई तुज्झ गवेसउँ पेसियउ
तेणुत्तु न जाणमि माइ सइ

पच्छन्नु होवि आसन्नु थिउ ।
सिरिकुमरु वियप्पिवि खुटु हउ ।
विणिवाइउ सल्ले तेण खलु । १०
विसभरियग्र न काओयरिए ।
कहिँ गोवउ सो गुणभूसियउ ।
ग्रहु सेल्लु वियाणइ तासु गइ ।

घत्ता—लोहियलित्तउ त निग्रवि रुट्टाग्र वइट्टउ ।

मुसलपहारेणाहणिवि किउ सो निच्चेट्टउ ॥२॥

१५

३

गाहा—तेण जि मुसलेण हया सा सिरिसेणाग्र भाइदुक्खेण ।

पहरभरवियणवियला विमुक्कपाणा गदा निरय ॥

निट्ठुर कोहाइकसाय सढा
चउगइभवकाणणि पहयपरा
सिवपट्टणपथे जतु जणू
जइ छिंदह जाइजरा मरणू
दरिसावियदुग्गइदुक्खदरी
हा के ण कसायवसेण हया
दीवायणु नामे आसि जई
काऊण पाउ सजमहो खउ

सासयपुरपवलिकवाड दिढा ।
न कसाय मुएवि चोर अवर ।
लूसति अणोवमु धम्मधणू । ५
तो करइ कसायहँ परिहरणू ।
जीवहो कसाय नउ अन्न अरी ।
जिणधम्मु वि पाविवि कुगइ गया ।
कोहेण डहेप्पिणु वारमई ।
मुउ दुम्मईग्र दुग्गइहे गउ । १०

घत्ता—इह सोरट्टविसग्र विसम धणधन्नसमिद्धी ।

मज्झि समुद्दहो वारमइ पुरि अत्थि पसिद्धी ॥३॥

४

गाहा—वारहजोयणदीहा नवजोयणवित्थरेण सोहिल्ला ।

सोलहगोउरदारा चउवीसखडक्कियासहिया ॥

मणिकुट्टिमभूमियला मणिमयपासाय रयणपायारा ।

निरुवमसोहाग्र सया सग्ग पिहु जा विसेसेइ ।

जहिँ दस दसार पडव पयडा
तहिँ वासुएउ वसुएवसुओ
मयणहो जणेरु रप्पिणिहे वरु

निवसहिँ अणेय अवर वि सुहडा । ५
नवमउ नारायणु पीणभुओ ।
चक्केसरु ईसरु पहयपरु ।

गयमन्मन्तिसारगघणु
 रगपाटं मन एयाटं जमु
 न्वयनामरा वि लद्दाडमया
 माहिय तिरवट ननिहाण मही
 नहो रउनु करतहो मुहमयड
 एक्काहिनं दिणि तहिनं ह्यदुरियरिणु
 गेयनागरमुवनेहिनं नहिउ

अरि आयवत्तु असि फुरियत्तणु ।
 सिद्धाई जयत्तणु भमिउ जसु ।
 ज मुक्कमाण सेवति सया ।
 उप्पाडय सयणहं जेण दिही ।
 माणतहो पुव्वपुन्नकयड ।
 विहरंतु पराइउ नेमि जिणु ।
 उज्जिति परिट्टिउ सव्वहिउ ।

१०

उत्ता—न निसुणेप्पिणु सयलु जणु कुलकुवलयचडे ।
 वदणहत्तिणु गउ तुरिउ सहं विण्हुनरिडे ॥४॥

१५

५

गाथा—मव्वे वि समवसरणे कारुण पयाहिण दुलडयगा ।
 वदिवि थुणिवि जिणं उवविट्ठा निययकोठम्मि ॥

नायान मणायार वि मवलु
 तिहयणरवि मग्गयतिमिरहूर
 पन्नेमर परममिरीधरहो
 वे नाउड गानु मुददाएणिया
 परमेह्ठि मणउ उणभायणाहि
 तीररउतु मणाव उणियरउ
 पुण रोहिणियुणे सुणनिवड
 तिण भणउ विरमननाउरुणउ
 तीजाएण मउ पन्मिणय
 मुउ तीरुणि मणिगुमान मु

निमुणेप्पिणु धम्मु विमुक्कमलु ।
 वलएवे पुच्छिउ तित्थयरु ।
 एवविह सपय केसवहो ।
 आहासहि होमद थाउणिया ।
 बोलीणाहि वारहहायणाहि ।
 नासेसड निच्छउ वारमड ।
 पुच्छिउ पह होसड किह पनउ ।
 रोहिणिहं भाउ पयणियपणउ ।
 मुणि महुकुमारो रोमियड ।
 जणिसड वल वारमउ पु

५

१०

उत्ता—अरुमणहन्वेण इउ परं परिहियत्तुरियणु ।
 दासेमउ पचन् इरि आयण विणुत्तियणु ॥५॥

६

गाथा—उत्ताउत्ताउत्ताउत्ता विद्याउत्ता विद्यमन्नागा ।
 मन्नेय उत्ताउत्ताउत्ताउत्ता हिमयन्नागा ।

१. उत्ताउत्ताउत्ताउत्ताउत्ता
 २. उत्ताउत्ताउत्ताउत्ताउत्ता
 ३. उत्ताउत्ताउत्ताउत्ताउत्ता

उत्ताउत्ताउत्ताउत्ताउत्ता
 उत्ताउत्ताउत्ताउत्ताउत्ता

बल्लाविउ रेल्लाविउ वियणे
 गउ जरकुमारु छड्डेवि पुरी
 छुरिय वि घसेवि घल्लिय विउले
 सो धरिउ सफरु गलघित्तकमु
 त तेण कुमारे पावियउ
 तहिँ होतउ दीवायणु सवणु
 वारहवरिसेहिँ सघसहिउ
 गिरिणयरिसमीवि भमियहरिहे
 सासयसिरिगहणुक्कठियउ

सखोहु जाउ जायवहँ मणे । ५
 थिउ वणि यासघिवि विज्भगिरी ।
 मीणेण गिलिय मयरहरजले ।
 तहो उयरि खडु तहो भल्लिसमु ।
 किउ कडु सरगग्र लावियउ ।
 गउ पुव्वएमु तवत्ततणु । १०
 आयउ अमुणतु मासु अहिउ ।
 एप्पिणु थिउ उटगीवगिरिहे ।
 आयवि सो जोग्र परिद्वियउ ।

घत्ता—एत्थतरि जायव सयल सदरिसियलीलग्र ।

अणिवारियपयावपसर गय तहिँ वणकीलग्र ॥६॥

१५

७

गाहा—कीलावसेहिँ सुइर खब्भालिउ तहिँ निएवि सो साहू ।

उवलेहिँ पूरिदो पुणु सबुकुमारेण सव्वगो ॥

निसुणेप्पिणु मुणि सतावियउ
 पर तो वि न केम वि उवसमिउ
 एत्तहे ते तिसिय भमेवि वणू
 मत्ता पिवेवि अणिवद्धरया
 दीवायणो वि कोवेण मुओ
 परियाणिवि वडयरु एवि तिणा
 सुहिसयणविओयसोयभरिया
 गय दुम्मण दणुअरिकुभिहरी
 गउ सलिलु पलोयहुँ सीरघरु
 तहिँ जरकुमारु विहिणाणियउ
 कयमणिमयकवलपावरणु
 मुउ कालहो कोवि नत्थि सयणु

हरिणा गतूण खमावियउ ।
 अच्चतकोवभावे दुमिउ ।
 सा जुत्त सुरा मन्नेवि यणु । ५
 अन्नोन्नु वि जुज्भिवि खयहो गया ।
 भावणसुरु अग्गिकुमारु हुओ ।
 वारमइ पजालिय दुम्मइणा ।
 बलवासुएव पर उव्वरिया ।
 परिसमिउ सुत्तु तरुमूलि हरी । १०
 एत्तहे जहिँ अच्छइ चक्कहरु ।
 ते जीउ अउव्वु वियाणियउ ।
 विद्धउ तग्र भल्लिग्र ललियतणु ।
 किं होइ असच्चउ जिणवयणु ।

घत्ता—बलु सोएँ केसवहो सवु छम्मास वहतउ ।

संबोहिउ देवेण जइ जायउ उवसतउ ॥७॥

१५

८

गाहा—दक्खिणदेसे तुगीपव्वयसिहरम्मि रइयसन्नासो ।

काऊण तवं तिब्ब उववन्नो वभलोयम्मि ॥

माणु वि फुडु सव्वाणत्थघर
 वलवत वि नयरत्तरिदनुया
 प्रायन्नट् निज्जियमक्कपुरे
 नामेण नयर वलट्टु निवई
 न्यणाई वडइह णव नुनिही
 पुग्गिद्व्वगोक्खमंजोयणउ
 आहरणट्टे पत्तपगनणइ
 जग्गु दिव्वु दसगु भोउ सहइ

माणेण महावइ लहइ णरु ।
 माणेण पणट्टा पीणभुया ।
 इह भरहवेत्ति [विणियानयरे । ५
 होतउ] परमेसरु चक्कवई ।
 नुर अगारक्ख चमु दिन्नदिही ।
 दिव्वाइँ वि भायणभोयणइ ।
 णाडउ दिव्वाइँ नियंसणइ ।
 गुणनिलयहो इदु वि गुण गहइ । १०

यत्ता--भाभानुर वलवत गुणि पडिवक्खभयकर ।
 मट्टिसहास तानु गुयहँ सजाय सुहंकर ॥८॥

९

गाहा--दूरज्जिन्नयमयपसरा पसरतमहतकित्तिसोहिल्ला ।
 मोहत्तगोत्तिलया तिहयणजणमणहरायारा ॥

ने नुदर रज्जियमयणगया
 न गणति महत्त वि अघर मरा
 एत्ताता पेग्ग रत्तिदिण्ण
 यत्तामि भरहराणँ यइ
 मयणगयत्तात्तममिदद
 एउ एउ नाहँ रवगण कुणह
 एउ दूरममणादि एत्तापवट
 ता एत्तापमे मय जणा
 एउ एउ देव मय म
 एउ एउ एउ को एउ एउ
 एउ एउ एउ एउ एउ निणा
 एउ एउ एउ एउ एउ एउ

गुरुगव्वगिरिदात्तह सया ।
 जग्गि अत्ताणउँ पेक्खंति परा ।
 जणणेण भणिय कवटेण विणु । ५
 जिणभवणइँ मणिकचणमयउ ।
 ह्यदुरियइँ माहूपससियउ ।
 चउदिसउ गोत्तम एत्ताए एणह ।
 भज्जउ गउ अगार माणवहँ ।
 अट्टावउ गय ने तुट्टमणा । १०
 मा गणहो विणासहो जाइ वरु ।
 जा गणहिँ वयण अणोधि तहो ।
 किय भण्णगमि रोयियमट्टणा ।
 पाविउ उउ प्रायज्जिउ मयनु ।

यत्ता--गो सुत्तमेण रज्जु मुग्गणि निग्गए इवेणिय । १५
 एउ एउ एउ एउ एउ सुत्तवउ वलट्टेण ॥९॥

१०

यत्ता--म मनें एउ एउ मय मयुनेतिं मयउनेतिं :
 एउ एउ एउ एउ एउ एउ एउ एउ एउ एउ

माया वि सब्बदोसहँ निलया
 मायाइँ जीवु दुक्खइँ सहइ
 तिरियचु नउसउ थी हवइ
 इह भरहि भरहगामहो तणउ
 जूरिउ मायादोसेण जणु
 चपाहे ममीवइ नाइ पुरु
 अहिमाणु न मुयइ मुएवि छलु
 सो भरेवि वसहु घरु नत्थि वओ

अविसासयरी पयणियपलया ।
 न कयाइ वि उच्चगोत्तु लहइ ।
 भवि भवि वचिज्जइ दुट्टमइ । ५
 अयणाइँ चउद्दह घणघणउ ।
 निडुहिउ कुलाले सयलु कणु ।
 वडगामु अत्थि घणकणपउरु ।
 तहिँ वसइ पयावइ सीहवलु ।
 विक्कहुँ भडाइँ कयाइ गओ । १०

घत्ता—चलइ न वीसत्थउ वसहु वासरु अइकतउ ।

रविअत्थवणसमग्र भरहगामे सपत्तउ ॥१०॥

११

गाहा—भडाणि तत्थ थविऊण देउले वधिऊण गोण च ।

जामच्छइ खणमेक ता महिलाओ समायाओ ॥

दे देहि विहाणग्र देहुँ धणु
 पाविट्टउ परवचणरयउ
 चोराउलु गामु नव्वससिहे
 ता गामजुवाणा कइ वि जणे
 दुक्करिउ कहता लोयपिया
 अवरहिँ आवेप्पिणु कोणथिउ
 कि किज्जइ उज्जमु विहि बलिउ
 मग्गियउ विहाणे मोल्लु नियउ

अन्नोन्नु कहेवि तासु भवणु ।
 भडाइँ लएवि ताउ गयउ ।
 जग्गतु सइत्तउ थिउ निसिहे । ५
 सपत्त धुत्त वचणपवणे ।
 सह तेण गत नच्चत थिया ।
 फोडेप्पिणु भित्ति वइल्लु निउ ।
 चित्ततहो लाहु मूलु गलिउ ।
 मिच्छुत्तरु देवि ताउ थियउ । १०

घत्ता—को तुहुँ मूढा कवणु घरु के लइयइँ भडइँ ।

भुल्लउ काइँ चवहि अलिउ तुहुँ वाहिउ भडइँ ॥११॥

१२

गाहा—वरिसाइँ सत्त धन्नतिणनिमित्तेण तेण कुद्धेण ।

कुंभारेण सगामं दद्ध सिद्ध खल पत्त ।

गुण सयल वि लोहे जति खउ
 उच्चो वि निच्चकम्मइँ करइ
 लोहेण न जाणइ अप्पपरु

जिउ अग्गि व हम्मइ लोहगउ ।
 लोहेण सुधम्मु वि परिहरइ ।
 लोहेण अभक्खु वि खाइ नरु । ५

नियपुत्तु मियदुड लोहवसु
मारुं आदुत्तु समित्तु तउ
एत्यत्थि कहाणउ कहमि वरु
तहो अत्थि तणउ रंजियजणउ
देवोहे अजियसेणाहे हुउ
सिद्धत्थु महंतउ चारुमई

आसाइवमहिसु यमासरसु ।
उव्वरिउ लेवि निम्महियभउ ।
उज्झहिं सीमंधरु धरणिधरु ।
नामेण मियदुड बहुगुणउ ।
चरमंगु अणंगु व रुवजुउ ।
उसहाइसेणु वणि लोयपई ।

१०

घत्ता—सकडकवउ सुपओहरउ गोवालायत्तउ ।

महिसीओ महिसिउ वरउ तहो अत्थि बहुत्तउ ॥१२॥

१३

गाहा—करिणि व्व सगेवज्जा घंटाखराइया मणोहरिया ।

ताणं मज्जे पहाणा अत्थि सुहदा महामहिसी ॥

गय वणहो मणोहरम्मि सरया
चिखवइरयसेण न रक्खियउ
वाराउ सत्त सो नेव हुउ
पुणरवि आवत्तउ गहियगया
परियाणैवि तहे पसमणसमउ
मंजापपगूय सुहद वणे
जाइमर सो तहो भीयमणु
सेण वि वदुत्तुण दयावणउ
मा वीहहि यच्छ न हणमि पई
अत्थेण करहो सम्माणियउ

पसविय सा पडुउ पउरपया ।

गोविदगोविदे भक्खियउ ।

तहे उयरे विहाणे एण मृउ ।

नासेवि सुहदा दूरु गया ।

गोविदु वि अणुमग्गेण गउ ।

पडुउ चट्टंति विदु वयणे ।

पाएसु पडिउ कपंततणु ।

मंभीसिउ सुउ महिसिहे तणउ ।

तुह दिन्नउ अभयपयाणु मई ।

सहे जणणिअ जूहहो आणियउ ।

५

१०

घत्ता—सउनु नामु किउ समयतहिं वि पणिवारु करंतउ ।

मयउ पमाओहो चारुवहिं रंजियजणचित्तउ ॥१३॥

१४

गाहा—तत्थागवत्तस एवत्तम्मि वासरे उसहाइसेणोद्विरस ।

यसणेण तत्त महमा पडिदो पाएसु सो गदो ॥

पडिउ वानि किउ भोयहु पारो

पडि वि वरो रहु तहु वयणु

सुहु पडु विपद हुउ वीउत्तु

दाविउ नमंगु सीमंधरु ।

देयाविउ पाविउ पुदि अरुत्तु ।

नियमसिउ मयउ समजण ।

५

नामेण नउलु तहिँ वणितणउ
 आरक्खएण दुन्नयभरिउ
 संजायउ जणि पवाउ गरुउ
 तहो सुद्धिहेउ परिभावियउ
 सो महिसु एवि संकाए तउ
 पहुणा दट्ठूण पसंसियउ
 हिंडंतु संतु लीलागमणु

जूयारिउ चोरियपरधणउ ।
 जाणेवि बंधेवि नेवि धरिउ ।
 जिह नउलु हयासु चोरु विरुउ ।
 पंचउले लोहु तवावियउ ।
 तं दियहिँ लेवि राउलहो गउ । १०
 जणे भद्दयनामु पयासियउ ।
 गउ एकहिँ दियहे असोयवणु ।

घत्ता—तहिँ पुक्खरिणिहिँ विउलजले इच्छइँ कीलंतउ ।
 जामच्छइ ता रायसुउ मियधउ संपत्तउ ॥१४॥

१५

गाहा—नियसहयरेहिँ सहिण्ण तेण दट्ठूण मंसलुद्धेण ।
 सहसा पच्छिमपाओ छिदेप्पिणु भक्खदो तस्स ॥

तिहिँ पायहिँ कहव कहव वियलु
 पुहईसपासे पीडए नडिउ
 तेण वि तहो सन्नासेण वरा
 सहसत्ति समाहि लहेवि मुउ
 रूसेवि नरिदेँ ता सुतउ
 उवइट्ठु कज्जु किं कय कुमइ
 इय कहेवि तेण रायहो तणउ
 तक्खणे निक्खवियकम्मरयहो
 गउ राउलु मंति नियच्छियउ
 तेणुत्तु सुमारियविसयरई
 हुउ केवलि तुह सुउ सक्कथुउ

लंगंतु विणिग्गयरुहिरजलु ।
 जाएप्पिणु आरडेवि पडिउ ।
 नवयार दिन्न तहो पावहरा । ५
 सोहम्मि महड्डिउ देउ हुउ ।
 मारहुँ सपेसिउ मंति गउ ।
 एवहिँ को धरइ कुविउ निवइ ।
 लेवाविउ तउ सुउ अप्पणउ ।
 केवलु उप्पन्नु मियद्धयहो । १०
 मारिय ते पहुणा पुच्छियउ ।
 छड्ढाविय ते मई जाय जई ।
 महु सुउ मणपज्जवनाणजुउ ।

घत्ता—आयन्नेवि नरिदु तहिँ गउ गंजोल्लियमणु ।

पुरउ निविट्ठु नवेवि पय जगगुरुहे सपरियणु ॥१५॥

१५

१६

गाहा—एत्थंतरे हिरामो फुरंतकेऊरकुण्डालाहरणो ।

दिक्खविमाणारूढो महिसयदेवो वि तत्थाओ ॥

पणवेप्पिणु केवल्लि कलुसहर
जाणाविउ अण्णउ फुहइवई
तुह वयणु मरंतें भावियउ
पणवेप्पिणु कुणइविज्जियउ
पच्चक्खु एहु पेच्छेवि जणु
निसुणेवि धम्मु वारियकुणइ
परमेसर तुम्हई काई एउ
ता हरिगलसेणावइपहूइ
नियभवसंवंधु सव्वु कहिउ

संयुउ सीमंधरु रायवरु ।
हुउं भद्दयमहिसु विसुद्धमई ।
पहु तेण सुरत्तणु पावियउ । ५
इय भणेवि तेण गुरु पुज्जियउ ।
हुउ सयलु वि जिणमयलीणमणु ।
पुच्छिउ पुहईसें परमजइ ।
सहुं भद्दयमहिसे जाउ खेउ ।
अवरोप्पर दावियदुहविहूइ । १०
निसुणेवि निवेण मोहु महिउ ।

वत्ता—रायलच्छ, नियनंदणहो ढोइवि सिरिदत्तहो ।

किउ सामीवणु निक्खवणु तासु जे भयवंतहो ॥१६॥

१७

गाहा—केहिं मि संजमनियमं सम्मत्तं तं निएवि निक्कंपं ।

अणुगुणवयाई केहिं मि केहिं मि सामाइयं गहियं ॥

अवरु वि आयत्तह लोहफलु
संगामि परसुरामेण हुउ
कोसलपुरि सहसवाहु निवई
नंदणु पारोहपलंबभुउ
ते विन्नि वि जणपयणियपणया
सपरियण दीणजणदिन्नघणा
नामं जमयग्गि पसिद्धु जणं
सियराममहिंदराम सुमई
तहि कामधेणु तिहुयणमहिया
तुट्टेण अरिजएण मुणिणा
दिअउ दातिइहो तेहि जलु

सुरवेणुहे लग्गि वि पहयखलु ।
सहसकरु वि ससुउ विणासु गउ ।
महएवि महासइ चित्तमई । ५
तहे कत्तविज्जु नामेण हुउ ।
एक्काहिं दियहम्मि तायतणया ।
गय वारिवंधु करिधरणमणा ।
निवसइ तहिं तावसु विभवणे ।
तहो नंदण रेणुय कंत सई । १०
सिद्धाए परसुविज्जए सहिया ।
दिन्नी नियभायरेण मुणिणा ।
चित्तिउ सुरसुरहि देइ सयलु ।

वत्ता—एत्तहिं हत्थि धरेवि रिसि आसमि जमयग्गिउ ।

दिट्टुउ तेहिं नमंसियउ विसहियपंचग्गिउ ॥१७॥

१५

१८

गाहा—अधभागयपडिवत्ती तेण वि काळण ते वराहारं ।

भुंजाविया ससेणा सयणा सुरसंदिणीदिन्नं ॥

लोहेण न किं पि मणुउ मणुइ
सां गाइ तेहिं पावेहिं हिया
विलवंत वणाउ समागएहिं
कहो केण हयासें हउ जणणु
ता कहिय असेस वि ताए विही
जणणीए समप्पिय पहयखला
सियरामु समाइरोसभरिउ
सकुडुं व सपरियण वे वि हया

सुहि सुयणु सामि तवसि वि हणइ ।
जमयग्गि अदेंतु वि हणिवि निया ।
परिपुच्छिय मायरि अंगएहिं । ५
को अज्जु निरुत्तउ मरणमणु ।
आयन्निवि दुज्जणगहणसिही ।
सा परसुविज्ज अपमेयवला ।
अणुमग्गे ताहँ लग्गु तुरिउ ।
ते वप्पपुत्त पायालि गया । १०

घत्ता—एउ वियाणिवि लोहतरु वड्डिउ वित्थारें ।

छिन्नह दुग्गइदुक्खफलु संतोसकुडारें ॥१८॥

१९

गाहा—कत्तविरियस्स भज्जा गुरुगब्भभरालसा भयक्कंता ।

पोमावइ नामेणं नासिवि वणं गया सुयणु ॥

संडिलासमं गयाए
तं निएवि सव्वगुत्तु
सव्वभूमु एस वालु
ता सुभूमु मायरीए
भाविचक्कवट्टि तेण
पालिओ क्किओ समत्थु
एत्तहे वि एक्कवीस
मारिऊण कुद्धएण
जामयग्गिणा असेस
पुच्छिओ निमित्ति सच्चु
तेण वुत्तु चारु दंत
जेण दिट्ठ होंति भत्तु
अंतयारि रायराउ
तं सुणेवि दाणसाल
तत्थ वंजणेहिं चारु
दाविऊण दंतपत्तु

जाउ पुत्तु तत्थ ताए ।
भासए मुणी तिगुत्तु ।
होसए विवक्खकालु । ५
कोविकओ किसोयरीए ।
जाणिऊण तावसेण ।
सिक्खिओ ससत्थु सत्थु ।
वार संगरे महीस ।
माणिणा कुलद्धएण । १०
दिन्न वंभणाण देस ।
कासु पासि मज्झु मच्चु ।
घित्त भायणे फुरंत ।
सो महीसु तुज्झ सत्तु ।
होसए महापहाउ । १५
राइणा कया विसाल ।
तप्परिक्खहेउ फारु ।
दिज्जए दियाण भत्तु ।

घत्ता—एण विहाणें जाम तहिं रेणुयसुउ अच्छइ ।

एत्तहे ताम सुभूमु वणं नियमायरि पुच्छइ ॥१९॥

गाहा—तं मादा माउलओ संडिल्लो एस लोयविक्खाओ ।

कहसु महासइ ताओ कवणो कहिँ अच्छए मज्झ ॥

ता सा ख्यंति रिउमहणहो
 हा पुत्त पुत्त जमयग्गियहो
 सियरामु नाम भुयवलवलिओ
 तुह ताउ सताउ तेण निहओ
 निक्खत्तवि खत्तिय सयल मही
 सो चेव परसुविज्जागुणेण
 गलगज्जवि एउ सुणेवि वली
 दियवेसहिँ सत्तूगारु जहिँ
 भोयणु वट्टियउ वड्डु दिया
 तवखणे तें दिट्ठा भत्तु हुया
 परिवेड्डिउ चउदिसु ताहिँ किह
 कयपुत्तहो भिउडीभंगहया
 तहो दंत सराउ जि जाउ अरी

वित्तंतु पयासइ नंदणहो ।
 तावसियससिहपंचग्गियहो ।
 संगामि न केण वि पडिखलिओ । १५
 सुरधेणुहि लग्गिवि जाउ खओ ।
 पडिगाहिय दियहँ दिन्न सनिही ।
 हुउ परसुरामु पुज्जिउ जणेण ।
 गउ कोसलपुरु अहिलसियकली ।
 वंभणहिँ समेउ पइट्ठु तहिँ । १०
 दाविय निवपुरिसहिँ वइरि दिया ।
 धाविय भड हणहणकारजुया ।
 नीसंकु सियालहिँ सीहु जिह ।
 नासेवि समत्थहो समरि गया ।
 तेणाहुउ निवड्डिउ नरइँ अरी । १५

घत्ता—सिरिचंदु व उज्जोयकरु अरतित्थे पसिद्धउ ।

चक्काहिवइ सुभूमु हुउ गुणरयणसमिद्धउ ॥२०॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।

चउआहियचालीसमु संधी एनो परिसमततो ॥

॥ संधि ४४ ॥

एवमणुसट्ठी समत्तो ।

संधि ४५

१

ध्रुवयं—सुगहियसिक्खु वि निक्कवउ रणि अरिनारायहिं भिज्जंतउ ।
सुहडु व खवउ काई करइ दुसहपरीसहोहं अक्कंतउ ॥

तेण सया गणिणा गुणवंते
धीरेवउ अप्पउं साहारहि
सिज्झइ इह परलोउ वि धीरहो
चिरकयकम्मवसेण पराइय
मुंणि दीणत्तु करंतु न लज्जहि
निहणगमणु वर अविचलवाणिहे
सुणु सूरजणम्मि संभाविय
सत्तुहं समुहं सरंत न संकहिं
आहासमि एत्थत्थि कहाणउ
वरु कप्पउरु अत्थि तहिं राणउ

लेवावेवउ कवउ पयत्ते ।
नियगुरुकुलु नियनामु महारहि ।
वज्जइ अयसपडहु पर इयरहो । ५
विसहहे वेयणछुहतप्पाइय ।
लइ कम्मारिमडाप्परु भंजहि ।
नउ सवणहो दीणत्तणु माणिहे ।
अविगाढप्पहारसंताविय ।
समरे मरंत वि वयणु न वंकहिं । १०
पट्टणु दक्खिणदेसि पहाणउ ।
सीलसेंदु अमरिदसमाणउ ।

वत्ता—सीलमईमहएविवरु सावउ अभिगयसम्मादिट्ठिउ ।
सियपंचमिउववासियउ जामच्छइ नियभवणि परिट्ठिउ ॥१॥

२

ताम वेरि बहुसेणविराइय
सो वि सवलु सम्मुहउ विणिग्गाउ
चूरिय संदण प्राडिय ह्यगय
रिउणा कंठे कप्पपुराहिउ
जाय गरुय वेयण अगणेप्पिणु
जुज्झिउ ताम जाम वइरिहि वलु
उच्छवेण पुरु विजइ पइट्टउ
मुच्छिउ कड्डिण कंडि सवेयणु
वुत्तउ देव देहु तुम्हारउ
पिज्जउ पेज्जु वेज्जु जं दावइ

सन्नहेवि तहो उप्परि आइय ।
दोहं वि सेन्नहं संगरु लग्गउ ।
मारिय सूर भीरु भज्जिवि गय ।
विद्घु भालि जयलच्छिपसाहिउ ।
भउडि करेवि उट्ठु पइसेप्पिणु । ५
निहउ पणट्ठु सेसु छड्डिवि दलु ।
दिन्नासीसहिं सव्वाहं दिट्ठउ ।
किउ परिवारे पुणु वि सचेयणु ।
हुयउ समेण वियलु सुहयारउ ।
इयरहं अंगि समीरणु धावइ । १०

पहुणा भणिउ पइज्ज न भंजमि
अवरु वि हीणसत्तु किं किज्जइ

जं भावइ तं होउ न भुंजमि ।
किं पुण जो निवपुत्तु भणिज्जइ ।

घत्ता—एम भणेवि भुक्ख जिणेवि तद्दिणि थिउ सलिलु वि परिवज्जिवि ।
अन्नहिं दिणि सुहियउ निवइ जिमिउ सपरियणु जिणपय पुज्जिवि ॥२॥

३

सावएहिं खज्जंत वि धीरा
निसुणसु भल्लुक्किण खज्जंतउ
मुणि नामें अवंतिसोमालउ
होंतउ णायमगरक्खियछलु
सोमसम्मु तहो तणउ पुरोहिउ
नियछक्कम्मनिरउ सुंदरमइ
अग्गि व अग्गिभूइ पहिलारउ
अगहियसिक्ख मुक्ख होएप्पिणु
गोत्तिएहिं गोवइ पडु जाविउ
उद्दालियसंपय हुय दुम्मण

दिहिहे चलंति न चत्तसरीरा ।
घोरण वेयणाण अक्कंतउ ।
मरिवि समाहिउ गउ सग्गालउ ।
राणउ कोसंबीपुरि अइवलु ।
कासविनामण भामइ सोहिउ । ५
नंदण दोन्नि तासु हुय दुम्मइ ।
वाउ व वाउभूइ लहुयारउ ।
थिय घरम्मि गउ ताउ मरेप्पिणु ।
ते अजोग तें तप्पउ पाविउ ।
रायगेहु पुरु गय विन्नि वि जण । १०

घत्ता—सुज्जमित्तु नामेण तहिं मायहो भायरेण परियाणिय ।
आयन्नेवि वइयरु सयलु निद्धण मलिणवेस सम्माणिय ॥३॥

४

गोवंतें संबंधु हियत्तें
चारु चउदह विज्जाथाणइ
आगय घरु पडु जाविउ राणउ
थिय सुहि होवि रायसम्माणहिं
एत्तहें सुज्जमित्तु उवसंतउ
भाणहुयासहुणियरइकंतउ
वंदिवि सिद्धखेत्तु कयनिट्टउ
तहो आहारु दिन्नु सिहिभूइ

अहनिसु लग्गिवि तेण पयत्तें ।
जाणाविय पावियसम्माणइ ।
लद्धु गुणहिं अहियारु चिराणउ ।
वेन्नि वि सीससयहें वक्खाणहिं ।
पासि सुधम्ममुणिहे निक्खंतउ । ५
कालें तत्थायउ विहरंतउ ।
भिक्खहे भिक्खासमण पइट्टउ ।
पावियनवविहपुन्नविहूइ ।

घत्ता—मारुयभूइ एककु मुणवि तहिं वडयारणि मिलियहिं भट्टहिं ।
पेक्खेवि सिहिभूइहे नवणु वंदिउ साहु विमुक्कमरट्टहिं ॥४॥ १०

५

जेद्वे लहुउ वुत्तु कि मूढउ
पणमहि कि न पावखयगारउ
एयहो पायपसाएँ भाइय
तेण पउत्तु वुत्तु पई चंगउ
जं असुइहे खवणयहे नविज्जइ
एउ सुणेप्पिणु तं गरहेप्पिणु
अद्वि दयावउ नामें गंपिणु
विहियकसायपरीसहरिउजउ

अच्छहि गव्वगइंदारूढउ ।
भयवं सामिसालु अम्हारउ ।
एह विहूइ अम्ह संजाइय ।
पर दियजाइहे एउ अजोगउ ।
अक्कमेण कुलकमु मइलिज्जइ । ५
वइराइं घराउ निग्गेप्पिणु ।
सुज्जमित्तमुणिपय पणवेप्पिणु ।
अग्गिभूइ संजायउ संजउ ।

घत्ता—निसुणेप्पिणु तववत्तु दुहससिमउलावियमुहसयवत्तु ।

रूसिवि पवणभूइ भणिउ हुयवहभूइपियु ससियत्तु ॥५॥ १०

६

तुहुँ निक्किट्ठु दुट्ठु गरुयारउ
सुज्जमित्तु जगपुज्जु भडारउ
पडु पंडिउ जणम्मि विक्खायउ
जइ एवहिँ हयास नउ वंदहि
तुज्जु अणिद्वे तउ भत्तारें
एउ सुणेवि तेण सकसाएँ
नीसारिय^१ घराउ नग्गउ थिउ
वुत्तु ताए मई पाउ तुहारउ
कडयउ त्ति दंतहिँ चावेवउ

अवरु विसेसेँ ताउ तुहारउ ।
निग्गुणु दुज्जणु दुक्कियगारउ ।
अस्स पसाएँ तुहुँ संजायउ ।
तो पच्चेल्लिउ निट्ठुरु^२ निदहि ।
लइउं विमुक्कमोयवित्थारें^३ । ५
ताडिय भाइभज्ज सिरि पाएँ ।
भणिय जाहि जहिँ अच्छइ तुह पिउ ।
अन्नभवंतरि विप्पियगारउ ।
चूरिवि अद्विआइँ खावेवउ ।

घत्ता—थिय संसारि भमंति चिरु सा मुय एम नियाणु करेप्पिणु । १०

मरुभूइ^४ वि मुणिनिदणेण मुउ मूढउ कोढेण कुहेप्पिणु ॥६॥

७

वच्छाजणवए कोसंबीपुरि
जायउ खरि पुणु गड्ढासूयरि
पुणु तासु वि सुय हुय जाइंभरि
पिप्पलाइँ भक्खंती भुक्खिय
भासिउ भव भमंतु पेच्छह जिउ

मुणिनिदाफलेण इंखयघरि ।
पुणु चंपहे पाणहो घरि कुक्कुरि ।
अंधलिया कुरूव लंबोयरि ।
सिहिभूई पेक्खेप्पिणु दुक्खिय ।
एहावत्थए वि जीवियपिउ । ५

१ निदरु । २ लइ विमुक्क^३ । ३ नीसारिउ । ४ मरुभूए ।

भणपज्जयनाणेण मुणेप्पिणु
एहु सो तुज्ज सहीयरु भायरु
हुँउ खरि सूयरि कुक्कुरि भीसण
ता सा अग्गिभूइभयवंते

भणिउ सुज्जमित्तेण सुणेप्पिणु ।
वाउभूइ जिणमुणिनिदायरु ।
पुणु मायंगि एह दुहंसण ।
संबोहिय करुणावरचित्ते ।

घत्ता—सुणिवि पुव्वभउ उवसमिय पालिवि सावय [-वय] काले सुय । १०
तेत्थु जि रायपुरोहियहो नायसम्मनामहो हूई सुय ॥७॥

८

गढ्भे तिवेइयाहे उप्पन्नी
एक्कहिँ वासरि नियसहियहिँ सहँ
तहिँ नायाले सुछुडु आएँ
पेच्छिवि सहस समागयपणए
तेण वि कहिउ भाइ तुह केरउ
सो रासहि सूयरि साणप्पिय
एत्थु जि नयरि आसि संबोहिय
सा सावयवएण संथाइय
ता सा सूरमित्तमुणिभासिउ
जाइंभरि दूरुज्जिभयदुक्किय

नायसिरी नामेण रवन्नी ।
गय नायवणहो नाय नमंसहुँ ।
दिट्ठ स गुरुणा चिरभवभाएँ ।
पुच्छिउ सुज्जमित्तु गुरु विणएँ ।
जो चिरु वाउभूइ विवरेरउ । ५
होग्रवि हुय चंडालि सुदुक्किय ।
जा पई पाउ करंति निरोहिय ।
एह पुरोहियसुय संजाइय ।
सुणिवि एउ चिरभवदुव्विलसिउ ।
हुय साविय सम्मत्तालंकिय । १०

घत्ता—सूरमित्तमुणिणा सुणिवि सिक्खविया सुग एउ करेज्जसु ।
जइ छड्ढाविज्जहिँ वयइँ तो आणेप्पिणु महँ अप्पेज्जसु ॥८॥

९

एउ करेमि भणेप्पिणु भवणहो
आयन्नेवि वत्त अहिसम्मं
अम्हइँ लोगुत्तम मलवज्जिय
अम्हइँ परकरणिउ वेउत्तउ
एउ सुणेप्पिणु कन्नए भासिउ
तो तासु जि अप्पहुँ जें दिन्नउ
चल्लिउ धीय लेवि आरामहो
पेच्छिवि पंथि पडहु वज्जंतउ
नायसिरीए जणेरु पउत्तउ

गय सा पय पणवेप्पिणु सवणहो ।
भणिय पुत्ति पालियच्छक्कम्मं ।
वंभणवन्न जेट्ठ जगपुज्जिय ।
छड्ढुहि खवणयधम्मु अजुत्तउ ।
जइ खवणयवउ अम्हइँ दूसिउ । ५
एहि ताय ता तें पडिवन्नउ ।
पासु मुणिदहो निज्जियकामहो ।
वद्धउ पुरिसु एक्कु निज्जंतउ ।
एहु रूवजोव्वणगुणजुत्तउ ।

वेढिउ जणसएहिँ निदिज्जइ
ता विप्पेणाउच्छउ तलवरु

वद्धु धरिउ किं कारणु निज्जइ । १०
तेण वि कहिउ असेसु वि वइयरु ।

घत्ता—नायसम्म जूयारिण्ण एण दुअट्टकोडिदव्वेसरु ।

जित्तउ सहसकहावणहँ निवमंतिउ वरसेणु वणीसरु ॥१॥

१०

मग्गिउ देइ न जा ता मारिउ
तेण एहु अम्हहँ पुहईसें
आयन्नेवि कुमारिण्ण पुट्टउ
मज्झु वि मुणिणा दुक्कियनिग्गहु
चत्ते तम्मि कियजीवविराहणि
ता तेणुत्तु पमाणहो गच्छउ
सुण्ण वासेण वि भारहि भासिउ
एम भणेवि जाम किर गच्छइ
वद्धउ पुव्वकमें निज्जंतउ
पुच्छिउ कवणु दोसु किउ आएं

रुसिवि छुरियपहारहिँ दारिउ ।
मारहुँ अप्पिउ पिसुणु सरोसें ।
ताय एउ मारिहे फलु दिट्टउ ।
जीववहे वण्ण दिनु अवग्गहु ।
एहावत्य हउं मि पावमि जणि ।
छडुहि अवर एउ वउ अच्छउ ।
जीवदयाहलु सुद्धु पसंसिउ ।
ता अग्गण्ण अवरु वि नरु पेच्छइ ।
वारिवि विरसतूरु वज्जंतउ ।
ता तहिँ कहिउ निरिक्कनिवाएं । १०

घत्ता—पासगामि वेसायडिय नामे वणिवई य पुव्वइया ।

अज्जु समाया एत्य पुरे विक्कहुँ धन्नु धन्नविक्कइया ॥१०॥

११

मग्गिउ मिलिय सट्टि पडिन्नउ
तम्मि मविज्जमाणि आवेप्पिणु
अक्खिउ वंचत्तणथु वणिउत्ते
सप्पखद्धु वणि एहु पहाणउ
भणिउ एण जाणिवि अवरत्तउ
जग्गहुँ एहु एत्थु निसि धीरहँ
एयहँ मज्झु एण जाणेप्पिणु
आणिउ एहु एण इंधणभरु
एहु वि एउ मडउ रक्खंतउ
एहु चयारि वि ए मारिवि अवि

तेहिँ धन्नु रट्टउडहो दिन्नउ ।
गाहक्कहो तहो एण मिलेप्पिणु ।
चित्तालिहिउ कहाणउ धुत्ते ।
एहु एत्थु हक्कारिउ जाणउ ।
उट्टावेसमि पसरि निरुत्तउ ।
एयहँ चउहुँ समप्पिउ वीरहँ ।
आणिउ मिठउ एहु हरेप्पिणु ।
एण वि एहु एत्थ वइसाणरु ।
थिउ एककल्लउ निव्वभयचित्तउ ।
थिय भक्खंता तामुग्गउ रवि । १०

घत्ता—एत्थु एहु एणुट्टविउ गारुडिणण समंतपहावें ।
 वंचिवि दिट्ठि जणहो लइउ धन्नु एण वहुकुडिलसहावें ॥११॥

१२

भेउ वियाणिवि दुन्नयहरणहो
 तेण वि दोसहो दंडु वियप्पिउ
 मइँ वि सामिआएसु करेवउ
 एउ सुणेप्पिणु दुम्मियचित्तउ
 ता विप्पेण भणिउ गुणगणजुग
 एम भणेप्पिणु पुरउ पयट्टेँ
 निज्जंतउ निएवि आरक्खिउ
 अत्थि एत्थु संपयसंपन्नउ
 तहिँ रट्टउडवच्छु तहो दइयग
 मोहिलेण मोदालियनामें
 तेण वि भणिउ माम लज्जिज्जइ
 वारह वरिसइँ वट्टु निएज्जसु

अक्खिउ तेहिँ गंपि निवकरणहो ।
 रुसिवि राएँ मज्झ समप्पिउ ।
 आयहो पदकरकमलु लुएवउ ।
 नायसिरीग वुत्तु पुव्वुत्तउ ।
 अच्छउ एउ अवर थडुहि सुग । ५
 अवरु वि गाढु वद्धु नरु भट्टेँ ।
 पुच्छिउ तेण वि वइयरु अक्खिउ ।
 जइ जाणहि सेल्लउरु रवन्नउ ।
 जाया नंदवोद सुय जइयग ।
 नंदहो नियसुय दिन्नी मामेँ । १०
 विणु अत्थेण केम परिणिज्जइ ।
 जइ नावमि तो अन्नहो देज्जसु ।

घत्ता—सकुसले लग्गे मुहत्ते दिणे अहिमाणिउ पियरइँ पुच्छेप्पिणु ।
 मिलिय मित्तु सत्थेण सहँ गउ वाणिज्जहो एम भणेप्पिणु ॥१२॥

१३

किंचि वि कालाइक्कमु जायउ
 हूय पीढ तारुन्नरवन्नी
 वहु विढवेवि दव्वु अणुराइउ
 भासिउ ससुरेँ खमहो वियक्खण
 परिणि पुत्ति लइ ता तेणुत्तउ
 जं परिणिउ कलत्तु परिणिज्जइ
 ता सा दोहिँ वि भाइहिँ वालिय
 छट्ठिवि सोहणाउ चउ कंतउ
 उहालेवि लेवि एत्थायउ
 करणेँ भणिउ दंडु दुहदावणु
 तन्निमित्तु असहियअन्नाएँ
 आयन्नेवि एउ मणु सल्लिउ

पूरइँ वारह वरिसइँ नायउ ।
 ताएँ वाली वोदहो' दिन्नी ।
 छुडु परिणिउँ ता नंदु पराइउ ।
 अज्ज वि किं पि न जाइ सलक्खण ।
 अच्छउ मामय एउ अजुत्तउ । ५
 दुज्जसु अवरु पाउ पाविज्जइ ।
 थिय नियतायहो मंदिरि वालिय ।
 वणिमुउ एहु ताहे आसत्तउ ।
 सुणिवि परंपराग वित्तायउ ।
 तत्तलोहपडिमालिगावणु । १०
 रुसिवि मज्झ समप्पिउ राएँ ।
 फणिसिरीग पुव्वुत्तउ वोल्लिउ ।

१२. १ आयहो चरणकरकमलु लएवउ ।

१३. १ वेदहो । २ दंडु दुहदावणु ।

घत्ता—पडिवज्जिवि तहे वयणु पुणु नायसम्मु जामग्गए गच्छइ ।
पच्छा वहेहिँ वद्धु नरु अवरु ताम निज्जंतु नियच्छइ ॥१३॥

१४

पुच्छिउ कहइ निवाणावालउ
एयहो नियगोउलि कयहरिसँ
सव्वाण वि सा आइ करेप्पिणु
पुणु अणेण महएविहि केरी
ताए अणिट्ठु करेप्पिणु रायहो
ता अवरेहिँ वि सव्वहिँ कहियउ
पहुणा उत्तउ चत्तविवेयहो
आयन्नेवि एउ मणु कंपिउ
मइँ वि जणेर जीववहु सच्चउ
मन्निउ परनरु जणणसमाणउ
सुहगइकारणाइँ जइ एयइँ
तो पावमि फलु जं पुव्वुत्तउ

एहु पुरोहिय निवगोवालउ ।
इच्छिय गाइ दिन्न पुहईसँ ।
गोट्टे गोट्टे एक्केक्क लएप्पिणु ।
लइय घेणु निव्वाडेवि सारी ।
जाणाविउ पच्चक्कु वि आयहो । ५
एणम्हाण वि गाविउ गहियउ ।
सूलारोहु करेवउ एयहो ।
पुणु सहँ ताएँ [ताए] पयंपिउ ।
वज्जिउ परहणु वयणु असच्चउ ।
अवरु वि चत्तु गंथु अपमाणउ । १०
वयइँ विवज्जमि विहियविवेयइँ ।
मुणिवि एउ विप्पेण पउत्तउ ।

घत्ता—सुव्वय एयहिँ वयहिँ तुहँ होहि पुत्ति को पइँ विणिवारइ ।
वेयपुराणेसु वि भणिउ घम्मसीलु अण्णउ परु तारइ ॥१४॥

१५

किं पुणु एहि तत्थ जाएप्पिणु
जेण न अवराइँ वि खलु खवणउ
ता तुरिएण तत्थ जाएप्पिणु
भो रिसि किं पइँ सुय अम्हारिय
मुणिणा भणिउ त होइ तुहारी
एम भणेप्पिणु पुणु हक्कारिय
भणिउ अग्गिभूई रे वंभण
जाहि जाम अम्हेहिँ सनायहो
आयन्नेवि एउ तहिँ होतउ
गउ जहिँ अच्छइ राउ वइट्टउ

आवहुँ सो नग्गउ जूरेप्पिणु ।
वेयारइ वेयत्थविहूणउ ।
भासिउ तेण दूरि थाएप्पिणु ।
देप्पिणु नियवयाइँ वेयारिय ।
वंभण एह धीय महु केरी । ५
आगय नायसिरी वइसारिय ।
दुज्जण दुम्मइ नायनिसुंभण ।
खलियारियहिँ कहेवि न रायहो ।
अव्वंभन्नु अणाउ भणंतउ ।
अक्खिउ खवणएहिँ हउँ मुट्टउ । १०

घत्ता—पुत्ति महारी नायसिरि पहु पालिय विसिद्ध हयवंचय ।
परितायहि ताएहि लहु लेप्पिणु जावच्चंति न वंचय ॥१५॥

१६

ता राएँ समेउ सयलु वि जणु
पुच्छिय पत्थिवेण तिहुयणथुय
मुणिणा भणुउ एह सुह्यारी
जेण पयत्तपरेण पढाविय
ता सा निववयणेण सुहाविय
संगोवंगइँ सव्वइँ सत्थइँ
विभिएण नरनाहें जइवरु
सुज्जमित्तमुणिणा पुव्वुत्तउ
आयत्तेवि पुत्तपावहो फलु
कयविवेउ वइराएँ लइयउ

गउ जत्थच्छइ मुणि विभियमणु ।
किं अप्पणिय भणिय दियवरसुय ।
निच्छउ पत्थिव पुत्ति महारी ।
वेयचउक्कु संगु जाणाविय ।
सुंदरि चारिवि वेय भणाविय । ५
अवराइँ वि निसुणेवि पसत्थइँ ।
पुच्छउ वेयभसणहो वइयरु ।
ता वित्तंतु असेसु वि वुत्तउ ।
मुइवि रज्जु अवणीवइ अइवलु ।
रायसहासें सहँ पव्वइयउ । १०

घत्ता—फणिसम्मु वि फणिसिरिभवइँ दुक्खनिरंतराइँ निसुणेप्पिणु ।
निव्विन्नउ निग्गंथु हुउ सुज्जमित्तु महरिसि पणवेप्पिणु ॥१६॥

१७

नायसिरीए समेउ तिवेइय
अवरेहिँ वि निम्मलसम्मत्तइँ
अग्गिभूइ दियमुणि गुणगुरुणा
भाणवलेण सुक्ककम्मं गउ
नायसम्मु परिचत्तपमायउ
सुंदरु जणमणनयणाणंदणु
करिवि नियाणु सकम्मं चोइय
कालें नायसम्मु तत्तो चुउ
उज्जेणिहे जणनयणहँ रच्चइ
वावीसंवुहि सग्गि वसेप्पिणु
सव्वजसहि उयरम्मि रवन्ती
सुंदरि मालइमालावाहिय

जाय जइण तवसिणि निव्वेइय ।
लइयइँ सावयवयइँ पवित्तइँ ।
सहिउ सुज्जमित्तेण सगुरुणा ।
सेलि अग्गमंदिरि मोक्खं गउ ।
अच्चुयम्मि सुरवरु संजायउ । ५
नायसिरी महु होज्जउ नंदणु ।
गय अच्चुयहो सपुत्ति तिवेइय ।
इंददत्तइव्वहो तणुरुहु हुउ ।
सुमइ सुरिददत्तु सो वुच्चइ ।
तहिँ जि सुहइहो सेट्ठिहे एप्पिणु । १०
वीय सुहइ नाम उपत्ती ।
सा सुरिददत्तेण विवाहिय ।

घत्ता—दरिसेप्पिणु सिविणय सुहय पुव्वपुत्तसंपयसंपन्नउ ।

नायसिरी चिरु सुरु चवेवि सुहदिणि ताहि तणउ उप्पन्नउ ॥१७॥

१८

सद्दित्तु सो अवंतिसोमालउ
परिणाविउ वत्तीस सुवन्नउ
ताहँ निमित्तु तुंग नं सुरहर
सुयह समप्पिवि सिरि निव्विन्नउ
मायरीग्र नेमित्तु पुच्छिउ
जइयहँ एहु साहु पेक्खेसइ
नेमित्तियहो वयणु निसुणेप्पिणु
निग्गमु तणयहो तिहुयणवंदहँ
भवणुज्जाणवणम्मि मणोहरि
सुंदरु नियकुलकमलदिणेसरु

हुउ कालेण जुवाणु कलालउ ।
वणिउत्तीउ लडहलायन्नउ ।
काराविय पासाय मणोहर ।
जणणु जइण पव्वज्ज पइन्नउ ।
तेण वि तहो भवियव्वु नियच्छिउ । ५
तइयहँ फुडु पावज्ज लएसइ ।
चित्ति सुहदुग्र दुक्खु करेप्पिणु ।
वारिउ धरि पइसारु मुणिदहँ ।
कीलग्र कीलणवावि सरोवरि ।
गमइ अणेयविणोयहिँ वासरु । १०

घत्ता—निसि कमलोयरम्मि निहियकलमसालितंदुलपवरोयणु ।

भुंजइ निरुवमु विविहरसु अट्टारहभक्खहिँ किउ भोयणु ॥१८॥

१९

रयणुज्जोएँ सत्तमभूयलि
सुयइ समेउ पियाहिँ वियक्खणु
कहो उवमिज्जइ णयणाणंदणु
वाणिय अट्ट रयणकंवल हर
सुरवइदव्वु व' बहुमोल्लंकिय
चलिय भमंत य पुरु दूसेप्पिणु
तेण वि पाणहियाउ रवन्नउ
वत्त सुणेवि राउ परिओसिउ
धन्नउ हउँ जसु नयरि महाजसु
तेण वि किउ उवयारु महंतउ

चित्तविचित्ते चारुसेज्जायलि ।
जाणइ सयल कलाउ सलक्खणु ।
[अह दक्खिणपहाउ आगय पुणु ।
सव्वजणाण चक्खुमणसुहयर ।]
ते राएण वि लेहँ ण सक्किय । ५
लइय सुहदुग्र कंचणु देप्पिणु ।
सुयवहुयहँ काराविवि दिन्नउ ।
गंपि भवणु वणिउत्तु पसंसिउ ।
अत्थि धणड्डुपुरिसु पइँ जेरिसु ।
पहु पाहुणउ धरिउ नयवंतउ । १०

घत्ता—सहुँ सोमालेँ वाविजलेँ कीलंतहो पुहईसहो पडियउ ।

हारु मणोहरु अंगुलिउ कंचणमउ माणिककहिँ जडियउ ॥१९॥

२०

रायाएसेँ तहिँ जोयंतहिँ
कुंडल हार कडय कडिसुत्तइँ

पत्तइँ अवराइँ वि सामंतहिँ ।
विभिउ पहु पेक्खेवि बहुत्तइँ ।

सहुँ राएण वड्ठु विसालप्र
 किप्र^१ उज्जोवइ दीवउ देप्पिणु
 पुच्छिय तज्जणेरि पहुणा सइ
 ताप्र पउत्तु देव दीवयसिह
 तेणंसुयइँ सवति स विहोएँ
 कमलोयरवासिय तंदुल वर
 एहु अवर चाउल मीसेप्पिणु
 तेणाघाप्रवि^२ आसाएप्पिणु

वट्टिउ भोयणु भोयणसालप्र ।
 चक्खुगलणु निट्ठुवणु निएप्पिणु ।
 मेल्लइ अंसु एहु किं थुक्कइ । ५
 सहइ ण पुत्तहो पविपहरणनिह ।
 अच्छइ एहु रयणउज्जोएँ ।
 जेमइ अवर कयावि न नरवर ।
 रंधउ भत्तुवजुत्तु करेप्पिणु ।
 निट्ठीवप्र सुउ विरसु भणेप्पिणु । १०

घत्ता—जयमाला^३महएविवरु एहु सव्वु वइयरुँ निसुणेप्पिणु ।
 विभियमणु नियभवणु गउ तं सुकुमालसामि सहेप्पिणु ॥२०॥

२१

ता तहिँ गणहराइमुणि एप्पिणु
 गंपि सुहदप्र संजमधारिय
 मज्झुवरोहेँ एउ करेवउ
 तं पडिवन्नु तेहिँ थिय मोणें
 जोयखमावणकिरिय करंतहिँ
 आयन्निवि चिरभउ सुमरेप्पिणु
 मग्गिउ मुणिवउ तेहिँ न दिन्नउ
 पुच्छिय आउपमाणु नवेप्पिणु
 ता तवु सइँ सइँवुदधु लएप्पिणु
 तहिँ अच्छंतु संतु सवसेज्जइ
 अइभुक्खियप्र भमंतिप्र लद्धउ
 तारिसु दूसहु दुक्खु सहेप्पिणु

थियउ जिणालप्र जोउ लएप्पिणु ।
 ते पणवेवि पढेवउँ वारिय ।
 जोग्गावहि मोणेणच्छेवउ ।
 गय चउमास वि विणु अज्झयणें ।
 पढिउ गरुयसहेँ भयवंतहिँ । ५
 तत्थ छलेण तेण जाएप्पिणु ।
 अत्थि सुहदए सहुँ पडिवन्नउ ।
 गय ते तिननि दिणाइँ कहेप्पिणु ।
 थिउ आहारु सरीरु मुएप्पिणु ।
 भल्लुकिए चिरभवभाउज्जइ । ०१
 चिरवइरेण सपुत्तिए खद्धउ ।
 परदेहु व नियदेहु गणेप्पिणु ।

घत्ता—मरिवि समाहिप्र धीरमणु उक्किट्ठाउ सुनिरुवमकायउ ।
 नलिनगुम्मै सुरहरि पवरे अच्छुयम्मि सुरवरु संजायउ ॥२१॥

२२

घन्नो परेक्को जए साहु सुकुमालु
 इय देवघोसं सुणेळणु तहि माय

को करइ किर एव अवरु महाकालु ।
 सहुँ पुत्तपत्तीहिँ रोवंति तत्थाय ।

२०. १ किउ ।

२ तेण साएवि ।

३ जए माला ।

४ एहु पउ एउ ।

दट्ठूण दुक्खेण विलवेवि सिहि देवि
 अट्ठुहिं सगब्भाहिं विणु सेस भज्जाउ
 किउ कालु जहिं तेण लोयाण सो ठाउ
 सक्कारिओ तम्मि उत्तमगई लहइ
 पुज्जेवि भत्तीण लोएहिं सुहहेउ
 तहिं कलकलो जत्थ भज्जाण संजाउ
 गयणाउ गंधावयं निवडियं जत्थ

मेल्लेवि घरवासु कोंतल वि लुंचेवि ।
 जणणीण सहियाउ जायाउ अज्जाउ ।
 रक्खंति कावालिया तित्थु संजाउ । ५
 अज्जवि जणो देवि धणु तत्थ सबु डहइ ।
 तहो निसिहियालिगु महकालु ठिउ देउ ।
 हुउ कलयलेसरु सुरो तत्थ विक्खाउ ।
 गंधवयनामं मसाणं हुयं तत्थ ।

घत्ता—सिरिचंदुज्जल एह [कह] जो सुकुमालमुणिहे आयन्नइ । १०
 सो उवसग्गपरीसहहं मरणयाले दुहु कि पि न मन्नइ ॥२२॥

विविहरसविसाले पेयकोऊहलाले । ललियवयणामाले अत्थसंदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।
 सोमालसामिचरियं पणयालीसो इमो संधी ॥

॥ संधि ४५ ॥

संधि ४६

१

ध्रुवयं—वग्धिप्र खज्जंतेण वि दूरुज्झिमयमलिण ।
पत्तउ मरणु समाहिप्र साहु सुकोसलिण ॥

तहो तणउ कहंतरु वित्तु जेम
एत्थत्थि भरहे साकेयनामु
सुंदरु दरियारिगिरिदवज्जु
सुप्पह महएवि मणोज्ज तासु
वत्तीसकोडिधणवंतु संतु
वत्तीसहँ मज्झे पहाण पत्ति
जिह सा तिह अवरउ वि तियाउ
निप्पुत्तु न सोहइ वंसु केम
एक्कहिँ दिवसम्मि महाइयाप्र
विउरंतिप्र कंतहो केसभारु

आयन्नह सुंदरु कहमि तेम ।
पुरु भुवणपसिद्धु मणोहिरामु ।
पयपालु राउ तहिँ करइ रज्जु । ५
सिद्धत्थु सेट्ठि गुणगणनिवासु ।
वत्तीसपवरकंताण कंतु ।
तहो जयवइ नामें चारुगत्ति ।
छणससिमुहीउ निप्पुत्तियाउ ।
विणु नासावसेँ वयणु जेम । १०
जयवइप्र सुवन्नसलाइयाप्र ।
सिरे पलिउ दिट्ठु नं दुक्खभारु ।

घत्ता—तं मुट्ठीप्र लएप्पिणु कीलासत्तमणु ।
तुम्हहँ दूउ समागउ ताप्र भणिउ रमणु ॥१॥

२

आयन्नेवि एउ वणीसरेण
कहि कंते कत्थ सो दूउ किं न
पिययम न होइ पुहईसदूउ
तं नियवि अवरु नहे खयरजुम्मु^१
तउ लेहुँ चलिउ ता सहयरेण
सामिय बहुलोयहो तुम्ह वंसु
तुम्हहँ तवेण नासइ निरुत्तु
निसुणेवि एउ वणिणा पउत्तु
सुयमुहु निएवि निच्छउ न ठामि
भासिउ मंतीसेँ एम होउ

पुच्छिय पिय दिसउ निएवि तेण ।
दीसइ ता चवइ सुवन्नवन्न ।
पेच्छसु पलियंकुरु धम्मदूउ ।
निव्विन्नउ सुमरेवि पुव्वजम्मु ।
विणिवारिउ वणिवइ मइवरेण । ५
आधारभूउ पावियपसंसु ।
तेणच्छह ता जा^२ होइ पुत्तु ।
तुह वयणु करमि जइवि हु अजुत्तु ।
तवयरणहो सइँ सहयर हु^३ जामि ।
पच्छा को धीरइ सुयह भोउ । १०

२. १ खयर^१ । २ जो । ३ सयरहर ।

घत्ता—थिप्र पिययमे पुत्तत्थिणि जयवइ एककदिणे ।
अहि अच्चंती एकके मुणिणा दिट्ठ वणे ॥२॥

३

जाणेवि भणिय किं अहु हरंति
जिणधम्मु मुएवि न अन्न देइ
तेणुज्झहि लोइयधम्मु देउ
किं बहुणायन्नहि कहमि गुज्झु
अवतारु लएसइ सत्तमम्मि
होसइ सुउ साविप्र गुणनिकेउ
हरिसिय निसुणेप्पिणु पुत्तजम्मु
रयणिहिं सिविणंतरु दिट्ठु चारु
समएण सलक्खणु गुणनिहाणु
पर को वि न कासु वि कहइ वत्त

चितियफलु मिच्छादेव देति ।
अहिलसिउ वत्थु उन्नइहिं नेइ ।
आराहहि भत्तिप्र अरुहदेउ ।
सग्गायउ सुरवरु गग्भि तुज्झु ।
दिवसम्मि भद्दि पुत्तोययम्मि । ५
रूवेण परज्जियमयरकेउ ।
गय वणिवहु मुणि पणवेवि हम्मु ।
सत्तमे दिणे हुउ गवभावयारु ।
सुउ जाउ तीप्र तेएण भाणु ।
वाराविउ उच्छउ लोयजुत्त । १०

घत्ता—लजियाप्र सवयंसिहे गुज्झु न रक्खियउ ।
तामेक्कहिं दिणि पवलिहे बाहिरि अक्खियउ ॥३॥

४

आयन्नहि हले सुहयारियाप्र
सुउ जाउ न तारिसु अवरु कोइ
निसुणेवि एउ आणंदिएण
गंप्पिणु वद्धाविउ वणिवरिदु
तेण वि निसुणेप्पिणु वंभणासु
जयवइमहएविहे भवणु एवि
धणदेउ नामु जणणेण दिन्न
हुउ सव्वहं मणि आणंदु जेण
तुहं अम्हहं कुलि संजणियतुट्ठि
इय भासिवि पुत्तहो पट्टवंधु

गोसामिणीप्र अम्हारियाप्र ।
पर अज्जवि जणु जाणइ न कोइ ।
निस्सेण सोमसम्मं दिएण ।
हुउ तुज्झ तणउ कुलकुमुयचंदु ।
तूसिवि सउ गामहं दिण्णु तासु । ५
वयणारविदु तणयहो निएवि ।
मग्गणजणाण दालिदु छिन्नु ।
बाहिरिउ सुकोसलु सो जिज तेण ।
अज्जप्पहइ पुहईससेट्ठि ।
काऊण खमाविउ सयणबंधु । १०

घत्ता—पणवेप्पिणु विणयंधरु साहु विहूयरउ ।

बहुसामंतहिं सहियउ हुउ वणिवइ विरउ ॥४॥

नउ भमइ भिक्ख सुहिसयणहीणु
जयवइए भणिउ जइ एहु भद्दु
मग्गंतु भिक्ख घरि घरि ससंकु
ता सुव्वयाए धाईए वुत्तु
तुम्हारए पुरिसपरंपराए
ता जयवईए सा करिवि सन्न

तुच्छइ लच्छीइ न होइ दीणु ।
ता दुक्खिउ किं जायउ दरिद्धु ।
परिभमइ तणुभव एहु रंकु । ५
तुह देवि साहु निदहुँ न जुत्तु ।
सुम्मइ तउ लइउ परंपराए ।
अच्छीहिँ निवारिय थिय विसन्न ।

घत्ता—ता सुप्पहए पउत्तउ किं करलक्खणहिँ ।

सुहसंपय परपुत्तहिँ लब्भइँ नउ गुणहिँ ॥७॥

१०

८

मुणि नाणासत्थवियक्खणा वि
सुम्मंति रामलक्खणपहूइ
अवरे वि इव्वसुय रायउत्त
अलहंत दीण देही भणंत
विणु पुत्तहिँ पुत्तय तेण तेहिँ
अवरु वि आयन्नह अत्थि एत्थु
सो आहारत्थु कयाइ नंगु'
पासंडियवेसु कयाइ भमइ

वलविककमवंत सलक्खणा वि ।
पंडुसुय पयंड वि निव्विहूइ ।
वहुलक्खणवंजणगुणहिँ जुत्त ।
दीसंत जेण भिक्खं भमंत ।
किं किज्जइ सोहणलक्खणेहिँ । ५
नरु एककु अकिचणु वाहिधत्थु ।
परिहिउ कयाइ उद्धूलियंगु ।
चिरकियदुक्कियवसु दिवस गमइ ।

घत्ता—अवरु वि भीमु भणिज्जइ सयणविवज्जियउ ।

अत्थि एत्थु भिक्खारिउ दुक्खपरज्जियउ ॥८॥

१०

९

सागडिउ अवरु संजायदोसु
भोयणमेत्तहँ वि अभावे जाए
पुरे भिक्ख भमंतु जणोहु नियइ
अवर वि एवंविह पुत्तहीण
विणु पुत्तहिँ सव्वत्थ वि अणत्थु
फुडु आलजालु महु मोहहेउ
चितंतु सुकोसलसेट्ठि जाम
विन्नविउ एहि मायंगगामि

दंडिउ करणेण करेवि रोसु ।
भुक्खासुहसोसिए सुक्खे काए ।
निल्लज्जु समणवेसेण जिणइ ।
मग्गंत लोए दीसंति दीण ।
पुच्छह कुमार भणु काइँ एत्थु । ५
एयाहिँ पयासिउ सव्वु एउ ।
अच्छइ सूयारें एवि ताम ।
ट्टइ तुह भोयणसमउ सामि ।

घत्ता—ठाइज्जउ मज्जणहरे रायरोसरहिउ ।

ण्हाएप्पिणु पुज्जेज्जउ देउ देवमहिउ ॥९॥

१०

१०

तहो वयणाणंतरे जयमईग्र
भासिउ भज्जाग्र सयंपहाग्र
सोमसिरिग्र नंदग्र सिरिमईग्र
पियमइग्र पियंगुसिरिग्र पियाग्र
सिरिकंतग्र अवरु ससिप्पहाग्र
सरसइग्र अणंतमइग्र सईग्र
बंधुसिरिग्र धन्नग्र धणमईग्र
उट्टह लहु वट्टइ वड्डु वार
ण्हाएप्पिणु पुज्जह देवदेउ
को एहु एउ जाणिउ न जाम

तह सुव्वयाग्र सुंदरमईग्र ।
सिरिदत्तग्र मित्तग्र सुप्पहाग्र ।
बंधुमइग्र सुमइग्र सुहमईग्र ।
विमलमइग्र विमलग्र तडिलयाग्र ।
अवराइयाग्र विजयग्र जयाग्र । ५
गुणमइयग्र गुणमालग्र रईग्र ।
तरलच्छिग्र लच्छिग्र जयसिरीग्र ।
सिद्धी रसोइ नाणापयार ।
वज्जह वासंगु म करह खेउ ।
तेणुत्तु न भोयणु करमि ताम । १०

घत्ता—ता तहो गाहु निएप्पिणु गुज्भु न रक्खियउ ।

एहु जणेरु तुहारउ धाइग्र अक्खियउ ॥१०॥

११

नामें सिद्धत्थु सिसुत्तकाले
निव्विन्नचित्तु निग्गंथु जाउ
मासोववाससोसियसरीरु
इह पुत्त वीरु भिक्खग्र पइट्ठु
आयन्नेवि एउ सुकोसलेण
फुड्डु मई वि समुज्झियरइरसेण
इय भणेवि धरिज्जंतु वि घराउ
पुच्छंतु संतु उज्जाणभवणु

बंधेवि पट्ठु तुह तणय भाले ।
रिसि तउ करंतु अज्जेत्थु आउ ।
सायरगंभीरु गिरिदधीरु ।
भामरे भमेवि पइं जंतु दिट्ठु ।
जंपिउ सुहिसज्जणवच्छलेण । ५
भुजेवउ होग्रवि तारिसेण ।
निग्गउ सहसत्ति मणोहराउ ।
गउ दिट्ठु साहु कंदप्पदवणु ।

घत्ता—तं जोइवि जाईसरु जायउ सेट्ठिसुउ ।

सुमरिउ पुव्वभवंतरु जो जहिं जेम हुउ ॥११॥

१०

१२

मलयायलि नामें सुंदरासु
होतउ आलोयह कम्मभंगि

हउं पोमावइ पिय गयवरासु ।
वीया मलया मयणालसंगि ।

सहूँ दोहिँ वि करिणिहिँ करिपहाणु
तामेककहिँ दिणे मज्झुवरि रुट्टु
आवेप्पिणु सुत्थिय जणवयम्मि
सिरिदत्तहो वणिहे सुखुवियाहे
पोमावई वि आउक्खयम्मि
भज्जाहि पियंगुसिरिहे वरंगु
सोसियविरहियणवसंतमासे
जिणभवणे गंधमायणनिवेण
पुच्छिय ता केण वि कहिय एह
निसुणेवि वियंभियमयरकेउ

जामच्छइ अहनिसु कीलमाणु ।
मलया पव्वयहो पडेवि नट्टु ।
चंपापुरे अंगाजणवयम्मि । ५
संजाय सुकेसी सुय पियाहे ।
जियरंगवणिहे तेत्थु जे पुरम्मि ।
संजाउ पुत्तु नामे वरंगु ।
एककहिँ दियहम्मि वसंतमासे ।
सा दिट्टु बाल चंपाहिवेण । १०
सिरिदत्तसेट्टिसुय चारुदेह ।
गउ तुण्हिक्कउ पहु नियनिकेउ ।

घत्ता—एत्तहे पुज्जेप्पिणु जिणु गंपिणु निययघरे ।

अप्पिय सेस सुकेसिणु तायहो तणु करे ॥१२॥

१३

तेण वि नवजोव्वण निणुवि धूव'
पुच्छिय कहो दिज्जणु कंति कन्न
धणवंधु वंधु महु तासु पुत्तु
पडिवन्नु वयणु तं वणिवरेण
तेणेवि भणिउ वणिवइ विणीय
राउ वि ता तहिँ सयमेव आउ
सहूँ ताणु करंतहो रइविलासु
एककहिँ दिणम्मि परवलपमत्थिय
केमवि आवइ न निरंतराले
खव्भालिउ तेण वि सयलु सेन्नु

हक्कारेवि नियगेहिणि सुखुव ।
खुवेण रइ व्व सुवन्नवन्न ।
धणमित्तु देहि तं ताणु वुत्तु ।
एत्तहे पेसिउ णरु नरवरेण ।
दिज्जउ पुहईसहो नियय धीय । ५
दिन्नी सुय पाणिग्गहणु जाउ ।
वरिसाई चयारि गयाई तासु ।
आणिउ गहणाउ धरेवि हत्थिय ।
थिउ नयरसन्नवणंतराले ।
ओसररेवि परिट्टिउ मणि विसन्नु । १०

घत्ता—आयन्नेप्पिणु वइयरु णहु जयलद्धजउ ।

तहो धरणत्थु वणंतरु ताणु समेउ गउ ॥१३॥

१४

गंतूण तत्थ विरइउ उवाउ
वारिहे गणियारिहे गिरिसमाणु

नरनाहिँ दूरहो दिट्ठु नाउ ।
पेक्खेप्पिणु पइसारिज्जमाणु ।

१३. १ नियवधूव ।

महएवि सुकेसी मलउ रम्मु
 कि मुच्छिय पुच्छिय पिण्ण गंपि
 मायाए लिहावेवि पुव्वजम्मु
 एत्तहे निवेण वसि किउ करिंदु
 जो पेसिउ सिरिसुहनिहि निवेण
 दुद्धमदमु दंति दमिउ सुणेवि
 ता कहिउ तेण तुट्टा ण देव
 कि सुंदरु मलयगिरिंदनाउ
 किर साहसु पड्डयदमणे कवणु
 पुच्छेप्पिणु पिययम पालिएलु

मुच्छिय सुमरेप्पिणु पुव्वजम्मु ।
 तहो मिच्छुत्तरु दाऊण कि पि ।
 थिय पेच्छंती गयचित्तयम्मु । ५
 परिओसिउ परियणु सयणविट्टु ।
 पुच्छिउ वद्धावउ सो निवेण ।
 कि मज्झ सुकेसी तुट्टु देवि ।
 सा एउ पयंपइ सावलेव ।
 साहिउ परिओसिउ जेण राउ । १०
 निसुणेवि एउ अहिमाणभवणु ।
 गउ पहु सहुं सेत्ते मलयसेलु ।

घत्ता—सो सुरकरि व पयंडवलु लक्खणहि पसाहिउ ।

तत्थाणेय उवाय किय पर तो वि न साहिउ ॥१४॥

१५

ता रूसेप्पिणु कयविप्पिएण
 मोत्तियइँ दंतमुसलाई लेवि
 ता ताइँ गाढमालिगिऊण
 किमिणं भणंतु भग्गाणुराउ
 तहे मरणे वेरग्गागएहिँ
 जसहरमुणिपय पणवेवि दिक्ख
 बहुकाले पुणरवि सो ज्जे साहु
 गउ वंदणहत्तिए तासु राउ
 अक्खइ सुहदुक्खनिरंतराई
 कंचीपुरे गंधारहो निवासु
 सुपसिद्धु सेट्ठि वीरसिरिकंतु

माराविउ करि पुहईपिएण ।
 अप्पियइँ पियहे नियनयरु एवि ।
 मय सा हा पिय इय जंपिऊण ।
 थिउ विभियमणु खणु एककु राउ ।
 जणणीए जणेरे सुहिसएहिँ । ५
 पडिगाहिय जिणवरसमयसिक्ख ।
 आयउ हुउ केवलि तिजगनाहु
 पुच्छिउ पणवेप्पिणु वीयरउ ।
 सिरिदत्तसुयाहे भवंतराई ।
 नामेण सुदंसणु गुणनिवासु । १०
 पियदंसणु तहो सुउ रूववंतु ।

घत्ता—तहिँ जे नंदिसेट्ठिहे सुय कलकोइलरवहे ।

कित्ति नाम उप्पत्ती भज्जहि अइहरहे ॥१५॥

१६

गुणवंतहो रंजियजणमणासु
 एक्कहिँ दिणे वणमयगलु धरेवि
 तहो रूउ निएप्पिणु वणविलासु
 १५. १ अइहवहे ।

दिन्ना सा सइ पियदंसणासु ।
 आणिउ निवपुरिसहिँ वसि करेवि ।
 आयत्तेवि संजणियाहिलासु ।

सहुँ पिययमाग्र मोहियमणेण
अहिणासिउ मलग्र मरेवि जाउ
भमरिदनीलगवलंजणाहु
कित्ती वि सोयसंजणियपलय
करिवइणा तेण अणोवमाहे
सव्वावत्थासु वि साहिलासु
रत्तुप्पलदलवन्ना विणीय
रयकारिणि सुयणु गयाहिवासु

वद्धउ नियाणु पियदंसणेण ।
सुंदरु नामेण मणोज्जु नाउ । ५
गिरिगरुउ पर्यंडु पलंववाहु ।
हुय करिणि तासु नामेण मलय ।
चिरजम्मसणेहवसेण ताहे ।
दाहिणउ समप्पिउ देहपासु ।
पोमावइ वीया हत्थिणीय । १०
वामासग्र सा संचरइ तासु ।

घत्ता—ताहँ विहँ वि सो संठिउ सोहइ मज्जे किह ।

तारतंबडोंगरियहँ अंजणसेलु जिह ॥१६॥

१७

सम्माणु दाणु मलयावईहे
इय सेज्जहे तेण वसंतएण
एक्कहिँ दियहम्मि मणोहरम्मि
मयरसकणरुंठियमहुयराइँ
धुत्तेण सणेहपरिक्खहेउ
वामासग्र सा वलिऊण घित्त
दाऊण ताहे कुवलउ करेण
मलय वि अहिमाणें तं निएवि
संजाय सुकेसी एत्थु एवि

काऊण करइ पोमावईहे ।
तहिँ ताहिँ समउ रमंतएण ।
ण्हाएवि पहंकरसरवरम्मि ।
तोडेवि वेन्नि इंदीवराइँ ।
मलयावईहि संजणिउ खेउ ।
पोमावई वि दाहिणि निहित्त ।
मलयाहि दिन्नु मयणिवभरेण ।
मुय पव्वयाउ अप्पउँ घिवेवि ।
सिरिदत्तपुत्ति तुह तणिय देवि ।

घत्ता—हत्थिघरणुं पेक्खेप्पिणु रत्ते भवंतरिउ ।

हुय जाइंभरि सयलु वि वइयरु संभरिउ ॥१७॥

१०

१८

हा पेच्छह केरिसु कम्मभाउ
महु मरणें कइवि दिणाइँ दुक्खु
पोमावईग्र सहुँ कीलमाणु
सहुँ ताग्र सव्वलक्खणपसत्थु
चित्तंति एउ विच्छायवयण
ता ताहे पासु पइँ पहिउ पुरिसु

वीसरिउ महारउ पेम्मराउ ।
काऊण करीसरु सुंदरक्खु ।
अच्छइ सुहेण वर्णे विहरमाणु ।
तिह करमि जेम सो एइ एत्थु ।
जामच्छइ सा सारंगनयण । ५
आयउ परिपुच्छिउ जणियहरिसु ।

१६. १ नाउ ।

१७. १ हत्थे घरणु ।

दमियम्मि मयंगवरे मणोज्ज
ता कहिउ तेण सामिय न तुट्टु
सहुँ पोमावइयप्र कीलमाणु
साहेवि इहाणिउ कि निवेण
पड्डु वराउ साहिउ अणत्थु

किं तुट्टु सुकेसी मज्झ भज्ज ।
पच्चेलिउ जंपइ एउ रुट्टु ।
मलयायले सुंदरु करिपहाणु ।
आणंदु पणच्चमि अज्जु जेण । १०
किउ राएँ साहसु कवणु एत्थु ।

घत्ता—एउ सुणेप्पिणु पुच्छिय सा पइँ गंपि सइँ ।
केरिसु एत्थच्छंतिप्र कहिँ सो दिट्ठु पइँ ॥१८॥

१९

ता अप्पउँ ताप्र रहंतियाप्र
विज्जाहरीप्र मइँ आसिकाले
पोमावईप्र सहुँ कीलमाणु
निसुणेवि एउ रिउसाहणेण
सो ताप्र सहिउ दिट्ठु रमंतु
सक्किउ केम वि साहहुँ न जाम
ता तहो तइँ मुत्ताहल फुरंत
आणेप्पिणु दक्खालिय निएवि
हा वर्णे अच्छंतु सुहेण नाउ
मइँ पावइँ माराविउ मणोज्जु

भासिउ धुत्तीप्र हसंतियाप्र ।
दिट्ठुउ गयाप्र सो तम्मि सेले ।
करिणीप्र कुलिसकरकरिसमाणु ।
गउ तहिँ तुहुँ समउ ससाहणेण ।
करिवेसें न वीयउ कयंतु । ५
माराविउ सो पइँ हत्थि ताम' ।
मायंगवरहो मुहरुह सहंत ।
गय परमविसायहो तुज्झ देवि ।
चिरभवभत्तारु महाणुभाउ ।
कलि किय हउँ महु सिरि पडउ वज्जु । १०

घत्ता—दंतजुयलु आलिगेवि इय चित्तितियहे ।
फुट्टुउ हियउ मयच्छिहे जीविउ गयउ तहे ॥१९॥

२०

निसुणेवि एउ पुहईसरेण
एवहिँ कहिँ तहे संजाउ जम्मु
सोरट्टुविसप्र अवणीसरासु
अइवलहो मणोहरि नाम धूय
तेत्यु जि सुंदरु वि पुरोहियासु
नंदणु नामेण कुवेरकंतु
तत्येव धणामर वणिवरासु
पोमावइ जो जायउ वरंगु

पुणु पुच्छिउ जिणु सविणयसरेण ।
ता कहइ नरिंदहो निहयजम्मु ।
गिरिनयरि नयरि तुह किंकरासु ।
महएविहे सा गोरियहे हूय ।
विजयहो कुवेरदइयापियासु । ५
संजायउ चंपाहिवइकंतु ।
धणवंतहो धणदेवीवरासु
सो सिरिघरु तहो सुउ हुउ वरंगु ।

१६. १ यहाँ इतना अधिक पाठ है—'मूय निययनिवासहो निय जाम ण' ।

तहो जम्मसणेहि एक्कचित्तु
वेत्ति वि दिणदिवसयर व सहंति

संजायउ मित्तु कुवेरकंतु ।
एकत्थ रमंति भमंति थंति । १०

घत्ता—एक्कहिँ दिणे सुहिणे सुहि विच्छायाणणउ ।
पेच्छेवि पुच्छिउ' कि तुहुँ दीसहि दुम्मणउ ॥२०॥

२१

ता सिरिहरेण तहो कहिय वत्त
तुह पिय मणिकंबलु वीसरेवि
ईसावस महु पिय तं निएवि ।
हा हुयउ विरूवउ इय चवंतु
पेच्छेवि मेत्ताणी मुय मयच्छि
जायउ जाईसरु दियपहाणु
भासिउ वयंस इसाइ नडिय
मुय मलया नामें महु मणोज्ज
इय मित्तहो कहेवि सिणेहवंतु'
होएवि गहिल्लउ वुद्धिवंतु

आयन्नहि मित्त कुवेरकंत ।
..... ।
मुय पासायहो अप्पउँ धिवेवि ।
गउ तहिँ तं नियहुँ कुवेरकंतु ।
पासायहो पडिय कुवेरलच्छि । ५
संभरेवि तेण चिरभवविहाणु ।
जिह आसि मलय सिहराउ पडिय ।
तिह एवहिँ इह तुह एह भज्ज ।
कहिँ पेक्खमि सा इय चितवंतु ।
उज्जेतहो गयउ कुवेरकंतु । १०

घत्ता—तत्थ खगिदे केण वि कइवि विमोहणिय ।
दिन्न विज्ज तूसेप्पिणु तासु विउव्वणिय ॥२१॥

२२

ता एवि निवंगणे गायमाणु
दियपुत्तु निएवि मणोहरीग्र
पेसिय सहि हक्कारहुँ न एइ
अप्पिउ पडु जहिँ चिरजम्मु लिहिउ
तं पेच्छेवि मुच्छिय पडिय कन्न
एत्तहे परिहरिवि गहिल्लवेसु
पुच्छिउ ताएँ तुहुँ कि निमित्तु
ता कहिउ तेण जो जेम वित्तु
ता तहिँ कुमारि विरहेण तत्त
पुहईसरेण पुच्छेवि मंति

मलयानामेण पणच्चमाणु ।
चिरभउ संभरिउ मणोहरीग्र ।
वाउलउ अलियउत्तरइँ देइ ।
सो नेवि ताग्र तहे पुरउ निहिउ ।
कह कह वि समुट्टिय थिय विसन्न । ५
गउ सो नियभवणहो विरहसेसु ।
जाओ सि पुत्त उम्मत्तचित्तु ।
वइयर परिओसिउ तायचित्तु ।
आयन्नेवि तारिस ताहि वत्त ।
अविरोहु सयंवर रइउ भत्ति । १०

२०. १ कुच्छिउ ।

२१. १ सिणेहवंतु ।

तहिं ताग्र असेस वि परिहरेवि
गंपिणु कुवेरकंतहो विसाल

चिरभवसणेहु मणे संभरेवि ।
सहसत्ति मयच्छिग्र घित्त माल ।

घत्ता—विज्जावलेण असेस वि समरे नराहिवइ ।

तेण जिणेप्पिणु सा सइ परिणिय जणियरइ ॥२२॥

२३

विज्जावलेण सोपारनामे
सो एक्कहिं वासरे वल्लहाग्र
खयरायले पोढपयंगतेउ
तहो विज्जुमालि नामें पियाहे
तत्येव तत्ततवणीयच्छाय
मणहरि वि मेहमालिहि खगासु
तरुणाण जणियमणवयणवेय
एक्कहिं दिणे खेयर चंडवेउ
वंदहुं जिणिट्टु हरिवंसकेउ
तं पव्वयसिहरु निएवि चारु
सुमरेवि मणोहरि पुव्वपत्ति

पुरे रज्जु करंतु मणोहिरामे ।
मारिउ असणीग्र समेउ ताग्र ।
अलयाउरें राणउ चंडवेउ ।
संजायउ सुउ विज्जुल्लयाहे ।
तरलच्छि महुंरमाहवियवाय । ५
हुय तणुरुह रयवंधूपियासु ।
नामेण भणिय सा विरलवेय ।
उज्जेतसिहरु वड्डियविवेउ ।
गउ विज्जुमालिपुत्तें समेउ ।
जायउ जाईसरु खगकुमार । १०
मुच्छिउ छड्डेप्पिणु सव्व तत्ति ।

घत्ता—तेण तत्थ पन्नत्ती विज्जादेवि वर ।

मासोवासु करेप्पिणु साहिय पहयपर ॥२३॥

२४

ता तेण भणेप्पिणु पवणवेय
गंतूण ताग्र सा पुव्वजम्मु
तुहुं आसि मणोहरि रायधीय
जो विज्जुमालि विक्कममहंतु
निसुणेवि एहु चित्तितियाहे
अप्पउ पइ गोत्तु सठाउ देसु
सयणेहिं मुणेवि अणोवमाहं
अन्नोन्नसणेहे गयग्र काले
विहरंतइ नं रइरइवराइ
चिरवइरें ताइ वियारियाइ

पट्टविय विज्ज जहिं विरलवेय ।
सुमराविय भोयविलासरम्मु ।
एवहिं हुय खेयरकुलि विणीय ।
सो तुह वर आसि कुवेरकंतु ।
संजायउ जाईभरणु ताहे । ५
वुज्झिउ निववइयर निरवसेसु ।
किउ होहिं वि पाणिग्गहणु ताहं ।
एक्कहिं दियहम्मि नहंतराले ।
हिमवंतहो उवरि वहुवराइ ।
जुज्जेवि पडिसूरें मारियाइ । १०

घत्ता—कोसलविस्र अउज्झहे सायरसेणु वणि ।

घणसिरि तासु नियंविणि गुणलायन्नखणि ॥२४॥

२५

तहे गुणगणालि
सिद्धत्थनामु
नहलगगेहे
सेट्टी समुद्द—
तहो घरिणि ताहे
सुय विरलवेय
जणजणियकाम
सा दिन्न तासु
एक्कहिं दिणम्मि
अच्छंतु संतु
जुइविफुरंतु
जणजणियहिट्ठि
जिणसमयभत्तु
बंधेवि पट्टु
विणयंधरासु
मुणि मोक्खपंधु
कयपरमनिट्टु
निद्धूयराउ
हयकम्मबंधु
पोमावइ पुणु हुउ हउं वरंगु
पुणु विज्जुमालि सुहि चंडवेउ
सिद्धत्थु पुत्तु जयवइए जाउ
अच्छइ तहिं एम भणंतु जाम
वत्तीसहं मज्जे मणोहिराम
तहे गवभत्थियहो जे सच्चसंधु
सिद्धत्थहो पयपंकय नमेवि

सुउ विज्जुमालि ।
जायउ हिरामु ।
पुरि रायगेहे ।
विजओ सुहद्द ।
छणससिमुहाहे । ५
हुय निरुवमेय ।
सिरिकंत नाम ।
चिरभवपियासु ।
पासायहो सयलुवरिक्खणम्मि ।
नियदइयहे देवकहा कहंतु । १०
नहयले विज्जाहरजुयलु जंतु ।
आलोइऊण सिद्धत्थु सेट्ठि ।
जायउ जाईसरु भवविरत्तु ।
महु बालभावे उज्झियमरट्टु
पव्वइउ पासे संयमधरासु । १५
विहरंतु पुणागउ एहु एत्थु ।
गिरिधीरचित्तु चरियहे पइट्टु ।
केणावि न धरिउ अलाहु जाउ ।
महु एहु भडारउ पुव्वबंधु ।
पुणु वणिसुउ सिरिहरु सोहणंगु । २०
जायउ विज्जाहरु तरणितेउ ।
पुणु एत्थ सुकोसलु पहयपाउ ।
सहुं मायए परियणु पुत्त ताम ।
पिय सुप्पह नामें जणियकाम ।
काऊण तणूयहो पट्टबंधु । २५
हुउ सवणु सुकोसलु घरु मुएवि ।

घत्ता—तेण जे अट्टज्झाणें रोसवसेण सुय ।

मोगिल्लायले जयवइ भीसण वग्घि हुय ॥२५॥

२६

विहरंत ताउ ते तत्थ एवि
 पारणयदिवसें गय वरिसयाले
 नीसरिय गुहाहे पलंववाहु
 थिय अणसणे काउस्सग्गु देवि
 पढमं सिद्धत्थु महाणुभाउ
 गिरिधीर समाहिण्ण मुक्ककाय
 वग्घी वि सुकोसलहत्यु खंति
 निंदेवि भवट्ठिदि जिणु सरेवि
 सिद्धत्थसुकोसलपत्तियाउ
 निसुणेवि एउ जसहरु मुणिदु
 पण्ण पुत्तु घाडिवाहणु थवेवि
 सुहमइ सामंतसएण सहिउ

थिय रक्खमूले मुणि जोउ लेवि ।
 निम्मले संजाण्ण दियंतराले ।
 अग्गण्ण उवसग्गु निएवि साहु ।
 वग्घीण्ण निसुंभिय ताण्ण एवि ।
 पुणु खद्दु सुकोसलु सुद्धभाउ । ५
 सव्वट्ठे वे वि अहमिद जाय ।
 जाइंभरि हुय लंछणु नियंति ।
 गय सग्गहो सन्नासें मरेवि ।
 सुतवेण सुरत्तणु पत्तियाउ ।
 पणवेवि गंधमायणु नरेदु । १०
 संजायउ जइ जिणदिकख लेवि ।
 उप्पाण्णवि केवलु लोयमहिउ ।

घत्ता—सिहरे पंडुगसेलहो' कम्महँ करेवि खउ ।

सिरिचंद्रज्जलसासणु सासयपयहो गउ ॥२६॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ।
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंद्रपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।

[साहुसुकोसलचरिओ] इमो छयालीसमो संघी ॥

॥ संघि ४६ ॥

संधि ४७

१

ध्रुवयं—समउ धराग्र धराधरधीरउ
तो वि न गयकुमारु नियमगहो

खीलखीलियसव्वसरीरउ ।
चलिउ समाहि लहंवि गउ समगहो ॥

इह भरहखेत्ते संपयपउरे
गंधव्वदत्तदेवीहे हुउ
तेण पोयणपुरवइ दुद्धरिसु
तेण वि तहो मग्गिउ दिन्नु वरु
तहिं भमइ कुमारु निरगगलउ
दट्ठूणासत्तु मणोहरिहे
अणुदियहु सइं अणुहरइ रइ
रोसेणब्भंतरे सिमिसिमइ
गग्र काले पराइउ नेमि जिणु
संजायउ गयकुमारु सवणु
उज्जंतगिरिंदे समाहिपिउ
एत्थाउ' वियाणिवि तत्थ वणी
सव्वंगु पसारेवि जिह अजिणु

सोरट्टविसग्र वारमइपुरे ।
गुणि गयकुमारु वसुएवसुउ ।
वसु करेवि मुरारिहे किउ हरिसु । ५
सच्छदं विहरणु सोक्खकरु ।
पुरु नाइ निरंकुसु मयगलउ ।
पंगुलवणिधणहे मणोहरिहे ।
पंगुलु जाणंतु वि कि करइ ।
असमत्थु मुणेवि कालु गमइ । १०
निसुणेवि धम्मु निव्विन्नमणु ।
घोरुग्गमहातवतावतणु ।
सन्नासे मडयसेज्जाग्र थिउ ।
गउ दिट्ठु थक्कु समभावे मुणी ।
सहुं भूमिग्र पंगुलु पावमणु । १५

घत्ता—गउ अयखीलएहिं खीलेप्पिणु
निच्चलमइ समाहि पावेप्पिणु

साहु वि तारिस वियण सहेप्पिणु ।
गउ सुरलोयहो कालु करेप्पिणु ॥१॥

२

रिसि सणकुमारु वइरायजुउ
वहुवाहिहिं वाहिउ वरिससउ
तहो रज्जु करंतहो एक्कदिणे
जत्थच्छइ तत्थ महाइयउ
तहो तेएँ सयल वि पहयपहा
ता विभिएहिं संदेहहरु
कि कारणु सामिय संगमहो
१. १ पत्थाउ ।

होंतउ चक्कवइ तिलोयथुउ ।
पर तो वि न दुप्परिणामु गउ ।
सोहम्मसुरिदसहाभवणे ।
सुरु संगमनामु पराइयउ ।
संजाया तक्खणे देवसहा । ५
परिपुच्छिउ देवहिं कुलिसकरु ।
स सुतेउ दुदहरविसंगमहो ।

चिरभवे अणेण सक्के कहिउ
तेणेरिसरुवतेयसहिउ
पुणु पुच्छिउ अवरु वि एरिसउ
इंदेण भणिउ अच्छइ सुमई
नामेण सणक्कुमारु सुहउ

घत्ता—ता तं वेन्नि असद्दहमाणा
करिपुरवरु वहे जोइयजाणा

तउ अविणु वड्डमाणु विहिउ ।
ईसाणे एहु हुउ सुरमहिउ ।
कि अत्थि कोइ दीवियदिसउ । १०
नरलोपु चउत्थउ चक्कवई ।
निरुवमगुणरुयतेयविहउ ।

देवा जयजयंतनामाणा ।
आया वंभण होवि सयाणा ॥२॥

३

पेसिय पडिहारें रायहरु
अवभंगियंगु मुक्काहरणु
आलोपुवि माणमरट्टुचुया
अहिणंदिउ तेहिं धराहिवइ
वन्निउ तुहुं सक्के जारिसउ
रुवे तेएण वि पहयतमु
इय भणिवि सवइयरु कहिवि घरु
निसुणेवि एउ गव्वियमइणा
थिर थाह जाम ण्हाएवि तणु

घत्ता—ता ण्हापुवि नेवत्थइं लेप्पिणु
सिंहासणि थिएण आणंदें

दिट्टुउ परमेसरु चक्कहरु ।
पर तइवि हु तिहुयणमणहरणु ।
विभियमण नायनिवास हुया ।
भो साहु साहुजणजणियरइ ।
अहिययरु निरुत्तउ तारिसउ । ५
दीसइ न अन्नु जगि तुज्जं समु ।
चल्लिय सुर पुच्छिवि चक्कहरु ।
कि दिट्टुउ तुम्हहिं भणिउ तिणा ।
भूसेप्पिणु दरिसमि रुवगुणु ।

रायसहामंडवि वइसेप्पिणु । १०
कोक्काविय ते देवर्नरिदें ॥३॥

४

ताहिं वि आवेवि तिलोयपिउ
दट्ठूण परंपिउ धुणिवि सिरु
तुह पुव्विल्लावत्थहे ललिउ
ता तेण पसारिवि भुयजुयलु
संजाउ निमित्तु तं पि तवहो
पणविवि विणयंधरु मुणिययहं
कयच्छट्ठुववासु रायतणउ
तहो दिवसहो लग्गिवि छड्ढि जरु
सीसच्छिक्कुच्छिवेयण गरुया
तउ तासु करंतहो पहयरउ

रायाहिराउ अत्थाणि थिउ ।
संसारि न किंचि वि अत्थि थिरु ।
पुहईस तेउ रुउ वि ढलिउ ।
दिट्टुउ विच्छायउ वच्छयलु ।
ढोएप्पिणु रज्जु तणुवभवहो । ५
पडिगाहिउ भारु महव्वयहं ।
भुत्तउ हयदप्पुवकोयणउ ।
खसु खासु सासु असु सत्तिहरु ।
अवर वि कुट्टाइय जाय रुया ।
वोलीणउ धीरहो वरिससउ । १०

तवमाहप्पेण तिलीयथुया
तइ वि हु मज्झत्यभाउ धरइ

सव्वोसहिआइय रिद्धि हुया ।
पडियारु न पीडिओ वि करइ ।

घत्ता—पुणरवि सुरसहाप्र अच्छंतें
निप्पिहत्तु रोयाहयगत्तहो

इदें मुणिगुणगहणु करंतें ।
वन्निउ सणकुमारभयवंतहो ॥४॥

५

निसुणेवि एउ पुणरवि अमरा
भासिउ तुह वाहिउ अवहरहुं
बहुवयणहिं मुणिणा भणिउ वरा
तो महु अणाइकालेण हुया
किं कीरइ इयररोयहरणु
हइ तम्मि ताहँ सयमेव हई
इय भणवि पयासिउ निययगुणु
भो साहु अम्हे असमत्थ परा
तुहँ परमवेज्जु जगसंतियरु
कालेण करेप्पिणु कम्मखउ

आया ते होइवि भिसयवरा ।
भयवंत सरीरु चारु करहुं ।
जइ सच्चउ तुम्हई वाहिहरा ।
अवहरह गरुय संसाररुया ।
संसारु जे सव्ववाहिसरणु । ५
विणु कारेणण कहिं कज्जगई ।
खेलोसहेण किय दिव्व तणु ।
भववाहिसहणे तुह सत्ति परा ।
भणिऊण एउ गय तियसघरु ।
मुणि सणकुमारु निव्वाणु गउ । १०

घत्ता—बुडु नाव गंगादहु दुत्तरु
तो वि न धीरन्नित्तु आदन्नउ

पाणियपरिपूरियसोत्तंतरु ।
एणियपुत्तु समाहि पवन्नउ ॥५॥

६

आणंदनयरे आणंदु वणी
तहे पोमावइ सिरिमइ सुमइ
सत्तमिय एणलंछणवयणा
सा सायरदत्तें दिन्नरई
सुहलवखणु ताप्र तणउ जणिउ
सिक्खिउ सत्थत्थई चारुमई
एक्कहिं दिणे तोडियजम्मरिणु
आउच्छिउ आउपमाणु तिणा
आयन्निऊण निव्विन्नमई
आयमघरु एयविहारि हुउ
निम्मुक्ककसाउ समप्पपरु

तहो नंदा गेहिणि तुंगथणी ।
सुय जसमइ गुणवइ बुद्धिमइ ।
हुय एणिय नाम एणनयणा ।
परिणिय गब्भेसरि हंसगई ।
सो एणियसुउ सुहीहिं भणिउ । ५
जायउ जुवाणु जणजणियरई ।
विहरंतु पराइउ वीरजिणु ।
तं थोवउ भासिउ सम्मइणा ।
तासु जे समीवे संजाउ जई ।
कालें विहरंतु विवेयजुउ । १०
गमणत्थिउ सुरसरिपारु परु ।

घत्ता—बुडु नाव दहे जत्थारुडउ मुणिपरमेसरु तो वि न मूडउ ।
अविचलमणु समाहि पावेप्पिणु गउ मोक्खहो अंतयडु हवेप्पिणु ॥६॥

७

तह भद्वाहु गुणगणकलिउ
दूसहु सहेवि तिसभुक्खदुहं
एत्थत्थि पुंडवद्धणु विसउ
तहिं वंभणु सोमसम्मु वसइ
सोमसिरी ताप्र पुत्तु जणिउ
एक्कहिं दिणे रंजियजणमणउ
पुरवाहिरि रत्थइं चारुमई
जा ताम जयत्तयविहुरहरे
चउदहपुव्वीण चउत्थु मुणी
उज्जेंतहो चलिउ संघसहिउ

घत्ता—ता कोड्डेण तेण खेलंतें
चउदहवट्टुत्तुरुडि समारिय

८

आइट्ठु चउदहपुव्वधर
सुयकेवलि^१ सव्वहं पच्छिमउ
नाणेण वियाणेवि एउ तहिं
मग्गेवि पढणत्थु पयत्तु किउ
काऊण सव्वसत्थत्थपडु
मेल्लावेवि मायवप्पु करहो
आवेप्पिणु संसयतिमिरहरु
कमणीउ कुमारु जे चारुमई

घत्ता—थेवेण जे समइं सव्वाइं वि
उउ समग्गसुयसायरपारउ

९

गुरुगोवद्धणे अरमुत्तरए
सव्वहं पच्छिमु दुत्थिहरु

८. १ सुउकेवलि । २ भुवणु ।

मुणिवसहु मणोवलेण वलिउ ।
संपत्तु समाहिप्र सग्गसुहं ।
तहिं देविकोड्डु पुरु साइसउ ।
तहो घरिणि सइत्तणगुणवसइ ।
सो भद्वाहु नामें भणिउ । ५
गुरुविरइयमुंजनिबंधणउ ।
सहु डिंभहिं वट्टएहिं रमइ ।
निव्वुइ सिरिसम्मइ तित्थयरे ।
गोवद्धणु नामें दिव्वभुणी ।
तत्थायउ भव्वलोयमहिउ । १०

दइववसेण दियाहिवपुत्तें ।
नियवि मुणीसरेण मणहारिय ॥७॥

होसइ फुडु एहु सुवुद्धिवर ।
परमेसरु सुरनरनमियपउ ।
जाएवि जणेरि जणेरु जहिं ।
कयसवहें अप्पणु पासु निउ ।
गुरुणा पुणु पेसिउ भवणु^२ वडु । ५
अप्पाणउ कह व कह व घरहो ।
पणवेप्पिणु सिरिगुरुदिवसयरु ।
हुउ भद्वाहु निग्गंथु जइ ।

पढियइं तेणंगइं पुव्वाइं वि ।
पुज्जिउ मणुयामरहिं भडारउ ॥८॥ १०

सुरलोउ गए ।
पुव्वंगवर ।

भद्वाहु रिसि एत्थ हुओ
 ओहिणाणि तिहुवणमहिओ
 गउ विहरंतु कयाइ गुरु
 सिप्पासरिसामीवे थिओ
 चंदगुत्तराएँ नमिओ
 सहँ रिसीहिँ चरियावसरे
 तत्थ भमंतएण वियणे
 अंगणम्मि छायाबहले
 बालें बालसहावपिँ
 भयवं जहि जाहि जाहि भणिओ
 कहिँ अवत्तु सिसु मूढमई
 वारह वरिस अवरिसणउ
 दूसहदुब्भिक्खेण हया
 तेण एहु एहुउ भणइ
 एउ मुणेवि' निरुत्तु मणे
 हक्कारेवि अवरणहे तिणा
 जं होसइ तं नउ रहिओ

बहुरिद्विजुओ ।
 संघें सहिओ ।
 उज्जेणिपुरु । ५
 वणे भव्वपिओ ।
 जणु उवसमिओ ।
 पइसरिउ पुरे ।
 एक्कहिँ भवणे ।
 मंडवहो तले । १०
 पालणहिँ थिएँ ।
 गणिणा मुणिओ ।
 कहिँ वयणगई ।
 होसइ घणउ ।
 होसइ नु' पया । १५
 विंभउ जणइ ।
 गंतूण वणे ।
 मुणि गणवइणा ।
 संघहो कहिओ ।

घत्ता—न दुवालसवरिसइं वरिसेसइ
 माणुसु माणुसेण खज्जेसइ

निरु करालु दुक्कालु हवेसइ । २०
 मज्झदेसु सयलु वि नासेसइ ॥६॥

१०

पुन्नाउसु जाग्रवि किं करमि
 तुम्हे वि जाह सव्वे वि तहिँ
 निसुणेवि एउ निव्विन्नमई
 तहिँ समग्र सीसु गुणमणिखणिहे
 नामेण विसाहसूरि सगणु
 रामिल्लथूलथेराइरिया
 पणवेप्पिणु सुयकेवलिहे पया
 तहुँ मज्झे एक्कु जरजिन्नतणु
 निज्जणवणे आसन्नाउखउ
 मन्नावेवि कहमवि सपरहिउ

एत्थु जे सकज्जु हउँ अणुसरमि ।
 जलहिहे सामीवग्र देसु जहिँ ।
 नृवु चंदगुत्तु संजाउ जई ।
 दसपुव्विउ भद्वाहुमुणिहे ।
 गउ दविडविसउ संपन्नजणु । ५
 नियनियसमुदाएँ परियरिया ।
 तिन्नि वि जण सिंघूविसउ गया ।
 नामेण समंतभद्दु सवणु ।
 थक्कउ' गणि सक्कइ जाहुँ नउ ।
 निच्छंतु वि संघु तेण पहिउ । १०

घत्ता—भद्वाहु नामेण नवल्लउ
सो परेक्कु गुरुपयसेवारइ

सव्वलहुउ तद्दिक्खिउ चेल्लउ ।
अच्छिउ केमवि न गउ महामइ ॥१०॥

११

गुरुवयणें वंदेवि देवु तहो
तवमाहप्पें छट्टु दिवहे
वरमोयएहिं सहुं चोज्जकर
पेक्खेप्पिणु एप्पिणु नीरयहं
गुरुणा वि तम्मि उवओगु कउ
अन्नहिं दिणें थीरूवेण रिसी
आगउ वलेवि केमवि न थिउ
निट्ठावणु भत्तिभारभरिउ
जं दिट्ठु वियणें तं नउ रहइ
भयवंत अज्जु एककए तियए
हुउं वार वार पडु जावियउ

वणे भामरि देंतहो संजयहो ।
संखोहु जाउ वणदेवयहे ।
नीसरिउ धरहे साहरणु करु ।
विन्नविउ तेण तं गुरुपयहं ।
परियाणिउ जं होसइ पुरउ । ५
देवीए खडाविउ अप्पवसी ।
मन्नेवि अजुत्तु अलाहु किउ ।
निव्वत्तियगोचारियकिरिउ ।
पुच्छंतहो गुरुदेवहो कहइ ।
वरवत्थाहरणफुरंतियए । १०
कयसामग्गीए खडावियउ ।

घत्ता—न वियाणमि सा कवण किसोयरि
अवरेक्कल्लिय लोयविरुद्धउ

किं देवय किं माणवि खेयरि ।
तेण न थिउ समए वि निसिद्धउ ॥११॥

१२

निसुणेंवि एउ गुरु हरिसियउ
अन्नहिं दिणें गुरुवयणेण पुणु
वणदेविए तक्खणें तत्थ वरु
तहे उच्छवेण भव्वहिं नत्तिउ
भुंजेवि निरंतरु आउ तहिं
पणवेप्पिणु वइयरु अक्खियउ
एत्थेव भडारा चारु पुरु
तहिं भत्तिए भव्वहिं भावियउ
ता भल्लउ भयउ भणेवि गुरु
चइऊण समाहिए चत्तरउ

चंगउ किउ सीसु पसंसियउ ।
चरियहे पइट्ठु गिरिधीरमणु' ।
तहो कट्ठु निएवि रइउ नयरु ।
मन्नाविउ एक्कहिं भव्वणें थिउ ।
अच्छइ गुरु गहियाणसणु जहिं । ५
मइं एत्तियदियहें न लक्खियउ ।
अच्छइ वणम्मि संपयपउरु ।
हुउं दाणविहिए भुंजावियउ ।
थिउ अन्नहिं दिणें नियदेहपुरु ।
वंभुत्तरु नामें सग्गु गउ । १०

घत्ता—इयरु वि भत्तिभारसंजुत्तउ
सुद्धवुद्धि भावियरणत्तउ

अहनिसु गुरुनिसिहिय सेवंतउ ।
अच्छइ तत्थ तमोमलचत्तउ ॥१२॥

१३

वणदेवि वि निच्च नयरु करइ
पर तं न वियाणइ निव्विसउ
अच्छंतहँ ताहँ तत्थ गरुया
सव्वत्थ वि ह्य भुक्खाए पय
सावयहिँ मिलेप्पिणु भणिय जई
रंघहँ न वि जेमहँ पावियइ
तं तुम्हई जाम एहु विसमु
तामाणेवि गेहहो रयणियहे
गुणु केवलु कालुच्चित्तं कए
किं किज्जइ किज्जउ अप्पहिउ

घत्ता—एउ जइहिँ सावयजणवुत्तउ
जो कालुच्चित्तेण न चल्लए

भुंजेवि आए उवसंघरइ ।
एत्तहे गय साहु सिंधुविसउ ।
हुय दियहे दियहे दुब्भक्खरुया ।
दीसंति निरंतर रंकसय ।
हा भग्ग लोयववहारगई । ५
दिणे रंकहिँ जणु संतावियइ ।
वोलइ दुक्कालु कयंतसमु ।
वसहीहे भत्तु भुंजह दियहे ।
फलु किं पि नत्थि अट्टेण मए ।
कुसलहो तउ आगमे वि कहिउ । १०

पडिवन्नउ परियाणेवि जुत्तउ ।
तहो हुं पासु कयावि न मेल्लए ॥१३॥

१४

तहो दिवसहो लग्गेवि सव्व रिसि
गंपिणु सावयभवणाई घणे
आणेवि चरिय जिणवरभवणे
अन्नोन्नु जे सई भाणउ धरहिँ
एक्कहिँ दिणे ताम एक्कु सवणु
तत्थेक्कए बहुभयभावियहे
सहसत्ति गव्भु तं निएवि चुउ
तं पेक्खेवि गंपिणु सवणगणु
निगंथु रूवु तुम्हहँ तणउ
तं तुम्हई धवलविसालियए
वामंसि निहित्तए सोहणइ
दाहिणए करेप्पिणु दंडु करे

घत्ता—पुणु सुकाले पच्छित्तु करेज्जह

तं पि तेहिँ किउ समउ वियाणेवि गउ दुकालु लोयहो खउ आणेवि ॥१४॥

लेप्पिणु भिक्खाभायणइँ निसि ।
सव्वत्थ वि सुत्तए रंकजणे ।
देप्पिणु कवाड भुंजंति दिणे ।
तहिँ एम जाम ते नित्थरहिँ ।
भिक्खहिँ पइट्ठु निसि भीमतणु । ५
गब्भिणिहि नवल्लहे सावियहे ।
मिलियउ जणु हाहाकार हुउ ।
सावयहिँ भणिउ विणएण पुणु ।
दीसए निसिसमए भयावणउ ।
एक्केक्कए अट्टप्फालियए । १०
पच्छाइवि भिक्खाभायणइँ ।
चरियहे पइसेज्जह निसिहि भरे ।

१५

गउ दुसमु तेहिँ निच्छउ मुणिउ
लइ अट्टप्फालिय परिहरह

हक्कारेवि गणु गणीहिँ भणिउ ।
पुणरवि निगंथरूवु धरह ।

गुरुभासिउ जेहिँ न तं गणिउ
 मूढहिँ नियतित्यु पसिद्घु निउ
 पडिवज्जिउ जेहिँ तेहिँ विहिउ
 सहँ तेहिँ तओ ह्यदुच्चरिया
 विहरंत संत संपत्त तहिँ
 तेण वि ते एंत निएवि तउ
 वंदिय परिवाडिप्र धम्मधणा
 पुच्छंतहँ अक्खिउ जेम गुरु
 हउँ पुण एकल्लउ किं करमि

घत्ता—तप्पहूइ पहु तुम्ह नियंतउ
 एत्थु जे वसइ नयर दूरंतरे

इय कहेवि सव्वु जाणेवि समउ
 पच्छप्र हुउ ताहँ कहेवि पहु
 गय दूर तो वि न नियंति पुरु
 कहिँ तं तउ पुरवरुं पउरजणु
 तो तक्खणे जणमणनयणप्रिउ
 तहिँ घरे घरे दावियधम्मदिसी
 भुंजेप्पिणु ठायहो सव्व गया
 चउरंगुलरिद्धिपहावघरा
 मुणिचट्टु एककु घरे जिमिउ जहिँ
 गुरुवयणें जाम जाइ तुरिउ
 पर दिट्ठु कमंडलु आलइउ
 आवेप्पिणु वइवरु वज्जरिउ

घत्ता—निच्छउ एहु रिद्धिसंपन्नउ
 पेच्छह तेण सोक्खु संपज्जइ

अवरु वि मुहि प्रवि अत्थि चरिया
 जेणम्हइँ तेण जे आइयउ
 १६. १ कहि तं तेउ पुरु ।

लइ एउ जे चारु तेहिँ भणिउ ।
 जिणकप्पु जे विहिँ भेएहिँ किउ ।
 विरइयपच्छित्तहिँ अप्पहिउ । ५
 रामिल्लथूलथेरायरिया ।
 लहुभद्दवाहु रिसि वसइ जहिँ ।
 उट्टेविणु अन्भुत्थाणु कउ ।
 उवविट्टु सिलायलेसु सवणा ।
 संपत्तु समाहिप्र सग्गपुरु । १०
 अमुणंतु मग्गु कहिँ संभरमि ।

अच्छमि गुरु निसिहिय सेवंतउ ।
 भुंजमि तहिँ भव्वयणनिरंतरे ॥१५॥

१६

भामरिहे साहु सो लेवि गउ ।
 केमग्गप्र गच्छइ सव्वलहु ।
 पप्र पुरउ होहि पभणंति गुरु ।
 ताणाणप्र थिउ अग्गप्र सवणु ।
 वणदेविप्र पट्टणु निम्मविउ । ५
 पडिगाहिय भव्वयणेहिँ रिसी ।
 अंतरे चिक्खिल्लें लित्तपया ।
 न वि तासु परेक्कहो पावहरा ।
 वीसरेवि कमंडलु आउ तहिँ ।
 ता तत्थ ण पुरु संपयभरिउ । १०
 महुडालहे विंभिणु लइउ ।
 सव्वेहिँ वि जाणिउ सच्चरिउ ।

महरिसि दूरोसारियदुन्नउ ।
 निज्जणु वणु वि नयरु संपज्जइ ॥१६॥

१७

फुडु तेण न पय पंकहो भरिया ।
 मग्गेण एहु गुणराइयउ ।

इय भासेवि दिन्नपयाहियहिं
 लहुओ वि हु सव्वहँ गरुड हुउ
 एत्तहे उज्जेणिहे दिन्नदुहे
 विणिवाहिवि संघु संघतिलउ
 जाणेवि मायाविय चोज्जकरी
 लहुभद्दवाहु साहू वि तओ

घत्ता—एक्कहिँ मिलिय सव्व आणंदिय
 तेत्थु जे थिय सुहेण बहु वासर

१८

एत्तहे ते सम्मइमग्गचुया
 संपत्त कयाइ भमंत तहिं
 तहिँ बप्परायरायहो तणिया
 सा साविय सुयणु ताहँ तणिया
 एक्कहिँ दिणम्मि मज्झन्नभरे
 ते पइसरंत विंभियमइणा
 हले नउ परिहिउ नउ नग्गतणु
 अन्नहिँ दिणे हक्कारेवि भणिया
 लइ अद्धप्फालिय परिहरह
 नग्गतणु तेहिँ न ईहियउ
 उप्परे किउ कंवलपंगरणु
 सामलिसुएण तत्तो विहिउ

घत्ता—अवरु वि कोसंविहे ह्यधीरें
 तो वि न सलिलघडा आदन्ना

१९

वत्तीस वणीस पसन्नमुहा
 सावय जियसंसय भावभडा
 एक्कहिँ दिणे तेहिँ नियाउगई
 भासिउ भयवतें सत्त दिणा
 जमुणाणइतडे सज्झाणरया

१७. १ जोकारिउ ।

३१

जयकारिउ' सो सव्वहिँ जणहिं ।
 पावइ न किं नु जो गुणहिँ जुउ ।
 पुणरवि संजाए सुहिक्खे सुहे ।
 आगउ विसाहगणि गुणनिलउ ।
 थिर करेवि पइज्जा सा नयरी ।
 विहरंतु तेहिँ सहँ तत्थ गओ ।

भद्दवाहुनिसिहिय अहिणंदिय ।
 पुणु अन्नेत्तहिँ गय परमेसर ॥१७॥ १०

कालें पासंडिय पउर हुया ।
 सोरट्टरट्टे पुरु वलहि जहिं ।
 महएवि महासइ सामिणिया ।
 चाएणाणंदिय जणभणिया ।
 भिक्खहिँ महएविहे तणए घरे । ५
 पिय भणिय पलोइवि भूवइणा ।
 सुंदरु न तुहारउ तवसियणु ।
 फुडु एह न वित्ति सुहावणिया ।
 नग्गतणु अह परिहणु करह ।
 सयनेहिँ वि पंजलु परिहियउ । १०
 तइयहुँ हुउ सेयभिक्खुचरणु ।
 जप्पुलियसंघु मूढाहिँ महिउ ।

वूढा वड्डिएण नइपूरें ।

धीरा आराहण पावन्ना ॥१८॥

गब्भेसर इंददत्तपमुहा ।
 होंता कोसंबीपुरे पयडा ।
 आउच्छिउ केवलिणाणि जई ।
 हुय जइ मुणेवि निव्विन्नमणा ।
 पाउग्गमरणे थिय पहयरया । ५

१८. १ ललियघडा ।

1. The area of a square is 144 sq. cm.
 Find the side of the square.
 2. The area of a square is 169 sq. cm.
 Find the side of the square.

3. The area of a square is 225 sq. cm.
 Find the side of the square.
 4. The area of a square is 400 sq. cm.
 Find the side of the square.

5. The area of a square is 625 sq. cm.
 Find the side of the square.
 6. The area of a square is 81 sq. cm.
 Find the side of the square.

7. The area of a square is 100 sq. cm.
 Find the side of the square.
 8. The area of a square is 121 sq. cm.
 Find the side of the square.

9. The area of a square is 169 sq. cm.
 Find the side of the square.

10. The area of a square is 144 sq. cm.
 Find the side of the square.

संधि ४८

१

ध्रुवयं—अत्ररु वि आसि एत्थु भरहे चंपापुरे परमत्थवियारउ ।
होंतउ तवसंजमनिलउ धम्मघोसु नामेण भडारउ ॥

सो एककहिं वासरे वीयराउ
गिरिगुह मुएवि गोयरे पइट्ठु
उण्हालग्र तण्हग्र तवियकाउ
गंगायडे वडतरुतले निविट्ठु
तहो तण्हपरीसहु नियवि ताग्र
सीयलु सुयंघु जलु पियह एउ
केम वि पडिवन्नु न तेण जाम
तहिं समवसरणे तित्थयरदेउ
परमेस पियासग्र खविउ सुट्ठु
तहो ढोइउ पियउ न किं न वारि

क्यमासोवासु महाणुभाउ ।
भुल्लउ हुउ काणणे मग्गभट्ठु ।
उप्पहे किम चल्लइ हरियकाउ ।
सुरतीरिणीग्र देवीग्र दिट्ठु ।
आणेवि सुवन्नतंवालुयाग्र ।
मुणि भणिउ कुणह तण्हाहे छेउ ।
गय देवय पुव्वविदेहु ताम ।
पुच्छिउ भवकाणणजायवेउ । १०
निज्जणे वणे मइं मुणि एककु दिट्ठु ।
ता कहइ सव्वसंदेहहारि ।

घत्ता—देवि देवविज्जाहरहें रिसि आहारु न लेति निरुत्तउ ।
देवच्चण सम्मत्तु मुणिपाडिहेरु पर ताहें पउत्तउ ॥१॥

२

आयन्नवि एउ तुरंतियाग्र
सीयलु सुयंघु निम्मविउ वाउ
साहू वि सुक्कभाणे पइट्ठु
उप्पन्नउ केवलु विमलु नाणु
तहो वंदणाग्र इंदाइदेव
अंचेप्पिणु पुज्जेप्पिणु थुणेवि
साहू वि सेस कम्मइं हणेवि
अत्ररु वि चिरवइरवसेण वाउ
जलु सीउ सहेवि पमायचत्तु

सव्वण्हु णवेप्पिणु एवि ताग्र ।
वरिसाविउ पाणिउ पहयताउ ।
बलवंतु वि घाइचउक्कु नट्ठु ।
जायउ तिहुयणगुरु गुणनिहाणु ।
सहसागय सव्व गयावलेव । ५
गय नियपउ धम्मसवणु सुणेवि ।
गउ मोक्खहो धम्मु जणहो भणेवि ।
वेउव्विउ देवे पहयकाउ ।
सिरिदत्तु भडारउ सिद्धि पत्तु ।

घत्ता—आसि इलावद्धणनयरं नरवइ णयविककमसंपन्नउ ।
निज्जियारि नामें पयडु होंतउ दूरोसारियदुन्नउ ॥२॥

१०

३

आराहियजिणपयपंकयासु
 धाई वि विणयमइ वियडदंत
 फग्गुणअट्टाहियदियहो तेण
 जंतेण भणिय एत्थेव माए
 तुह रूवु जणहो जत्तागयासु
 निसुणेवि एउ जायउ अणिट्ठु
 इय निंदेप्पिणु अप्पउँ वियड्डु
 एत्तहे अट्टमदियहम्मि राउ
 पुच्छिय निरु दुब्बल काई जाय
 एत्थेव पुत्त अट्टोववासु
 जायउ तेणंगहो दुब्बलत्तु

महएवि इला ललियंगि तासु ।
 वेयालि व सा वियरालगत ।
 जिणपूज होम लाविय जणेण ।
 अच्छसु जिणिंदमहिमाणुराए ।
 लज्जणिउ अमंगलु जणइ तासु । ५
 हा मई जिणमहिमुच्छउ न दिट्ठु ।
 थिय अट्टोवासु लएवि वुड्डु ।
 जिणजत्त करेप्पिणु घरहो आउ ।
 सा कहइ नरिंदहो महुरवाय ।
 किउ मई जिणिंदपुज्जापवासु । १०
 ता तूसेप्पिणु पहुणा पउत्तु ।

घत्ता--मग्गि माइ जिणसमयरुइ जं किंचि वि पडिहासइ चित्तहो ।
 भणिउ ताए अवरट्ठु दिण किज्जउ परम पुज्ज अरहंतहो ॥३॥

४

ता राएँ ताहे निमित्तु तेण
 दससु वि दिसासु उच्छलिय वत्त
 जायरणु ण्हवणु अणवरउ पुज्ज
 महु तणिय जिणेसर जुत्त एह
 अवराई वि अट्ट दिणाई ताए
 तं ताहे तणउ पावियसमाणु
 हिमवंतपोमदहवासिणीए
 पारणयदिवहं तत्थाविऊण
 पुज्जेवि पसंसिय जणियचोज्ज
 विंभिउ जणु सयलु वि तं निएवि
 चुय पल्लाउक्खए मुक्कपाण

जिणमहिमाढत्त महुच्छवेण ।
 आयउ जणु पुणु हुय गहिर जत्त ।
 पेक्खणउ पहावण किय मणोज्ज ।
 किह भुंजमि जइ वि असक्कदेह ।
 केम वि न वि जिमिउ दिढव्वयाए । ५
 नाणेण वियाणेवि तवविहाणु ।
 सिरियादेवीए सुहासिणीए ।
 सुविहूइए सा सई ण्हाणिऊण ।
 पुणु पयडिय पट्टणे पंच चोज्ज ।
 गय तक्खणे निययनिवासु देवि । १०
 संजाय धाइ तहिँ कयनियाण ।

घत्ता--सा परियाणेवि पुव्वभउ सिविणइ एइ निच्च पुरलोयहो ।

अप्पाणउ पायडइ हउँ सिरियादेवि पुज्ज तइलोयहो ॥४॥

५

आगय उज्जाणे मणोहरम्मि एत्थच्छमि तुम्हहँ पुरवरम्मि ।
 जइ अहनिसु निच्चलु मणु धरेवि महु तणिय पडिम पुज्जह करेवि ।

तो जं मग्गह तं सव्वु देमि
 निसुणेवि एउ हरिसियमणेण
 पयडियपरमुच्छव जणमणिट्ट
 अणवरउ जत्त जणु आइ जाइ
 परमेसरि सयल वि देइ सिद्धि
 परमेसरि दिज्जउ मज्झु पुत्तु
 इय भणेवि इला वि नरिंदपत्ति

दुरियाइँ समग्गइँ खयहो नेमि ।
 काराविउ सिरियाहरु जणेण ।
 विरइय तप्पडिमहे तहिँ पइट्ट । ५
 तहो भोउ निग्रवि सक्कु वि सिहाइ ।
 इय हुय तहे सव्वत्थ वि पसिद्धि ।
 सयलुत्तमु सयलकलानिउत्तु ।
 अणुदियहु पयासइ परम भत्ति ।

घत्ता—ता पडु जाव ण बहु दिवस ताहे तणिय निएवि गरुयारी । १०

पुव्वविदेहु सयंपहहो गय तित्थयरहो पासु भडारी ॥५॥

६

पुच्छिउ पणवेप्पिणु भुवणसेव
 कहि अत्थि नत्थि किं पुत्तलंभु
 सग्गव्भुउ पुत्तु मणोहिरामु
 परिओसें एउ मुणेवि एवि
 सिरियादेवी गय नियनिवासु'
 कइवयदिणेहिँ सोहग्गरासि
 सुरु वड्डमाणु नामेण आउ
 सिरियादेवीए विइत्तु जेण

महु नयरं इलादेवीहे देव ।
 अत्थि त्ति पवोल्लिउ पहयडंभु ।
 होसइ गुणभवणु पसिद्धनामु ।
 सुमिणंतरे देविहे पुत्तु देवि ।
 आणंदिय मणे वल्लह निवासु । ५
 सुंदरु सोहम्मविमाणवासि ।
 नंदणु महएविहे गव्भे जाउ ।
 सिरिदत्तु नामु किउ तासु तेण ।

घत्ता—अवरु इलावद्धणनयरं महएविए इलाए संजणियउ ।

सयलइलहे आणंदयर तेण इलावद्धणु सो भणियउ ॥६॥ १०

७

कालेँ जंतें पत्तउ पमाणु
 किं वन्नमि सयलकलानिहाणु
 साकेयवइहे अंसुवइ नाम
 संपत्ते सयंवरसमए तेण
 पडु पंडिउ एवकु समेउ ताए
 सो सक्खि करेवि रंजियमणाहँ
 एवकहिँ दियहम्मि दुरोयरेहिँ

रुवेण परज्जियपंचवाणु ।
 कंतीए चंदु तेएण भाणु ।
 नवजोव्वण पुत्ति मणोहिराम ।
 परिणिय आणंदिय जणमणेण ।
 आयउ कणइत्तु अणोचमाए । ५
 बहुवरहँ ताहँ दोहँ वि जणाहँ ।
 कीलंतहँ कोऊहलकरेहिँ ।

वे कीरु खडिय चंचूप लेवि
अह राउ एक्क तो लिहइ नाडु

रेहाउ देइ जइ जिणइ देवि ।
ता कुविउ सत्तुजणदप्पसाडु ।

घत्ता—रडु परेज भणेवि हउ थप्पइ पडिउ महिहि कंपंतउ । १०
रायहः उवरि कोवु करेवि मुउ सुउ वणदेवत्तणु पत्तउ ॥७॥

८

एत्तहे अहियायलदलणवज्जु
एक्कहिँ दिणे चारु विचित्तदेहु
जीविउ जोव्वणु धणु सयणु इट्ठु
इय चित्तेवि पुत्तहो रज्जु देवि
वरघम्ममुणिंदसमीवे सव्वु
सव्वंसहु एयविहारि जाउ
परमेसरु नयरहो वाहरम्मि
निसि पडिमाजोएँ [तहिँ थिरेण
किउ पवणु पयंडु जलेण सित्तु

नरवइ सिरिदत्तु करंतु रज्जु ।
गयणयले विलीणु निएवि मेहु ।
वारिहरु व सयलु वि दिट्ठुनट्ठु ।
संजाउ दियंवरु दिक्ख लेवि ।
पढिऊण जिणागमु विगयगव्वु । ५
विहरेप्पिणु पुणरवि तहिँ जे आउ ।
अभावयासे सिसिरहो भरम्मि ।
थिउ नियवि मुणीसरु] वेंतरेण ।
पर तो वि न धीरहो चलिउ चित्तु ।

घत्ता—भाएवि अप्पसहाउ हुउ केवलि कम्मकलंकविवज्जिउ । १०
विहरेवि महिमंडले सुइरु गउ अजरामरपुरु जगपुज्जिउ ॥८॥

९

तह उसहसेणु निक्कंपभाउ
अइउणहु सिलायलु सहेवि साहु
नामं पज्जोउ मणोहिरामं
सो जियरिउ एक्कहिँ दिणे ससेत्तु
मयमत्तु सो वि सच्छंदु जाउ
परियणहो नियंतहो पुहइपालु
उव्वरिउ रुक्खे लग्गेवि नरिंदु
एत्तहे मुएवि वणु भयविमुक्कु
तत्थावडतडे वीसमइ जाम
नवजोव्वण कन्न कुमारि बाल

अइउणहायउ अइउणहवाउ ।
गउ मोक्खहो हुउ तेलोक्कनाहु ।
होंतउ पुरम्मि उज्जेणिनामं ।
गय धरहुँ गयउ गए चडेवि रत्तु ।
पडिखलिउ न केण वि कुविउ नाउ । ५
लेप्पिणु पइसरिउ वणंतरालु ।
गउ कहमि निरंकुसु तहिँ करिंदु ।
संपत्तु महीवइ गामु एक्कु ।
एक्काइय पाणीहारि ताम ।
सुहलक्खण मोरकलाववाल । १०

घत्ता—सा जिणामगामवइजिणमइसुय सइँ जिणदत्ता नामं ।
निएवि मणोहर पत्थिवेण मग्गिय पाणिउ पियहुँ सकामं ॥९॥

१०

ता किं चि वि वक्करु करेवि धुत्ति
अक्खिउ नियतायहो तरणितेउ
अच्छइ एत्थायउ जणियहरिसु
कोड्डेण तओ तहिं गउ जिणामु
निच्छउ सामन्नु न एहु होइ
इय चित्तेवि आणिउ नियनिवासु
भुंजेप्पिणु खणु वीसमइ जाम
आइउ आलोइउ सामिसालु

पाण्वि जलु गय गामउडपुत्ति ।
रुवेण नाइँ सइँ मयरकेउ ।
मइँ कूवि पलोइउ एककु पुरिसु ।
दिट्ठुउ नररयणु मणोहिरामु ।
परमेसरु पुहईपालु कोइ ।
सम्माणिउ तेण विवक्खतासु ।
अणुमग्गे खंधावारु ताम ।
परिओसिउ पामरलोयवालु ।

घत्ता—मग्गिय कन्न नराहिवेण तेण वि दिन्न विवाहेवि आणिय ।
बहुगुण पडिहासिय मणहो किय महएवि सुद्धु सम्माणिय ॥१०॥ १०

११

परिपालियइलु चिंतियतिवग्गु
सहुँ ताण विलासहिँ पहयसत्तु
एक्कहिँ दिणे खड्डुहिँ पडिउ नाउ
तहिँ काले रुट्टु जिणयत्त देवि
सव्वाउ ताउ परिओसियाउ
हले कम्मणवडिणु रइयरढ
न मुहुत्तु वि मेल्लइ तेण कंतु
जइयहुँ पहूइ तुहुँ आय एत्थु
वत्त वि कयावि पुच्छइ न नाहु
खले मायाविणि दुक्कियनिवासे

परिहरेवि समग्गु वि इत्थिवग्गु ।
अच्छइ अहनिसु अणुरत्तचित्तु ।
आयत्तेवि वहि नीसरिउ राउ ।
किं वाहिरे निग्गउ मइँ मुएवि ।
जंपंति पुहइपालहो पियाउ ।
तुहुँ कुट्टिण गरुई मगरदाढ ।
अच्छइ वामोहिउ मुहु नियंतु ।
तइयहुँ पहूइ जायउ अणत्थु ।
पइँ भग्गउ अम्हहँ जणियडाहु ।
जाएवउ नरयहो पइँ हयासे ।

घत्ता—जं पइँ अम्ह कएण किउ लइ तं तुज्जु वि संपइ सिद्धउ ।
अहवा जं किज्जइ परहो एइ घरहो तं एउ पसिद्धउ ॥११॥

१२

फुडु एवहिँ तुहुँ छड्डिय पिएण
निसुणेवि एउ अच्चंत कुद्ध
एत्तहे करिडु कड्ढाविऊण
कहिँ गय पिय पुच्छिय आयरेण
वारंतिहे तुहुँ गउ देव जाम

गउ मडु घरंतिहे तुज्जु तेण ।
थिय अन्नहि मंदिरे गंपि मुद्ध ।
कुंभिणिवइणा सहसाविऊण ।
ता केण वि कहिउ समच्छरेण ।
जिणयत्त कुविय तुज्जुवरि ताम ।

अन्नहिँ घरे लेप्पिणु वंभचेरु
जंपइ पुहईवइ जायखेउ
इय भणेवि निसिहे भुक्कंतसाणे
गुरुहारप्र नवमासहिँ तणूउ

थिय सुणिवि एउ निम्महियवेरु ।
जुज्जइ अम्हहँ घरे वउ ण एउ ।
घल्लाविय एक्कल्लिय मसाणे ।
तहिँ ताप्र तम्मि समए पसूउ ।

घत्ता—एत्तहे देक्करंतु सुहउ सिविणंतरे सियवसहु निरिक्खिउ । १०
सुप्पहाप्र पुहईसरेण मइमयरहरहो मंतिहे अक्खिउ । १२॥

१३

तेण वि आयत्तेवि भणिउ नाहु
जइ सिविणयसत्थु पमाणु अत्थि
सव्वाउ तओ पहुणा पियाउ
दूहवियहँ अम्हहँ ताहिँ वुत्तु
जा पिय मेल्लहिँ एक्कु वि न ताल
ता ताहि गवेसहुँ पहिउ पुरिसु
वद्धाविओ सि लक्खणहिँ जुत्तु
निसुणेवि एउ परिओसिएण
काराविउ परमुच्छउ पुरम्मि
सिविणप्र आलोइउ वसहसेणु
पुणरवि पत्थिवहो अणोवमाप्र
संजाउ अट्टवरिसिउ कुमारु

तुज्जुज्ज देव हुउ पुत्तलाहु ।
तो होइ ण मइँ भासिउ अणत्थि ।
कहे जाउ पुत्तु पुच्छावियाउ ।
पोट्टेण विणा कहिँ हूउ पुत्तु ।
तहे तणउ गवेसहिँ सामिसाल । ५
तेण वि आवेप्पिणु जणिउ हरिसु ।
जायउ जिणयत्तप्र देव पुत्तु ।
आणाविय सा पुहईपिएण ।
तिहि वारि मुहुत्ति मणोहरम्मि ।
किउ नाउ सुयहो तेँ वसहसेणु । १०
माणंतहो रइसुहु समउ ताप्र ।
पच्चक्खु नाइँ सयमेव मारु ।

घत्ता—एक्कहिँ दिणे उक्कावडणु' अवलोइवि वइरायहो आएँ ।
रायपट्टु तुह भालयले वंधमि भणिउ तणूरुहु राएँ ॥१३॥

१४

तणएण भणिउ कहि कवणु ताय
किं नरहँ सुरहँ सुहसयनिवासु
पहुणा पउत्तु नररायपट्टु
जो सग्गहो मोक्खहो पट्टु पुज्जु
वयणेण एण परिहरेवि रज्जु
रिसि होइवि एयविहारि जाउ
आयावणजोएँ सुंदरम्मि

महु वंधहि पट्टु कयाणुराय ।
अहवक्खहि मोक्खपहुत्तणासु ।
बंधमि तुह पहयाहियमरट्टु ।
सो पर तवेण वंधइ' मणोज्जु ।
किउ तेण सताएँ अप्पकज्जु । ५
विहरंतु संतु कोसंवि आउ ।
थिउ तत्थ दयावदगिरिवरम्मि ।

४८. १६. ११]

तहो तउ निएवि उज्झउ कुजोउ
तेण जे कोहेण महंतएण
चरियहे गउ मुणेवि उवासएण
एत्तहे संजउ भुंजेवि आउ
ता दीविय पाय हुआसणेण

संजायउ सावउ सव्वु लोउ ।
मणि बुद्धदासवणिउत्तएण ।
सिल तावेवि मुक्क दुरासएण । १०
जा सिलहे वलग्गइ खवियपाउ ।
किउ अप्पकज्जु सन्नासणेण ।

घत्ता—उण्हयाले सिहिसरिस सिल अहियासेवि उप्पाएवि केव्लु ।
सहुँ पज्जोएँ सिद्धि गउ वसहसेणु जायउ जगमंगलु ॥१४॥

१५

अवरु वि आयन्नह अग्गिपुत्तु
सत्तीए पहउ कोवेण उरे
कत्तियपुरि रिउवणदहणअग्गि
तहे देविहे वीरमइहे हुआउ
बंधुमई सिवसेणा पसिद्ध
ससिपह व सयंपह अवर लच्छि
छ वि एयउ देवाण वि पियाउ
पुज्जेवि तिहुयणगुरु नीरयाउ

दुद्धरवयसंयमनियमजुत्तु ।
पत्तउ समाहि रोहेडपुरे ।
होंतउ नरिंदु नामेण अग्गि ।
छह धीयउ नवकिसलयभुयाउ ।
सिरिसेणा सिरिमइ गुणसमिद्ध । ५
पुणु कित्तिय इंदीवरदलच्छि ।
नंदीसरम्मि उववासियाउ ।
आसीसहेउ तायहो गयाउ ।

घत्ता—पेच्छह कम्मवियंभियउ तिहुयणजणमणजणियच्छेरउ ।
पुहईवइ वामोहियउ रूवु निएप्पिणु कित्तियकेरउ ॥१५॥ १०

१६

कि किज्जइ कि चि वि न वि सुहाइ
विरहग्गितावतावियमणेण
जं कि पि मज्झ मंदिरं पसत्थु
जो कच्छउ कच्छउ करइ तासु
ता चवइ मंतिसामंतवग्गु
जो पालइ तरुफलु तहो जे होइ
निसुणेवि एउ सयवत्तवत्त
अघडं पि घडावइ दइउ बलिउ
गुरुहारहे तहे दोहलउ जाउ
कीलेप्पिणु तत्थ पसूय सुयणु
कित्तियइ जणिउ सुहिसोक्खहेउ

असरीरेण वि जिउ जियअराइ ।
पहुणा परिवारु पउत्तु तेण ।
तं कि महु कि अन्नहो पयत्थु ।
फलु होइ किं च अन्नहो वि कासु । ५
सुंदरु पहु तुम्हारउ समग्गु ।
एत्थत्थि न दीसइ दोसु कोइ ।
धीय वि धरणीसें किय कलत्त ।
सो नत्थि तेण जग्गे जो न छलिउ ।
सरवणवावीकीलाणुगंउ ।
हुउ नंदणु गुणवीसामु सुयणु । १०
हक्कारिउ सो तें कत्तिगेउ ।

घत्ता—पच्छा नामें वीरसिरि धीय सलक्खण अवरुप्पन्नी ।
सा सइ कोंचनराहिवहो रोहीडयपुरे परिणहुँ दिन्नी ॥१६॥

१७

अणुदियहु कुमारु कलाउ लेंतु
हुय चउदह वरिस वसंतमासे
निवकुमारहुँ सुहसंपायणाइँ
सव्वाण कएण पसंसियाइँ
आलोइऊण संजायखेउ
किं महु मायामहु नत्थि माए
ता कहिउ ताए जो ताउ तुह
निसुणेवि एउ लज्जिउ कुमारु
माणावमाणतणमणिसमाणु
तहिँ पडिमाजोएँ ठियहो तासु
पक्खालेवि तणुमलु जलपवाहु
तहिँ तप्पहूइ अज्ज वि नवन्ति

वड्डिउ नवयंदु व दिहि जणंतु ।
जणमणहरे विविहुच्छवपयासे ।
तत्थाहरणाइउवायणाइँ ।
मायामहेहिँ संपेसियाइँ ।
पुच्छइ नियमायरि कत्तिगेउ । ५
तें णाउ पसाउ पसन्नवाए ।
मायामहु सो ज्जि पसन्नमुह ।
संजायउ जइ वज्जियवियारु ।
किक्किंचगिरिं गउ विहरमाणु ।
हुय वारिविट्ठि जल्लोसहासु । १०
थिउ खोल्लठाए हुउ दहु अथाहु ।
जो ण्हाइ तासु वाहीउ जंति ।

घत्ता—एत्तहे सोयविसंतुलिय हा हा पुत्त भणन्ति विवन्नी ।
कित्थिय काणणे सिरिगिरिहे वेंतरकुले देवय उप्पन्नी ॥१७॥

१८

सो पुव्वसिणेहेँ देवयाए
संजमधरु पुरु रोहीडु आउ
कियमासखमणु भिक्खहे पइट्ठु
परियाणेवि भायरु सायराए
समियहो भुंजंतहो भमलियाहे
अच्चमणु करेप्पिणु जाइ जाम
परमेसर पाविट्ठेण एण
पत्तियह न जइ तो किं न एहु
ता राएँ रोसवसेण भक्ति
उरें पहउ ताए निम्महियमारु

तहिँ होतउ रक्खिज्जंतु ताए ।
जहिँ सो वहिणीवइ कुंचराउ ।
अत्ते उरें नियवहिणीए दिट्ठु ।
सइँ ताइँ खडाविउ नयसिराए
निवडंतु धरिउ भइणीए ताए । ५
केण वि नरनाहहो कहिउ ताम ।
माणिउ कलत्तु तुह खवणएण ।
अवलोयहि कुंकुमलित्तदेहु ।
पासायत्थेण वि मुक्क सत्ति ।
निवडिउ संपत्तु भमंधयारु । १०

घत्ता—एत्थंतरे कत्थइ गइय आय माय सुमरेवि तणुव्भउ ।

जाम नियच्छइ ताम हुउ सत्तिए पडिउ महिहे छिन्नगउ ॥१८॥

१९

तहो तहिँ अवंत्थ तारिस निएवि
 हा पडिउ हयासहे मज्झ वज्जु
 जइ तुह न समीवु मुएवि जंति
 जेणाहओ सि मुणि सुयणसेव
 सा एम भणंति रुयंति तेण
 जइ हउं तुह सुउ तुहुँ महु जणेरि
 परु केवलु माए निमित्तमेत्तु
 इय भणेवि नरेँदहो उवरि जंति

घत्ता—जहिँ निज्भर सीयर सयइँ नीवइँ जहिँ सरीर समुवज्जमि ।
 पुणु वि भणिय मइँ नेहि तहिँ जेम समाहिए पाण विसज्जमि ॥१९॥ १०

२०

ता मोरिय होइवि देवयाए
 वहलुच्छलंत सीयल तुसार
 आसासिउ तहिँ सुविसुद्धबुद्धि
 हुउ अन्नहो कहो एवड्डु धीरु
 तइयहुँ पहूइ तहिँ सामि देउ
 एत्तहे वि सहोयरि सुणेवि वत्त
 उम्मुच्छिय केम वि रायभज्ज
 हा गुणनिहि कहिँ एत्थागओ सि
 वलि किज्जउ नरवइ निव्वियारु
 हा भायर भायर पुक्करंति

निउ उवरि चडावेवि तुरिउ ताए ।
 जहिँ निवडइ सामल कविल धार ।
 गउ मरेवि साहु सव्वत्थसिद्धि ।
 परिपुज्जिउ देवहिँ तहो सरीरु ।
 किउ लोयहिँ मन्नेवि पुन्नहेउ । ५
 हा माय भणंती मुच्छ पत्त ।
 सोयइ हा एककोयर मणोज्ज ।
 हा पावेँ किह सत्तिए हओ सि ।
 किह हम्मइ महरिसि निव्वियारु ।
 खणु एककु वि थक्कइ न वि रुयंति । १०

घत्ता—ण्हाइ न धुवइ समालहइ न वि भुंजइ न विणोउ निहालइ ।
 वंधुसोयवस विमणमण देवि न अप्पाणउ संभालइ ॥२०॥

२१

तावहिँ तप्पीडए कायरेण
 मन्नाविय पिय अमुणतएण
 मइँ दुन्नयवंतेँ किउ अजुत्तु
 तुह सोएँ मज्झ महंतु सोउ

राएँ कौंचेण कयायरेण ।
 हा दुज्जणवयणुवभंतएण ।
 लइ एककसि करहि पसन्नु चित्तु ।
 महु सोएँ सोयइ सव्वु लोउ ।

इय जाणेवि सुयणु अणत्थजोउ
 पडु जाविय पहुणा इण भणेवि
 पुणु किउ अणेयपेरणविणोउ
 पहईसरेण तारिसु असेसु
 ता किं चि वि सरुहियघायरंधु
 अन्नोन्नु सिणेहालाव हूय
 सो भाउआइ नामेण दिवसु

घत्ता—एवंविह कह कहिय मई सामिकत्तिगेयहो जिणभासिय ।

अन्नारिस अन्नाणियहिँ विरएप्पिणु लोयहो उवएसिय ॥२१॥

२२

तह अभयघोसु
 छिन्नंघिपाणि
 उप्पन्ननाणु
 एत्थत्थि चारु
 तहिँ अभयघोसु
 एक्केहिँ तेण
 तल्लम्मि लद्धु
 कच्छउ लएवि
 आमुक्कु चक्कु
 सो मरेवि पुत्तु
 हुउ चंडवेउ
 कालेण राउ
 विहरेवि आउ
 वीरासणेण
 चक्केण पाणि-

मुणि मंदरधीरु विमुक्कदोसु ।
 वेयण सहेवि गुणरयणखाणि ।
 कम्मइँ हणेवि गउ परमठाणु ।
 काकंदिनामु पुरु चउदुवारु ।
 पहु नायवंतु जणजणियतोसु ।
 कीलग्र वणभूमिहि निग्गएण ।
 चउसु वि पएसु लवंतु वद्धु ।
 सम्मुहउ एंतु धीवरु निएवि ।
 कत्तरियउ कुम्महो कमचउक्कु ।
 तासु जे चिरसंचियवेरजुत्तु ।
 नामें अभयमइहे उगतेउ ।
 ससिगहणु निएप्पिणु सवणु जाउ ।
 पुणरवि तहिँ उववणे वीयरउ ।
 पेच्छेवि थिउ चिरवइरेण तेण ।
 पायहँ वि विहिय पिसुणेण हाणि ।

घत्ता—निच्चलमणु वेयण सहेवि उप्पाएप्पिणु केवलु नाणउ ।

उज्जलु सिरिचंदु सुरिदथुउ गउ परमेसरु सासयठाणउ ॥२२॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ।

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।

अट्टाहिउ सम्मतो चालीसमओ इमो संवी ॥

॥ संघि ४८ ॥

संधि ४६

१

धुवयं—पणवेप्पिणु तिहुयणगुरु रंजियविउससह ।
आहासमि गिरिधीरहो विज्जुच्चरहो कह ॥

पोमरहहो वंसे सुमणोहरे
होंतउ आसि एत्थ विक्खायउ
निरुवमरुव तासु पाडलगइ
जमदंडु व जमदंडपहाणउ
विज्जुचवलु विज्जुच्चरसन्नउ
चोरेवि चोरिण परधणसंचउ
सो निसि निच्चमेव नयरंतरे
भिणिहणंतमक्खियसयवेढिउ

वामरहाहिहाणु मिहिलापुरे ।
नं सयमेव सक्कु सग्गायउ ।
बंधुमई महएवि महासइ । ५
तलवरु तलवरविज्जवियाणउ ।
मंतंतविज्जासंपुन्नउ ।
होंतउ तेत्थ वि पउरपवंचउ ।
भमइ रमइ दिणे सुन्नहरंतरे ।
अच्छइ धुत्तु हवेप्पिणु कोढिउ । १०

घत्ता—एक्कहिँ दियहे विहावरिहे राउलु पइसेप्पिणु ।
देवदिन्नु मोहेण गउ सो हारु हरेप्पिणु ॥१॥

२

निवहो महंत चित पेक्खेप्पिणु
गंपि तेण सव्वत्थ गविट्ठउ
सत्तमदिणे मईए संभाविउ
तेण वि तत्थ तलारहो केरउ
पुणु वि विराणउ पयडिउ तक्खणे
अवरु वि इंदजालु पयडेप्पिणु

गउ आरक्खिउ पय पणवेप्पिणु ।
[तो वि न हारचोरु कहिँ दिट्ठउ] ।
पुव्वुत्तउ नरु नेप्पिणु दाविउ ।
किउ विज्जाणु रूउ विवरेरउ ।
देवविमाणागमणु नहंगणे । ५
भणिउ नराहिउ कर जोडेप्पिणु ।

घत्ता—कोढिउ हउँ भिक्खारिउ पहु देसंतरिउ ।
निच्छउ होमि न तक्करु निरवराहु धरिउ ॥२॥

३

गुलियंजणविज्जासामत्थउ
करेवि पवंचु मुणेवि अपक्खिउ
जणु जंपइ अणाहु संताविउ

विरयइ एहु अणेयावत्थउ ।
चाहइ मई मारहुँ आरक्खिउ ।
पहिउ तलारें हा माराविउ ।

जमदंडेण भणिउ मइँ कलियउ
 एम भणेप्पिणु नेप्पिणु नियघरु
 विविहपयारहिँ दंडणु सहियउ
 हा हउँ देसिउ वाहिवसंगउ
 एम भणंतु तेण अत्थाणण
 एहु नराहिव चोरु निरुत्तउ

निच्छउ एहु चोरु नउ अलियउ ।
 सेहिउ रत्तिहे पक्खसमरहरु । ५
 तो वि न तेणप्पाणउ कहियउ ।
 निरवराहु मारिज्जमि लगगउ ।
 कहिउ नरिदहो नेवि विहाणण ।
 होमि न कुसुमालेण वि वुत्तउ ।

घत्ता—ता पुच्छंतहो देप्पिणु अभयपदाणु तहो ।

हउँ लंपेक्कु निरुत्तउ तेणक्खिउ निवहो ॥३॥

१०

४

एउ सुणेप्पिणु विभियमइणा
 दूसहाउ तक्कर कहि अहियउ
 कहिउ तेण मुणिणा वावन्निउ
 तं सुमरेवि एउ अणुमेत्तउ
 ता तूसेप्पिणु पहुणा वुत्तउ
 भणिउ तेण निव एत्तिउ किज्जउ
 आयन्नेवि एउ अणुराएँ
 कहहि किमेउ दूहणनिवारउ

किह पइँ पुणरवि पुच्छिउ पइणा ।
 जायणाउ वत्तीस वि सहियउ ।
 मइँ नारइउ दुक्खु आयन्निउ ।
 मन्नेवि सहिउ कयत्थियगत्तउ ।
 [मग्गि एक्कु वरु देमि निरुत्तउ] । ५
 महु मित्तहो तलवरहो खमिज्जउ ।
 पुणु पुच्छिउ विज्जुच्चरु राएँ ।
 जायउ मित्तु तलारु तुहारउ ।

घत्ता—भणिउ तेण आयन्नहि पुहईसरु पयडु ।

अत्थि अहीरविसणु पुरु वरु वेन्नायतडु ॥४॥

१०

५

पालइ तं जियसत्तु पहू
 विज्जुच्चरु नामें तणउ
 जमपासहो निव तलवरहो
 सो जमदंडु एहु पयडु
 हउँ एउ वि एयग्गमणा
 पढहूँ समप्पिय सुंदरहो
 पढमि गंथु हउँ कल्लरहो
 एक्कहिँ वामरे एहु मइँ
 होएवउ आरक्खिण
 चोज्जु करेवउ निच्छइण

जयमइ नामें तासु वहू ।
 हुउ हउँ तहे पयणियपणउ ।
 नदणु नयविक्कमपरहो ।
 मित्तु महारउ कोडिभडु ।
 बालभावे तहिँ वे वि जणा । ५
 पियपियरहिँ पाढयवरहो ।
 एहु वि सिक्खइ तलवरहो ।
 भणिउ नराहिव जत्थ पइँ ।
 तहिँ मइँ मित्त सुसिक्खिण ।
 एण वि भणिउ अतुच्छइण । १०

होसहि तुहँ कुसुमालु जहि
इय अन्नोन्न पइज्ज किया

रक्ख करेवी मइँ वि तहि ।
विहिँ मि पढंतहिँ दिवस निया ।

घत्ता—एककहिँ दिणं निव्वेइउ देप्पिणु रज्जु महं ।

गउ जणेरु तवे संठिउ बहुनिवसुयहिँ सहं ॥५॥

६

नियअहियारु समप्पेवि आयहो
अच्छमि हउँ तहिँ रज्जु करंतउ
सामिउ नवर निरिक्कु महारउ
तेण न सोहणु एउ विचिंतेवि ।
छड्डेवि नियअहियारु इहायउ
हउँ वि एहु जोयंतु भमंतउ
एयहो बुद्धिविसेसु परिक्खउ
आणिउ जहिँ थिउ हाराइउ घणु
बुज्जेवि नियसससुउ अणुराएँ
नियनंदिणि नामे महलच्छिय

गउ जमपासु वि पंथे रायहो ।
एहु वि कोट्टवालु गुणवंतउ ।
हउँ मि एत्थ परिपंथिनिवारउ ।
गउ' महंतु महु केरउ मंतेवि ।
निव तुह कोट्टवालु संजायउ । ५
बहुकालेण एत्थु संपत्तउ ।
इय सयलु वि नियवइयरु अक्खउ ।
अप्पणउ लेवि गउ तं जणु ।
सम्माणिउ विज्जुच्चरु राएँ ।
भणिउ विवाहहि तेण वि नेच्छिय १०

घत्ता—ता तहिँ सुद्धि लहेप्पिणु मंतीसरेण नरु ।

पेसिउ तेण वि एप्पिणु दिट्ठउ पहयपरु ॥६॥

७

कहिउ सव्वु सामिय म चिरावहि
पइँ विणु कोइ वि एत्थ गुणालउ
जो तुहासि होंतउ अणुकूलउ
मंतिहिँ अप्पाइउ निसुणेप्पिणु
कोट्टवालु जमदंडु लएप्पिणु
सयल विवक्ख सपक्ख करेप्पिणु
रायसहासें सहँ वणु गंप्पिणु
विज्जुच्चरु दो दोस मुएप्पिणु

तुरिउ पयत्तु करेप्पिणु आवहि ।
नत्थि समत्थु रज्जपरिपालउ ।
सो संजाउ सव्वु पडिकूलउ ।
पहु वामरहु मामु पुच्छेप्पिणु ।
जणमणहरु नियपट्टणु एप्पिणु । ५
नियनंदणहो रज्जु ढोएप्पिणु ।
गुणनिहि गुणधरसूरि नवेप्पिणु ।
हुउ संजउ जिणदिक्ख लएप्पिणु ।

घत्ता—सव्वसत्थनिम्मायउ जायउ संघधरु ।

महि विहरंतु पराइउ तामलित्ति नयरु ॥७॥ १०

८

पंचहिँ रिसिसएहिँ परियरियउ
दुग्गादेविप्र पुरे पइसंतउ

गुणमंदिरु दूरीकयदुरियउ ।
वारिउ सवणसंधु पइसंतउ ।

जणमणनयणाणंदजणेरउ
तामुज्जाणे थाहि परमेसर
एत्यावेसहिं विविह सतामस
पेक्खेप्पिणु रउद्द रुसेसहिं
ता देवयहे वयणु अवहारिउ
पच्छिमदिसग्ग पएसे मणोहरे
वीसमंति किर जाम खणंतरु
जोइणिभूयसत्थु संपत्तउ
घोरुवसग्गु तेण आढत्तउ
मुणिगणु निसिहे समाउलचित्तउ
विज्जुच्चरु परेक्कु थिरचित्तउ

वोलइ जाम महुच्छउ मेरउ ।
मा पट्टणे पइसरहि मुणीसर ।
भूय पिसाय नाय गह रक्खसा । ५
ते तुम्हहें उवसग्गु करेसहिं ।
चप्पेवि उम्मोडहिं पइसारिउ ।
थिय सालहो समीवे अन्नंतरे ।
ताम निसायरणियरु भयंकरु ।
मुणि निएवि कोवग्गिपलित्तउ । १०
कायमेत्तमसयहिं खज्जंतउ ।
नट्ठु दिसोदिसु तं अन्नहंतउ ।
तं सहिऊण मोक्खु संपत्तउ ।

घत्ता—संवलि थालि व सिहिणा सव्वंगु वि जलिउ ।

तो वि न मणु गिरिधीरहो गुरुदत्तहो चलिउ ॥३॥ १५

९

इह भरहखेत्ते पावियपसंसे
पुहईवइ उवरिचराहिहेउ
सइ सक्कहो रइ व मणोभवासु
नंदणु अणंतवीराहिहाणु
एक्कहिं दिणे निवइ वसंतमासे
अंतेउरपुरपस्सियणसमेउ
पोमावईग्ग अमियप्पहाग्ग
वणकील करेप्पिणु सुइरु राउ
जलकील करहुं सुहदंसणाहे

सावत्थीपुरे इक्खाउवसे ।
होंतउ विवक्खवणजायवेउ ।
पोमावइ त्ति महएवि तासु ।
वरपंचसयहं पुत्तहें पहाणु ।
जणमणहरे सयणुच्छवपयासे । ५
उज्जाणवणं गउ रमणहेउ ।
सुप्पहग्ग महाविग्ग पहाग्ग ।
एयाहिं समउं वद्धाणुराउ ।
वाविहे पइट्ठु सुहदंसणाहे ।

घत्ता—मीणइरंभुव्वसिसइसहिउ फुरंतपहु ।

विविहविणोयहिं सक्कु व कीलइ जाम पहु ॥९॥ १०

ताम तत्थ महियले महाइओ
मयणवेयनामाग्ग मन्निओ
मच्चलोग्ग अन्नो न एहओ
सुणेवि एउ ईसाइओ पई

विज्जुदाढु खेयर पराइओ ।
तहो पियाग्ग निवु नियवि वन्निओ ।
नाई कामु कमणीयदेहओ ।
गंपि गेहु थविऊण तहिं सई ।

पडिनियत्तु सहसत्ति नं इला
 देवि वावि नीरंध भंपिया
 गउ खगामि नियनिलउ निक्कवो
 तहिं जे सप्पु सम्मुच्छिमो घणे
 राणियाउ सुहसयनिहाणए
 अणसणेण जिणु सरैवि मुइयउ

उद्धरेवि रोसेण गुरु सिला । ५
 उवरि लालरत्ति व्व थप्पिया ।
 मरेवि अट्टज्जाणेण पत्थिवो ।
 हुयउ मिच्छभावेण उववणे ।
 पढमसग्गि सत्थयविमाणए ।
 जलहिजीविया देव हुइयउ । १०

घत्ता—एक्कहिं दिणे सारस्सदनामु पसिद्धु जणे ।

साहु समागउ देववणोवमि' तम्मि वणे ॥१०॥

११

निसुणेवि अणंतवीरु निवइ
 पणवेप्पिणु अवहीणाणधरु
 अक्खहि कहिं ताउ महुं तणउ
 मुणिणा पउत्तु अट्टेण मुउ
 आयन्नेवि इउ दूमियमणउ
 किं भयवं चिरभवु संभरइ
 भासिउ भयवंतें इत्थु विले
 भो भो उवरिचर नराहिवई
 अज्ज वि जीवेवइ करहि मई
 तो एत्थावेप्पिणु पुव्वभवु

गउ वंदणहत्तिण चारुमइ ।
 पुच्छिउ परमेसरु मुणिपवरु ।
 उप्पन्नु भडारा बहुगुणउ ।
 वणे एत्थु जे अच्छइ सप्पु हुउ ।
 गग्गरगिरु चवइ रायतणउ । ५
 संपइ सो अरुहधम्मु करइ ।
 जइ भणहि एउ गंपिणु विउले ।
 हा हा तुह केहावत्थ हुई ।
 डज्जउ संसारु विचित्तगई ।
 सुमरेप्पिणु निच्छउ लेइ तवु । १०

घत्ता—ता तें तं किउ तक्खणे तत्थायउ उरउ ।

जाईसरु मुणिवयणें हुउ दुक्कियविरउ ॥११॥

१२

थोवाउ वियाणैवि नायवई
 पलिओवमजीविउ लोयथुउ
 तक्खणे तत्थावेवि नवेवि गुरु
 रज्जाहिसेउ नियसुयहो किउ
 अजरामरु वाहासयरहिउ
 एत्तहे जत्तहे नंदीसरहो
 नायामरु निरुवमरुवसिरी

सन्नासु करेप्पिणु धीरमई ।
 भवणामरु नायकुमारु हुउ ।
 जाणावि वि अप्पउं गयउ सुरु ।
 ताणंतवीरु तवु लेवि थिउ ।
 हुउ सिद्धु बुद्धु तिहुयणमहिउ । ५
 निव्वत्तिवि पुज्ज जिणेसरहो ।
 गउ वंदणहत्तिण मेरुगिरी ।

तहिं विज्जुदाढु सकलत्तु तेण
कहिं जाहि पाव पच्चारियउ
नाणाविहदुक्खनिरंतरए
देसूणउ पल्लाउसहो खए

जोयवि चिरवइरदिरदएण ।
वडवाणले घत्तेवि मारियउ ।
उप्पन्न पढमे नारउ नरए । १०
हुउ वग्घु तोणिमंतम्मि नए ।

घत्ता—फणिदेउ वि तत्तो चुउ कुरुवंसुव्वभवहो ।
संजायउ सुउ गयवरु विजयदत्तनिवहो ॥१२॥

१३

गुणमणिनिहि विजयादेविजाउ
वालहो जे रज्जु तहो देवि राउ
एत्तहे वि ललियभासाविसेसे
सक्कु व सुरसयसेविउ महंतु
पुव्वुत्तरदिसिहि मणोहिराम
जायववंसुव्वभउ चंदकित्ति
तहो गेहिणि वड्डारियसिणेह
जिणमइआइयउ अणोवमाए
अभयमइ ताहँ सव्वहँ लहुय
मग्गिय सा गुरुदत्तेण कन्न

गुरुहत्तु भणिउ कमणोयकाउ ।
संजायउ जइ निज्जियकसाउ ।
घणकणयसमिद्धए लाडदेसे ।
गिरि अत्थि पसिद्धउ तोणिमंतु ।
तहो अत्थि नयरि चंदउरि नाम । ५
तहिं करइ रज्जु पहु चंदकित्ति ।
छणयंदसमाणण चंदलेह ।
संजायउ सत्त सुयाउ ताए ।
तियरुवें रइ व समक्ख हूय ।
केम वि न दिन्न पिउणा पसन्न । १०

घत्ता—ता ससेन्नु सन्नज्जेवि गंपिणु पुरिसहरि ।
अमरिसवसु करिपुरवइ थिउ रंभेवि नयरि ॥१३॥

१४

एत्तहि ससिकित्ति वि अमरिसेण
संजाउ महाहउ पडिय जोह
चूरिय रहचामरछत्तदंड
पच्छाइउ गयणंगणु सरेहि
रहसुव्वभडथड नच्चिय पहूय
पवहाविय घय जंपाण जाण
तहिं तेहए भीसणे भडवमाले
माणिककडयभूसियपसत्थु
सो नहयले नेतहो नहयरासु
निच्छट्टेवि राउले पडिउ तेत्थु

निग्गउ सहुँ सेत्ते सरहसेण ।
लोहाविय हयवरगयवरोह ।
दोखंडिय सुहडहँ वाहुदंड ।
महि मंडिय सिरहिं निरंतरेहि ।
घव पाविय रक्ख पिसाय भूय । ५
उट्टिय सोणियनइ अप्पमाण ।
चक्केण छिन्न संगामकाले ।
कासु वि सामंतहो तणउ हत्थु ।
पासायहो उवरि मणोहरासु ।
अच्छइ सहुँ सहियहिं कन्न जेत्यु । १०

घत्ता—तं पेक्खेप्पिणु कारणु पुच्छिय धाइ तए ।

ताए वि कहिउ महाहवु वट्टए तुज्झ कए ॥१४॥

१५

तहिँ पडिउ निवहो कासु वि ससोहु
ता पेसेवि पुरिसु निवंगयाए
महु लग्गेवि निक्कारणु वराउ
गइ कवण लहेवी सुद्धि कत्तु
ता राएँ आयत्तेवि एउ
परिणिय गुरुदत्तेँ सायरेण
परिणेप्पिणु निवसइ तत्थ जाम
एत्थच्छइ काणणे वग्घु देव
उव्वासिउ जणवउ तेण सव्वु

एत्थाणिउ गिद्धेँ हत्थु एहु ।
जाणाविउ तायहो भयगयाए ।
मारावेवि एत्तिउ भडनिहाउ ।
मुए ग्राहु पबोहहि निययचित्तु ।
दिन्नी अभयमइ मुएवि खेउ । ५
नं रूप्पिणि हलहरभायरेण ।
केण वि आवेप्पिणु कहिउ ताम ।
पवियंभइ कुद्धकियंतु जेव ।
किउ भडसमूहु परिगलियगव्वु ।

घत्ता—तोणिमंतु गिरि गंपिणु गुरुदत्तेण तउ ।

सयलें खंधावारेँ वग्घहो वेढु कउ ॥१५॥

१०

१६

जणु नियवि निरंतरु ओसरेवि
ता तहिँ तणकट्टनिवहु छहेवि
तत्थेव विस्सदेवहो दियासु
नामेण सहिसो कविलकेसु
अच्छेवि तत्थ गुरुदत्तराउ
अभयमइए सुउ सव्वंगभद्दु
एकहिँ दिणे रंजियजणमणम्मि
अमियासवु नामें हयमएहिँ
आयरिउ [समाउ] जगप्पयासु
पणवेप्पिणु विणएँ मुणि वरिट्ठु
पुच्छंतहो तहो गणिणा वि धम्मु

थिउ सो वि गुहंतरे पइसरेवि ।
माराविउ खलु जलणें डहेवि ।
हुउ पुत्तु विस्सदेवीपियासु ।
जमदूउ नाइ थिउ विप्पवेसु ।
गउ मियपुरु पत्तु जणाणुराउ । ५
जायउ नामेण सुवन्नभद्दु ।
घरणीघरे घरणीभूसणम्मि ।
परियरियउ सत्तहिँ रिसिसएहिँ ।
गउ वंदणहत्तिए निवइ तासु ।
करिनयरनाहु अग्गए निविट्ठु । १०
कहिळण पयासिउ पुव्वजम्मु ।

घत्ता—तुहुँ उवरिचरु नराहिवु पुणु फणि फणिअमरु ।

हुउ गुरुदत्तु महीवइ एवहिँ एत्थु वरु ॥१६॥

१७

पहुपुच्छावसाणे अभयमइए
कहहि भडारा कहिँ हउँ होंती

पुच्छिउ साहु समंजसु सुमइए ।
किं किउ जिणेरिसु पइ पत्ती ।

कहइ महामुणि नवजलहरगिरु
 तुहँ पिय पारद्वियहो पहाणहो
 पइसमीवे परिपालियचरियहो
 जीवघायमहुमंसावग्गहु
 एककहिँ दिणे धरेवि खलचित्तें
 ते तइँ मोक्कलेवि उव्वारिय
 अन्नाणेण करेवि नियाणउ
 थिय उयरंतरम्मि ससिदित्तिहें

गोमइ नामें चंदउरिहिँ चिरु ।
 होंती गरुडवेय नामाणहो ।
 तहिँ समाहिगुत्तहो आइरियहो । ५
 लइउ नवेप्पिणु दुग्गइनिग्गहु ।
 आणिय तित्तिर तुह वरइत्तें ।
 तेण वि तुहँ पिट्टेवि नीसारिय ।
 मुय वाविहे घल्लेवि अप्पाणउ ।
 ससिलेहहे पुहईवइपत्तिहें । १०

घत्ता—गवभावत्थए मायरि जीवदएक्कमइ ।

हुय तें तुह सुए ताए कोक्किय अभयमइ ॥१७॥

१८

आयन्नेवि एउ महएविए सुमरेवि पुव्ववइयरो ।
 लइय जिणिंददिक्ख पुच्छिंवि पइ पणवेप्पिणु रिसीसरो ॥

गुरुदत्तो वि रज्जु सिरिदत्तहो पुत्तहो देवि संजओ ।
 अमियासवहो पासं संजायउ विसयकसायभंजओ ॥

मासोवासपक्खचंदायणएयंतरतवासिओ । ५

महि विहरंतु संतु भयवंतु महामइ महुअभासिओ ॥

आवेप्पिणु समीवे चंदउरिहे पुव्वुत्तरदियंतरे ।
 रविपडिमाए कविलदियछेत्तासन्नु ठिओ वणंतरे ॥

कविलु वि ताम तत्थ संपाइउ पेक्खेवि नत्थि वाहणी ।
 गउ पच्छिमहो नवरि नियछेत्तहो अप्पाहेवि मद्दामुणी ॥ १०

एत्थाइयहे एउ अक्खेज्जसु पुच्छंतियहे कंतहो ।
 भोयणु लेवि सिग्घु आवेज्जसु गउ तुह वइउ उत्तहे ॥

एम भणेवि गयहो खेत्तंतर पइपयभत्तिराइया ।
 तहो पिय कविल नाम मज्झन्नेए भत्तु लएवि आइया ॥

पुच्छिउ आउ एत्थु हलवाहउ कहिँ गउ वरु महारओ । १५
 गय घरु जाम किं पि न वि जंपइ थिउ मोणे भडारओ ॥

कविलु वि वडु वारु पहु जोइवि भुक्खातिसकरालिओ ।
 आयउ हलु मुएवि अवरण्हए दइयहे देतु गालिओ ॥

कि कारणु हयासे महुँ संवलु गेणहेवि णाय सइरिणी ।

पइँ भुक्खाण अज्ज हउँ मारिउ तुहुँ पच्चक्ख वइरिणी ॥ २०

घत्ता—खम करे ताण पउत्तउ मा रूसहि दइया ।

पइँ जोएप्पिणु हउँ तहिँ जाएप्पिणु अइया ॥१८॥

१६

एउ सुणेवि किंचि उवसंतें
कि पइँ खवणउ तत्थ न दिट्ठउ
गउ भणेवि हउँ एउ करेज्जसु
भणिउ ताण सो मइँ बहु वारउ
तो वि न किंचि वि चवइ भडारउ
ता वंभणिहे उवरि उवसंतउ
गंपि तत्थ जाणियपरमत्थउ
वंठिण सव्वंगु वि वेड्ढेप्पिणु
लाइउ सिहि वेयण विसहेप्पिणु
आइउ सहँ सुरेहिँ सुरसारउ

भणिय भयाउल कंता कंतें ।
कि तुह तें महु वयणु न सिट्ठउ ।
मुणि एत्तहि' पिय पढावेज्जसु ।
पुच्छिउ कहिँ गउ कंतु महारउ ।
थिउ तुण्हक्कउ मयणवियारउ । ५
वंभणु सवणहो उवरि पलित्तउ ।
पाविट्ठेण तेण भाणत्थउ ।
रिसिसिरे करिसाहारउ देप्पिणु ।
हुउ केवलि कम्माइँ हणेप्पिणु ।
थुउ भरेण गुरुदत्तु भडारउ । १०

घत्ता—मुणिमाहप्पु निएप्पिणु तारिसु उवसमिओ ।

सुणेवि पुव्वभववइयर कविलु तवम्मि थिओ ॥१९॥

२०

गीयत्थु हवेप्पिणु विहरमाणु
गउ कोंकणविसयहो विसयमुक्कु
मुउ डज्जेवि साहु न चलिउ तो वि
ता तहिँ विहाणे तुंगभडु आउ
निसि एत्थच्छंतु वि मइँ न नाउ
निदेवि अप्पाणउ तहिँ जे जलणि
तत्तो चुउ विंभे वलक्खकाउ
मारंतु पंथजणु नियवि तेण

कालंतरेण रिउसुहिसमाणु ।
वणे वल्लरु लाएप्पिणु नियत्तु ।
थिउ अच्चुयसग्गे सुरेदु होवि ।
मुणि दद्धु निएवि महाणुभाउ ।
हा किउ पाविट्ठें साहुघाउ । ५
मुउ पइसेवि हुउ सुरु सरिहे वलणि ।
संजायउ कम्मवसेण नाउ ।
संवोहिउ अच्चुयसुरनिवेण ।

घत्ता—सुमरेवि पुव्वभवंतरु [तक्खणि] विरउ हुउ ।

वणे डज्जेवि दवग्गिणु जूहाहिवइ मुउ ॥२०॥ १०

२१

पेच्छह जिणिदधम्महो पहाउ
 अट्टारहजलनिहिजीवियंति
 घणसिरियहे सेणियनिवधणाहे
 सिविणंतरे देविग्र दिट्ठु नाउ
 पुरि परियणेण सहुँ रइयसोहे
 वरिसंते विमले जले दुट्ठिणम्मि
 कीलेवग्र अत्थि पियाणुराउ
 सो अभयकुमारें चारुचित्तु
 सोहणदिणे जणमणजणियहरिसु
 सिविणग्र गउ देविग्र दिट्ठु जेण

तिरियंचु वि सुरु सहसारे जाउ ।
 पुरे रायगेहे मगहाजणंते ।
 अवइन्नु उयरं नवजोव्वणाहे ।
 पंचमग्र मासे दोहलउ जाउ ।
 आरुहेवि दुरग्र चलमहुयरोहे । ५
 महउच्छवेण गंपिणु वणम्मि ।
 चिंताविउ तं णिसुणेवि राउ ।
 पूरविउ सरेप्पिणु खयर मित्तु ।
 उप्पन्नउ धन्नउ पुन्नपुरिसु ।
 किउ गयकुमार तहो नामु तेण । १०

घत्ता—वड्डिउ जाउ जुवाणउ सयलकलाकुसलु ।

मयणु व रुवे जिणेसरपायपोमभसलु ॥२१॥

२२

एकहिँ वासरि वीरु जिणेसर
 आयन्नेवि घम्मु वित्थारें
 संचरंतु आणग्र तित्थयरहो
 पच्छिमदिसिहे दियंवरसारउ
 थिउ आयावणे जोयनिरोहें
 तन्नयराहिवेण णरसीहें
 तिन्वायउ विसहंतु नियच्छिउ
 संघहिँ काई एउ एमच्छइ

आगउ गउ तं नवहुँ नरेसर ।
 लइय दिक्ख तहिँ तेण कुमारें ।
 गउ कलिगविसयहो दंतिउरहो ।
 गयकुमार गिरिसिहरे भडारउ ।
 पणविउ गंपिणु भव्वनरोहें । ५
 विसमवइरिदाणवनरसीहें ।
 बुद्धदासु नियमंति पपुच्छिउ ।
 ता पच्चुत्तर पिसुणु पयच्छइ ।

घत्ता—एहु अणाहु समीरे सुट्ठु कयत्थियउ ।

तेणत्थच्छइ सामिय तिन्वायवे थियउ ॥२२॥

१०

२३

पुच्छिउ पुणु वि णरिदें आयहो
 भणिउ अमच्चें एत्तिउ किज्जइ
 ता पुहईसैं सो जे पउत्तउ
 तेण वि पावियरायाएसैं
 एत्तहे चरिय करेवि नियत्तउ

फिट्ठइ केम पहंजणु कायहो ।
 एयहो सिल तावेप्पिणु दिज्जइ ।
 कारावहि पडियारु निरुत्तउ ।
 सिल तावावेवि मुक्क विसेसैं ।
 तत्थारुडउ चारुचरित्तउ । ५

सो उवसग्गु सहेप्पिणु धीरउ
 देवागमणु निग्रवि उवसंतउ
 नरसीहु वि नरपालहो पुत्तहो
 रायसहासें सहुँ पव्वइयउ

गउ मोक्खहो जायउ असरीरउ ।
 जायउ बुद्धदासु जिणभत्तउ ।
 रज्जु समप्पेवि गुणगणजुत्तहो ।
 हुयउ पसिद्धु तवसि अइसइयउ ।

घत्ता—सिरिचंदुज्जलकायउ देवतिकायथुउ ।

१०

जायउ गेवज्जामरु काले कलुसचुउ ॥२३॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ।
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिग्गतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।
 पन्नासमओ संधी एसो एगूणओ भणिओ ॥

॥ संधि ४९ ॥

संधि ५०

१

सव्वंगु वि मिलियहिँ उज्जंगुलियहिँ चालणि व्व किउ धीरमणु ।
तइवि हु निरवज्जहो न वि नियकज्जहो चलिउ चिलायपुत्तु समणु ॥

मगहाविसग्र आसि गुणवंतउ
तेण सियालग्र पंथे समत्थे
मुणि गामंतरे तवधरनामउ
सिद्धउ अन्न नत्थि समभाविउ
तेण फलेण दीवे पढमित्तलग्र
कालु करेप्पिणु कोसपमाणउ
पुणु नंदणवणे सुरु तत्तो चुउ
पस्सेणियहो नरिदहो नंदणु
जणिउ चिलायग्र देविग्र जेण जे

गुणहिलु सत्यवाहि वणि होंतउ ।
गच्छंतेण समेउ ससत्थे ।
भिव्खागउ निएवि जियकामउ । ५
गुलु तिलवट्टि देवि भुंजाविउ ।
हइमवयम्मि खेत्ते सोहिल्लग्र ।
हुउ पलिआवमजीविउ माणउ
मगहामंडले रायगिहे हुउ ।
रूवे जणमणयणाणंदणु । १०
नामु चिलायपुत्तु किउ तेण जे ।

घत्ता—एक्कहिँ दिणे राएँ वद्धकसाएँ अउदायणु उज्जेणिपुरि ।
संगरि संदाणहि बंधेवि आणहि पेसिउ पज्जोयहो उवरि ॥ १ ॥

२

ता तहिँ गउरउरगपुरसामिउ
बंधेवि धरिउ सुणेप्पिणु धुत्ते
तत्थ सत्यवाहिणउ हवेप्पिणु
रोसें तेण देसु नासंतउ
आयन्नेप्पिणु पहु चित्ताविउ
जो महु वइरि धरेप्पिणु दावइ
ता चिलायपुत्ते हेराविउ
बंधेवि उज्जेणीवइ आणिउ
दिन्नउ मग्गिउ मगहाराएँ

पज्जोएण वि रणे आयामिउ ।
विजयक्खेण नराहिवपुत्ते ।
आणिउ गंपि छलेण हरेप्पिणु ।
सवलु होवि पज्जोउ पहुत्तउ ।
पट्टणम्मि पडहउ देवाविउ । ५
सो जं मग्गइ तं फुडु पावइ ।
सरे जलकील करंतउ पाविउ ।
तूसेप्पिणु नंदणु सम्माणिउ ।
पुरे सच्छंदविहारु पसाएँ ।

घत्ता—बहुकाले राणउ सुट्ठु सयाणउ घरु पुरु परियणु परिहरेवि । १०
भवसयमलहरणहो गउ तवयरणहो रज्जे चिलायपुत्तु धरेवि ॥ २ ॥

३

रज्जु करतें आवइ पाविय
 तहो अन्नाउ नियवि नयवंतहँ
 रइउ मंतु सव्वहँ मणे भाविउ
 मिलिउ परिग्गहु सयलु वि एविणु
 मायामहहो पासं जाएविणु
 रज्जभट्ठु होएवि अन्नित्तिण
 भद्दमित्तु तहो मित्तु पियारउ
 रुद्दमित्तमाउलयहो केरी
 सो परिणणहँ न पावइ अवरहो

पय चिलायपुत्तें संताविय ।
 जाउ अचित्तु मंतिसामंतहँ ।
 सेणिउ कंचिपुरहो आणाविउ ।
 नीसारिउ वाइउ चप्पेविणु ।
 काणणे विसमु कोट्टु विरएविणु । ५
 थिउ जीवइ मावइयहो वित्तिण ।
 नं रामहो लक्खणु दिहिगारउ ।
 धीय सुहइ सुहाइँ जणेरी ।
 दिज्जइ लग्गी साविय पवरहो ।

घत्ता—इय वत्त सुणेप्पिणु तत्थावेप्पिणु मेलावेप्पिणु सुहड सय । १०
 ते मड्डे हरेप्पिणु कन्न लएप्पिणु जणहो नियंतहो वे वि गउ ॥ ३ ॥

४

वत्त सुणेप्पिणु सेणियराणउ
 राउ तहिँ जाव ण हय वाहिय
 सुट्ठु वि सूरा पउर भयंकर
 तट्ठा के वि निरुद्धा बद्धा
 चप्पवि नियवि निरारिउ सेन्नहो
 एम भणेवि कुमारि वियारिय
 हूई वंतरि तहिँ जि वणंतरे
 चडिउ पलाइऊण गरुयारण

अणुलग्गउ सेणाए समाणउ ।
 गंपिणु वणपवेसि पडिगाहिय ।
 रायहँ किं करंति किर तक्कर ।
 के वि कियंतहो जंपणे छुद्धा ।
 जिह अम्हहँ तिह होइ न अन्नहो ५
 सा चिलायपुत्तें संघारिय ।
 अप्पणु पाणभएण दुसंचरे ।
 पव्वयम्मि पावणे वइभारण ।

घत्ता—मुणिट्तु भडारउ भवभयहारउ सहँ संघेण नियच्छियउ ।
 भयवेविरगत्तें पावविरत्तें तेण नवेप्पिणु पुच्छियउ ॥ ४ ॥ १०

५

कहि कहि साहु किं पि संखेवें
 ता उवएसु तासु सुहयारउ

सारवएसु कहिउ जो देवें ।
 कहिउ रिसीसैं सव्वहँ सारउ ।

तं जहा—जं इच्छसि तं नेच्छसु^१ जं पुण नेच्छसि तुमं पुरिससीह ।
 तं इच्छसु^२ जइ इच्छसि संसारमहन्नवं तरिदुं ॥

विसयाइय परभाव विसज्जहि
 सुणेवि एउ निव्वेएँ लइयउ
 धायन्नेवि थोवाउ विसेसैं
 ता सेणिउ ससेन्नु तत्थायउ
 चंगउ कियउ पसंस करेप्पिणु
 एत्थंतरे वंतरिणु निहालिउ
 भाणत्थहो सउलियणु हवेप्पिणु
 वड्डुमुंडकीडियहिँ निरंतरु

घत्ता—पयणियपाणंतउ दुक्खु महंतउ तं सहिऊण समाहिजुउ ।

सो सोक्खनिरंतरे पंचाणुत्तरे सिद्धिविमाणहर्मिदु हुउ ॥ ५ ॥

६

धन्नो जमुणावंकें वाणहिँ
 तो वि धीरु धीरेण न चत्तउ
 पुव्वविदेहे दीवे पहिलारणु
 अत्थि असोयनामु धरणीवइ
 मुहइँ वइल्लहँ दुक्खु न भावइ
 राउलरंधणाइविहिलग्गहो
 जिह पिज्जंति न कड्ढेवि वालहिँ
 इय कालें जंतेणुप्पन्नउ
 तहो उवएसिउ उसहो वेज्जे
 ता तहिँ गोउरें साहु पइट्टउ

पूरिउ रिसि राएँ अपमाणहिँ ।

दुल्लहु सिद्धत्तणु संपत्तउ ।

पट्टणि वीयसोणु सुहयारणु ।

सो सया वि किसिकम्मु करावइ ।

धन्ने मलिज्जमाणे बंधावइ ।

थण बंधावइ नारीवग्गहो ।

किज्जइ कम्महाणि मरिसालहिँ ।

वयणरोउ तहो तेणात्तउ ।

भरेण कराविउ तेण मणोज्जे ।

वीयसोयपुरवइणा दिट्टउ ।

१०

घत्ता—गुणमणिरयणायरु नामें सायरु दुत्तरभवसमुद्धरणु ।

सयमेव खडाविउ भावें भाविउ दिन्नउ भोयणु सुहयरणु ॥ ६ ॥

७

दाणपहावें वारहवरिसिउ
 कालु करेवि एत्थ विक्खायउ
 तणउ अरिट्टसेणनरनाहहो
 धन्नकुमारु भणेप्पिणु धन्नउ
 वणगउ दमिउ तेण दमदत्तउ
 बहुवीरिउ बहुवल्लेण विराइउ

रोउ नरिदहो तेण विणासिउ ।

आमलकंठे नयरि संजायउ ।

नंदिमइए महएविसणाहसो ।

कोक्किउ राएँ रुवरवन्नउ ।

जियरिउ तं जियसत्तु पउत्तउ ।

अवरहिँ न जिउ तेण अवराइउ ।

५

एयहिं गुणनामहिं सदिज्जइ
तासु सुबुद्धि नामु बहुजाणउ
सो पर धन्नकुमार भणेप्पिणु
एक्कहिं वासरे तेण सरोसें
किं महु अन्नइं अत्थि न नामइं

घत्ता—ता पहयकुबुद्धे भणिउ सुबुद्धे किं कुमार मन्नहि असुहुं ।
उत्तमकुले जायउ जइ विक्खायउ भन्नहि घन्नउ तेण तुहुं ॥ ७ ॥

८

अन्नइं तुह न घडंति अणिदहं
दुद्धमइंदियदप्पनिवारा
दुसहपरीसहेहिं न पराइय
उच्चाइयचारित्तमहाभर
निज्जियरायदोसमोहाहिय
न पुणु गयाइदमणे दमदत्तउ
न रिउपराजएण अवराइउ
सूरउ जो इंदियरिउ भंजइ
सच्चवाइ वत्तारु भणिज्जइ
एउ सुणेवि विमुक्ककसाएँ
लइ तिह करमि जेम अहिरामइं
भल्लउं वोल्लिउ वच्छ सुबुद्धि

घत्ता—एत्थंतरे अमरहिं चालियचमरहिं सेविउ संसयतिमिरहरु ।
आयउ नेमीसरु देउ जिणेसरु भव्वसरोरुहदिवसयरु ॥ ८ ॥

९

तं आयन्नेवि मणि आणंदिउ
सुणेवि धम्मु नियजम्मु चिराणउ
तिणमणिसत्तुमित्तसमचित्तउ
पेच्छह पुव्वकम्मु गरुयारउ
अह जइ लहइ कह घ तो भुत्तउ
वेयणाग्र पुरिसहो किसकायहो
पुच्छेवि वेज्जु वरोसहु दिन्नउ
हुउ सुहि सासयसिरिअणुराइउ
८. १ सह ।

सव्वत्थ वि जणेण सलहिज्जइ ।
जणणीभायरु मंतिपहाणउ ।
कोक्कइ नावरु नामु लएप्पिणु ।
भणिउ मामु दूरुज्जिभयदोसें । १०
जेण तेहिं वोत्लावहि नउ मइं ।

एयइं गुणनामाइं मुणिदहं ।
तेण भणिय दमदत्त भडारा ।
तेण भणिज्जहिं ते अवराइय ।
तेणाणंतविरिय फुडु जइवर ।
निज्जियसत्तु तेण ते साहिय । ५
न सिलासंचालणि बहुसत्तउ ।
मणुयपहुत्तणेण न महाइउ ।
पंडिउ जो मणु धम्मे निउंजइ ।
सदयभावु दायारु भणिज्जइ ।
वुत्तु हसेवि मंति जुवराएँ । १०
एयइं नाम होंति महु नामइं ।
एम होउ पडिवन्नु सुबुद्धि ।

गंपिणु समवसरणु जिणु वंदिउ ।
हुउ तित्थयरसीसु जुवराणउ ।
विहरइ संजमभारु वहंतउ ।
लहइ कहिमि नाहारु भडारउ ।
छदि होवि नीसरइ निरुत्तउ । ५
सावत्तियमायग्र तत्थायहो ।
तेणोवद्दु छदिहि छिन्नउ ।
सउरीपुरु विहरंतु पराइउ ।

तहिँ जमुणायडे जमुणावंके
थिरु थिउ पडिमाजोएँ जोइउ
रुसिवि असउणु भणेवि निरंतरु
तं सहेवि उप्पाएवि केवलु
अज्ज वि सिद्धखैत्तु तहो अच्छइ

राएं दुम्मइकुमुयमियंके ।
पारद्विहे जंतेण पलोइउ । १०
वाणहिँ पूरिउ तेण दियंवरु ।
सिद्धु वुद्धु हुउ सासउ केवलु ।
गंपि तत्थ जणु नवेवि नियच्छइ ।

घत्ता—पंचसय पहाणा जिणमयजाणा पुरे कुलालकडे धीरमइ ।

पीलिय रायाणए घल्लेवि घाणए पत्ता तो वि समाहि जइ ॥ ९ ॥ १५

१०

दक्खिणदेसि अत्थि अहिरामउ
तत्थ महीवइ वइरिवियारउ
तहो महएवि महासइ सुव्वय
मंति उवासउ नामें पालउ
अहिन्दणपहूइ विक्खाया
ताहँ मज्जे सो एक्के मुणिणा
तेण निमित्तें तेण मयंवे
रइयदियंवररुवपवंचें
तेण वि तं वइयरु अमुणंतें

पट्टणु कुंभयारकडनामउ ।
दंडउ नामें दंडहिँ सारउ ।
साविय पालियपंचाणुव्वय ।
दुज्जणु जिणमयच्छिद्दिनिहालउ ।
साहुहँ पंचसया तत्थाया । ५
वाएं मंति परज्जिउ गुणिणा ।
सुव्वयमहएवीसंवंधें ।
रोसाविउ तरनाहु दइच्चें ।
पीलाविय सयल वि रिसि जंतें ।

घत्ता—मरिऊण समाहिए हयभववाहिए गय सव्वत्थसिद्धि समण । १०

सत्तममहि पाविय पावें [भाविय] मंति महीवइ वे वि जण ॥ १० ॥

११

तह य पलीविए गोव्वरे गोट्टए
पंचहिँ रिसिसएहिँ संजुत्तउ
कुसुमउरम्मि महीयलपालउ
सुव्वय नामें सुव्वयधारी
अग्गिमु कावि सुवंधु दुइज्जउ
कविलहो सुउ तेत्थु जि चाणक्कउ
पयणियजणमणनयणाणंदहो
सुहिय राय पच्चंतनिवािसिय
दुग्गत्यह वलेण कि किज्जइ
१०. १ मुणिणा ।

मुणि चाणक्कु थियउ परमट्टए ।
डज्जंतु वि समाहि संपत्तउ ।
होंतउ आसि नंदनामालउ ।
पिययम सयलंतेउरसारी ।
मंति तासु सयडालु तइज्जउ । ५
निवसइ वंभणु गुणिचाणक्कउ ।
कावें एक्कहिँ वासरे नंदहो ।
एह वत्त एयंतं पयासिय ।
देप्पिणु तो वरि संधि रइज्जइ ।

११. १ मोट्टए ।

तं पडिवन्न वयणु पुहईसैं
वरिसैं वरिसैं एक्केक्कउ दिज्जइ

संधिय ते धणेण मंतीसैं । १०
लक्खु सुवन्नहो एम गमिज्जइ ।

घत्ता—इय जंतें कालें पुहईपालें भंडारिउ एक्कहिं दियहे ।

पुच्छिउ अम्हारण भंडायारण केत्तिउ अत्थि हिरन्नु कहे ॥ ११ ॥

१२

कहिउ तेण सामिय उन्नइयहैं
किं चि वि अच्छइ एउ सुणेप्पिणु
पट्टावेवि किंकर ल्हूसाविउ
दिणे दिणे एक्केक्कउ पेसिज्जइ
तं पेक्खेप्पिणु परिहवु पत्तइ
तुम्हहैं मज्जे नियाणहो ढुक्कइ
भत्तसराउ एहु सो भक्खउ
भुंजहि तुहैं जि तेहिं सो वुत्तउ
एम होउ भणिऊण खमेप्पिणु
तं आहारमेत्तु भुंजंतउ

कावें दिन्नु दब्बु मावइयहैं ।
नंदनरेदें सो रूसेप्पिणु ।
अंधकूवे सकुडुंबु छुहाविउ ।
कूरसराउ सपाणिउ दिज्जइ ।
कावें नियमाणुसइं पउत्तइं । ५
वइरहो वइर करहूं जो सक्कइ ।
अप्पाणहो आउक्खउ रक्खउ ।
अन्नु न बुद्धिवंतु छलइत्तउ ।
छिद्दु कराडिहे थिउ पइसेप्पिणु ।
जीविउ सो परेक्कु गयगत्तउ । १०

घत्ता—विहिं वरिसहिं चम्मट्टियसेसतणुट्टिय हुउ चंडियवेयालु जणु ।

सुणवि नत्थि बहुजाणउ मंतिपहाणउ चलिउ चोरु मावइयजणु ॥ १२ ॥

१३

आयन्नेवि जणवउ संताविउ
गुणु सुमरेप्पिणु भल्लउ भाविउ
किउ आरोग्यसरीरु पसत्थहिं
ता पुहईसरेण मंतीसरु
तेण वि मग्गिउ मइं परमत्थें
लद्धवरेण वियाणियमंतें
अहनिसु नंदनामु चित्तंतें
दियडिंभिहिं सुइसत्थ भणंतउ
सुत्तकंठु चाणक्कु नियच्छिउ

किं किज्जइ नरिंदु चित्ताविउ ।
मन्नावेवि कावि कड्ढाविउ ।
वेज्जहिं दिन्नवरोसहिं पत्थहिं ।
भणिउ खमाविऊण मग्गहि वरु ।
तुह घणु नउ देवउं सइं हत्थें । ५
पुत्तकलत्तसोयसिहितत्तें ।
एक्कहिं वासरे पुरवहि जंतें ।
दब्भसूइमूलाइं खणंतउ ।
किं खणहु त्ति सविणएँ पुच्छिउ ।

घत्ता—बहुबुद्धिवियप्पें [भणिउ सदप्पें] एह वियारियपायतल । १०

मइवर दुहइइय दब्भहो सूइय अच्छमि तेण खणंतु खल ॥ १३ ॥

१४

एउ सुणेप्पिणु कावें भणियउ
 पभणइ वंभणु तं ण खणिज्जइ
 सो नउ निच्छएण मारिज्जइ
 तेण खणंतु मुयमि तावन्नउ
 अन्नु न एवंविहु मइँ जाणिउ
 एँ होंतेण कज्जु पाविज्जइ
 इय चित्तेप्पिणु गंषि विसालहो

हो पुज्जइ छंडह वहु खणियउ ।
 जं नउ मूलहो उप्पाडिज्जइ ।
 जासु न सिरसयवत्तु लुइज्जइ ।
 निम्मूलुक्खय कय जावन्नउ ।
 अत्थि जयम्मि गोहु अहिमाणिउ । ५
 निच्छउ नंदकुलवखउ किज्जइ ।
 लिहिउ सिलोउ तेण दियसालहो ।

शक्यमेकसहस्रेण नीतिशास्त्रविशारद ।

व्यवसायद्वितीयेन जेतुमेनां वसुंधराम् ॥

चाणक्केण कयाइ निएप्पिणु

लिहियउ अन्नारिसउ करेप्पिणु । १०

शक्यमेकशरीरेण नीतिशास्त्रविशारदे त्येवमादि ।

निग्रवि एउ आणंदिउ मइवरु
 नायउ जा ता निसिहे धिवाविउ
 लइया ते आणंदियमइयग्र
 कयग्र कुडुंवहो एत्तिउ किज्जउ

सइँ सभज्जु आमंतिउ दियवरु ।
 दम्मसहसु पंगणे पुंजाविउ ।
 भणिउ भट्टु भज्जइँ जसमइयग्र ।
 नाह नरिदपतिग्गहु लिज्जउ । १५

घत्ता—केमवि पटु जाविउ पुणु जाणाविउ वंभणीग्र मंतीसरहो ।

तेण वि निसुणेप्पिणु चारु भणेप्पिणु दिन्नवएसु नरेसरहो ॥ १४ ॥

१५

सामिय सुरहिलक्खु जइ दिज्जइ
 अवणीवइणा मंति पउत्तउ
 ता लहु तेणेक्केक्क पहाणा
 सहँ चाणक्कु तेहिँ पइसारिउ
 सो वि सव्व अगणेप्पिणु सोत्तिय
 उवयरणहिँ अहिमाणें जेट्टउ
 कावें मणे उवाउ परिभाविउ
 पभणइ नंदु विप्प विक्खाया
 एक्कहिँ वइसरंतु तुहँ भव्वइँ
 एम भणंतएण रोसाविउ

तो अमराहिवपउ पाविज्जइ ।
 मेलावहि दिय देमि निरुत्तउ ।
 मेलाविय वंभण वहुजाणा ।
 सव्वपहाणासणे वइसारिउ ।
 कुंडिय भिसिय मणेत्तिय छत्तिय । ५
 रंघेवि सव्वासणइँ वइट्टउ ।
 सन्नग्र कासु वि पासु भणाविउ ।
 वंभण कि न नियच्छहि आया ।
 थिउ आसणइँ निरंभवि सव्वइँ ।
 आसणु तें एक्केक्कु मुयाविउ । १०

घत्ता—अवरेणावेप्पिणु भिउडि करेप्पिणु उट्टि भणिउ जसमइहे वरु ।
अग्गासणे राणउ भणइ पहाणउ वइसेसइ बंभणु अवरु ॥ १५ ॥

१६

तुहुँ केणाणिओ सि लहु नीसरु
एम भणंतहो तहो आरुहियउ
नीसारिउ कोवे कंपंतउ
जसु रज्जेण कज्जु सो आवउ
ता रज्जत्थिउ नंदहो केरउ
पुट्टिहे लग्गउ तं लेप्पिणु धणु
तहिँ कइवयदिवसाँ वसेप्पिणु
अहनिमु तत्थ वि माणिउ मत्तउ
ताम कहिउ केण वि आवेप्पिणु
बुद्धिमंतु जलदुग्गे पइट्टउ
तं निसुणेवि तेण आणाविउ
नंदकंदउप्पाडणचित्तहो

घत्ता—ता तत्थच्छंतें विरइयमंतें मेलावेप्पिणु मावइया ।
चाणक्केँ ठक्कुरनंदहो किकर सयल वि उवयारहिँ लइया ॥ १६ ॥

१७

भेउ करेवि नंदु नीसारिउ
रज्जसोक्खु ससिगुत्तहो दिन्नउ
अप्पणु पडिगाहिउ मंतित्तणु
भुंजेवि सोक्खु सुइरु निव्विन्नउ
गुरुणा मइवरणामि दिक्खिउ
सीसहिँ पंचसयहिँ परियरियउ
महि विहरंतउ दक्खिणदेसहो
तहिँ कोंचउरहो पच्छिमभायण

घत्ता—कोंचउरहो राणउ सक्कसमाणउ वसुमित्तउ वसुमइरमणु ।

गउ तत्थ मुणिदहँ तिहुयणवंदहँ वंदणहत्तिण सुइयमणु ॥ १७ ॥ १०

१८

एत्तहे नंदमरणे भयभरियउ
तत्थावेप्पिणु थिउ द्दमियमणु

मंति सुबंधु नामु नीसरियउ ।
पत्तउ गुणाहिँ रायमंतित्तणु ।

[गंपि दुवारि चिट्ठ निरु नीसरु ।]
तेण वि रूसेप्पिणु गले गहियउ ।
गउ पुरवाहिरु एम भणंतउ ।
नंदवंसवुच्छेउ विहावउ ।
चंदगुत्तु नामें दासेरउ । ५
गउ चाणक्कु णंदमारणमणु ।
पुणु थिउ जलहिमज्जे पइसेप्पिणु ।
जामच्छइ उवाउ चितंतउ ।
वणरायहो सीहहो पणवेप्पिणु ।
अच्छइ पुरिसु एककु मइँ दिट्टउ । १०
आयन्नवि वइयरु मणे भाविउ ।
किउ कज्जत्थिएण आयरु तहो ।

पहुणा समउ सो वि तत्थायउ
चित्तु एहु सो दुन्नयगारउ
लइउ रज्जु पुरु देसु रवन्नउ
एवहिं दुज्जणु रज्जु मुएप्पिणु
जं भावइ तं होउ निरुत्तउ
इय चित्तेवि थिउ मोणु करेप्पिणु
पंच वि सय सवणहं पुज्जेप्पिणु
गए नरिदे हुए सूरत्थमणए
सयल वि रिसि करिसं पूरावेवि
तारिसु तं उवसग्गु सहेप्पिणु
धीरधीरु गुरुगुणहिं गुरुक्कउ

मुणि निएवि संजायकसायउ ।
मारिउ जेण सामि अम्हारउ ।
देसचाउ एणम्हहं दिन्नउ । ५
पेच्छह थिउ खवणउ होएप्पिणु ।
कहिं महु अज्जु जाइ जीवंतउ ।
ता पुहईवइ घम्मु सुणेप्पिणु ।
गउ निलयहो नवयारु करेप्पिणु ।
संज्जासमए रयणिआगमणए । १०
गउ हयासु सो सिहि लावावेवि ।
सहुं सीसहिं समाहि पावेप्पिणु ।
गउ सव्वट्टहो मुणि चाणक्कउ ।

घत्ता—पावक्खयगारी भव्वपियारी अच्छइ पच्छिम तहो पुरहो ।

अज्जवि रिसिसंघे सुयणसलग्गे वंदिज्जइ निसिहीय तहो ॥१८॥ १५

१९

तह उसहसेणु संघे समेउ
डज्जंतु वि निच्चलु नं गिरिदु
एत्थत्थि दक्खिणावहे गुणालु
तहिं पुहईवइ वइसवणनामु
एक्कहिं विणे दूरज्जिभयपमाउ
गउ वंदणहत्तिए तासु राउ
संघाहिवेण जिउ दुट्टभाउ
एप्पिणु पज्जालिय वसहि रत्ति

वसहीए पलीविए पहयखेउ ।
मुणि मरेवि समाहिए हुउ सुरिदु ।
अंधाण देसि पट्टणु कुणालु ।
तहो मंति रिद्धिमिच्छत्तु नामु ।
रिसि उसहसेणु नामेण आउ । ५
किउ मंतिहिं असहतेण वाउ ।
अच्चंत विलक्खउ तेण जाउ ।
मुउ मुणि मुएवि रुद्धत्तत्ति ।

घत्ता—सहुं सीसहिं धीरउ दड्डसरीरउ सिरिचंदुज्जलदेहपहु ।

सग्गम्मि सयारए सुहसयसारए उसहसेणु हुउ देवपहु ॥१९॥ १०

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।

पन्नासमो समत्तो संघी कवचाहियारो यं ॥

संधि ५१

१

ध्रुवयं—लेप्पिणु पच्चक्खाणु जो मरणे वि न भंजइ ।

सो सप्पुरिसु अवरस्स सोक्खपरंपर भुंजइ ॥

सव्वण्हु सिद्ध केवलि महग्घु
क्रियपच्चक्खाणहो भंजणाउ
जे भग्गु न पच्चक्खाणु लेवि
विण्णाडविसग्र पुरु अत्थि चारु
तहिँ सिरिमइमहएवीवरासु
सुंदरमइ सल्लवईयनामु
तहो सिरियादेवि पसिद्धनाम
नाणालंकारफुरंतकाय
आसाढहो सियपक्खंतरम्मि
सहुँ परियणेण भोयणु करेवि
गुरुपासु लेहुँ पंचमिविहाणु

सहसक्खि करेप्पिणु सव्वु संघु ।
वर मरणु मणूसहो जीवणाउ ।
कह निसुणि तासु आलसु मुएवि । ५
नामेण तलाडवि विहबसारु ।
सिवपडिवक्खहो पुहईसरासु ।
मंतीसरु सावयसीलधामु ।
गेहिणि गुणवसइ मणोहिराम ।
सा सइ सिरिपालकुमारमाय । १०
अवरण्हि चउत्थीवासरम्मि ।
सियसिचइँ परिहेवि पंगुरेवि ।
गय जत्थ जिणालउ पुन्नठाणु ।

घत्ता—भामरि देवि तिवार पुज्जेवि देउ थुणेप्पिणु ।

गुरुभत्तिग्र वसुपालु सूरि ससंघु नवेप्पिणु ॥ १ ॥ १५

२

पंचमिउववासहो सविणयाग्र
गुरुणा वि सक्खि जिणु मुणि करेवि
पडिगाहियपंचमिवयपइज्ज
जो पंचमीहे पइँ भव्वमहिउ
आयन्निवि एउ हसंतियाग्र
एवं होउ त्ति पउत्तु पुत्त
इय भासिवि दुत्थियदुक्खहरहो
मज्झसमग्र पंचमिहे पुत्तु
तेणुत्तउ कल्लग्र भोक्खहेउ
ता केम माग्र भोयणु करेमि
जणणीग्र वुत्तु जणजणियपणय

ता मग्गिउ पच्चक्खाणु ताग्र ।
दिन्नउ चउविहु वि समुच्चरेवि ।
सिरिपालकुमारें भणिय इज्ज ।
सो मइँ वि माग्र उववासु गहिउ ।
तहो ताग्र नियमु अमुणंतियाग्र । ५
किउ चारु सलक्खण विणयजुत्त ।
गय मुणि पणवेप्पिणु सुयणु घरहो ।
लइ आवहि जेमहि ताग्र वुत्तु ।
उववासु लइउ मइँ पइँ समेउ ।
गुरुसक्खि लइउ वउ परिहरेमि । १०
तं वक्करेण मइँ भणिउ तणय ।

घत्ता—तेण भणिउ सव्वण्हु सिद्ध साहु देवय पुरु ।

अप्पउँ सक्खि करेवि निच्छउ लइउ न वक्करु ॥ २ ॥

३

तं पच्चक्खाणु पसन्नवाप्र
निसुणेवि एउ चितापवन्न
अत्यमिप्र सूरं तण्हादुहाहिं
संजाउ डाहु सोसिउ सरीरु
दाहोवयारु कीरइ समग्गु
दाविउ रवि वाहिरि करेवि भेउ
जणणीप्र जणेरें भणिउ वप्प
उट्ठुट्ठि वच्छ पूरिय पइज्ज
पभणइ कुमारु पयईप्र सूरु
वेयारहि किं मई जाणमाणु
अम्हई जणेर खत्तियकुमार

मरणे वि न भंजमि सच्चु माप्र ।
पिय मायरि होएप्पिणु विसन्न ।
पीडिउ कुमारु दावियदुहाहिं ।
मज्जायहो तो वि न चलइ धीरु ।
पर तो वि निरारिउ तवइ अंगु । ५
पइसारिउ जालिगवक्खि तेउ ।
रवि उइउ नियच्छहि दिढवियप्प ।
लइ देउ नमंसहि पियहि पेज्ज ।
अज्जवि न ताय उग्गमइ सूरु ।
कहिं अद्धरत्तसमयम्मि भाणु । १०
अहिमाणिय कुलगुणकित्तिसार ।

घत्ता—नासिज्जइ संगामे जं लेप्पिणु वउ भज्जइ ।

आयहिं विहि मि कमेहिं सुट्ठु लोप्र लज्जिज्जइ ॥ ३ ॥

४

जइ जियमि विहाणप्र ता पवित्ति
इय भणेवि पवित्ति परमदेउ
अगणंतु महंतु सरीरडाहु
जणणेण निएप्पिणु तासु गाहु
गणिणा पउत्तु उग्गमिउ भाणु
मज्झसमउ वट्टइ पवित्तु
पूरिय पइज्ज निट्ठाहजुत्त
वा तेण पणामियमत्थएण
मई जाणिउ तुम्हहिं होतएहिं
साहेसमि पच्चेल्लिउ रउद्दे
इय भणेवि होवि संथारसाहु
मुउ गउ कुमारु पंचमउ सग्गु

इयरहें आहारहो महु निवित्ति ।
भायंतु चित्तं वड्ढियविवेउ ।
जलमज्जे नाई थिउ दिहिसणाहु ।
हक्कारिवि निय रयणिहिं जे साहु ।
सिरिपाल पलोयहि हुउ विहाणु । ५
अम्हे वि आय भिक्खानिमित्तु ।
लइ उट्ठहि करि पारणउ पुत्त ।
गुरु भणिउ कयंजलिहत्थएण ।
परलोउ कुवुट्ठिकयतएहिं ।
पाडह मई तोलेवि भवसमुद्दे । १०
दूसहु सहिऊण सरीरडाहु ।
पर तो वि न पच्चक्खाणु भग्गु ।

४. १ सिक्खानिमित्तु ।

घत्ता—तुहँ वि तेम थिर थाहि पच्चक्खाणु म भंजहि ।
रयणत्तउ भावेवि तुहँ अणंतु अणुहुँजहि ॥ ४ ॥

५

पुरिसा आहारनिमित्तु एत्थ
कुलजाय वि दुक्कम्मइँ कुणंति
देसम्मि पसिद्धए दक्खणम्मि
पहु विजयाइच्चु जियारिविंदु
सावउ विसुद्धसम्मत्तवंतु
तहो तहिँ कयाइ दुब्भिविख जाए
मज्झन्नसमए वंदेवि देउ
नरु एककु जुवाणउ रायउत्तु
लहु एवि छुहावससमियगत्तु
वारंतहो सेट्ठिहे कवलु तेण

अहिमाणि पसिद्ध वि गुणि समत्थ ।
लज्जंति ण उच्छिट्ठाइँ खंति ।
पुरि किंसु उणो सुत्थियजणम्मि ।
तहो नम्मवाइ नामे वणिंदु ।
गुणवंतु वसंघरिघरिणिवंतु ।
भुक्खाए कयत्थिए जणणिकाए ।
जेमंतहो सुहिसयणहिँ समेउ ।
लक्खणगुणजोव्वणरुवजुत्तु ।
लगगउ भायणए मुएवि सत्तु ।
उच्छिट्ठहो भरिउ मरंतएण । १०

घत्ता—भणिउ वणिंदे भइ थिर हो करक्कम धोएवि ।
जेमहि सहँ अम्हेहिँ अह एककल्लउ होएवि ॥ ५ ॥

६

अच्चये वि सुणेवि वणिंदवाय
सहसत्ति भिन्नभायणे वइट्ठु
सहँ सेट्ठे संभासणु करेवि
हा हा विरुयउ किउ मइँ भणेवि
सावएण सुणेप्पिणु गंपि वुत्तु
वलि किउ हउँ तेण भणिउ वणिंदु
किं दुज्जसवंते जीविएण
इय भणेवि समाहिए करेवि कालु
सोहम्मसग्गे वड्ढियविवेउ

ता पक्खालेप्पिणु हत्थपाय ।
भुंजेवि जहिच्छइ लद्धचेट्ठु ।
तंबोलु लेवि बहि नीसरेवि ।
सो पडिउ उयरु छुरियए हणेवि ।
भो पुरिस काइँ किउ इउ अजुत्तु ।
भक्खिउ उच्छिट्ठउ जेण निंदु ।
निक्किट्ठु वियारिउ उयरु तेण ।
वणिवयणे मेत्तलेवि मोहजालु ।
संजायउ सुरवरु तरणितेउ ।

घत्ता—न गणइ छेप्पाछेप्पु भक्खाभक्खु न भुक्खिउ । १०

विणु आहारें जीवु सव्वपयारहिँ दुक्खिउ ॥ ६ ॥

७

आहारगिद्धि दुग्गइहो नेइ
आहारहेउ दुक्किउ करेवि

जीवहो दूसहदुक्खाइँ देइ ।
गउ सालिसित्थु नरयहो मरेवि ।

५. १ उक्किट्ठाइँ ।

२ होहि ।

इह सव्वदीवसायरपहल्ले
 नामेण सयंभूरमणे पीणु
 हींतउ दीहत्ते दससयाइँ
 अड्ढाइय जोयणसय विसालु
 सो छम्मासावहि जाम चरइ
 अहनिसु आहारनिमित्तु तासु
 आवेप्पिणु कच्छव मच्छ भेय
 एककदुतिकोस चउकोसमेत्त
 पइसरिय वि खंतहो उव्वरंति
 ते जंत निएप्पिणु सालिसित्थु
 चित्तइ असंतु निव्वुद्धि एहु

रयणायरम्मि सव्वहुँ महल्ले ।
 तिमियाइ तिमिगिलु नाम मीणु ।
 जोयणहँ पंच तुंगिमइँ ताइँ । ५
 वारह जोयण भउहंतरालु ।
 छम्मासावहि अह निदु करइ ।
 अच्छंतहो निव्वाइयमुहासु ।
 पइसंति वयणे अवर वि अणेय ।
 जे जलयर जलयर पुट्टुगत्त । १०
 दंतंतरेहिँ नीसरेवि जंति ।
 नामेण मच्छ तहो मलु सुइत्थु ।
 निल्लक्खणु भसु एवड्ढदेहु ।

घत्ता—जइ महु एत्तियमेत्तु मुहवउ विहि विरयंतउ ।

ता एककु वि परमत्थु जीवु जियंतु न जंतउ ॥ ७ ॥ १५

८

इय चित्तवंतु अहनिसु मरेवि
 इयर वि जीवहो वेरेण पाउ
 दोन्नि वि तेत्तीस समुद्द जाम
 फलरसगिद्धीण अलद्धसरणु
 भोयणपत्थावण पायसेण
 हुउ रयणीयरु रयणायरंते
 एप्पिणु खलेण तम्महमिसेण
 पेसेवि समुद्दे सहुँ परियणेण

गउ तमतमपहे दुक्कउ करेवि ।
 आवज्जेवि नारउ तहिँ जे जाउ ।
 थिय दूसह दुक्ख सहंत ताम ।
 पत्तउ चक्की वि सुभोमु मरणु ।
 मारिउ सूयारु डहेवि तेण । ५
 सुमरेप्पिणु चिरवित्तंतु चित्ते ।
 रंजेप्पिणु राणउ फलरसेण ।
 मारिउ मिच्छत्तहो नेवि तेण ।

घत्ता—एउ वियाणेवि सव्व दिढ दिहिभावण भावहि ।

भोयणु चित्तंतु दुक्खपरंपर पावहि ॥ ८ ॥ १०

९

इय गहियकवउ समभावसहिउ
 धी धी संसारु अणत्थकारि

भावह अणुपेहउ दोसरहिउ ।
 जहिँ जणणि वि वहिणि वि होइ नारि ।

७. १. छम्मास साहिवु निदु ।

८. १ खवय ।

२ ॥ एवं कवयाहियारो समत्तो ॥

घणदेवहो तहिँ जे भवम्मि ताउ
उज्जेणिहे गुणसोहगनिलय
होंती असंखदविणेसरासु
कालंतरेण गुरुहार जाय
परिहरिय वणिंदें हुउ विराउ
समएण ताए सिमुजुयलु जाउ

पेच्छह संजायउ पिययमाउ ।
वेसा नामेण वसंततिलय ।
सत्ताए सुदत्तवणीसरासु । ५
बहुवाहिवसेण विरुवकाय ।
अहवा विरुवे कहो होइ भाउ ।
दट्ठण भणिउ इउ खयहो जाउ ।

घत्ता—पोट्टि ठिएण जे एण भोयविग्घु पाविट्ठें ।
किउ महु वाहि सुएण गहियविवज्जियइट्ठें ॥ ९ ॥ १०

१०

इय भणेवि तणय दक्खिणदिसाए
तहिँ कालि पयागपुराउ सत्थु
नामेण सुकेऊ जणमणिट्ठु
आणेवि पयत्तें पिययमाहे
ताए वि ताहे कमल त्ति नामु
रुसेवि तस्स तणओ वि ताए
ता तहिँ साकेयहो सत्थवाहु
आवासिउ सहूँ सत्थेण तेण
फालियए रयणकंबलहो नाउ
तुह तणउ एहु पालहि भणेवि

घल्लाविय निव्विन्नाए ताए ।
आवासिउ एप्पिणु पउरु तित्थु ।
सा बाली सत्थहिवेण दिट्ठु ।
अप्पिय नामेण मणोरमाहे ।
किउ वड्ढारेवि मणोहिरामु । ५
घल्लाविउ णयरुत्तरदिसाए ।
आयउ सुभट्ठु सुव्वयहं नाहु ।
सो दिट्ठु बालु वाहिरं गएण ।
निच्छउ न एहु अविंसिट्ठुजाउ ।
नियपियहि समप्पिउ भवणु नेवि । १०

घत्ता—ताए वि पियवयणेण पुत्तत्थिणिए निहालिउ ।
लइउ निययपुत्तो व्व सव्वपयारहिँ पालिउ ॥ १० ॥

११

घणदेवदिसिहे संपत्तु जेण
गय नियनियनिलयहो वे वि सत्थ
अन्नोत्तु ताहिँ सत्थाहिवेहिँ
कमला लएवि घणदेउ घरहो
तहिँ भोयासत्तु समेउ तीए
वाणिज्जनिमित्तु कयाणुराउ
तहिँ वेसा वेसायणपहाण
आसत्तउ रंजियजणमणाए

घणदेउ नामु किउ तासु तेण ।
कालेण समाया पुणु वि तत्थ ।
किउ विहिँ मि विवाहविहाणु तेहिँ ।
गउ सहूँ सुहीहिँ साकेयपुरहो ।
अच्छेवि सुइरु सिघुरगईए । ५
उज्जेणि ससत्थु कयाइ आउ ।
पेच्छेवि वसंततिलयाहिहाण ।
थिउ तहिँ जे विलासहिँ समउ ताए ।

घत्ता—एत्तहे पुरे साकेण विरहवसें भिज्जंती ।

अच्छइ कमला निच्चु रमणमग्गु जोयंती ॥ ११ ॥ १०

१२

एक्कहिं दिणम्मि दुक्कियकयंतु
इंतूण मुणिंदु मणोहिरामे
निसुणेवि वत्त दुन्नयविओउ
कमलाण वि जाणवि सुणेवि धम्म
भयवंत चिरावइ काई नाहु
निसुणेवि एउ गंभीरवाणि
उज्जेणिनयरं अमुणंतु भेउ
भुंजंतु भोय कुलिसोयरीण

मुणिगुत्तु नामु विहरंतु संतु ।
थिउ उववणम्मि कमणीयनामे ।
गउ वंदणहत्तिण भव्वलोउ ।
पुच्छेवि पियवत्त विमुक्कछम्मु ।
किं नावइ नाणागुणसणाहु । ५
सुणु सुयणु पयासइ परमनाणि ।
तुह वरु वसंततिलयण समेउ ।
अच्छइ सुहेण सगमायरीण ।

घत्ता—आयन्नवि कमलाण पुणु मुणि भणित भडारा ।

कि इह परभवे माय सा संदेहनिवारा ॥ १२ ॥ १०

१३

ता मुणिमुहाउ नीसरिय वाय
तं कह आयन्नह सोमसम्म
कासवियहे पिउ पयसुहयरीहे
एक्काहे वेयपढणुज्जएहिं
सहिणण तेण पुरवहिगएण
ताणज्जियाउ वे भत्तियाउ
उवहासु विहिउ विवरीउ धम्म
थेरहो अथेरि तरुणहो वि थेरि

परजम्मे वप्पु इह जम्मे माय ।
नामेण विप्पु पालियछकम्मु ।
होंतउ गुणि उज्जेणीपुरीहे ।
सिहिभूइसोमभूइहिं सुएहिं ।
जइजुयलु दिट्ठु दुन्नयरएण । ५
पुज्जेवि पाएसु पडंतियाउ ।
सट्टारहो केरउ सिद्धिकम्मु ।
पेच्छह संजोइय जेण नारि ।

घत्ता—जइ विहि वुड्ढहो वुड्ढ वुज्जेवि संजोयंतउ ।

तरुणहो तरुणि निरुत्तु तो भल्लारउ होंतउ ॥ १३ ॥ १०

१४

अवरु वि एवविहु बहुपयारु
गय गेहहो तिन्नि वि जण करेवि
तेत्थु जे वसंतसेणाहि तणय
नामे वसंततिलया पसिद्ध
सिहिभूइ सोमभूइ वि वेवि

उवहासु निमिणगोत्तावयारु ।
कालंतरेण वंभणु मरेवि ।
पणियंगणाहि हुउ जणियपणय ।
सोहग्गरुव संपयसमिद्ध ।
सह मुय हुय तहे उयरम्मि एवि । ५

१३. १ पुच्छेवि ।

दुक्खेण पसूयग्र जुयलु जाउ
तं पालिउ विहिँ सत्थाहिवेहिँ
भत्तारु तुहारउ अग्निभूइ
जो सोमसम्मू दोहँ वि जणेरु
महरिसिनिदाग्र निबद्धपाउ
चिरनेह्वसेण समेउ ताग्र
घणदेउ तुहारउ पुत्ति कंतु

घल्लाविउ पुरवहि जणियताउ ।
परिणाविउ पउरघणाहिवेहिँ ।
तुहँ पुत्ति निरुत्तउ सोमभूइ ।
चउवेयवियक्खणु नाइ थेरु ।
उज्जेणिहि वेस मरेवि जाउ । १०
इहभवजणणीग्र अणोवमाग्र ।
अच्छइ वम्महसुहु अणुहवंतु ।

घत्ता—संपइ जायउ पुत्तु ताहे तेण तत्थच्छइ ।
तं न विरुवउ जं न साहुदुगुंछ पयच्छइ ॥ १४ ॥

१५

निसुणेवि एउ सुमरेवि जम्मू
पुणरवि पणवेप्पिणु गुणनिहाणु
किं भयवं महु भासिउ सुणेवि
मुणिवइणा वोल्लिउ नत्थि भंति
ता सा परिओसिय घर मुएवि
मंदिरे वसंततिलयहे पइठ्ठ
सो बालु वियक्खण गुणसमग्ग
भत्तारभाइ भायरसुओ सि
हो हल्लरु हल्लरु महु वि भाय

निदेवि ताग्र चिरकिउ कुकम्मू ।
पुच्छिउ परमत्थेँ मुणिपहाणु ।
गेण्हंति ताइँ जिणघम्मू वे वि ।
वयणेण ताइँ तुह घम्मू लेति ।
गय तहिँ तुरंति खुद्दिय ह्वेवि । ५
पणमिय तग्र दिन्नासणे बइट्टु ।
भणिऊण एउ संथवहँ लग्ग ।
तुहँ महु सावत्तउ पुत्तु होसि ।
लइ तुज्झु वि मज्झु वि एक्क माय ।

घत्ता—खेलावंती बालु एउ भणंति सुणेप्पिणु । १०
सा वसंततिलयाग्र पुच्छिय कर जोडेप्पिणु ॥ १५ ॥

१६

कहि केरिसु भयवइ एत्थु एहु
ता सा कमलाग्र हसेवि बुत्त
आयन्नहि जइ थिरु करेवि चित्तु
निसुणेवि एहु उवसंतियाहे
तिह कहिउ सब्बु कमलाग्र ताहे
पडिबुद्ध विरइवयणइँ सुणेवि
चित्तइ हा मइँ पावाग्र आसि
गुणि बंभणो वि उज्झिउ मलेण

किं महु महंतु तुज्झुवरि नेहु ।
साविग्र अम्हारी कह विचित्त ।
ता कहमि सब्बु जं जेम वित्तु ।
घणदेवेँ समउ सुणंतियाहे ।
जिहु हुउ विराउ अणुसयवसाहे । ५
हुय जाईसरि सा सिरु धुणेवि ।
उवहसिय साहु गुणरयणरासि ।
हुय वेस एत्थ हउँ तप्फलेण ।

जे महु सुय सिहिमरुभूइ वे वि
जा पुव्वजम्मं गेहिणि णिरुत्तु
पुत्तु वि भत्तारु हवेइ जेत्यु
इय भणेवि वसंततिलय तवम्मि

ते एहु एह हुउ जुयलु एवि ।
सा एवहिं हूई एहु पुत्तु । १०
किह कीरइ रइ संसारे तेत्थु ।
धिय सहूँ घणदेवेँ ह्यभवम्मि ।

घत्ता—अवर वि एउ सुणेवि मिच्छामग्गहो भग्गउ ।
जिणमग्ग सयलु वि लोउ सिरिचंद्रुज्जले भग्गउ ॥ १६ ॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंद्रपउत्ते चुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।
घणदेवकहाए इमो एक्कावन्नासमो संधी ॥

॥ संधि ५१ ॥

संधि ५२

१

धुवयं—राउ वि किकरु किकरु वि होइ राउ फलु कम्मायत्तउ ।
जंतं परावत्तहं सयलभवसंसारम्मि निरुत्तउ ॥ (१)

दुवई—कुलबलरुयतेयजुत्तो वि सुभोउ सुभोउ भूवई ।
हुउ पच्छाहरम्मि किमि पेच्छह दुक्कियकम्मपरिणई ॥

देसम्मि विदेहदेसि पवरे
होंतउ सुभोउ चिरु भूमिवई
महएवि मणोरम तासु सई
एक्कहिं दिणं तत्थ गुणोहगुरु
परमावहिनाणविराइयउ
आलोइवि सरहसु मइयमणु
कोऊहलेण तुरयारुहिउ
पणवेवि सूरि संसयसमणु
पुच्छिउ कहि महु आगामि भउ
तं निसुणेवि गुज्जु न रक्खियउ

पुडभेयणं मिहिलानामधरे । ५
सो सयलकाल निद्धम्ममई ।
सुउ सुंदरु नामे देवरई ।
विहरंतु महामुणि देवगुरु ।
संघेण समेउ पराइयउ ।
तहो वंदणहत्तिण्णं जंतु जणु । १०
गउ उववणु पहु परियणसहिउ ।
निसुणेवि घम्मु दुग्गइदमणु ।
आहासहि होसइ केम खउ ।
मुणिणा मिहिलेसहो अक्खियउ ।

घत्ता—अज्जहो लग्गेवि सत्तमण्णं दिणं निघायघाएण मरेवउ । १५
पइं निव नियपच्छाहरण्णं किमिणा असियसिरेण हवेवउ ॥१॥

२

दुवई—पच्चउ आयवत्तु भज्जेसइ अज्जु जे पुरि पवेसए ।
तुह मुहपंकयम्मि पुहईस पुरीसपवेसु होसए ॥

अवरु वि पहे पेक्खेसहि भुल्लउ
विज्जुलियहे वोल्लाहु पियारउ
निसुणेवि एउ असद्धमाणउ
भग्गु छत्तु पवलिहे पइसंतहो
सयलु वि सवणवयणु संजायउ
हक्कारेवि देवरइ पउत्तउ

अह गलगवलवन्नु सुणहल्लउ ।
होसइ तुह वडवाहि किसोरउ ।
उट्ठिउ हासु करेप्पिणु राणउ । ५
सुहहु अमेहु पइट्ठु नियंतहो ।
निवमणु नीसंदेहहो आयउ ।
न चलइ रिसिआएणु निरुत्तउ ।

मई सत्तमग्र दियहे मरिएवउ
गरुयउ किण्हसीसु जाणेज्जमु
भीयउ भूवइ एम भणेप्पिणु
पडिउ वज्जु सिरि सत्तमे वासरे

कीडएण वच्चहरे हवेवउ ।
पुत्त पयत्तई मई मारेज्जसु । १०
थियउ जलगव्भे गेहि पइसेप्पिणु ।
मुउ हुउ किमि निववच्चव्भंतरे ।

घत्ता—जोयंतेण तणुव्भवेण किमिकुलसंकुलि कहमवि दिट्ठउ ।
जा मारइ किर ता तहिं जि' कारे विहुरे भएण पइट्ठउ ॥२॥

३

दुवई—वच्चइ जहिं जे तहिं जे रइ वंधइ जीवु सकम्मपेरिओ ।
एम भणेवि तेण कयकरुणें परिहरिओ न मारिओ ॥

उक्तं च—यत्र यत्रोपपद्यन्ते जीवाः कर्मवशानुगाः ।
तत्र तत्र रतिं यान्ति कर्मणा तेन रञ्जिताः ॥

तायहो अरुत्थ तारिस निएवि
निदिवि संसार अणत्यकारि
वलि किज्जउ खलु संसारवासु
इह परभवे वि विप्पिउ कुणंति
इह परभवे वि माया वि मांसु
एत्यत्थि सुकोसलसामिचरिउ
भवे परिभमेवि संवंधु लेइ
भइणी वि भज्ज जणियाणुराय

देवरइ राउ संपय मुएवि । ५
हुउ अवरु वि जणु जिणमग्गचारि ।
देउ वि जहिं सेवइ गव्भवासु ।
बंधू वि वइरि पुरिसहो हवंति ।
भक्खइ नियडिभहो जणइ नासु ।
पयडिज्जइ लोयहो पहयदुरिउ । १०
सत्तु वि पुणु मित्तत्तणु मुएइ ।
भज्जा वि होइ संसारं माय ।

घत्ता—विमलाहेउ विसन्नमणु' वंके वंकसहावे मारिउ ।
पेच्छह हुउ नियपणइणिहे गव्भे सुदिट्ठि सुकम्मं पेरिउ ॥३॥

४

दुवई—उज्जेणिहि सुदिट्ठि पयपालहो पुहईवइहे होतओ ।
कंचणयारु चारुविघ्नाणें रंजियलोयचित्तओ ॥

विमला पिय तहो सीसेण सहिय
जाणंतु वि कंतु न किं पि भणइ
पभणइ पइ किं पि न जेम जेम

अच्छइ खल कुलमज्जायरहिय ।
मणि कज्जु वियाणेवि मोणु करइ ।
हुय घिट्ठि निरारिउ तेम तेम । ५

एककहिँ दिणम्मि गरहिय वरेण
तह वयणें मेहुणसमग्र तेण
मुउ मोहवसें पइदोहियाहे
आलोयहो केरिसु कम्मभाउ
सुमरेप्पिणु चिरिभउ आलसेण
आलसिउ मुणेप्पिणु दुम्मईए

थिय रोसु धरेप्पिणु सा भरेण ।
हुउ वुडहु वंकनामंकएण ।
संकमिउ गवभे तवखणण ताहे ।
भत्तारु वि होंतउ पुत्तु जाउ ।
अच्छइ सया वि चिंतावसेण । १०
कोक्किउ सो अलसकुमार तीए ।

घत्ता—सुप्पहमहएविहि तणउ कीलावत्तु नामु विक्खायओ ।
हारु वणहो कीलहुँ गयहे तुट्टेप्पिणु विसंचु सजायओ ॥४॥

५

दुवई—पहुवयणेण सव्वसुन्नारहिँ वरचित्तु व वियक्किओ ।
मंदमइहिँ सुवन्नरयणुज्जलु नउ मेल्लवहुँ सक्किओ ॥

ता राउलु गंपिणु मइसारें
कहिँ पई तूसेवि विहुणा भाणिउ
कहिउ तेण सो हुँ अवयरियउ
तं निसुणेवि निंदियसंसारें
पिहियासवु नामें मुणि महियउ
सुहमइ भवनिव्वेएँ लइयउ
गउ सउरीपुरवरु विहरंतउ
घणयदिसिहि देवासुरपुज्जिउ
उप्पाएवि नाणु अजरामरु

हारु समारिउ अलसकुमारें ।
सुय सुदिट्ठिविन्नाणु वियाणिउ ।
निरवसेसु वइयरु वित्थरियउ । ५
लइय दिक्ख राएँ परिवारें ।
केहिँ वि सावयवउ संगहियउ ।
अलसकुमारु वि तहिँ पव्वइयउ ।
तहिँ तणमणिरिउसुहिसमचित्तउ ।
कालिंदीतडं कम्मविवज्जिउ । १०
हुउ परमेसरु परमप्पउपरु ।

घत्ता—विसम सुट्ठु संसारगइ विप्पु वि पाणु होवि उप्पज्जइ ।
अग्गिभूईमरुभूइकह एत्थ अत्थि लोयहो पयडिज्जइ ॥५॥

६

दुवई—लहेवि महंतु किं पि कारणु मुणि वयभंगाइ नीरया ।
मरणहिँ गिद्धपुट्टपमुहेहिँ वि के वि मरंति घोरया ॥

कोल्लइरि आसि
ववगयदुरीहु
सुविसुद्धबुद्धि
मरणेण गिद्ध

पुरि पुत्तरासि
मुणि वम्मसीहु ।
सई करेवि सुद्धि । ५
पुट्टेण सिद्ध ।

सव्वण्हु सरेवि
 जणमणहरम्मि
 अरिदुरियसीहु
 नयणाहिराम
 पालियपयासु
 नयविणयजुत्तु
 एत्तहे महंते
 पह्यारिराउ
 पुरि वीरसेणु
 तहो तणिय भाम
 नंदणु पयंडु
 अवरु वि सुख्य
 केयवहुरीह
 रायहो निवेण
 परिणेवि सो वि
 कइवयदिणेहिं
 ईहियसिवेहिं
 वारियकुक्कम्मु
 हयमोहपासे
 उवसंतभाउ

हुउ अमरु मरेवि ।
 कोसलपुरम्मि ।
 पहु घम्मसीहु ।
 चंदसिरि नाम । १०
 महएवि तासु ।
 पियसेणु पुत्तु ।
 दक्खिणजणंते ।
 कोल्लइरिराउ ।
 सुविसुद्धघेणु । १५
 वीरमइ नाम ।
 नामेण चंडु ।
 चंदसिरि धूय ।
 सिरिघम्मसीह ।
 सा दिन्न तेण । २०
 नीसल्लु होवि ।
 वसिकयमणेहिं ।
 सहूँ बहुनिवेहिं ।
 निसुणेवि धम्मु ।
 दमवरहो पासे । २५
 निगंगंधु जाउ ।

घत्ता—वल्लहे दिक्ख लएवि गण मुक्कसव्ववावार ख्यंती ।

फिज्जइ अहनिसु चंदसिरि दूसहु तव्विओउ असहंती ॥६॥

७

दुवई—पवि हुयवहसिहा वि सिरिछेउ^१ वि सव्वु सहिज्जए जणे ।

दुसहु परेक्कु नवर नवरंगग्र दइयविओउ जोव्वणे ॥

तारिस ताहे अवत्थ निएप्पिणु
 छंडाविउ तवु केण धरिज्जइ

आणिउ ताएं सो जोएप्पिणु ।
 जगे बलवंतु कम्मु किं किज्जइ ।

७. १ यहा = चिन्ह देकर ऊपर हांसिये में यह पद्य लिखा है—

सव्वस उप्परि दंडु कउ निगगहु सिरिछेअत्सु ।

ईअहं विहुं वि समगलउ जं वि विओह पियत्सु ॥

कइ वि दियह अच्छेपिणु पुणु गउ
 आविवि पुणु वि चरित्तहो चालिउ
 चरियहँ पुरि कोल्लइरि पइट्टउ
 तं पेक्खिवि भएण मुणि भग्गउ
 महु पावेण एण बहुवारउ
 संपइ पुणु मइँ पिसुणु धरेसइ
 इय चित्तैवि सन्नासु लएप्पिणु
 मरणकामु सहसा पुरवाहिरे
 कोल्लइरेसरु विभियचित्तउ
 साहु वि नुमरंतउ रयणत्तउ

धम्मसीहु मुणिमग्गहो लग्गउ । ५
 बहु वाराउ एम खत्थालिउ ।
 पुणरवि चंडे चंडे दिट्ठउ ।
 इयरु वि तहो अणुमग्गे लग्गउ ।
 किउ वयभंगु सिद्धिवहुवारउ ।
 नेवि एहु वयविग्घु करेसइ । १०
 सइँ संखेवेँ आलोचेपिणु ।
 थिउ पइसिवि मयहत्थिकलेवरे ।
 तं जोएवि अनियंतु नियत्तउ ।
 मुउ सोहम्मं सुरत्तणु पत्तउ ।

घत्ता—उसहसेणनामेण तह वइखाणसमरणेण मरेप्पिणु । १५
 साहिउ सासयसोक्खयरु उत्तमद्घु उवसग्गु निएप्पिणु ॥७॥

८

दुवई—पुरे कुसुमउरे कुसुमसररिउपयपंकयभत्तिवंतओ ।
 अत्थि वणिदु उसहसिरिवत्तहु नामेँ उसहदत्तओ ॥

पुन्नसत्तिमुहो
 गुणअदीणओ
 अवरु सुहयरे
 वणिउ धणवई
 लच्छिक्कंतहे
 धूय धणसिरी
 सा सुहंकारी
 परिणिया तिणा
 सुरयसुहयरा
 जणमणोहरे
 विसयवारणं
 सव्वसंतिए
 पहयदुम्मई
 तववहरए
 चत्ततणुसिरी

तासु तणुरुहो ।
 उसहसेणओ ।
 तहिँ जि पुरवरे । ५
 वसइ धणवई ।
 तासु कंतहे ।
 हूय नं सिरी' ।
 मयणरससरी ।
 उसहदत्तिणा । १०
 कइ वि वासरा ।
 अच्छिओ घरे ।
 लहेवि कारणं ।
 [मुणिवरंतिए] ।
 जायओ जई । १५
 पिययमे गए ।
 रुयइ धणसिरी ।

नियवि अंगया
सो कुदिट्टिणा
जोइउं इला
कयरयव्वयं

दुहवसं गया ।
तेण सेट्टिणा ।
आणिओ वला ।
भग्गयं वयं ।

२०

घत्ता—जेणेक्केण जि सव्वु वलु वलिणा पाराउट्टुउ किज्जइ ।
मुत्तिहे तं जावं न निउ ताव कि कम्मु पुराइउ खिज्जइ ॥८॥

९

दुवई—अच्छिवि दियह कइवि पुणरवि गउ लग्गउ सवणवम्महो ।
पेक्खेवि दुहिय [दुहिय] ससुरेण पुणाणिउ गंपि हम्महो ॥

पुणु वि उवाउ करेवि सयाणउ
पुणु वि पलोएवि दुप्परिणामें
अच्छिवि पुणु वि छलेण पणट्टुउ
आणिवि भवणव्भंतरे छुद्धउ
हउं पावेण एण संताविउ
संपइ पुणु वि भंगु तवचरणहो
तो वरि आराहण आराहमि
इय चित्तिवि समभावि हवेप्पिणु
भुवणत्तयपहुपय सुमरंतउ

अच्छिवि कइवि दिणाइं पलाणउ ।
आणिवि सुयहे समप्पिउ मामें ।
पुणु वि तेण जोयंतें दिट्टुउ ।
चित्तइ विसयसुहेसु अलुद्धउ ।
वहु वाराउ रिसित्तु मुयाविउ ।
एहु करेसइ दुक्कियहरणहो ।
पालमि तउ अप्पाणउ साहमि ।
आलोयण सयमेव करेप्पिणु ।
सासनरोहें साहु समत्तउ ।

५

१०

घत्ता—कडयमउडकेऊरधरु निरुवमरूवपरज्जियवम्महु ।
संजायउ सोहम्मे सुरु अट्टगुणीसरु सूरसमप्पहु ॥९॥

१०

दुवई—रिसिरूवेण राए अहिमारें मारिए समयभत्तओ ।
सुहमइ सत्थगहणमरणेण वि सूरि समाहि पत्तओ ॥

महंतं महंताहिवासं समिद्धं
महाविककमक्कंतभीमारिसेणो
पिया वीरसेणा सुओ वीरसेणो
गुणी तस्स तत्थेव संपत्तमाणो
कयाइं भमंतो ससंघो समाओ
निवो तस्स पासम्मि सोऊण सम्मं

पुरं अत्थि सावत्थिनामं पसिद्धं ।
जयाई पयाणं पहु तत्थ सेणो ।
वउद्धो गुरु राइणो बुद्धसेणो ।
सुहेणच्छए भिक्खुसंघे समाणो ।
जईसो जईसाहिहाणो समाओ ।
हुओ सावओ छड्डियं बुद्धधम्मं ।

५

सदेसो ससामंतवग्गो समग्गो
सभत्तीण्ण सव्वत्थ सीयव्वभसोहा
तओ सव्वहा बुद्धधम्मम्मि चत्ते
स कोवग्गिणा वंदओ पज्जलंतो

तिणा वोहिओ जइणधम्मम्मि लग्गो ।
विसेसेण काराविया चेइगेहा । १०
हुए पत्थिवे वीयरायस्स भत्ते ।
सया अच्छए तव्वहोवायच्चित्तो ।

घत्ता—एवकहिं दिणे जयसेणु पहु जिणधम्मामयरंणे राविउ ।
सुमईपुहइपुराहिवेण बुद्धसेणवयणेण भणाविउ ॥१०॥

११

दुवई—सोहणु बुद्धधम्मु परिहरेवि न तुह जिणधम्मु जुज्जए ।
काउं मित्त खीर महुरुज्जेवि कि सउवीर पिज्जए ॥

जइ सुंदर अन्हइ पडिवज्जहि
केमवि तं नउ तेण समीहिउ
तेण वि रुसेवि भडसहसाहिउ
वहुसामग्गिण्ण लद्धवित्तेसें
तम्मारेवण्ण छिद्दु नियंतउ
एवकहिं दिवहे तेण नियपरियणु
अत्थि कोइ जो एत्तिउ सारण्ण
एउ सुणेप्पिणु विक्कमसारें
मारमि हउं थिरु थाहि असंसउ
गउ तहिं जहिं अच्छइ परमेसर

तो खवणाणउ धम्मु विवज्जहि ।
गंपिणु पुरिसें सुमइहे साहिउ ।
पेसिउ अचलनामु तत्थाइउ । ५
आवासिउ वहि भम्मह वेसें ।
अच्छइ पुरे ववहार करंतउ ।
भणिउ कज्जकरणाणंदियमणु ।
एहु दुट्ठु पुहवईवइ मारण्ण ।
भणिउ भडेण नाम अहिमारें । १०
एम भणेप्पिणु परमोवासउ ।
जइवइ भव्वंभोरुहनेसर ।

घत्ता—धम्मु सुणेप्पिणु तेण मणि घुत्ते विणयपरेण पउत्तउ ।
दूसहु मज्झु कुडुंवदुहु दिज्जउ पहु तवयरणु निरुत्तउ ॥११॥

१२

दुवई—अइआयरु निएवि अविद्याणियतप्परिणामवित्तिणा ।
जइवसहेण तासु तउ दिन्नउ भुवणुच्छलियकित्तिणा ॥

तहिं कइवयवासर जंति जाम
भावें अंचेवि थुणेवि देउ
नियगुज्झु कि पि पुच्छहुं मुणिंदु
नीसारिउ वाहिरे सव्वु को वि
बंधेप्पिणु क्रमु सीहु व मयासु

अवरणहे महीवइ पत्तु ताम ।
वंदेवि सूरि संघें समेउ ।
एयंतं पइट्ठुउ महे नरिंदु । ५
अहिमारु परेवकु अलक्खु होवि ।
थिउ थंभंतरे ल्हिक्कवि हयासु ।

घरु चलिउ राउ मंतेवि मंतु
 असिधेणुयाग्र अवसरु मुणेवि
 एककेण जे घाएँ मुउ महीसु
 कि किज्जइ पयणियपिसुणनेहु
 उवसमइ नेव विहिणावरेण

महिलगजणहुकरसिरु नवंतु ।
 नटुउ अहिमारउ गले हणेवि ।
 चित्ताविउ तं पेच्छेवि जईसु । १०
 हा हुउ महंतु उड्डाहु एहु ।
 इय चित्तिऊण संजमघरेण ।

घत्ता—एउ कम्मु अम्हाहिँ न किउ किउ अहिमारएण पाविट्टेँ ।
 हा होसइ उड्डाहु जणे हउ अप्पाणउ एण अणिट्टेँ ॥१२॥

१३

दुवई—गण वि परिहरेवि रक्खेवी समयहो छाय समइणा ।
 इय रहिरेण लिहिवि भित्तीयले अक्खरपंति समइणा ॥

भावियविहपरमवइराएँ
 जिणपडिमग्गए पणमियपाएँ
 भवियकमलवोहणआइच्चें
 परिवज्जियआहारसरीरें
 कालु करेप्पिणु जिणु सुमरंतें
 एत्तहे हुउ उड्डाहु महीवइ
 ता तहिँ वीरसेणु संपत्तउ
 कुड्डएण मुणिमारणचित्तें
 विहिवसेण कुड्डयले निएप्पिणु
 उवसंतेण तेण अहिणंदिउ

दूरोसारियविसयकसाएँ ।
 सई आलोएवि चत्तपमाएँ ।
 कयसंवेएँ पालियसच्चें । ५
 छुरियए उयरु वियारिवि धीरें ।
 पत्तउ अमरवरत्तणु सत्तेँ ।
 मारिउ खवणएहिँ हा सुहमइ ।
 नियवि वप्पु पाणहिँ परिचत्तउ ।
 कुमरें विप्पियाइँ जंपंते । १०
 लिहियक्खरइँ ताइँ वाएप्पिणु ।
 सूरिचरिउ अप्पाणउ निदिउ ।

घत्ता—वुज्जेवि अक्खरत्थु समणसंघु वियार्णेवि दोसविवज्जिउ ।
 सिरिचंदुज्जलु गुणनिलउ सव्वेहिँ मि पडु जाविउ पुज्जिउ ॥१३॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनासे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे विन्नतोत्ते ॥

मुणिसरिचंदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ जणमणाणंदे ।
 सत्यग्गहमरणविही एसो वावन्नमो संघी ॥

संधि ५३

ध्रुवयं—तह सयडालु वि सत्थग्गहणविहीण मुओ ।

आराहेवि आराहण सुरवर सग्गे हुओ ॥

निवसंतनिरंतरनयरगामु
निरवग्गहु गहचारेण मुक्कु
सव्वत्थ वि पवरुज्जाणसोहु
सयवत्तहंससोहियसरंतु
एत्थत्थि पसिद्धउ वच्छदेसु
तहिं दुग्गमपहयविवक्खमाण
मणिकिरणज्जोइयहट्टमग्ग
पुरि अत्थि पयड कोसंवि नाम
घणवइनिवपालिय बहुविहूइ
तहो तणिय पइव्वय पिय मणोज्ज

दुब्भक्खदुक्खदुक्कियविरामु ।
निरुवद्दु पयसंपयगुरुक्कु ।
नाणाफलपीणियपंथओहु । ५
चंदु व गोघवलियमहिदियंतु ।
जं पेक्खवि सग्गु वि करइ वेसु ।
परिहापायारविरायमाण ।
पासायसिहरचुंविनहग्ग ।
अलया इव पुत्तजणाहिराम । १०
तहिं वसइ विउसु वंभणु सुभूइ ।
कविला कविला इव विप्पपुज्ज ।

घत्ता—अप्पर अवर उवप्पर वडपारोहभुय ।

ताहे गम्भे पंकयमुह नंदण विन्नि हुय ॥१॥

निरक्खरु जाणइ किं पि न जेट्ठु
पहिल्लहो भल्लिय भज्ज सुमित्त
कयाइ इमा वरमंदिरलच्छि
तहुज्जमणे अइमुक्खु मणेवि
अमावसवासरे वन्नि समत्थ
तणुच्छउ कालउ वक्खरजुत्तु
किवाणु किवाणसुयाउ व वीउ
स जेट्ठु जे वंभणु ताणु णवेवि
गिहं गउ पाविउ लाहु हसंतु
हयास अणायहियाहियकज्ज
अयाणहो दोसु वि तोसहो हेउ

वियाणइ वेय सडंग कणिट्ठु ।
दुइज्जहो सुप्पह चारुचरित्त ।
उवत्थिय^१ मुक्खवयं घवलच्छि ।
वियक्खण वल्लह वाय भणेवि । ५
असेय^२ बइल्ल विहूसण वत्थ ।
तुरंगमु कालउ कालउ छत्तु ।
तिलाइउ कालउवन्नु सवीउ ।
खमाविउ सव्वु वि कालउ देवि ।
निएवि दुगुंच्छिउ कंतण कंतु ।
निरक्खर तुज्झ कहि गय लज्ज । १०
सुणेविणु भामिणिभासिउ एउ ।

२. १ चउत्थिय ।

२ असोय ।

विसन्नमणो अहिमाणवसेण
वणंतरे देवय का वि निएवि
पसन्नग्र ताग्र वरेण अदीणु

विणिग्गउ गेहहो तित्थमिसेण ।
थिओ तहि अग्गए पाए पडेवि ।
किओ सुइसत्थपुराणपवीणु ।

घत्ता—पणवेप्पिणु पयपंकय देविहे लद्धवरु ।

१५

आणंदियमणु मंदिरु आयउ विप्पवरु ॥२॥

३

अज्झावउ मईए निज्जियपरु
तं नउ सत्थु जं न सो जाणइ
हुय पसिद्धि तेत्थु जे आसन्नउ
वंभणु सुज्जसम्मु तहिं निवसइ
ताए महामइ जयविक्खायउ
नमुइविहप्पइसयमहदत्तहिं
तत्थायउ वररुइ जत्थ त्थिउ
तेण वि पडिगाहिय रंजियमण
वररुइ गुरुदिन्नाए पसत्थए
सो सविसेसं नमुइहे भासइ
भेसइवयणवसेण चउत्थउ
सयलसत्थवेयत्थवियक्खण

अप्परो वि हुउ सव्वहं उप्परु ।
अहनिसु सीससयहं वक्खाणइ ।
अत्थि पयडु वरगामु रवन्नउ ।
वंभणि तहो वसुमित्त महासइ ।
वररुइ नामु पुत्तु संजायउ । ५
एक्कहिं वासरे समउ समित्तहिं ।
पणवेप्पिणु अप्परु अन्नभत्थिउ ।
चत्तारि वि पढंति दियनंदण ।
एक्कए चेव वियाणए संथए ।
नमुइ वि पुणु भेसइहे पयासइ । १०
बुज्झइ इंददत्तु चउसंथउ
हूया ते कालेण सलक्खण ।

घत्ता—गोसहासु गुरुदक्खिण मग्गहुं कुसुमपुरु ।

गय ते नंदनरिदहो पासु नवेवि गुरु ॥३॥

४

नंदो वि पंचत्तु
ता नमुइनामेण
दावियविसेसेण
परिहरेवि नियकाउ
हुउ जणमणाणंदु
गुरुकज्जचित्तेहिं
पाविउ ससोवन्नु
अन्नहो समप्पेवि
सोवन्नसयसहिय

तहिं समए संपत्तु ।
विन्नाणधामेण ।
परपुरपवेसेण ।
उट्टविउ खणे राउ ।
थिउ रज्जे पुणु नंदु । ५
सोहणे तहिं तेहिं ।
गोसहसु समवन्नु ।
तं विणउ जंपेवि ।
गुरुदक्खिणा पहिय ।

तं नियवि रुद्रेण
ते मुक्कमज्जाय
इय भणेवि सावेण
नमुइयहो कुलटालु
तुडि होसए असुहु
भेसइहे तणुसोसु
इय लद्धगुरुसाव

दियवरवरिट्टेण । १०
सइं लेवि किं नाय^२ ।
चउरो वि हय तेण ।
मज्जेण विट्टालु ।
वररुइहे बहु असुहु ।
इयरहो तिगहदोसु । १५
ते तत्थ गयगाव ।

घत्ता—धम्माहम्मवियारणे अहियारम्म थिया ।
जोगाणंदे तिन्नि^१वि ओलगंगति दिया ॥४॥

५

जंतें कालें
रइयपवंचें
पाइउ मज्जं
वारियदुट्टें
पुत्तकलत्तहिं
कूवि छुहाविउ
तेत्थु जे वणियहो
जगवइवित्तहो
अत्थि सुहदा
रंजियजणमण
एक्कहिं वासरे
तडतरुवासें
भूइं दिट्ठी
अकयविसेसैं
वुज्भोवि अवसरु
पडिगाहिय सइ
ता संपत्तो

ता सयडालें ।
सामि अमच्चें ।
कयं अकज्जं ।
तेण वि रुट्टें ।
सो सहुं मित्तहिं । ५
आवइ पाविउ ।
बहु बहुधणियहो ।
सायस्दत्तहो ।
नाम सुहदा ।
अहिणवजोव्वण । १०
ण्हंती सा सरें ।
विहियविलासैं ।
हियइ पइट्ठी ।
वणिवरवेसैं ।
आगउ सो घर । १५
सेंघुरवरगइ ।
सायरदत्तो ।

घत्ता—विहिं वि विवाउ परोप्परु जायउ जणु मिलिउ ।
को वि न वुज्भुहूं सक्कइ सच्चउ को अलिउ ॥५॥

६

गय राजलु रायहो विन्नत्तउ
 सव्वपयत्तं सव्व निहालह
 पुणु पुणु निउणमईग्र हियाविउ
 ता सुमरिउ सयडालु महीसैं
 केवलेण कूरेक्कसरावि
 किउ आरोयसरीरु महामइ
 कहइ न पुच्छंतहँ पुव्वुत्तउ
 निद्धाडिउ मंतेण निसायरु
 तुट्टएण पहुणा पिउ जंपिउ
 एक्कहिँ दिणो वररुइ आणदें

तेण वियडुवग्गु आणत्तउ ।
 जो अन्नाइउ सो निक्कालह
 पर एक्केण वि भेउ न पाविउ ।
 कड्ढाविउ कूवाउ विसेसैं ।
 जीविउ सो पर पुत्तपहावें ।
 तेण वियाणिय भग्गडालुयगइ ।
 वुज्जिउ एहु पिसाउ निरुत्तउ ।
 हुउ सुहि वणि दत्ततउ सायरु ।
 पुणरवि तहो अहियारु समप्पिउ ।
 भणिउ इट्टगोटीग्र नरिदें ।

१०

घत्ता—किउ मई चरणु चउत्यउ अच्चइ जणह सुहं ।
 पायत्तउ पहिलारउ चित्तहो करहि तुहं ॥६॥

७

एम होउ भासिउ वररुइणा

पडिउ पाउ ता पुहईवइणा ।

तद्यथा—रणं टणं टंण टंणोति ।

आयन्नेवि एउ संखेवें

विरइउ पायत्तउ भूदेवें ।

नंदस्य राज्ये मदविह्वलाया हन्ताच्च्युतः स्वर्णघटोऽम्युरिक्तः ।

सोपानमासाद्य करोति शब्दं रणं टणं टंण टंणोति ॥

उत्पलनालकृताभरणा सा त्वं न गतः स्थित सापि निराशा ।

अद्य कृतं कमलं कमलाक्ष्याः कर्कशनालमकर्कशनालम् ॥

अवरु वि एवमाइ मणु देप्पिणु

वररुइकयउ कइत्तु सुणेप्पिणु ।

संसैवि विउसासणहँ रवन्नउ

नदें तासु पसाउ विइन्नउ ।

अहनिसु समउ तेण रजियमइ

खेलइ पढइ पढावइ भूवइ ।

अइआसन्नु निग्रवि महिपालहो

हुय रिस तहो केरी सयडालहो ।

पेक्खह किउ पहु अप्पायत्तउ

होइ न भल्लउ एहु निरुत्तउ ।

इय चित्तेवि वित्तसंवधें

रोसाविउ पहु तेण पवंधें ।

सहुँ महएविग्र वइरिवियारा

अत्थि तासु संवधु भडारा ।

गुज्जत्थाइँ वि चिण्हइँ जाणइ

तेणालेहु सरुवहो आणइ ।

१५

घत्ता—सुणेवि एउ नंदेण न किं पि वियप्पियउ ।

आरक्खियहो निसुंभहुँ वररुइ अप्पियउ ॥७॥

८

तेण वि पुरवहि दूरए नेप्पिणु
पहउ न घल्लिउ नीसारेप्पिणु
गामु पलासकूडु जाएप्पिणु
एत्तहँ तुरएँ मंड करेप्पिणु
तं काणणे कुमारु मेल्लेप्पिणु
ता तहिँ वग्घभएणावेप्पिणु
अच्छहल्लु साहहे वइसेप्पिणु
तहो वयणे वीसासहो गंपिणु

वंभणु गुणि विसिट्ठु मन्नेप्पिणु ।
पहउ पयासिउ रायहो एप्पिणु ।
थक्कउ सो वि अलक्खु हवेप्पिणु ।
निउ निवपुत्तु सुनंदु हरेप्पिणु ।
थिउ निसि नग्गोहम्मि चडेप्पिणु । ५
मा वीहहि थिरु थाहि भणेप्पिणु ।
थिउ तहो नियडए निहुउ हवेप्पिणु ।
सुत्तउ निवसुउ संक मुएप्पिणु ।

घत्ता—एत्थंतरे थिउ पहरए अच्छइ रिच्छु जहिँ ।

आगउ अणुमग्गेण जि अलियल्ली वि तहिँ ॥८॥

१०

९

भणिउ रिच्छु हउँ मित्त भमंतउ
अज्जु न कहिँ मि किं पि मइँ पत्तउ
भक्खेवि तुह आसीसउ देंतउ
तेणुत्तउ चउरासमपालहो
महुँ सरणागउ अच्छइ सुत्तउ
बोल्लिउ पुल्लिं मित्त म रक्खहि
वरि उवयारु रइउ दोजीहहो
सुज्जइ सरणागउ अप्पंतहो
एम भणेवि रिच्छु उवसंतउ

आहारत्थु एत्थु संपत्तउ ।
घल्लहि माणुसु एहु सुयंतउ ।
जामि जेम होएवि सइत्तउ ।
नंदणु एहु नंदमहिपालहो ।
घल्लमि भणु किह करमि अजुत्तउ । ५
अज्ज वि मणुयसहाउ न लक्खहि ।
नउ मणुयहो निद्वयहो दुरीहहो ।
भो इहरत्तु परत्तु ण संतहो ।
पहरए धरेवि कुमारु पसुत्तउ ।

घत्ता—सुत्ति तम्मि पुंडरिएं वोलाविउ कुमारु ।

धिव एयं महु केरउ हणसु छुहापसर ॥९॥

१०

१०

आयन्नेवि कुमारि वुत्तउ
रक्खिउ एण एत्थु हउँ काणणे
भणिउ चमूरें तुहुँ उज्जुयमइ

पुल्लि पयंपहि काइँ अजुत्तउ ।
घल्लमि केम कियंत तवाणणे ।
न वियाणहि अडइयरहँ परिणइ ।

पिसुणु पहाप्र एहु खाएसइ
 भुक्खिउ लइ हउँ घल्लहि पासमि
 तुहुँ निव्भउ होएप्पिणु भवणहो
 एउ सुणेवि अबुज्झियसारें
 निवडमाणु वडसाहहे लग्गउ
 सविउ रायसुउ उन्ने वा ते
 अवरु न किं पि चवंतहो एसइ

निच्छउ पई कुमार मारेसइ ।
 उज्जुय उज्जि जमाणणे पेसमि । ५
 जाहि मित्त हुप्र उग्गमे तवणहो ।
 पेल्लिउ रिछु करेहिँ कुमारें ।
 दिव्वु पवंचिउ को वि वलग्गउ ।
 हं किं चि दु से मि त्ति मुप्रवि ते ।
 रे हयास मइनासु हवेसइ । १०

घत्ता—होमहि सुहि तहो दंसर्णे जणविभियकरहं ।

जो जाणेसइ एयहँ अत्थु दसक्करहं ॥१०॥

११

एम भणेवि पयासियमायउ
 कुमरु वि भवणु विहाणइ आयउ
 उन्नेवाइ एउ पर वोल्लइ
 कयखूणहो कयाइ परदूसहु
 दिन्नउ पेग्गणु जं न महीयले
 नं तो सव्वु गामु विव्भाडमि
 गउ नरु रायाएसु भणेप्पिणु
 वररुइणा विउसेँ धीरंप्पिणु
 विभिणण राएण नियच्छिय
 देसंतरिउ एवकु इह अच्छइ

रिछु सवग्घु अदंसणु जायउ ।
 चवइ न किंचि वियंभियवायउ ।
 सव्वहँ कहिउ न कोइ वि मेल्लइ ।
 कुविउ पलासकूडगामहो पहु ।
 तं आणह जलु जंतउ नहयले । ५
 कारागारे छुहेप्पिणु साडमि ।
 चिताविय गामीण सुणेप्पिणु ।
 पेसिय ऊसहकुभ भरेप्पिणु ।
 कहिउ उवाउ केण ते पुच्छिय ।
 सो अमहहँ उवएसु पयच्छइ । १०

घत्ता—इय पुरिसेहिँ पयासिउ आयन्नेवि निउ ।

धुत्तु को वि सो निच्छउ अवघारेवि थिउ ॥११॥

१२

पेसह इह निवकूवु पउत्तउ
 अवरु वि ज जं भणिउ महीमें
 दिर्याहिँ न रत्तिहिँ नउ गयणग्गें
 भासिउ नदें सा एत्थावउ
 ता वररुइणां किउ जिह वुत्तउ
 सुउ निवसुउ चवंतु पुव्वुत्तउ
 ११. १ पुत्तिय

दित्तउ तहो पच्चुत्तर जुत्तउ ।
 तं तं किउ विप्पेण विसेसें ।
 चडिउ न कत्थइ नउ पयमग्गें ।
 देसिउ महु अप्पाणउ दावउ । ५
 आगउ संभहे रहे लवतउ ।
 अत्थु वियार्णेवि तेण पउत्तउ ।

तथा च—उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दुर्वुद्धे न त्वं किमपि बुद्ध्यसे ।

स्मर रिक्षं तथा व्याघ्रं न्यग्रोधे यत्त्वया कृतम् ॥१॥

नेतासौ सर्वहत्यानां यो मित्रं हन्ति दुर्मतिः ।

मित्रधुक् नरकं याति न जातु सुखमेवते ॥२॥

१०

बालहत्यावलाहत्या वृद्धहत्या वरं कृता ।

न पापा मित्रहत्या सावनतासुखदायिनी ॥३॥

तेन त्वं पाप पापेन दुस्सहेन नराधम ।

दह्यसे हृदयस्थेन शुष्कवृक्षो यथाग्निना ॥४॥

हंति जाती विजतौ च ह्युभौ पक्षौ नराधमः ।

१५

यो मित्रं सुखमासीनं छद्मनैव प्रयच्छति ॥५॥

किं त्वदीयं कृतं तेन मित्रेणाभयदायिना ।

येन निद्रावशीभूतं तं त्वं हंतुं समुद्यतः ॥६॥

चित्ताल्हादकृत मित्रं विश्वस्तं च हिनस्ति यः !

पापादपि स पापीयान्यथा त्वमसि दुर्मते ॥७॥

२०

दुष्टात्मानं न जानामि यथा शास्त्रेषु पठ्यते ।

मित्रद्रोहात्परं पाप न भूतं न भविष्यति ॥८॥

सेतुं यातु समुद्रं वा गंगाद्याः सरितोऽथवा ।

ब्रह्महा मुच्यते तत्र मित्रधुग् नैव मुच्यते ॥९॥

मित्रधुपरित्यक्तः सुहृद्भृत्यविवर्जितः ।

२५

लोकानलभमानस्तु नरके निपतिष्यति ॥१०॥

आयन्नेवि एउ अणुणए

भासप्र भणिउ वियाणिवि राए ।

ग्रामवासी मनुष्यस्त्वमटव्यां त्वत्प्रयोजनम् ।

पशूनां नरशार्दूल कथं जानामि भाषितम् ॥

ता विउसें तेणेहउ भासिउ

अप्पउं प्रहु वयणेण पयासिउ ।

३०

दृष्टये मम सावित्री जिह्वाग्रे च सरस्वती ।

तेनाह नृप जानामि भारुका तिलकं यथा ॥

हुउ सुउ सुहि नरवइ परिओसिउ

वरमइ वररुइ विप्पु पसंसिउ ।

घत्ता—सम्माणेवि विसेसें अप्पिउ पुणु वि पउ ।

रक्खिउ जेण तलारेणं सो वि कयत्थु कउ ॥१२॥

३५

१३

सहँ हरिदत्तें गय गहवइणा

ता तहिँ पढिउ एउ भेसइणा ।

षडंगं यस्य जिह्वाग्रे क्रमो येन च पालितः । चतुर्वेदनिधिः सोऽहं दैवेनाक्रम्य वंचितः ॥

संजायए गुरुसावविओयए

थिय त्तिन्नि वि नियनियए निओयए ।

कालेँ जंतेँ तत्थायउ गुणि

विहरमाणु महपोमु महामुणि ।

तहो समीवे जिणघम्मु सुणेप्पिणु

मुएवि गंथु वइरायहो गंपिणु । ५

नंदमंति कियदुक्कियसंवर

संजायउ सयडालु दियंवर ।

गउ गुरुणा समेउ देसंतर

संघहो भत्ति करंतु निरंतर ।

चरणकरणसिद्धंत पढेप्पिणु

पुणरवि तत्थायउ विहरेप्पिणु ।

चरियामग्गे पइट्ठु निएप्पिणु

पुव्ववइरसंबंधु सर्रेप्पिणु ।

पाविट्ठेण पवंचु करेप्पिणु

एत्तहे भामरि देहि भणेप्पिणु । १०

घत्ता—वररुइणा अंतेउरि पेसिउ तत्थ थिउ ।

भुंजेप्पिणु जिणभवणहो गउ तवलच्छिपिउ ॥१३॥

१४

गंपिणु पच्चक्खाणु लएप्पिणु

गोयारियपडिकमण करेप्पिणु ।

जामच्छइ सवभायहो लगगउ

[वररुइ ताम कहइ रायहो गउ] ।

अज्जु सामि सयडालु तुहारए

अंतेउरे आणंदजणेरए ।

खलु भिक्खामिसेण पइसेप्पिणु

गउ खवणउ विद्धंसु करेप्पिणु ।

एउ सुणेवि तासु सकसाएँ

पेसिय किंकर मारहुँ राएँ । ५

सुणेवि सो वि सिग्घं आलोइवि

पव्वज्जाए विमुद्धउ होइवि ।

आहाराइनिवित्ति करेप्पिणु

पंचमहागुरुपय सुमरेप्पिणु ।

छुरियए उयइ वियारेवि धीरउ

साहु समाहिए चत्तसरीरउ ।

हुउ ईसाणसग्गे सुरसारउ

निहवमवेउव्वियतणुधारउ ।

निसुणेवि वत्त परिक्ख करेप्पिणु

निच्छउ मुणि निहोसु मुणेप्पिणु । १०

नरवइणा वररुइ पच्चारिउ

वित्थारेवि नयरहो नीसारिउ ।

धम्मस्सवणु मुणेवि अहिरामहो संघाहियहो पासि महपोमहो ।

घत्ता—गरहेप्पिणु दुव्विलसिउ सिरिचंदुज्जलउ ।

लइउ धम्मु जइणेसर सासयसुहत्तिलउ ॥१४॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणामाले अत्थसंदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।

एसो पन्नासमओ तिहिँ अहिउ समाणिओ संधी ॥

॥ संधि ५३ ॥

ग्रंथकर्तुः प्रशस्तिः

सर्वज्ञशासने रम्ये घोराघौघविनाशने ।
धर्मनिकगुणाधारे सूरस्थे सुरसंस्तुते ॥१॥
अणहिल्लपुरे रम्ये सज्जनः सज्जनोऽभवत् ।
प्राग्वाटवंशनिष्पन्नमुक्ता रत्नज्ञताग्रणीः ॥२॥
मूलराजनृपेन्द्रस्य धर्मस्थानस्य गौष्ठिकः ।
धर्मसारधराधारः कूर्मराजसमः पुरा ॥३॥
कृष्णनामा सुतस्तस्य गुणरत्नमहोदधिः ।
वभूव धर्मकर्मण्ये जनानां मौलिमण्डनम् ॥४॥
निन्यान्वयमहामुक्तामालायां नायकोपसः ।
चतुर्विधस्य संघस्य दानपीयूषवारिदः ॥५॥
स्वसैका जयती तस्य कृष्णस्येव सुभद्रिका ।
राणूनामा प्रिया साध्वी हिमांशोरिव चन्द्रिका ॥६॥
तस्यां पुत्रत्रयं जातं विश्वसर्वस्वभूषणम् ।
बीजासाहणपालारव्यौ साढदेवस्तृतीयकः ॥७॥
चतलश्च सुतास्तस्या धर्मकर्मककोविदाः ।
सिरी (श्री ?) शृंगारदेवी च सुन्दः सोखूरिति क्रमात् ॥८॥
कलिकालमहाव्यालविषव्यालुप्तचेतसः ।
जैनधर्मस्य सम्पन्ना जीवातुस्तत्र सुन्दका ॥९॥
महाश्रावककृष्णस्य सन्तानेन शुभात्मना ।
व्याख्यापितः कथाकोशः स्वकर्मक्षयहेतवे ॥१०॥
कुन्देन्दुनिर्मले कुन्दकुन्दाचार्यान्वयेऽभवत् ।
धर्मो मूर्त्तः स्वयं वा श्रीकीर्तिनामा मुनीश्वरः ॥११॥
तस्मात्तमोपहः श्रीमान्सप्रभावोऽतिनिर्मलः ।
श्रुतकीर्तिः समुत्पन्नो रत्नं रत्नाकरादिव ॥१२॥

विद्वान् समस्त शास्त्रार्थविचारचतुराननः ।
 शिरश्चन्द्रकराकारकीर्तिव्याप्तजगत्त्रयः ॥१३॥
 व्याख्यातृत्वकवित्वादिगुणहंसैकमानसः ।
 सर्वज्ञशासनाकाशशरत्पार्वणचन्द्रमाः ॥१४॥
 गांगेयभोजदेवादिसमस्तनृपपुङ्गवैः ।
 पूजितोत्कृष्टपादारविन्दो विध्वस्तकल्मषः ॥१५॥
 भव्यपद्माकरानन्दी सहस्त्रांशुरिवापरः ।
 ततो गुणाकरः कीर्तिसहस्त्रोपपदो ऽ जनि ॥१६॥
 कर्पूरपूरोज्वलचारुकीर्तिः
 सर्वोपकारोद्यतचित्तवृत्तेः ।
 शिष्यः समाराधितवीरचन्द्रः
 तस्य प्रसिद्धो भुवि वीरचन्द्रः ॥१७॥
 सूरिश्रारित्रसूर्यस्य तस्य तत्त्वार्थवेदिनः ।
 विवेकवसतिविद्वान् शिष्यः श्रीचन्द्रो ऽभवत् ॥१८॥
 भव्यप्रार्थनया ज्ञात्वा पूर्वाचार्यकृतां कृतिम् ।
 तेनायं रचितः सम्यक् कथाकोशोऽतिसुन्दरः ॥१९॥
 यदत्र खलितं किञ्चित्प्रमादवशतो मम ।
 तत् क्षमन्तु क्षमाशीलाः सुधियः शोधयन्तु च ॥२०॥
 यावन्महीमरुन्मर्त्या मरुतो मन्दरोरगाः ।
 परमेष्ठीपावनो धर्मः परमार्थपरसागमः ॥२१॥
 यावत्सुराः सुराधीशः स्वर्गचन्द्रार्कतारकाः ।
 तावत्काव्यमिदं स्थेयात् श्रीचन्द्रोज्वलकीर्तिमत् ॥२२॥

॥ इति श्री कथाकोशः संपूर्णः ॥

